



Pali Chinese Dictionary

Dictionary for personal use only:
Author takes no responsibility for translations
Online version: <https://www.bhutan.me/online/chinese-pali-dictionary-online/>

Compiled: Bede Key

Pali Chinese

अक्क	अक्खदस्स	अक्खि	अकुसल	अग्ग
akka	akkhadassa	akkhi	akusala	agga
周日	判定	目	孽	一次
zhōu rì	pàn dìng	mù	niè	yī cì
भानु / अक्क / आदिच्च /	判斷	चक्खु / नयन / अक्खि /	दूरित / अकुसल / पाप / कण्ह /	आदि / एकदा / अग्ग / पठम /
太阳	pàn duàn	眸	罪	上端
tài yáng	推事	móu	zuì	shàng duān
आदिच्च / भानु / अक्क /	tuī shì	चक्खु / नयन / अक्खि /	असद्धम्म / कलि / निग्गह / पाप /	कूट / अग्ग / पिडि /
太陽	法官	眼	अघ / अवण्ण / अकुसल / उपवाद /	下場
tài yáng	fǎ guān	yǎn	罪惡	xià chǎng
दिन / भानु / अक्क / दिवस /	裁判	नयन / अक्खि / चक्खु /	zuì è	कोण / परिनिद्धान / परियन्त /
आदिच्च /	cái pàn	眼珠	अघ / अकुसल / कलि / असद्धम्म /	अन्त / परियोसान / अग्ग /
晒	अक्खधुत्त	yǎn zhū	罪過	अवसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा /
shài	अक्खधुत्त	नयन / चक्खु / अक्खि /	zuì guò	ओसान /
भानु / अक्क / आदिच्च /	akkhadhutta	眼病	असद्धम्म / अघ / आग् / कलि /	𑀘
曬	賭徒	yǎn bìng	अकुसल / अतिक्कम्म / किब्बि /	zhà
shài	dǔ tú	नयन / अक्खि / चक्खु /	अपराध /	पठम / अग्ग / आदि /
अक्क / भानु / आदिच्च /	अक्खय	眼皮		元
阳	akkhaya	yǎn pí		yuán
yáng	永恒的	眼睛		आदि / अग्ग / पठम /
अक्क / आदिच्च / भानु /	yǒng héng de	yǎn jīng		先
陽	अच्युत / अक्खय /	चक्खु / अक्खि / नेतु / अक्खि /		xiān
yáng	अक्खर	चक्खु / नयन / नयन / नेतु /		आदि / अग्ग / पठम /
आदिच्च / भानु / अक्क /	akkhara	眼睛		先在
अक्कोस	信	yǎn jīng		xiān zài
akkosa	xìn	चक्खु / अक्खि / नेतु / अक्खि /		आदि / पठम / अग्ग /
侮	अक्खर / पण्णक / पण्ण /	चक्खु / नयन / नयन / नेतु /		原始
wǔ	信件	眼瞼		yuán shǐ
ओमसना / उपवाद / घट्टन /	xìn jiàn	yǎn jiǎn		अग्ग / पठम / आवत्थिक / आदि /
आसज्जन / अक्कोस / तिरोक्कार /	पण्णक / पण्ण / अक्खर /	睛		告终
侮辱	函	jīng		gào zhōng
wǔ rǔ	hán	नयन / अक्खि / अक्खि / चक्खु /		अपवग्ग / कोण / अन्त / ओसान /
घट्टन / उपवाद / आसज्जन /	पण्ण / अक्खर / पण्णक /	नयन / चक्खु /		परियोसान / अग्ग / निद्दा /
तिरोक्कार / ओमसना / अक्कोस /	字母	睛		परिनिद्धान / अवसान / परियन्त /
汚辱	zi mǔ	jīng		कोटि /
wū rǔ	अक्खर / पण्णक / पण्ण /	नयन / अक्खि / अक्खि / चक्खु /		在先
ओमसना / आसज्जन / दूसन /	音節	瞳孔		zài xiān
अक्कोस / तिरोक्कार / घट्टन /	yīn jié	tóng kǒng		अग्ग / पठम / आदि /
उपवाद /		नेतु / अक्खि /		完結
責備		अकुटिल		wán jié
zé bèi		akuṭila		निद्दा / कोटि / ओसान / परियन्त /
अपवाद / निग्गहण / अतिवाक्य /		正直的		अन्त / अपवग्ग / परियोसान /
गरहन / दोस / उपक्कोस /		zhèng zhí de		अवसान / परिनिद्धान / कोण /
उपवाद / अवण्ण / ओमसना /		अकम्पिय		अग्ग /
अक्कोस / निग्गह / अनुवाद /		akampiya		完結
辱		固定的		wán jié
rǔ		gù dìng de		परियन्त / परिनिद्धान / ओसान /
तिरोक्कार / उपवाद / ओमसना /		थावर / अहारिय / असंहारिम /		अवसान / अन्त / निद्दा / अग्ग /
अयस / घट्टन / अक्कोस /		अकम्पिय /		अपवग्ग / कोण / परियोसान /
आसज्जन /				कोटि /
अक्ख				尖峰
akkha				jiān fēng
擲骰子				अग्ग / पिडि / कूट /
zhì tóu zi				底
骰				dǐ
tóu				ओसान / अवसान / परियन्त / पद /
骰子				कोण / परियोसान / निद्दा /
tóu zi				परिनिद्धान / पाद / अग्ग / अपवग्ग /
अक्खत				अन्त / कोटि /
akkhata				搶先
完美的				qiǎng xiān
wán měi de				अग्ग / आदि / पठम /
अनेळक / अक्खत / अनेळ /				最初
निद्दोस /				zuì chū
				पठम / अग्ग / आदि /
				最高的
				zuì gāo de
				उपरि / अग्ग /

月底	yuè dǐ	परियोसान / अग्ग / अन्त / परियन्त / अवसान / ओसान / कोण / निद्दा / कोटि / परिनिद्धान / अपवग्ग /
月末	yuè mò	कोण / अवसान / ओसान / परिनिद्धान / निद्दा / परियन्त / अन्त / अग्ग / कोटि / अपवग्ग / परियोसान /
末	mò	परिनिद्धान / अपवग्ग / अग्ग / परियोसान / ओसान / निद्दा / अवसान / अन्त / कोटि / परियन्त / कोण /
末尾	mò wěi	अन्त / परियोसान / कोटि / परियन्त / ओसान / निद्दा / अपवग्ग / अग्ग / अवसान / कोण / परिनिद्धान /
末端	mò duān	अवसान / अग्ग / परिनिद्धान / अन्त / परियोसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान / परियन्त / कोण /
止境	zhǐ jìng	कोण / अग्ग / परियोसान / अन्त / कोटि / परियन्त / ओसान / अवसान / परिनिद्धान / अपवग्ग / निद्दा /
盡頭	jìn tóu	कोण / अन्त / परियन्त / अग्ग / परिनिद्धान / परियोसान / अवसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान /
端	duān	अन्त / कोण / अपवग्ग / परिनिद्धान / कोटि / अवसान / निद्दा / परियोसान / ओसान / परियन्त / अग्ग /
端上	duān shàng	कोण / कोटि / अवसान / परिनिद्धान / अग्ग / ओसान / अपवग्ग / परियोसान / निद्दा / अन्त / परियन्त /
第一	dì yī	अग्ग / आदि / पठम /
第一個	dì yī gè	आदि / पठम / अग्ग /
第一名	dì yī míng	पठम / आदि / अग्ग /
第一次	dì yī cì	पठम / अग्ग / आदि /
終	zhōng	परियन्त / कोटि / अपवग्ग / परियोसान / अवसान / अग्ग / कोण / अन्त / ओसान / परिनिद्धान / निद्दा /

終結	zhōng jié	ओसान / खय / अन्त / परिनिद्धान / अपवग्ग / परियोसान / अग्ग / परियन्त / अवसान / कोटि / कोण / निद्दा /
終點	zhōng diǎn	कोण / परियोसान / ओसान / अन्त / निद्दा / कोटि / परिनिद्धान / अपवग्ग / अग्ग / परियन्त / अवसान /
結束	jié shù	परियोसान / अन्त / ओसान / निद्दा / कोण / अग्ग / परियन्त / अपवग्ग / परिनिद्धान / अवसान / निद्धान / कोटि /
終	zhōng	कोटि / परिनिद्धान / अवसान / निद्दा / अग्ग / कोण / अपवग्ग / परियन्त / ओसान / परियोसान / अन्त /
終結	zhōng jié	परियोसान / निद्दा / परिनिद्धान / अपवग्ग / अवसान / कोण / ओसान / अन्त / कोटि / परियन्त / अग्ग /
結束	jié shù	कोटि / ओसान / अवसान / अग्ग / परियोसान / अपवग्ग / परियन्त / अन्त / निद्दा / कोण / परिनिद्धान /
適	qiú	अवसान / परियन्त / परिनिद्धान / ओसान / कोण / अपवग्ग / अन्त / निद्दा / परियोसान / अग्ग / कोटि /
頂	dǐng	頂
頂尖	dǐng jiān	頂端
頂端	dǐng duān	अग्ग / कूट / पिट्ठि / अन्त /
頂點	dǐng diǎn	頂端
第一	dì yī	अग्ग / कूट /
頂端	dǐng duān	कूट / पिट्ठि / अग्ग /
第一個	dì yī gè	首
第一名	dì yī míng	shǒu
第一次	dì yī cì	पठम / अग्ग / आदि /
首先	shǒu xiān	首
首先	shǒu xiān	पठम / अग्ग / आदि /

अग्गि	aggi	大火
大火	dà huǒ	गिनि / जोति / अनल / अग्गि / पावक /
失火	shī huǒ	पावक / गिनि / जोति / अग्गि / अनल /
如火	rú huǒ	अग्गि / गिनि / जोति / अनल / पावक /
消防隊	xiāo fáng duì	अग्गि / गिनि / अनल / पावक / जोति /
火	huǒ	जोति / अग्गि / पावक / गिनि / धूम / अच्चि / अनल /
火光	huǒ guāng	जोति / अग्गि / पावक / अनल / गिनि /
火勢	huǒ shì	जोति / अनल / गिनि / पावक / अग्गि /
火災	huǒ zāi	अग्गि / अनल / जोति / गिनि / पावक /
火燒	huǒ shāo	अग्गि / गिनि / अनल / जोति / पावक /
火警	huǒ jǐng	जोति / अग्गि / अनल / गिनि / पावक /
燃起	rán qǐ	अग्गि / पावक / जोति / गिनि / अनल /
燃	suì	अनल / पावक / जोति / गिनि / अग्गि /
著火	zhù huǒ	पावक / अग्गि / अग्गि / अनल / पावक / गिनि / गिनि / जोति / अनल / जोति /
著火	zhù huǒ	अग्गि / जोति / गिनि / पावक / अनल /
起火	qǐ huǒ	अग्गि / जोति / गिनि / पावक / अनल /

開火	kāi huǒ	गिनि / अग्गि / जोति / पावक / अनल /
अग्घ	aggha	價
價	jià	價值
價值	jià zhí	價格
價格	jià gé	值
值	zhí	價
價	jià	價格
價格	jià gé	價錢
價錢	jià qián	成本
成本	chéng běn	推崇
推崇	tuī chóng	普賴斯
普賴斯	pǔ lài sī	行情
行情	xíng qíng	अग्घापन
अग्घापन	agghāpana	估計
估計	gū jì	अगति
अगति	agati	偏見
偏見	piān jiàn	偏見
偏見	piān jiàn	

अगद	agada	吸毒
吸毒	xī dú	戒毒
戒毒	jiè dú	毒品
毒品	dú pǐn	药
药	yào	藥物
藥物	yào wù	藥
藥	yào	藥
藥	yào	भेसज्ज / अगद / ओसध /
भेसज्ज / अगद / ओसध /	藥品	藥
藥	yào pǐn	藥物
藥物	yào wù	醫藥
醫藥	yī yào	

अगार	अघ	अङ्क	अङ्गुडु	अङ्गना
agāra	agha	aṅka	aṅguṭṭha	aṅganā
住宅	不幸	印子	大拇指	女
zhù zhái	bù xìng	yìn zi	dà mu zhǐ	nǚ
निकेतन / आवास / निकेत / गृह / निवेश / गृह / अगार / घर / निलय / निवास / उपस्सय /	अलखिखक / उपद्व / अनत्य / अघ / आपदा / अनय /	标	巨擘	थी / कन्ता / अङ्गना / नारी / इत्थि / इत्थि /
屋	天	biāo	jù bò	女人
wū	tiān	標	拇	nǚ rén
गृह / घर / गृह / निवेश / अगार / निलय /	अब्भ / दिवस / अण्ह / अघ / नाक / देव / आकास / अम्बर / दिव / दिन / ख / अन्तल्लिख /	biāo	mǔ	जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अङ्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना /
屋子	天界	標記	अङ्गुडु / अङ्गुडु /	女人
wū zi	tiān jiè	biāo jì	拇	nǚ rén
गृह / गृह / निलय / अगार / निकेतन / घर / निवेश /	देव / ख / अघ / अब्भ / आकास / अम्बर / अन्तल्लिख /	特徵	mu	जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अङ्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना /
房	天空	tè zhǐ	अङ्गुडु / अङ्गुडु /	女人
fáng	tiān kōng	痕	拇指	nǚ rén
अगार / घर / निलय / निवेश / गृह / निकेतन / गृह /	अन्तल्लिख / अघ / दिव / आकास / अब्भ / नाक / तारा / अनिल / ख / अम्बर / देव / तारका /	hén	mu zhǐ	जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अङ्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना /
房子	疼	अङ्क / आरञ्जित /	अङ्गुडु / अङ्गुडु /	女子
fáng zi	téng	記號	拇指	nǚ zǐ
निवेश / घर / निलय / गृह / गृह / निकेतन / अगार /	दुक्ख / असात / अघ /	jì hào	mǔ zhǐ	नारी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना / अङ्गना / नारी / थी / कन्ता / कन्ता / थी /
房屋	疼痛	馬克	अङ्गुडु / अङ्गुडु /	nǚ zǐ
fáng wū	téng tòng	mǎ kè	擘	नारी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना / अङ्गना / नारी / थी / कन्ता / कन्ता / थी /
निलय / निकेतन / गृह / अगार / गृह / घर / निवेश /	दुक्ख / असात / अघ /	马克	bò	女子
捨	痛	मार्क	अङ्गण	nǚ zǐ
shě	tòng	मार्क	अङ्गणा	nǚ zǐ
अगार / गृह / गृह / घर / निलय / निवेश /	दुक्ख / असात / अघ /	mǎ kè	空地	नारी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना / अङ्गना / नारी / थी / कन्ता / कन्ता / थी /
收容	痛楚	अङ्कुर	kōng de	女的
shōu róng	tòng chū	aṅkura	आकास / आकास / अङ्गण / अङ्गण / ओकास / ओकास /	nǚ de
गृह / निवेश / गृह / अगार / घर / निलय /	अघ / अघ / असात /	幼苗	空地	थी / कन्ता / अङ्गना / इत्थि / नारी / इत्थि /
舍	tòng chǔ	yòu miáo	kōng dì	妇
shè	अघ / अघ / असात /	अङ्ग	आकास / आकास / अङ्गण / अङ्गण / ओकास / ओकास /	fù
घर / घर / निवेश / गृह / निलय / निवेश / अगार / अगार / गृह / गृह / गृह / निलय /	痛苦	अङ्गा	अङ्गण / ओकास / ओकास /	थी / नारी / कन्ता / इत्थि / अङ्गना /
舍	tòng kǔ	品質	अङ्गण / ओकास / ओकास /	妇人
shě	अघ / आबाध / बाधन / खेद / किच्छ / असात / दुक्ख /	pǐn zhì	अङ्गण / ओकास / ओकास /	fù rén
घर / घर / निवेश / गृह / निलय / निवेश / अगार / अगार / गृह / गृह / गृह / निलय /	罪	गुण / अङ्ग /	अङ्गण / ओकास / ओकास /	भरिया / जाया / नारी / इत्थि / अङ्गना / कलत्त / थी / कन्ता / पिया / जानि /
घर / घर / निवेश / गृह / निलय / निवेश / अगार / अगार / गृह / गृह / गृह / निलय /	zuì	成分	अङ्गण / ओकास / ओकास /	妻
अगारिक	罪惡	chéng fèn	अङ्गण / ओकास / ओकास /	qī
agārika	zuì è	अङ्ग / धातु /	अङ्गण / ओकास / ओकास /	अङ्गना / जाया / थी / पिया / भरिया / कलत्त / जानि / नारी / कन्ता / इत्थि /
一家之主	罪過	肢	अङ्गण / ओकास / ओकास /	娘
yī jiā zhī zhǔ	zuì guò	zhī	अङ्गण / ओकास / ओकास /	niang
अगारिक / अगारिय /	असदम्म / कलि / निग्गह / पाप / अघ / अवण्ण / अकुसल / उपवाद /	質量	अङ्गण / ओकास / ओकास /	जननी / जनिका / अम्बा / कन्ता / थी / अङ्गना / नारी / अम्मा / इत्थि / इत्थि / जनेत्ती /
अगारिय	罪惡	zhì	अङ्गण / ओकास / ओकास /	婦人
agāriya	zuì è	質量	अङ्गण / ओकास / ओकास /	fù rén
一家之主	苦痛	zhì liàng	अङ्गण / ओकास / ओकास /	कन्ता / इत्थि / अङ्गना / थी / नारी /
yī jiā zhī zhǔ	kǔ tòng	अङ्ग / गुण /	अङ्गण / ओकास / ओकास /	婦女
अगारिक / अगारिय /	असात / अघ /	質量	अङ्गण / ओकास / ओकास /	fù nǚ
	雲霄	zhì liàng	अङ्गण / ओकास / ओकास /	कन्ता / नारी / अङ्गना / थी / इत्थि /
	yún xiāo	गुण / अङ्ग /	अङ्गण / ओकास / ओकास /	爱人
	देव / अम्बर / अन्तल्लिख / ख / अब्भ / आकास / अघ /			ài rén
				अङ्गना / नारी / जाया / भरिया / थी / जानि / कलत्त / पिया / कन्ता /

अङ्गुलि	अच्यना	अच्छ	अचिर	अज्जाचार
aṅguli	accanā	accha	acira	ajjācāra
手指	尊敬	包涵	新	過失
shǒu zhǐ	zūn jìng	bāo hán	xīn	guò shī
手指头	अच्यना / चित्तीकार / नमस्कार / पच्युद्धान / पूजा / नमस्सन / पुरेक्खार / गारव / पटिपूजना / अपचायन /	पच्यहार / इस्स / अच्छ /	अहत / अभिनव / नव / नूतन / अचिर /	खलित / निग्गह / अज्जाचार / दोस / अपाय / छिद्द / ओतार /
指	尊重	chéng shòu	新的	अज्झत्त
zhǐ	zūn zhòng	इस्स / अच्छ /	xīn de	ajjhatta
指頭	गारव / चित्तीकार / अच्यना /	承擔	अभिनव / अहत / अचिर / नूतन / नव /	个人
zhǐ tóu	崇敬	chéng dān	最近	gè rén
腳趾	chóng jìng	इस्स / अच्छ /	zuì jìn	पुग्गल / अज्झत्त /
jiǎo zhǐ	अपचायन / पटिपूजना / पच्युद्धान / गारव / अच्यना / नमस्सन / चित्तीकार /	清澈的	अधुना / अचिर /	人身
अच्युत	敬	qīng chè de	最近的	rén shēn
accuta	jìng	熊	zuì jìn de	個人
不死的	अच्यना / चित्तीकार / गारव /	xióng	अचिर / पच्छिम /	gè rén
bù sǐ de	注意	अच्छ / इस्स /	耗	私人的
अच्युत / अमर /	zhù yì	熊市	hào	sī rén de
永恒的	चित्तीकार / गुत्ति / गारव / अच्यना / गोपन / परिहार / अविप्पवास /	xióng shì	नव / अचिर / अभिनव / नूतन / अहत /	अज्झुपेक्खन
yǒng héng de	祭品	इस्स / अच्छ /	近來	ajjhupekkhana
अच्युत / अक्खय /	jì pǐn	狗熊	jìn lái	不在乎
अच्यन्त	yì	gǒu xióng	अचिर / अधुना /	bù zài hū
accanta	翊	अच्छ / इस्स /	近来的	अज्झेसना
極端	jì pǐn	結	jìn lái de	ajjhesanā
jí duān	yì	अच्छ / ककु / इस्स /	अज	求
永久	अच्यना / चित्तीकार / गारव /	结	aja	qiú
yǒng jiǔ	荣誉	jié	山羊	अज्झेसना / आयाचना / अभियाचन /
धुव / अच्यन्त /	róng yù	इस्स / अच्छ /	shān yáng	請求
永久的	पटिपूजना / पुरेक्खार / अच्यना /	अच्छरा	shān yáng zuò	qǐng qiú
yǒng jiǔ de	अच्चि	accharā	女神	अभियाचन / आयाचना / अज्झेसना /
धुव / अच्यन्त /	acci	女神	nǚ shén	請求
過世	火	अच्छरा / देवी / देवी /	अच्छरिय	qǐng qiú
guò shì	हुओ	अच्छरिय	acchariya	अभियाचन / आयाचना / अज्झेसना /
पेत / अच्यन्त /	जोति / अग्गि / पावक / गिनि / धूम / अच्चि / अनल /	奇妙	奇妙	邀請
非常	火焰	qí miào	qí miào	yāo qǐng
fēi cháng	हुओ यान	奇妙的	qí miào de	अज्झेसना / निमन्तन / आराधना / आमन्तन / पवारणा /
अतीव / अच्यन्त / अति / अतिरिच / अतिरेक /	जाला / अच्चि /	驚奇	jīng qí	अज्झापन
	yàn	जाला / अच्चि /	अच्छादन	ajjhāpana
			अच्छादन	指令
			acchādana	zhǐ lìng
			服装	उपदेस / अज्झापन / ओवाद / चक्क /
			fú zhuāng	指示
			अच्छादन / निवासन / छादन /	zhǐ shì
			服裝	अज्झापन / ओवाद / उपदेस / उद्देस /
			fú zhuāng	教
			निवासन / छादन / अच्छादन /	jiào
			衣服	आगम / अज्झापन /
			yī fú	
			चेल / छादन / दुस्स / निवासन / अच्छादन / पट /	
			衣物	
			yī wù	
			छादन / निवासन / अच्छादन /	
			अज्जव	
			ajjava	
			正直	
			zhèng zhí	
			अज्जव / उजु / उजुक /	
			率直	
			lù zhí	
			अज्जव / उजु / उजुक / अज्जव / उजुक / उजु /	
			率直	
			lù zhí	
			अज्जव / उजु / उजुक / अज्जव / उजुक / उजु /	
			誠實	
			chéng shí	

अज्झाय	अजिनपत्ता	अञ्जस	अञ्ज	अञ्जत्र
ajjhāya	ajinapattā	añjasa	añña	aññattra
卷	蝙蝠	修路	其他	別處
juǎn	biān fú	xiū lù	qí tā	bié chù
चुम्बट / अज्झाय / चुम्बटक / 章	अजिनपत्ता / जतुका / अजिम्ह	मग / अञ्जस / पन्थ / पथ / पज्ज /	इतर / अञ्ज / पर / 其他人	अञ्जथत्त
zhāng	ajimha	小道	qí tā rén	aññathatta
篇	伸直	xiǎo dào	पर / इतर / अञ्ज /	變動
piān	shēn zhí	径	其他的	biàn dòng
篇章	उजुक / उजु / अजिम्ह / 正	jìng	qí tā de	अञ्जथत्त / परिणाम /
piān zhāng	zhèng	पन्थ / पज्ज / अञ्जस / पथ / मग /	अञ्ज / अपर /	अञ्जदत्थु
अज्झायक	उजुक / उजु / अजिम्ह / 直	徑	其它	aññadattu
ajjhāyaka	उजुक / उजु / अजिम्ह / 直	jìng	qí tā	一定
師資	zhí	पन्थ / पथ / अञ्जस / मग / पज्ज /	पर / अञ्ज / इतर /	yī dìng
shī zī	उजु / उजुक / अजिम्ह /	路	其它的	अद्दा / अञ्जदत्थु / नून / 另一方面
गुरु / आचेर / गरु / अज्झायक / आचरिय /	zhí de	lù	qí tā de	lìng yī fāng miàn
教師	अजिम्ह / उजुक / उजु / 直行	路的	इतर / अञ्ज / पर /	अञ्जमञ्ज
jiào shī	zhí xíng	lù shàng	別	aññamañña
आचेर / आचरिय / गुरु / अज्झायक / गरु /	अजिम्ह / उजुक / उजु / 直通	lù shàng	bié	互
老师	zhí tōng	路径	अञ्ज / इतर / पर /	hù
lǎo shī	उजुक / अजिम्ह / उजु /	lù jìng	别的	अञ्जोञ्ज / अञ्जमञ्ज /
गरु / गुरु / आचेर / अज्झायक / आचरिय /	अजीरक	मग / अञ्जस / पथ / पज्ज / पन्थ /	bié de	互助
老師	ajīraka	路线	इतर / अञ्ज / पर /	hù zhù
lǎo shī	消化不良	lù xiàn	别的	अञ्जमञ्ज / अञ्जोञ्ज /
गरु / अज्झायक / आचरिय / गुरु / आचेर /	xiāo huà bù liáng	पज्ज / मग / पन्थ / अञ्जस / पथ /	bié de	互相
अज्झासय	अजीरक / अलसक /	路途	इतर / अञ्ज / पर /	相互
ajjhāsaya		lù tú	另	xiāng hù
安排		पथ / मग / पज्ज / पन्थ / अञ्जस /	ling	अञ्जमञ्ज / अञ्जोञ्ज /
ān pái		轨	अपर / अञ्ज / इतर / पर /	相互的
पकप्पना / परिकम्म / पञ्जापन / अज्झासय /		guǎi	另一	xiāng hù de
意圖		पज्ज / पथ / पन्थ / मग / अञ्जस /	lìng yī	अञ्जोञ्ज / अञ्जमञ्ज /
yì tú		軌道	अञ्ज / अपर /	अञ्जाण
अज्झासय / अधिप्पाय / चेतना / चेत / परिकप्प /		guǎi dào	另外	aññāṇa
अज्झोहरण		पज्ज / मग / अञ्जस / पन्थ / पथ /	ling wài	不知
ajjhoṛaṇa		途	उत्तरि / पर / उत्तरि / अञ्ज / इतर /	bù zhī
吞		tú	另外一个	तम / अविज्जा / अजानन / अञ्जाण /
tūn		मग / पन्थ / अञ्जस / पज्ज / पथ /	ling wài yī gè	愚昧
गिलन / अज्झोहार / अज्झोहरण /		途徑	अञ्ज / अपर /	yú mèi
अज्झोहार		tú jìng	另外的	अञ्जाण / अन्धभूत /
ajjhohāra		मग / पथ / पन्थ / पज्ज / अञ्जस /	ling wài de	无知
吞		通路	अपर / अञ्ज /	wú zhī
tūn		tōng lù	驚	तम / अविज्जा / अजानन / अञ्जाण /
गिलन / अज्झोहार / अज्झोहरण /		मग / पन्थ / ओतार / अञ्जस / पथ / पज्ज /	biè	無知
अजानन		道	पर / अञ्ज / इतर /	wú zhī
ajānana		dào	अञ्जतम	अजानन / अञ्जाण / तम / अविज्जा /
不知		道路	aññatama	未知的
bù zhī		dào lù	aññatara	wèi zhī de
तम / अविज्जा / अजानन / अञ्जाण /		मग / पन्थ / अञ्जस / मग / पज्ज /	某一體	अपाकट / अञ्जतम / एक / अविदित /
无知		道路	mōu yī gè	अञ्जतर
wú zhī		dào lù	एक / एकच्च / अञ्जतर / एकच्चिय /	aññatara
तम / अविज्जा / अजानन / अञ्जाण /		मग / पन्थ / अञ्जस / पथ / पज्ज /	馬路	某一體
無知		馬路	mǎ lù	mōu yī gè
wú zhī		अञ्जस / मग / पज्ज / पथ / पन्थ /		एक / एकच्च / अञ्जतर / एकच्चिय /

अञ्जोञ्ज	अड्ड	富有	अण्णव	अत्तज
aññōñña	addha	fù yǒu	aṇṇava	attaja
互	一半	富有的	大洋	儿子
hù	yī bàn	fù yǒu de	dà yáng	ér zi
अञ्जमञ्ज / अञ्जमञ्ज /	अद्ध / उपड्ड / अड्ड / अड्ड /	फीत / अड्ड /	जलनिधि / अण्णव / जलधि /	अत्तज / तनुज / तात / अत्रज /
互助	一半	富裕	大海	तनय / पुत्त /
hù zhù	yī bàn	fù yù	dà hǎi	兒子
अञ्जमञ्ज / अञ्जोञ्ज /	अद्ध / उपड्ड / अड्ड / अड्ड /	富裕的	अण्णव / उदधि / जलनिधि /	r zi
互相	一半的	fù yù de	जलधि /	तनय / अत्रज / तनुज / पुत्त /
hù xiāng	yī bàn de	有錢	海洋	तात / अत्तज /
अञ्जमञ्ज / अञ्जोञ्ज /	अड्ड / अद्ध / उपड्ड / अड्ड /	yǒu qián	hǎi yáng	公子
相互	一半的	अड्डरत्त	अण्णव / जलनिधि / जलधि /	gōng zi
xiāng hù	yī bàn de	अद्धरत्ता	瀚	तनुज / तनय / तात / पुत्त /
अञ्जमञ्ज / अञ्जोञ्ज /	अड्ड / अद्ध / उपड्ड / अड्ड /	aḍḍharatta	hàn	अत्तज / अत्रज /
相互的	半	午夜	जलनिधि / जलधि / अण्णव /	女婿
xiāng hù de	bàn	wǔ yè	瀛	nǚ xù
अञ्जोञ्ज / अञ्जमञ्ज /	उपड्ड / अड्ड / अड्ड / अद्ध /	निसीथ / अड्डरत्त /	yíng	तनुज / तनुज / तनय / तात /
अड्ड	半	半夜	जलधि / अण्णव / जलनिधि /	पुत्त / अत्रज / तनय / धीतु /
aḍḍha	bàn	bàn yè	अण्ह	अत्रज / अत्तज / पुत्त / अत्तज /
八	उपड्ड / अड्ड / अड्ड / अद्ध /	निसीथ / अड्डरत्त /	aṇha	女婿
bā	半場	夜半	全天	nǚ xù
八個	bàn chǎng	yè bàn	quán tiān	तनुज / तनुज / तनय / तात /
bā gè	उपड्ड / अद्ध / अड्ड / अड्ड /	निसीथ / अड्डरत्त /	दिन / अण्ह / दिवस /	पुत्त / अत्रज / तनय / धीतु /
八的	半場	अण्डक	天	अत्रज / अत्तज / पुत्त / अत्तज /
bā de	bàn chǎng	अण्डका	tiān	अत्तमन
捌	उपड्ड / अद्ध / अड्ड / अड्ड /	卵	अब्भ / दिवस / अण्ह / अघ /	attamana
bā	半年	luǎn	नाक / देव / आकास / अम्बर /	快樂的
अड्डकथा	bàn nián	卵子	दिव / दिन / ख / अन्तळिक्ख /	kuài lè de
aḍḍhakathā	अद्ध / अड्ड / उपड्ड / अड्ड /	luǎn zǐ	日	愉快
解說	半年	卵細胞	rì	yú kuài
jiě shuō	bàn nián	luǎn xì bāo	दिवस / दिन / अण्ह /	आराम / फासुक / अत्तमन / इड्ड /
說明	अद्ध / अड्ड / उपड्ड / अड्ड /	蛋	日子	अस्साद / तुड्डि / परिभोग / काम /
shuō míng	半數	dàn	rì zi	高興的
निब्बेठन / निदान / अड्डकथा /	bàn shù	鸡蛋	दिन / दिवस / अण्ह /	gāo xìng de
उद्दीपना / निगमन / पकास /	उपड्ड / अद्ध / अड्ड / अड्ड /	jī dàn	日日	高興
दीपना / परिदीपन /	半數	अण्ण	rì rì	gāo xìng
अट्टारस	bàn shù	अण्णा	屋	
aṭṭhārasa	उपड्ड / अद्ध / अड्ड / अड्ड /	下水	zhòu	
十八	半月	xià shuǐ	अण्ह / दिन / दिवस /	
shí bā	bàn yuè	तोय / ओक / नीर / अम्बु / जल /	晝	
अट्टि	अद्ध / अड्ड / अड्ड / उपड्ड /	अण्ण / दक / उदक /	zhòu	
aṭṭhi	bàn yuè	水	अण्ह / दिन / दिवस /	
骨	अद्ध / अड्ड / अड्ड / उपड्ड /	shuǐ	當日	
gú	半生	तोय / पान / अण्ण / जल / उदक	dāng rì	
अट्टि / अट्टि /	bàn shēng	/ दक / अम्बु / नीर / ओक /	दिवस / दिन / अण्ह /	
骨	अद्ध / उपड्ड / अड्ड / अड्ड /	水中	白天	
gǔ	半生	shuǐ zhōng	bái tiān	
अट्टि / अट्टि /	bàn shēng	ओक / जल / अण्ण / उदक / नीर	अण्ह / दिवस / दिन /	
骨头	अद्ध / उपड्ड / अड्ड / अड्ड /	/ तोय / दक / अम्बु /	白日	
gú tóu	大半	水源	bái rì	
骨頭	dà bàn	shuǐ yuán	दिवस / दिन / अण्ह /	
gǔ tóu	अड्ड / उपड्ड / अड्ड / अद्ध /	तोय / दक / नीर / पभव / अम्बु /	अतच्छ	
	大半	निदान / उदक / ओक / जल /	ataccha	
	dà bàn	अण्ण /	謊言	
	अड्ड / उपड्ड / अड्ड / अद्ध /	缺水	huǎng yán	
	大款	quē shuǐ	कूट / असच्च / अभूत / अतच्छ /	
	dà kuǎn	नीर / जल / तोय / अण्ण / ओक	अलिक /	
	富人	/ दक / अम्बु / उदक /		
	fù rén	食物		
		shí wù		
		ghasa / भोजन / भिक्खा / अण्ण /		
		आहार / अन्न / आमिस / असित		
		/ भत्त / असन /		

अत्थ
attha
使用
shǐ yòng
पटिसेवन / अत्थवस / उपभोग / पयोजन / परिभोग / निसेवन / अत्थ /
利用
lì yòng
अत्थवस / परिभोग / अत्थ / पयोजन / उपभोग /
含义
hán yì
含意
hán yì
含義
hán yì
增益
zēng yì
宗旨
zōng zhǐ
चेत / अत्थ /
客观
kè guān
寓意
yù yì
必要
bì yào
必需品
bì xū pǐn
परिक्खार / अत्थ / उपकरण /
意
yì
意思
yì sī
意義
yì yì
अत्थ / अभिधेय्य /
施用
shǐ yòng
पयोजन / अत्थ / अभिनिरोपन / अत्थवस / परिभोग / उपभोग /
有必要
yǒu bì yào
有道
yǒu dào
इस्सरिय / भोग / दब्ब / धन / अत्थ /
物
wù
物件
wù jiàn
用
yòng
पयोजन / परिभोग / उपभोग / अत्थवस / अत्थ /
用法
yòng fǎ
परिभोग / अत्थ / उपभोग / अत्थवस / पयोजन /

用途
yòng tú
पयोजन / अत्थवस / उपभोग / परिभोग / अत्थ /
目标
mù biāo
अत्थ / अन्त /
破壞
pò huài
अत्थ / घात / नास / उपच्छेद / भञ्जन / अपचिन्न / निग्घातन / पीळन / नासन / खय / नस्सन /
福利
fú lì
कल्याण / अत्थ /
福祉
fú zhǐ
कल्याण / अत्थ /
缺乏
quē fá
अत्थ / अभाव / अदस्सन /
裨益
bì yì
उदय / उपभोग / अत्थ / पत्ति / आनिसंस / आय /
要有
yào yǒu
要求
yào qiú
आसिसंना / आसा / जालिनी / पिहायना / इच्छन / निकामना / अभिलासा / अत्थ / इच्छा / अपेक्खन / अभियाचन /
諦
dì
財富
cái fù
अत्थ / भग / दब्ब / भाग्य / इस्सरिय / धन / भोग /
財富
cái fù
इस्सरिय / अत्थ / धन / भग / भोग / दब्ब /
运用
yùn yòng
पयोजन / अत्थ / उपभोग / परिभोग / अत्थवस /
運用
yùn yòng
परिभोग / अभिनिरोपन / अत्थवस / अत्थ / उपभोग / पयोजन /
需
xū
需要
xū yào
आलय / अत्थ /
अत्थकथा
atthakathā
論
lùn
दिट्ठि / अत्थकथा /

अत्थर
atthara
地毯
de tǎn
अत्थर / अत्थर / कोजव / कोजव /
地毯
dì tǎn
अत्थर / अत्थर / कोजव / कोजव /
毯子
tǎn zi
अत्थरण
attharaṇa
套
tào
अत्थरण / पापुरण / अपिधान / पच्छाद / पच्चत्थरण / छदन / पिधान /
床單
chuáng dān
अत्थरण / पत्त / पट्ट / पच्चत्थरण /
罩
zhào
अत्थरण / पापुरण / पिधान / अपिधान / छदन / पच्चत्थरण / पच्छाद /

अत्थवस
atthavasa
使用
shǐ yòng
पटिसेवन / अत्थवस / उपभोग / पयोजन / परिभोग / निसेवन / अत्थ /
利用
lì yòng
अत्थवस / परिभोग / अत्थ / पयोजन / उपभोग /
动机
dòng jī
अपदेस / अत्थवस / पद / ठान / कारण /
原因
yuán yīn
कारण / पद / निमित्त / निदान / ठान / अपदेस / अत्थवस / जनन /
因
yīn
कारण / निदान / पटिच्च / अपदेस / अत्थवस / ठान / निमित्त / पद /
情理
qíng lǐ
अपदेस / पद / ठान / अत्थवस / निमित्त / कारण /
故
gù
ततो / तस्मा / निदान / पद / अतो / अपदेस / कारण / ठान / निमित्त / अत्थवस /
施用
shǐ yòng
पयोजन / अत्थ / अभिनिरोपन / अत्थवस / परिभोग / उपभोग /
理
lǐ
कारण / निमित्त / पद / अपदेस / ठान / अत्थवस /
理性
lǐ xìng
कारण / अत्थवस / ठान / अपदेस / पद /
理由
lǐ yóu
निमित्त / निदान / अपदेस / ठान / कारण / पद / अत्थवस /
用
yòng
पयोजन / परिभोग / उपभोग / अत्थवस / अत्थ /
用法
yòng fǎ
परिभोग / अत्थ / उपभोग / अत्थवस / पयोजन /
用途
yòng tú
पयोजन / अत्थवस / उपभोग / परिभोग / अत्थ /
由
yóu
कारण / निमित्त / अपदेस / निदान / पद / ठान / अत्थवस /
緣故
yuán gù
निमित्त / ठान / कारण / अपदेस / पद / अत्थवस /

运用
yùn yòng
पयोजन / अत्थ / उपभोग / परिभोग / अत्थवस /
運用
yùn yòng
परिभोग / अभिनिरोपन / अत्थवस / अत्थ / उपभोग / पयोजन /
道理
dào lǐ
ठान / अत्थवस / पद / अपदेस / निमित्त / कारण /
अत्थिता
atthitā
存在
cún zài
अत्थिता / पजायन / पवत्तन /
存在物
cún zài wù
अत्थिता / पवत्तन /
实存
shí cún
पवत्तन / अत्थिता /
生存
shēng cún
पवत्तन / आजीव / अत्थिता /
अत्र
atra
在座
zài zuò
अत्र / इह / इध / एत्तो / एत्थ /
在這裡
zài zhè lǐ
अत्र / इध / इह / एत्तो / एत्थ /
这儿
zhè er
इध / एत्तो / अत्र / अत्र / एत्थ / इह / एत्तो / इध / एत्थ / इह /
这儿
zhè r
इध / एत्तो / अत्र / अत्र / एत्थ / इह / एत्तो / इध / एत्थ / इह /
这里
zhèi lǐ
अत्र / एत्थ / एत्थ / एत्तो / अत्र / इह / इध / इध / इह / एत्तो /
这里
zhè lǐ
अत्र / एत्थ / एत्थ / एत्तो / अत्र / इह / इध / इध / इह / एत्तो /
這兒
zhè r
इह / अत्र / इध / एत्तो / एत्थ /
這裡
zhè li
अत्र / एत्थ / एत्तो / इह / इध /
這邊
zhè biān
अत्र / एत्तो / इह / इध / एत्थ /

अत्रज	अतिक्कम	अतिथि	अतिपात	अतिमहन्त
atraja	atikkama	atiithi	atipāta	atimahanta
儿子	罪過	住客	殺害	巨
ér zi	zuì guò	zhù kè	shā hài	jù
अत्तज / तनुज / तात / अत्रज / तनय / पुत्त /	असद्धम्म / अघ / आगु / कलि / अक्सल / अतिक्कम / किब्बि / अपराध /	來賓	अभिघात / निग्घातन / अभिघातन / घात / अतिपात / नासन / पातन /	巨大
兒子	अतिघोर	lái bīn	殺死	jù dà
r zi	atighora	अब्भागत / आगन्तुक / अतिथि / पाहण /	謀殺	ब्रहन्त / अतिमहन्त /
तनय / अत्रज / तनुज / पुत्त / तात / अत्तज /	凶	做客	shā sǐ	巨大的
公子	xiōng	zuò kè	謀殺	jù dà de
gōng zi	अतिघोर / घोर /	अब्भागत / अतिथि / आगन्तुक / पाहण /	móu shā	ब्रहन्त / अतिमहन्त /
तनुज / तनय / तात / पुत्त / अत्तज / अत्रज /	可怕	客	अतिबाब्हं	庞
女兒	kě pà	कè	अतिबाब्हं	páng
nǚ r	अतिघोर / भयानक / भयावह / घोर / अतिदारुण / बीभच्च / भेरव / भीसन / भीम /	अब्भागत / अतिथि / पाहुण / आगन्तुक /	अतिबाब्हं	páng dà
तनुजा / अत्रज / दुहितु / धीतु /	可怕的	客人	अधिमत्त / अतिबाब्हं /	庞大的
女婿	kě pà de	kè rén	अतिमञ्जना	páng dà de
nǚ xù	भयावह / भीम / अतिदारुण / घोर / भयानक / भेरव / बीभच्च / भय / अतिघोर / भीसन /	आगन्तुक / पाहुण / अब्भागत / अतिथि /	atimaññana	廣大
तनुज / तनुज / तनय / तात / पुत्त / अत्रज / तनय / धीतु / अत्रज / अत्तज / पुत्त / अत्तज /	可怖	賓	傲慢	guǎng dà
女婿	kě bù	bīn	ào màn	अतिमहन्त / ब्रहन्त /
nǚ xù	घोर / अतिघोर /	पाहुण / अब्भागत / आगन्तुक / अतिथि /	उद्दच्च / उन्नठ / अतिमञ्जना /	昊
तनुज / तनुज / तनय / तात / पुत्त / अत्रज / तनय / धीतु / अत्रज / अत्तज / पुत्त / अत्तज /	अतिचारी	探望者	晒	hào
अति	aticārī	tàn wàng zhě	shài	ब्रहन्त / अतिमहन्त /
ati	罪犯	旅游者	shèn	浩大
不勝	zuì fàn	lǚ yóu zhě	अवजानन / अवमञ्जना / अवञ्जा / अतिमञ्जना /	hào dà
bù shèng	अपराधी / अतिचारी /	अतिथि / अतिथि /	輕視	अतिमहन्त / ब्रहन्त /
不勝		旅游者	qīng shì	浩瀚
bù shèng		lǚ yóu zhě	अवजानन / अवञ्जा / अतिमञ्जना / अवमञ्जना /	hào hàn
十分		अतिथि / अतिथि /	轻蔑	अतिमहन्त / ब्रहन्त /
shí fēn		來賓	qīng miè	滂
大		lái bīn	अवञ्जा / अवमञ्जना / अवजानन / अतिमञ्जना /	mǎng
dà		आगन्तुक / पाहुण / अब्भागत / अतिथि /	轻视	ब्रहन्त / अतिमहन्त /
तिकिच्छक / तुमुल / पुथुल / अति / उरु /		生人	qīng shì	茫
太		shēng rén	अवञ्जा / अवमञ्जना / अवजानन / अतिमञ्जना /	máng
tài		अतिथि / आगन्तुक / अब्भागत /	鄙視	अतिमहन्त / ब्रहन्त /
च / अति /		賓	bǐ shì	茫茫
很		bīn	अवमञ्जना / अवजानन / अवञ्जा / अतिमञ्जना /	máng máng
hě		पाहुण / आगन्तुक / अब्भागत / अतिथि /	過大	ब्रहन्त / अतिमहन्त /
hěn		陌生人	guò dà	鉅
狠		mò shēng rén	鉅	jù
hěn		अतिथि / पर / अब्भागत / आगन्तुक /	龐	龐
甚		अतिदारुण	páng	páng
shèn		अतिदारुण	龐大	páng dà
अति / अति /		atidāruṇa	अतिमान	अतिमान
甚		可怕	atimāna	atimāna
shèn		kě pà	自大	自大
अति / अति /		अतिघोर / भयानक / भयावह / घोर / अतिदारुण / बीभच्च / भेरव / भीसन / भीम /	zì dà	zì dà
都很		可怕的	अतिमान / उन्नठ /	अतिमान / उन्नठ /
dōu hěn		kě pà de	अतिरेक	अतिरेक
非常		भयावह / भीम / अतिदारुण / घोर / भयानक / भेरव / बीभच्च / भय / अतिघोर / भीसन /	atireka	atireka
fēi cháng		अतिरेक	過度	過度
अतीव / अच्यन्त / अति / अतिरिव / अतिरेक /		अतिरेक / अधिमत्त /	guò dù	guò dù
		非常	अतिरेक / अधिमत्त /	अतिरेक / अधिमत्त /
		fēi cháng	अतिरेक / अधिमत्त /	अतिरेक / अधिमत्त /
		अतीव / अच्यन्त / अति / अतिरिव / अतिरेक /		अतीव / अच्यन्त / अति / अतिरिव / अतिरेक /

अतिरिव	अतीव	अथ	這時	अथो
atiriva	atīva	atha	zhè shí	atho
非常	多	也	अथ / अथो / तु /	也
fēi cháng	duō	yě	遂	yě
अतीव / अच्यन्त / अति / अतिरिव / अतिरेक /	भिय्यो / भिय्योसो / अतीव / 非常	अथो / च / अथ /	suì	अथो / च / अथ /
अतिवत्त	fēi cháng	便	अथ / तु / अथो /	便
ativatta	अतीव / अच्यन्त / अति / अतिरिव / अतिरेक /	biàn	那時	biàn
克服	अतीव / अच्यन्त / अति / अतिरिव / अतिरेक /	अथ / तु / अथो / फासुक /	nà shí	अथ / तु / अथो / फासुक /
kè fú	अतो	其次	अथो / तावदेव / तु / तावदे / अथ /	其次
अतिवत्त / नित्यरण / अभिभवन / उत्तरण /	अतो	其次	那時候	qí cí
能克服	ato	其次	nà shí hou	अथ / अथो /
néng kè fú	因此	則	अथ / तु / अथो /	則
超越	yīn cǐ	則	那麼	zé
chāo yuè	तस्मा / अतो / एवं / ततो / इति / इत्थं / उदं / इतो / तथा /	則	nà me	अथ / तु / अथो /
अतिवाक्य	所以	則	तु / अथ / पन / अथो /	則
ativākya	suǒ yǐ	則	zé	zé
責備	तथा / ततो / तस्मा / अतो /	就	तु / अथ / अथो /	就
zé bèi	故	就	就	jiù
अपवाद / निगमण / अतिवाक्य / गरहन / दोस / उपक्कोस / उपवाद / अवण्ण / ओमसना / अक्कोस / निग्गह / अनुवाद /	gù	就	उपरि / अथ / अथो / तु /	उपरि / अथ / अथो / तु /
अतिविय	ततो / तस्मा / निदान / पद / अतो / अपदेस / कारण / ठान / निमित्त / अत्यवस /	屆時	屆時	屆時
ativiya	अतिसय	屆時	屆時	屆時
許多	अतिसय	屆時	屆時	屆時
xǔ duō	अतिसय	屆時	屆時	屆時
अनप्पक / अतिविय / बह /	अतिसय	屆時	屆時	屆時
अतिसय	अतिसय	屆時	屆時	屆時
atisaya	अतिसय	屆時	屆時	屆時
富足	अतिसय	屆時	屆時	屆時
fù zú	अतिसय	屆時	屆時	屆時
非常地	अतिसय	屆時	屆時	屆時
fēi cháng dì	अतिसय	屆時	屆時	屆時
अतिसय / भिय्योसो / भुस / भिय्यो / बाळ्ह /	अतिसय	屆時	屆時	屆時
अतिसार	अतिसार	屆時	屆時	屆時
atisāra	अतिसार	屆時	屆時	屆時
痲	अतिसार	屆時	屆時	屆時
lì	अतिसार / पक्खन्दिका /	屆時	屆時	屆時
痲疾	अतिसार	屆時	屆時	屆時
lì jí	अतिसार	屆時	屆時	屆時
पक्खन्दिका / अतिसार /	अतीत	屆時	屆時	屆時
अतीत	अतीत	屆時	屆時	屆時
atīta	अतीत	屆時	屆時	屆時
往	अतीत	屆時	屆時	屆時
wǎng	अतीत	屆時	屆時	屆時
往事	अतीत	屆時	屆時	屆時
wǎng shì	अतीत	屆時	屆時	屆時
昔	अतीत	屆時	屆時	屆時
xī	अतीत	屆時	屆時	屆時
अतीत / अतीत /	अतीत	屆時	屆時	屆時
昔	अतीत	屆時	屆時	屆時
xí	अतीत	屆時	屆時	屆時
अतीत / अतीत /	अतीत	屆時	屆時	屆時
过去	अतीत	屆時	屆時	屆時
guò qù	अतीत	屆時	屆時	屆時
過去	अतीत	屆時	屆時	屆時
guò qù	अतीत	屆時	屆時	屆時
अतीत / पुब्बे /	अतीत	屆時	屆時	屆時

這時
zhè shí
अथ / अथो / तु /
遂
suì
अथ / तु / अथो /
那時
nà shí
अथो / तावदेव / तु / तावदे / अथ /
那時候
nà shí hou
अथ / तु / अथो /
那麼
nà me
तु / अथ / पन / अथो /

अदक
adaka
吃的人
chī de rén

अद्द
adda
未熟的
wèi shú de
生的
shēng de
आमक / अद्द / आम /

अद्दि
addi
山
shān
नग / पब्बत / गिरि / अद्दि /
山地
shān de
अद्दि / पब्बत / पब्बत / अद्दि / गिरि / नग / गिरि / नग /
山地
shān dì
अद्दि / पब्बत / पब्बत / अद्दि / गिरि / नग / गिरि / नग /
山路
shān lù
नग / पब्बत / अद्दि / गिरि /
岳
yuè
नग / अद्दि / गिरि / पब्बत /
嶽
yuè
गिरि / नग / पब्बत / अद्दि /

अद्द
addha
一半
yī bàn
अद्द / उपड्ड / अड्ड / अड्ड /
一半的
yī bàn de
अड्ड / अद्द / उपड्ड / अड्ड /
半
bàn
उपड्ड / अड्ड / अड्ड / अद्द /
半場
bàn chǎng
उपड्ड / अद्द / अड्ड / अड्ड /
半年
bàn nián
अद्द / अड्ड / उपड्ड / अड्ड /
半數
bàn shù
उपड्ड / अद्द / अड्ड / अड्ड /
半月
bàn yuè
अद्द / अड्ड / अड्ड / उपड्ड /
半生
bàn shēng
अद्द / उपड्ड / अड्ड / अड्ड /
大半
dà bàn
अड्ड / उपड्ड / अड्ड / अद्द /

अद्दगू
addhagū
旅行者
lǚ xíng zhě
पथावी / गमिक / अद्दिक / गमिक / अद्दिक / अद्दगू / पथिक / पथिक /
游客
yóu kè
अद्दगू / गमिक / पथिक / पथावी / अद्दिक /

अद्दुव
addhuva
非永久的
fēi yǒng jiǔ de
अद्दुव
addhuva
काल / अद्दा /
時候
shí hou
अद्दा / काल /
時光
shí guāng
काल / अद्दा /
時間
shí jiān
काल / अद्दा /
期間
qī jiān
कालन्तर / अद्दा / काल /
果然
guǒ rán
किर / खलु / खो / अद्दा / नून /
果真
guǒ zhēn
अद्दा / किर / नून / खलु / खो /
甚至
shén zhì
अद्दा / अद्दा / अपि / अपि /

अद्दा
addhā
一定
yī dìng
अद्दा / अञ्जदत्थु / नून /
定然
dìng rán
अद्दा / नून /
实在
shí zài
नून / अद्दा / किर / खो / खलु /
實在
shí zài
अद्दा / किर / खो /
實際上
shí jì shàng
खो / अद्दा / खलु / नून /
当然
dāng rán
अद्दा / नून /
当然可以
dāng rán kě yǐ
नून / अद्दा /
必定
bì dìng
नून / अद्दा /
时
shí
अद्दा / काल /
时候
shí hòu
अद्दा / अद्दा / काल / काल /
时候
shí hou
अद्दा / अद्दा / काल / काल /
时间
shí jiān
अद्दा / काल /
時
shí
काल / अद्दा /
時候
shí hou
अद्दा / काल /
時光
shí guāng
काल / अद्दा /
時間
shí jiān
काल / अद्दा /
期間
qī jiān
कालन्तर / अद्दा / काल /
果然
guǒ rán
किर / खलु / खो / अद्दा / नून /
果真
guǒ zhēn
अद्दा / किर / नून / खलु / खो /
甚至
shén zhì
अद्दा / अद्दा / अपि / अपि /

甚至
shèn zhì
अद्दा / अद्दा / अपि / अपि /
當然
dāng rán
ननु / एकन्त / खो / खलु / नून /
अद्दा /
的確
de què
खो / खलु / अद्दा / नून /
真正地
zhēn zhèng dì
अद्दा / किर / खो /
真的
zhēn de
खो / किर / खलु / अद्दा / नून /
确实
què
नून / खो / खलु / अद्दा /
確實
què shí
नून / खलु / खो / अद्दा /
अद्दिक
addhika
旅客
lǚ kè
अद्दिक / अद्दिक / मग्गिक / मग्गिक /
旅客
lǚ kè
अद्दिक / अद्दिक / मग्गिक / मग्गिक /
旅行者
lǚ xíng zhě
पथावी / गमिक / अद्दिक / गमिक / अद्दिक / अद्दगू / पथिक / पथिक /
旅行者
lǚ xíng zhě
पथावी / गमिक / अद्दिक / गमिक / अद्दिक / अद्दगू / पथिक / पथिक /
游客
yóu kè
अद्दगू / गमिक / पथिक / पथावी / अद्दिक /
अदस्सन
adassana
消失
xiāo shī
अन्तरधायन / अदस्सन / नब्बापन / चुति / अभाव / अन्तरधान / अपगम /
缺乏
quē fá
अत्थ / अभाव / अदस्सन /
缺席
quē xí
अभाव / अदस्सन /

अधुना
adhunā
今
jīn
तु / अञ्ज / अधुना / इदानि / एतरहि /
今朝
jīn cháo
तु / इदानि / एतरहि / अधुना /
剛才
gāng cái
अधुना / इदानि / तु / एतरहि /
在眼前
zài yǎn qián
इदानि / अधुना / एतरहि / तु /
如今
rú jīn
तु / इदानि / अधुना / एतरहि /
最近
zuì jìn
अधुना / अचिर /
最近地
zuì jìn dì
此刻
cǐ kè
एतरहि / अधुना / तु / इदानि /
此時
cǐ shí
एतरहि / अधुना / तु / इदानि /
現
xiàn
इदानि / तु / अधुना / एतरहि /
現在
xiàn zài
एतरहि / तु / इदानि / अधुना /
現在
xiàn zài
तु / इदानि / अधुना / एतरहि /
眼下
yǎn xià
अधुना / इदानि / तु / एतरहि /
眼前
yǎn qián
तु / इदानि / अधुना / एतरहि /
立刻
lì kè
इदानि / अधुना / तु / एतरहि /
而今
ér jīn
इदानि / एतरहि / अधुना / तु /
近來
jìn lái
अचिर / अधुना /
近日
jìn rì
近來
jìn lái
近日
jìn lái

अधिपतन	अधिपति	अधिप्पाय	अधिमोक्ख	अनुक्कम
adhipatana	adhipati	adhippāya	adhimokkha	anukkama
侵襲	主	意圖	決心	令
qīn xí	zhǔ	yì tú	jué xīn	lìng
उपक्कम / अधिपतन / 出擊	इस्सर / अधिप / पति / अधिपति / अय्य /	अज्झासय / अधिप्पाय / चेतना / चेत / परिकप्प /	अधिमोक्ख / धिति / अधिद्धान / पणिधान /	अनुक्कम / पटिपाटि / आनुपुब्बी / परियाय / चक्क /
chū jī	主人	अधिपातक	決心	命令
अधिपतन / उपक्कम /	zhǔ rén	adhipātaka	jué xīn	mìng lìng
征	इस्सर / पति / अधिप / नायक / अधिपति / अय्य /	𧑦	पणिधान / अधिमोक्ख / अधिमुत्ति / अधिद्धान /	अनुक्कम / कारापन / कम / नियोजन / चक्क /
zhēng	君主	zhà	अधिरोहनी	序
उपक्कम / अधिपतन /	jūn zhǔ	अधिपातक / पटङ्ग /	adhirohanī	xù
押	अधिप / अधिपति /	𧑦	梯	अनुक्कम / कम / परियाय /
pēng	大師	zhà měng	tī	序列
अधिपतन / उपक्कम /	dà shī	अधिपातक / पटङ्ग /	阶梯	xù liè
攻	अधिप / अय्य / अधिपति / पति / इस्सर /	𧑦	jiē tī	承
gōng	好手	𧑦	अधिवचन	chéng
उपक्कम / अधिपतन /	hǎo shǒu	měng	adhivacana	अनुक्कम / पटिपाटि / परियाय / आनुपुब्बी /
攻	अय्य / इस्सर / अधिपति / पति / अधिप /	अधिपातक / पटङ्ग /	指定	排序
gōng jī	尺	蝗虫	zhǐ dìng	pái xù
अधिपतन / उपक्कम /	chǐ	huáng chóng	अधिवासक	旨意
攻打	अधिपति / ईस / अधिप / पाद / चरण / पद /	अधिपातक / पटङ्ग /	adhivāsaka	zhǐ yì
gōng dǎ	师傅	𧑦	患者	檄
अधिपतन / उपक्कम /	shī fu	měng	huàn zhě	xí
攻擊	पति / अय्य / अधिपति / अधिप / इस्सर /	अधिपातक / पटङ्ग /	持久的	次序
gōng jī	師傅	跳蚤	chí jiǔ de	cì xù
उपक्कमन / पहार / अधिपतन / उपक्कम /	師傅	tiào zǎo	ठितिक / ठायी / अधिवासक / थावर /	पटिपाटि / अनुक्कम / आनुपुब्बी / परियाय /
發作	shī fu	अधिमत्त	病人	秩序
fā zuò	पति / अय्य / अधिपति / इस्सर / अधिप /	adhimatta	bìng rén	zhì xù
उपक्कम / अधिपतन /	師父	太多	गिलान / गिलानक / आबाधिक / अधिवासक /	अनुक्कम / आनुपुब्बी / पटिपाटि / परियाय /
行凶	shī fù	tài duō	病患	程
xíng xiōng	इस्सर / पति / अधिप / अधिपति / अय्य /	अधिमत्त / अतिबाब्हं /	bìng huàn	chéng
अधिपतन / उपक्कम /	跳躍	過度	耐心	अनुक्कम / चारिका / गमन /
tiào yuè	标尺	guò dù	nài xīn	系列
अधिपतन / उपपतन /	biāo chǐ	अतिरेक / अधिमत्त /	अधिवासना / खमन / अधिवासक / खन्ति /	xì liè
ईस / अधिपति / अधिप /	法師	fēi cháng de	अधिवासना	訂
法師	fǎ shī	अधिमुत्ति	adhivāsana	dìng
अय्य / अधिप / पति / इस्सर / अधिपति /	直尺	adhimutti	adhivāsana	परियाय / पटिपाटि / आनुपुब्बी / अनुक्कम /
直尺	zhí chǐ	傾向	忍耐	訂單
अधिपति / अधिप / ईस /	統治者	qīng xiàng	rěn nài	dìng dān
tǒng zhì zhě	इन्द / ईस / इस्सर / अय्य / अधिप / अधिपति / पति /	निन्नता / आसय / अभिनिवेस / पाताल / पसङ्ग / अनुसय / पब्भार / अधिमुत्ति / नति /	अधिवासना / खमन / खन्ति / तितिक्खा /	परियाय / अनुक्कम / पटिपाटि / आनुपुब्बी /
इन्द / ईस / इस्सर / अय्य / अधिप / अधिपति / पति /	統治者	執著	耐心	訂
統治者	tǒng zhì zhě	zhí zhe	nài xīn	dìng
अधिपति / ईस / अधिप /	老爺	भक्ति / अधिमुत्ति /	अधिवासना / खमन / अधिवासक / खन्ति /	परियाय / आनुपुब्बी / पटिपाटि / अनुक्कम /
老爺	lǎo ye	性情	अधो	順序
अय्य / अधिपति / पति / अधिप / इस्सर /	領主	xìng qíng	adho	shùn xù
領主	lǐng zhǔ	अधिमुत्ति / धम्म / पकति / धम्मता / भाव /	降低	कम / परियाय / अनुक्कम / पटिपाटि / आनुपुब्बी /
अधिप / इस्सर / अय्य / अधिपति / पभू / पति /	अधिप / इस्सर / अय्य / अधिपति / पभू / पति /	決心	jiàng dī	順序
अधिप / इस्सर / अय्य / अधिपति / पभू / पति /	अधिप / इस्सर / अय्य / अधिपति / पभू / पति /	jué xīn		shùn xù
अधिप / इस्सर / अय्य / अधिपति / पभू / पति /	अधिप / इस्सर / अय्य / अधिपति / पभू / पति /	पणिधान / अधिमोक्ख / अधिमुत्ति / अधिद्धान /		पकार / अनुक्कम / नय / जाय / कम / परियाय /
अधिप / इस्सर / अय्य / अधिपति / पभू / पति /	अधिप / इस्सर / अय्य / अधिपति / पभू / पति /			अनुक्कम्पक
अधिप / इस्सर / अय्य / अधिपति / पभू / पति /	अधिप / इस्सर / अय्य / अधिपति / पभू / पति /			anukampaka
अधिप / इस्सर / अय्य / अधिपति / पभू / पति /	अधिप / इस्सर / अय्य / अधिपति / पभू / पति /			慈悲的
अधिप / इस्सर / अय्य / अधिपति / पभू / पति /	अधिप / इस्सर / अय्य / अधिपति / पभू / पति /			cí bēi de
अधिप / इस्सर / अय्य / अधिपति / पभू / पति /	अधिप / इस्सर / अय्य / अधिपति / पभू / पति /			अनुक्कम्पी / अनुक्कम्पक /

अनुकम्पन
anukampana
同情
tóng qíng
करुणा / अनुकम्पन / दया / कारुञ्ज /
怜悯
lián mǐn
अनुकम्पन / करुणा / दया / कारुञ्ज /
悯
mǐn
करुणा / अनुकम्पन /
愍
mǐn
करुणा / अनुकम्पन /
慈悲
cí bēi
करुणा / अनुकम्पन /
憐
lián
अनुकम्पन / करुणा /

अनुकम्पी

anukampī
慈悲的
cí bēi de
अनुकम्पी / अनुकम्पक /

अनुकूल

anukūla
愉快的
yú kuài de
कन्त / इड्ड / अभिराम / फासु / अनुकूल /
殷勤
yīn qín

अनुकारी

anukārī
模仿者
mó fǎng zhě

अनुखुद्दक

anukhuddaka
次要的
cì yào de

अनुग

anuga
下列
xià liè
下列的
xià liè de
其次的
qí cì de

अनुग्गणहन
anuggaṇhana
助
zhù
पतिट्ठा / उपकार / अनुग्गणहन / आलम्ब / अनुबल / पटिसरण / उपकरण / दीप / अवलम्बन / अवस्सय /
協助
xié zhù
आलम्ब / अनुबल / अवलम्बन / उपकार / दीप / उपकरण / अवस्सय / अनुग्गणहन / पटिसरण / पतिट्ठा /
壁助
bì zhù
उपकरण / पटिसरण / अवस्सय / उपकार / अनुग्गणहन / दीप / अनुबल / अवलम्बन / आलम्ब / पतिट्ठा /
好意
hǎo yì
अनुग्गणहन / उपकार / दया / अवेर /
幫
bāng
अनुबल / पतिट्ठा / आलम्ब / अनुग्गणहन / दीप / अवलम्बन / उपकरण / पटिसरण / उपकार / अवस्सय /
幫助
bāng zhù
अनुबल / उपकरण / अनुग्गणहन / दीप / पतिट्ठा / अवलम्बन / पटिसरण / उपकार / अवस्सय / आलम्ब /
帮忙
bāng máng
अवस्सय / दीप / पतिट्ठा / उपकरण / अनुग्गणहन / उपकार / पटिसरण / अनुबल / आलम्ब / अवलम्बन /
幫
bāng
अनुग्गणहन / अवलम्बन / उपकरण / पतिट्ठा / उपकार / अवस्सय / अनुबल / पटिसरण / दीप / आलम्ब /
幫助
bāng zhù
पतिट्ठा / अवलम्बन / अवस्सय / दीप / पटिसरण / उपकार / अनुग्गणहन / अनुबल / उपकरण / आलम्ब /
幫忙
bāng máng
अनुग्गणहन / अवलम्बन / उपकार / अवस्सय / अनुबल / उपकरण / आलम्ब / दीप / पटिसरण / पतिट्ठा /
扶
fú
आलम्ब / पटिसरण / अवस्सय / दीप / अनुग्गणहन / उपकरण / उपकार / पतिट्ठा / अवलम्बन / अनुबल /
扶助
fú zhù
अवस्सय / उपकरण / दीप / अनुग्गणहन / उपकार / अवलम्बन / अनुबल / पटिसरण / आलम्ब / पतिट्ठा /

救助
jiù zhù
पतिट्ठा / अवस्सय / अनुबल / अवलम्बन / अनुग्गणहन / दीप / आलम्ब / उपकरण / उपकार / पटिसरण /
救命
jiù mìng
अवलम्बन / आलम्ब / पटिसरण / उपकरण / अनुग्गणहन / दीप / अनुबल / उपकार / अवस्सय / पतिट्ठा /
救援
jiù yuán
आलम्ब / पटिसरण / अनुग्गणहन / उपकार / दीप / अवस्सय / अवलम्बन / उपकरण / अनुबल / पतिट्ठा /
有助
yǒu zhù
पटिसरण / अवलम्बन / पतिट्ठा / उपकरण / दीप / अनुबल / उपकार / अवस्सय / अनुग्गणहन / आलम्ब /

अनुग्गाहक

anuggāhaka
贊助人
zàn zhù rén

अनुगामिक

anugāmika
信徒
xìn tú
निस्सितक / पक्ख / अनुगामी / अनुगामिक /
追隨者
zhuī suí zhě
निस्सितक / अनुगामिक / अनुगामी /

अनुगामी

anugāmī
信徒
xìn tú
निस्सितक / पक्ख / अनुगामी / अनुगामिक /
追隨者
zhuī suí zhě
निस्सितक / अनुगामिक / अनुगामी /

अनुचर

anucara
隨從
suí cóng
अन्तेवासी / अन्तेवासिक / अनुचर / अनुयायी / किड्कर /

अनुचरण

anucaraṇa
執行
zhí xíng
पवत्तन / अनुचरण /
練習
liàn xí
आसेवना / आचार / पटिपज्जन / अनुचरण / चारित्त / पटिपत्ति / उपसेवना /

अनुज
anuja
兄弟
xiōng dì
अनुज / भातु / भातिक / आवुसो /
兄或弟
xiōng huò dì
भातु / भातिक / अनुज / आवुसो /
兄長
xiōng zhǎng
भातु / अनुज / आवुसो / भातिक /
同胞
tóng bāo
भातु / भातिक / आवुसो / अनुज /
哥
gē
भातिक / भातु / अनुज / आवुसो /
哥哥
gē gē
भातु / अनुज / भातिक / आवुसो /
姐夫
jie fu
आवुसो / भातु / अनुज / भातिक /
弟兄

dì xiōng
आवुसो / अनुज / भातु / भातिक /
弟弟
dì dì
अनुज / आवुसो / भातिक / भातु /
社友
shè yǒu
अनुज / आवुसो / भातिक / भातु /
老兄
lǎo xiōng
आवुसो / भातु / अनुज / भातिक /

अनुजा

anujā
姊妹
zǐ mèi
भगिनी / अनुजा /

अनुञ्जा
anunñā
制裁
zhì cái
同意
tóng yì
अपलोकन / पटिञ्जा / अनुञ्जा / अनुमति /
批准
pī zhǔn
支援
zhī yuán
उपकार / अपस्सय / पतिट्ठा / पग्गह / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पग्गह / अनुञ्जा / पतिट्ठान / उपनिस्सय / अवस्सय / ओलम्ब / आलम्ब / निस्सय / आलम्बन / आधार / उपकरण /
裁
cái
許可
xǔ kě
अपलोकन / पटिञ्जा / अनुञ्जा / अनुमति / ओकास /
認可
rèn kě

अनुडहन

anudāhana
燒
shāo
आतिम्पन / अनुडहन /

अन्त
anta
下場
xià chǎng
कोण / परिनिष्ठान / परियन्त / अन्त / परियोसान / अगग / अवसान / कोटि / अपवगग / निष्ठा / ओसान /
告終
gào zhōng
अपवगग / कोण / अन्त / ओसान / परियोसान / अगग / निष्ठा / परिनिष्ठान / अवसान / परियन्त / कोटि /
完結
wán jié
निष्ठा / कोटि / ओसान / परियन्त / अन्त / अपवगग / परियोसान / अवसान / परिनिष्ठान / कोण / अगग /
完結
wán jié
परियन्त / परिनिष्ठान / ओसान / अवसान / अन्त / निष्ठा / अगग / अपवगग / कोण / परियोसान / कोटि /
底
dǐ
ओसान / अवसान / परियन्त / पद / कोण / परियोसान / निष्ठा / परिनिष्ठान / पाद / अगग / अपवगग / अन्त / कोटि /
月底
yuè dǐ
परियोसान / अगग / अन्त / परियन्त / अवसान / ओसान / कोण / निष्ठा / कोटि / परिनिष्ठान / अपवगग /
月末
yuè mò
कोण / अवसान / ओसान / परिनिष्ठान / निष्ठा / परियन्त / अन्त / अगग / कोटि / अपवगग / परियोसान /
末
mò
परिनिष्ठान / अपवगग / अगग / परियोसान / ओसान / निष्ठा / अवसान / अन्त / कोटि / परियन्त / कोण /
末尾
mò wěi
अन्त / परियोसान / कोटि / परियन्त / ओसान / निष्ठा / अपवगग / अगग / अवसान / कोण / परिनिष्ठान /
末端
mò duān
अवसान / अगग / परिनिष्ठान / अन्त / परियोसान / कोटि / अपवगग / निष्ठा / ओसान / परियन्त / कोण /
止境
zhǐ jìng
कोण / अगग / परियोसान / अन्त / कोटि / परियन्त / ओसान / अवसान / परिनिष्ठान / अपवगग / निष्ठा /
球 門
qiú mén
盡頭
jǐn tóu
कोण / अन्त / परियन्त / अगग / परिनिष्ठान / परियोसान / अवसान / कोटि / अपवगग / निष्ठा / ओसान /

目标
mù biāo
अत्थ / अन्त /
目標
mù biāo
目的
mù de
चेत / अन्त /
端
duān
अन्त / कोण / अपवगग / परिनिष्ठान / कोटि / अवसान / निष्ठा / परियोसान / ओसान / परियन्त / अगग /
端上
duān shàng
कोण / कोटि / अवसान / परिनिष्ठान / अगग / ओसान / अपवगग / परियोसान / निष्ठा / अन्त / परियन्त /
終
zhōng
परियन्त / कोटि / अपवगग / परियोसान / अवसान / अगग / कोण / अन्त / ओसान / परिनिष्ठान / निष्ठा /
終止
zhōng zhǐ
終結
zhōng jié
ओसान / खय / अन्त / परिनिष्ठान / अपवगग / परियोसान / अगग / परियन्त / अवसान / कोटि / कोण / निष्ठा /
終點
zhōng diǎn
कोण / परियोसान / ओसान / अन्त / निष्ठा / कोटि / परिनिष्ठान / अपवगग / अगग / परियन्त / अवसान /
結束
jié shù
परियोसान / अन्त / ओसान / निष्ठा / कोण / अगग / परियन्त / अपवगग / परिनिष्ठान / अवसान / निष्ठा / कोटि /
終
zhōng
कोटि / परिनिष्ठान / अवसान / निष्ठा / अगग / कोण / अपवगग / परियन्त / ओसान / परियोसान / अन्त /
終結
zhōng jié
परियोसान / निष्ठा / परिनिष्ठान / अपवगग / अवसान / कोण / ओसान / अन्त / कोटि / परियन्त / अगग /
結束
jié shù
कोटि / ओसान / अवसान / अगग / परियोसान / अपवगग / परियन्त / अन्त / निष्ठा / कोण / परिनिष्ठान /
邊
qiú
अवसान / परियन्त / परिनिष्ठान / ओसान / कोण / अपवगग / अन्त / निष्ठा / परियोसान / अगग / कोटि /
頂端
dǐng duān
अगग / कूट / पिडि / अन्त /

अन्तक
antaka
死
sǐ
चवन / नमुचि / पेत / नास / कालकिरिया / मच्चु / कालङ्कत / अन्तक /
死亡
sǐ wáng
चवन / नास / कालकिरिया / मच्चु / अन्तक / नमुचि /
死地
sǐ de
नास / कालकिरिया / मच्चु / मच्चु / नमुचि / अन्तक / चवन / चवन /
死神
sǐ shén
कालकिरिया / चवन / अन्तक / नास / नमुचि / मच्चु /
至死
zhì sǐ
कालकिरिया / नमुचि / अन्तक / नास / मच्चु / चवन /
身亡
shēn wáng
कालकिरिया / मच्चु / नास / अन्तक / नमुचि / चवन /

अनुत्तान
anuttāna
冥
míng
अनुत्तान / गम्भीर / तिमिर / तिमिस / कण्ह / काळ / गाध /
暗的
àn de
तिमिस / अनुत्तान / तिमिर / कण्ह / काळ /
根深
gēn shēn
अनुत्तान / गाध / गम्भीर /
模糊的
mó hú de
深
shēn
गाध / अनुत्तान / गम्भीर /
深切
shēn qiè
गम्भीर / अनुत्तान / गाध /
深刻
shēn kè
गम्भीर / गाध / अनुत्तान /
深厚
shēn hòu
गम्भीर / अनुत्तान / गाध /
深处
shēn chǔ
गम्भीर / गाध / अनुत्तान /
深沉
shēn chén
गाध / अनुत्तान / गम्भीर /
深深
shēn shēn
अनुत्तान / गाध / गम्भीर /
深的
shēn de
अनुत्तान / गाध / गम्भीर /
深處
shēn chù
गाध / अनुत्तान / गम्भीर /
深邃
shēn suì
गाध / अनुत्तान / गम्भीर /
淵
yuān
गाध / अनुत्तान / गम्भीर /
湛
zhàn
अनुत्तान / गम्भीर / गाध /
窈
yǎo
अनुत्तान / गाध / गम्भीर /
蕁
tán
अनुत्तान / गम्भीर / गाध /
邃
suì
गम्भीर / अनुत्तान / गाध /

अनत्थ
anatttha
不幸
bù xìng
अलक्खिक / उपहव / अनत्थ / अघ / आपदा / अनय /
伤害
shāng hài
अहित / पीळन / अनत्थ /
傷害
shāng hài
अहित / दुक्खापन / अपकार / अनत्थ /
危害
wēi hài
अहित / अनत्थ /
壞處
huài chù
अनत्थ / अहित /
害
hài
अहित / अनत्थ /
弊
bì
अहित / अनत्थ /
損傷
sǔn shāng
पीळन / अहित / अनत्थ /
損害
sǔn hài
अनत्थ / पीळन /
有害
yǒu hài
अन्तरे
antare
之間
zhī jiān
介
jiè
其中
qí zhōng
当中
dāng zhōng
當中
dāng zhōng
芸芸
yún yún
निखिल / असेस / अन्तरे / निस्सेस /
間
jiān
間
jiān
अन्तरधान
antaradhāna
消失
xiāo shī
अन्तरधायन / अदस्सन / नब्बापन / चुति / अभाव / अन्तरधान / अपंगम /

अन्तरधायन	अन्तरिक	अन्तेवासी	अन्दु	अन्ध
antaradhāyana	antarika	antevāsī	andu	andha
消失	下	學生	桎梏	傻
xiāo shī	xià	xué shēng	zhì gù	shǎ
अन्तरधायन / अदस्सन / नब्बापन / चुति / अभाव / अन्तरधान / अपगम /	अनन्तर / अन्तरिक / ओरं / ओरेन /	अन्तेवासिक / अन्तेवासी /	अन्दु / अन्दुक / अन्दुक /	दुम्मेध / दन्ध / अन्ध / दुप्पञ्ज /
अन्तरन्तरा	下一个	隨從	連鎖	जळ / बाल /
antarantarā	xià yī gè	suí cóng	lián suǒ	呆
偶爾	अन्तरिक / अनन्तर /	अन्तेवासी / अन्तेवासिक / अनुचर / अनुयायी / किङ्कर /	अन्दुक / अन्दु /	dāi
ǒu ěr	下一个的	अनुताप	鍊	बाल / दन्ध / दुम्मेध / अन्ध /
有時候	xià yī gè de	anutāpa	liàn	जळ / ठान / दुप्पञ्ज /
yǒu shí hou	अन्तरिक / अनन्तर /	懊悔	अन्दुक / अन्दु /	愚蠢的
कृदाचन / कृदाचनं / अन्तरन्तरा / कृदाचि / अप्पेकदा /	下一个	ào huǐ	鎖鏈	yú chǔn de
अन्तराय	xià yī gè	उपताप / क्वक्च्य / अनुताप /	suǒ liàn	अन्ध / दन्ध / दुम्मेध / जळ /
antarāya	अन्तरिक / अनन्तर /	अन्तिम	अन्दु / अन्दुक /	बाल / दुप्पञ्ज /
危	下一次	antima	鏈	痴
wēi	xià yī cì	最后	liàn	chī
परिपन्थ / ईघ / उपद्व / परिस्सय / उपसग / अन्तराय /	अन्तरिक / अनन्तर /	zuì hòu	अन्दुक / अन्दु /	दुम्मेध / जळ / दन्ध / अन्ध /
危險	下一步	पच्छिम / अन्तिम /	鏈子	बाल / दुप्पञ्ज /
wēi xiǎn	xià yī bù	最後	liàn zi	盲
परिपन्थ / उपसग / अन्तराय / परिस्सय / ईघ / उपद्व /	अन्तरिक / अनन्तर /	zuì hòu	अन्दु / अन्दुक /	máng
危險	下個	最終	鏈	काण / अन्ध /
wēi xiǎn	xià gè	zuì zhōng	liàn	盲人
परिपन्थ / उपसग / अन्तराय / परिस्सय / ईघ / उपद्व /	अन्तरिक / अनन्तर /	最終	अन्दुक / अन्दु /	máng rén
危險	下次	zuì zhōng	अन्धकार	काण / अन्ध /
wēi xiǎn	xià cì	最終的	anduka	相親
परिपन्थ / अन्तराय / उपसग / उपद्व / ईघ / परिस्सय /	अन्तरिक / अनन्तर /	zuì zhōng de	桎梏	xiāng qīn
威肋	接下來	末期	zhì gù	काण / अन्ध /
wēi xié	jiē xià lái	mò qī	अन्दु / अन्दुक / अन्दुक /	瞎
अन्तराय / उपद्व / परिपन्थ / ईघ / परिस्सय / उपसग /	jie xià lái	結局	桎梏	xiā
當儿	míng	jié jú	zhí gù	अन्ध / काण /
dāng ér	दोसिना / अन्तरिक / अनन्तर /	अन्तो	अन्दु / अन्दुक / अन्दुक /	瞎子
अन्तराय / उपसग / परिस्सय / उपद्व / ईघ / परिपन्थ /	翌	anto	連鎖	xiā zi
障礙	yì	中	lián suǒ	अन्ध / काण /
zhàng ài	अन्तरिक / दोसिना / अनन्तर /	zhōng	अन्दुक / अन्दु /	瞎眼
पपञ्च / परिपन्थ / अन्तराय /	अन्तळिकख	पीठ / ओज / उर / परियन्त / अन्तो / पथ /	鍊	xiā yǎn
障礙	antaḷikkha	在	liàn	काण / अन्ध /
zhàng ài	天	zài	अन्दुक / अन्दु /	瞽
पपञ्च / आवरण / अन्तराय / परिपन्थ / पळिबोध /	tiān	उपरि / अन्तो /	liàn zi	gǔ
天界	अब्भ / दिवस / अण्ह / अघ / नाक / देव / आकास / अम्बर / दिव / दिन / ख / अन्तळिकख /	裏	अन्दु / अन्दुक /	काण / अन्ध /
tiān jiè	tiān jiè	li	鏈	笨
देव / ख / अघ / अब्भ / आकास / अम्बर / अन्तळिकख /	tiān kōng	里	suǒ liàn	bèn
天空	अन्तळिकख / अघ / दिव / आकास / अब्भ / नाक / तारा / अनिल / ख / अम्बर / देव / तारका /	裏	अन्दु / अन्दुक /	जळ / दुप्पञ्ज / अन्ध / बाल /
tiān kōng	雲霄	裏	鏈	दुम्मेध / दन्ध /
अन्तळिकख / अघ / दिव / आकास / अब्भ / नाक / तारा / अनिल / ख / अम्बर / देव / तारका /	yún xiāo	अब्भन्तर / अन्तो /	liàn	笨的
अन्तेवासिक	yún xiāo		liàn zi	bèn de
antevāsika	देव / अम्बर / अन्तळिकख / ख / अब्भ / आकास / अघ /		अन्दु / अन्दुक /	दुम्मेध / दन्ध / जळ / अन्ध /
學生	अन्तेवासिक / अन्तेवासी /		鏈	दुप्पञ्ज / बाल /
xué shēng	隨從		liàn	अन्धकार
अन्तेवासिक / अन्तेवासी /	suí cóng		अन्दुक / अन्दु /	andhakāra
隨從	अन्तेवासी / अन्तेवासिक / अनुचर / अनुयायी / किङ्कर /			困惑
suí cóng				kùn huò
				मङ्कु / अन्धकार / आकुल /
				迷亂
				mí luàn
				黑
				hēi
				काळ / तिमिस / अन्धकार /
				तिमिर / कण्ह / काळक / तम /
				黑暗
				hēi àn
				तिमिर / काळ / कण्ह / तिमिस /
				अन्धकार / तम /

अन्धभूत	अन्न	अन्नूक	अनन्तर	अनप्पक
andhabhūta	anna	anūnaka	anantara	anappaka
伺	食	全部	下	不少
dòng	shí	quán bù	xià	bù shǎo
控	भिक्खा / घास / भत्त / आमिस / आहार / अन्न / भोत्तु / असित / भोजन / असन /	केवल / निस्सेस / अन्न / निखिल / कसिण / अनवसेस / असेस / अन्नूक /	अनन्तर / अन्तरिक / ओरं / ओरेन /	अनप्पक / बह् /
kōng	食品	完全	下一个	多多
愚昧	食品	完全	下一个	duō duō
yú mèi	shí pǐn	wán quán	xià yī gè	अनप्पक / बह् /
अञ्जाण / अन्धभूत /	भिक्खा / आहार / आमिस / भोजन / भत्त / असन / अन्न / असित / घास /	निखिल / अन्नूक / कसिण / निस्सेस / पुण्ण / परिपूर / अन्नू / केवल / असेस / अनवसेस /	अन्तरिक / अनन्तर /	好多
蚩	食物	完全的	下一个的	hǎo duō
chī	食物	完全的	xià yī gè de	अनप्पक / बह् /
अन्नू	shí wù	wán quán de	अन्तरिक / अनन्तर /	很多
anūna	घास / भोजन / भिक्खा / अण्ण / आहार / अन्न / आमिस / असित / भत्त / असन /	अन्नूक / अन्नू / अनवय /	下一个	hěh duō
全部	飯	完善	xià yī gè	कुस / भुस / बह् / अनप्पक /
quán bù	fàn	wán shàn	अन्तरिक / अनन्तर /	許多
केवल / निस्सेस / अन्न / निखिल / कसिण / अनवसेस / असेस / अन्नूक /	आहार / असित / असन / घास / अन्न / आमिस / भिक्खा / भत्त / भोजन /	अनवसेस / अन्नू / अन्नूक /	下一次	xǔ duō
完全		完成	xià yī cì	अनप्पक / अतिविय / बह् /
wán quán		wán chéng	अन्तरिक / अनन्तर /	諸多
निखिल / अन्नूक / कसिण / निस्सेस / पुण्ण / परिपूर / अन्नू / केवल / असेस / अनवसेस /		पारमी / अन्नूक / निष्फत्ति / पारमिता / निद्धान / अन्नू / पारिपूरि / पूर / परिपूर / अनवसेस / पुण्ण / नित्थरण /	下一步	zhū duō
完全的		完整	xià yī bù	बह् / अनप्पक /
wán quán de		wán zhěng	अन्तरिक / अनन्तर /	许多
अन्नूक / अन्नू / अनवय /		परिपूर / अन्नू / पुण्ण / अनवसेस / अन्नूक /	下個	xǔ duō
完善		完畢	xià gè	बह् / अनप्पक / बह्तर /
wán shàn		wán bì	अन्तरिक / अनन्तर /	重要的
अनवसेस / अन्नू / अन्नूक /		पुण्ण / अन्नूक / अनवसेस / अन्नू / परिपूर /	下次	zhòng yào de
完成		成套	xià cì	गरुक / अनप्पक /
wán chéng		chéng tào	अन्तरिक / अनन्तर /	非常多
पारमी / अन्नूक / निष्फत्ति / पारमिता / निद्धान / अन्नू / पारिपूरि / पूर / परिपूर / अनवसेस / पुण्ण / नित्थरण /		chéng tào	接下來	fēi cháng duō
完整		zhěng	jiē xià lái	बह् / अनप्पक / बह्तर /
wán zhěng		केवल / कसिण / असेस / पुण्ण / निस्सेस / अन्नूक / परिपूर / अनवसेस / अन्नू / निखिल /	jiē xià lái	अनप्पक / अतिविय / बह् /
परिपूर / अन्नू / पुण्ण / अनवसेस / अन्नूक /		畢	अन्तरिक / अनन्तर /	अनुप्पत्ति
完畢		bì	अन्तरिक / अनन्तर /	anuppatti
wán bì		परिपूर / पुण्ण / अनवसेस / अन्नू / अन्नूक /	明	到任
पुण्ण / अन्नूक / अनवसेस / अन्नू / परिपूर /		畢	míng	dào rèn
成套		bì	दोसिना / अन्तरिक / अनन्तर /	अनुप्पत्ति / पत्ति / अब्भागमन / आगमन /
chéng tào		zhěng	अन्तरिक / दोसिना / अनन्तर /	到來
पुण्ण / अन्नू / अनवसेस / अन्नूक / परिपूर /		केवल / कसिण / असेस / पुण्ण / निस्सेस / अन्नूक / परिपूर / अनवसेस / अन्नू / निखिल /	अनुनय	dào lái
整		畢	अनुनय	अनुप्पत्ति / आगमन / पत्ति / अब्भागमन /
zhěng		bì	anunaya	到來
केवल / कसिण / असेस / पुण्ण / निस्सेस / अन्नूक / परिपूर / अनवसेस / अन्नू / निखिल /		परिपूर / पुण्ण / अनवसेस / अन्नू / अन्नूक /	友誼	到來
畢		畢	you yì	dào lái
bì		bì	अनुपघात	dào lái
परिपूर / पुण्ण / अनवसेस / अन्नू / अन्नूक /		पुण्ण / परिपूर / अनवसेस / अन्नूक / अन्नू /	अनुपघात	पत्ति / आगमन / अब्भागमन / अनुप्पत्ति /
畢		通	अनुपघात	抵達
bì		tōng	अनुपघात / अविहिंसा /	dǐ dá
पुण्ण / परिपूर / अनवसेस / अन्नूक / अन्नू /		केवल / निस्सेस / अन्नू / अनवसेस / परिपूर / अन्नूक / असेस / पुण्ण / निखिल / कसिण /	人類	抵達
畢		通	रén lèi	dǐ dá
bì		tōng tōng	अविहिंसा / अनुपघात /	पत्ति / आगमन / अनुप्पत्ति / अब्भागमन /
पुण्ण / परिपूर / अनवसेस / अन्नूक / अन्नू /		通	अनुपघात	अनुपुब्ब
通		無限	अनुपघात	anupubba
tōng tōng		wú xiàn	अनुपघात	連續
केवल / निस्सेस / अन्नू / अनवसेस / परिपूर / अन्नूक / असेस / पुण्ण / निखिल / कसिण /			अनुपघात	lián xù
			अनुपघात	अनुपालक
			अनुपघात	anupālaka
			अनुपघात	保護
			अनुपघात	bǎo hù
			अनुपघात	तायन / गोपन / गुत्ति / परिहार / अनुरक्खा / अनुरक्खन / पटिसरण / नाथि / अभिरक्खन / आरक्खा / अनुपालक / पालन / अनुपालन / निस्सय / ताण /

अनुपालन
anupālana

保护
bǎo hù
अनुपालन / तायन / पटिसरण / आरंक्खा / निस्सय / अनुरक्खा / परिहार / गोपन / अनुरक्खन / गुत्ति / नाथ / अभिरक्खन / ताण / पालन /
保護
bǎo hù
तायन / गोपन / गुत्ति / परिहार / अनुरक्खा / अनुरक्खन / पटिसरण / नाथ / अभिरक्खन / आरक्खा / अनुपालक / पालन / अनुपालन / निस्सय / ताण /

अनुबु
anubujjhana

理解
lǐ jiě
अनुबोध / अनुबु / अवबोध / पटिवेध / उपद्धान /
觉醒
jué xǐng
認識
rèn shi
अवबोध / अनुबु / उपद्धान / अनुबोध /
諒解
liàng jiě
अवबोध / उपद्धान / अनुबु / अनुबोध /
认识
rèn shī
अवबोध / अवबोध / अनुबोध / अनुबोध / उपद्धान / उपद्धान / अनुबु / अनुबु /
认识
rèn shi
अवबोध / अवबोध / अनुबोध / अनुबोध / उपद्धान / उपद्धान / अनुबु / अनुबु /
醒悟
xǐng wù
體諒
tǐ liàng
अनुबु / अनुबोध / उपद्धान / अवबोध /

अनुबन्धन
anubandhana

跟隨
gēn suí
अनुसार / अनुयन्त / अन्वागत / अन्वायिक / पटिसेवन / अनुबन्धन /
追
zhuī
連接
lián jiē
अनुबन्धन / आबन्धक / उपयोग /

अनुबल
anubala

刺激
cì jī
कोतूहल / कुतूहल / उब्बेग / अनुबल /
助
zhù
पतिद्दा / उपकार / अनुग्गणहन / आलम्ब / अनुबल / पटिसरण / उपकरण / दीप / अवलम्बन / अवस्सय /
協助
xié zhù
आलम्ब / अनुबल / अवलम्बन / उपकार / दीप / उपकरण / अवस्सय / अनुग्गणहन / पटिसरण / पतिद्दा /
壁助
bì zhù
उपकरण / पटिसरण / अवस्सय / उपकार / अनुग्गणहन / दीप / अनुबल / अवलम्बन / आलम्ब / पतिद्दा /
幫
bāng
अनुबल / पतिद्दा / आलम्ब / अनुग्गणहन / दीप / अवलम्बन / उपकरण / पटिसरण / उपकार / अवस्सय /
幫助
bāng zhù
अनुबल / उपकरण / अनुग्गणहन / दीप / पतिद्दा / अवलम्बन / पटिसरण / उपकार / अवस्सय / आलम्ब /
幫忙
bāng máng
अवस्सय / दीप / पतिद्दा / उपकरण / अनुग्गणहन / उपकार / पटिसरण / अनुबल / आलम्ब / अवलम्बन /
幫
bāng
अनुग्गणहन / अवलम्बन / उपकरण / पतिद्दा / उपकार / अवस्सय / अनुबल / पटिसरण / दीप / आलम्ब /
幫助
bāng zhù
पतिद्दा / अवलम्बन / अवस्सय / दीप / पटिसरण / उपकार / अनुग्गणहन / अनुबल / उपकरण / आलम्ब /
幫忙
bāng máng
अनुग्गणहन / अवलम्बन / उपकार / अवस्सय / अनुबल / उपकरण / आलम्ब / दीप / पटिसरण / पतिद्दा /
扶
fú
आलम्ब / पटिसरण / अवस्सय / दीप / अनुग्गणहन / उपकरण / उपकार / पतिद्दा / अवलम्बन / अनुबल /
扶助
fú zhù
अवस्सय / उपकरण / दीप / अनुग्गणहन / उपकार / अवलम्बन / अनुबल / पटिसरण / आलम्ब / पतिद्दा /

救助
jiù zhù
पतिद्दा / अवस्सय / अनुबल / अवलम्बन / अनुग्गणहन / दीप / आलम्ब / उपकरण / उपकार / पटिसरण /
救命
jiù mìng
अवलम्बन / आलम्ब / पटिसरण / उपकरण / अनुग्गणहन / दीप / अनुबल / उपकार / अवस्सय / पतिद्दा /
救援
jiù yuán
आलम्ब / पटिसरण / अनुग्गणहन / उपकार / दीप / अवस्सय / अवलम्बन / उपकरण / अनुबल / पतिद्दा /
有助
yǒu zhù
पटिसरण / अवलम्बन / पतिद्दा / उपकरण / दीप / अनुबल / उपकार / अवस्सय / अनुग्गणहन / आलम्ब /
激勵
jī lì

अनुबोध
anubodha

深知
shēn zhī
आजानन / परिजानन / अधिगम / पञ्ञा / बोध / अनुबोध / अवबोध /
理解
lǐ jiě
अनुबोध / अनुबु / अवबोध / पटिवेध / उपद्धान /
知識
zhī shi
पञ्ञा / अधिगम / बोध / आजानन / परिजानन / अनुबोध / अवबोध /
知識
zhī shī
अनुबोध / अधिगम / पञ्ञा / अवबोध / बोध / परिजानन / आजानन /
認識
rèn shi
अवबोध / अनुबु / उपद्धान / अनुबोध /
諒解
liàng jiě
अवबोध / उपद्धान / अनुबु / अनुबोध /
識
shi
अवबोध / बोध / परिजानन / अनुबोध / पञ्ञा / आजानन / अधिगम /
认识
rèn shi
अवबोध / अवबोध / अनुबोध / अनुबोध / उपद्धान / उपद्धान / अनुबु / अनुबु /
认识
rèn shī
अवबोध / अवबोध / अनुबोध / अनुबोध / उपद्धान / उपद्धान / अनुबु / अनुबु /
识
shi
अधिगम / अवबोध / बोध / परिजानन / बोध / पञ्ञा / पञ्ञा / अनुबोध / परिजानन / अनुबोध / अधिगम / अवबोध / आजानन / आजानन /
识
shī
अधिगम / अवबोध / बोध / परिजानन / बोध / पञ्ञा / पञ्ञा / अनुबोध / परिजानन / अनुबोध / अधिगम / अवबोध / आजानन / आजानन /
體諒
tǐ liàng
अनुबु / अनुबोध / उपद्धान / अवबोध /

अनुभवन
anubhavana

吃
chī
खादन / असन / भोत्तुं / अनुभवन / भक्खन /

अनभिरति
anabhirati

不平
bù píng
不滿
bù mǎn
अनलङ्कत / अनभिरति /
अनुमति
anumati

同意
tóng yì
अपलोकन / पटिञ्ञा / अनुञ्ञा / अनुमति /
許可
xǔ kě
अपलोकन / पटिञ्ञा / अनुञ्ञा / अनुमति / ओकास /
अनय
anaya

不幸
bù xìng
अलक्खिक / उपद्व / अनत्थ / अघ / आपदा / अनय /

अनुयन्त
anuyanta

跟隨
gēn suí
अनुसार / अनुयन्त / अन्वागत / अन्वायिक / पटिसेवन / अनुबन्धन /
अनुयायी
anuyāyī

隨從
suí cóng
अन्तेवासी / अन्तेवासिक / अनुचर / अनुयायी / किङ्कर /

अनुरक्खन
anurakkhana

保存
bǎo cún
पालन / अनुरक्खन / पवत्तापन / 保护
bǎo hù
अनुपालन / तायन / पटिसरण / आरंक्खा / निस्सय / अनुरक्खा / परिहार / गोपन / अनुरक्खन / गुत्ति / नाथ / अभिरक्खन / ताण / पालन /
保護
bǎo hù
तायन / गोपन / गुत्ति / परिहार / अनुरक्खा / अनुरक्खन / पटिसरण / नाथ / अभिरक्खन / आरक्खा / अनुपालक / पालन / अनुपालन / निस्सय / ताण /

अनुरक्खा	अनल	開火	अन्वेसना	अनवसेस
anurakkhā	anala	kāi huǒ	anvesanā	anavasesa
保护	大火	गिनि / अग्नि / जोति / पावक / अनल /	尋	全部
bǎo hù	dà huǒ	अनलङ्कत	xún	quán bù
अनुपालन / तायन / पटिसरण / आरंक्खा / निस्सय / अनुरक्खा / परिहार / गोपन / अनुरक्खन / गुत्ति / नाथ / अभिरक्खन / ताण / पालन /	गिनि / जोति / अनल / अग्नि / पावक /	analaṅkata	मग्गन / गवेसन / अन्वेसना / परियेसना /	केवल / निस्सेस / अनून / निखिल / कसिण / अनवसेस / असेस / अनूनक /
保衛	失火	不滿	尋	完
bǎo wèi	shī huǒ	bù mǎn	xún	wán
保護	पावक / गिनि / जोति / अग्नि / अनल /	不滿	मग्गन / अन्वेसना / गवेसन / परियेसना /	完全
bǎo hù	如火	bù mǎn	尋找	wán quán
तायन / गोपन / गुत्ति / परिहार / अनुरक्खा / अनुरक्खन / पटिसरण / नाथ / अभिरक्खन / आरक्खा / अनुपालक / पालन / अनुपालन / निस्सय / ताण /	rú huǒ	अनलङ्कत / अनभिरति /	xún zhǎo	निखिल / अनूनक / कसिण / निस्सेस / पुण्ण / परिपूर / अनून / केवल / असेस / अनवसेस /
अनुरूप	अग्नि / गिनि / जोति / अनल / पावक /	不滿意	尋求	完全地
anurūpa	开火	bù mǎn yì	xún qiú	wán quán dì
一致的	kāi huǒ	अनेळ	परियेसना / गवेसन / अन्वेसना / एसना / मग्गन /	अनवसेस / असेस / निस्सेस /
yī zhì de	गिनि / अग्नि / अनल / पावक / जोति /	aneḷa	搜	完善
अनुरोध	消防隊	完美的	sōu	wán shàn
anurodha	xiāo fáng duì	wán měi de	गवेसन / परियेसना / अन्वेसना / मग्गन /	अनवसेस / अनून / अनूनक /
服從	अग्नि / गिनि / अनल / पावक / जोति /	अनेळक / अक्खत / अनेळ / निदोस /	搜尋	完成
fú cóng	火	अनेळक	sōu xún	wán chéng
अनुवत्तन / अनुरोध /	huǒ	aneḷaka	अन्वेसना / मग्गन / गवेसन / परियेसना /	पारमी / अनूनक / निप्फत्ति / पारमिता / निद्वान / अनून / पारिपरि / पर / परिपूर / अनवसेस / पुण्ण / नित्थरण /
	जोति / अग्नि / पावक / गिनि / धूम / अच्चि / अनल /	完美的	搜查	完整
	火光	wán měi de	sōu chá	wán zhěng
	हुओ गुआंग	अनेळक / अक्खत / अनेळ / निदोस /	परियेसना / अन्वेसना / मग्गन / गवेसन /	परिपूर / अनून / पुण्ण / अनवसेस / अनूनक /
	जोति / अग्नि / पावक / अनल / गिनि /	अनुवत्तन	搜索	完畢
	火勢	anuvattana	sōu suǒ	wán bì
	हुओ शि	服从	मग्गन / गवेसन / अन्वेसना / परियेसना /	पुण्ण / अनूनक / अनवसेस / अनून / परिपूर /
	जोति / अनल / गिनि / पावक / अग्नि /	服從	搜身	成
	火災	fú cóng	sōu shēn	chéng
	हुओ झाई	अनुवत्तन / अनुरोध /	मग्गन / गवेसन / अन्वेसना / परियेसना /	成套
	अग्नि / अनल / जोति / गिनि / पावक /	順從	查	chéng tàò
	火燒	shùn cóng	chá	पुण्ण / अनून / अनवसेस / अनूनक / परिपूर /
	हुओ शाओ	अनवय	परियेसना / गवेसन / अन्वेसना / मग्गन /	整
	अग्नि / गिनि / अनल / जोति / पावक /	anavaya	查閱	zhěng
	火警	完全的	chá yuè	केवल / कसिण / असेस / पुण्ण / निस्सेस / अनूनक / परिपूर / अनवसेस / अनून / निखिल /
	हुओ जिंग	wán quán de	गवेसन / परियेसना / अन्वेसना / मग्गन /	畢
	जोति / अग्नि / अनल / गिनि / पावक /	अनूनक / अनून / अनवय /	索	bì
	燃起	अन्वय	suǒ	परिपूर / पुण्ण / अनवसेस / अनून / अनूनक /
	rán qǐ	anvaya	अन्वेसना / मग्गन / परियेसना / गवेसन /	畢
	अग्नि / पावक / जोति / गिनि / अनल /	一致	調查	bì
	燧	yī zhì	diào chá	पुण्ण / परिपूर / अनवसेस / अनूनक / अनून /
	suì	传统	अन्वेसना / उपपरिक्खन / परिगणहन /	竣
	अनल / पावक / जोति / गिनि / अग्नि /	chuán tǒng	追尋	jùn
	著火	पारम्परिय / इतिहास / अन्वय / पवेणी / अनुस्सव /	zhuī xún	通通
	zhù huǒ	傳統	परियेसना / अन्वेसना / मग्गन / गवेसन /	tōng tōng
	पावक / अग्नि / अग्नि / अनल / पावक / गिनि / गिनि / जोति / अनल / जोति /	chuán tǒng		केवल / निस्सेस / अनून / अनवसेस / परिपूर / अनूनक / असेस / पुण्ण / निखिल / कसिण /
	著火	अन्वय / इतिहास / पवेणी / अनुस्सव / पारम्परिय /		
	zhe huǒ	符合		
	पावक / अग्नि / अग्नि / अनल / पावक / गिनि / गिनि / जोति / अनल / जोति /	fú hé		
	起火	अन्वय / कतिका / एकत्त /		
	qǐ huǒ	過程		
	अग्नि / जोति / गिनि / पावक / अनल /	guò chéng		
		अन्वेसक		
		anvesaka		
		搜索者		
		sōu suǒ zhě		
		एसी / अन्वेसक /		

अनुवस्सं	अनुस्सति	अनुस्सव	अनागत	अनिच्छा
anuvassam	anussati	anussava	anāgata	anicchā
一年一次的	回忆	传统	他日	冷靜
yī nián yī cì de	huí yì	chuán tǒng	tā rì	lěng jìng
每年	अनुस्सति / अनुस्सरण / 回憶	पारम्परिय / इतिहास / अन्वय / पवेणी / अनुस्सव /	अनागत / आयति /	अनिद्ध
měi nián	huí yì	傳統	前程	aniṭṭha
每年的	अनुस्सति / अभिजानन /	chuán tǒng	qián chéng	不愉快的
měi nián de	記性	अन्वय / इतिहास / पवेणी / अनुस्सव / पारम्परिय /	अनागत / आयति /	bù yú kuài de
अन्वहं	jì xìng	慣例	前途	पटिक्कल / अनिद्ध / असुभ / असात् / अप्पिय /
anvahaṃ	अनुस्सति / अनुस्सरण /	guàn lì	qián tú	अनिद्धित
日报	記憶	अनुसायिक	आयति / अनागत /	aniṭṭhita
rì bào	jì yì	अनुसायिक	将来	未完成的
每日	अनुस्सति / अनुस्सरण / अभिजानन /	anusāyika	jiāng lái	wèi wán chéng de
měi rì	記憶力	固有的	將來	अनिल
每日的	記憶力	gù yǒu de	jiāng lái	anila
měi rì de	jì yì lì	慢性	अनागत / आयति /	和風
अन्वागत	अनुस्सरण / अनुस्सति /	màn xìng	日后	hé fēng
anvāgata	记忆	慢性病	rì hòu	अनिल / पवन /
跟隨	jì yì	màn xìng bìng	आयति / अनागत /	天空
gēn suí	अनुस्सति / अनुस्सरण /	慢性的	日後	tiān kōng
अनुसार / अनुयन्त / अन्वागत / अन्वायिक / पटिसेवन / अनुबन्धन /	追憶	màn xìng de	rì hòu	अन्तळिक्ख / अघ / दिव / आकास / अब्भ / नाक / तारा / अनिल / ख / अम्बर / देव / तारका /
अनुवाद	追思	अनुसार	आयति / अनागत /	風
anuvāda	zhuī sī	अनुसार	未來	fēng
翻譯	अनुस्सति / अनुस्सरण /	अनुसावन	wèi lái	अनिल / पवन /
fān yì	अनुस्सरण	अनुसावन	wèi lái	風大
परिवर्तन / अनुवाद /	अनुस्सरण	अनुसावन	wèi lái	fēng dà
翻譯	अनुस्सरण	अनुसावन	आयति / अनागत /	अनिल / पवन /
fān yì	अनुस्सरण	अनुसावन	未來的	風
परिवर्तन / अनुवाद /	अनुस्सरण	अनुसावन	wèi lái de	fēng
译文	अनुस्सरण	अनुसावन	अनागत / आयति /	अनिल / पवन /
yì wén	अनुस्सरण	अनुसावन	अनाचार	अनिसम्मकारी
परिवर्तन / अनुवाद /	अनुस्सरण	अनुसावन	anācāra	अनिसम्मकारी
責備	अनुस्सरण	अनुसावन	不道德	anisammakārī
zé bèi	अनुस्सरण	अनुसावन	bù dào dé	匆匆的
अपवाद / निग्गण्हण / अतिवाक्य / गरहन / दोस / उपक्कोस / उपवाद / अवण्ण / ओमसना / अक्कोस / निग्गह / अनुवाद /	अनुस्सरण	अनुसावन	अनाचार / कलुस /	cōng cōng de
अन्वायिक	अनुस्सरण	अनुसावन	अनादर	
anvāyika	अनुस्सरण	अनुसावन	anādara	
跟隨	अनुस्सरण	अनुसावन	不尊敬	
gēn suí	अनुस्सरण	अनुसावन	bù zūn jìng	
अनुसार / अनुयन्त / अन्वागत / अन्वायिक / पटिसेवन / अनुबन्धन /	अनुस्सरण	अनुसावन	不敬	
अन्वाहत	अनुस्सरण	अनुसावन	bù jìng	
anvāhata	अनुस्सरण	अनुसावन	अनादर / अवमञ्जना /	
打	अनुस्सरण	अनुसावन	अनालय	
dǎ	अनुस्सरण	अनुसावन	anālaya	
उप्पोठन / ताळन / पोठन / अन्वाहत / पहरण /	अनुस्सरण	अनुसावन	厭惡	
अनुसय	अनुस्सरण	अनुसावन	yàn è	
anusaya	अनुस्सरण	अनुसावन	जिग्गच्छन / पटिघ / अनालय / अरति / पटिघात / निब्बि /	
傾向	अनुस्सरण	अनुसावन	अनिच्छन्त	
qīng xiàng	अनुस्सरण	अनुसावन	anicchanta	
निन्नाता / आसय / अभिनिवेस / पाताल / पसङ्ग / अनुसय / पब्भार / अधिमुत्ति / नति /	अनुस्सरण	अनुसावन	不願意	
	अनुस्सरण	अनुसावन	bù yuàn yì	
	अनुस्सरण	अनुसावन	अनिच्छन्त / अनिच्छमान /	
	अनुस्सरण	अनुसावन	अनिच्छमान	
	अनुस्सरण	अनुसावन	anicchamāna	
	अनुस्सरण	अनुसावन	不願意	
	अनुस्सरण	अनुसावन	bù yuàn yì	
	अनुस्सरण	अनुसावन	अनिच्छन्त / अनिच्छमान /	

अनीक	अपेक्खन	अपकार	अपचायन	अपदेस
anīka	apekkhana	apakāra	apacāyana	apadesa
軍	希	傷害	供奉	动机
jūn	xī	shāng hài	gǒng fèng	dòng jī
धजिनी / अनीक / बलकाय / बल / चम् /	अभिकइखत / आसा / अभिकइखन / आसिसना / अपेक्खन /	अहित / दुक्खापन / अपकार / अनत्थ /	अपचायन / आहति / आहण / नमस्सन / जुहने / पूजा /	अपदेस / अत्थवस / पद / ठान / कारण /
军队	希望	अपगम	尊敬	原因
jūn duì	xī wàng	apagama	zūn jìng	yuán yīn
बलकाय / बल / अनीक / धजिनी / चम् /	खन्ति / अभिकइखत / अभिकइखन / आसा / अपेक्खन / आसिसना / अभिरुचि / इच्छन / अभिलासा /	消失	अच्चना / चित्तीकार / नमक्कार / पच्चुडान / पूजा / नमस्सन / पुरेक्खार / गारव / पटिपूजना / अपचायन /	कारण / पद / निमित्त / निदान / ठान / अपदेस / अत्थवस / जनन /
大群	अभिलासा /	xiāo shī	崇	因
dà qún	愿望	अन्तरधायन / अदस्सन / नब्बापन / चुति / अभाव / अन्तरधान / अपगम /	崇	yīn
चम् / अनीक / धजिनी / बलकाय / बल /	yuàn wàng	अपच्च	chóng	कारण / निदान / पटिच्च / अपदेस / अत्थवस / ठान / निमित्त / पद /
大軍	अपेक्खन / निकामना / अभिलासा / इच्छा / इच्छन / जालिनी / आसा / आसिसना / पिहायना / छन्द /	apacca	नमस्सन / अपचायन / तुङ्ग / उच्च / अब्भुन्नत /	声明
dà jūn	指望	子孫	崇拜	shēng míng
बलकाय / चम् / बल / अनीक / धजिनी /	zhǐ wàng	zi sūn	chóng bài	声明书
軍隊	अभिकइखन / अपेक्खन / अभिकइखत / आसिसना / आसा /	पसव / अपच्च / पजा /	पणिपात / अपचायन / पणाम / आहण / नमस्सन /	shēng míng shū
jūn duì	望	nú	崇敬	情理
बलकाय / धजिनी / चम् / बल / अनीक /	wàng	अपच्च / पुत्त / पजा / पसव / बाल /	chóng jìng	qíng lǐ
部队	आसिसना / अभिकइखन / आसा / अपेक्खन / अभिकइखत /	後代	अपचायन / पटिपूजना / पच्चुडान / गारव / अच्चना / नमस्सन / चित्तीकार /	अपदेस / पद / ठान / अत्थवस / निमित्त / कारण /
bù duì	期待	hòu dài	拜	故
चम् / धजिनी / अनीक / बलकाय / बल /	qī dài	अपच्च / तनय / तनुज /	bài	gù
陸軍	अभिकइखत / अभिकइखन / आसिसना / आसा / अपेक्खन /	अपचय	अपचायन / नमस्सन /	ततो / तस्मा / निदान / पद / अतो / अपदेस / कारण / ठान / निमित्त / अत्थवस /
lù jūn	期望	apacaya	敬神	理
धजिनी / चम् / अनीक / बलकाय / बल /	qī wàng	下跌	jìng shén	lǐ
अनोदिस्सक	अभिलासा / इच्छा / अभिकइखत / इच्छन / जालिनी / पिहायना / अपेक्खन / निकामना / अभिकइखन / आसा / आसिसना /	撤回	नमस्सन / अपचायन /	कारण / निमित्त / पद / अपदेस / ठान / अत्थवस /
anodissaka	欲望	chè huí	敬重	理性
一般的	yù wàng	縮小	jìng zhòng	祭拜
yī bān de	आसा / पिहायना / तप्हा / निकामना / अपेक्खन / आसिसना / इच्छा / अभिलासा / जालिनी / इच्छन /	suō xiǎo	jì bài	नमस्सन / अपचायन /
अपक्कम	欲求		禮拜	禮拜
apakkama	yù qiú		lǐ bài	नमस्सन / अपचायन /
離開	आसा / निकामना / इच्छा / इच्छन / अपेक्खन / आसिसना / जालिनी / अभिलासा / पिहायना /		अपचिनन	अपचिनन
lí kāi	渴望		apacinana	破壞
निस्सरण / अपक्कम / निक्खम / निग्गम / पक्कम /	kě wàng		pò huài	破壞
	कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकइखन / जालिनी / अपेक्खन / आसा / एजा / इच्छा / तप्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकइखत / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /		理由	理由
	yào qiú		lǐ yóu	lǐ yóu
	आसिसना / आसा / जालिनी / पिहायना / इच्छन / निकामना / अभिलासा / अत्थ / इच्छा / अपेक्खन / अभियाचन /		निमित्त / निदान / अपदेस / ठान / कारण / पद / अत्थवस /	निमित्त / निदान / अपदेस / ठान / कारण / पद / अत्थवस /
	願望		由	由
	yuàn wàng		yóu	yóu
	अपेक्खन / निकामना / अभिलासा / आसिसना / आसा / पिहायना / इच्छन / इच्छा / जालिनी /		कारण / निमित्त / अपदेस / निदान / पद / ठान / अत्थवस /	कारण / निमित्त / अपदेस / निदान / पद / ठान / अत्थवस /
			緣故	緣故
			yuán gù	yuán gù
			निमित्त / ठान / कारण / अपदेस / पद / अत्थवस /	निमित्त / ठान / कारण / अपदेस / पद / अत्थवस /
			聲明	聲明
			shēng míng	shēng míng
			त्रत्ति / अपदेस /	त्रत्ति / अपदेस /
			說法	說法
			shuō fǎ	shuō fǎ
			说法	说法
			shuō fǎ	shuō fǎ
			道理	道理
			dào lǐ	dào lǐ
			ठान / अत्थवस / पद / अपदेस / निमित्त / कारण /	ठान / अत्थवस / पद / अपदेस / निमित्त / कारण /
			陳述	陳述
			chén shù	chén shù
			陳述	陳述
			chén shù	chén shù

अपदान	अप्प	薄	अप्पक	蒾
apadāna	appa	báo	appaka	fèi
传奇	子	थोक / परित्त / अप्प / परित्त / अप्प / चुल्ल / तनु / चुल्ल / अप्पक / खुद्द / अप्पक / खुद्द / थोक / तनु /	子	अप्प / खुद्द / थोक / परित्त / चुल्ल / अप्पक /
chuán qí	jié	藐	jié	蒾
傳奇	खुद्द / थोक / अप्पक / अप्प / चुल्ल / परित्त /	miǎo	खुद्द / थोक / अप्पक / अप्प / चुल्ल / परित्त /	zuì
chuán qí	小	thोक / परित्त / अप्पक / खुद्द / चुल्ल / अप्प /	寡	अप्प / अप्पक / चुल्ल / थोक / खुद्द / परित्त /
傳說	xiǎo	襪	guǎ	薄
chuán shuō	अप्पक / चुल्ल / थोक / खुद्द / परित्त / अप्प /	bi	अप्पक / ईसक /	bó
	小班	खुद्द / परित्त / अप्प / चुल्ल / थोक / अप्पक /	小	थोक / परित्त / अप्प / परित्त / अप्प / चुल्ल / तनु / चुल्ल / अप्पक / खुद्द / अप्पक / खुद्द / थोक / तनु /
	xiǎo bān	薄	xiǎo	薄
	परित्त / अप्प / खुद्द / अप्पक / थोक / चुल्ल /		अप्पक / चुल्ल / थोक / खुद्द / परित्त / अप्प /	báo
	小的		小型的	थोक / परित्त / अप्प / परित्त / अप्प / चुल्ल / तनु / चुल्ल / अप्पक / खुद्द / अप्पक / खुद्द / थोक / तनु /
	xiǎo de		xiǎo xíng de	薄
	अप्पक / खुद्द / थोक / परित्त / चुल्ल / अप्प /		小班	báo
	少		xiǎo bān	थोक / परित्त / अप्प / परित्त / अप्प / चुल्ल / तनु / चुल्ल / अप्पक / खुद्द / अप्पक / खुद्द / थोक / तनु /
	shǎo		परित्त / अप्प / खुद्द / अप्पक / थोक / चुल्ल /	藐
	ईसक / अप्पक / तरुण / अप्प /		小的	miǎo
	少的		xiǎo de	थोक / परित्त / अप्पक / खुद्द / चुल्ल / अप्प /
	shǎo de		अप्पक / खुद्द / थोक / परित्त / चुल्ल / अप्प /	襪
	ईसक / अप्प / अप्पक / परित्त /		少	bi
	少量		shǎo	खुद्द / परित्त / अप्प / चुल्ल / थोक / अप्पक /
	shǎo liàng		ईसक / अप्पक / तरुण / अप्प /	अप्पेकदा
	अप्पक / ईसक / अप्प /		少数的	appekadā
	很少的		shǎo shù de	有时
	hēn shǎo de		ईसक / अप्पक /	yǒu shí
	ईसक / अप्पक / अप्प / इत्तर /		少的	कदाचि / कुदाचनं / कुदाचन / अप्पेकदा /
	微小		shǎo de	有时候
	wēi xiǎo		ईसक / अप्प / अप्पक / परित्त /	yǒu shí hòu
	परित्त / खुद्द / अप्प / थोक / अप्पक / चुल्ल /		少量	कुदाचन / अप्पेकदा / कुदाचनं / कदाचि /
	有點兒		shǎo liàng	有時
	yǒu diǎn r		अप्पक / ईसक / अप्प /	yǒu shí
	अप्प / ईसक / अप्पक /		很少的	कदाचि / अप्पेकदा / कुदाचनं / कुदाचन /
	有點小		hēn shǎo de	有時候
	yǒu diǎn xiǎo		ईसक / अप्पक / अप्प / इत्तर /	yǒu shí hóu
	अप्प / ईसक / अप्पक /		微小	अप्पेकदा / कुदाचनं / कदाचि / कुदाचन /
	渺小		wēi xiǎo	有時候
	miǎo xiǎo		परित्त / खुद्द / अप्प / थोक / अप्पक / चुल्ल /	yǒu shí hóu
	परित्त / अप्प / चुल्ल / खुद्द / थोक / अप्पक /		有點兒	अप्पेकदा / कुदाचनं / कदाचि / कुदाचन /
	短的		yǒu diǎn r	有時候
	duǎn de		अप्प / ईसक / अप्पक /	yǒu shí hou
	ईसक / अप्पक / अप्प /		有點小	कुदाचन / कदाचनं / अन्तरन्तरा / कदाचि / अप्पेकदा /
	蒾		yǒu diǎn xiǎo	अप्पतिस्स
	ruì		अप्प / ईसक / अप्पक /	appatissa
	अप्पक / खुद्द / अप्प / थोक / परित्त / चुल्ल /		极小的	造反的
	蒾		jí xiǎo de	ào fǎn de
	fèi		渺小	अप्पमत्त
	अप्प / खुद्द / थोक / परित्त / चुल्ल / अप्पक /		miǎo xiǎo	appamatta
	蒾		परित्त / अप्प / चुल्ल / खुद्द / थोक / अप्पक /	小心的
	zuì		短的	xiǎo xīn de
	अप्प / अप्पक / चुल्ल / थोक / खुद्द / परित्त /		duǎn de	微小的
	薄		ईसक / अप्पक / अप्प /	wēi xiǎo de
	bó		蒾	注意的
	थोक / परित्त / अप्प / परित्त / अप्प / चुल्ल / तनु / चुल्ल / अप्पक / खुद्द / अप्पक / खुद्द / थोक / तनु /		ruì	zhù yì de
			अप्पक / खुद्द / अप्प / थोक / परित्त / चुल्ल /	जागर / अप्पमत्त / अस्सव /
				警醒的
				jǐng xǐng de
				अप्पमत्त / जागर /

अप्पमाद
appamāda
警戒
jǐng jiè
अप्पमाद / जागरिय /
अप्पिय
appiya
不愉快
bù yú kuài
दोमनस्स / अप्पिय /
不愉快的
bù yú kuài de
पटिक्कल / अनिडु / असुभ / असात / अप्पिय /
難聞
nán wén

अपर
apara
其他的
qí tā de
अञ्ज / अपर /
另

ling
अपर / अञ्ज / इतर / पर /
另一
ling yī
अञ्ज / अपर /
另外一个

ling wài yī gè
अञ्ज / अपर /
另外的

ling wài de
अपर / अञ्ज /
然後
rán hòu

अथो / पच्छा / अथ / अपर / तु /
西

xī
पतीचि / अपर / अपर / पतीचि / पच्छिम / पच्छिम /
西

xi
पतीचि / अपर / अपर / पतीचि / पच्छिम / पच्छिम /
西域

xi yù
पच्छिम / अपर /
西方的

xī fāng de
पच्छिम / अपर /
西洋
xi yáng
अपर / पच्छिम / पच्छिम / अपर /

西洋
xī yáng
अपर / पच्छिम / पच्छिम / अपर /
अपरभागे

aparabhāge
以后
yǐ hòu

अपराध
aparādha
犯案
fàn àn
किब्बि / अपराध /
犯罪

fàn zuì
अपराध / दुस्सन / किब्बि /
犯罪率
fàn zuì lǜ
अपराध / किब्बि /
罪行

zuì xíng
अपराध / आगु / किब्बि /
罪過

zuì guò
असदम्म / अघ / आगु / कलि / अकुसल / अतिक्कम / किब्बि / अपराध /
辜

gū
किब्बि / अपराध /

अपराधी
aparādhī
刑事
xíng shì
犯罪的
fàn zuì de
罪犯
zuì fàn
अपराधी / अतिचारी /

अपलिखन
apalikhana
刮掉
guā diào

अपलिबु
apalibuddha
漫
màn
अबन्धन / अपलिबु / अबद्द / निरग्गल /

自由
zì yóu
निरग्गल / अपलिबु / अबन्धन / अबद्द /
自由的

zì yóu de
अपलिबु / अबन्धन / निरग्गल / अबद्द /
解放

jiě fàng
निरग्गल / अबन्धन / अबद्द / अपलिबु /
अपलोकन

अपलोकना
apalokana
同意
tóng yì
अपलोकन / पटिञ्जा / अनुञ्जा / अनुमति /
許可

xǔ kě
अपलोकन / पटिञ्जा / अनुञ्जा / अनुमति / ओकास /

अपवग्ग
apavagga
下場
xià chǎng
कोण / परिनिद्धान / परियन्त / अन्त / परियोसान / अग्ग / अवसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान /
告終

gào zhōng
अपवग्ग / कोण / अन्त / ओसान / परियोसान / अग्ग / निद्दा / परिनिद्धान / अवसान / परियन्त / कोटि /
完結

wán jié
निद्दा / कोटि / ओसान / परियन्त / अन्त / अपवग्ग / परियोसान / अवसान / परिनिद्धान / कोण / अग्ग /
完結

wán jié
परियन्त / परिनिद्धान / ओसान / अवसान / अन्त / निद्दा / अग्ग / अपवग्ग / कोण / परियोसान / कोटि /
底

dǐ
ओसान / अवसान / परियन्त / पद / कोण / परियोसान / निद्दा / परिनिद्धान / पाद / अग्ग / अपवग्ग / अन्त / कोटि /
月底

yuè dǐ
परियोसान / अग्ग / अन्त / परियन्त / अवसान / ओसान / कोण / निद्दा / कोटि / परिनिद्धान / अपवग्ग /
月末

yuè mò
कोण / अवसान / ओसान / परिनिद्धान / निद्दा / परियन्त / अन्त / अग्ग / कोटि / अपवग्ग / परियोसान /
末

mò
परिनिद्धान / अपवग्ग / अग्ग / परियोसान / ओसान / निद्दा / अवसान / अन्त / कोटि / परियन्त / कोण /
末尾

mò wěi
अन्त / परियोसान / कोटि / परियन्त / ओसान / निद्दा / अपवग्ग / अग्ग / अवसान / कोण / परिनिद्धान /
末端

mò duān
अवसान / अग्ग / परिनिद्धान / अन्त / परियोसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान / परियन्त / कोण /
止境

zhǐ jìng
कोण / अग्ग / परियोसान / अन्त / कोटि / परियन्त / ओसान / अवसान / परिनिद्धान / अपवग्ग / निद्दा /
盡頭

jǐn tóu
कोण / अन्त / परियन्त / अग्ग / परिनिद्धान / परियोसान / अवसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान /

端
duān
अन्त / कोण / अपवग्ग / परिनिद्धान / कोटि / अवसान / निद्दा / परियोसान / ओसान / परियन्त / अग्ग /
端上

duān shàng
कोण / कोटि / अवसान / परिनिद्धान / अग्ग / ओसान / अपवग्ग / परियोसान / निद्दा / अन्त / परियन्त /
終

zhōng
परियन्त / कोटि / अपवग्ग / परियोसान / अवसान / अग्ग / कोण / अन्त / ओसान / परिनिद्धान / निद्दा /
終結

zhōng jié
ओसान / खय / अन्त / परिनिद्धान / अपवग्ग / परियोसान / अग्ग / परियन्त / अवसान / कोटि / कोण / निद्दा /
終點

zhōng diǎn
कोण / परियोसान / ओसान / अन्त / निद्दा / कोटि / परिनिद्धान / अपवग्ग / अग्ग / परियन्त / अवसान /
結束

jié shù
परियोसान / अन्त / ओसान / निद्दा / कोण / अग्ग / परियन्त / अपवग्ग / परिनिद्धान / अवसान / निद्धान / कोटि /
終

zhōng
कोटि / परिनिद्धान / अवसान / निद्दा / अग्ग / कोण / अपवग्ग / परियन्त / ओसान / परियोसान / अन्त /
终结

zhōng jié
परियोसान / निद्दा / परिनिद्धान / अपवग्ग / अवसान / कोण / ओसान / अन्त / कोटि / परियन्त / अग्ग /
結束

jié shù
कोटि / ओसान / अवसान / अग्ग / परियोसान / अपवग्ग / परियन्त / अन्त / निद्दा / कोण / परिनिद्धान /
遛

qiú
अवसान / परियन्त / परिनिद्धान / ओसान / कोण / अपवग्ग / अन्त / निद्दा / परियोसान / अग्ग / कोटि /

अपवाद
apavāda
責備
zé bèi
अपवाद / निग्गण्हण / अतिवाक्य / गरहन / दोस / उपक्कोस / उपवाद / अवण्ण / ओमसन / अक्कोस / निग्गह / अनुवाद /
責怪

zé guài
उपवाद / अवण्ण / निग्गह / अपवाद /

अपसव्य
apasavya
右邊
yòu biān

अपस्सय
apassaya
供養
gòng yǎng
उपकरण / ओलम्ब / पग्गह / ओलम्बक / अपस्सय / निस्सय / अवस्सय / पतिट्ठा / आलम्ब / आधार / पग्गाह / उपत्थम्भ / उपनिस्सय / उपकार / पतिद्धान / आलम्बन / दीप /
墊子

diàn zi
भिसि / अपस्सय /
撐

chēng
आलम्ब / पतिट्ठा / निस्सय / दीप / ओलम्बक / उपनिस्सय / पग्गह / आधार / उपकरण / अवस्सय / आलम्बन / ओलम्ब / पतिद्धान / उपत्थम्भ / पग्गाह / अपस्सय / उपकार /
撐腰

chēng yāo
पग्गह / निस्सय / उपकार / पग्गाह / आलम्ब / उपनिस्सय / आलम्बन / पतिद्धान / उपकरण / अवस्सय / अपस्सय / आधार / पतिट्ठा / उपत्थम्भ / ओलम्ब / दीप / ओलम्बक /
撐

chēng
आलम्बन / उपत्थम्भ / अपस्सय / आधार / ओलम्बक / ओलम्ब / पग्गाह / उपनिस्सय / पग्गह / अवस्सय / आलम्ब / उपकरण / दीप / पतिद्धान / उपकार / पतिट्ठा / निस्सय /
支持

zhī chí
पग्गह / आलम्ब / उपत्थम्भ / पतिट्ठा / उपकार / उपकरण / पग्गाह / पतिद्धान / अवस्सय / आलम्बन / निस्सय / दीप / उपनिस्सय / ओलम्ब / ओलम्बक / आधार / अपस्सय /
支援

zhī yuán
उपकार / अपस्सय / पतिट्ठा / पग्गह / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पग्गाह / अनुञ्जा / पतिद्धान / उपनिस्सय / अवस्सय / ओलम्ब / आलम्ब / निस्सय / आलम्बन / आधार / उपकरण /
支撐

zhī chēng
उपकरण / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पतिद्धान / उपनिस्सय / अपस्सय / पग्गाह / आलम्ब / पग्गह / आधार / आलम्बन / पतिट्ठा / ओलम्ब / निस्सय / अवस्सय / उपकार /
枕頭

zhěn tóu
उपधान / उस्सीसक / अपस्सय /
अपरहरण

अपहारणा
apaharāṇa
偷
tōu

अपाकट	अपापुरण	अपाय	अपि	甚至
apākaṭa	apāpuraṇa	apāya	api	shén zhì
未知的	关键	地獄	与	अद्दा / अद्दा / अपि / अपि /
wèi zhī de	guān jiàn	dì yù	yǔ	而
अपाकट / अञ्जतम / एक / अविदित /	अपापुरण / अवापुरण / कुञ्चिका / ताळ /	अपाय / निरय /	पन / अपि / च /	ér
अपाचीन	要害	地獄	且	च / अपि / पन /
apācīna	yào hài	de yù	qiě	而且
向西的	अवापुरण / अपापुरण / ताळ / कुञ्चिका /	अपाय / निरय /	पन / च / अपि /	ér qiě
xiàng xī de	鍵	損失	並	उत्तरि / अपि / च / उत्तरि / पन /
अपाद	jiàn	sǔn shī	bìng	與
apāda	ताळ / अवापुरण / अपापुरण / कुञ्चिका /	नस्सन / परिहानि / अलाभ / अपाय / जानि /	च / पन / अपि /	yǔ
爬行的	鎖上	損失	並且	च / अपि / पन /
pá xíng de	suǒ shàng	sǔn shī	bìng qiě	连
अपाद / अपादक /	कुञ्चिका / अपापुरण / अवापुरण / ताळ /	अलाभ / नस्सन / अपाय / जानि / परिहानि /	अपि / पन / च /	lián
अपादक	鑰	茫然	以及	連
apādaka	yào	máng rán	yǐ jí	lián
爬行的	अवापुरण / ताळ / कुञ्चिका / अपापुरण /	परिहानि / अपाय / जानि / नस्सन / अलाभ /	अपि / च / पन /	
pá xíng de	鑰匙	敗	但是	
अपाद / अपादक /	yào shì	bài	dàn shì	
	ताळ / अपापुरण / अवापुरण / कुञ्चिका /	अलाभ / नस्सन / परिहानि / अपाय / जानि /	पन / तु / पि / आद्दु / एव / अपि /	
	钥	過失	併	
	yào	guò shī	bìng	
	अपापुरण / कुञ्चिका / ताळ / अवापुरण /	खलित / निग्गह / अज्जाचार / दोस / अपाय / छिद्द / ओतार /	पन / अपि / च /	
	钥匙		偶	
	yào chí		ǒu	
	अपापुरण / ताळ / अपापुरण / ताळ / अवापुरण / कुञ्चिका / अवापुरण / कुञ्चिका /		पटिमा / बिम्ब / अपि / पटिबिम्ब /	
	钥匙		兼	
	yào shì		jiān	
	अपापुरण / ताळ / अपापुरण / ताळ / अवापुरण / कुञ्चिका / अवापुरण / कुञ्चिका /		च / अपि / पन /	
	键		又	
	jiàn		yòu	
	अपापुरण / ताळ / अवापुरण / कुञ्चिका /		पन / पुन / अपि / च /	
	關鍵		及	
	guān jiàn		jí	
	अपापुरण / ताळ / कुञ्चिका / अवापुरण /		अपि / पन / च /	
			及其	
			jí qí	
			पन / अपि / च /	
			可是	
			kě shì	
			अपि / पन / एव / तु / आद्दु / पि /	
			和	
			hé	
			च / अपि / पन /	
			井	
			bìng	
			च / पन / अपि /	
			并且	
			bìng qiě	
			पन / अपि / च /	
			即使	
			jì shǐ	
			暨	
			jì	
			च / पन / अपि /	
			此外	
			cǐ wài	
			अपि / उत्तरि / उत्तरि / परो /	
			甚至	
			shèn zhì	
			अद्दा / अद्दा / अपि / अपि /	

अपिधान	蓋上	अबन्धन	अब्भुत	अब्भुन्नत
apidhāna	gài shàng	abandhana	abbhuta	abbhunnata
包含	छदन / अपिधान / पापुरण / पिधान / पच्छाद / पच्चत्थरण /	漫	下注	升高
bāo hán	蓋子	màn	xià zhù	shēng gāo
पच्चत्थरण / अपिधान / पापुरण / पच्छाद / पिधान / छदन /	gài zi	अबन्धन / अपलिबु / अबद्ध / निरग्गल /	了不起的	崇
包庇	अपिधान / पच्छाद / पिधान / छदन / पच्चत्थरण / थकन / पापुरण / पटल /	自由	le bù qǐ de	chóng
bāo bì	蔽	निरग्गल / अपलिबु / अबन्धन / अबद्ध /	奇事	नमस्सन / अपचायन / तुङ्ग / उच्च / अब्भुन्नत /
पापुरण / छदन / खेटक / पच्चत्थरण / खेट / पिधान / अपिधान / पच्छाद /	bì	自由的	qí shì	昂
包罗	पच्छाद / पिधान / छदन / पापुरण / अपिधान / पच्चत्थरण /	zi yóu de	qí jǐng	áng
bāo luó	覆	अपलिबु / अबन्धन / निरग्गल / अबद्ध /	奇迹	अब्भुन्नत / तुङ्ग / उच्च /
अपिधान / छदन / पिधान / पच्छाद / पापुरण / पच्चत्थरण /	fù	解放	qí jī	果
套	पापुरण / पच्छाद / छदन / अपिधान / पिधान / पच्चत्थरण /	jiě fàng	打賭	gǎo
tào	覆蓋	निरग्गल / अबन्धन / अबद्ध / अपलिबु /	dǎ dǔ	अब्भुन्नत / उच्च / तुङ्ग /
अत्थरण / पापुरण / अपिधान / पच्छाद / पच्चत्थरण / छदन / पिधान /	fù gài	अब्भ	貝特	tóng
套子	अपिधान / छदन / पच्छाद / पच्चत्थरण / पापुरण / पिधान / परियोनहन /	abbha	bèi tè	अब्भुन्नत / तुङ्ग / उच्च /
tào zi	遮	云	賭	擅
पिधान / अपिधान / पच्छाद / पच्चत्थरण / पापुरण / छदन /	zhē	yún	dǔ	kuí
封皮	छदन / छान / पच्चत्थरण / पिधान / पच्छाद / पापुरण / अपिधान /	मेघ / अब्भ /	賭	उच्च / अब्भुन्नत / तुङ्ग /
fēng pí	遮住	天	dǔ	高
पापुरण / अपिधान / पच्छाद / पच्चत्थरण / पिधान / छदन /	zhē zhù	tiān	अब्भन्तर	gāo
幌子	अपिधान / छदन / पच्छाद / पच्चत्थरण / पापुरण / पिधान / परियोनहन /	अब्भ / दिवस / अण्ह / अघ / नाक / देव / आकास / अम्बर / दिव / दिन / ख / अन्तल्लिक्ख /	अब्भन्तर	उदार / अब्भुन्नत / उच्च / तुङ्ग /
huǎng zi	遮掩	天界	abbhantara	高位
पिधान / पच्चत्थरण / छदन / पापुरण / पच्छाद / अपिधान /	zhē yǎn	tiān jiè	之内	gāo wèi
括	छदन / पापुरण / पच्छाद / अपिधान / पिधान / पच्चत्थरण /	देव / ख / अघ / अब्भ / आकास / अम्बर / अन्तल्लिक्ख /	zhī nèi	तुङ्ग / उच्च / अब्भुन्नत /
wǔ	अफल	天空	内	高昂
अपिधान / पापुरण / छदन / पिधान / पच्छाद / पच्चत्थरण /	aphala	tiān kōng	nèi	gāo áng
掩	徒然的	अन्तल्लिक्ख / अघ / दिव / आकास / अब्भ / नाक / तारा / अनिल / ख / अम्बर / देव / तारका /	内側	तुङ्ग / उच्च / अब्भुन्नत /
yǎn	tú rán de	雲	nèi cè	高水乎
पिधान / पच्चत्थरण / पापुरण / अपिधान / पच्छाद / छदन /	अफल / निरत्थक / निप्फल /	yún	内部	gāo shuǐ píng
掩盖	अफासु	अब्भ / मेघ /	nèi bù	उच्च / अब्भुन्नत / तुङ्ग /
yǎn gài	aphāsu	雲霄	nèi bù	高的
पच्छाद / पिधान / पच्चत्थरण / पापुरण / छदन / अपिधान /	不安的	yún xiāo	उदर / कुच्छि / अब्भन्तर /	gāo de
掩护	bù ān de	देव / अम्बर / अन्तल्लिक्ख / ख / अब्भ / आकास / अघ /	内部	उच्च / अब्भुन्नत / उळार / तुङ्ग /
yǎn hù	नित्तेज / अफासु /	अब्भक	nèi bù	
पच्छाद / अपिधान / पच्चत्थरण / पिधान / पापुरण / छदन /	不自在	अब्भक	裡邊	
掩飾	bù zì zài	abbhaka	li biān	
yǎn shì	अबद्ध	石墨	裡面	
छदन / पापुरण / पच्छाद / पिधान / पच्चत्थरण / अपिधान /	abaddha	shí mò	li miàn	
盖	漫	अब्भुडान	裡頭	
gài	màn	अब्भुत्थाना	li tóu	
पिधान / अपिधान / पापुरण / पच्चत्थरण / छदन / पच्छाद /	अबन्धन / अपलिबु / अबद्ध / निरग्गल /	起床	里	
罩	自由	qǐ chuáng	lǐ	
zhào	zi yóu	进展	अब्भन्तर / अन्तो /	
अत्थरण / पापुरण / पिधान / अपिधान / छदन / पच्चत्थरण / पच्छाद /	निरग्गल / अपलिबु / अबन्धन / अबद्ध /	jìn zhǎn		
蓋	自由的	进步		
gài	zi yóu de	jìn bù		
पिधान / पच्चत्थरण / छान / अपिधान / पच्छाद / छदन / पापुरण /	अपलिबु / अबन्धन / निरग्गल / अबद्ध /	進展		
解放	jiě fàng	jìn zhǎn		
निरग्गल / अबन्धन / अबद्ध / अपलिबु /	निरग्गल / अबन्धन / अबद्ध / अपलिबु /	進步		

अब्भागत	अब्भाचिक्खन	अभय	अभिकइखन	अभिकइखत
abbhāgata	abbhācikkhana	abhaya	abhikaṅkhana	abhikaṅkhita
來賓	指控	保險	希	希
lái bīn	zhǐ kòng	bǎo xiǎn	xī	xī
अब्भागत / आगन्तुक / अतिथि / पाहुण /	चोदना / अब्भाचिक्खन /	保險箱	अभिकइखत / आसा / अभिकइखन / आसिसना / अपेक्खन /	अभिकइखत / आसा / अभिकइखन / आसिसना / अपेक्खन /
做客	控告	bǎo xiǎn xiāng	希望	希望
zuò kè	kòng gào	खेम / अभय /	希望	希望
अब्भागत / अतिथि / आगन्तुक / पाहुण /	अब्भाचिक्खन / चोदना /	安	xī wàng	xī wàng
客	罪名	ān	खन्ति / अभिकइखत / अभिकइखन / आसा / अपेक्खन / आसिसना / अभिरुचि / इच्छन / अभिलासा /	खन्ति / अभिकइखत / अभिकइखन / आसा / अपेक्खन / आसिसना / अभिरुचि / इच्छन / अभिलासा /
kè	चोदना / अब्भाचिक्खन /	安全	指望	指望
अब्भागत / अतिथि / पाहुण / आगन्तुक /	罪狀	ān quán	zhǐ wàng	zhǐ wàng
客人	zuì zhuàng	पाटिभोग / अभय / खेम /	अभिकइखन / अपेक्खन / अभिकइखत / आसिसना / आसा /	अभिकइखन / अपेक्खन / अभिकइखत / आसिसना / आसा /
kè rén	चोदना / अब्भाचिक्खन /	安全性	望	望
आगन्तुक / पाहुण / अब्भागत / अतिथि /	अबल	ān quán xìng	wàng	wàng
賓	abala	अभय / पाटिभोग /	आसिसना / अभिकइखन / आसा / अपेक्खन / अभिकइखत /	आसिसना / अभिकइखन / आसा / अपेक्खन / अभिकइखत /
bīn	孱	安全的	期待	期待
पाहुण / अब्भागत / आगन्तुक / अतिथि /	chán	ān quán de	qī dài	qī dài
來賓	अबल / दुब्बल /	安危	अभिकइखत / अभिकइखन / आसिसना / आसा / अपेक्खन /	अभिकइखत / अभिकइखन / आसिसना / आसा / अपेक्खन /
lái bīn	ruò	ān wēi	期望	期望
आगन्तुक / पाहुण / अब्भागत / अतिथि /	दुब्बल / अबल /	穩妥	qī wàng	qī wàng
生人	ruò de	wēn tuǒ	अभिलासा / इच्छा / अभिकइखत / इच्छन / जालिनी / पिहायना / अपेक्खन / निकामना / अभिकइखन / आसा / आसिसना /	अभिलासा / इच्छा / अभिकइखत / इच्छन / जालिनी / पिहायना / अपेक्खन / निकामना / अभिकइखन / आसा / आसिसना /
shēng rén	अबल / दुब्बल /	अभाव	渴望	渴望
अतिथि / आगन्तुक / अब्भागत /	微弱	abhāva	kě wàng	kě wàng
賓	wēi ruò	不在	कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकइखन / जालिनी / अपेक्खन / आसा / एजा / इच्छा / तण्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकइखत / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /	कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकइखन / जालिनी / अपेक्खन / आसा / एजा / इच्छा / तण्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकइखत / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /
bīn	दुब्बल / अबल /	bù zài	消失	消失
पाहुण / आगन्तुक / अब्भागत / अतिथि /	微弱的	xiāo shī	अन्तरधायन / अदस्सन / नब्बापन / चुति / अभाव / अन्तरधान / अपंगम /	अन्तरधायन / अदस्सन / नब्बापन / चुति / अभाव / अन्तरधान / अपंगम /
陌生人	wēi ruò de	quē fá	अत्य / अभाव / अदस्सन /	अत्य / अभाव / अदस्सन /
mò shēng rén	दुब्बल / अबल /	缺席	quē xí	quē xí
अतिथि / पर / अब्भागत / आगन्तुक /	柔弱	缺乏	अभाव / अदस्सन /	अभाव / अदस्सन /
अब्भागमन	薄弱	quē fá	अभिकइखन / आसा / आसिसना /	अभिकइखन / आसा / आसिसना /
abbhāgamana	báo ruò	अभिकइखन / जालिनी / अपेक्खन / आसा / एजा / इच्छा / तण्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकइखत / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /	अभिकइखन / आसा / आसिसना /	अभिकइखन / आसा / आसिसना /
到任	अबल / दुब्बल / पभइगुर / पभइगुर / अबल / दुब्बल /	quē xí	अभिकइखन / आसा / आसिसना /	अभिकइखन / आसा / आसिसना /
dào rèn	薄弱	अभाव / अदस्सन /	渴望	渴望
अनुपपत्ति / पत्ति / अब्भागमन / आगमन /	bó ruò	quē xí	yù wàng de	yù wàng de
到來	अबल / दुब्बल / पभइगुर / पभइगुर / अबल / दुब्बल /	अभाव / अदस्सन /	अभिगिज्झन	अभिगिज्झन
dào lái	虛弱	quē xí	abhigijjhana	abhigijjhana
अनुपपत्ति / आगमन / पत्ति / अब्भागमन /	xū ruò	अभाव / अदस्सन /	渴望	渴望
到來	दुब्बल / अबल /	अभिकइखन / आसा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकइखत / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /	kě wàng	kě wàng
dào lái	衰	quē xí	कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकइखन / जालिनी / अपेक्खन / आसा / एजा / इच्छा / तण्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकइखत / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /	कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकइखन / जालिनी / अपेक्खन / आसा / एजा / इच्छा / तण्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकइखत / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /
पत्ति / आगमन / अब्भागमन / अनुपपत्ति /	shuāi	quē xí	渴求	渴求
抵达	अबल / दुब्बल /	अभाव / अदस्सन /	kě qiú	kě qiú
dǐ dá	衰弱	अभिकइखन / आसा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकइखत / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /	तण्हा / एजा / तसिना / नन्दि / अभिगिज्झन / जालिनी /	तण्हा / एजा / तसिना / नन्दि / अभिगिज्झन / जालिनी /
पत्ति / आगमन / अनुपपत्ति / अब्भागमन /	shuāi ruò	अभाव / अदस्सन /		
抵達	अबल / दुब्बल /	अभिकइखन / आसा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकइखत / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /		
dǐ dá	軟弱	अभाव / अदस्सन /		
पत्ति / आगमन / अनुपपत्ति / अब्भागमन /	ruǎn ruò	अभाव / अदस्सन /		
अब्भागमन /	दुब्बल / अबल /	अभाव / अदस्सन /		
अब्भूत	अभूत	अभाव / अदस्सन /		
abhūta	abhūta	अभाव / अदस्सन /		
謊言	謊言	अभाव / अदस्सन /		
huǎng yán	huǎng yán	अभाव / अदस्सन /		
कट / असच्च / अभूत / अतच्छ / अलिक /	कट / असच्च / अभूत / अतच्छ / अलिक /	अभाव / अदस्सन /		

अभिघात	अभिजप्पन	अभिजप्पित	अभिण्हं	अभिण्हसो
abhighāta	abhijappana	abhijappita	abhiṇham	abhiṇhaso
接觸	演講	演講	不時	一向
jiē chù	yǎn jiǎng	yǎn jiǎng	bù shí	yī xiàng
फोटुब्ब / फस्स / अभिघात / 殺害	अभिजप्पन / अभिलाप / अभिजप्पित /	अभिजप्पन / अभिलाप / अभिजप्पित /	常	अभिण्हसो / निबद्धं / 一律
shā hài	聊聊	聊聊	cháng	yī lǜ
अभिघात / निग्घातन / अभिघातन / घात / अतिपात / नासन / पातन /	liáo liáo	liáo liáo	निबद्धं / अभिण्हसो / अभिण्हं / 常常	निबद्धं / अभिण्हसो / 从来
碰撞	अभिजप्पित / अभिलाप / अभिजप्पन /	अभिजप्पित / अभिलाप / अभिजप्पन /	cháng cháng	cóng lái
pèng zhuàng	談	談	भुस / अभिण्हं /	अभिण्हसो / निबद्धं /
पटिघात / पटिघ / आघात / अभिघात /	tán	tán	往往	再三地
अभिघातन	अभिलाप / अभिजप्पन / अभिजप्पित /	अभिलाप / अभिजप्पन / अभिजप्पित /	wǎng wǎng	zài sān dì
abhighātana	談到	談到	时常	历来
殺害	tán dào	tán dào	shí cháng	lì lái
shā hài	अभिजप्पन / अभिजप्पित / अभिलाप /	अभिजप्पन / अभिजप्पित / अभिलाप /	時常	अभिण्हसो / निबद्धं /
अभिघात / निग्घातन / अभिघातन / घात / अतिपात / नासन / पातन /	談論	談論	shí cháng	向來
अभिघाती	tán lùn	tán lùn	बहसो / अभिण्हं / बहूल / 每每	xiàng lái
abhighāī	अभिलाप / अभिजप्पित / अभिजप्पन /	अभिलाप / अभिजप्पित / अभिजप्पन /	měi měi	अभिण्हसो / निबद्धं /
仇人	講話	講話	經常	始終
chóu rén	jiǎng huà	jiǎng huà	jīng cháng	shǐ zhōng
पच्चनिक / पच्चत्थिक / पटिकण्टक / अभिघाती / अमित्त / पच्चामित्त / दिस / पटिपक्ख / अरि /	अभिजप्पित / अभिलाप / अभिजप्पन /	अभिजप्पित / अभिलाप / अभिजप्पन /		अभिण्हसो / निबद्धं /
敌	講述	講述		始終
dí	jiǎng shù	jiǎng shù		shǐ zhōng
अमित्त / अभिघाती / अरि / पच्चत्थिक / पच्चनिक / पटिपक्ख / दिस / पच्चामित्त / पटिकण्टक /	अभिजप्पित / अभिलाप / अभिजप्पन /	अभिजप्पित / अभिलाप / अभिजप्पन /		अभिण्हसो / निबद्धं / 常
敌人	議論	議論		cháng
dí rén	yì lùn	yì lùn		निबद्धं / अभिण्हसो / अभिण्हं / 從來
अमित्त / पटिपक्ख / अभिघाती / पटिकण्टक / दिस / अरि / पच्चत्थिक / पच्चनिक / पच्चामित्त /	अभिजप्पन / अभिलाप / अभिजप्पित /	अभिजप्पन / अभिलाप / अभिजप्पित /		cóng lái
敵	談	談		अभिण्हसो / निबद्धं /
dí	tán	tán		总是
अमित्त / अभिघाती / पच्चनिक / पच्चामित्त / दिस / पटिकण्टक / पटिपक्ख / अरि / पच्चत्थिक /	अभिजप्पित / अभिलाप / अभिजप्पन /	अभिजप्पित / अभिलाप / अभिजप्पन /		zǒng shì
敵人	談論	談論		अभिण्हसो / निबद्धं /
dí rén	tán lùn	tán lùn		永
दिस / अभिघाती / पच्चनिक / पटिपक्ख / अरि / पच्चत्थिक / पटिकण्टक / पच्चामित्त / अमित्त /	अभिजप्पन / अभिलाप / अभिजप्पित /	अभिजप्पन / अभिलाप / अभिजप्पित /		yǒng
敵方	谈话	谈话		निबद्धं / अभिण्हसो /
dí fāng	tán huà	tán huà		總是
पच्चत्थिक / अरि / दिस / पटिकण्टक / पच्चामित्त / अमित्त / पटिपक्ख / अभिघाती / पच्चनिक /	अभिलाप / अभिजप्पन / अभिजप्पित /	अभिलाप / अभिजप्पन / अभिजप्पित /		zǒng shì
敵軍				अभिण्हसो / निबद्धं /
dí jūn				總能
पटिपक्ख / दिस / पच्चनिक / पटिकण्टक / पच्चत्थिक / अरि / अमित्त / अभिघाती / पच्चामित्त /				zǒng néng
				अभिण्हसो / निबद्धं /
		अभिजानन		老是
		abhijānana		lǎo shì
		回想		अभिण्हसो / निबद्धं /
		huí xiǎng		अभितो
		अभिजानन / अनुस्सरण /		abhito
		回憶		周圍
		huí yì		zhōu wéi
		अनुस्सति / अभिजानन /		अभिधेय्य
		承認		abhidheyya
		chéng rèn		意義
		記憶		yì yì
		jì yì		अत्थ / अभिधेय्य /
		अनुस्सति / अनुस्सरण / अभिजानन /		

अभिधान	अभिनव	अभिप्पसाद	अभिमुख	अभियुञ्जन
abhidhāna	abhinava	abhippasāda	abhimukha	abhiyuñjana
任命	新	信心	前方	審判
rèn mìng	xīn	xìn xīn	qián fāng	shěn pàn
अव्हय / अभिधान / आख्या / नाम / अव्हान /	अहत / अभिनव / नव / नूतन / अचिर /	熱愛	पमुख / मुख / अभिमुख /	遵守
取名	新的	rè ài	前端	zūn shǒu
qǔ míng	xīn de	पुरेक्खार / अभिप्पसाद / पसीदन / भत्ति / पियायना /	qián duān	पटिपज्जन / अभियुञ्जन / अभियोग /
अव्हय / नाम / अभिधान / आख्या / अव्हान /	अभिनव / अहत / अचिर / नूतन / नव /	अभिभू	अभिमुख / मुख / पमुख /	अभियाचन
名	新鮮	abhibhū	前線	abhiyācana
míng	xīn xiān	大君主	qián xiàn	懇求
अव्हान / अभिधान / नाम / आख्या / अव्हय /	नव / अभिनव / अहत / नूतन /	dà jūn zhǔ	मुख / अभिमुख / पमुख /	kěn qiú
名义	耗	征服者	前線	求
míng yì	hào	zhēng fú zhě	qián xiàn	qiú
आख्या / नाम / अव्हान / अभिधान / अव्हय /	नव / अचिर / अभिनव / नूतन / अहत /	अभिभू / जिन /	मुख / अभिमुख / पमुख /	अज्जेसना / आयाचना / अभियाचन /
名字	鮮	अभिभवन	前邊	要
míng zì	xiān	abhibhavana	qián biān	yào
अव्हान / अव्हय / अभिधान / नाम / आख्या /	अभिनव / अहत / नूतन / नव /	克服	मुख / पमुख / अभिमुख /	छन्द / अभियाचन /
名称	अभिनिष्फत्ति	kè fú	qián bù	要求
míng chēng	abhinipphatti	अतिवत्त / नित्थरण / अभिभवन / उत्तरण /	धुर / पमुख / अभिमुख / मुख /	yào qiú
अव्हान / अव्हय / आख्या / नाम / अभिधान /	成就		前面	आसिंसना / आसा / जालिनी / पिहायना / इच्छन / निकामना / अभिलासा / अत्थ / इच्छा / अपेक्खन / अभियाचन /
míng chēng	chéng jiù		qián miàn	要求物
अव्हान / अव्हय / आख्या / नाम / अभिधान /	आराधना / निष्फादन / कुसलता / अभिनिष्फत्ति / निष्फज्जन /		पमुख / अभिमुख / मुख /	yào qiú wù
名稱	अभिनिरोपन		向	請求
míng chēng	abhiniropana		xiàng	請求
अव्हय / नाम / अव्हान / अभिधान / आख्या /	अभिनिरोपन		正面	qiǐng qiú
名義	應用		zhèng miàn	अभियाचन / आयाचना / अज्जेसना /
míng yì	yīng yòng		मुख / अभिमुख / पमुख /	請求
आख्या / नाम / अव्हय / अव्हान / अभिधान /	आयाचना / अभिनिरोपन / उपयोग /		跟前	qiǐng qiú
名詞	施用		gēn qián	अभियाचन / आयाचना / अज्जेसना /
míng cí	shī yòng		अभिमुख / मुख / पमुख /	請求
अव्हान / अव्हय / अभिधान / नाम / आख्या /	शयोजन / अत्थ / अभिनिरोपन / अत्थवस / परिभोग / उपभोग /		車頭	qiǐng qiú
命名	申請		chē tóu	अभियाचन / आयाचना / अज्जेसना /
mìng míng	shēn qǐng		पमुख / अभिमुख / मुख /	अभियोग
अव्हान / अव्हय / आख्या / अभिधान / नाम /	आयाचना / अभिनिरोपन / उपयोग /		陣	abhiyoga
姓名	申請書		zhèn	遵守
xìng míng	shēn qǐng shū		पमुख / अभिमुख / मुख /	zūn shǒu
अभिधान / आख्या / नाम / अव्हय / अव्हान /	अभिनिरोपन / उपयोग / आयाचना /		陣	पटिपज्जन / अभियुञ्जन / अभियोग /
指名	運用		zhèn	अभिरक्खन
zhǐ míng	yùn yòng		मुख / अभिमुख / पमुख /	abhirakkhana
नाम / अव्हय / अभिधान / अव्हान / आख्या /	परिभोग / अभिनिरोपन / अत्थवस / अत्थ / उपभोग / पयोजन /		陣線	保护
अभिनन्दन	अभिनिवेस		zhèn xiàn	bǎo hù
abhinandana	abhinivesa		पमुख / अभिमुख / मुख /	अनुपालन / तायन / पटिसरण / आरक्खा / निस्सय / अनुरक्खा / परिहार / गोपन / अनुरक्खन / गुत्ति / नाथ / अभिरक्खन / ताण / पालन /
歡喜	傾向		अभिमङ्गल	保護
huan xǐ	qīng xiàng		abhimaṅgala	bǎo hù
अभिनन्दन / पमोद / तुस्सना / आनन्द / पामुज्ज / पीति / नन्दि / त्ठि / पामाज्ज /	निन्नता / आसय / अभिनिवेस / पाताल / पसङ्ग / अनुसय / पब्भार / अधिमुत्ति / नति /		吉兆的	तायन / गोपन / गुत्ति / परिहार / अनुरक्खा / अनुरक्खन / पटिसरण / नाथ / अभिरक्खन / आरक्खा / अनुपालक / पालन / अनुपालन / निस्सय / ताण /
अभिनयन	趨勢		jí zhào de	
abhinayana	qū shì		भद् / मङ्गल / अभिमङ्गल /	
質詢	अभिनीहार		अभिमद्दन	
zhì xún	abhinīhāra		abhimaddana	
अभिनयन / पञ्ह /	抱負		征服	
	bào fù		zhēng fú	
			अभिमद्दन / निम्मद्दन / दम / दमथ /	
			अभिमान	
			abhimāna	
			自尊	
			zì zūn	

अभिरुचि	अभिलाप	अभिलासा	अभिवड्ढन	अभिसन्द
abhiruci	abhilāpa	abhilāsā	abhivaḍḍhana	abhisanda
希望	演講	希望	加價	成效
xī wàng	yǎn jiǎng	xī wàng	jiā jià	chéng xiào
खन्ति / अभिकङ्खित / अभिकङ्खन / आसा / अपेक्खन / आसिसना / अभिरुचि / इच्छन / अभिलासा /	भासन / उदाहार / अभिलाप / गद / 演講	खन्ति / अभिकङ्खित / अभिकङ्खन / आसा / अपेक्खन / आसिसना / अभिरुचि / इच्छन / अभिलासा /	फातिकम्म / अभिवड्ढन / उपब्रूहन / पवड्ढन / उदय / उग्गम / उन्नति /	फल / निस्सन्द / अभिसन्द / अभिसन्दन / निष्फज्जन / निष्फत्ति /
渴望	अभिजप्पन / अभिलाप / अभिजप्पित /	愿望	加大	成果
kě wàng	聊聊	yuàn wàng	jiā dà	chéng guǒ
कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकङ्खन / जालिनी / अपेक्खन / आसा / एजा / इच्छा / तप्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकङ्खित / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /	liáo liáo	अपेक्खन / निकामना / अभिलासा / इच्छा / इच्छन / जालिनी / आसा / आसिसना / पिहायना / छन्द /	उदय / उन्नति / उपब्रूहन / अभिवड्ढन / उग्गम / पवड्ढन / फातिकम्म /	फल / निस्सन्द / निष्फज्जन / अभिसन्द / निष्फत्ति / आय / उदय / अभिसन्दन /
अभिरति	अभिजप्पित / अभिलाप / अभिजप्पन /	期望	增	效果
abhirati	談	qī wàng	zēng	xiào guǒ
滿意	tán	अभिलासा / इच्छा / अभिकङ्खित / इच्छन / जालिनी / पिहायना / अपेक्खन / निकामना / अभिकङ्खन / आसा / आसिसना /	पवड्ढन / अभिवड्ढन / फातिकम्म / उदय / उन्नति / उपब्रूहन / उग्गम /	निष्फज्जन / अभिसन्द / फल / अभिसन्दन / निस्सन्द / निष्फत्ति /
mǎn yì	अभिलाप / अभिजप्पन / अभिलाप /	欲望	增加	果
अभिरूप	談到	yù wàng	zēng jiā	guǒ
abhirūpa	tán dào	आसा / पिहायना / तप्हा / निकामना / अपेक्खन / आसिसना / इच्छा / अभिलासा / जालिनी / इच्छन /	ब्रूहन / फातिकम्म / उपब्रूहन / उग्गम / अभिवड्ढन / उन्नति / उदय / पवड्ढन /	निष्फत्ति / अभिसन्दन / अभिसन्द / फल / निष्फज्जन / निस्सन्द /
英俊的	अभिजप्पन / अभिजप्पित / अभिलाप /	欲求	增多	流出
yīng jùn de	談論	yù wàng	zēng duō	liú chū
अभिराम	tán lùn	आसा / पिहायना / तप्हा / निकामना / अपेक्खन / आसिसना / इच्छा / अभिलासा / जालिनी / इच्छन /	पवड्ढन / फातिकम्म / अभिवड्ढन / उपब्रूहन / उदय / उग्गम / उन्नति /	अभिसन्द / पसव /
abhirāma	अभिलाप / अभिजप्पित / अभिजप्पन /	欲求	增强	究竟
合意的	jiǎng huà	yù qiú	zēng qiáng	jiū jìng
hé yì de	अभिजप्पित / अभिलाप / अभिजप्पन /	आसा / निकामना / इच्छा / इच्छन / अपेक्खन / आसिसना / जालिनी / अभिलासा / पिहायना /	उग्गम / उपब्रूहन / फातिकम्म / पवड्ढन / उदय / उन्नति / अभिवड्ढन /	निष्फज्जन / अभिसन्दन / निष्फत्ति / अभिसन्द / पि / फल / निस्सन्द / तु /
कन्त / अभिराम /	講述	渴望	zēng tiān	結果
愉快的	jiǎng shù	kě wàng	फातिकम्म / उग्गम / उदय / उपब्रूहन / उन्नति / अभिवड्ढन / पवड्ढन /	jié guǒ
yú kuài de	अभिजप्पित / अभिलाप / अभिजप्पन /	कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकङ्खन / जालिनी / अपेक्खन / आसा / एजा / इच्छा / तप्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकङ्खित / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /	增殖	निष्फज्जन / अभिसन्द / निष्फत्ति / निग्गम / निस्सन्द / अभिसन्दन / फल /
कन्त / इड्ड / अभिराम / फासु / अनुक्ल /	議論	祝	zēng zhí	结果
	yì lùn	zhù	उग्गम / उन्नति / अभिवड्ढन / उदय / उपब्रूहन / पवड्ढन / फातिकम्म /	jié guǒ
	अभिजप्पन / अभिलाप / अभिजप्पित /	祝	zēng tiān	अभिसन्दन / निस्सन्द / अभिसन्द / फल / निष्फज्जन / निष्फत्ति /
	談	要求	फातिकम्म / उग्गम / उदय / उपब्रूहन / उन्नति / अभिवड्ढन / पवड्ढन /	
	tán	yào qiú	增長	
	अभिजप्पित / अभिलाप / अभिजप्पन /	आसिसना / आसा / जालिनी / पिहायना / इच्छन / निकामना / अभिलासा / अत्थ / इच्छा / अपेक्खन / अभियाचन /	zēng zhǎng	
	談论	願望	zēng zhǎng	
	tán lùn	yuàn wàng	अभिवड्ढन / उदय / उग्गम / उपब्रूहन / फातिकम्म / पवड्ढन / उन्नति /	
	अभिजप्पन / अभिलाप / अभिजप्पित /	अपेक्खन / निकामना / अभिलासा / आसिसना / आसा / पिहायना / इच्छन / इच्छा / जालिनी /	生長	
	谈话		shēng zhǎng	
	tán huà		अभिवड्ढन / उदय /	
	अभिलाप / अभिजप्पन / अभिजप्पित /		益	

अभिसज्जन

abhisajjana

忿怒

fèn nù

कोध / दोस / दुस्सन / कुप्पन / अभिसज्जन /

अभिसन्दन	अभिसारिका	अम्बर	अम्बिल	अमर
abhisandana	abhisārikā	ambara	ambila	amara
成效	姦女	佈	酸	上帝
chéng xiào	jì nǚ	bù	suān	shàng dì
फल / निस्सन्द / अभिसन्द / अभिसन्दन / निष्फज्जन / निष्फत्ति /	गणिका / गणिका / अभिसारिका / अभिसारिका /	चोळ / चेल / अम्बर / दुस्स / पट /	酸味	देव / देवत्त / अमर /
成果	姦女	天	suān wèi	不朽
chéng guǒ	jì nǚ	tiān	酸性	bù xiǔ
फल / निस्सन्द / निष्फज्जन / अभिसन्द / निष्फत्ति / आय / उदय / अभिसन्दन /	गणिका / गणिका / अभिसारिका / अभिसारिका /	अब्भ / दिवस / अण्ह / अघ / नाक / देव / आकास / अम्बर / दिव / दिन / ख / अन्तळिक्ख /	suān xìng	不朽的
效果	अभिहार	天界	अमम	bù xiǔ de
xiào guǒ	abhihāra	tiān jiè	amama	ठितिक / अमर /
निष्फज्जन / अभिसन्द / फल / अभिसन्दन / निस्सन्द / निष्फत्ति /	अभिहार	देव / ख / अघ / अब्भ / आकास / अम्बर / अन्तळिक्ख /	不自私的	不死
果	abhihāra	天空	bù zì sī de	bù sǐ
guǒ	提供	tiān kōng	अमम / निस्सङ्ग /	不死的
निष्फत्ति / अभिसन्दन / अभिसन्द / फल / निष्फज्जन / निस्सन्द /	tí gōng	अन्तळिक्ख / अघ / दिव / आकास / अब्भ / नाक / तारा / अनिल / ख / अम्बर / देव / तारका /	अम्मा	bù sǐ de
究竟	同事	布	ammā	अच्युत / अमर /
jiū jìng	tóng shì	bù	娘	不滅
निष्फज्जन / अभिसन्दन / निष्फत्ति / अभिसन्द / पि / फल / निस्सन्द / तु /	同僚	पट / चेल / अम्बर / चोळ / दुस्स /	niáng	bù miè
結果	tóng liáo	布帛菽粟	जननी / जनिका / अम्बा / कन्ता / थी / अङ्गना / नारी / अम्मा / इत्थि / इत्थि / जनेत्ती /	仙
jié guǒ	अमत	bù bó shū sù	婆婆	xian
निष्फज्जन / अभिसन्द / निष्फत्ति / निग्गम / निस्सन्द / अभिसन्दन / फल /	amata	पट / चोळ / दुस्स / अम्बर / चेल /	pó pó	अमर / अमर /
结果	神的食物	布料	जननी / जनेत्ती / जनिका / अम्बा / अम्मा /	仙
jié guǒ	shén de shí wù	bù liào	岳母	xiān
निष्फज्जन / अभिसन्द / निष्फत्ति / निग्गम / निस्सन्द / अभिसन्दन / फल /	अम्बु	चेल / दुस्स / चोळ / पट / अंसु / अम्बर / चोळक /	yuè mǔ	अमर / अमर /
结果	ambu	桌布	जनेत्ती / अम्बा / अम्मा / जनिका / जननी /	仙人
jié guǒ	下水	zhuō bù	母	xiān rén
अभिसन्दन / निस्सन्द / अभिसन्द / फल / निष्फज्जन / निष्फत्ति /	xià shuǐ	चोळ / पट / चेल / अम्बर / दुस्स /	mǔ	अमर / अमर /
अभिसपन	तोय / ओक / नीर / अम्बु / जल / अण्ण / दक / उदक /	衣料	जननी / अम्मा / जनिका / अम्बा / जनेत्ती /	神
abhisapana	水	yī liào	母亲	shén
宣誓	shuǐ	अम्बर / दुस्स / पट / चोळ / चेल / 雲霄	mǔ qīn	अमर / देव / देवत्त / निज्जर /
xuān shì	तोय / पान / अण्ण / जल / उदक / दक / अम्बु / नीर / ओक /	yún xiāo	जननी / जनिका / जनेत्ती / अम्मा / अम्बा /	神仙
盟	水中	देव / अम्बर / अन्तळिक्ख / ख / अब्भ / आकास / अघ /	母親	shén xiān
méng	shuǐ zhōng	अम्बा	mǔ qīn	अमर / अमर /
詛咒	ओक / जल / अण्ण / उदक / नीर / तोय / दक / अम्बु /	अम्बा	अम्मा / अम्बा / जनिका / जनेत्ती / जननी /	神仙
zǔ zhòu	水源	ambā		shén xian
अभिसपन / अभिसाप /	shuǐ yuán	娘		अमर / अमर /
誓	तोय / दक / नीर / पभव / अम्बु / निदान / उदक / ओक / जल / अण्ण /	niáng		अमरा
shì	缺水	जननी / जनिका / अम्बा / कन्ता / थी / अङ्गना / नारी / अम्मा / इत्थि / इत्थि / जनेत्ती /		amarā
誓言	quē shuǐ	婆婆		鰻魚
shì yán	नीर / जल / तोय / अण्ण / ओक / दक / अम्बु / उदक /	pó pó		mán yú
起誓	अभिसपन	जननी / जनेत्ती / जनिका / अम्बा / अम्मा /		鰻魚
qǐ shì	abhisamaya	岳母		mán yú
अभिसमय	洞察	yuè mǔ		अमातापितिक
abhisamaya	dòng chá	जनेत्ती / अम्बा / अम्मा / जनिका / जननी /		amātāpītika
洞察	अभिसाप	母		
dòng chá	abhisāpa	mǔ		
अभिसाप	詛咒	जननी / अम्मा / जनिका / अम्बा / जनेत्ती /		
abhisāpa	zǔ zhòu	母亲		
詛咒	अभिसपन / अभिसाप /	mǔ qīn		
zǔ zhòu		जननी / जनिका / जनेत्ती / अम्मा / अम्बा /		
अभिसपन / अभिसाप /		母親		
		mǔ qīn		
		अम्मा / अम्बा / जनिका / जनेत्ती / जननी /		

अमित्त	अय	अय्य	अय्यका	अरञ्ज
amitta	aya	ayya	ayyakā	arañña
仇人	定期收入	主	奶奶	林
chóu rén	dìng qī shōu rù	zhǔ	nǎi nǎi	lín
पच्चनिक / पच्चत्थिक / पटिकण्टक / अभिघाती / अमित्त / पच्चामित्त / दिस / पटिपक्ख / अरि /	आय / उदय / अय /	इस्सर / अधिप / पति / अधिपति / अय्य /	अय्यका / अय्यिका /	林木
作	收	主人	婆	lín mù
wǔ	shōu	zhǔ rén	pó	अरञ्ज / दारु /
पटिपक्ख / अमित्त / पच्चत्थिक / पच्चनिक /	अय / आय / उदय /	इस्सर / पति / अधिप / नायक / अधिपति / अय्य /	अय्यका / अय्यिका /	林野
对手	收入	君子	祖母	lín yě
duì shǒu	shōu rù	jūn zǐ	zǔ mǔ	森
पच्चामित्त / पच्चनिक / अमित्त / पच्चत्थिक / पटिपक्ख /	बलि / अय / आय / उदय /	大師	अय्यिका / अय्यका /	sēn
敌	收益	dà shī	अय्या	森林
dí	shōu yì	अधिप / अय्य / अधिपति / पति / इस्सर /	ayyā	sēn lín
अमित्त / अभिघाती / अरि / पच्चत्थिक / पच्चनिक / पटिपक्ख / दिस / पच्चामित्त / पटिकण्टक /	उदय / पत्ति / आय / बलि / अय / आनिसंस / उपभोग /	好手	女主人	कडु / अरञ्ज / दब्ब / दारु /
敌人	熨	hǎo shǒu	nǚ zhǔ rén	樹林
dí rén	yùn	अय्य / इस्सर / अधिपति / पति / अधिप /	अय्या / नायक /	shù lín
अमित्त / पटिपक्ख / अभिघाती / पटिकण्टक / दिस / अरि / पच्चत्थिक / पच्चनिक / पच्चामित्त /	काळायस / अय /	師傅	情人	अरण
敵	熨斗	shī fù	qíng rén	arana
dí	yùn dòu	पति / अय्य / अधिपति / अधिप / इस्सर /	qíng fù	和平的
अमित्त / अभिघाती / पच्चनिक / पच्चामित्त / दिस / पटिकण्टक / पटिपक्ख / अरि / पच्चत्थिक /	敵人	shī fu	shú nǚ	hé píng de
dí rén	अय / काळायस /	師父	अय्या / अय्या /	अरुण
अमित्त / पटिपक्ख / अभिघाती / पटिकण्टक / दिस / अरि / पच्चत्थिक / पच्चनिक / पच्चामित्त /	鐵	tiě	qīng fù	aruṇa
敵	鐵頭	tiě tóu	shū nǚ	紅色
dí	kaōyās / अय /	kaōyās / अय /	shū nǚ	hóng sè
अमित्त / अभिघाती / पच्चनिक / पच्चामित्त / दिस / पटिकण्टक / पटिपक्ख / अरि / पच्चत्थिक /	鐵	tiě	shū nǚ	अरति
敵人	鐵人	tiě rén	guì fù rén	arati
dí rén	अय / काळायस /	अय्य / अय्या /	अय्यिका	厭惡
दिस / अभिघाती / पच्चनिक / पटिपक्ख / अरि / पच्चत्थिक / पटिकण्टक / पच्चामित्त / अमित्त /	अयुत्त	法師	ayyikā	yàn è
敵方	ayutta	fǎ shī	अय्यिका	जिगुच्छन / पटिघ / अनालय / अरति / पटिघात / निब्बि /
dí fāng	不 unfair	अय्य / अधिप / पति / इस्सर / अधिपति /	ayyikā	अरह
पच्चत्थिक / अरि / दिस / पटिकण्टक / पच्चामित्त / अमित्त / पटिपक्ख / अभिघाती / पच्चनिक /	bù gōng píng	紳士	ayyikā	araha
敵軍		shēn shì	奶奶	值得的
dí jūn		tǒng zhì zhě	nǎi nǎi	zhí dé de
पटिपक्ख / दिस / पच्चनिक / पटिकण्टक / पच्चत्थिक / अरि / अमित्त / अभिघाती / पच्चामित्त /		इन्द / ईस / इस्सर / अय्य / अधिप / अधिपति / पति /	अय्यका / अय्यिका /	
अमोह		老 爺	祖母	
amoha		lǎo ye	zǔ mǔ	
智		अय्य / अधिपति / पति / अधिप / इस्सर /	अय्यिका / अय्यका /	
zhì		領主	अयस	
बु / पञ्जा / भूरि / जाण / अमोह /		lǐng zhǔ	ayasa	
智慧		अधिप / इस्सर / अय्य / अधिपति / पभू / पति /	恥辱	
zhì huì		अय्यक	chǐ rǔ	
पञ्जा / बु / भूरि / जाण / अमोह /		अय्यका	耻	
		祖父	chǐ	
		zǔ fù	辱	
		अय्यक / पितामह /	rǔ	
		老 爺 爺	तिरोक्कार / उपवाद / ओमसना / अयस / घट्टन / अक्कोस / आसज्जन /	
		lǎo ye ye	अयोज्झ	
		पितामह / अय्यक /	ayojjha	
			克服不了的	
			kè fú bù le de	

अरि	अरिय	अलङ्कार	अलसक	अलिक
ari	ariya	alaṅkāra	alasaka	alika
仇人	高尚	裝飾物	消化不良	假話
chóu rén	gāo shàng	zhuāng shì wù	xiāo huà bù liáng	jiǎ huà
पच्चनिक / पच्चत्थिक / पटिकण्टक / अभिघाती / अमित्त / पच्चामित्त / दिस / पटिपक्ख / अरि /	उळार / अरिय /	पसाधन / आभरण / अलङ्कार /	अजीरक / अलसक /	撒謊
敵	高貴	裝修	अलात	sā huǎng
dí	gāo guì	zhuāng xiū	alāta	誑
अमित्त / अभिघाती / अरि / पच्चत्थिक / पच्चनिक / पटिपक्ख / दिस / पच्चामित्त / पटिकण्टक /	उळार / अरिय /	आभरण / पसाधन / अलङ्करण / अलङ्कार /	火把	kuáng
敵人	अरिस	裝飾	huǒ bǎ	說謊
dí rén	arisa	zhuāng shì	उक्का / अलात / उम्मुक /	shuō huǎng
अमित्त / पटिपक्ख / अभिघाती / पटिकण्टक / दिस / अरि / पच्चत्थिक / पच्चनिक / पच्चामित्त /	痔	पसाधन / अलङ्कार / पिलन्धन / आभरण / अलङ्करण /	अलाभ	謊
敵人	zhì	अल्ल	alābha	huǎng
dí rén	dùnna māk / arisa /	अला	損失	謊言
अमित्त / पटिपक्ख / अभिघाती / पटिकण्टक / दिस / अरि / पच्चत्थिक / पच्चनिक / पच्चामित्त /	痔瘡	alla	sǔn shī	huǎng yán
敵	zhì chuāng	未成熟的	नस्सन / परिहानि / अलाभ / अपाय / जानि /	कूट / असच्च / अभूत / अतच्छ / अलिक /
dí	dùnna māk / arisa /	wèi chéng shú de	損失	謊話
अमित्त / अभिघाती / पच्चनिक / पच्चामित्त / दिस / पटिकण्टक / पटिपक्ख / अरि / पच्चत्थिक /	अरोग	अल्ल / आमक / आम /	sǔn shī	huǎng huà
敵人	aroga	湿的	अलाभ / नस्सन / अपाय / जानि / परिहानि /	说谎
dí rén	jiàn kāng de	shī de	茫然	shuō huǎng
अमित्त / अभिघाती / पच्चनिक / पच्चामित्त / दिस / पटिकण्टक / पटिपक्ख / अरि / पच्चत्थिक /	अरोग / कल्ल / निरोग / निरातङ्क /	濕	máng rán	謊
敵人	अलक्खिक	shī	परिहानि / अपाय / जानि / नस्सन / अलाभ /	huǎng
dí rén	alakkhika	अल्लाप	敗	躺
दिस / अभिघाती / पच्चनिक / पटिपक्ख / अरि / पच्चत्थिक / पटिकण्टक / पच्चामित्त / अमित्त /	不吉利的	allāpa	bài	tǎng
敵方	bù jí lì de	交談	अलाभ / नस्सन / परिहानि / अपाय / जानि /	अवक्कार
dí fāng	àv mǎng āl / aridḍ / alakkhik /	jiāo tán	अलि	avakkāra
पच्चत्थिक / अरि / दिस / पटिकण्टक / पच्चामित्त / अमित्त / पटिपक्ख / अभिघाती / पच्चनिक /	不幸	कतिका / अल्लाप / आलाप / कथन /	ali	丟棄
敵軍	bù xìng	अलस	alī	diū qì
dí jūn	अलक्खिक / उपद्व / अनत्थ / अघ / आपदा / अनय /	alasa	蜂	छड्डन / पटिनिस्सग्ग / निक्खेप / अवक्कार /
पटिपक्ख / दिस / पच्चनिक / पटिकण्टक / पच्चत्थिक / अरि / अमित्त / अभिघाती / पच्चामित्त /	不幸的	佚	fēng	拒
अरिड्ड	bù xìng de	yì	अलि / छप्पद /	jù
ariḍḍha	निस्सिरीक / अलक्खिक /	dài	mì fēng	कसट / अवक्कार /
不吉利的	अलगद्द	कुसीत / अलस /	अलि / छप्पद /	拒絕
bù jí lì de	alagadda	惰	蠍	jù jué
अवमङ्गल / अरिड्ड / अलक्खिक /	蛇	duò	hé	अवक्कार / पच्चक्खान / पटिनिस्सग्ग / कसट /
烏鴉	shé	कुसीत / अलस /	अलि / अलि /	अवेक्खन
wū yā	भोगी / दुजिह् / आसीविस / उरग / अहि / अलगद्द /	懶	蠍	avekkhana
धङ्क / अरिड्ड / काक /	अलङ्करण	lǎn	xiē	看著
烏鴉	alaṅkaraṇa	कुसीत / अलस /	अलि / अलि /	kàn zhe
wū yā	整理	懶惰	蠍子	
काक / धङ्क / अरिड्ड /	zhěng lǐ	lǎn duò	xiē zi	
鴉	裝修	अलस / कुसीत /	蠍	
yā	zhuāng xiū	懶惰的	xiē	
अरिड्ड / धङ्क / काक /	आभरण / पसाधन / अलङ्करण / अलङ्कार /	lǎn duò de	蠍子	
鴉	裝飾	कुसीत / अलस /	xiē zi	
yā	zhuāng shì	懶散		
धङ्क / अरिड्ड / काक /	पसाधन / अलङ्कार / पिलन्धन / आभरण / अलङ्करण /	lǎn sàn		
अरित्त	अरित्त	懶散的		
aritta	aritta	lǎn sàn de		
方向舵	方向舵	懶		
fāng xiàng duò	fāng xiàng duò	lǎn		
舵	舵	कुसीत / अलस /		
duò	duò	懶惰		
		lǎn duò		
		अलस / कुसीत /		
		閒		
		xián		

अवच	अवचरण	अवद्धान	अवण्ण	अवदात
avaca	avacarāṇa	avaṭṭhāna	avaṇṇa	avadāta
低	交易	位	咎	白
dī	jiāo yì	wèi	jiù	bái
नीच / ओरक / निकिडु / अधम / छव / अवच / निहीन / निन्नता /	職業	पद / आयतन / पदेस / अवद्धान / निसीदन / आसन / ठान / पीठ /	अवण्ण / निग्गह / उपवाद /	ओदात / अवदात / धवल / दोसिना /
低下	zhí yè	位置	怨	白的
dī xià	अवचरण / कम्मन्त /	wèi zhì	yuàn	bái de
ओरक / अधम / निकिडु / अवच / निहीन / नीच / छव /	अवजानन	अवद्धान / पद / पदेस / ठान / आसन / निसीदन / आयतन / पीठ /	निग्गह / उपवाद / अवण्ण /	ओदात / अवदात / धवल /
低沉	avajānana	地位	歸咎	白暫
dī chén	晒	de wèi	guī jiù	bái xǐ
छव / नीच / निकिडु / ओरक / अवच / अधम / निहीन /	shěn	पदेस / पदेस / ठान / अवद्धान / पद / पद / ठान / आयतन / आयतन / अवद्धान /	निग्गह / उपवाद / अवण्ण /	अवदात / ओदात / धवल /
低的	अवजानन / अवमञ्जना / अवञ्जा / अतिमञ्जना /	地位	罪	白粉
dī de	蔑視	dì wèi	zuì	bái fěn
निन्न / अधम / निकिडु / ओरक / नीच / निहीन / अवच / छव /	miè shì	पदेस / पदेस / ठान / अवद्धान / पद / पद / ठान / आयतन / आयतन / अवद्धान /	असद्धम्म / कलि / निग्गह / पाप / अघ / अवण्ण / अकुसल / उपवाद /	धवल / अवदात / ओदात /
低級	輕視	姿	責備	白紙
dī jí	qīng shì	zī	zé bèi	bái zhǐ
अधम / अवच / छव / निहीन / नीच / ओरक / निकिडु /	अवजानन / अवञ्जा / अतिमञ्जना / अवमञ्जना /	इरिया / इरियना / अवद्धान /	अपवाद / निग्गहण / अतिवाक्य / गरहन / दोस / उपक्कोस / उपवाद / अवण्ण / ओमसना / अक्कोस / निग्गह / अनुवाद /	ओदात / धवल / अवदात /
低落	qīng miè	姿勢	zé guài	bái sè
dī luò	अवञ्जा / अवमञ्जना / अवजानन / अतिमञ्जना /	zī shì	उपवाद / अवण्ण / निग्गह / अपवाद /	अवदात / ओदात / धवल /
छव / नीच / निकिडु / ओरक / अधम / अवच / निहीन /	輕視	अवद्धान / इङ्गित / इरिया / इरियना /	अवत्थरण	白色的
卑	qīng shì	姿态	avattharaṇa	bái sè de
bēi	अवञ्जा / अवमञ्जना / अवजानन / अतिमञ्जना /	zī tài	排列	ओदात / धवल / अवदात /
अवच / निकिडु / निहीन / छव / ओरक / नीच / अधम /	鄙視	局面	pái liè	皓
卑下	bǐ shì	局	擊敗	hào
bēi xià	अवमञ्जना / अवजानन / अवञ्जा / अतिमञ्जना /	jú miàn	jī bài	दोसिना / धवल / ओदात / अवदात /
नीच / छव / निहीन / अवच / ओरक / निकिडु / अधम /	अवञ्जा	身份	कलि / अपजित / अवत्थरण /	暫
鄙	avafīñā	shēn fèn	अवतरण	xǐ
bǐ	晒	आयतन / ठान / पद / पदेस / अवद्धान /	avatarana	अवदात / धवल / ओदात /
नीच / अवच / छव / निहीन / ओरक / निकिडु / अधम /	shěn	身分	降	皜
隳	अवजानन / अवमञ्जना / अवञ्जा / अतिमञ्जना /	shēn fēn	jiàng	hào
xí	失禮	अवद्धान / आयतन / पद /	थेव / पतन / अवतरण /	धवल / अवदात / ओदात /
नीच / अधम / निहीन / अवच / निकिडु / छव / ओरक /	shī lǐ	部位		皜
अवचरक	輕視	bù wèi		pó
avacaraka	qīng shì	पदेस / ठान / अवद्धान / आयतन / पद /		ओदात / धवल / अवदात /
刺探	अवजानन / अवञ्जा / अतिमञ्जना / अवमञ्जना /			
cì tàn	輕蔑			
密探	qīng miè			
mì tàn	अवञ्जा / अवमञ्जना / अवजानन / अतिमञ्जना /			
特務	輕視			
tè wu	qīng shì			
狙	अवञ्जा / अवमञ्जना / अवजानन / अतिमञ्जना /			
jū	鄙視			
耳目	bǐ shì			
ěr mù	अवमञ्जना / अवजानन / अवञ्जा / अतिमञ्जना /			
諜				
dié				
諜				
dié				
間諜				
jiān dié				
間諜				
jiān dié				

अवधि	अवनि	अवबोध	अवभास	轻
avadhi	avani	avabodha	avabhāsa	qīng
圻	土地	深知	亮光	पज्जोत / निभा / पदीप / पभा / भा / जोति / पभास / अवभास / भानु / दित्ति / आलोक / आभा /
qí	tǔ de	shēn zhī	liàng guāng	अवमङ्गल
परिच्छेद / ओधि / अवधि /	भूमि / अवनि / पंसु / छमा / भूमि / छमा / पंसु / अवनि / थल / थल /	आजानन / परिजानन / अधिगम / पञ्जा / बोध / अनुबोध / अवबोध /	भानु / आभा / अवभास / जोति / पभास / पज्जोत / पभा / भा / आलोक / निभा / दित्ति / पदीप /	avamaṅgala
垓	土地	理解	光	不吉利的
gāi	tǔ dì	lǐ jiě	guāng	bù jí lì de
ओधि / परिच्छेद / अवधि /	भूमि / अवनि / पंसु / छमा / भूमि / छमा / पंसु / अवनि / थल / थल /	अनुबोध / अनुबु / अवबोध / पट्टिवेध / उपट्टान /	आलोक / दित्ति / भा / पज्जोत / पदीप / पभास / आभा / पभा / जोति / अवभास / भानु / निभा /	अवमङ्गल / अरिद्ध / अलक्खिक /
垸		理解力	光線	凶兆
shān		lǐ jiě lì	光線	xiōng zhào
ओधि / परिच्छेद / अवधि /		知識	guāng xiàn	अवमञ्जना
境		zhī shi	अवभास / पदीप / निभा / पभास / पज्जोत / पभा / भानु / कर / जोति / आलोक / किरण / दित्ति / भा / आभा /	avamaññana
jìng		知识	出現	不敬
परियन्त / अवधि / परिच्छेद /		zhī shī	chū xiàn	bù jìng
徼		अनुबोध / अधिगम / बोध / आजानन / परिजानन / अनुबोध / अवबोध /	對光	अनादर / अवमञ्जना /
jiào		認識	duì guāng	晒
परिच्छेद / ओधि / अवधि /		rèn shi	पज्जोत / जोति / भानु / पदीप / पभा / अवभास / आलोक / दित्ति / निभा / भा / पभास / आभा /	shěn
极限		अवबोध / अनुबु / उपट्टान / अनुबोध /	淡	अवजानन / अवमञ्जना / अवञ्जा / अतिमञ्जना /
jí xiàn		諒解	dàn	忽視
परिच्छेद / परियन्त / अवधि / परिमाण / ओधि /		liàng jiě	जोति / निभा / पज्जोत / पभा / भानु / आलोक / भा / अवभास / दित्ति / पभास / पदीप / आभा /	bù jìng
界限		अवबोध / उपट्टान / अनुबु / अनुबोध /	淡淡	अनादर / अवमञ्जना /
jiè xiàn		識	dàn dàn	晒
अवधि / परिच्छेद / ओधि /		shi	पदीप / जोति / दित्ति / अवभास / आभा / पज्जोत / पभा / पभास / आलोक / भानु / भा / निभा /	shěn
眈		认识	清淡	अवजानन / अवमञ्जना / अवञ्जा / अतिमञ्जना /
zhēn		rèn shi	qīng dàn	忽視
ओधि / अवधि / परियन्त / परिच्छेद /		अवबोध / अवबोध / अनुबोध / अनुबोध / उपट्टान / उपट्टान / अनुबु / अनुबु /	qīng shì	bù jìng
疆		认识	avajānaṇa	अनादर / अवमञ्जना /
jiāng		rèn shī	dēng	晒
ओधि / परियन्त / परिच्छेद / अवधि /		अवबोध / अवबोध / अनुबोध / अनुबोध / उपट्टान / उपट्टान / अनुबु / अनुबु /	दित्ति / पदीप / अवभास / पभास / आलोक / पभा / जोति / भा / भानु / पज्जोत / आभा / निभा /	shěn
疆界		识	dēng	अवजानन / अवमञ्जना / अवञ्जा / अतिमञ्जना /
jiāng jiè		shī	पज्जोत / दित्ति / पभा / जोति / भानु / निभा / भा / पदीप / पभास / आभा / अवभास / आलोक / दीप /	忽視
ओधि / परिच्छेद / अवधि / परियन्त /		अधिगम / अवबोध / बोध / परिजानन / बोध / पञ्जा / पञ्जा / अनुबोध / परिजानन / अनुबोध / अधिगम / अवबोध / आजानन /	dēng guāng	bù jìng
边际		认识	avajānaṇa	अनादर / अवमञ्जना /
biān jì		shi	dēng	晒
अवधि / परियन्त / परिमाण / परिच्छेद / ओधि /		अधिगम / अवबोध / बोध / परिजानन / बोध / पञ्जा / पञ्जा / अनुबोध / परिजानन / अनुबोध / अधिगम / अवबोध / आजानन /	पज्जोत / दित्ति / पभा / जोति / भानु / निभा / भा / पदीप / पभास / आभा / अवभास / आलोक / दीप /	shěn
邊界		识	avajānaṇa	अवजानन / अवमञ्जना / अवञ्जा / अतिमञ्जना /
biān jiè		shi	dēng	忽視
अवधि / ओधि / परिच्छेद / परियन्त /		अधिगम / अवबोध / बोध / परिजानन / बोध / पञ्जा / पञ्जा / अनुबोध / परिजानन / अनुबोध / अधिगम / अवबोध / आजानन /	पज्जोत / दित्ति / पभा / जोति / भानु / निभा / भा / पदीप / पभास / आभा / अवभास / आलोक / दीप /	bù jìng
际		认识	dēng guāng	अनादर / अवमञ्जना /
jì		shi	avajānaṇa	晒
परिच्छेद / अवधि / परियन्त /		अधिगम / अवबोध / बोध / परिजानन / बोध / पञ्जा / पञ्जा / अनुबोध / परिजानन / अनुबोध / अधिगम / अवबोध / आजानन /	पज्जोत / दित्ति / पभा / जोति / भानु / निभा / भा / पदीप / पभास / आभा / अवभास / आलोक / दीप /	shěn
限制		识	avajānaṇa	अवजानन / अवमञ्जना / अवञ्जा / अतिमञ्जना /
xiàn zhì		shi	dēng	忽視
परिच्छेद / परिमाण / अवधि / ओधि / नियम / परियन्त /		अधिगम / अवबोध / बोध / परिजानन / बोध / पञ्जा / पञ्जा / अनुबोध / परिजानन / अनुबोध / अधिगम / अवबोध / आजानन /	पज्जोत / दित्ति / पभा / जोति / भानु / निभा / भा / पदीप / पभास / आभा / अवभास / आलोक / दीप /	bù jìng
限定		认识	avajānaṇa	अनादर / अवमञ्जना /
xiàn dìng		shi	dēng	晒
ओधि / नियम / अवधि / परियन्त / परिच्छेद / परिमाण /		अधिगम / अवबोध / बोध / परिजानन / बोध / पञ्जा / पञ्जा / अनुबोध / परिजानन / अनुबोध / अधिगम / अवबोध / आजानन /	पज्जोत / दित्ति / पभा / जोति / भानु / निभा / भा / पदीप / पभास / आभा / अवभास / आलोक / दीप /	shěn
限度		认识	avajānaṇa	अवजानन / अवमञ्जना / अवञ्जा / अतिमञ्जना /
xiàn dù		shi	dēng	忽視
नियम / परिच्छेद / परिमाण / ओधि / अवधि / परियन्त /		अधिगम / अवबोध / बोध / परिजानन / बोध / पञ्जा / पञ्जा / अनुबोध / परिजानन / अनुबोध / अधिगम / अवबोध / आजानन /	पज्जोत / दित्ति / पभा / जोति / भानु / निभा / भा / पदीप / पभास / आभा / अवभास / आलोक / दीप /	bù jìng

अवयव
avayava
一部份
yī bù fèn
अवयव / पटिविस / भाग / अंस / कोडास /
份
fèn
भाग / पटिविस / पत्ति / कोडास / अंस / अवयव /
員
yuán
員
yuán
局部
jú bù
भाग / अवयव / अंस /
成員
chéng yuán
會員
hui yuán
股
gǔ
भाग / पत्ति / अवयव / पटिविस / अंस / कोडास /
肢
zhī
अङ्ग / अवयव /
要素
yào sù
धातु / अवयव /
部
bù
अवयव / भाग / अंस /
部份
bù fèn
अंस / कोडास / अवयव / पटिविस / भाग /
部分
bù fēn
कोडास / पत्ति / अवयव / अंस / पटिविस / भाग /

अवेर
avera
仁慈
rén cí
अवेर / दया / कल्याण /
友善的
yǒu shàn de
好意
hǎo yì
अनुगगणहन / उपकार / दया / अवेर /

अवरोधक
avarodhaka
妨害者
fáng hài zhě

अवलम्बन
avalambana
助
zhù
पतिङ्गा / उपकार / अनुगगणहन / आलम्ब / अनुबल / पटिसरण / उपकरण / दीप / अवलम्बन / अवस्सय /
協助
xié zhù
आलम्ब / अनुबल / अवलम्बन / उपकार / दीप / उपकरण / अवस्सय / अनुगगणहन / पटिसरण / पतिङ्गा /
壁助
bì zhù
उपकरण / पटिसरण / अवस्सय / उपकार / अनुगगणहन / दीप / अनुबल / अवलम्बन / आलम्ब / पतिङ्गा /
幫
bāng
अनुबल / पतिङ्गा / आलम्ब / अनुगगणहन / दीप / अवलम्बन / उपकरण / पटिसरण / उपकार / अवस्सय /
幫助
bāng zhù
अनुबल / उपकरण / अनुगगणहन / दीप / पतिङ्गा / अवलम्बन / पटिसरण / उपकार / अवस्सय / आलम्ब /
帮忙
bāng máng
अवस्सय / दीप / पतिङ्गा / उपकरण / अनुगगणहन / उपकार / पटिसरण / अनुबल / आलम्ब / अवलम्बन /
幫
bāng
अनुगगणहन / अवलम्बन / उपकरण / पतिङ्गा / उपकार / अवस्सय / अनुबल / आलम्ब /
幫助
bāng zhù
पतिङ्गा / अवलम्बन / अवस्सय / दीप / पटिसरण / उपकार / अनुगगणहन / अनुबल / उपकरण / आलम्ब /
幫忙
bāng máng
अनुगगणहन / अवलम्बन / उपकार / अवस्सय / अनुबल / उपकरण / आलम्ब / दीप / पटिसरण / पतिङ्गा /
扶
fú
आलम्ब / पटिसरण / अवस्सय / दीप / अनुगगणहन / उपकरण / उपकार / पतिङ्गा / अवलम्बन / अनुबल /
扶助
fú zhù
अवस्सय / उपकरण / दीप / अनुगगणहन / उपकार / अवलम्बन / अनुबल / पटिसरण / आलम्ब / पतिङ्गा /
救助
jiù zhù
पतिङ्गा / अवस्सय / अनुबल / अवलम्बन / अनुगगणहन / दीप / आलम्ब / उपकरण / उपकार / पटिसरण /

救命
jiù mìng
अवलम्बन / आलम्ब / पटिसरण / उपकरण / अनुगगणहन / दीप / अनुबल / उपकार / अवस्सय / पतिङ्गा /
救援
jiù yuán
आलम्ब / पटिसरण / अनुगगणहन / उपकार / दीप / अवस्सय / अवलम्बन / उपकरण / अनुबल / पतिङ्गा /
有助
yǒu zhù
पटिसरण / अवलम्बन / पतिङ्गा / उपकरण / दीप / अनुबल / उपकार / अवस्सय / अनुगगणहन / आलम्ब /
अवलेहन
avalehana
蕊
tiǎn
अवसर
avasara
機會
jī huì
अवसर / ओकास / ओतार / खण /

अवसेस
avasesa
零头
líng tóu
अवस्सुत
avassuta
好色的
hǎo sè de
अवस्सुत / कामुक /

अवस्सय
avassaya
供養
gōng yǎng
उपकरण / ओलम्ब / पग्गह / ओलम्बक / अपस्सय / निस्सय / अवस्सय / पतिङ्गा / आलम्ब / आधार / पग्गाह / उपत्थम्भ / उपनिस्सय / उपकार / पतिङ्गान / आलम्बन / दीप /
助
zhù
पतिङ्गा / उपकार / अनुगगणहन / आलम्ब / अनुबल / पटिसरण / उपकरण / दीप / अवलम्बन / अवस्सय /
協助
xié zhù
आलम्ब / अनुबल / अवलम्बन / उपकार / दीप / उपकरण / अवस्सय / अनुगगणहन / पटिसरण / पतिङ्गा /
壁助
bì zhù
उपकरण / पटिसरण / अवस्सय / उपकार / अनुगगणहन / दीप / अनुबल / अवलम्बन / पतिङ्गा /
幫
bāng
अनुबल / पतिङ्गा / आलम्ब / अनुगगणहन / दीप / अवलम्बन / उपकरण / पटिसरण / उपकार / अवस्सय /
幫助
bāng zhù
अनुबल / उपकरण / अनुगगणहन / दीप / पतिङ्गा / अवलम्बन / पटिसरण / उपकार / अवस्सय / आलम्ब /
帮忙
bāng máng
अवस्सय / दीप / पतिङ्गा / उपकरण / अनुगगणहन / उपकार / पटिसरण / अनुबल / आलम्ब / अवलम्बन /
幫
bāng
अनुगगणहन / अवलम्बन / उपकरण / पतिङ्गा / उपकार / अवस्सय / अनुबल / पटिसरण / दीप / आलम्ब /
幫助
bāng zhù
पतिङ्गा / अवलम्बन / अवस्सय / दीप / पटिसरण / उपकार / अनुगगणहन / अनुबल / उपकरण / आलम्ब /
幫忙
bāng máng
अनुगगणहन / अवलम्बन / उपकार / अवस्सय / अनुबल / उपकरण / आलम्ब / दीप / पटिसरण / पतिङ्गा /
扶
fú
आलम्ब / पटिसरण / अवस्सय / दीप / अनुगगणहन / उपकरण / उपकार / पतिङ्गा / अवलम्बन / अनुबल / पटिसरण / आलम्ब / पतिङ्गा /
扶助
fú zhù
अवस्सय / उपकरण / दीप / अनुगगणहन / उपकार / अवलम्बन / अनुबल / पटिसरण / आलम्ब /
扶助
fú zhù
अवस्सय / उपकरण / दीप / अनुगगणहन / उपकार / अवलम्बन / अनुबल / पटिसरण / आलम्ब / पतिङ्गा /

अवस्सय
avassaya
撐
chēng
आलम्ब / पतिङ्गा / निस्सय / दीप / ओलम्बक / उपनिस्सय / पग्गह / आधार / उपकरण / अवस्सय / आलम्बन / ओलम्ब / पतिङ्गान / उपत्थम्भ / पग्गाह / अपस्सय / उपकार /
撐腰
chēng yāo
पग्गह / निस्सय / उपकार / पग्गाह / आलम्ब / उपनिस्सय / आलम्बन / पतिङ्गान / उपकरण / अवस्सय / अपस्सय / आधार / पतिङ्गा / उपत्थम्भ / ओलम्ब / दीप / ओलम्बक /
撐
chēng
आलम्बन / उपत्थम्भ / अपस्सय / आधार / ओलम्बक / ओलम्ब / पग्गाह / उपनिस्सय / पग्गह / अवस्सय / आलम्ब / उपकरण / दीप / पतिङ्गान / उपकार / पतिङ्गा / निस्सय /
支持
zhī chí
पग्गह / आलम्ब / उपत्थम्भ / पतिङ्गा / उपकार / उपकरण / पग्गाह / पतिङ्गान / अवस्सय / आलम्बन / निस्सय / दीप / उपनिस्सय / ओलम्ब / ओलम्बक / आधार / अपस्सय /
支援
zhī yuán
उपकार / अपस्सय / पतिङ्गा / पग्गह / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पग्गाह / अनुञ्जा / पतिङ्गान / उपनिस्सय / अवस्सय / ओलम्ब / आलम्ब / निस्सय / आलम्बन / आधार / उपकरण /
支撐
zhī chēng
उपकरण / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पतिङ्गान / उपनिस्सय / अपस्सय / पग्गाह / आलम्ब / पग्गह / आधार / आलम्बन / पतिङ्गा / ओलम्ब / निस्सय / अवस्सय / उपकार /
救助
jiù zhù
पतिङ्गा / अवस्सय / अनुबल / अवलम्बन / अनुगगणहन / दीप / आलम्ब / उपकरण / उपकार / पटिसरण /
救命
jiù mìng
अवलम्बन / आलम्ब / पटिसरण / उपकरण / अनुगगणहन / दीप / अनुबल / उपकार / अवस्सय / पतिङ्गा /
救援
jiù yuán
आलम्ब / पटिसरण / अनुगगणहन / उपकार / दीप / अवस्सय / अवलम्बन / उपकरण / अनुबल / पतिङ्गा /
有助
yǒu zhù
पटिसरण / अवलम्बन / पतिङ्गा / उपकरण / दीप / अनुबल / उपकार / अवस्सय / अनुगगणहन / आलम्ब /

अवसान
avasāna
下場
xià chǎng
कोण / परिनिष्ठान / परियन्त / अन्त / परियोसान / अगग / अवसान / कोटि / अपवग्ग / निष्ठा / ओसान /
停止
tíng zhǐ
ओसान / अवसान / उपरति / निरुज्झन / उपच्छेद /
告終
gào zhōng
अपवग्ग / कोण / अन्त / ओसान / परियोसान / अगग / निष्ठा / परिनिष्ठान / अवसान / परियन्त / कोटि /
完結
wán jié
निष्ठा / कोटि / ओसान / परियन्त / अन्त / अपवग्ग / परियोसान / अवसान / परिनिष्ठान / कोण / अगग /
完結
wán jié
परियन्त / परिनिष्ठान / ओसान / अवसान / अन्त / निष्ठा / अगग / अपवग्ग / कोण / परियोसान / कोटि /
底
dǐ
ओसान / अवसान / परियन्त / पद / कोण / परियोसान / निष्ठा / परिनिष्ठान / पाद / अगग / अपवग्ग / अन्त / कोटि /
月底
yuè dǐ
परियोसान / अगग / अन्त / परियन्त / अवसान / ओसान / कोण / निष्ठा / कोटि / परिनिष्ठान / अपवग्ग /
月末
yuè mò
कोण / अवसान / ओसान / परिनिष्ठान / निष्ठा / परियन्त / अन्त / अगग / कोटि / अपवग्ग / परियोसान /
末
mò
परिनिष्ठान / अपवग्ग / अगग / परियोसान / ओसान / निष्ठा / अवसान / अन्त / कोटि / परियन्त / कोण /
末尾
mò wěi
अन्त / परियोसान / कोटि / परियन्त / ओसान / निष्ठा / अपवग्ग / अगग / अवसान / कोण / परिनिष्ठान /
末端
mò duān
अवसान / अगग / परिनिष्ठान / अन्त / परियोसान / कोटि / अपवग्ग / निष्ठा / ओसान / परियन्त / कोण /
止境
zhǐ jìng
कोण / अगग / परियोसान / अन्त / कोटि / परियन्त / ओसान / अवसान / परिनिष्ठान / अपवग्ग / निष्ठा /

盡頭
jìn tóu
कोण / अन्त / परियन्त / अगग / परिनिष्ठान / परियोसान / अवसान / कोटि / अपवग्ग / निष्ठा / ओसान /
端
duān
अन्त / कोण / अपवग्ग / परिनिष्ठान / कोटि / अवसान / निष्ठा / परियोसान / ओसान / परियन्त / अगग /
端上
duān shàng
कोण / कोटि / अवसान / परिनिष्ठान / अगग / ओसान / अपवग्ग / परियोसान / निष्ठा / अन्त / परियन्त /
終
zhōng
परियन्त / कोटि / अपवग्ग / परियोसान / अवसान / अगग / कोण / अन्त / ओसान / परिनिष्ठान / निष्ठा /
終結
zhōng jié
ओसान / खय / अन्त / परिनिष्ठान / अपवग्ग / परियोसान / अगग / परियन्त / अवसान / कोटि / कोण / निष्ठा /
終點
zhōng diǎn
कोण / परियोसान / ओसान / अन्त / निष्ठा / कोटि / परिनिष्ठान / अपवग्ग / अगग / परियन्त / अवसान /
結束
jié shù
परियोसान / अन्त / ओसान / निष्ठा / कोण / अगग / परियन्त / अपवग्ग / परिनिष्ठान / अवसान / निष्ठा / कोटि /
終
zhōng
कोटि / परिनिष्ठान / अवसान / निष्ठा / अगग / कोण / अपवग्ग / परियन्त / ओसान / परियोसान / अन्त /
終結
zhōng jié
परियोसान / निष्ठा / परिनिष्ठान / अपवग्ग / अवसान / कोण / ओसान / अन्त / कोटि / परियन्त / अगग /
結束
jié shù
कोटि / ओसान / अवसान / अगग / परियोसान / अपवग्ग / परियन्त / अन्त / निष्ठा / कोण / परिनिष्ठान /
邊
qiú
अवसान / परियन्त / परिनिष्ठान / ओसान / कोण / अपवग्ग / अन्त / निष्ठा / परियोसान / अगग / कोटि /

अह्य
avhaya
任命
rèn mìng
अह्य / अभिधान / आख्या / नाम / अहान /
取名
qǔ míng
अह्य / नाम / अभिधान / आख्या / अहान /
名
míng
अहान / अभिधान / नाम / आख्या / अह्य /
名义
míng yì
आख्या / नाम / अहान / अभिधान / अह्य /
名字
míng zì
अहान / अह्य / अभिधान / नाम / आख्या /
名称
míng chēng
अहान / अह्य / आख्या / नाम / अभिधान /
名稱
míng chēng
अह्य / नाम / अहान / अभिधान / आख्या /
名義
míng yì
आख्या / नाम / अह्य / अहान / अभिधान /
名词
míng cí
अहान / अह्य / अभिधान / नाम / आख्या /
命名
mìng míng
अहान / अह्य / आख्या / अभिधान / नाम /
姓名
xìng míng
अभिधान / आख्या / नाम / अह्य / अहान /
指名
zhǐ míng
नाम / अह्य / अभिधान / अहान / आख्या /

अहान
avhāna
任命
rèn mìng
अह्य / अभिधान / आख्या / नाम / अहान /
取名
qǔ míng
अह्य / नाम / अभिधान / आख्या / अहान /
名
míng
अहान / अभिधान / नाम / आख्या / अह्य /
名义
míng yì
आख्या / नाम / अहान / अभिधान / अह्य /
名字
míng zì
अहान / अह्य / अभिधान / नाम / आख्या /
名称
míng chēng
अहान / अह्य / आख्या / नाम / अभिधान /
名稱
míng chēng
अह्य / नाम / अहान / अभिधान / आख्या /
名義
míng yì
आख्या / नाम / अह्य / अहान / अभिधान /
名词
míng cí
अहान / अह्य / अभिधान / नाम / आख्या /
命名
mìng míng
अहान / अह्य / आख्या / अभिधान / नाम /
姓名
xìng míng
अभिधान / आख्या / नाम / अह्य / अहान /
指名
zhǐ míng
नाम / अह्य / अभिधान / अहान / आख्या /

अवापुरण
avāpurana
关键
guān jiàn
अपापुरण / अवापुरण / कुञ्चिका / ताळ /
要害
yào hài
अवापुरण / अपापुरण / ताळ / कुञ्चिका /
鍵
jiàn
ताळ / अवापुरण / अपापुरण / कुञ्चिका /
鎖上
suǒ shàng
कुञ्चिका / अपापुरण / अवापुरण / ताळ /
鑰
yào
अवापुरण / ताळ / कुञ्चिका / अपापुरण /
鑰匙
yào shì
ताळ / अपापुरण / अवापुरण / कुञ्चिका /
钥
yào
अपापुरण / कुञ्चिका / ताळ / अवापुरण /
钥匙
yào chí
अपापुरण / ताळ / अपापुरण / ताळ / अवापुरण / कुञ्चिका / अवापुरण / कुञ्चिका /
钥匙
yào shì
अपापुरण / ताळ / अपापुरण / ताळ / अवापुरण / कुञ्चिका / अवापुरण / कुञ्चिका /
鍵
jiàn
अपापुरण / ताळ / अवापुरण / कुञ्चिका /
關鍵
guān jiàn
अपापुरण / ताळ / कुञ्चिका / अवापुरण /
अविक्खेप
avikkhepa
平靜
píng jìng
पस्सद्धि / पस्सम्भेना / अविक्खेप /
अविज्जा
avijjā
不知
bù zhī
तम / अविज्जा / अजानन / अञ्जाण /
无知
wú zhī
तम / अविज्जा / अजानन / अञ्जाण /
無知
wú zhī
अजानन / अञ्जाण / तम / अविज्जा /

अविदूर	अविसंवाद	असच्च	असन	असमान
avidūra	avisamvāda	asacca	asana	asamāna
接近的	事實	謊言	吃	不相等的
jiē jìn de	shì shí	huǎng yán	chī	bù xiāng děng de
उपनायिक / निकट / निकट / आगमन / धुर / आसन्न / उपकट / अविदूर /	तच्छ / अविसंवाद / धम्म / तथ /	कट / असच्च / अभूत / अतच्छ / अलिक /	खादन / असन / भोत्तुं / अनुभवन / भक्खन /	
附近	अविहिंसा	असुचि	矢	
fù jìn	avihimsā	asuci	shǐ	
उपचार / अविदूर / उपनिस्साय /	人性	垢	असन / उसु / तेजन /	
अविदित	rén xìng	垢	箭	
avidita	अनुपघात / अविहिंसा /	gòu	jiàn	
未知的	人類	जल्लिका / असुचि / उक्लाप / कालुसिय /	असन / उसु / तेजन /	
wèi zhī de	rén lèi	大便	食	
अपाकट / अञ्जतम / एक / अविदित /	अविहिंसा / अनुपघात /	dà biàn	shí	
अविनिर्भोग	अंस	गूथ / असुचि / उक्कार / उच्चार / करीस /	भिक्षा / घास / भत्त / आमिस / आहार / अन्न / भोत्तुं / असित / भोजन / असन /	
avinibbhoga	अंसा	屎	食品	
अबुझ	一部份	shǐ	shí pǐn	
bù míng le de	yī bù fèn	असुचि / उच्चार /	भिक्षा / आहार / आमिस / भोजन / भत्त / असन / अन्न / असित / घास /	
अविष्पवास	अवयव / पटिविस / भाग / अंस / कोट्टास /	排泄物	食物	
avippavāsa	份	pái xiè wù	食物	
注意	fèn	गूथ / करीस / उक्कार / असुचि / उच्चार /	shí wù	
zhù yì	भाग / पटिविस / पत्ति / कोट्टास / अंस / अवयव /	汚	घास / भोजन / भिक्षा / अण्ण / आहार / अन्न / आमिस / असित / भत्त / असन /	
चित्तीकार / गुत्ति / गारव / अच्यना / गोपन / परिहार / अविष्पवास /	局部	wū	飯	
注意力	jú bù	उक्लाप / असुचि / कालुसिय / जल्लिका /	fàn	
zhù yì lì	भाग / अवयव / अंस /	污垢	आहार / असित / असन / घास / अन्न / आमिस / भिक्षा / भत्त / भोजन /	
अविष्पवास / परिहार /	擔負	wū gòu	असनि	
注目	dān fù	उक्लाप / जल्लिका / असुचि / कालुसिय /	asani	
zhù mù	股	泥	asani	
परिहार / अविष्पवास /	gǔ	ní	雷霆	
留神	भाग / पत्ति / अवयव / पटिविस / अंस / कोट्टास /	उक्लाप / कलल / कट्टम / जल्लिका / चिक्खल्ल / कालुसिय / असुचि / पड्डक /	léi tíng	
liú shén	肩	秽	霹靂	
अविष्पवास / परिहार /	jiān	huì	pī lì	
關注	肩膀	कालुसिय / जल्लिका / उक्लाप / असुचि /	असब्भी	
guān zhù	膊	精液	asabbhī	
परिहार / अविष्पवास /	bo	jīng yè	粗俗的	
अविलम्बित	अंस / अंस /	糞	cū sù de	
avilambitaṃ	膊	fèn	जम्म / गम्म / असब्भी /	
很快	bó	असद्धम्म	असुभ	
hěn kuài	अंस / अंस /	asaddhamma	असुभा	
तुवटं / खिप्पं / अविलम्बितं / आसु	部	罪	不愉快的	
7	bù	zuì	bù yú kuài de	
很快地	अवयव / भाग / अंस /	असद्धम्म / कलि / निग्गह / पाप / अघ / अवण्ण / अकुसल / उपवाद /	पटिकूल / अनिडु / असुभ / असातं / अप्पिय /	
hěn kuài dì	部份	असद्धम्म / कलि / निग्गह / पाप / अघ / अवण्ण / अकुसल / उपवाद /	अस्मा	
तुरित / आसु / तुवटं / खिप्पं / अविलम्बितं / खिप्पं /	bù jiàn	罪惡	asmā	
赶快	अवयव / भाग / अंस /	zuì è	小石	
gǎn kuài	部份	अघ / अकुसल / कलि / असद्धम्म /	xiǎo shí	
अविलम्बितं / तुवटं / आसु / खिप्पं /	bù fèn	罪過	उपल / अस्मा / पासाण /	
趕快	अंस / कोट्टास / अवयव / पटिविस / भाग /	zuò guò	核	
gǎn kuài	部分	असद्धम्म / अघ / आगु / कलि / अकुसल / अतिक्कम / किब्बि / अपराध /	hé	
तुवटं / अविलम्बितं / खिप्पं / आसु	bù fēn	असद्धम्म / अघ / आगु / कलि / अकुसल / अतिक्कम / किब्बि / अपराध /	अस्मा / पासाण /	
7	कोट्टास / पत्ति / अवयव / अंस / पटिविस / भाग /		石	
迅速地	अंसु		shí	
xùn sù dì	अंसा		पासाण / अस्मा / उपल /	
खिप्पं / तुवटं / तुरित / अविलम्बितं / आसु /	布料		石頭	
	bù liào		shí tóu	
	चेल / दुस्स / चोळ / पट / अंसु / अम्बर / चोळक /		उपल / अस्मा / पासाण /	

असेस	整	अस्सु	अस्साद	असंहारिम
asesa	zhěng	assu	assāda	asamhārima
一切	केवल / कसिण / असेस / पुण्ण / निस्सेस / अनूनक / परिपूर / अनवसेस / अनून / निखिल /	泪	口味	固定的
yī qiè		lèi	kǒu wèi	गुं दिंग दे
निखिल / असेस / निस्सेस /	整个	泪水	味	थावर / अहारिय / असंहारिम / अकम्पिय /
万物	zhěng gè	lèi shuǐ	wèi	असात
wàn wù	असेस / निस्सेस / निखिल / कसिण / केवल /	流淚	味兒	asāta
असेस / निखिल /	整天	liú lèi	wèi r	不愉快的
俱	zhěng tiān	淚	味道	bù yú kuài de
jù	निस्सेस / असेस / निखिल /	lèi	wèi dào	पटिककूल / अनिडु / असुभ / असात / अप्पिय /
निखिल / असेस /	整数	अस्सव	गन्ध / अस्साद /	熬煎
全	zhěng shù	assava	品味	áo jiān
quán	निस्सेस / कसिण / असेस / केवल / निखिल /	水流	pǐn wèi	疼
निखिल / असेस /	整整	shuǐ liú	品嚐	téng
全部	zhěng zhěng	पवाह / अस्सव /	pǐn cháng	दुक्ख / असात / अघ /
quán bù	निस्सेस / कसिण / पुण्ण / निखिल / परिपूर / केवल / असेस /	注意的	pǐn cháng	疼痛
केवल / निस्सेस / अनून / निखिल / कसिण / अनवसेस / असेस / अनूनक /	每	zhù yì de	啗	téng tòng
全部的	měi	जागर / अप्पमत्त / अस्सव /	dàn	दुक्ख / असात / अघ /
quán bù de	असेस / निस्सेस / एकमेक / एकेक / निखिल /	流	嚼	痛
केवल / निखिल / असेस / निस्सेस / कसिण /	皆	liú	chuò	tòng
全都	jiē	ओघ / गङ्गा / अस्सव /	嘗	दुक्ख / असात / अघ /
quán dōu	निस्सेस / असेस / निखिल /	流動	嘗	痛楚
असेस / निखिल /	统统	liú dòng	cháng	tòng chu
全體	tǒng tǒng	पवाह / अस्सव /	尝	अघ / अघ / असात /
quán tǐ	निखिल / असेस /	流動	cháng	痛苦
निखिल / निस्सेस / असेस /	胥	liú dòng	愉快	tòng kǔ
凡	xū	流向	yú kuài	अघ / आबाध / बाधन / खेद / किच्छ / असात / दुक्ख /
fán	निखिल / निस्सेस / असेस /	liú xiàng	आराम / फासुक / अत्तमन / इडु / अस्साद / तुँडि / परिभोग / काम /	苦楚
निखिल / असेस / निस्सेस /	芸芸	liú liàng	有味道	kǔ chǔ
凡是	yún yún	脓	yǒu wèi dào	असात / पच्चन /
fán shì	निखिल / असेस / अन्तरे / निस्सेस /	nóng	滋味	苦痛
निस्सेस / निखिल / असेस /	萬物	अस्सव / पूय / पुब्ब /	zī wèi	kǔ tòng
匳	wàn wù	膿	滿足	असात / अघ /
hú	असेस / निखिल /	nóng	mǎn zú	असित
निखिल / निस्सेस / केवल / कसिण / असेस /	通通	पूय / पुब्ब / अस्सव /	तित्ति / अस्साद /	asita
均	tōng tōng	अस्सवणत्ता	趣味	食
jūn	केवल / निस्सेस / अनून / अनवसेस / परिपूर / अनूनक / असेस / पुण्ण / निखिल / कसिण /	assavaṇaṭā	qù wèi	shí
निखिल / निस्सेस / असेस / पटिभाग /	अस्स	अस्सवणत्ता	अस्सास	भिक्षा / घास / भत्त / आमिस / आहार / अन्न / भोत्तुं / असित / भोजन / असन /
大家	assa	अस्सवणत्ता	assāsa	食品
dà jiā	領	不注意	吸入	shí pǐn
असेस / निखिल /	lǐng	bù zhù yì	xī rù	भिक्षा / आहार / आमिस / भोजन / भत्त / असन / अन्न / असित / घास /
完全	馬		आण / आन / अस्सास /	安慰
wán quán	mǎ		ān wèi	食物
निखिल / अनूनक / कसिण / निस्सेस / पुण्ण / परिपूर / अनून / केवल / असेस / अनवसेस /	马		फासु / अस्सास /	shí wù
完全地	mǎ		慰	घास / भोजन / भिक्षा / अण्ण / आहार / अन्न / आमिस / असित / भत्त / असन /
wán quán dì	馭		wèi	飯
अनवसेस / असेस / निस्सेस /	yù		फासु / अस्सास /	fàn
总体			wèi jiè	आहार / असित / असन / घास / अन्न / आमिस / भिक्षा / भत्त / भोजन /
zǒng tǐ			舒服	
केवल / निखिल / कसिण / असेस /			shū fú	
所有			फासु / अस्सास /	
suǒ yǒu			舒適	
निस्सेस / असेस / निखिल /			shū shì	
所有的			फासु / अस्सास /	
suǒ yǒu de				
असेस / निखिल /				

असिथिल	अहारिय	आकर	आकार	आकास
asithila	ahāriya	ākara	ākāra	ākāsa
僵	固定的	我的	亮相	天
jiāng	gù dìng de	wǒ de	liàng xiāng	tiān
असिथिल / उपत्यद् / थद् / कठिन /	थावर / अहारिय / असंहारिम / अकम्पिय /	आकर / मे /	出場	अब्ध / दिवस / अप्ह / अघ / नाक / देव / आकास / अम्बर / दिव / दिन / ख / अन्तलिक्ख /
僵硬	अहि	礦	境界	天界
jiāng yìng	ahi	kuàng	jiè	tiān jiè
कठिन / थद् / असिथिल / उपत्यद् /	蛇	礦山	外表	देव / ख / अघ / अब्ध / आकास / अम्बर / अन्तलिक्ख /
生硬	shé	礦	wài biǎo	天空
shēng yìng	भोगी / दुजिह् / आसीविस / उरग / अहि / अलगद् /	kuàng	तिरो / पातु / बहि / बहिद्दा / बाहिर / ओंकार /	tiān kōng
असिथिल / उपत्यद् / थद् / कठिन /	अहित	雷	外观	अन्तलिक्ख / अघ / दिव / आकास / अब्ध / नाक / तारा / अनिल / ख / अम्बर / देव / तारका /
硬	ahita	léi	wài guān	空地
yìng	伤害	आकुल	外貌	kōng dì
थिर / कक्खळ / निद्दुर / कठिन / खर / असिथिल / दँह् / उपत्यद् / थद् /	shāng hài	ākula	wài mào	kōng dì
硬的	अहित / पीळन / अनत्थ /	困惑	容貌	आकास / आकास / अङ्गण / अङ्गण / ओकास / ओकास /
yìng de	shāng hài	kùn huò	róng mào	空地
उपत्यद् / निद्दुर / असिथिल / खर / कक्खळ / थद् / कठिन /	अहित / दुक्खापन / अपकार / अनत्थ /	मङ्कु / अन्धकार / आकुल /	情況	kōng de
अहं	危害	困惑的	qíng kuàng	आकास / आकास / अङ्गण / अङ्गण / ओकास / ओकास /
aham	wēi hài	kùn huò de	भाव / आकार /	空白
予	अहित / अनत्थ /	आकुलीभूत / आकुल /	样子	kōng bái
yǔ	壞處	弄得	yàng zi	आकास / तुच्छ /
余	huài chù	nòng de	模樣	空間
yú	अनत्थ / अहित /	आकुल / मङ्कु /	mó yàng	kōng jiān
俺	害	弄混	樣子	आकास / ओकास /
ǎn	hài	nòng hùn	yàng zi	空間
吾	अहित / अनत्थ /	मङ्कु / आकुल /	नीहार / आकार / पकार /	kōng jiān
wú	弊	慌	相貌	雲霄
अहं / मे /	bi	huāng	xiāng mào	yún xiāo
我	अहित / अनत्थ /	憤	色	देव / अम्बर / अन्तलिक्ख / ख / अब्ध / आकास / अघ /
wǒ	损伤	kuì	sè	आखु
मे / अहं /	sūn shāng	आकुल / मङ्कु /	貌	ākhu
朕	पीळन / अहित / अनत्थ /	汨	mào	叛徒
zhèn	अहिरिक	汨	面貌	pàn tú
鄙人	ahirika	gǔ	miàn mào	उन्दुर / आखु / उन्दूर /
bǐ rén	不要臉	मङ्कु / आकुल / मङ्कु / आकुल /		告密者
餘	bù yào liǎn	汨		gào mì zhě
yú	無恥	yù		उन्दूर / उन्दूर / आखु /
अहत	wú chǐ	fēn		捕鼠
ahata	अहोसि	आकुल / मङ्कु /		bǔ shǔ
新	ahosi	迷糊		उन्दुर / आखु / उन्दूर /
xīn	是	mí hu		老鼠
अहत / अभिनव / नव / नूतन / अचिर /	shì	आकुल / मङ्कु /		lǎo shǔ
新的	अहोसि / आम / एवं /	迷茫		उन्दुर / उन्दूर / आखु /
xīn de	आकप्प	mí máng		耗子
अभिनव / अहत / अचिर / नूतन / नव /	ākappa	आकुल / मङ्कु /		hào zi
新鮮	舉止	आकुलीभूत		鼠
xīn xiān	jǔ zhǐ	ākulībhūta		shǔ
नव / अभिनव / अहत / नूतन /	पकार / नय / कम / आकप्प / इरिया / नीहार / इरियना / उब्बहन /	困惑的		उन्दूर / आखु / उन्दूर /
耗		kùn huò de		鼯
hào		आकुलीभूत / आकुल /		xī
नव / अचिर / अभिनव / नूतन / अहत /				
鮮				
xiān				
अभिनव / अहत / नूतन / नव /				

आख्या	आगन्तुक	आगमन	आचेर	आजानन
ākhyā	āgantuka	āgamana	ācera	ājānana
任命	來賓	到任	師資	深知
rèn mìng	lái bīn	dào rèn	shī zī	shēn zhī
अव्हय / अभिधान / आख्या / नाम / अव्हान /	अव्भागत / आगन्तुक / अतिथि / पाहुण /	अनुपपत्ति / पत्ति / अव्भागमन / आगमन /	गुरु / आचेर / गुरु / अज्झायक / आचरिय /	आजानन / परिजानन / अधिगम / पञ्जा / बोध / अनुबोध / अवबोध /
取名	做客	到來	教師	知識
qǔ míng	zuò kè	dào lái	jiào shī	zhī shi
अव्हय / नाम / अभिधान / आख्या / अव्हान /	अव्भागत / अतिथि / आगन्तुक / पाहुण /	अनुपपत्ति / आगमन / पत्ति / अव्भागमन /	आचेर / आचरिय / गुरु / अज्झायक / गुरु /	पञ्जा / अधिगम / बोध / आजानन / परिजानन / अनुबोध / अवबोध /
名	客	到來	老師	知識
míng	kè	dào lái	lǎo shī	zhī shī
अव्हान / अभिधान / नाम / आख्या / अव्हय /	अव्भागत / अतिथि / पाहुण / आगन्तुक /	पत्ति / आगमन / अव्भागमन / अनुपपत्ति /	गुरु / गुरु / आचेर / अज्झायक / आचरिय /	अनुबोध / अधिगम / पञ्जा / अवबोध / बोध / परिजानन / आजानन /
名义	客人	抵达	老師	識
míng yì	kè rén	dǐ dá	lǎo shī	shì
आख्या / नाम / अव्हान / अभिधान / अव्हय /	आगन्तुक / पाहुण / अव्भागत / अतिथि /	पत्ति / आगमन / अनुपपत्ति / अव्भागमन /	गुरु / अज्झायक / आचरिय / गुरु / आचेर /	अवबोध / बोध / परिजानन / अनुबोध / पञ्जा / आजानन / अधिगम /
名字	賓	抵達	आचरिय	识
míng zì	bīn	dǐ dá	ācariya	shī
अव्हान / अव्हय / अभिधान / नाम / आख्या /	पाहुण / अव्भागत / आगन्तुक / अतिथि /	पत्ति / आगमन / अनुपपत्ति / अव्भागमन /	師資	shī
名称	來賓	接近的	shī zī	अधिगम / अवबोध / बोध / परिजानन / बोध / पञ्जा / पञ्जा / अनुबोध / परिजानन / अनुबोध / अधिगम / अवबोध / आजानन / आजानन /
míng chēng	lái bīn	jiē jìn de	गुरु / आचेर / गुरु / अज्झायक / आचरिय /	अधिगम / अवबोध / बोध / परिजानन / अनुबोध / अधिगम / अवबोध / आजानन / आजानन /
अव्हान / अव्हय / आख्या / नाम / अभिधान /	आगन्तुक / पाहुण / अव्भागत / अतिथि /	उपनायिक / निकट / निकट / आगमन / धुर / आसन्न / उपकट / अविदूर /	教師	识
名稱	生人	आगमयमान	jiào shī	shì
míng chēng	shēng rén	āgamayamāna	आचेर / आचरिय / गुरु / अज्झायक / गुरु /	shì
अव्हय / नाम / अव्हान / अभिधान / आख्या /	अतिथि / आगन्तुक / अव्भागत / व्	期待的	老	अधिगम / अवबोध / बोध / परिजानन / बोध / पञ्जा / पञ्जा / अनुबोध / परिजानन / अनुबोध / अधिगम / अवबोध / आजानन / आजानन /
名義	賓	qī dài de	lǎo	आजानन /
míng yì	bīn	आगामी	जर / बु / थेर / पुराण / जज्जर / आचरिय /	आजीव
आख्या / नाम / अव्हय / अव्हान / अभिधान /	पाहुण / आगन्तुक / अव्भागत / अतिथि /	āgāmī	老師	ājīva
名词	陌生人	未來	lǎo shī	ājīva
míng cí	mò shēng rén	wèi lái	गुरु / गुरु / आचेर / अज्झायक / आचरिय /	生存
अव्हान / अव्हय / अभिधान / नाम / आख्या /	अतिथि / पर / अव्भागत / आगन्तुक /	आयति / अनागत / आगामी /	老師	shēng cún
命名	आगम	आघात	lǎo shī	पवत्तन / आजीव / अत्थिता /
mìng míng	āgama	āghāta	लॉ शी	生活
अव्हान / अव्हय / आख्या / अभिधान / नाम /	來	仇	गुरु / अज्झायक / आचरिय / गुरु / आचेर /	shēng huó
姓名	lái	chóu	आचर	आजीव / जीव / चरित / जीवन / चारी / पाण /
xìng míng	xìn yǎng	chóu hèn	ācāra	生計
अभिधान / आख्या / नाम / अव्हय / अव्हान /	दिट्ठि / तित्थ / पसाद / भत्ति / आगम /	怨恨	練習	shēng jì
指名	宗教	yuàn hèn	liàn xí	पोसावनिक / जीवन / जीविका / आजीव /
zhǐ míng	zōng jiào	憎恨	आसेवना / आचार / पटिपज्जन / अनुचरण / चारित्त / पटिपत्ति / उपसेवना /	生計
नाम / अव्हय / अभिधान / अव्हान / आख्या /	教	zēng hèn		shēng jì
आगु	jiào	激怒		आजीव / जीविका / जीवन /
āgu	आगम / अज्झापन /	jī nù		आण
罪行	聖經	कोप / पकोप / पटिघ / आघात / पदोस /		āṇa
zuì xíng	shèng jīng	碰撞		吸入
अपराध / आगु / किब्बि /	पावचन / आगम /	pèng zhuàng		xī rù
罪過		पटिघात / पटिघ / आघात / अभिघात /		आण / आन / अस्सास /
zuì guò		आचमन		呼吸
असद्धम्म / अघ / आगु / कलि / अकुसल / अतिक्कम / किब्बि / अपराध /		ācamana		hū xī
		沖洗		पाणन / पाण / आपाण / आन / आण /
		chōng xǐ		呼吸的
				hū xī de
				आपाण / पाणन / आण / आन /

आतङ्क	आतुर	आदु	आदेव	आदि
ātaṅka	ātura	ādu	ādeva	ādi
弊病	患病	不過	哭	一次
bì bìng	huàn bìng	bù guò	kū	yī cì
आतङ्क / आबाध / 恙	आतुर / गिलान / आबाधिक / 生病	पन / तु / पि / आदु / 乃是	कन्दित / कन्दन / आरोदना / आदेव /	आदि / एकदा / अगग / पठम / 乍
yàng	shēng bìng	nǎi shì	आदेसना	zhà
आतङ्क / गद / गेलञ्ज / आमय / 疾	आतुर / गिलान / आबाधिक / 生病的	पि / तु / आदु / पन / 但	ādesanā	पठम / अगग / आदि /
jí	shēng bìng de	dàn	猜測	元
गेलञ्ज / आतङ्क / गद / आबाध / 疾病	दुक्खी / दुक्खित / आतुर / आबाधिक / गिलान /	तु / पन / आदु / पि / एव / 但是	cāi cè	yuán
jí bìng	bing	dàn shì	आदेसना / आदिसना /	आदि / अगग / पठम /
आबाध / आतङ्क / गद / गेलञ्ज / आमय /	आमय / गद / आबाधिक / आतुर / गेलञ्ज / आतङ्क / गिलान / आबाध /	पन / तु / पि / आदु / एव / अपि / 却	आदास	先
bing	bing ruò	què	ādāsa	xiān
आमय / गद / आबाधिक / आतुर / गेलञ्ज / आतङ्क / गिलान / आबाध /	आतुर / गिलान / आबाधिक / 病弱	पन / तु / पि / आदु / 卻	反射鏡	आदि / अगग / पठम /
bing zhèng	cuì	què	fǎn shè jìng	先在
आमय / आतङ्क / आबाध / 病的	गिलान / आतुर / आबाधिक / 眚	पन / आदु / तु / पि / 只	आदास / दप्पण /	xiān zài
bìng de	huǐ	zhǐ	鏡	आदि / पठम / अगग /
आतङ्क / आबाध / गिलान / गिलानक /	आबाधिक / गिलान / आतुर /	पन / पि / एव / तु / आदु / 只是	jìng	原始
症	आताप	zhǐ shì	आदास / दप्पण /	yuán shǐ
zhèng	ātāpa	एव / पन / पि / आदु / तु / 可是	鏡子	अगग / पठम / आवत्थिक / आदि /
आमय / आतङ्क / आबाध /	熱	kě shì	jìng zi	在先
आताप	rè	अपि / पन / एव / तु / आदु / पि / 惟	दप्पण / आदास /	zài xiān
ātāpa	तेज / उण्ह / घम्म / निदाघ / ग्निह / आताप /	wéi	jìng	अगग / पठम / आदि /
陽光	आतापन	पन / एव / तु / आदु / केवल / पि / 或	दप्पण / आदास /	搶先
yáng guāng	ātāpana	हुं	鏡子	qiǎng xiān
आतप्प	受刑	हुं	jìng zi	अगग / आदि / पठम /
ātappa	shòu xíng	पि / आदु / उद / 或是	आदास / दप्पण /	最初
努力	折磨	हुò shì	或	zuì chū
nǔ lì	zhé mó	आदु / उद / 或者	हुò zhě	पठम / अगग / आदि /
आतप्प / पग्गह / उस्साह / उस्सहन / पग्गाह / परिस्सम / उग्घटित / आय्हन / पयोग /	कारणा / आतापन / 拷問	हुò zhě	आदु / उद / 抑或	最初的
kǎo wèn	kǎo dǎ	yì huò	यि हुं	zuì chū de
आतापन / कारणा / 拷打	आतापन / कारणा / 禁欲	उद / आदु / 然而	उद / आदु / 然	आवत्थिक / आदि / जेडु / धुर / मुख्य / पधान / मुख / पाकतिक / पठम /
kǎo dǎ	jìn yù	rán ér	रान एर	第一
आतापन / कारणा /	आरति / आतापन / 酷刑	आदु / पि / तु / पन / एव / 还是	आदु / पि / तु / पन / एव / 还是	dì yī
jìn yù	kù xíng	hái shì	है शि	अगग / आदि / पठम /
आरति / आतापन / 酷刑	कारणा / आतापन /	आदु / उद / 還是	उद / आदु /	第一個
kù xíng		है शि	आदेय्य	dì yī gè
कारणा / आतापन /		उद / आदु /	ādeyya	आदि / पठम / अगग /
		आदेय्य	可接受的	di yī míng
		ādeyya	kě jiē shòu de	पठम / आदि / अगग /
				第一次
				dì yī cì
				पठम / अगग / आदि /
				開始
				kāi shǐ
				आदि / आरम्भ / उब्भव /
				首
				shǒu
				पठम / अगग / आदि /
				首先
				shǒu xiān
				पठम / अगग / आदि /

आदिच्च
ādicca
周日
zhōu rì
भानु / अक्क / आदिच्च /
太阳
tài yáng
आदिच्च / भानु / अक्क /
太陽
tài yáng
दिन / भानु / अक्क / दिवस / आदिच्च /
晒
shài
भानु / अक्क / आदिच्च /
曬
shài
अक्क / भानु / आदिच्च /
阳
yáng
अक्क / आदिच्च / भानु /
陽
yáng
आदिच्च / भानु / अक्क /

आदितो
ādīto
起先
qǐ xiān
आदितो / पठम /
起初
qǐ chū

आदिसना
ādisanā
猜測
cāi cè
आदेसना / आदिसना /
आदीनव
ādīnava
缺點
quē diǎn
पदोस / आदीनव / कलङ्क / छिद्द / दोस /

आधान
ādhāna
容器
róng qì
पुट / कटाह / आधान / पेळा / उपधारण / पुटक / आधार /

आधार
ādhāra
供養
gōng yǎng
उपकरण / ओलम्ब / पग्गह / ओलम्बक / अपस्सय / निस्सय / अवस्सय / पतिट्ठा / आलम्ब / आधार / पग्गाह / उपत्थम्भ / उपनिस्सय / उपकार / पतिट्ठान / आलम्बन / दीप /
基礎
jī chǔ
आधार / पाद / उपनिस्सय / तल /
容器
róng qì
पुट / कटाह / आधान / पेळा / उपधारण / पुटक / आधार /
撐
chēng
आलम्ब / पतिट्ठा / निस्सय / दीप / ओलम्बक / उपनिस्सय / पग्गह / आधार / उपकरण / अवस्सय / आलम्बन / ओलम्ब / पतिट्ठान / उपत्थम्भ / पग्गाह / अपस्सय / उपकार /
撐腰
chēng yāo
पग्गह / निस्सय / उपकार / पग्गाह / आलम्ब / उपनिस्सय / आलम्बन / पतिट्ठान / उपकरण / अवस्सय / अपस्सय / आधार / पतिट्ठा / उपत्थम्भ / ओलम्ब / दीप / ओलम्बक /
撐
chēng
आलम्बन / उपत्थम्भ / अपस्सय / आधार / ओलम्बक / ओलम्ब / पग्गाह / उपनिस्सय / पग्गह / अवस्सय / आलम्ब / उपकरण / दीप / पतिट्ठान / उपकार / पतिट्ठा / निस्सय /
支持
zhī chí
पग्गह / आलम्ब / उपत्थम्भ / पतिट्ठा / उपकार / उपकरण / पग्गाह / पतिट्ठान / अवस्सय / आलम्बन / निस्सय / दीप / उपनिस्सय / ओलम्ब / ओलम्बक / आधार / अपस्सय /
支援
zhī yuán
उपकार / अपस्सय / पतिट्ठा / पग्गह / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पग्गाह / अनुज्जा / पतिट्ठान / उपनिस्सय / अवस्सय / ओलम्ब / आलम्ब / निस्सय / आलम्बन / आधार / उपकरण /
支撐
zhī chēng
उपकरण / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पतिट्ठान / उपनिस्सय / अपस्सय / पग्गाह / आलम्ब / पग्गह / आधार / आलम्बन / पतिट्ठा / ओलम्ब / निस्सय / अवस्सय / उपकार /
盂
yú
पुटक / पुट / कोसक / पेळा / आधार /

आधिपच्च
āhipacca
幕
mì
आधिपतेय्य / आधिपच्च / पभाव / आनुभाव / बल / थाम / तेज /
力
lì
जव / बल / आधिपतेय्य / आनुभाव / तेज / पभाव / आधिपच्च / थाम /
力量
lì liàng
तेज / आनुभाव / थाम / आधिपच्च / जव / पभाव / बल / आधिपतेय्य /
功
gōng
थाम / आधिपच्च / आनिसंस / आधिपतेय्य / आनुभाव / बल / तेज / पुञ्ज /
功率
gōng lǜ
आधिपच्च / आनुभाव / आनुभाव / थाम / पभाव / बल / बल / पभाव / थाम / आधिपतेय्य / आधिपतेय्य / आधिपच्च / तेज / तेज /
功率
gōng lǜ
आधिपच्च / आनुभाव / आनुभाव / थाम / पभाव / बल / बल / पभाव / थाम / आधिपतेय्य / आधिपतेय्य / आधिपच्च / तेज / तेज /
勢力
shì lì
जव / आनुभाव / आधिपच्च / थाम / बल / तेज / पभाव / आधिपतेय्य /
動力
dòng lì
आनुभाव / बल / आधिपच्च / आधिपतेय्य / तेज / थाम /
大權
dà quán
बल / आधिपतेय्य / आनुभाव / आधिपच्च / थाम / तेज /
威
wēi
आनुभाव / थाम / तेज / आधिपच्च / आधिपतेय्य / बल / पभाव /
威力
wēi lì
आधिपतेय्य / पभाव / आधिपच्च / तेज / आनुभाव / थाम / बल /
幕
mì
थाम / आनुभाव / तेज / बल / आधिपतेय्य / आधिपच्च /
強國
qiáng guó
आधिपतेय्य / थाम / बल / तेज / आधिपच्च / आनुभाव /
強权
qiáng quán
बल / आनुभाव / आधिपच्च / तेज / थाम / आधिपतेय्य / पभाव /

控制
kòng zhì
इस्सरिय / आधिपच्च / दमथ / दम /
斷電
duàn diàn
आधिपतेय्य / आधिपच्च / थाम / तेज / बल / आनुभाव /
權力
quán lì
आनुभाव / थाम / आधिपच्च / तेज / आधिपतेय्य / बल /
統治
tōng zhì
आधिपच्च / इस्सरिय /

आधिपतेय्य
āhipateyya
幕
mì
आधिपतेय्य / आधिपच्च / पभाव / आनुभाव / बल / थाम / तेज /
力
lì
जव / बल / आधिपतेय्य / आनुभाव / तेज / पभाव / आधिपच्च / थाम /
力量
lì liàng
तेज / आनुभाव / थाम / आधिपच्च / जव / पभाव / बल / आधिपतेय्य /
功
gōng
थाम / आधिपच्च / आनिसंस / आधिपतेय्य / आनुभाव / बल / तेज / पुञ्ज /
功率
gōng lǜ
आधिपच्च / आनुभाव / आनुभाव / थाम / पभाव / बल / बल / पभाव / थाम / आधिपतेय्य / आधिपतेय्य / आधिपच्च / तेज / तेज /
功率
gōng lǜ
आधिपच्च / आनुभाव / आनुभाव / थाम / पभाव / बल / बल / पभाव / थाम / आधिपतेय्य / आधिपतेय्य / आधिपच्च / तेज / तेज /
勢力
shì lì
जव / आनुभाव / आधिपच्च / थाम / बल / तेज / पभाव / आधिपतेय्य /
動力
dòng lì
आनुभाव / बल / आधिपच्च / आधिपतेय्य / तेज / थाम /
大權
dà quán
बल / आधिपतेय्य / आनुभाव / आधिपच्च / थाम / तेज /
威
wēi
आनुभाव / थाम / तेज / आधिपच्च / आधिपतेय्य / बल / पभाव /
威力
wēi lì
आधिपतेय्य / पभाव / आधिपच्च / तेज / आनुभाव / थाम / बल /
幕
mì
थाम / आनुभाव / तेज / बल / आधिपतेय्य / आधिपच्च /
強國
qiáng guó
आधिपतेय्य / थाम / बल / तेज / आधिपच्च / आनुभाव /
強权
qiáng quán
बल / आनुभाव / आधिपच्च / तेज / थाम / आधिपतेय्य / पभाव /

斷電
duàn diàn
आधिपतेय्य / आधिपच्च / थाम / तेज / बल / आनुभाव /
權力
quán lì
आनुभाव / थाम / आधिपच्च / तेज / आधिपतेय्य / बल /

आन

āna
吸入
xī rù
आण / आन / अस्सास /
呼吸
hū xī
पाणन / पाण / आपाण / आन / आण /
呼吸的
hū xī de
आपाण / पाणन / आण / आन /

आनेञ्ज

āneñja
沈著的
shěn zhù de
एकवग / आनेञ्ज /

आनन

ānana
口
kǒu
मुख / आनन /
嘴
zuǐ
मुख / आनन /
嘴巴
zuǐ bā
मुख / मुख / आनन / आनन /
嘴巴
zuǐ ba
मुख / मुख / आनन / आनन /
嘴裡
zuǐ lǐ
आनन / मुख /
嘴
zuǐ
आनन / मुख /
面
miàn
आनन / पिट्ट /

आनन्द
ānanda
喜悅
xǐ yuè
पीति / नन्दि / तुस्सना / पमोद / तुड्ढि / पामोज्ज / पामुज्ज / आनन्द / पीणन /
喜悅
xǐ yuè
तुड्ढि / नन्दि / आनन्द / पामुज्ज / पमोद / पीति / पामोज्ज / तुस्सना /
樂趣
lè qù
आराम / पमोद / तुड्ढि / काम / नन्दि / आनन्द /
欢乐
huān lè
आराम / आनन्द / पमोद / तुड्ढि / पामोज्ज / काम / पामुज्ज / नन्दि / पीति /
欢喜
huān xǐ
पमोद / आराम / तुड्ढि / काम / नन्दि / आनन्द /
歡喜
huān xǐ
अभिनन्दन / पमोद / तुस्सना / आनन्द / पामुज्ज / पीति / नन्दि / तुड्ढि / पामोज्ज /
歡樂
huān lè
पमोद / आनन्द / कीळना / तुड्ढि / पामोज्ज / पीति / नन्दि / केळी / तुस्सना / पामुज्ज /
禧
xǐ
पीति / पामुज्ज / नन्दि / पामोज्ज / नन्दि / पमोद / पमोद / तुस्सना / तुड्ढि / आनन्द /

आनुपुब्बी
ānupubbī
令
lìng
अनुक्कम / पटिपाटि / आनुपुब्बी / परियाय / चक्क /
承
chéng
अनुक्कम / पटिपाटि / परियाय / आनुपुब्बी /
次序
cì xù
पटिपाटि / अनुक्कम / आनुपुब्बी / परियाय /
秩序
zhì xù
अनुक्कम / आनुपुब्बी / पटिपाटि / परियाय /
訂
dìng
परियाय / पटिपाटि / आनुपुब्बी / अनुक्कम /
訂單
dìng dān
परियाय / अनुक्कम / पटिपाटि / आनुपुब्बी /
訂
dìng
परियाय / आनुपुब्बी / पटिपाटि / अनुक्कम /
順序
shùn xù
कम / परियाय / अनुक्कम / पटिपाटि / आनुपुब्बी /

आनुभाव
ānubhāva
羸
mì
आधिपतेय्य / आधिपच्च / पभाव / आनुभाव / बल / थाम / तेज /
力
lì
जव / बल / आधिपतेय्य / आनुभाव / तेज / पभाव / आधिपच्च / थाम /
力量
lì liàng
तेज / आनुभाव / थाम / आधिपच्च / जव / पभाव / बल / आधिपतेय्य /
功
gōng
थाम / आधिपच्च / आनिसंस / आधिपतेय्य / आनुभाव / बल / तेज / पुञ्ज /
功率
gōng lǜ
आधिपच्च / आनुभाव / आनुभाव / थाम / पभाव / बल / बल /
पभाव / थाम / आधिपतेय्य / आधिपतेय्य / आधिपच्च / तेज / तेज /
功率
gōng lǜ
आधिपच्च / आनुभाव / आनुभाव / थाम / पभाव / बल / बल /
पभाव / थाम / आधिपतेय्य / आधिपतेय्य / आधिपच्च / तेज / तेज /
勢力
shì lì
जव / आनुभाव / आधिपच्च / थाम / बल / तेज / पभाव / आधिपतेय्य /
動力
dòng lì
आनुभाव / बल / आधिपच्च / आधिपतेय्य / तेज / थाम /
大权
dà quán
तेज / आनुभाव / बल / पभाव / थाम /
大權
dà quán
बल / आधिपतेय्य / आनुभाव / आधिपच्च / थाम / तेज /
威
wēi
आनुभाव / थाम / तेज / आधिपच्च / आधिपतेय्य / बल / पभाव /
威力
wēi lì
आधिपतेय्य / पभाव / आधिपच्च / तेज / आनुभाव / थाम / बल /
羸
mì
थाम / आनुभाव / तेज / बल / आधिपतेय्य / आधिपच्च /
強國
qiáng guó
आधिपतेय्य / थाम / बल / तेज / आधिपच्च / आनुभाव /

強权
qiáng quán
बल / आनुभाव / आधिपच्च / तेज / थाम / आधिपतेय्य / पभाव /
斷電
duàn diàn
आधिपतेय्य / आधिपच्च / थाम / तेज / बल / आनुभाव /
权力
quán lì
बल / पभाव / थाम / तेज / आनुभाव /
權力
quán lì
आनुभाव / थाम / आधिपच्च / तेज / आधिपतेय्य / बल /
आनिसद
ānisada
屁股
pì gǔ
जघन / पावळ / आनिसद /
臀部
tún bù
उच्छङ्ग / पावळ / कटि / नितम्ब / जघन / आनिसद /

आनिसंस	आपगा	आपाण	आबाधिक	आभा
ānisamsa	āpagā	āpāṇa	ābādhika	ābhā
值得	川	呼吸	患病	亮光
zhí de	chuān	hū xī	huàn bìng	liàng guāng
पुञ्ज / आनिसंस / पुञ्ज / आनिसंस /	गङ्गा / आपगा / नदी /	पाणन / पाण / आपाण / आन / आण /	आतुर / गिलान / आबाधिक /	भानु / आभा / अवभास / जोति / पभास / पज्जोत / पभा / भा / आलोक / निभा / दित्ति / पदीप /
值得	shuǐ xī	呼吸的	生病	光
zhí dé	gāngā / नदी / आपगा /	hū xī de	shēng bìng	guāng
पुञ्ज / आनिसंस / पुञ्ज / आनिसंस /	江	आपाण / पाणन / आण / आन /	आतुर / गिलान / आबाधिक /	आलोक / दित्ति / भा / पज्जोत / पदीप / पभास / आभा / पभा / जोति / अवभास / भानु / निभा /
利	jiāng	आपादिका	生病的	guāng cǎi
lì	आपगा / गङ्गा / नदी /	āpādīkā	shēng bìng de	आभा / निभा / पज्जोत / उज्जोत /
आय / आनिसंस / उपभोग / पत्ति /	河	护士	दुक्खी / दुक्खित / आतुर / आबाधिक / गिलान /	光線
利润	hé	hù shì	病	guāng xiàn
lì rùn	गङ्गा / आपगा / नदी /	धाती / उपद्दाक / आपादिका / पोसिका /	bìng	अवभास / पदीप / निभा / पभास / पज्जोत / पभा / भानु / कर / जोति / आलोक / किरण / दित्ति / भा / आभा /
पत्ति / आय / आनिसंस / उपभोग /	河川	護士	आमय / गद / आबाधिक / आतुर / गेलञ्ज / आतङ्क / गिलान / आबाध /	光芒
利潤	hé chuān	hù shì	病人	guāng máng
lì rùn	नदी / आपगा / गङ्गा /	पोसिका / धाती / आपादिका / उपद्दाक /	bìng rén	तेज / जोति / आभा /
आनिसंस / पत्ति / उपभोग / आय /	河水	護理	गिलान / गिलानक / आबाधिक / अधिवासक /	光輝
功	hé shuǐ	hù lǐ	अधिवासक /	guāng huī
gōng	गङ्गा / नदी / आपगा /	धती / उपद्दाक / आपादिका / पोसिका /	病弱	तेज / किरण / जुति / आभा /
थाम / आधिपच्च / आनिसंस / आधिपतेय्य / आनुभाव / बल / तेज / पुञ्ज /	河流	आपानीयकंस	bìng ruò	對光
羸	hé liú	āpānīyākāṃsa	आतुर / गिलान / आबाधिक /	duì guāng
yíng	河裡	酒杯	瘁	पज्जोत / जोति / भानु / पदीप / पभा / अवभास / आलोक / दित्ति / निभा / भा / पभास / आभा /
आय / पुण्ण / आनिसंस / पत्ति / उदय / परिपूर / उपभोग /	hé li	jiǔ bēi	cuì	淡
收益	आपगा / गङ्गा / नदी /	आबन्धक	गिलान / आतुर / आबाधिक /	dàn
shōu yì	आपण	ābandhaka	hǔi	जोति / निभा / पज्जोत / पभा / पभा / अवभास / आलोक / दित्ति / निभा / भा / पभास / आभा /
उदय / पत्ति / आय / बलि / अय / आनिसंस / उपभोग /	āpaṇa	連接	आबाधिक / गिलान / आतुर /	jo
潤	商場	lián jiē	आभरण	裝飾物
rùn	市	अनुबन्धन / आबन्धक / उपयोग /	ābharāṇa	zhuāng shì wù
पत्ति / आय / आनिसंस / उपभोग /	shì	आबाध	पसाधन / आभरण / अलङ्कार /	裝修
潤	आपण / नगर /	ābādha	裝修	zhuāng xiū
rùn	市場	弊病	zhuāng xiū	आभरण / पसाधन / अलङ्करण / अलङ्कार /
उपभोग / आय / आनिसंस / पत्ति /	shì chǎng	bì bìng	裝飾	裝飾
獲利	市場	आतङ्क / आबाध /	zhuāng shì	आभरण / पसाधन / अलङ्करण / अलङ्कार /
huò lì	shì chǎng	疾	zhuāng shì	पसाधन / अलङ्कार / पिलन्धन / आभरण / अलङ्करण /
पत्ति / उपभोग / आय / आनिसंस /	市集	jí	清	清
盈利	shì jí	गेलञ्ज / आतङ्क / गद / आबाध /	清	清
yíng lì	肆	疾病	清	清
उदय / आनिसंस / पत्ति / आय / उपभोग /	sì	jí bìng	清	清
获利	销售	आबाध / आतङ्क / गद / गेलञ्ज / आमय /	清	清
huò lì	xiāo shòu	病	清	清
आनिसंस / उदय / उपभोग / आय / पत्ति /	集市	bìng	清	清
裨益	jí shì	आमय / गद / आबाधिक / आतुर / गेलञ्ज / आतङ्क / गिलान / आबाध /	清	清
bì yì	आपणिक	病症	清	清
उदय / उपभोग / अत्य / पत्ति / आनिसंस / आय /	āpaṇika	bìng zhèng	清	清
	店主	आमय / आतङ्क / आबाध /	清	清
	diàn zhǔ	病的	清	清
	आपणिक / पापणिक /	bìng de	清	清
	零售商	आतङ्क / आबाध / गिलान / गिलानक /	清	清
	líng shòu shāng	症	清	清
	आपदा	zhèng	清	清
	āpadā	आमय / आतङ्क / आबाध /	清	清
	不幸	痛苦	清	清
	bù xìng	tòng kǔ	清	清
	अलक्खिक / उपद्दव / अनत्य / अघ / आपदा / अनय /	अघ / आबाध / बाधन / खेद / किच्छ / असात / दुक्ख /	清	清

輕	आमक	आमिस	आय	आयु
qīng	āmaka	āmisa	āya	āyu
दित्ति / पभास / आलोक / पभा / जोति / पदीप / निभा / पज्जोत / भानु / आभा / अवभास / भा /	未成熟的	利益	利	代
輕便	wèi chéng shú de	lì yì	lì	dài
qīng biàn	अल्ल / आमक / आम /	उदय / उपकप्पन / आमिस /	आय / आनिसंस / उपभोग / पत्ति /	पजा / आयु /
पदीप / आभा / दित्ति / पभास / अवभास / निभा / पभा / आलोक / पज्जोत / भानु / भा / जोति /	生的	材	利潤	壽命
輕	shēng de	cái	lì rùn	shòu mìng
qīng	आमक / अद् / आम /	आमिस / दारु / कडु / दब्ब /	पत्ति / आय / आनिसंस / उपभोग /	जीव / पाण / आयु / चरित /
पज्जोत / निभा / पदीप / पभा / भा / जोति / पभास / अवभास / भानु / दित्ति / आलोक / आभा /	आमन्तन	材料	利潤	年代
आभोग	āmantana	cái liào	lì rùn	nián dài
ābhoga	ह्पुल्ल	आमिस / दब्ब /	आनिसंस / पत्ति / उपभोग / आय /	年岁
以為	hū jiào	材質	羸	nián suì
yǐ wèi	稱呼	cái zhì	yíng	年紀
आभोग / चित्त / चिन्तन /	chēng hū	物质	आय / पुण्ण / आनिसंस / पत्ति /	nián jì
心思	邀請	wù zhì	उदय / परिपूर / उपभोग /	年老
xīn sī	yāo qǐng	दब्ब / आमिस /	定期收入	nián lǎo
आभोग / चिन्तन / चित्त /	अज्जेसना / निमन्तन / आराधना / आमन्तन / पवारणा /	物质的	dīng qī shōu rù	बु / आयु /
心想	आमय	wù zhì de	आय / उदय / अय /	年齡
xīn xiǎng	āmaya	素材	成果	nián líng
पटिमा / चिन्तन / चित्त /	恙	sù cái	chéng guǒ	nián líng
पटिबिम्ब / आभोग / बिम्ब /	yàng	肉	फल / निस्सन्द / निप्फज्जन / अभिसन्द / निप्फत्ति / आय / उदय / अभिसन्दन /	nián líng
思想	आतङ्क / गद / गेलञ्ज / आमय /	ròu	收	时代
sī xiǎng	疾病	आमिस / पिसित /	shōu	shí dài
आभोग / चित्त / गाह / चिन्तन /	jí bìng	肉體	अय / आय / उदय /	歲數
想法	आबाध / आतङ्क / गद / गेलञ्ज / आमय /	ròu tǐ	收入	suì shù
xiǎng fǎ	病	आमिस / पिसित /	shōu rù	變老
गाह / आभोग / चिन्तन / चित्त /	bìng	血肉	बलि / अय / आय / उदय /	biàn lǎo
想過	आमय / गद / आबाधिक / आतुर / गेलञ्ज / आतङ्क / गिलान / आबाध /	xuè ròu	收益	齡
xiǎng guò	病症	पिसित / आमिस /	shōu yì	líng
आभोग / चिन्तन / चित्त /	bìng zhèng	yòu ěr	उदय / पत्ति / आय / बलि / अय / आनिसंस / उपभोग /	आयत्त
आम	आमय / आतङ्क / आबाध /	आमिस / निवाप /	潤	āyatta
āma	症	yòu huò	rùn	占有
唯	zhèng	आमिस / निवाप /	पत्ति / आय / आनिसंस / उपभोग /	zhàn yǒu
wéi	आमय / आतङ्क / आबाध /	食	潤	आयत्त / भोग /
केवल / एवं / एव / एकक / आम /	आमसन	shí	rùn	所有权
是	āmasana	भिक्षा / घास / भत्त / आमिस / आहार / अन्न / भोत्तु / असित / भोजन / असन /	उपभोग / आय / आनिसंस / पत्ति /	suǒ yǒu quán
shì	摩擦	食品	獲利	भोग / आयत्त / धन /
अहोसि / आम / एवं /	mó cā	shí pǐn	huò lì	所有物
是的	निघंस / आमसन /	भिक्षा / आहार / आमिस / भोजन / भत्त / असन / अन्न / असित / घास /	पत्ति / उपभोग / आय / आनिसंस /	suǒ yǒu wù
shì de	आमासय	食物	盈利	आयत्त / भोग /
एवं / आम /	āmāsaya	shí wù	yíng lì	持有
未成熟的	肚	घास / भोजन / भिक्षा / अण्ण / आहार / अन्न / आमिस / असित / भत्त / असन /	उदय / आनिसंस / पत्ति / आय / उपभोग /	chí yǒu
wèi chéng shú de	dù	餽	获利	आयुत्तक
अल्ल / आमक / आम /	कोडु / उदर / आमासय / जठर /	餽	huò lì	āyuttaka
沒錯	胃	餽	आनिसंस / उदय / उपभोग / आय / पत्ति /	代理人
méi cuò	wèi	餽	裨益	dài lǐ rén
एवं / आम /	जठर / आमासय / उदर /	ěr	bì yì	
沒錯	腹	निवाप / आमिस /	उदय / उपभोग / अत्थ / पत्ति / आनिसंस / आय /	
méi cuò	fù	飯		
आम / एवं /	जठर / उदर / कोडु / आमासय /	fàn		
生的	shēng de	आहार / असित / असन / घास / अन्न / आमिस / भिक्षा / भत्त / भोजन /		
आमक / अद् / आम /	आमक / अद् / आम /	餌		
		ěr		
		आमिस / निवाप /		

आयतन	आयति	आयस्मन्तु	आरक्खक	आरक्खा
āyatana	āyati	āyasmantu	ārakkhaka	ārakkhā
位	他日	值得尊敬的	守卫	保护
wèi	tā rì	zhí dé zūn jìng de	shǒu wèi	bǎo hù
पद / आयतन / पदेस / अवद्धान / निसीदन / आसन / ठान / पीठ /	अनागत / आयति /	गरु / आयस्मन्तु /	आरक्खक / गुत्ति /	अनुपालन / तायन / पटिसरण /
位置	前程	आयूहन	守衛	आरक्खा / निस्सय / अनुरक्खा /
wèi zhì	qián chéng	āyūhana	shǒu wèi	परिहार / गोपन / अनुरक्खन /
अवद्धान / पद / पदेस / ठान / आसन / निसीदन / आयतन / पीठ /	अनागत / आयति /	नुर	आरक्खक / गुत्ति /	गुत्ति / नाथ / अभिरक्खन / ताण /
區域	前途	努力	守護	保護
qū yù	qián tú	nǔ lì	shǒu hù	bǎo hù
देस / भूमि / पदेस / आयतन /	आयति / अनागत /	आतप्प / पग्गह / उस्साह /	गुत्ति / परिरक्खन / आरक्खक /	तायन / गोपन / गुत्ति / परिहार /
地位	將來	उस्सहन / पग्गाह / परिस्सम /	巡夜者	अनुरक्खा / अनुरक्खन / पटिसरण /
de wèi	jiāng lái	उग्घटित / आयूहन / पयोग /	xún yè zhě	/ नाथ / अभिरक्खन / आरक्खा /
पदेस / पदेस / ठान / अवद्धान / पद / पद / ठान / आयतन / आयतन / अवद्धान /	आयति / अनागत /	आयाचना	गोपक / आरक्खक /	अनुपालक / पालन / अनुपालन /
地位	將來	āyācana	把守	निस्सय / ताण /
dì wèi	jiāng lái	應用	bǎ shǒu	关心
पदेस / पदेस / ठान / अवद्धान / पद / पद / ठान / आयतन / आयतन / अवद्धान /	अनागत / आयति /	yīng yòng	गुत्ति / आरक्खक /	guān xīn
局面	日後	आयाचना / अभिनिरापन / उपयोग /	看守	गोपन / पटिजग्गन / परिहार /
jú miàn	rì hòu	求	kàn shǒu	आरक्खा /
आयतन / अवद्धान / पद /	आयति / अनागत /	qiú	看守人	在乎
球	將來	अज्जेसना / आयाचना / अभियाचन /	kàn shǒu rén	zài hū
qiú	wèi lái	申請	गोपक / आरक्खक /	परिहार / गोपन / पटिजग्गन /
कन्दुक / आयतन / कीळा / गुळ / घटिका /	आयति / अनागत / आगामी /	shēn qǐng	衛	गोपन / पटिजग्गन / परिहार /
界	未來	आयाचना / अभिनिरापन / उपयोग /	wèi	आरक्खा / आरक्खा /
jiè	wèi lái	申請書	गुत्ति / आरक्खक /	在意
身份	未來	shēn qǐng shū	門衛	zài yì
shēn fèn	wèi lái de	अभिनिरापन / उपयोग / आयाचना /	mén wèi	आरक्खा / गोपन / पटिजग्गन /
आयतन / ठान / पद / पदेस / अवद्धान /	अनागत / आयति /	請求	आरक्खक / गुत्ति /	परिहार /
身分	आयतिका	qǐng qiú		打理
shēn fēn	āyatikā	अभियाचन / आयाचना / अज्जेसना /		dǎ lǐ
अवद्धान / आयतन / पद /	水管	आयाम		परिहार / आरक्खा / पटिजग्गन /
部位	shuǐ guǎn	āyāma		गोपन /
bù wèi	管	篇幅		料理
पदेस / ठान / अवद्धान / आयतन / पद /	guǎn	piān fú		liào lǐ
	आयतिका / नाळ / नाळिका / नळ / पनाळिका /	長度		आरक्खा / गोपन / परिहार /
	管子	zhǎng dù		पटिजग्गन / परिहार / गोपन /
	guǎn zi	長短		परिचरण / आरक्खा /
	नाळ / पनाळिका / नळ / नाळिका / आयतिका /	zhǎng duǎn		照看
		長度		zhào kàn
		zhǎng dù		परिहार / गोपन / पटिजग्गन /
				आरक्खा /
				留心
				liú xīn
				परिहार / पटिजग्गन / गोपन /
				आरक्खा / पटिसङ्खान /
				看守
				kàn shǒu
				आरक्खक / गुत्ति / आरक्खा /
				看護
				kàn hù
				परिहार / गोपन / आरक्खा /
				पटिजग्गन /
				關心
				guān xīn
				पटिजग्गन / गोपन / परिहार /
				आरक्खा /
				關照
				guān zhào
				आरक्खा / पटिजग्गन / परिहार /
				गोपन /

आरका	आराधना	आराव	आरोह	आलम्ब
ārakā	ārādhanā	ārāva	āroha	ālamba
遠離	成就	॥	॥	॥
yuǎn lí	chéng jiù	huā	gè r	gōng yǎng
आरा / आरका /	आराधना / निष्पादन / कुसलता /	॥	आरोह / उब्बेध /	उपकरण / ओलम्ब / पग्गह /
आरञ्जित	अभिनिष्कृति / निष्कृजन /	॥	॥	ओलम्बक / अपस्सय / निस्सय /
ārañjita	邀請	xuān	海拔	अवस्सय / पतिट्ठा / आलम्ब /
傷疤	yāo qīng	आराव / आराव /	hǎi bá	आधार / पग्गह / उपत्थम्भ /
shāng bā	अज्जेसना / निमन्तन / आराधना /	॥	उब्बेध / आरोह / उन्नति /	उपनिस्सय / उपकार / पतिट्ठान /
傷痕	आमन्तन / पवारणा /	xuǎn	身高	आलम्बन / दीप /
shāng hén	आराम	आराव / आराव /	shēn gāo	助
疤	ārāma	॥	उब्बेध / आरोह /	zhù
bā	修道院	噪	騎士	पतिट्ठा / उपकार / अनुग्गहन /
疤痕	xiū dào yuàn	zào	騎士	आलम्ब / अनुबल / पटिसरण /
bā hén	僧院	噪声	qí shì	उपकरण / दीप / अवलम्बन /
痕	sēng yuàn	zào shēng	आरोहक / आरोह /	अवस्सय /
hén	娛	噪音	高低	協助
अङ्क / आरञ्जित /	yú	zào yīn	gāo dī	xié zhù
癩痕	आराम / काम / तुट्टि /	आरोग्य	उब्बेध / आरोह /	आलम्ब / अनुबल / अवलम्बन /
bān hén	寺院	ārogya	高度	उपकार / दीप / उपकरण /
आरति	sì yuàn	保健	gāo dù	अवस्सय / अनुग्गहन / पटिसरण /
ārati	快感	bǎo jiàn	आरोह / उब्बेध / उक्कट्टु /	पतिट्ठा /
禁欲	kuài gǎn	健康	आरोहक	उपकरण / पटिसरण / अवस्सय /
jìn yù	तुट्टि / आराम / काम /	jiàn kāng	ārohaka	उपकार / अनुग्गहन / दीप /
आरति / आतापन /	愉快	卫生	騎士	अनुबल / अवलम्बन / आलम्ब /
आरम्भ	yú kuài	wèi shēng	qí shì	पतिट्ठा /
ārabbha	आराम / फासक / अत्तमन / इट्टु /	衛生	आरोहक / आरोह /	幫
一下	अरुसाद / तुट्टि / परिभोग / काम /	wèi shēng	आरोहन	bāng
yī xià	愉悅	आरोचना	ārohana	अनुबल / पतिट्ठा / आलम्ब /
即將	yú yuè	ārocanā	攀登	अनुग्गहन / दीप / अवलम्बन /
jí jiāng	आराम / तुट्टि / काम /	公告	pān dēng	उपकरण / पटिसरण / उपकार /
大約	樂趣	gōng gào	登上	अनुबल / पतिट्ठा / अवलम्बन /
dà yuē	lè qù	त्रुत्ति / निवेदन / ज्ञापन / आरोच	dēng shàng	पतिट्ठान / उपकार / अवस्सय /
dà yuē	आराम / पमोद / तुट्टि / काम /	ना / पवेदन / पञ्जापन /	登高	आलम्ब /
左右	नन्दि / आनन्द /	告示	dēng gāo	幫忙
zuǒ yòu	欢乐	gào shì	आलेप	bāng máng
快要	huān lè	निवेदन / आरोचना / त्रुत्ति /	ālepa	अवस्सय / दीप / पतिट्ठा / उपकरण
kuài yào	आराम / आनन्द / पमोद / तुट्टि /	पञ्जाण / ज्ञापन / पवेदन /	石膏	अनुग्गहन / उपकार / पटिसरण /
走進	पामोज्ज / काम / पामोज्ज /	आरोदना	shí gāo	अनुबल / आलम्ब / अवलम्बन /
zǒu jìn	नन्दि / पीति /	ārodanā	膏药	幫
關於	欢喜	哭	gāo yào	bāng
guān yú	huān xǐ	kū	॥	अनुग्गहन / अवलम्बन / उपकरण
आरम्भ / पटिच्च /	पमोद / आराम / तुट्टि / काम /	कन्दित / कन्दन / आरोदना /	॥	/ पतिट्ठा / उपकार / अवस्सय /
आरम्भ	नन्दि / आनन्द /	आदेव /	॥	अनुबल / पटिसरण / दीप /
ārambha	高興	哭泣	॥	आलम्ब /
嘗試	gāo xìng	kū qì	॥	幫助
cháng shì	आराम / तुट्टि / काम /	啼	॥	bāng zhù
開始	आरामता	tí	॥	पतिट्ठा / अवलम्बन / अवस्सय /
kāi shǐ	ārāmatā	॥	॥	दीप / पटिसरण / उपकार /
आदि / आरम्भ / उब्भव /	附著	॥	॥	अनुग्गहन / अनुबल / उपकरण /
आरा	fù zhù	॥	॥	आलम्ब / दीप / पटिसरण /
ārā	॥	॥	॥	पतिट्ठा /
遠離	॥	॥	॥	扶
yuǎn lí	॥	॥	॥	fú
आरा / आरका /	॥	॥	॥	आलम्ब / पटिसरण / अवस्सय /
॥	॥	॥	॥	दीप / अनुग्गहन / उपकरण /
॥	॥	॥	॥	उपकार / पतिट्ठा / अवलम्बन /
॥	॥	॥	॥	अनुबल /
॥	॥	॥	॥	扶助
॥	॥	॥	॥	fú zhù
॥	॥	॥	॥	अवस्सय / उपकरण / दीप /
॥	॥	॥	॥	अनुग्गहन / उपकार / अवलम्बन /
॥	॥	॥	॥	/ अनुबल / पटिसरण / आलम्ब /
॥	॥	॥	॥	पतिट्ठा /

撐
chēng
आलम्ब / पतिङ्गा / निस्सय / दीप / ओलम्बक / उपनिस्सय / पग्गह / आधार / उपकरण / अवस्सय / आलम्बन / ओलम्ब / पतिङ्गान / उपत्यम्भ / पग्गह / अपस्सय / उपकार /
撐腰
chēng yāo
पग्गह / निस्सय / उपकार / पग्गह / आलम्ब / उपनिस्सय / आलम्बन / पतिङ्गान / उपकरण / अवस्सय / अपस्सय / आधार / पतिङ्गा / उपत्यम्भ / ओलम्ब / दीप / ओलम्बक /
撐
chēng
आलम्बन / उपत्यम्भ / अपस्सय / आधार / ओलम्बक / ओलम्ब / पग्गह / उपनिस्सय / पग्गह / अवस्सय / आलम्ब / उपकरण / दीप / पतिङ्गान / उपकार / पतिङ्गा / निस्सय /
支持
zhī chí
पग्गह / आलम्ब / उपत्यम्भ / पतिङ्गा / उपकार / उपकरण / पग्गह / पतिङ्गान / अवस्सय / आलम्बन / निस्सय / दीप / उपनिस्सय / ओलम्ब / ओलम्बक / आधार / अपस्सय /
支援
zhī yuán
उपकार / अपस्सय / पतिङ्गा / पग्गह / दीप / ओलम्बक / उपत्यम्भ / पग्गह / अनुज्जा / पतिङ्गान / उपनिस्सय / अवस्सय / ओलम्ब / आलम्ब / निस्सय / आलम्बन / आधार / उपकरण /
支撐
zhī chēng
उपकरण / दीप / ओलम्बक / उपत्यम्भ / पतिङ्गान / उपनिस्सय / अपस्सय / पग्गह / आलम्ब / पग्गह / आधार / आलम्बन / पतिङ्गा / ओलम्ब / निस्सय / अवस्सय / उपकार /
救助
jiù zhù
पतिङ्गा / अवस्सय / अनुबल / अवलम्बन / अनुगणहन / दीप / आलम्ब / उपकरण / उपकार / पटिसरण /
救命
jiù mìng
अवलम्बन / आलम्ब / पटिसरण / उपकरण / अनुगणहन / दीप / अनुबल / उपकार / अवस्सय / पतिङ्गा /
救援
jiù yuán
आलम्ब / पटिसरण / अनुगणहन / उपकार / दीप / अवस्सय / अवलम्बन / उपकरण / अनुबल / पतिङ्गा /
有助
yǒu zhù
पटिसरण / अवलम्बन / पतिङ्गा / उपकरण / दीप / अनुबल / उपकार / अवस्सय / अनुगणहन / आलम्ब /

आलम्बन
ālambara
供養
gōng yǎng
उपकरण / ओलम्ब / पग्गह / ओलम्बक / अपस्सय / निस्सय / अवस्सय / पतिङ्गा / आलम्ब / आधार / पग्गह / उपत्यम्भ / उपनिस्सय / उपकार / पतिङ्गान / आलम्बन / दीप /
撐
chēng
आलम्ब / पतिङ्गा / निस्सय / दीप / ओलम्बक / उपनिस्सय / पग्गह / आधार / उपकरण / अवस्सय / आलम्बन / ओलम्ब / पतिङ्गान / उपत्यम्भ / पग्गह / अपस्सय / उपकार /
撐腰
chēng yāo
पग्गह / निस्सय / उपकार / पग्गह / आलम्ब / उपनिस्सय / आलम्बन / पतिङ्गान / उपकरण / अवस्सय / अपस्सय / आधार / पतिङ्गा / उपत्यम्भ / ओलम्ब / दीप / ओलम्बक /
撐
chēng
आलम्बन / उपत्यम्भ / अपस्सय / आधार / ओलम्बक / ओलम्ब / पग्गह / उपनिस्सय / पग्गह / अवस्सय / आलम्ब / उपकरण / दीप / पतिङ्गान / उपकार / पतिङ्गा / निस्सय /
支持
zhī chí
पग्गह / आलम्ब / उपत्यम्भ / पतिङ्गा / उपकार / उपकरण / पग्गह / पतिङ्गान / अवस्सय / आलम्बन / निस्सय / दीप / उपनिस्सय / ओलम्ब / ओलम्बक / आधार / अपस्सय /
支援
zhī yuán
उपकार / अपस्सय / पतिङ्गा / पग्गह / दीप / ओलम्बक / उपत्यम्भ / पग्गह / अनुज्जा / पतिङ्गान / उपनिस्सय / अवस्सय / ओलम्ब / आलम्ब / निस्सय / आलम्बन / आधार / उपकरण /
支撐
zhī chēng
उपकरण / दीप / ओलम्बक / उपत्यम्भ / पतिङ्गान / उपनिस्सय / अपस्सय / पग्गह / आलम्ब / पग्गह / आधार / आलम्बन / पतिङ्गा / ओलम्ब / निस्सय / अवस्सय / उपकार /
आलय
ālaya
住所
zhù suǒ
आसय / उपस्सय / निवास / निकेत / आवसथ / ओक / निकेतन / निलय / आलय / निवेस /
需要
xū yào
आलय / अत्य /
आलस्य
ālasya
怠惰
dài duò
तन्दी / कोसज्ज / आलस्य / आलसिय /

आलसिय
ālasiya
怠惰
dài duò
तन्दी / कोसज्ज / आलस्य / आलसिय /
आलान
ālāna
柱
zhù
कील / कूपक / बाहा / आलान / आळान / खील / खाणु / थम्भ /
आलाप
ālāpa
交談
jiāo tán
कतिका / अल्लाप / आलाप / कथन /
会话
huì huà
कथा / आलाप /
單詞
dān cí
圣言
shèng yán
字
zì
言
yán
詞
cí
話
huà
談話
tán huà
भासन / आलाप /
詞
cí
आलि
āli
堤防
dī fáng
कूल / आलि /
आलिम्पन
ālimpana
燒
shāo
आलिम्पन / अनुडहन /

आलोक
āloka
亮光
liàng guāng
भानु / आभा / अवभास / जोति / पभास / पज्जोत / पभा / भा / आलोक / निभा / दित्ति / पदीप /
光
guāng
आलोक / दित्ति / भा / पज्जोत / पदीप / पभास / आभा / पभा / जोति / अवभास / भानु / निभा /
光線
guāng xiàn
अवभास / पदीप / निभा / पभास / पज्जोत / पभा / भानु / कर / जोति / आलोक / किरण / दित्ति / भा / आभा /
對光
duì guāng
पज्जोत / जोति / भानु / पदीप / पभा / अवभास / आलोक / दित्ति / निभा / भा / पभास / आभा /
淡
dàn
जोति / निभा / पज्जोत / पभा / भानु / आलोक / भा / अवभास / दित्ति / पभास / पदीप / आभा /
淡淡
dàn dàn
पदीप / जोति / दित्ति / अवभास / आभा / पज्जोत / पभा / पभास / आलोक / भानु / भा / निभा /
清淡
qīng dàn
पभास / पज्जोत / पदीप / आलोक / पभा / दित्ति / जोति / भा / निभा / भानु / अवभास / आभा /
灯
dēng
दित्ति / पदीप / अवभास / पभास / आलोक / पभा / जोति / भा / भानु / पज्जोत / आभा / निभा /
燈
dēng
पज्जोत / दित्ति / पभा / जोति / भानु / निभा / भा / पदीप / पभास / आभा / अवभास / आलोक / दीप /
燈光
dēng guāng
पज्जोत / भानु / आलोक / भा / पभा / अवभास / पभास / आभा / दित्ति / निभा / जोति / पदीप /
發光
fā guāng
भानु / आभा / पभास / पज्जोत / पभा / अवभास / पदीप / जोति / भा / निभा / आलोक / दित्ति /
輕
qīng
दित्ति / पभास / आलोक / पभा / जोति / पदीप / निभा / पज्जोत / भानु / आभा / अवभास / भा /
輕便
qīng biàn
पदीप / आभा / दित्ति / पभास / अवभास / निभा / पभा / आलोक / पज्जोत / भानु / भा / जोति /

轻
qīng
पज्जोत / निभा / पदीप / पभा / भा / जोति / पभास / अवभास / भानु / दित्ति / आलोक / आभा /
आलोकन
ālokana
窗
chuāng
कवाट / उल्लोकन / आलोकन / आलोकसन्धि /
窗口
chuāng kǒu
आलोकसन्धि / कवाट / उल्लोकन / आलोकन /
窗子
chuāng zi
आलोकन / कवाट / आलोकसन्धि / उल्लोकन /
窗戶
chuāng hù
आलोकन / उल्लोकन / कवाट / आलोकसन्धि /
窗戶
chuāng hù
कवाट / उल्लोकन / आलोकसन्धि / आलोकन /
आलोकसन्धि
ālokasandhi
窗
chuāng
कवाट / उल्लोकन / आलोकन / आलोकसन्धि /
窗口
chuāng kǒu
आलोकसन्धि / कवाट / उल्लोकन / आलोकन /
窗子
chuāng zi
आलोकन / कवाट / आलोकसन्धि / उल्लोकन /
窗戶
chuāng hù
आलोकन / उल्लोकन / कवाट / आलोकसन्धि /
窗戶
chuāng hù
कवाट / उल्लोकन / आलोकसन्धि / आलोकन /
आलोक
āloja
混亂
hùn luàn
नीघ / आलोक /
激動
jī dòng
चलन / पकोप / फन्दित / फन्दन / कूपन / उब्बिज्जना / आलोक / पारितसना / खोभ /
आळान
ālāna
柱
zhù
कील / कूपक / बाहा / आलान / आळान / खील / खाणु / थम्भ /

आवट्ट	आवुध	आवुसो	आवास	आवाह
āvaṭṭa	āvudha	āvuso	āvāsa	āvāha
漩渦	兵器	兄弟	主場	婚事
xuán wō	bīng qì	xiōng dì	zhǔ chǎng	hūn shì
आवट्टन	आवुध / आयुध / 利器	अनुज / भातु / भातिक / आवुसो / 兄或弟	निलय / निकेतन / उपस्सय / निकेत / घर / गेह / आवास /	परिणय / आवाह / 婚姻
āvaṭṭana	li qì	xiōng huò dì	主頁	hūn yīn
誘惑	आयुध / आवुध / 械	भातु / भातिक / अनुज / आवुसो / 兄長	zhǔ yè	परिणय / आवाह /
yòu huò	xiè	xiōng zhǎng	निकेत / निलय / आवास / निकेतन / गेह / घर / उपस्सय /	婚宴
आवेणिक	आयुध / आवुध / 武器	भातु / अनुज / आवुसो / भातिक / 同胞	住宅	hūn yàn
āveṇika	wǔ qì	xiōng zhāng	zhù zhái	婚禮
例外的	आयुध / आवुध /	भातु / अनुज / आवुसो / भातिक / 同胞	zhù zhái	婚禮
lì wài de	wǔ qì	tóng bāo	निकेतन / आवास / निकेत / गह / निवेस / गेह / अगार / घर / निलय / निवास / उपस्सय /	hūn lǐ
特別	आयुध / आवुध /	भातु / भातिक / आवुसो / अनुज / 哥	住家	आवाह / परिणय / 婚禮
tè bié	आवरण	gē	zhù jiā	hūn lǐ
आवत्त	āvaraṇa	भातिक / भातु / अनुज / आवुसो / 哥哥	आवास / निलय / निकेत / घर / निकेतन / उपस्सय / गेह /	आसु
āvatta	屏	gē gē	回國	āsū
旋轉	píng	भातु / अनुज / भातिक / आवुसो / 姐夫	huí guó	很快
xuán zhuǎn	屏幕	jiē fu	निकेत / आवास / गेह / घर / उपस्सय / निकेतन / निलय /	hěn kuài
परिवर्तन / आवत्त /	píng mù	आवुसो / भातु / अनुज / भातिक / 弟兄	在家	हुवटं / खिप्पं / अविलम्बितं / आसु
आवत्तन	屏風	dì xiōng	zài jiā	很快地
āvattana	棒	आवुसो / अनुज / भातु / भातिक / 弟弟	घर / गेह / निलय / आवास / उपस्सय / निकेत / निकेतन /	hěn kuài dì
轉	bàng	dì dì	家	तुरित / आसु / तुवटं / खिप्पं / अविलम्बितं / खिप्पं /
zhuǎn	आवरण / पतोद / दक्ख / दण्डक / 銀幕	अनुज / आवुसो / भातिक / भातु / 朋	jiā	趕快
आवत्थिक	yín mù	आवुसो / अनुज / भातु / भातिक / 弟弟	कुटुम्ब / उपस्सय / घर / गेह / आवास / कुल / निकेत / गह / निकेतन / निलय /	gǎn kuài
āvattṭhika	關閉	péng	家園	अविलम्बितं / तुवटं / आसु / खिप्पं /
原	guān bì	朋友	jiā yuán	趕快
yuán	पिदहन / आवरण / 障礙	péng yǒu	आवास / उपस्सय / निकेतन / गेह / निलय / घर / निकेत /	gǎn kuài
原件	zhàng ài	आवुसो / आवुसो / 朋友	家園	तुवटं / अविलम्बितं / खिप्पं / आसु
yuán jiàn	पपञ्च / आवरण / अन्तराय / परिपन्थ / पळिबोध /	péng yǒu	jiā yuán	迅速地
原來	आवली	आवुसो / आवुसो / 朋友	निलय / घर / निकेतन / निकेत / उपस्सय / आवास / गेह /	xùn sù dì
yuán lái	āvalī	आवुसो / भातु / अनुज / भातिक /	家庭	खिप्पं / तुवटं / तुरित / अविलम्बितं / आसु /
yuán lái	排	péng you	jiā tíng	
yuán lái	pái	आवुसो / आवुसो / 社友	निकेत / कुल / निलय / निकेतन / कुटुम्ब / आवास / उपस्सय /	
yuán lái	線	अनुज / आवुसो / भातिक / भातु / 老兄	家裡	
yuán lái	xiàn	lǎo xiōng	jiā li	
yuán lái	पालि / तन्तु / तन्तु / आवली /	आवुसो / भातु / अनुज / भातिक /	आवास / गेह / निलय / घर / निकेतन / निकेत / उपस्सय /	
yuán lái	आवसथ	आवहन	居家	
yuán lái	āvasatha	āvahana	jū jiā	
yuán lái	住所	運輸	घर / गेह / आवास / उपस्सय / निलय / निकेतन / निकेत /	
yuán lái	zhù suǒ	yùn shū	故鄉	
yuán lái	आसय / उपस्सय / निवास / निकेत / आवसथ / ओक / निकेतन / निलय / आलय / निवेस /	आवाप	gù xiāng	
yuán lái	住處	āvāpa	घर / गेह / उपस्सय / निकेत / आवास / निलय / निकेतन /	
yuán lái	zhù chù	लु	老家	
yuán lái	आवेसन	आवाप / उद्दन /	lǎo jiā	
yuán lái	āvesana	烤箱	आवास / गेह / उपस्सय / निकेत / निकेतन / निलय / घर /	
yuán lái	入口	kǎo xiāng		
yuán lái	rù kǒu	उद्दन / आवाप /		
yuán lái	पवेस / आवेसन / द्वार / मुख /			
yuán lái	高考			
yuán lái	gāo kǎo			
yuán lái	पवेस / मुख / आवेसन / द्वार /			
yuán lái	आवत्थिक / आदि / जेड्ड / धरु / मुख्य / प्रधान / मुख / पार्कतिक / पठम /			

आसङ्का
āsāṅkā
懷疑
huái yí
द्वेज्झ / द्वेव्हक / आसङ्का /
怕
pà
तास / भय / पटिभय / आसङ्का / उत्तास /
怵
chù
पटिभय / भय / उत्तास / भीरुक / तास / आसङ्का /
恐
kǒng
उत्तास / आसङ्का / भय / पटिभय / तास /
恐怖
kǒng bù
पटिभय / उत्तास / उत्रास / उत्तसन / भय / तास / आसङ्का /
恐惧
kǒng jù
भय / तास / आसङ्का / उत्तास / पटिभय /
恐懼
kǒng jù
तास / उत्तास / भय / पटिभय / आसङ्का /
慚
dàn
आसङ्का / पटिभय / भीति / भय / उत्तास / तास /
惶恐
huáng kǒng
तास / उत्तास / आसङ्का / पटिभय / भय /
懷疑
huái yí
परिसप्पना / परिसङ्का / आसङ्का /
懼
jù
तास / आसङ्का / उत्तास / भय / पटिभय /
畏
wèi
पटिभय / आसङ्का / तास / भय / उत्तास /
畏懼
wèi jù
उत्तास / भय / पटिभय / तास / आसङ्का /
疑
yí
द्वेज्झ / द्वेव्हक / आसङ्का /
疑問
yí wèn
द्वेज्झ / द्वेव्हक / आसङ्का / कथङ्कथा /
疑惑
yí huò
आसङ्का / कथङ्कथा / द्वेज्झ / द्वेव्हक /
疑慮
yí lù
द्वेज्झ / आसङ्का / द्वेव्हक / कथङ्कथा /

置疑
zhì yí
द्वेज्झ / कथङ्कथा / द्वेव्हक / आसङ्का /
虞
yú
पटिभय / तास / आसङ्का / भय / उत्तास /
आसज्जन
āsajjana
侮
wǔ
ओमसना / उपवाद / घट्टन / आसज्जन / अक्कोस / तिरोक्कार /
侮辱
wǔ rǔ
घट्टन / उपवाद / आसज्जन / तिरोक्कार / ओमसना / अक्कोस /
汚辱
wū rǔ
ओमसना / आसज्जन / दूसन / अक्कोस / तिरोक्कार / घट्टन / उपवाद /
辱
rǔ
तिरोक्कार / उपवाद / ओमसना / अयस / घट्टन / अक्कोस / आसज्जन /
आसन
āsana
位
wèi
पद / आयतन / पदेस / अवट्टान / निसीदन / आसन / ठान / पीठ /
位子
wèi zi
ठान / पद / निसीदन / पीठ / पदेस / आसन /
位置
wèi zhì
अवट्टान / पद / पदेस / ठान / आसन / निसीदन / आयतन / पीठ /
后座
hòu zuò
पीठ / आसन / निसीदन /
席
xí
पद / ठान / आसन / निसीदन / पदेस / पीठ /
座
zuò
निसीदन / पीठ / आसन /
座位
zuò wèi
निसीदन / आसन / पीठ /
座椅
zuò yǐ
निसीदन / पीठ / आसन /

आसन्न
āsanna
接近的
jiē jìn de
उपनायिक / निकट / निकट्ट / आगमन / धुर / आसन्न / उपकट्ट / अविदूर /
鄰近
lín jìn
आसन्न / उपन्तिक /
आसय
āsaya
住所
zhù suǒ
आसय / उपस्सय / निवास / निकेत / आवसथ / ओक / निकेतन / निलय / आलय / निवेस /
傾向
qīng xiàng
निन्नता / आसय / अभिनिवेस / पाताल / पसङ्ग / अनुसय / पब्भार / अधिमृत्ति / नति /
आसव
āsava
幽靈
yōu líng
आसव / पेत /
आसेवना
āsevanā
猛打
měng dǎ
練習
liàn xí
आसेवना / आचार / पटिपज्जन / अनुचरण / चारित्त / पटिपत्ति / उपसेवना /
追擊
zhuī jī
追求
zhuī qiú
एसन्त / एसमान / आसेवना /

आसा
āsā
希
xī
अभिकङ्खित / आसा / अभिकङ्खन / आसिसना / अपेक्खन /
希望
xī wàng
खन्ति / अभिकङ्खित / अभिकङ्खन / आसा / अपेक्खन / आसिसना / अभिरुचि / इच्छन / अभिलासा /
願望
yuàn wàng
अपेक्खन / निकामना / अभिलासा / इच्छा / इच्छन / जालिनी / आसा / आसिसना / पिहायना / छन्द /
指望
zhǐ wàng
अभिकङ्खन / अपेक्खन / अभिकङ्खित / आसिसना / आसा /
望
wàng
आसिसना / अभिकङ्खन / आसा / अपेक्खन / अभिकङ्खित /
期待
qī dài
अभिकङ्खित / अभिकङ्खन / आसिसना / आसा / अपेक्खन /
期望
qī wàng
अभिलासा / इच्छा / अभिकङ्खित / इच्छन / जालिनी / पिहायना / अपेक्खन / निकामना / अभिकङ्खन / आसा / आसिसना /
欲望
yù wàng
आसा / पिहायना / तण्हा / निकामना / अपेक्खन / आसिसना / इच्छा / अभिलासा / जालिनी / इच्छन /
欲求
yù qiú
आसा / निकामना / इच्छा / इच्छन / अपेक्खन / आसिसना / जालिनी / अभिलासा / पिहायना /
渴望
kě wàng
कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकङ्खन / जालिनी / अपेक्खन / आसा / एजा / इच्छा / तण्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकङ्खित / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /
祝
zhù
इच्छन / इच्छा / अभिलासा / आसिसना / आसा / छन्द /
要求
yào qiú
आसिसना / आसा / जालिनी / पिहायना / इच्छन / निकामना / अभिलासा / अत्थ / इच्छा / अपेक्खन / अभियाचन /
願望
yuàn wàng
अपेक्खन / निकामना / अभिलासा / आसिसना / आसा / पिहायना / इच्छन / इच्छा / जालिनी /

आसित्तक
āsittaka
佐料
zuǒ liào
आसिसक
āsimsaka
候选人
hòu xuǎn rén
候選人
hou xuǎn rén

आसिसना	आसी	इङ्गित	इच्छन	इच्छा
āsimsanā	āsī	īngita	icchana	icchā
希	庇佑	姿勢	希望	愿望
xī	bì yòu	zī shì	xī wàng	yuàn wàng
अभिकङ्खित / आसा / अभिकङ्खन / आसिसना / अपेक्खन /	恩惠	अवद्दान / इङ्गित / इरिया / इरियना /	खन्ति / अभिकङ्खित / अभिकङ्खन / आसा / अपेक्खन / आसिसना / अभिरुचि / इच्छन / अभिलासा /	अपेक्खन / निकामना / अभिलासा / इच्छा / इच्छन / जालिनी / आसा / आसिसना / पिहायना / छन्द /
希望	祚	इङ्घ	愿望	期望
xī wàng	zù	īngha	yuàn wàng	qī wàng
खन्ति / अभिकङ्खित / अभिकङ्खन / आसा / अपेक्खन / आसिसना / अभिरुचि / इच्छन / अभिलासा /	祝福	來來	अपेक्खन / निकामना / अभिलासा / इच्छा / इच्छन / जालिनी / आसा / आसिसना / पिहायना / छन्द /	अभिलासा / इच्छा / अभिकङ्खित / इच्छन / जालिनी / पिहायना / अपेक्खन / निकामना / अभिकङ्खन / आसा / आसिसना /
愿望	福	इच्छ	期望	欲望
yuàn wàng	fú	iccha	qī wàng	yù wàng
अपेक्खन / निकामना / अभिलासा / इच्छा / इच्छन / जालिनी / आसा / आसिसना / पिहायना / छन्द /	福氣	想	अभिलासा / इच्छा / अभिकङ्खित / इच्छन / जालिनी / पिहायना / अपेक्खन / निकामना / अभिकङ्खन / आसा / आसिसना /	आसा / पिहायना / तण्हा / निकामना / अपेक्खन / आसिसना / इच्छा / अभिलासा / जालिनी / इच्छन /
指望	fu qì	渴望	欲望	欲求
zhǐ wàng	आसीविस	kě wàng	yù wàng	yù qiú
अभिकङ्खन / अपेक्खन / अभिकङ्खित / आसिसना / आसा /	āsīvisa	कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकङ्खन / जालिनी / अपेक्खन / आसा / एजा / इच्छा / तण्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकङ्खित / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /	आसा / पिहायना / तण्हा / निकामना / अपेक्खन / आसिसना / इच्छा / अभिलासा / जालिनी / इच्छन /	आसा / निकामना / इच्छा / इच्छन / अपेक्खन / आसिसना / जालिनी / अभिलासा / पिहायना /
望	蛇		欲求	欲求
wàng	shé		yù wàng	yù qiú
आसिसना / अभिकङ्खन / आसा / अपेक्खन / अभिकङ्खित /	भोगी / दुजिक्क / आसीविस / उरग / अहि / अलगद /		आसा / पिहायना / तण्हा / निकामना / अपेक्खन / आसिसना / इच्छा / अभिलासा / जालिनी / इच्छन /	आसा / निकामना / इच्छा / इच्छन / अपेक्खन / आसिसना / जालिनी / अभिलासा / पिहायना /
期待	आहुण		渴望	渴望
qī dài	āhuṇa		yù qiú	kě wàng
अभिकङ्खित / अभिकङ्खन / आसिसना / आसा / अपेक्खन /	供奉		आसा / निकामना / इच्छा / इच्छन / अपेक्खन / आसिसना / जालिनी / अभिलासा / पिहायना /	कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकङ्खन / जालिनी / अपेक्खन / आसा / एजा / इच्छा / तण्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकङ्खित / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /
期望	gòng fèng		kě wàng	祝
qī wàng	अपचायन / आहृति / आहुण / नमस्सन / जुहनै / पूजा /		कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकङ्खन / जालिनी / अपेक्खन / आसा / एजा / इच्छा / तण्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकङ्खित / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /	祝
अभिलासा / इच्छा / अभिकङ्खित / इच्छन / जालिनी / पिहायना / अपेक्खन / निकामना / अभिकङ्खन / आसा / आसिसना /	崇拜		祝	zhù
欲望	chóng bài		祝	इच्छन / इच्छा / अभिलासा / आसिसना / आसा / छन्द /
yù wàng	पणिपात / अपचायन / पणाम / आहुण / नमस्सन /		祝	要求
आसा / पिहायना / तण्हा / निकामना / अपेक्खन / आसिसना / इच्छा / अभिलासा / जालिनी / इच्छन /	आहुति		祝	願望
欲求	āhuti		祝	yuàn wàng
yù wàng	供奉		祝	अपेक्खन / निकामना / अभिलासा / आसिसना / आसा / पिहायना / इच्छन / इच्छा / जालिनी /
आसा / पिहायना / तण्हा / निकामना / अपेक्खन / आसिसना / इच्छा / अभिलासा / जालिनी / इच्छन /	gòng fèng		祝	इज्झन
欲求	अपचायन / आहृति / आहुण / नमस्सन / जुहनै / पूजा /		祝	ijjhana
yù qiú	提供		祝	成功
आसा / निकामना / इच्छा / इच्छन / अपेक्खन / आसिसना / जालिनी / अभिलासा / पिहायना /	tí gōng		祝	chéng gōng
渴望	आहृति / अभिहार /		祝	繁榮
kě wàng	आहार		祝	fán róng
कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकङ्खन / जालिनी / अपेक्खन / आसा / एजा / इच्छा / तण्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकङ्खित / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /	āhāra		祝	इज्झन / मङ्गल / इदि /
祝	食		祝	
zhù	shí		祝	
इच्छन / इच्छा / अभिलासा / आसिसना / आसा / छन्द /	भिक्खा / घास / भत्त / आमिस / आहार / अन्न / भोत्तु / असित / भोजन / असन /		祝	
要求	食品		祝	
yào qiú	shí pǐn		祝	
आसिसना / आसा / जालिनी / पिहायना / इच्छन / निकामना / अभिलासा / अत्थ / इच्छा / अपेक्खन / अभियाचन /	भिक्खा / आहार / आमिस / भोजन / भत्त / असन / अन्न / असित / घास /		祝	
願望	食物		祝	
yuàn wàng	shí wù		祝	
अपेक्खन / निकामना / अभिलासा / आसिसना / आसा / पिहायना / इच्छन / इच्छा / जालिनी /	घास / भोजन / भिक्खा / अण्ण / आहार / अन्न / आमिस / असित / भत्त / असन /		祝	
	飯		祝	
	fàn		祝	
	आहार / असित / असन / घास / अन्न / आमिस / भिक्खा / भत्त / भोजन /		祝	

इञ्जन
iñjana
動作
dòng zuò
कम्म / इञ्जन / पयोग / चार / किरिय /
動議
dòng yì
फन्दन / एजा / इञ्जन / चार /
動靜
dòng jìng
手足
shǒu zú
运动
yùn dòng
चार / फन्दन / एजा / इञ्जन /
運動
yùn dòng
कम्पन / चार / इञ्जन / फन्दन / एजा / दव / चलन /

इट्ट
itṭha
媿
miǎn
宜人的
yí rén de
愉快
yú kuài
आराम / फासुक / अत्तमन / इट्ट / अस्साद / तुट्टि / परिभोग / काम /
愉快的
yú kuài de
कन्त / इट्ट / अभिराम / फासु / अनुकूल /

इट्टका
itṭhakā
平鋪
píng pū
इट्टिका / इट्टका /
瓦片
wǎ piàn
इट्टका / इट्टिका /
瓷磚
cí zhuān
इट्टिका / इट्टका /

इट्टिका
itṭhikā
平鋪
píng pū
इट्टिका / इट्टका /
瓦片
wǎ piàn
इट्टका / इट्टिका /
瓷磚
cí zhuān
इट्टिका / इट्टका /

इण
iṇa
債
zhài
債
zhài
債務
zhài wu
इत्तर
ittara
很少的
hǎo shǎo de
ईसक / अप्पक / अप्प / इत्तर /
摘要
zhāi yào
短命的
duǎn mìng de

इत्थं
ittham
因此
yīn cǐ
तस्मा / अतो / एवं / ततो / इति / इत्थं / उद्ध / इतो / तथा /
因而
yīn ér
इति / तथा / इत्थं / एवं /
如此
rú cǐ
तथा / इति / एवरूप / तादिस / इत्थं / तादिसक / एवं /
然
rán
तथा / पि / इति / एवं / इत्थं / तु /
由此
yóu cǐ
तथा / एवं / इत्थं / इति /
这样
zhè yàng
तथा / तथा / इति / एवं / एवं / तादिसक / तादिस / इत्थं / इत्थं / इति / एवरूप /
这样
zhè yàng
तथा / तथा / इति / एवं / एवं / तादिसक / तादिस / इत्थं / इत्थं / इति / एवरूप /
這樣
zhè yàng
एवं / इत्थं / तथा /

इत्थि
itthi
女
nǚ
थी / कन्ता / अड्गना / नारी / इत्थि / इत्थि /
女
nǚ
थी / कन्ता / अड्गना / नारी / इत्थि / इत्थि /
女人
nǚ rén
जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अड्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अड्गना /
女人
nǚ rén
जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अड्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अड्गना /
女子
nǚ zǐ
नारी / इत्थि / इत्थि / अड्गना / अड्गना / नारी / थी / कन्ता / कन्ता / थी /
女子
nǚ zǐ
नारी / इत्थि / इत्थि / अड्गना / अड्गना / नारी / थी / कन्ता / कन्ता / थी /
女性
nǚ xìng
इत्थि / इत्थि /
女性
nǚ xìng
इत्थि / इत्थि /
女的
nǚ de
थी / कन्ता / अड्गना / इत्थि / नारी / इत्थि /
女的
nǚ de
थी / कन्ता / अड्गना / इत्थि / नारी / इत्थि /
妇
fù
थी / नारी / कन्ता / इत्थि / अड्गना /
妇人
fù rén
भरिया / जाया / नारी / इत्थि / अड्गना / कलत्त / थी / कन्ता / पिया / जानि /
妻
qī
अड्गना / जाया / थी / पिया / भरिया / कलत्त / जानि / नारी / कन्ता / इत्थि /
娘
niang
जननी / जनिका / अम्बा / कन्ता / थी / अड्गना / नारी / अम्मा / इत्थि / इत्थि / जनेत्ती /

娘
niáng
जननी / जनिका / अम्बा / कन्ता / थी / अड्गना / नारी / अम्मा / इत्थि / इत्थि / जनेत्ती /
婦人
fù rén
कन्ता / इत्थि / अड्गना / थी / नारी /
婦女
fù nǚ
कन्ता / नारी / अड्गना / थी / इत्थि /
इतर
itara
其他
qí tā
इतर / अञ्ज / पर /
其他人
qí tā rén
पर / इतर / अञ्ज /
其它
qí tā
पर / अञ्ज / इतर /
其它的
qí tā de
इतर / अञ्ज / पर /
別
bié
अञ्ज / इतर / पर /
別的
bié de
इतर / अञ्ज / पर /
別
bié
इतर / अञ्ज / पर /
别的
bié de
इतर / अञ्ज / पर /
另
lìng
अपर / अञ्ज / इतर / पर /
另外
lìng wài
उत्तरि / पर / उत्तरि / अञ्ज / इतर /
驚
biè
पर / अञ्ज / इतर /

इति
iti
因此
yīn cǐ
तस्मा / अतो / एवं / ततो / इति / इत्थं / उद्ध / इतो / तथा /
因而
yīn ér
इति / तथा / इत्थं / एवं /
如此
rú cǐ
तथा / इति / एवरूप / तादिस / इत्थं / तादिसक / एवं /
然
rán
तथा / पि / इति / एवं / इत्थं / तु /
由此
yóu cǐ
तथा / एवं / इत्थं / इति /
这样
zhè yàng
तथा / तथा / इति / एवं / एवं / तादिसक / तादिस / इत्थं / इत्थं / इति / एवरूप /
这样
zhè yàng
तथा / तथा / इति / एवं / एवं / तादिसक / तादिस / इत्थं / इत्थं / इति / एवरूप /

इतिहास
itihāsa
传统
chuán tǒng
पारम्परिय / इतिहास / अन्वय / पवेणी / अनुस्सव /
傳統
chuán tǒng
अन्वय / इतिहास / पवेणी / अनुस्सव / पारम्परिय /
历史
lì shǐ
历史学
lì shǐ xué
历史的
lì shǐ de
历史记录
lì shǐ jì lù
史
shǐ
来历
lái lì
उद्गान / इतिहास / पभव / उप्पत्ति /
歷史
lì shǐ
沿革
yán gé

इतो
ito
因此
yīn cǐ
तस्मा / अतो / एवं / ततो / इति / इत्थं / उद्ध / इतो / तथा /

इद्धि	इध	इन्द	इभ	इव
iddhi	idha	inda	ibha	iva
效力	在座	君王	大象	一如
xiào lì	zài zuò	jūn wáng	dà xiàng	yī rú
昌盛	अत्र / इह / इध / एत्तो / एत्य / 在這裡	देव / पत्थिव / जनाधिप / जनिन्द / इन्द /	कञ्जर / कणेरु / इभ / नाग / करी / गज / दिवप /	一样
chāng shèng	zài zhè lǐ	国王	象	yī yàng
इद्धि / मङ्गल / 泓	अत्र / इध / इह / एत्तो / एत्य / 此世	guó wáng	xiàng	不啻
hóng	cǐ shì	पत्थिव / जनिन्द / इन्द / जनाधिप / देव / दिसम्पति /	दिवप / करी / इभ / नाग / इव / कणेरु / कञ्जर / गज /	bù chī
मङ्गल / इद्धि / 繁榮	这儿	國王	इरिन	似
fán róng	zhè r	guó wáng	irina	sì
इज्जन / मङ्गल / इद्धि / 繁榮	इध / एत्तो / अत्र / अत्र / एत्य / इह / एत्तो / इध / एत्य / इह / 这儿	जनिन्द / इन्द / देव / जनाधिप / पत्थिव /	不毛之地	उपम / उपम / इव / इव / 似
fán róng	zhè r	大王	bù máo zhī dì	shì
मङ्गल / इद्धि /	zhèi ér	dà wáng	कन्तार / इरिन /	उपम / उपम / इव / इव / 似的
इदानि	इध / एत्तो / अत्र / अत्र / एत्य / इह / एत्तो / इध / एत्य / इह / 这里	पत्थिव / जनिन्द / देव / जनाधिप / इन्द /	शā mò	sì de
idāni	zhè lǐ	特 大	जइगल / इरिन / कन्तार / 漠	इव / इव / 似的
今	zhè lǐ	tè dà	mò	shì de
jīn	अत्र / एत्य / एत्य / एत्तो / अत्र / इह / इध / इध / इह / एत्तो / 这里	इन्द / देव / पत्थिव / जनिन्द / जनाधिप /	कन्तार / इरिन /	इव / इव / 作為
तु / अज्ज / अधुना / इदानि / एतरहि /	zhèi lǐ	wáng	huāng de	zuò wèi
今朝	अत्र / एत्य / एत्य / एत्तो / अत्र / इह / इध / इध / इह / एत्तो /	जनाधिप / पत्थिव / देव / जनिन्द / इन्द /	इरिन / इरिन /	做為
jīn cháo	इह / इध / इध / इह / एत्तो /	統治者	荒地	zuò wèi
तु / इदानि / एतरहि / अधुना / 刚才	這兒	tōng zhì zhě	huāng dì	像
gāng cái	zhè r	इन्द / ईस / इस्सर / अय्य / अधिप / अधिपति / पति /	इरिन / इरिन /	荒漠
अधुना / इदानि / तु / एतरहि / 在眼前	इह / अत्र / इध / एत्तो / एत्य / 這裡	इन्दवारुणि	huāng mò	पटिमा / बिम्ब / इव / पटिबिम्ब / 像是
zài yǎn qián	zhè lǐ	indavāruṇi	इरिन / कन्तार /	xiàng shì
इदानि / अधुना / एतरहि / तु / 如今	अत्र / एत्य / एत्तो / इह / इध / 這邊	小黃瓜	इरियना	出任
rú jīn	zhè biān	xiǎo huáng guā	iriyanā	chū rèn
तु / इदानि / अधुना / एतरहि / 此刻	अत्र / एत्तो / इह / इध / एत्य /	इन्दवारुणि / एळालुक / 黃瓜	姿	tóng yàng dì
cǐ kè	इधुम	huáng guā	zī	tóng yàng dì
एतरहि / अधुना / तु / इदानि / 此時	idhuma	इन्दवारुणि / एळालुक / 黃瓜	इरिया / इरियना / अवद्दान /	喜好
cǐ shí	木柴	huáng guā	इरिया / इरियना / अवद्दान /	xǐ hǎo
एतरहि / अधुना / तु / इदानि / 現	mù chái	इन्दवारुणि / एळालुक /	अवद्दान / इङ्गित / इरिया / इरियना /	xǐ huān
xiàn	इधुम / एध / इन्धन /	इन्धन	姿 态	उपम / इव /
इदानि / तु / अधुना / एतरहि / 現在	cháí	indhana	zī tài	喜 歡
xiàn zài	इधुम / एध / इन्धन /	木柴	अवद्दान / इरिया / इरियना /	xǐ huan
एतरहि / तु / इदानि / अधुना / 現在	cháí huǒ	mù chái	舉 止	好像
xiàn zài	एध / इधुम / इन्धन /	इन्धन / दारु / एध / इधुम /	jǔ zhǐ	hǎo xiàng
तु / इदानि / अधुना / एतरहि / 眼下	樵	柴	पकार / नय / कम / आकप्प / इरिया / नीहार / इरियना / उब्बहन /	好比
yǎn xià	qiáo	cháí	इरिया	hǎo bǐ
अधुना / इदानि / तु / एतरहि / 眼前	इन्धन / एध / इधुम /	इधुम / एध / इन्धन /	iriyā	如
yǎn qián	इन्धन / एध / इधुम /	柴 火	姿	Rú
तु / इदानि / अधुना / एतरहि / 立刻	cháí huǒ	cháí huǒ	zī	如同
lì kè	एध / इधुम / इन्धन /	एध / इधुम / इन्धन /	इरिया / इरियना / अवद्दान /	rú tóng
इदानि / अधुना / तु / एतरहि / 而今	樵	樵	姿 勢	wǎn rú
ér jīn	qiáo	qiáo	zī shì	就象
इदानि / एतरहि / अधुना / तु /	燃 料	इन्धन / एध / इधुम /	अवद्दान / इङ्गित / इरिया / इरियना /	jiù xiàng
	rán liào	rán liào	姿 态	dāng zuò
	एध / उपादान / इन्धन /	एध / उपादान / इन्धन /	zī tài	既是
	燃 油	rán yóu	अवद्दान / इरिया / इरियना /	jiù shì
	舉 止	एध / उपादान / इन्धन /	舉 止	猶如
	jǔ zhǐ		jǔ zhǐ	yóu rú
	पकार / नय / कम / आकप्प / इरिया / नीहार / इरियना / उब्बहन /		पकार / नय / कम / आकप्प / इरिया / नीहार / इरियना / उब्बहन /	

當作	इस्सर	इस्सरिय	इसि	ईस
dāng zuò	issara	issariya	isi	īsa
當做	主	控制	聖人	尺
dāng zuò	zhǔ	kòng zhì	shèng rén	chǐ
當成	इस्सर / अधिप / पति / अधिपति / अय्य /	इस्सरिय / आधिपच्च / दमथ / दम /	इह	अधिपति / ईस / अधिप / पाद / चरण / पद /
dāng chéng	主人	有道	iha	标尺
看作	zhǔ rén	yǒu dào	在座	biāo chǐ
kàn zuò	इस्सर / पति / अधिप / नायक / अधिपति / अय्य /	इस्सरिय / भोग / दब्ब / धन / अत्थ /	zài zuò	ईस / अधिपति / अधिप /
若	創造者	權威	अत्र / इह / इध / एत्तो / एत्थ /	直尺
ruò	chuàng zào zhě	quán wēi	在這裡	zhí chǐ
इव / चे /	ब्रह्म / इस्सर / कमलासन /	統治	zài zhè lǐ	अधिपति / अधिप / ईस /
象	大師	tǒng zhì	अत्र / इध / इह / एत्तो / एत्थ /	統治者
xiàng	dà shī	统治	这儿	tǒng zhì zhě
दिवप / करी / इभ / नाग / इव / कणेह / कञ्जर / गज /	अधिप / अय्य / अधिपति / पति / इस्सर /	tǒng zhì	zhè r	इन्द / ईस / इस्सर / अय्य / अधिप / अधिपति / पति /
इस्स	好手	आधिपच्च / इस्सरिय /	इह / एत्तो / इध / एत्थ / इह /	统治者
issa	hǎo shǒu	財富	这儿	tǒng zhì zhě
包涵	अय्य / इस्सर / अधिपति / पति / अधिप /	cái fù	zhèi ér	अधिपति / ईस / अधिप /
bāo hán	師傅	अत्थ / भग / दब्ब / भाग्य / इस्सरिय / धन / भोग /	इध / एत्तो / अत्र / अत्र / एत्थ / इह / एत्तो / इध / एत्थ / इह /	ईसक
पच्चाहार / इस्स / अच्छ /	shī fu	財富	这里	Isaka
承受	पति / अय्य / अधिपति / अधिप / इस्सर /	cái fù	zhè lǐ	些微地
chéng shòu	師傅	इस्सरिय / अत्थ / धन / भग / भोग / दब्ब /	अत्र / एत्थ / एत्थ / एत्तो / अत्र / इह / इध / इध / इह / एत्तो /	xiē wēi dì
इस्स / अच्छ /	shī fu	इस्सा	这里	寡
承擔	पति / अय्य / अधिपति / इस्सर / अधिप /	issā	zhè lǐ	guǎ
chéng dān	shī fu	吃醋	zhèi lǐ	अप्पक / ईसक /
इस्स / अच्छ /	shī fu	chī cù	अत्र / एत्थ / एत्थ / एत्तो / अत्र / इह / इध / इध / इह / एत्तो /	少
熊	इस्सर / पति / अधिप / अधिपति / अय्य /	इस्सा / उसूया / उसूयना /	इह / इध / इध / इह / एत्तो /	shǎo
xióng	所有者	दुःख / इस्सा / उसूयना / उसूया /	這裡	ईसक / अप्पक / तरुण / अप्प /
अच्छ / इस्स /	suǒ yǒu zhě	嫉妒	zhè r	少數的
熊市	धारेतु / पति / इस्सर /	jí dù	इह / अत्र / इध / एत्तो / एत्थ /	shǎo shù de
xióng shì	業主	उसूया / इस्सा / उसूयना /	這裡	ईसक / अप्पक /
इस्स / अच्छ /	yè zhǔ	忌妒	zhè lǐ	少的
狗熊	पति / इस्सर /	jì dù	अत्र / एत्थ / एत्तो / इह / इध /	shǎo de
gǒu xióng	法師	जि दु	這邊	ईसक / अप्प / अप्पक / परित्त /
अच्छ / इस्स /	fǎ shī	उसूयना / उसूया / इस्सा /	zhè biān	少量
結	अय्य / अधिप / पति / इस्सर / अधिपति /	羨慕	अत्र / एत्तो / इह / इध / एत्थ /	shǎo liàng
jié	物主	xiàn mù	इघ	अप्पक / ईसक / अप्प /
अच्छ / ककु / इस्स /	wù zhǔ	xiàn mù	igha	很少的
结	पति / इस्सर /	統治者	危	hěn shǎo de
jié	tǒng zhì zhě	इन्द / ईस / इस्सर / अय्य / अधिप / अधिपति / पति /	wēi	ईसक / अप्पक / अप्प / इत्तर /
इस्स / अच्छ /	老爺	इस्सुकी	परिपन्थ / ईघ / उपदव / परिस्सय / उपसग्ग / अन्तराय /	有點兒
इस्सुकी	lǎo ye	issukī	危險	yǒu diǎn r
issukī	अय्य / अधिपति / पति / अधिप / इस्सर /	嫉妒的	wēi xiǎn	अप्प / ईसक / अप्पक /
嫉妒的	造物主	jí dù de	परिपन्थ / उपसग्ग / अन्तराय / परिस्सय / ईघ / उपदव /	有點小
jí dù de	zào wù zhǔ	इस्सुकी / उसूयक /	危險	yǒu diǎn xiǎo
इस्सुकी / उसूयक /	ब्रह्म / इस्सर / कमलासन /	इस्सत्थ	wēi xiǎn	अप्प / ईसक / अप्पक /
इस्सत्थ	領主	issattha	परिपन्थ / अन्तराय / उपसग्ग / उपदव / ईघ / परिस्सय /	短的
issattha	lǐng zhǔ	射手	威脅	duǎn de
射手	अय्य / अधिपति / पति / अधिप / इस्सर /	shè shǒu	wēi xié	ईसक / अप्पक / अप्प /
shè shǒu	造物主	弓	अन्तराय / उपदव / परिपन्थ / ईघ / परिस्सय / उपसग्ग /	稍微
इस्सास / इस्सत्थ /	zào wù zhǔ	gōng	अन्तराय / उपदव / परिपन्थ / ईघ / परिस्सय / उपसग्ग /	shāo wēi
इस्सास / इस्सत्थ /	ब्रह्म / इस्सर / कमलासन /	धनु / इस्सास / चाप / कोण /	危险	उक्कुज्ज
इस्सास / इस्सत्थ /	領主	船首	wēi xiǎn	ukkuja
इस्सास / इस्सत्थ /	ling zhǔ	chuán shǒu	परिपन्थ / अन्तराय / उपसग्ग / उपदव / ईघ / परिस्सय /	建立
इस्सास / इस्सत्थ /	अधिप / इस्सर / अय्य / अधिपति / पभू / पति /	धनु / चाप / कोण / इस्सास /	威脅	jiàn lì
इस्सास / इस्सत्थ /	इस्सास / धनु / कोण / चाप /	躬	wēi xié	पतिदान / उक्कुज्ज /
इस्सास / इस्सत्थ /	鞠躬	gōng	इति	朝上的
इस्सास / इस्सत्थ /	jū gōng	इस्सास / धनु / कोण / चाप / पणाम /	tī	cháo shàng de
इस्सास / इस्सत्थ /	चाप / इस्सास / धनु / कोण / पणाम /		災難	
इस्सास / इस्सत्थ /			zāi nán	

उक्कट्टु
ukkaṭṭha
高度
gāo dù
आरोह / उब्बेध / उक्कट्टु /
उक्कुट्टि
ukkuṭṭhi
喝彩
hē cǎi
歡呼
huan hū

उक्कण्ठना
ukkaṇṭhanā
騷動
sāo dòng
उक्कण्ठना / उल्लोल / उस्सारणा /

उक्कूल
ukkūla
陡峭的
dǒu qiào de

उक्का
ukkā
噴灯
pēn dēng
流星
liú xīng

उक्का / उप्पात /
火把
huǒ bǎ
उक्का / अलात / उम्मुक /
火炬
huǒ jù

炬
jù
燭
jué

隕石
yǔn shí
उक्का / उप्पात /
隕星
yǔn xīng

उप्पात / उक्का /

उक्कार
ukkāra
大便
dà biàn
गूथ / असुचि / उक्कार / उच्चार /
करीस /
排泄物

pái xiè wù
गूथ / करीस / उक्कार / असुचि /
उच्चार /
糞
fèn

उक्कार / असुचि / करीस / गूथ /

उक्खेपन
ukkhhepana
中止
zhōng zhǐ
पच्छिज्जन / उक्खिपन / उपच्छेद /
उक्खेपन /
升起
shēng qǐ
उगम / उप्पादन / उदय /
उस्सापन / उक्खिपन / उक्खेपन /
उप्पतन /

उक्खलि
ukkhali
一壺
yī hú
चाटि / उक्खलि /
壺
hú

उक्खलि / चाटि /
壺
hú
चाटि / उक्खलि /

煲
bào
उक्खलि / चाटि /
缸
gāng

चाटि / उक्खलि /
罐
guàn
उक्खलि / चाटि /
鍋
guō

उक्खलि / चाटि /
鍋
guō
उक्खलि / चाटि /

उक्खिपन
ukkhhipana
中止
zhōng zhǐ
पच्छिज्जन / उक्खिपन / उपच्छेद /
उक्खेपन /
升起
shēng qǐ

उगम / उप्पादन / उदय /
उस्सापन / उक्खिपन / उक्खेपन /
उप्पतन /

उक्त्ताप
ukklāpa
垃圾
lā jī

कसम्बु / कचवर / उक्त्ताप /
垢
gòu
जल्लिका / असुचि / उक्त्ताप /
कालुसिय /
废物

fèi wù
कचवर / कसम्बु / उक्त्ताप /
汚
wū
उक्त्ताप / असुचि / कालुसिय /
जल्लिका /
污垢
wū gòu

उक्त्ताप / जल्लिका / असुचि /
कालुसिय /
泥
ní

उक्त्ताप / कलल / कद्दम /
जल्लिका / चिक्खल्ल / कालुसिय /
असुचि / पडक /
秽
huì

कालुसिय / जल्लिका / उक्त्ताप /
असुचि /
उगण्हन
uggaṇhana
學習
xué xí

उगण्हन / परियापुणन / त्तत्त /
उगह /
研究
yán jiū
उगह / उगण्हन /

उगम
uggama
上升
shàng shēng
उदय / उगम / उद्धान / उन्नति /
उप्पाद / उदयन /
加價
jiā jià
फातिकम्म / अभिवड्ढन / उपब्रूहन /
पवड्ढन / उदय / उगम /
उन्नति /
加大
jiā dà

उदय / उन्नति / उपब्रूहन /
अभिवड्ढन / उगम / पवड्ढन /
फातिकम्म /
升起
shēng qǐ
उगम / उप्पादन / उदय /
उस्सापन / उक्खिपन / उक्खेपन /
उप्पतन /
増
zēng

पवड्ढन / अभिवड्ढन / फातिकम्म /
/ उदय / उन्नति / उपब्रूहन /
उगम /
増加
zēng jiā
ब्रूहन / फातिकम्म / उपब्रूहन /
उगम / अभिवड्ढन / उन्नति /
उदय / पवड्ढन /
増多
zēng duō

पवड्ढन / फातिकम्म / अभिवड्ढन /
उपब्रूहन / उदय / उगम /
उन्नति /
増強
zēng qiáng
उगम / उपब्रूहन / फातिकम्म /
पवड्ढन / उन्नति / अभिवड्ढन /
उदय /
増殖
zēng zhí

उगम / उन्नति / अभिवड्ढन /
उदय / उपब्रूहन / पवड्ढन /
फातिकम्म /
増添
zēng tiān
फातिकम्म / उगम / उदय /
उपब्रूहन / उन्नति / अभिवड्ढन /
पवड्ढन /
増長
zēng zhǎng
अभिवड्ढन / उदय / उगम /
उपब्रूहन / फातिकम्म / पवड्ढन /
उन्नति /
崛起
jué qǐ
उदय / उदयन / उगम /
攀升
pān shēng
उगम / उदय /
漲
zhǎng
उदय / उगम / उदयन /
漲
zhǎng
उदयन / उदय / उगम /

益
yì
उपब्रूहन / अभिवड्ढन / फातिकम्म /
पवड्ढन / उन्नति / उगम /
उदय /
興起
xìng qǐ
उदय / उदयन / उगम /
茁
zhuó
अभिवड्ढन / उपब्रूहन / उदय /
पवड्ढन / उन्नति / फातिकम्म /
उगम /

उगह
uggaha
学
xué
學習
xué xí
उगण्हन / परियापुणन / त्तत्त /
उगह /
研
yán

研究
yán jiū
उगह / उगण्हन /
उगार
uggāra
噴射
pēn shè
打囉
dǎ luō
उद्रेक / उद्रेक / उगार /

उगघटित
uggaṭṭita
努力
nǔ lì
आतप्प / पग्गह / उस्साह /
उस्सहन / पग्गाह / परिस्सम /
उगघटित / आयूहन / पयोग /
उगघोस
uggghosa
宣言
xuān yán
उगघोस / त्तत्ति /

उगघोस
uggghosa
宣言
xuān yán
उगघोस / त्तत्ति /

उच्च	उच्चारण	उजुं	उञ्जातब्ब	उद्दान
ucca	uccāraṇa	ujum	uññātabba	uṭṭhāna
多高	发音	直接地	卑鄙的	上升
duō gāo	fā yīn	zhí jiē dì	bēi bǐ de	shàng shēng
崇	發音	उजुक	कातर / जेगुच्छ / गारय्ह / उञ्जातब्ब /	उदय / उग्गम / उद्दान / उन्नति / उप्पाद / उदयन /
chóng	fā yīn	ujuka	可鄙的	业
नमस्सन / अपचायन / तुङ्ग / उच्च / अब्भुन्नत /	读音	伸直	kě bǐ de	yè
昂	dú yīn	shēn zhí	उञ्जातब्ब / जम्म /	來歷
áng	उच्छु	उजुक / उजु / अजिम्ह /		láí lì
अब्भुन्नत / तुङ्ग / उच्च /	ucchu	垂直的		पभव / उप्पत्ति / उद्दान /
杲	甘蔗	chuí zhí de		出身
gǎo	gān zhè	उजुक / उजु /		chū shēn
अब्भुन्नत / उच्च / तुङ्ग /	उच्छङ्ग	正		पजायन / उप्पज्जन / जाति / उप्पत्ति / निब्बत्तन / पभव / उप्पाद / उद्दान / जायन /
灌	ucchaṅga	zhèng		原点
tóng	膝蓋	उजुक / उजु / अजिम्ह /		yuán diǎn
अब्भुन्नत / तुङ्ग / उच्च /	xī gài	正直		पभव / उद्दान / उप्पत्ति /
殖	उच्छङ्ग / जाणु / जण्णु /	zhèng zhí	अज्जव / उजु / उजुक /	始源
kuí	臀部	率直	率直	shǐ yuán
उच्च / अब्भुन्नत / तुङ्ग /	tún bù	lǜ zhí	अज्जव / उजु / उजुक / अज्जव / उजुक / उजु /	उद्दान / पभव / उप्पत्ति /
高	उच्छङ्ग / पावळ / कटि / नितम्ब / जघन / आनिसद /	率直	率直	工業
gāo	उजु	率直	率直	gōng yè
उदार / अब्भुन्नत / उच्च / तुङ्ग /	uju	lù zhí	अज्जव / उजु / उजुक / अज्जव / उजुक / उजु /	本源
高位	伸直	率直	率直	běn yuán
gāo wèi	shēn zhí	直	直	पभव / उद्दान / उप्पत्ति / निदान /
तुङ्ग / उच्च / अब्भुन्नत /	उजुक / उजु / अजिम्ह /	zhí	उजु / उजुक / अजिम्ह /	来历
高大	垂直的	zhí	直的	lái lì
gāo dà	chuí zhí de	zhí de	zhí de	उद्दान / इतिहास / पभव / उप्पत्ति /
高昂	उजुक / उजु /	अजिम्ह / उजुक / उजु /	直行	根源
gāo áng	正	率直	率直	gēn yuán
तुङ्ग / उच्च / अब्भुन्नत /	zhèng	zhí xíng	अजिम्ह / उजुक / उजु /	उद्दान / उप्पत्ति / निदान / पभव /
高水平	उजुक / उजु / अजिम्ह /	率直	直通	業
gāo shuǐ píng	率直	zhí tōng	率直	yè
उच्च / अब्भुन्नत / तुङ्ग /	率直	率直	率直	उद्दान / कम्म /
高的	率直	率直	率直	活力
gāo de	率直	率直	率直	huó lì
उच्च / अब्भुन्नत / उच्चार / तुङ्ग /	率直	率直	率直	उस्सुक्क / पग्गह / उद्दान / धिति / पग्गह / थाम /
उच्चय	率直	率直	率直	由來
uccaya	率直	率直	率直	yóu lái
堆积	率直	率直	率直	पभव / उप्पत्ति / उद्दान /
duī jī	率直	率直	率直	精力
累積	率直	率直	率直	jīng lì
lèi jī	率直	率直	率直	धिति / उद्दान / बल / पग्गह / पग्गह / उस्सुक्क /
उच्चार	率直	率直	率直	能源
uccāra	率直	率直	率直	néng yuán
大便	率直	率直	率直	पग्गह / धिति / उद्दान / उस्सुक्क / पग्गह /
dà biàn	率直	率直	率直	能量
गृथ / असुचि / उक्कार / उच्चार / करीस /	率直	率直	率直	néng liàng
屎	率直	率直	率直	उस्सुक्क / पग्गह / धिति / पग्गह / उद्दान /
shǐ	率直	率直	率直	血统
असुचि / उच्चार /	率直	率直	率直	xuè tǒng
排泄物	率直	率直	率直	उप्पाद / उद्दान / उप्पत्ति / पभव / गोत्त /
pái xiè wù	率直	率直	率直	行業
गृथ / करीस / उक्कार / असुचि / उच्चार /	率直	率直	率直	xíng yè
	率直	率直	率直	起源
	率直	率直	率直	qǐ yuán
	率直	率直	率直	उद्दान / उप्पत्ति / पभव / उप्पाद /

高能	उतु	उत्तर	उत्तरि	उत्तसन
gāo néng	utu	uttara	uttari	uttasana
उद्दान / उस्सुक्क / पग्गह / पग्गाह / धित्ति /	天气	上面的	再作	恐怖
उण्ण	tiān qì	shàng miàn de	zài zuò	kǒng bù
uṇṇa	天氣	उत्तर / उद्द /	उत्तरि / उत्तरि / परो /	पटिभय / उत्तास / उत्रास /
毛线	tiān qì	北方	另外	उत्तसन / भय / तास / आसङ्का /
máo xiàn	季	běi fāng	ling wài	驚慌
纖維	jì	北方的	उत्तरि / पर / उत्तरि / अञ्ज /	jīng huāng
xiān wéi	季節	běi fāng de	इतर /	उत्तान
羊毛	jì jié	响应	更	uttāna
yáng máo	季节	xiǎng yīng	gèng	曝露
उण्ह	jì jié	उत्तर / पटिवचन /	बहतर / उत्तरि / भिय्यो / उत्तरि /	pù lù
uṇha	時節	回信	/परो / भिय्योसो /	उत्तान / उत्तानक /
加热	shí jié	huí xìn	更远的	उत्तानक
jiā rè	气候	पटिवचन / उत्तर /	gèng yuǎn de	uttānaka
惹火	qì hòu	回復	परो / उत्तरि / उत्तरि /	曝露
rě huǒ	氣候	huí fù	此外	曝露
暑	qì hou	पटिवचन / उत्तर /	cǐ wài	pù lù
shǔ	उत्तम	回答	अपि / उत्तरि / उत्तरि / परो /	उत्तान / उत्तानक /
火爆	uttama	huí dá	而且	
huǒ bào	最好的	पटिवचन / पञ्ह / उत्तर /	ér qiè	
火辣	zuì hǎo de	回覆	उत्तरि / अपि / च / उत्तरि / पन /	
huǒ là		huí fù	進一步	
烫		पटिवचन / उत्तर /	jìn yī bù	
tàng		回話	उत्तरि / उत्तरि / परो /	
热		huí huà	附加的	
rè		उत्तर / पटिवचन /	fù jiā de	
热气		答	उत्तरि / उत्तरि /	
rè qì		dá	उत्तरि	
热的		पटिवचन / उत्तर /	uttarim	
rè de		答對	再作	
熱		dá duì	zài zuò	
rè		उत्तर / पटिवचन /	उत्तरि / उत्तरि / परो /	
तेज / उण्ह / घम्म / निदाघ /		答案	另外	
गिम्ह / आताप /		dá àn	ling wài	
熱氣		उत्तर / पटिवचन /	उत्तरि / पर / उत्तरि / अञ्ज /	
rè qì		答覆	इतर /	
燙		dá fù	更	
tàng		उत्तर / पटिवचन /	gèng	
辣		解答	बहतर / उत्तरि / भिय्यो / उत्तरि /	
là		jiě dá	/परो / भिय्योसो /	
		पटिवचन / उत्तर /	更远的	
		उत्तरण	gèng yuǎn de	
		uttaraṇa	परो / उत्तरि / उत्तरि /	
		克服	此外	
		kè fú	cǐ wài	
		अतिवत्त / नित्थरण / अभिभवन /	अपि / उत्तरि / उत्तरि / परो /	
		उत्तरण /	而且	
			ér qiè	
			उत्तरि / अपि / च / उत्तरि / पन /	
			進一步	
			jìn yī bù	
			उत्तरि / उत्तरि / परो /	
			附加的	
			fù jiā de	
			उत्तरि / उत्तरि /	

उत्तास	उद	उद्देस	उद्ध	उदधि
uttāsa	uda	uddesa	uddha	udadhi
怕	或	指示	上面的	大海
pà	huò	zhǐ shì	shàng miàn de	dà hǎi
तास / भय / पटिभय / आसङ्का / उत्तास /	पि / आदु / उद /	अज्झापण / ओवाद / उपदेस / उद्देस /	उत्तर / उद्ध /	अण्णव / उदधि / जलनिधि / जलधि /
怵	或是	提出	向上的	उदपान
chù	huò shì	提出	xiàng shàng de	udapāna
पटिभय / भय / उत्तास / भीरुक / तास / आसङ्का /	आदु / उद /	ती चू	उद्ध	井
恐	或者	उद्देस / पसव /	uddham	jǐng
kǒng	huò zhě	उद्दान	上述	उदपान / ओपान / कूप /
उत्तास / आसङ्का / भय / पटिभय / तास /	आदु / उद /	uddāna	shàng shù	以至
恐怖	抑或	串	उद्ध / परो / उपरि /	yǐ zhì
kǒng bù	yì huò	chuàn	上面	उदपान / कूप / ओपान /
पटिभय / उत्तास / उत्रास / उत्तसन / भय / तास / आसङ्का /	उद / आदु /	पन्ति / थबक / उद्दान / घटा /	shàng miàn	嘛
恐惧	还是	列出	उद्ध / उपरि / परो /	ma
kǒng jù	hái shì	liè chū	以上	कूप / उदपान / ओपान /
भय / तास / आसङ्का / उत्तास / पटिभय /	आदु / उद /	列表	yǐ shàng	嘛
恐懼	還是	liè biǎo	उपरि / उद्ध / परो /	zhǔ
kǒng jù	hái shì	单子	前述	ओपान / कूप / उदपान /
भय / तास / आसङ्का / उत्तास / पटिभय /	उद / आदु /	dān zi	qián shù	好
恐懼	उदक	名單	उपरि / परो / उद्ध /	hǎo
kǒng jù	udaka	ming dan	因此	कूप / ओपान / उदपान /
तास / उत्तास / भय / पटिभय / आसङ्का /	下水	名單	yīn cǐ	好了
憚	xià shuǐ	ming dan	तस्मा / अतो / एवं / ततो / इति / इत्यं / उद्धं / इतो / तथा /	hǎo le
dàn	तोय / ओक / नीर / अम्बु / जल / अण्ण / दक / उदक /	束	在上面	उदपान / ओपान / कूप /
आसङ्का / पटिभय / भीति / भय / उत्तास / तास /	水	shù	zài shàng miàn	好啊
惶恐	shuǐ	कलाप / कण्णिका / उद्दान /	परो / उद्धं / अधि /	hǎo a
huáng kǒng	तोय / पान / अण्ण / जल / उदक / दक / अम्बु / नीर / ओक /	目錄	उद्धच्च	कूप / ओपान / उदपान /
तास / उत्तास / आसङ्का / पटिभय / भय /	水中	mù lù	uddhacca	安好
懼	shuǐ zhōng	群	傲慢	ān hǎo
jù	ओक / जल / अण्ण / उदक / नीर / तोय / दक / अम्बु /	qún	ào màn	ओपान / उदपान / कूप /
तास / आसङ्का / उत्तास / भय / पटिभय /	水源	निकाय / गण / उद्दान /	उद्धच्च / उन्नठ / अतिमञ्जना /	小康
畏	shuǐ yuán	譜	分心	xiǎo kāng
wèi	तोय / दक / नीर / पभव / अम्बु / निदान / उदक / ओक / जल / अण्ण /	pǔ	fēn xīn	उदपान / ओपान / कूप /
पटिभय / आसङ्का / तास / भय / उत्तास /	缺水	ताळ / उद्दान /	उद्धन	很好
畏懼	quē shuǐ	उद्दाप	uddhana	hěn hǎo
wèi jù	नीर / जल / तोय / अण्ण / ओक / दक / अम्बु / उदक /	uddāpa	妒	कूप / उदपान / ओपान /
उत्तास / भय / पटिभय / तास / आसङ्का /	उदुक्खल	城堡	妒	水井
虞	udukkhala	chéng bǎo	लु	shuǐ jǐng
yú	灰泥	नगर / उद्दाप / दुग्ग /	आवाप / उद्धन /	कूप / उदपान / ओपान /
पटिभय / तास / आसङ्का / भय / उत्तास /	हुई नी	उद्दीपना	妒子	泉
उत्रास	उदुञ्चन	uddīpanā	लु zi	quán
utrāsa	udañcana	解釋	妒灶	कूप / उदपान / ओपान / उब्भिद /
恐怖	瓢	jiě shì	लु zào	良好
kǒng bù	piáo	दीपना / परिदीपन / निगमन / निब्बेठन / उद्दीपना / पकास /	烤箱	liáng hǎo
पटिभय / उत्तास / उत्रास / उत्तसन / भय / तास / आसङ्का /	उद्देक	解釋	उद्धन / आवाप /	उदपान / कूप / ओपान /
उत्तसन / भय / तास / आसङ्का /	उदुक्का	jiě shì	熔矿炉	
	打嗝	दीपना / निब्बेठन / पकास / परिदीपन / उद्दीपना / निगमन / निद्देस /	róng kuàng lú	
	dǎ gé	說明	爐	
	उद्देक / उद्देक / उग्गार /	shuō míng	लु	
		निब्बेठन / निदान / अहुकथा / उद्दीपना / निगमन / पकास / दीपना / परिदीपन /	उद्धार	
			uddhāra	
			撤退	
			chè tuì	
			उब्भार / उद्धार /	

उदय	增强	益	उदर	उदाहरण
udaya	zēng qiáng	yì	udara	udāharāṇa
上升	उगम / उपब्रूहन / फातिकम्म / पवइढन / उन्नति / अभिवइढन / उदय /	उपब्रूहन / अभिवइढन / फातिकम्म / पवइढन / उन्नति / उगम / उदय /	下腹	例
shàng shēng			xià fù	lì
उदय / उगम / उद्धान / उन्नति / उप्पाद / उदयन /	増殖	興	उदर / कोडु /	उदाहरण / निदस्सन /
兴	zēng zhí	xìng	内部	例子
xìng	उगम / उन्नति / अभिवइढन / उदय / उपब्रूहन / पवइढन / फातिकम्म /	興起	nèi bù	lì zǐ
उदय / उदय /	増添	xìng qǐ	उदर / कुट्टिछ / अब्भन्तर /	निदस्सन / उदाहरण /
兴	zēng tiān	興趣	肚	实例
xīng	फातिकम्म / उगम / उदय / उपब्रूहन / उन्नति / अभिवइढन / पवइढन /	xìng qù	dù	shí lì
उदय / उदय /	増長	茁	कोडु / उदर / आमासय / जठर /	उदाहरण / निदस्सन /
兴致	zēng zhǎng	zhuó	肚子	样本
xīng zhì	अभिवइढन / उदय / उगम / उपब्रूहन / फातिकम्म / पवइढन / उन्नति /	अभिवइढन / उपब्रूहन / उदय / पवइढन / उन्नति / फातिकम्म / उगम /	dù zi	yàng běn
兴趣	贏	获利	जठर / कोडु / उदर /	उदाहरण / निदस्सन /
xīng qù	yíng	huò lì	उदर / जठर /	榜样
उदय / उदय /	आय / पुण्ण / आनिसंस / पत्ति / उदय / परिपूर / उपभोग /	आनिसंस / उदय / उपभोग / आय / पत्ति /	胃	bǎng yàng
兴趣	定期收入	裨益	wèi	निदस्सन / उदाहरण /
xìng qù	dìng qī shōu rù	bì yì	जठर / आमासय / उदर /	榜樣
उदय / उदय /	आय / उदय / अय /	उदयन / उदय / अत्य / पत्ति / आनिसंस / आय /	腹部	bǎng yàng
利害	崛起	उदयन	fù	उदाहरण / निदस्सन /
lì hài	jué qǐ	udayana	जठर / उदर / कोडु / आमासय /	榜樣
利害关系	उदय / उदयन / उगम /	上升	腹	模范
lì hài guān xi	息	shàng shēng	fù	mó fàn
利息	xī	उदय / उगम / उद्धान / उन्नति / उप्पाद / उदयन /	腹部	निदस्सन / उदाहरण /
利害关系	息	崛起	fù bù	比方
lì hài guān xi	xi	攀升	कोडु / उदर / जठर /	bǐ fāng
利息	pān shēng	成果	臚	निदस्सन / ओपम्म / उदाहरण /
利害	उगम / उदय /	chéng guǒ	lú	為例
lì hài	收	फल / निस्सन्द / निप्फज्जन / अभिसन्द / निप्फत्ति / आय / उदय / अभिसन्दन /	जठर / उदर /	wèi lì
利害	shōu	攀升	उद्रेक	निदस्सन / उदाहरण /
lì hài	अय / आय / उदय /	收入	udreka	範
利害	收入	shōu rù	打嗝	fàn
lì hài	shōu rù	बलि / अय / आय / उदय /	dǎ gé	उदाहरण / निदस्सन /
利害	收益	收	उद्रेक / उद्रेक / उगार /	范
lì hài	shōu yì	shōu	उदार	fàn
利害	उदय / पत्ति / आय / बलि / अय / आनिसंस / उपभोग /	अय / आय / उदय /	udāra	निदस्सन / उदाहरण /
利害	漲	收	高	范例
lì hài	zhǎng	shōu	gāo	fàn lì
利害	उदय / उगम / उदयन /	收	उदार / अब्भुन्नत / उच्च / तुङ्ग /	उदाहरण / निदस्सन /
lì hài	漲	shōu		表率
利害	zhǎng	收入		biǎo lǜ
lì hài	उदय / उगम / उदयन /	shōu rù		निदस्सन / उदाहरण /
利害	漲	बलि / अय / आय / उदय /	उदाहार	
lì hài	zhǎng	收益	udāhāra	
利害	उदयन / उदय / उगम /	shōu yì	演講	
lì hài	生長	उदय / पत्ति / आय / बलि / अय / आनिसंस / उपभोग /	yǎn jiǎng	
lì hài	shēng zhǎng	漲	भासन / उदाहार / अभिलाप / गद /	
lì hài	अभिवइढन / उदय /	zhǎng		
lì hài	盈利	उदयन / उदय / उगम /		
lì hài	yíng lì	生長		
lì hài	उदय / आनिसंस / पत्ति / आय / उपभोग /	shēng zhǎng		
lì hài		अभिवइढन / उदय /		
lì hài		盈利		
lì hài		yíng lì		
lì hài		उदय / आनिसंस / पत्ति / आय / उपभोग /		

उन्दुर	उन्नति	उन्नम	उपक्कम	उपक्कमन
undura	unnati	unnama	upakkama	upakkamana
叛徒	上升	提高	侵襲	接近
pàn tú	shàng shēng	tí gāo	qīn xí	jiē jìn
उन्दूर / आखु / उन्दूर / 告密者	उदय / उगम / उडान / उन्नति / उप्पाद / उदयन /	उन्नति / उन्नम / उन्नल	उपक्कम / अधिपतन / 出擊	उपगमन / उपक्कमन / 攻擊
gào mì zhě	加價	unnala	chū jī	gōng jī
उन्दूर / उन्दूर / आखु / 捕鼠	jiā jià	自大的	अधिपतन / उपक्कम / 征	उपक्कमन / पहार / अधिपतन / उपक्कम /
bǔ shǔ	फातिकम्म / अभिवड्डन / उपब्रूहन / पवड्डन / उदय / उगम / उन्नति /	zì dà de	zhēng	近似
उन्दूर / आखु / उन्दूर / 老鼠	加大	उन्नळ / उन्नळ / उन्नल /	उपक्कम / अधिपतन / 意指	jìn shì
lǎo shǔ	jiā dà	उन्नळ	यि zhǐ	उपक्कमन / उपक्कमन / 近似
उन्दूर / उन्दूर / आखु / 鼠	उदय / उन्नति / उपब्रूहन / अभिवड्डन / उगम / पवड्डन / फातिकम्म /	unnaḷa	手段	jìn sì
shǔ	增	傲慢	shǒu duàn	उपक्कमन / उपक्कमन / 迫近
उन्दूर / आखु / उन्दूर /	zēng	ào màn	उद्धच / उन्नळ / अतिमञ्जना / 囂張	pò jìn
उन्दूर	पवड्डन / अभिवड्डन / फातिकम्म / उदय / उन्नति / उपब्रूहन / उगम /	xiǎo zhāng	粗野	tú jìng
undūra	增加	cū yě	自大	進場
叛徒	zēng jiā	zì dà	zì dà	jìn chǎng
pàn tú	ब्रूहन / फातिकम्म / उपब्रूहन / उगम / अभिवड्डन / उन्नति / उदय / पवड्डन /	अतिमान / उन्नळ /	自大的	逼近
उन्दूर / आखु / उन्दूर / 告密者	增多	自大的	zì dà de	bī jìn
gào mì zhě	zēng duō	zì dà de	उन्नळ / उन्नळ / उन्नल /	उपक्कोस
उन्दूर / उन्दूर / आखु / 捕鼠	पवड्डन / फातिकम्म / अभिवड्डन / उपब्रूहन / उदय / उगम / उन्नति /	自大的	zì dà de	उपक्कसा
bǔ shǔ	增强	zì dà de	उन्नळ / उन्नळ / उन्नल /	責備
उन्दूर / आखु / उन्दूर / 老鼠	zēng qiáng	zì dà de	zì dà de	zé bèi
lǎo shǔ	उगम / उपब्रूहन / फातिकम्म / पवड्डन / उन्नति / अभिवड्डन / उदय /	zì dà de	zì dà de	अपवाद / निगण्हण / अतिवाक्य / गरहन / दोस / उपक्कोस / उपवाद / अवण्ण / ओमसना / अक्कोस / निग्गह / अनुवाद /
उन्दूर / उन्दूर / आखु / 鼠	増殖	zì dà de	zì dà de	उपक्खट
shǔ	zēng zhí	zì dà de	zì dà de	उपक्कहाता
उन्दूर / आखु / उन्दूर /	उगम / उन्नति / अभिवड्डन / उदय / उपब्रूहन / पवड्डन / फातिकम्म /	zì dà de	zì dà de	準備
	zēng tiān	zì dà de	zì dà de	zhǔn bèi
	फातिकम्म / उगम / उदय / उपब्रूहन / उन्नति / अभिवड्डन / पवड्डन /	zì dà de	zì dà de	कल्ल / परिवच्छ / उपक्खट /
	增長	zì dà de	zì dà de	उपक्कच्छ
	zēng zhǎng	zì dà de	zì dà de	उपक्कच्छा
	अभिवड्डन / उदय / उगम / उपब्रूहन / फातिकम्म / पवड्डन / उन्नति /	zì dà de	zì dà de	準備
	提高	zì dà de	zì dà de	zhǔn bèi
	tí gāo	zì dà de	zì dà de	कल्ल / परिवच्छ / उपक्खट /
	उन्नति / उन्नम /	zì dà de	zì dà de	उपक्कच्छ
	海拔	zì dà de	zì dà de	उपक्कच्छा
	hǎi bá	zì dà de	zì dà de	उपक्कच्छा
	उब्बेध / आरोह / उन्नति /	zì dà de	zì dà de	उपक्कच्छा
	益	zì dà de	zì dà de	उपक्कच्छा
	yì	zì dà de	zì dà de	उपक्कच्छा
	उपब्रूहन / अभिवड्डन / फातिकम्म / पवड्डन / उन्नति / उगम / उदय /	zì dà de	zì dà de	उपक्कच्छा
	茁	zì dà de	zì dà de	उपक्कच्छा
	zhuó	zì dà de	zì dà de	उपक्कच्छा
	अभिवड्डन / उपब्रूहन / उदय / पवड्डन / उन्नति / फातिकम्म / उगम /	zì dà de	zì dà de	उपक्कच्छा
	超升	zì dà de	zì dà de	उपक्कच्छा
	chāo shēng	zì dà de	zì dà de	उपक्कच्छा

उपकच्छक
upakacchaka
脧
gē
कच्छ / उपकच्छ / उपकच्छक /
腋下
yè xià
कच्छ / कच्छ / उपकच्छक / उपकच्छ / उपकच्छ / उपकच्छक /
腋下
yì xià
कच्छ / कच्छ / उपकच्छक / उपकच्छ / उपकच्छ / उपकच्छक /
腋窩
yè wō
उपकच्छक / उपकच्छ / कच्छ /
腋窩
yì wō
उपकच्छक / उपकच्छ / कच्छ /

उपकट्टु

उपकाṭṭha
接近的
jiē jìn de
उपनायिक / निकट / निकट्टु / आगमन / धुर / आसन्न / उपकट्टु / अविदूर /
汜
qì
उपन्तिक / उपनिस्साय / उपकट्टु /
近
jìn
उपकट्टु / उपनिस्साय / उपन्तिक /
近乎
jìn hu
उपकट्टु / उपनिस्साय / उपन्तिक / उपन्तिक / उपनिस्साय / उपकट्टु /
近乎
jìn hū
उपकट्टु / उपनिस्साय / उपन्तिक / उपन्तिक / उपनिस्साय / उपकट्टु /
靠近
kào jìn
उपकट्टु / उपन्तिक / उपसङ्कमन / उपनिस्साय /

उपकप्पन

उपकappana
利益
lì yì
उदय / उपकप्पन / आमिस /

उपकरण
upakaraṇa
乐器
lè qì
仪
yí
供養
gōng yǎng
उपकरण / ओलम्ब / पग्गह / ओलम्बक / अपस्सय / निस्सय / अवस्सय / पतिट्ठा / आलम्ब / आधार / पग्गाह / उपत्थम्भ / उपनिस्सय / उपकार / पतिट्ठान / आलम्बन / दीप /
儀
yí
儀器
yí qì
具
jù
助
zhù
पतिट्ठा / उपकार / अनुग्गण्हन / आलम्ब / अनुबल / पटिसरण / उपकरण / दीप / अवलम्बन / अवस्सय /
協助
xié zhù
आलम्ब / अनुबल / अवलम्बन / उपकार / दीप / उपकरण / अवस्सय / अनुग्गण्हन / पटिसरण / पतिट्ठा /
器具
qì jù
器械
qì xiè
壁助
bì zhù
उपकरण / पटिसरण / अवस्सय / उपकार / अनुग्गण्हन / दीप / अनुबल / अवलम्बन / आलम्ब / पतिट्ठा /
工具
gōng jù
幫

bāng
अनुबल / पतिट्ठा / आलम्ब / अनुग्गण्हन / दीप / अवलम्बन / उपकरण / पटिसरण / अवस्सय /
幫助
bāng zhù
अनुबल / उपकरण / अनुग्गण्हन / दीप / पतिट्ठा / अवलम्बन / पटिसरण / उपकार / अवस्सय / आलम्ब /
帮忙
bāng máng
अवस्सय / दीप / पतिट्ठा / उपकरण / अनुग्गण्हन / उपकार / पटिसरण / अनुबल / आलम्ब / अवलम्बन /
幫
bāng
अनुग्गण्हन / अवलम्बन / उपकरण / पतिट्ठा / उपकार / अवस्सय / अनुबल / पटिसरण / दीप / आलम्ब /

幫助
bāng zhù
पतिट्ठा / अवलम्बन / अवस्सय / दीप / पटिसरण / उपकार / अनुग्गण्हन / अनुबल / उपकरण / आलम्ब /

幫忙
bāng máng
अनुग्गण्हन / अवलम्बन / उपकार / अवस्सय / अनुबल / उपकरण / आलम्ब / दीप / पटिसरण / पतिट्ठा /

必需品
bì xū pǐn
परिक्खार / अत्थ / उपकरण /

扶
fú
आलम्ब / पटिसरण / अवस्सय / दीप / अनुग्गण्हन / उपकरण / उपकार / पतिट्ठा / अवलम्बन / अनुबल /

扶助
fú zhù
अवस्सय / उपकरण / दीप / अनुग्गण्हन / उपकार / अवलम्बन / अनुबल / पटिसरण / आलम्ब / पतिट्ठा /

撐
chēng
आलम्ब / पतिट्ठा / निस्सय / दीप / ओलम्बक / उपनिस्सय / पग्गह / आधार / उपकरण / अवस्सय / आलम्बन / ओलम्ब / पतिट्ठान / उपत्थम्भ / पग्गाह / अपस्सय / उपकार /
撐腰

chēng yāo
पग्गह / निस्सय / उपकार / पग्गाह / आलम्ब / उपनिस्सय / आलम्बन / पतिट्ठान / उपकरण / अवस्सय / अपस्सय / आधार / पतिट्ठा / उपत्थम्भ / ओलम्ब / दीप / ओलम्बक /

撐
chēng
आलम्बन / उपत्थम्भ / अपस्सय / आधार / ओलम्बक / ओलम्ब / पग्गाह / उपनिस्सय / पग्गह / अवस्सय / आलम्ब / उपकरण / दीप / पतिट्ठान / उपकार / पतिट्ठा / निस्सय /

支持
zhī chí
पग्गह / आलम्ब / उपत्थम्भ / पतिट्ठा / उपकार / उपकरण / पग्गाह / पतिट्ठान / अवस्सय / आलम्बन / निस्सय / दीप / उपनिस्सय / ओलम्ब / ओलम्बक / आधार / अपस्सय /

支援
zhī yuán
उपकार / अपस्सय / पतिट्ठा / पग्गह / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पग्गाह / अनुञ्जा / पतिट्ठान / उपनिस्सय / अवस्सय / ओलम्ब / आलम्ब / निस्सय / आलम्बन / आधार / उपकरण /

支撐
zhī chēng
उपकरण / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पतिट्ठान / उपनिस्सय / अपस्सय / पग्गाह / आलम्ब / पग्गह / आधार / आलम्बन / पतिट्ठा / ओलम्ब / निस्सय / अवस्सय / उपकार /

救助
jiù zhù
पतिट्ठा / अवस्सय / अनुबल / अवलम्बन / अनुग्गण्हन / दीप / आलम्ब / उपकरण / उपकार / पटिसरण /

救命
jiù mìng
अवलम्बन / आलम्ब / पटिसरण / उपकरण / अनुग्गण्हन / दीप / अनुबल / उपकार / अवस्सय / पतिट्ठा /

救援
jiù yuán
आलम्ब / पटिसरण / अनुग्गण्हन / उपकार / दीप / अवस्सय / अवलम्बन / उपकरण / अनुबल / पतिट्ठा /

有助
yǒu zhù
पटिसरण / अवलम्बन / पतिट्ठा / उपकरण / दीप / अनुबल / उपकार / अवस्सय / अनुग्गण्हन / आलम्ब /

उपकार
upakāra
供養
gōng yǎng
उपकरण / ओलम्ब / पग्गह / ओलम्बक / अपस्सय / निस्सय / अवस्सय / पतिट्ठा / आलम्ब / आधार / पग्गाह / उपत्थम्भ / उपनिस्सय / उपकार / पतिट्ठान / आलम्बन / दीप /
助
zhù
पतिट्ठा / उपकार / अनुग्गण्हन / आलम्ब / अनुबल / पटिसरण / उपकरण / दीप / अवलम्बन / अवस्सय /
助手
zhù shǒu
協助
xié zhù
आलम्ब / अनुबल / अवलम्बन / उपकार / दीप / उपकरण / अवस्सय / अनुग्गण्हन / पटिसरण / पतिट्ठा /

壁助
bì zhù
उपकरण / पटिसरण / अवस्सय / उपकार / अनुग्गण्हन / दीप / अनुबल / अवलम्बन / आलम्ब / पतिट्ठा /

好意
hǎo yì
अनुग्गण्हन / उपकार / दया / अवेर /
幫

bāng
अनुबल / पतिट्ठा / आलम्ब / अनुग्गण्हन / दीप / अवलम्बन / उपकरण / पटिसरण / उपकार / अवस्सय /
幫助

bāng zhù
अनुबल / उपकरण / अनुग्गण्हन / दीप / पतिट्ठा / अवलम्बन / पटिसरण / उपकार / अवस्सय / आलम्ब /
帮忙

bāng máng
अवस्सय / दीप / पतिट्ठा / उपकरण / अनुग्गण्हन / उपकार / पटिसरण / अनुबल / आलम्ब / अवलम्बन /
幫

bāng
अनुग्गण्हन / अवलम्बन / उपकरण / पतिट्ठा / उपकार / अवस्सय / अनुबल / पटिसरण / दीप / आलम्ब /
幫助

bāng zhù
पतिट्ठा / अवलम्बन / अवस्सय / दीप / पटिसरण / उपकार / अनुग्गण्हन / अनुबल / उपकरण / ओलम्ब /
幫忙

bāng máng
अनुग्गण्हन / अवलम्बन / उपकार / अवस्सय / अनुबल / उपकरण / आलम्ब / दीप / पटिसरण / पतिट्ठा /

扶
fú
आलम्ब / पटिसरण / अवस्सय / दीप / अनुग्गण्हन / उपकरण / उपकार / पतिट्ठा / अवलम्बन / अनुबल /

扶助	उपकारिका	उपद्धान	उपड्ड	उपत्थम्भ
fú zhù	upakārikā	upaṭṭhāna	upaḍḍha	upatthambha
अवस्सय / उपकरण / दीप / अनुग्गण्हन / उपकार / अवलम्बन / अनुबल / पटिसरण / आलम्ब / पतिट्ठा /	女施主	役	一半	供養
撐	nǚ shī zhǔ	yì	yī bàn	gōng yǎng
chēng	扶壁	उपद्धान / कार / पेसन / उपासन / किच्च / पारिचरिया /	अद् / उपड्ड / अड्ड / अड्ड /	उपकरण / ओलम्ब / पग्गह / ओलम्बक / अपस्सय / निस्सय / अवस्सय / पतिट्ठा / आलम्ब / आधार / पग्गाह / उपत्थम्भ / उपनिस्सय / उपकार / पतिट्ठान / आलम्बन / दीप /
आलम्ब / पतिट्ठा / निस्सय / दीप / ओलम्बक / उपनिस्सय / पग्गह / आधार / उपकरण / अवस्सय / आलम्बन / ओलम्ब / पतिट्ठान / उपत्थम्भ / पग्गाह / अपस्सय / उपकार /	fú bì	招待	一半的	撐
撐腰	उपकारी	zhāo dài	yī bàn de	chēng
chēng yāo	उपकारी	उपद्धान / किच्च / उपासन / पारिचरिया / कार / पेसन /	अड्ड / अद् / उपड्ड / अड्ड /	आलम्ब / पतिट्ठा / निस्सय / दीप / ओलम्बक / उपनिस्सय / पग्गह / आधार / उपकरण / अवस्सय / आलम्बन / ओलम्ब / पतिट्ठान / उपत्थम्भ / पग्गाह / अपस्सय / उपकार /
पग्गह / निस्सय / उपकार / पग्गाह / आलम्ब / उपनिस्सय / आलम्बन / पतिट्ठान / उपकरण / अवस्सय / अपस्सय / आधार / पतिट्ठा / उपत्थम्भ / ओलम्ब / दीप / ओलम्बक /	恩人	服侍	अड्ड / अद् / उपड्ड / अड्ड /	撐
撐	ēn rén	fú shì	bàn	chēng
chēng yāo	उपगमन	कार / उपद्धान / उपासन / पेसन / पारिचरिया / किच्च /	उपड्ड / अड्ड / अड्ड / अद् /	आलम्ब / पतिट्ठा / निस्सय / दीप / ओलम्बक / उपनिस्सय / पग्गह / आधार / उपकरण / अवस्सय / आलम्बन / ओलम्ब / पतिट्ठान / उपत्थम्भ / पग्गाह / अपस्सय / उपकार /
पग्गह / निस्सय / उपकार / पग्गाह / आलम्ब / उपनिस्सय / आलम्बन / पतिट्ठान / उपकरण / अवस्सय / अपस्सय / आधार / पतिट्ठा / उपत्थम्भ / ओलम्ब / दीप / ओलम्बक /	upagamana	服务	bàn chǎng	撐腰
撐腰	承諾	fú wù	उपड्ड / अद् / अड्ड / अड्ड /	撐腰
chēng yāo	chéng nuò	कार / पारिचरिया / उपद्धान / पेसन / किच्च / उपासन /	半年	chēng yāo
पग्गह / निस्सय / उपकार / पग्गाह / आलम्ब / उपनिस्सय / आलम्बन / पतिट्ठान / उपकरण / अवस्सय / अपस्सय / आधार / पतिट्ठा / उपत्थम्भ / ओलम्ब / दीप / ओलम्बक /	接近	服侍	bàn nián	पग्गह / निस्सय / उपकार / पग्गाह / आलम्ब / उपनिस्सय / आलम्बन / पतिट्ठान / उपकरण / अवस्सय / अपस्सय / आधार / पतिट्ठा / उपत्थम्भ / ओलम्ब / दीप / ओलम्बक /
撐	jiē jìn	fú wu	अद् / अड्ड / उपड्ड / अड्ड /	撐
chēng	उपगमन / उपक्कमन /	उपासन / पेसन / किच्च / उपद्धान / कार / पारिचरिया /	bàn shù	chēng
आलम्बन / उपत्थम्भ / अपस्सय / आधार / ओलम्बक / ओलम्ब / पग्गाह / उपनिस्सय / पग्गह / अवस्सय / आलम्ब / उपकरण / दीप / पतिट्ठान / उपकार / पतिट्ठा / निस्सय /	उपघातक	服役	उपड्ड / अद् / अड्ड / अड्ड /	撐
支持	upaghātaka	fú yì	bàn yuè	chēng
zhī chí	有害的	उपद्धान / कार / पारिचरिया / उपासन / किच्च / पेसन /	अद् / अड्ड / अड्ड / उपड्ड /	आलम्बन / उपत्थम्भ / अपस्सय / आधार / ओलम्बक / ओलम्ब / पग्गाह / उपनिस्सय / पग्गह / अवस्सय / आलम्ब / उपकरण / दीप / पतिट्ठान / उपकार / पतिट्ठा / निस्सय /
पग्गह / आलम्ब / उपत्थम्भ / पतिट्ठा / उपकार / उपकरण / पग्गाह / पतिट्ठान / अवस्सय / आलम्बन / निस्सय / दीप / उपनिस्सय / ओलम्ब / ओलम्बक / आधार / अपस्सय /	yǒu hài de	理解	अद् / अड्ड / अड्ड / उपड्ड /	支持
支持	उपघातक / उपघाती /	lǐ jiě	bàn shēng	zhī chí
zhī chí	उपघाती	अनुबोध / अनुबु / अवबोध / पटिवेध / उपद्धान /	अद् / उपड्ड / अड्ड / अड्ड /	पग्गह / आलम्ब / उपत्थम्भ / पतिट्ठा / उपकार / उपकरण / पग्गाह / पतिट्ठान / अवस्सय / आलम्बन / निस्सय / दीप / उपनिस्सय / ओलम्ब / ओलम्बक / आधार / अपस्सय /
पग्गह / आलम्ब / उपत्थम्भ / पतिट्ठा / उपकार / उपकरण / पग्गाह / पतिट्ठान / अवस्सय / आलम्बन / निस्सय / दीप / उपनिस्सय / ओलम्ब / ओलम्बक / आधार / अपस्सय /	upaghātī	等候	dà bàn	支持
支持	有害的	děng hòu	अड्ड / उपड्ड / अड्ड / अद् /	zhī chí
zhī chí	yǒu hài de	उपद्धान / उपद्धान / पारिचरिया / पारिचरिया /	उपत्थद्द	पग्गह / आलम्ब / उपत्थम्भ / पतिट्ठा / उपकार / उपकरण / पग्गाह / पतिट्ठान / अवस्सय / आलम्बन / निस्सय / दीप / उपनिस्सय / ओलम्ब / ओलम्बक / आधार / अपस्सय /
पग्गह / आलम्ब / उपत्थम्भ / पतिट्ठा / उपकार / उपकरण / पग्गाह / पतिट्ठान / अवस्सय / आलम्बन / निस्सय / दीप / उपनिस्सय / ओलम्ब / ओलम्बक / आधार / अपस्सय /	उपचछेद्	等候	उपत्थद्द	支持者
支援	upaccheda	děng hou	upatthaddha	zhī chí zhě
zhī yuán	中止	उपद्धान / उपद्धान / पारिचरिया / पारिचरिया /	僵	支援
उपकार / अपस्सय / पतिट्ठा / पग्गह / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पग्गाह / अनुञ्जा / पतिट्ठान / उपनिस्सय / अवस्सय / ओलम्ब / आलम्ब / निस्सय / आलम्बन / आधार / उपकरण /	zhōng zhǐ	維修	jiāng	zhī yuán
支持	पच्छिज्जन / उक्खिपन / उपच्छेद् / उक्खेपन /	wéi xiū	असिथिल / उपत्थद्द / थद्द / कठिन /	उपकार / अपस्सय / पतिट्ठा / पग्गह / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पग्गाह / अनुञ्जा / पतिट्ठान / उपनिस्सय / अवस्सय / ओलम्ब / आलम्ब / निस्सय / आलम्बन / आधार / उपकरण /
zhī chēng	停止	rèn shì	jiāng yìng	支撐
उपकरण / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पतिट्ठान / उपनिस्सय / अपस्सय / पग्गाह / आलम्ब / पग्गह / आधार / आलम्बन / पतिट्ठा / ओलम्ब / निस्सय / अवस्सय / उपकार /	tíng zhǐ	अवबोध / अनुबु / उपद्धान / अनुबोध /	कठिन / थद्द / असिथिल / उपत्थद्द /	支撐
救助	ओसान / अवसान / उपरति / निरुज्जन / उपच्छेद् /	諒解	shēng yìng	zhī chēng
jiù zhù	破壊	liàng jiě	असिथिल / उपत्थद्द / थद्द / कठिन /	उपकरण / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पतिट्ठान / उपनिस्सय / अपस्सय / पग्गाह / आलम्ब / पतिट्ठा / ओलम्ब / निस्सय / अवस्सय / उपकार /
पतिट्ठा / अवस्सय / अनुबल / अवलम्बन / अनुग्गण्हर्न / दीप / आलम्ब / उपकरण / उपकार / पटिसरण /	pò huài	認識	硬	維持
救命	अत्थ / घात / नास / उपच्छेद् / भञ्जन / अपचिनन / निग्घातन / पीळन / नासन / खय / नस्सन /	rèn shì	yìng	wéi chí
jiù mìng	उपचार	अवबोध / अवबोध / अनुबोध / अनुबोध / उपद्धान / उपद्धान / अनुबु / अनुबु /	थिर / कक्खळ / निद्दुर / कठिन / खर / असिथिल / देळ्ह / उपत्थद्द / थद्द /	उपत्थम्भ / पवत्तापन /
अवलम्बन / आलम्ब / पटिसरण / उपकरण / अनुग्गण्हन / दीप / अनुबल / उपकार / अवस्सय / पतिट्ठा /	उपचार / अविद्दूर / उपनिस्साय /	认识	硬的	鼓勵
救援	उपद्दाक	rèn shī	yìng de	gǔ lì
jiù yuán	upatthāka	अवबोध / अवबोध / अनुबोध / अनुबोध / उपद्धान / उपद्धान / अनुबु / अनुबु /	उपत्थद्द / निद्दुर / असिथिल / खर / कक्खळ / थद्द / कठिन /	उपताप
आलम्ब / पटिसरण / अनुग्गण्हन / उपकार / दीप / अवस्सय / अवलम्बन / उपकरण / अनुबल / पतिट्ठा /	护士	體諒	má fán	upatāpa
有助	hù shì	tǐ liàng	कसिर / आयास / उपताप / परिस्सय /	懊悔
yǒu zhù	धाती / उपद्दाक / आपादिका / पोसिका /	अनुबु / अनुबोध / उपद्धान / अवबोध /		ào huǐ
पटिसरण / अवलम्बन / पतिट्ठा / उपकरण / दीप / अनुबल / उपकार / अवस्सय / अनुग्गण्हन / आलम्ब /	護士	अवबोध / अवबोध / अनुबोध / अनुबोध / उपद्धान / उपद्धान / अनुबु / अनुबु /		麻煩
	hù shì	认识		
	पोसिका / धाती / आपादिका / उपद्दाक /			
	護理			
	hù lǐ			
	धाती / उपद्दाक / आपादिका / पोसिका /			

उपद्व	उपधान	उपनाह	उपनिस्साय	उपपत्ति
upaddava	upadhāna	upanāha	upanissāya	upapatti
不幸	枕	惡意	汜	再生
bù xìng	zhěn	è yì	qì	zài shēng
अलक्खिक / उपद्व / अनत्थ / अघ / आपदा / अनय /	उस्सीसक / उपधान /	उपनयहना / उपनाह / ब्यापाद /	उपन्तिक / उपनिस्साय / उपकट्ट /	निब्बत्तन / जाति / उप्पत्ति / उपपत्ति /
危	枕头	उपनिबन्धन	近	生
wēi	zhěn tóu	upanibandhana	jìn	shēng
परिपन्थ / ईघ / उपद्व / परिस्सय / उपसग्ग / अन्तराय /	उपधान / उस्सीसक /	硬要	उपकट्ट / उपनिस्साय / उपन्तिक /	पाण / चरित / उपपत्ति / जीव /
危險	枕頭	yìng yào	近乎	उप्पत्ति
wēi xiǎn	zhěn tóu	उपनिबन्धन / निबन्ध /	jìn hū	uppatti
परिपन्थ / उपसग्ग / अन्तराय / परिस्सय / ईघ / उपद्व /	उपधान / उस्सीसक / अपस्सय /	उपनिस्सय	उपकट्ट / उपनिस्साय / उपन्तिक / उपन्तिक / उपनिस्साय / उपकट्ट /	來歷
危險	उपधारण	upanissaya	近乎	lai li
wēi xiǎn	upadhāraṇa	供養	jìn hu	पभव / उप्पत्ति / उद्धान /
परिपन्थ / अन्तराय / उपसग्ग / उपद्व / ईघ / परिस्सय /	容器	gōng yǎng	उपकट्ट / उपनिस्साय / उपन्तिक / उपन्तिक / उपनिस्साय / उपकट्ट /	再生
危難	容兒	उपकरण / ओलम्ब / पग्गह / ओलम्बक / अपस्सय / निस्सय / अवस्सय / पतिट्ठा / आलम्ब / आधार / पग्गाह / उपत्थम्भ / उपनिस्सय / उपकार / पतिट्ठान / आलम्बन / दीप /	附近	zài shēng
wēi nán	róng qì	基礎	fù jìn	निब्बत्तन / जाति / उप्पत्ति / उपपत्ति /
威胁	पूट / कटाह / आधान / पेळा / उपधारण / पूटक / आधार /	jī chǔ	उपचार / अविदूर / उपनिस्साय /	出身
wēi xié	उपन्तिक	jiāo jīn	靠近	chū shēn
अन्तराय / उपद्व / परिपन्थ / ईघ / परिस्सय / उपसग्ग /	upantika	उपकट्ट / उपन्तिक / उपसइकमन / उपनिस्साय /	kào jìn	पजायन / उप्पज्जन / जाति / उप्पत्ति / निब्बत्तन / पभव / उप्पाद / उद्धान / जायन /
当儿	几乎	撐	उपनिसा	原点
dāng ér	jǐ hū	chēng	upanisā	yuán diǎn
अन्तराय / उपसग्ग / परिस्सय / उपद्व / ईघ / परिपन्थ /	差不多	आलम्ब / पतिट्ठा / निस्सय / दीप / ओलम्बक / उपनिस्सय / पग्गह / आधार / उपकरण / अवस्सय / आलम्बन / ओलम्ब / पतिट्ठान / उपत्थम्भ / पग्गाह / अपस्सय / उपकार /	因素	पभव / उद्धान / उप्पत्ति /
灾	उपन्तिक / उपन्तिक /	撐腰	yīn sù	始源
zāi	qì	chēng yāo	पद / निमित्त / ठान / निदान / कारण / धातु / उपनिसा /	shǐ yuán
उपदेस	उपन्तिक / उपनिस्साय / उपकट्ट /	पग्गह / निस्सय / उपकार / पग्गाह / आलम्ब / उपनिस्सय / आलम्बन / पतिट्ठान / उपकरण / अवस्सय / अपस्सय / आधार / पतिट्ठा / उपत्थम्भ / ओलम्ब / दीप / ओलम्बक /	方法	उद्धान / पभव / उप्पत्ति /
upadesa	近	撐	fāng fǎ	本源
劝告	jìn	chēng	नय / उपाय / पथ / पकार / नीहार / उपक्कम / उपनिसा / ज्ञाय / कम्म / मग्ग /	běn yuán
quàn gào	उपकट्ट / उपनिस्साय / उपन्तिक /	आलम्बन / उपत्थम्भ / अपस्सय / आधार / ओलम्बक / ओलम्ब / पग्गाह / उपनिस्सय / पग्गह / अवस्सय / आलम्ब / उपकरण / दीप / पतिट्ठान / उपकार / पतिट्ठा / निस्सय /	相似	पभव / उद्धान / उप्पत्ति / निदान /
ओवाद / उपदेस / उपदिसन / अनुसिद्धि /	近乎	支持	xiǎng sì	来历
咨詢	jìn hū	zhī chí	कप्प / कप्प / उपनिसा /	lai li
zī xún	उपकट्ट / उपनिस्साय / उपन्तिक / उपन्तिक / उपनिस्साय / उपकट्ट /	zhī chí	उप्पज्जन	उद्धान / इतिहास / पभव / उप्पत्ति /
ओवाद / उपदेस / अनुसिद्धि / ओवाद / उपदेस /	几乎	पग्गह / आलम्ब / उपत्थम्भ / पतिट्ठा / उपकार / उपकरण / पग्गाह / पतिट्ठान / अवस्सय / आलम्बन / निस्सय / दीप / उपनिस्सय / ओलम्ब / ओलम्बक / आधार / अपस्सय /	उप्पज्जन	根源
忠告	jìn hu	支持	उप्पज्जन / उप्पाद / जाति / पजायन / निब्बत्तन / जायन /	gēn yuán
zhōng gào	उपकट्ट / उपनिस्साय / उपन्तिक / उपन्तिक / उपनिस्साय / उपकट्ट /	zhī yuán	出身	उद्धान / उप्पत्ति / निदान / पभव /
उपदिसन / उपदेस / अनुसिद्धि / ओवाद /	鄰近	पग्गह / आलम्ब / उपत्थम्भ / पतिट्ठा / उपकार / उपकरण / पग्गाह / पतिट्ठान / अवस्सय / आलम्बन / निस्सय / दीप / उपनिस्सय / ओलम्ब / ओलम्बक / आधार / अपस्सय /	chū shēng	由來
指令	lín jìn	支撐	chū shēng	yóu lái
zhǐ lìng	आसन्न / उपन्तिक /	zhī yuán	उप्पज्जन / उप्पाद / जाति / पजायन / निब्बत्तन / जायन /	पभव / उप्पत्ति / उद्धान /
उपदेस / अज्झापन / ओवाद / च क्क /	靠近	उपकार / अपस्सय / पतिट्ठा / पग्गह / दीप / ओलम्बक /	chū shēn	血统
指示	kào jìn	पतिट्ठा / उपकार / उपकरण / पग्गाह / पतिट्ठान / अवस्सय / आलम्बन / निस्सय / दीप / उपनिस्सय / ओलम्ब / ओलम्बक / आधार / अपस्सय /	出身	xuè tǒng
zhǐ shì	उपकट्ट / उपन्तिक / उपसइकमन / उपनिस्साय /	支撐	chū shēn	उप्पाद / उद्धान / उप्पत्ति / पभव /
अज्झापन / ओवाद / उपदेस / उद्देस /	उपनयहना	zhī yuán	पजायन / उप्पाद / जाति / उप्पज्जन / जाति / निब्बत्तन /	goù lái
उपदिसन	upanayhanā	उपकार / अपस्सय / पतिट्ठा / पग्गह / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पग्गाह / अनुज्जा / पतिट्ठान / उपनिस्सय / अवस्सय / ओलम्ब / आलम्ब / आलम्बन / आधार / उपकरण /	生出	qiǎ yuán
upadisana	惡意	支撐	shēng chū	उद्धान / उप्पत्ति / पभव / उप्पाद /
劝告	è yì	zhī chēng	shēng xià	उत्पतन
quàn gào	उपनयहना / उपनाह / ब्यापाद /	उपकरण / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पतिट्ठान / उपनिस्सय / अपस्सय / पग्गाह / आलम्ब /	पजायन / उप्पाद / जायन / उप्पज्जन / जाति / निब्बत्तन /	उत्पतन
ओवाद / उपदेस / उपदिसन / अनुसिद्धि /	उपनायिक	zhī chēng	जाति / उप्पाद / जायन / उप्पज्जन / जाति / निब्बत्तन /	uppatana
咨詢	upanāyika	उपकरण / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पतिट्ठान / उपनिस्सय / अपस्सय / पग्गाह / आलम्ब /	shēng chū	升起
zī xún	接近的	पग्गह / आधार / आलम्बन / पतिट्ठा / ओलम्ब / निस्सय / अवस्सय / उपकार /	पजायन / जायन / उप्पाद / उप्पज्जन / जाति / निब्बत्तन /	shēng qǐ
उपदिसन / अनुसिद्धि / ओवाद / उपदेस /	jiē jìn de	zhī chēng	誕生	उग्गम / उप्पादन / उदय / उस्सापन / उक्खिपन / उक्खेपन / उप्पतन /
忠告	उपनायिक / निकट / निकट्टु / आगमन / धुर / आसन्न / उपकट्ट / अविदूर /	支持	dàn	跳躍
zhōng gào		zhī chēng	जाति / उप्पाद / पजायन / निब्बत्तन / जायन / उप्पज्जन /	tiào yuè
उपदिसन / उपदेस / अनुसिद्धि / ओवाद /		उपकरण / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पतिट्ठान / उपनिस्सय / अपस्सय / पग्गाह / आलम्ब /	誕生	अधिपतन / उप्पतन /
		पग्गह / आधार / आलम्बन / पतिट्ठा / ओलम्ब / निस्सय / अवस्सय / उपकार /	dàn	飛
			जाति / उप्पाद / पजायन / जायन / निब्बत्तन / उप्पज्जन /	fēi
				मक्खिका / उप्पतन /

उपपरिक्खन	उप्पादन	उपब्रूहन	उपभोग	裨益
upaparikkhana	uppādana	upabrūhana	upabhoga	bì yì
考試	升起	加價	使用	उदय / उपभोग / अत्थ / पत्ति / आनिसंस / आय /
kǎo shì	shēng qǐ	jiā jià	shǐ yòng	运用
調查	उगम / उप्पादन / उदय / उस्सापन / उक्खिपन / उक्खेपन / उत्पत्तन /	फातिकम्म / अभिवड्डन / उपब्रूहन / पवड्डन / उदय / उगम / उन्नति /	पटिसेवन / अत्थवस / उपभोग / पयोजन / परिभोग / निसेवन / अत्थ /	yùn yòng
diào chá	製造	加大	利	पयोजन / अत्थ / उपभोग / परिभोग / अत्थवस /
अन्वेसना / उपपरिक्खन / परिगणहन /	zhì zào	jiā dà	lì	運用
उप्पात	निप्पादन / उप्पादन /	उदय / उन्नति / उपब्रूहन / अभिवड्डन / उगम / पवड्डन / फातिकम्म /	आय / आनिसंस / उपभोग / पत्ति /	yùn yòng
uppāta	उप्पीठन	增加	利潤	परिभोग / अभिनिरोपन / अत्थवस / अत्थ / उपभोग / पयोजन /
流星	appīhana	增	lì rùn	उपम
liú xīng	压迫	zēng	पत्ति / आय / आनिसंस / उपभोग /	upama
उक्का / उप्पात /	yā pò	पवड्डन / अभिवड्डन / फातिकम्म / उदय / उन्नति / उपब्रूहन / उगम /	利潤	似
隕石	壓迫	增加	lì rùn	似
yǔn shí	yā pò	zēng jiā	आनिसंस / पत्ति / उपभोग / आय /	sì
उक्का / उप्पात /	उप्पोठन	ब्रूहन / फातिकम्म / उपब्रूहन / उगम / अभिवड्डन / उन्नति / उदय / पवड्डन /	利用	उपम / उपम / इव / इव /
隕星	uppoṭhana	增多	lì yòng	似
yǔn xīng	打	zēng duō	अत्थवस / परिभोग / अत्थ / पयोजन / उपभोग /	shì
उप्पात / उक्का /	dǎ	पवड्डन / फातिकम्म / अभिवड्डन / उपब्रूहन / उदय / उगम / उन्नति /	可享受的	उपम / उपम / इव / इव /
उप्पाद	उप्पोठन / ताळन / पोठन / अन्वाहत / पहरण /	zēng qiáng	kě xiǎng shòu de	俸
uppāda	उप्पोठन / ताळन / पोठन / अन्वाहत / पहरण /	增强	贏	móu
上升	उप्पोठन / ताळन / पोठन / अन्वाहत / पहरण /	zēng qiáng	yíng	पटिभाग / उपम /
shàng shēng	उदय / उगम / उद्धान / उन्नति / उप्पाद / उदयन /	उगम / उपब्रूहन / फातिकम्म / पवड्डन / उन्नति / अभिवड्डन / उदय /	आय / पुण्ण / आनिसंस / पत्ति / उदय / परिपूर / उपभोग /	同
उदय / उगम / उद्धान / उन्नति / उप्पाद / उदयन /	出生	zēng qiáng	收益	tóng
出生	chū shēng	उगम / उपब्रूहन / फातिकम्म / पवड्डन / उन्नति / अभिवड्डन / उदय /	shōu yì	喜欢
उप्पज्जन / उप्पाद / जाति / पजायन / निब्बत्तन / जायन /	出身	zēng zhí	उदय / पत्ति / आय / बलि / अय / आनिसंस / उपभोग /	xǐ huān
chū shēng	chū shēn	उगम / उन्नति / अभिवड्डन / उदय / उपब्रूहन / पवड्डन / फातिकम्म /	施用	उपम / इव /
उप्पज्जन / उप्पाद / जाति / पजायन / निब्बत्तन / जायन /	生下	zēng tiān	shī yòng	宛
chū shēn	shēng xià	फातिकम्म / उगम / उदय / उपब्रूहन / उन्नति / अभिवड्डन / पवड्डन /	shī yòng	wǎn
उप्पज्जन / उप्पाद / जाति / पजायन / निब्बत्तन / जायन /	shēng xià	zēng zhǎng	पयोजन / अत्थ / अभिनिरोपन / अत्थवस / परिभोग / उपभोग /	相仿
उप्पज्जन / जाति / निब्बत्तन / जायन /	生出	kuò dà	潤	xiǎng fǎng
shēng xià	shēng chū	益	rùn	相似的
पजायन / उप्पाद / जायन / उप्पज्जन / जाति / निब्बत्तन /	shēng chū	kuò dà	पत्ति / आय / आनिसंस / उपभोग /	xiāng sì de
उप्पज्जन / जाति / निब्बत्तन / जायन /	血统	kuò dà	潤	एकविध / उपम / पटिभाग / निभ / निब्बि /
xuè tǒng	誕	yì	rùn	肖
उप्पाद / उद्धान / उप्पत्ति / पभव / गोत्त /	dàn	उपब्रूहन / अभिवड्डन / फातिकम्म / पवड्डन / उन्नति / उगम / उदय /	उपभोग / आय / आनिसंस / पत्ति /	xiào
誕	dàn	茁	獲利	उपमा
जाति / उप्पाद / पजायन / निब्बत्तन / जायन / उप्पज्जन /	dàn	zhuó	huò lì	upamā
निब्बत्तन / जायन / उप्पज्जन /	起源	अभिवड्डन / उपब्रूहन / उदय / पवड्डन / उन्नति / फातिकम्म / उगम /	पत्ति / उपभोग / आय / आनिसंस /	寓言
shēng yuán	起源	zhuó	用	yù yán
उद्धान / उप्पत्ति / पभव / उप्पाद /	起源	茁	yòng	比較
उप्पादेतु	उप्पादेतु	zhuó	पयोजन / परिभोग / उपभोग / अत्थवस / अत्थ /	bǐ jiào
उप्पादेतु	उप्पादेतु	zhuó	用法	निदस्सन / ओपम्म / उपमा /
生殖者	生殖者	zhuó	yòng fǎ	直喻
shēng zhí zhě	生殖者	zhuó	परिभोग / अत्थ / उपभोग / अत्थवस / पयोजन /	zhí yù
	生殖者	zhuó	用途	उपमा / ओपम्म /
	生殖者	zhuó	yòng tú	
	生殖者	zhuó	पयोजन / अत्थवस / उपभोग / परिभोग / अत्थ /	
	生殖者	zhuó	盈利	
	生殖者	zhuó	yíng lì	
	生殖者	zhuó	उदय / आनिसंस / पत्ति / आय / उपभोग /	
	生殖者	zhuó	获利	
	生殖者	zhuó	huò lì	
	生殖者	zhuó	आनिसंस / उदय / उपभोग / आय / पत्ति /	

उपयोग	उपल	उपवाद	उपसगग	उपस्सय
upayoga	upala	upavāda	upasagga	upassaya
受雇	小石	侮	危	主场
shòu gù	xiǎo shí	wǔ	wēi	zhǔ chǎng
應用	उपल / अस्मा / पासाण /	ओमसना / उपवाद / घट्टन /	परिपन्थ / ईघ / उपद्व / परिस्सय	निलय / निकेतन / उपस्सय /
yīng yòng	石	आसज्जन / अक्कोस / तिरोक्कार /	/ उपसगग / अन्तराय /	निकेत / घर / गेह / आवास /
आयाचना / अभिनिरोपन / उपयोग /	shí	侮辱	危險	主頁
申請	पासाण / अस्मा / उपल /	wǔ rǔ	wēi xiǎn	zhǔ yè
shēn qǐng	石頭	घट्टन / उपवाद / आसज्जन /	परिपन्थ / उपसगग / अन्तराय /	निकेत / निलय / आवास /
आयाचना / अभिनिरोपन / उपयोग /	shí tóu	तिरोक्कार / ओमसना / अक्कोस /	परिस्सय / ईघ / उपद्व /	निकेतन / गेह / घर / उपस्सय /
申請書	उपल / अस्मा / पासाण /	咎	危險	住宅
shēn qǐng shū	उपलद्धि	jiù	wēi xiǎn	zhù zhái
अभिनिरोपन / उपयोग / आयाचना /	upaladdhi	अवण्ण / निग्गह / उपवाद /	परिपन्थ / अन्तराय / उपसगग /	निकेतन / आवास / निकेत / गह /
連接	來看	怨	उपद्व / ईघ / परिस्सय /	निवेस / गेह / अगार / घर /
lián jiē	來看	yuàn	威脅	निलय / निवास / उपस्सय /
अनुबन्धन / आबन्धक / उपयोग /	lái kàn	निग्गह / उपवाद / अवण्ण /	wēi xié	住家
雇用	所屬	挑剔	अन्तराय / उपद्व / परिपन्थ / ईघ	zhù jiā
gù yòng	suǒ shǔ	tiǎo tī	/ परिस्सय / उपसगग /	आवास / निलय / निकेत / घर /
उपरति	景	歸咎	字首	निकेतन / उपस्सय / गेह /
uparati	jǐng	guī jiù	住所	住所
停止	दोसिना / उपलद्धि /	निग्गह / उपवाद / अवण्ण /	zhù suǒ	आसय / उपस्सय / निवास /
tíng zhǐ	景色	汚辱	当儿	निकेत / आवसथ / ओक /
ओसान / अवसान / उपरति /	jǐng sè	wū rǔ	dāng ér	निकेतन / निलय / आलय / निवेस
निरुज्झन / उपच्छेद /	查看	ओमसना / आसज्जन / दूसन /	अन्तराय / उपसगग / परिस्सय /	/
抑制	chá kàn	अक्कोस / तिरोक्कार / घट्टन /	उपद्व / ईघ / परिपन्थ /	回國
yì zhì	檢視	उपवाद /	उपसङ्कमन	huí guó
निसेध / उपरति / दमथ / दम /	jiǎn shì	罪	upasaṅkamaṇa	निकेत / आवास / गेह / घर /
उपरि	看法	zuì	靠近	उपस्सय / निकेतन / निलय /
upari	kàn fǎ	असद्धम्म / कलि / निग्गह / पाप /	kào jìn	在家
上	眺望	अघ / अवण्ण / अकुसल / उपवाद /	उपकट्टु / उपन्तिक / उपसङ्कमन /	zài jiā
shàng	tiào wàng	責備	उपनिस्साय /	घर / गेह / निलय / आवास /
अधि / उपरि /	瞻	zé bèi	उपसेवना	उपस्सय / निकेत / निकेतन /
上述	zhān	अपवाद / निग्गहण / अतिवाक्य /	upasevanā	家
shàng shù	見解	गरहन / दोस / उपक्कोस /	交往	jiā
उद्ध / परो / उपरि /	jiàn jiě	उपवाद / अवण्ण / ओमसना /	jiāo wǎng	कट्टम्ब / उपस्सय / घर / गेह /
上面	觀點	अक्कोस / निग्गह / अनुवाद /	練習	आवास / कुल / निकेत / गह /
shàng miàn	guān diǎn	責怪	liàn xí	निकेतन / निलय /
उद्ध / उपरि / परो /	鑑	zé guài	आसेवना / आचार / पटिपज्जन /	家園
之上	jiàn	उपवाद / अवण्ण / निग्गह /	अनुचरण / चारित्त / पटिपत्ति /	jiā yuán
zhī shàng	jiàn	अपवाद /	उपसेवना /	आवास / उपस्सय / निकेतन / गेह
उपरि / अधि /	鑒	辱		/ निलय / घर / निकेत /
干	jiàn	rǔ		家園
yú	jiàn	तिरोक्कार / उपवाद / ओमसना /		jiā yuán
以上	jiàn	अयस / घट्टन / अक्कोस /		निलय / घर / निकेतन / निकेत /
yǐ shàng	उपलेप	आसज्जन /		उपस्सय / आवास / गेह /
उपरि / उद्ध / परो /	upalepa			家庭
前述	塗			jiā tíng
qián shù	tú			निकेत / कुल / निलय / निकेतन /
उपरि / परो / उद्ध /	उप्लवन			कुट्टम्ब / आवास / उपस्सय /
在	uplavana			家裡
zài	漂浮的			jiā li
उपरि / अन्तो /	piāo fú de			आवास / गेह / निलय / घर /
就	उपलापन			निकेतन / निकेत / उपस्सय /
jiù	upalāpana			居家
उपरि / अथ / अथो / तु /	欺騙			jū jiā
最高的	qī piàn			घर / गेह / आवास / उपस्सय /
zuì gāo de	कोहञ्ज / निकति / कितव /			निलय / निकेतन / निकेत /
उपरि / अगग /	केराटिय / कुहना / कुहक / कुह /			故鄉
	उपलापन / कूट / नेकतिक /			gù xiāng
				घर / गेह / उपस्सय / निकेत /
				आवास / निलय / निकेतन /
				老家
				jū jiā
				घर / गेह / आवास / उपस्सय /
				निलय / निकेतन / निकेत /
				家園
				jiā yuán
				निलय / घर / निकेतन / निकेत /
				उपस्सय / आवास / गेह /
				家庭
				jiā tíng
				निकेत / कुल / निलय / निकेतन /
				कुट्टम्ब / आवास / उपस्सय /
				家裡
				jiā li
				आवास / गेह / निलय / घर /
				निकेतन / निकेत / उपस्सय /
				居家
				jū jiā
				घर / गेह / आवास / उपस्सय /
				निलय / निकेतन / निकेत /
				故鄉
				gù xiāng
				घर / गेह / उपस्सय / निकेत /
				आवास / निलय / निकेतन /
				老家
				jū jiā
				आवास / गेह / उपस्सय / निकेत /
				निकेतन / निलय / घर /

उपसंहरण	उपायन	उपासन	उब्बेध	उब्भिद
upasamharaṇa	upāyana	upāsana	ubbedha	ubbhida
聚集	天才	伺候	個兒	彈簧
jù jí	tiān cái	sì hòu	gè r	dàn huáng
काय / ओचिनन / उपसंहरण /	चाग / उपहार / उपायन /	役	आरोह / उब्बेध /	彈簧
उपहार	礼物	yi	海拔	dàn huáng
upahāra	lǐ wù	उपद्धान / कार / पेसन / उपासन /	hǎi bá	春
天才	उपायन / चाग / उपहार /	किच्च / पारिचरिया /	उब्बेध / आरोह / उन्नति /	chūn
tiān cái	禮物	招待	海拔高度	पियायना / उब्भिद / पेम /
चाग / उपहार / उपायन /	lǐ wù	zhāo dài	hǎi bá gāo dù	春天
礼物	पण्णाकार / पाहुण / चाग / उपायन /	उपद्धान / किच्च / उपासन /	直立	chūn tiān
lǐ wù	उपहार /	पारिचरिया / कार / पेसन /	zhí lì	春季
उपायन / चाग / उपहार /	賜	服侍	身高	chūn jì
禮物	sì	fú shì	shēn gāo	泉
lǐ wù	उपायन / उपहार / चाग /	कार / उपद्धान / उपासन / पेसन /	उब्बेध / आरोह /	quán
पण्णाकार / पाहुण / चाग / उपायन /	贈送	पारिचरिया / किच्च /	高低	कूप / उदपान / ओपान / उब्भिद /
उपहार /	zèng sòng	服务	gāo dī	泉水
賜	चाग / उपायन / उपहार /	fú wù	उब्बेध / आरोह /	quán shuǐ
sì	賜	कार / पारिचरिया / उपद्धान / पेसन /	高度	源
उपायन / उपहार / चाग /	cì	किच्च / उपासन /	gāo dù	yuán
贈送	उपहार / उपहार / चाग / उपायन /	服務	आरोह / उब्बेध / उक्कडु /	उब्भिद / पभव / निदान /
zèng sòng	चाग / उपायन /	fú wu	उब्बहन	उभ
चाग / उपायन / उपहार /	賜	उपासन / पेसन / किच्च / उपद्धान /	ubbahana	ubha
賜	sì	कार / पारिचरिया /	舉止	兩
sì	उपहार / उपहार / चाग / उपायन /	服役	jǔ zhǐ	liǎng
उपहार / उपहार / चाग / उपायन /	चाग / उपायन /	fú yì	पकार / नय / कम / आकप्प /	उभय / उभ / उभो /
चाग / उपायन /	उपायास	उपद्धान / कार / पारिचरिया /	इरिया / नीहार / इरियना / उब्बहन /	兩者
賜	upāyāsa	उपासन / किच्च / पेसन /	उब्बिज्जना	liǎng zhě
cì	苦難	wéi xiū	ubbijjanā	उभय / उभ / उभो /
उपहार / उपहार / चाग / उपायन /	kǔ nán	उपद्धान / उपासन / किच्च / पेसन /	不安	二者
चाग / उपायन /	उपारम्भ	/ पारिचरिया / कार /	bù ān	èr zhě
उपादान	upārambha	訓練	激動	उभो / उभय / उभ /
upādāna	指責	xùn liàn	jī dòng	倆
抓的	zhǐ zé	训练	चलन / पकोप / फन्दित / फन्दन /	liǎng
zhuā de	譴責	xùn liàn	कप्पन / उब्बिज्जना / आलोळ /	उभ / उभ / उभय / उभय / उभो /
燃料	qiǎn zé	उपासन / उपासन /	परितस्सना / खोभ /	उभो /
rán liào	उपारम्भ / गरहन /	训练	उब्भव	倆
एध / उपादान / इन्धन /	譴責	xùn liàn	ubbhava	liǎ
燃油	qiǎn zé	उपासन / उपासन /	開始	उभ / उभ / उभय / उभय / उभो /
rán yóu	责难	उब्बेग	kāi shǐ	उभो /
एध / उपादान / इन्धन /	zé nán	ubbeга	आदि / आरम्भ / उब्भव /	倆
附件		刺激	उब्भार	liǎ
fù jiàn		cì jī	उभार	उभ / उभय / उभो /
उपाय		कोतूहल / कुतूहल / उब्बेग /	ubbhāra	倆
upāya		अनुबल /	切除	liǎng
手段			qiè chú	उभय / दिव / उभ / उभो /
shǒu duàn			पहान / उब्भार /	兩人
उपक्कम / उपाय /			撤退	liǎng rén
方法			chè tuì	उभो / उभ / उभय /
fāng fǎ			उब्भार / उद्धार /	兩者
नय / उपाय / पथ / पकार / नीहार /				liǎng zhě
उपक्कम / उपनिसा / जाय / कम /				उभय / उभ / उभो /
मग्ग /				都
				dōu
				उभय / उभो / ठानीय / उभ /
				उभतो
				ubhato
				兩倍
				liǎng bèi

उभय	उभो	उम्मा	उर	उरु
ubhaya	ubho	ummā	ura	uru
兩	兩	亞麻	中	偉
liǎng	liǎng	yà má	zhōng	wěi
उभय / उभ / उभो /	उभय / उभ / उभो /	亞麻	पीठ / ओज / उर / परियन्त / अन्तो / पथ /	उरु / पुथुल / तुमुल /
兩者	兩者	yà má	乳	偉
liǎng zhě	liǎng zhě	उम्माद	rǔ	wěi
उभय / उभ / उभो /	उभय / उभ / उभो /	ummāda	पय / खीर / दुद्ध / उर /	उरु / तुमुल /
二者	二者	瘋狂	乳房	偉大
èr zhě	èr zhě	fēng kuáng	rǔ fáng	wěi dà
उभो / उभय / उभ /	उभो / उभय / उभ /	癡狂	吸奶	उरु / तुमुल /
倆	倆	fēng kuáng	xī nǎi	冢
liǎng	liǎng	उच्यान	खीर / उर /	zhǒng
उभ / उभ / उभय / उभय / उभो / उभो /	उभ / उभ / उभय / उभय / उभो / उभो /	uyyāna	奶子	तुमुल / उरु /
倆	倆	停放	nǎi zi	夥
liǎ	liǎ	tíng fàng	心口	huǒ
उभ / उभ / उभय / उभय / उभो / उभो /	उभ / उभ / उभय / उभय / उभो / उभो /	公園	xīn kǒu	उरु / तुमुल /
倆	倆	gōng yuán	怀	大
liǎ	liǎ	朴	huái	dà
उभ / उभय / उभो /	उभ / उभय / उभो /	pǔ	懷	तिकिच्छक / तुमुल / पुथुल / अति / उरु /
兩	兩	樸	huái	大牌
liǎng	liǎng	pú	胸	dà pái
उभय / दिव / उभ / उभो /	उभय / दिव / उभ / उभो /	उच्योजन	xiōng	उरु / तुमुल /
兩人	兩人	uyyोजना	चित्त / उर /	大的
liǎng rén	liǎng rén	鼓動	胸口	dà de
उभो / उभ / उभय /	उभो / उभ / उभय /	gǔ dòng	xiōng kǒu	उरु / पुथुल / तुमुल /
兩者	兩者		xiōng kǒu	大號
liǎng zhě	liǎng zhě		胸脯	dà hào
उभय / उभ / उभो /	उभय / उभ / उभो /		xiōng pú	उरु / पुथुल /
都	都		胸膛	裝
dōu	dōu		xiōng táng	zhuāng
उभय / उभो / ठानीय / उभ /	उभय / उभो / ठानीय / उभ /		胸部	उरु / उरु / तुमुल / थूल / थूल / तुमुल /
	उम्मुक		xiōng bù	裝
	ummuka			zàng
	火把			उरु / उरु / तुमुल / थूल / थूल / तुमुल /
	huǒ bǎ			弘
	उक्का / अलात / उम्मुक /			hóng
	उम्मुख			तुमुल / उरु /
	ummukha			恢
	不注意的			huī
	bù zhùyì de			तुमुल / उरु /
	उम्मुख / निरपेख / निरपेक्ख /			曼
	उम्मग्ग			màn
	ummagga			मच्च / पुथुल / पुम / पुरिस / पोस / उरु / जन / दिपद /
	地道			極大
	de dào			jí dà
	उम्मग्ग / उम्मग्ग /			उरु / तुमुल /
	地道			碩
	dì dào			shuò
	उम्मग्ग / उम्मग्ग /			तुमुल / पुथुल / उरु /
	隧			莫大
	suì			mò dà
	隧道			उरु / तुमुल /
	suì dào			觥
				gōng
				उरु / तुमुल /

उरग	उळ	उळार	उसूया	उस्सव
uraga	ulu	uļāra	usūyā	ussava
𐑇	五星	𐑇	吃醋	儀式
shé	wǔ xīng	é	chī cù	yí shì
भोगी / दुजिह् / आसीविस / उरग / अहि / अलगद् /	जोति / तारका / तारा / उळ / नक्खत्त /	崧	इस्सा / उसूया / उसूयना /	उस्सव / मङ्गल /
उरब्भ	加上星号	sōng	妒忌	典𑖀
urabbha	jiā shàng xīng hào	嵩	dù jì	diǎn lǐ
公羊	उळ / नक्खत्त / तारा / तारका / जोति /	sōng	इस्सा / उसूयना / उसूया /	उस्सव / मङ्गल /
gōng yáng	恆星	杰出	嫉妒	典禮
उल्लङ्घन	héng xīng	jie chū	jí dù	diǎn lǐ
ullaṅghana	जोति / नक्खत्त / तारा / उळ / तारका /	𐑇	उसूया / इस्सा / उसूयना /	मङ्गल / उस्सव /
違反	明星	chù	忌妒	礼
wéi fǎn	míng xīng	穹	jì dù	lǐ
पधंस / उल्लङ्घन /	जोति / तारका / नक्खत्त / उळ / तारा /	qióng	उसूयना / उसूया / इस्सा /	मङ्गल / उस्सव /
उल्लुम्पन	星	隗	羡慕	禮
ullumpana	xīng	wěi	xiàn mù	lǐ
挽救	तारका / तारा / जोति / उळ / नक्खत्त /	高尚	इस्सा / उसूया / उसूयना /	उस्सव / मङ्गल /
wǎn jiù	星座	gāo shàng	羡慕	उस्सहन
उल्लिखन	xīng zuò	उळार / अरिय /	उसूयना / उसूया / इस्सा /	ussahana
ullikhana	星星	高的	उस्सुक	努力
搔	उळ / नक्खत्त /	gāo de	ussuka	nǚ lì
sāo	星星	उच्च / अब्भुन्नत / उळार / तुङ्ग /	精力充沛的	आतप्प / पग्गह / उस्साह /
उल्लोकन	xīng xīng	高貴	jīng lì chōng pèi de	उस्सहन / पग्गाह / परिस्सम /
ullokana	तारा / उळ / तारका / नक्खत्त / जोति /	gāo guì	उस्सुक / दब्ह /	उग्घटित / आयूहन / पयोग /
窗	星辰	उळार / अरिय /	उस्सुक	盡力
chuāng	xīng chén	उसु	ussukka	jìn lì
कवाट / उल्लोकन / आलोकन / आलोकसन्धि /	उळ / तारका / जोति / तारा / नक्खत्त /	usu	活力	उस्सापन
窗口	月亮	矢	huó lì	ussāpana
chuāng kǒu	yuè liàng	shǐ	उस्सुक / पग्गह / उद्धान / धिति / पग्गाह / थाम /	升起
आलोकसन्धि / कवाट / उल्लोकन / आलोकन /	तारा / चन्द / उळ / तारका / चन्दिमा /	असन / उसु / तेजन /	精力	shēng qǐ
窗子	उळङ्क	箭	jīng lì	उग्गम / उप्पादन / उदय /
chuāng zi	uļūṅka	jiàn	धिति / उद्धान / बल / पग्गाह / पग्गह / उस्सुक /	उस्सापन / उक्खिपन / उक्खेपन /
आलोकन / कवाट / आलोकसन्धि / उल्लोकन /	杓子	असन / उसु / तेजन /	能源	उत्पतन /
窗户	sháo zi	उसूयक	néng yuán	उस्सारणा
chuāng hù	दब्बी / उळङ्क /	usūyaka	पग्गाह / धिति / उद्धान / उस्सुक / पग्गह /	ussāraṇā
आलोकन / उल्लोकन / कवाट / आलोकसन्धि /	उळम्प	嫉妒的	能量	騷動
窗户	uļumpa	jí dù de	néng liàng	sāo dòng
chuāng hù	熬夜的人	इस्सुकी / उसूयक /	उस्सुक / पग्गाह / धिति / पग्गह / उद्धान /	उक्कण्ठना / उल्लोल / उस्सारणा /
आलोकन / उल्लोकन / आलोकसन्धि /	áo yè de rén	उसूयना	高能	उस्साव
窗户	उळम्प / कोसिक /	usūyanā	gāo néng	ussāva
chuāng hù	猫头鹰	吃醋	उद्धान / उस्सुक / पग्गह / पग्गाह / धिति /	露
आलोकन / उल्लोकन / कवाट / आलोकन /	māo tóu yīng	chī cù	उस्सङ्की	lù
उल्लोल	कोसिक / उळम्प /	इस्सा / उसूया / उसूयना /	ussaṅkī	उस्साव / तुहिन /
ullola	貓頭鷹	妒忌	不信用的	露水
騷動	māo tóu yīng	dù jì	bù xìn yòng de	lù shuǐ
sāo dòng	कोसिक / उळम्प /	इस्सा / उसूयना / उसूया /	उस्सन्नता	तुहिन / उस्साव /
उक्कण्ठना / उल्लोल / उस्सारणा /	उळम्प /	嫉妒	उस्सन्नता	露珠
		jí dù	ussannatā	lù zhū
		उसूया / इस्सा / उसूयना /	充滿	तुहिन / उस्साव /
		忌妒	chōng mǎn	उस्साह
		jì dù	पुण्ण / उस्सन्नता / परिपूर /	ussāha
		उसूयना / उसूया / इस्सा /	उस्सूर	努力
		羡慕	ussūra	nǚ lì
		xiàn mù	日出	आतप्प / पग्गह / उस्साह /
		इस्सा / उसूया / उसूयना /	rì chū	उस्सहन / पग्गाह / परिस्सम /
		羨慕		उग्घटित / आयूहन / पयोग /
		xiàn mù		
		उसूयना / उसूया / इस्सा /		

उस्सीसक	एक	एकक	एकग	एकच्चिय
ussīsaka	eka	ekaka	ekagga	ekacciya
枕	—	汀	沈著的	—些
zhěn	yī	dīng	shěn zhù de	yī xiē
उस्सीसक / उपधान /	—些	单	एकग / आनेञ्ज /	एकच्च / एकच्चिय / कतिपय /
枕头	yī xiē	dān	एकघन	एक /
zhěn tóu	एकच्च / एकच्चिय / कतिपय /	单一	ekaghana	一番
उपधान / उस्सीसक /	एक /	dān yī	固	yī fān
枕頭	一體	单一的	gù	एकच्चिय / एकच्च / कतिपय /
zhěn tóu	yī tǐ	dān yī de	थिर / एकघन / घन / खर / दब्ह /	些
उपधान / उस्सीसक / अपस्सय /	之一	单身的	結實	xiē
ऊन	zhī yī	dān shēn de	jié shí	एकच्च / एकच्चिय / कतिपय /
ūna	同一	唯	एकघन / घन /	必然
不足的	tóng yī	wéi	एकच्च	bì rán
bù zú de	同样	केवल / एवं / एव / एकक / आम /	ekacca	एकच्च / एकच्चिय /
欠缺的	tóng yàng	唯一	—些	有些
qiàn quē de	同种的	wéi yī	yī xiē	yǒu xiē
缺	tóng zhǒng de	एव / केवल / एकक /	एकच्च / एकच्चिय / कतिपय /	एकच्चिय / कतिपय / एकच्च /
quē	單	孤	एक /	有人
ऊरु	dān	gū	一番	yǒu rén
ūru	未知的	एकक / केवल /	yī fān	एकच्चिय / कतिपय / एकच्च /
大腿	wèi zhī de	孤單	एकच्चिय / एकच्च / कतिपय /	有的是
dà tuǐ	अपाकट / अञ्जतम / एक /	gū dān	些	yǒu de shì
大腿骨	अविदित /	孤零零	xiē	एकच्चिय / एकच्च / कतिपय /
dà tuǐ gú	某一个	gū líng líng	एकच्च / एकच्चिय / कतिपय /	某
胯	mǒu yī gè	独身	必然	mǒu
kuà	एक / एकच्च / अञ्जतर /	dú shēn	bì rán	एकच्च / एकच्चिय / कतिपय /
पाद / ऊरु /	एकच्चिय /	獨居	एकच्च / एकच्चिय /	某一个
腿	相同的	dú jū	有些	mǒu yī gè
tuǐ	xiāng tóng de	葇	yǒu xiē	एक / एकच्च / अञ्जतर /
पाद / ऊरु /		qióng	एकच्चिय / कतिपय / एकच्च /	एकच्चिय /
		एकेक	有人	某些
		ekeka	yǒu rén	mǒu xiē
		各	एकच्चिय / कतिपय / एकच्च /	एकच्चिय / एकच्च / कतिपय /
		gè	有的是	确定
		एकमेक / एकेक / निखिल /	yǒu de shì	què dìng
		各個	एकच्चिय / एकच्च / कतिपय /	एकच्चिय / एकच्च /
		gè gè	某	
		एकमेक / एकेक /	mǒu	
		各自	एकच्च / एकच्चिय / कतिपय /	
		gè zì	某一个	
		एकमेक / एकेक /	mǒu yī gè	
		每	एक / एकच्च / अञ्जतर /	
		měi	एकच्चिय /	
		असेस / निस्सेस / एकमेक / एकेक /	某些	
		निखिल /	mǒu xiē	
		每一	एकच्चिय / एकच्च / कतिपय /	
		měi yī	确定	
		निखिल / एकेक / एकमेक /	què dìng	
		每个	एकच्चिय / एकच्च /	
		měi gè		
		एकेक / एकमेक /		
		每個		
		měi gè		
		एकेक / एकमेक /		
		每次		
		měi cì		
		एकेक / एकमेक /		

एकज्झं	एकदा	एकविध	एत	एत्तो
ekajjham	ekadā	ekavidha	eta	etto
一同	一度	相似的	其	在座
yī tóng	yī dù	xiāng sì de	qí	zài zuò
一塊兒	一旦	एकविध / उपम / पटिभाग / निभ / निब्बि /	एत / तादिस / तादिसक / एवरूप /	अत्र / इह / इध / एत्तो / एत्थ /
yī kuài r	yī dàn	एकंस	彼	在這裡
一起	一朝	एकंस	bǐ	zài zhè lǐ
yī qǐ	yī cháo	ekamsa	該	अत्र / इध / इह / एत्तो / एत्थ /
一齊	一次	確信	gāi	这儿
yī qí	yī cì	què xìn	该	zhèi ér
全	आदि / एकदा / अगग / पठम /	एकन्त / एकंस / एकंसिक /	gāi	इध / एत्तो / अत्र / अत्र / एत्थ /
tóng	同時	एकंसिक	这个	इह / एत्तो / इध / एत्थ / इह /
共同	tóng shí	ekamsika	zhèi gè	这儿
gòng tóng	會	確信	एत / एत /	zhè r
到一起	céng	què xìn	这个	इध / एत्तो / अत्र / अत्र / एत्थ /
dào yī qǐ	曾經	एकन्त / एकंस / एकंसिक /	zhè gè	इह / एत्तो / इध / एत्थ / इह /
在一起	céng jīng	एकीभूत	एत / एत /	这里
zài yī qǐ	एकन्त	एकीभूत	這	zhèi lǐ
相聚	ekanta	एकीभूत	zhè	अत्र / एत्थ / एत्थ / एत्तो / अत्र /
xiāng jù	當然	एकीभाव	那	इह / इध / इध / इह / एत्तो /
結伴	dāng rán	एकीभाव	nà	这里
jié bàn	ननु / एकन्त / खो / खलु / नून / अद्दा /	एकीभाव	कतम / कतर / एत / कतम / एत / कतर /	zhè lǐ
齊	確信	एकीभाव / एकत्त /	那	अत्र / एत्थ / एत्थ / एत्तो / अत्र /
qí	què xìn	एकोदिभाव	nài	इह / इध / इध / इह / एत्तो /
齐	एकन्त / एकंस / एकंसिक /	एकोदिभाव	कतम / कतर / एत / कतम / एत / कतर /	這兒
qí	एकन्तरिक	ekodibhāva	那個	zhè r
एकत्त	ekantarika	集中	nèi gè	इह / अत्र / इध / एत्तो / एत्थ /
ekatta	交替的	jí zhōng	कतम / कतर / एत / कतम / एत / कतर /	這裡
协议	jiāo tì de	एजा	那個	zhè li
xié yì	एकमेक	ejā	nà gè	अत्र / एत्थ / एत्तो / इह / इध /
कतिका / एकत्त /	ekameka	動議	nài tiān	這邊
協定	各	dòng yì		zhè biān
xié dìng	gè	फन्दन / एजा / इञ्जन / चार /		अत्र / एत्तो / इह / इध / एत्थ /
एकत्त / कतिका /	एकमेक / एकेक / निखिल /	渴望		
協議	各個	kě wàng		
xié yì	gè gè	कामता / इच्छन / इच्छ /		
कतिका / एकत्त /	एकमेक / एकेक /	अभिकइखन / जालिनी / अपेक्खन / आसा / एजा / इच्छा / तण्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिंसा /		
契約	各自	छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकइखत / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /		
qì yuē	gè zì	渴求		
कतिका / एकत्त /	एकमेक / एकेक /	kě qiú		
寂寞	每			
ji mò	měi			
एकीभाव / एकत्त /	असेस / निस्सेस / एकमेक / एकेक / निखिल /	तण्हा / एजा / तसिना / नन्दि / अभिगिज्झन / जालिनी /		
符合	每一	運動		
fú hé	měi yī	yùn dòng		
अन्वय / कतिका / एकत्त /	निखिल / एकेक / एकमेक /	चार / फन्दन / एजा / इञ्जन /		
	每个	運動		
	měi gè	yùn dòng		
	एकेक / एकमेक /	कम्पन / चार / इञ्जन / फन्दन / एजा / दव / चलन /		
	每個			
	měi gè			
	एकेक / एकमेक /			
	每次			
	měi cì			
	एकेक / एकमेक /			

एत्थ	एतरहि	एध	एव	एवं
ettha	etarahi	edha	eva	evam
在座	今	木柴	仅	唯
zài zuò	jīn	mù chái	jǐn	wéi
अत्र / इह / इध / एत्तो / एत्थ / 在這裡	तु / अज्ज / अधुना / इदानी / एतरहि /	इन्धन / दारु / एध / इधुम / 柴	仅仅	केवल / एवं / एव / एकक / आम / 因此
zài zhè lǐ	今朝	chái	jǐn jǐn	yīn cǐ
अत्र / इध / इह / एत्तो / एत्थ / 这儿	jīn cháo	इधुम / एध / इन्धन / 柴火	केवल / एव / 但	तस्मा / अतो / एवं / ततो / इति / इत्थं / उद्धं / इतो / तथा / 因而
zhèi ér	刚才	chái huǒ	dàn	yīn ér
इध / एत्तो / अत्र / अत्र / एत्थ / इह / एत्तो / इध / एत्थ / इह / 这儿	gāng cái	एध / इधुम / इन्धन / 樵	तु / पन / आदु / पि / एव / 但是	इति / तथा / इत्थं / एवं / 如此
zhè r	अधुना / इदानी / तु / एतरहि / 在眼前	qiáo	dàn shì	rú cǐ
इध / एत्तो / अत्र / अत्र / एत्थ / इह / एत्तो / इध / एत्थ / इह / 这里	zài yǎn qián	इन्धन / एध / इधुम / 燃料	पन / तु / पि / आदु / एव / अपि / 僅	तथा / इति / एवरूप / तादिस / इत्थं / तादिसक / एवं / 是
zhè lǐ	इदानी / अधुना / एतरहि / 此刻	rán liào	jǐn jǐn	shì
अत्र / एत्थ / एत्थ / एत्तो / अत्र / इह / इध / इध / इह / एत्तो / 这里	rú jīn	एध / उपादान / इन्धन / 燃油	只	अहोसि / आम / एवं / 是的
zhèi lǐ	तु / इदानी / अधुना / एतरहि / 此刻	rán yóu	zhǐ	shì de
अत्र / एत्थ / एत्थ / एत्तो / अत्र / इह / इध / इध / इह / एत्तो / 這兒	एतरहि / अधुना / तु / इदानी / 此時	एला	पन / पि / एव / तु / आदु / 只是	एवं / आम / 沒錯
zhè r	cǐ shí	elā	zhǐ shì	méi cuò
इह / अत्र / इध / एत्तो / एत्थ / 這裡	एतरहि / अधुना / तु / इदानी / 現	口水	एव / पन / पि / आदु / तु / 只有	एवं / आम / 沒錯
zhè li	xiàn	kǒu shuǐ	zhǐ yǒu	méi cuò
अत्र / एत्थ / एत्तो / इह / इध / 這邊	इदानी / तु / अधुना / एतरहि / 現在	एळा / खेळ / एला / 唾	एव / केवल / 可是	आम / एवं / 然
zhè biān	xiàn zài	tuò	kě shì	rán
अत्र / एत्तो / इह / इध / एत्थ /	एतरहि / तु / इदानी / अधुना / 現在	खेळ / एला / एळा / 唾液	अपि / पन / एव / तु / आदु / पि / 唯	तथा / पि / इति / एवं / इत्थं / तु / 由此
	xiàn zài	tuò yè	wéi	yóu cǐ
	तु / इदानी / अधुना / एतरहि / 目前	खेळ / एला / एळा / 涎	केवल / एवं / एव / एकक / आम / 唯一	तथा / एवं / इत्थं / इति / 这样
	mù qián	xián	wéi yī	zhèi yàng
	眼下	खेळ / एळा / एला / एळा	एव / केवल / एकक / 徒	तथा / तथा / इति / एवं / एवं / तादिसक / तादिस / इत्थं / इत्थं / इति / एवरूप / 这样
	yǎn xià	एळा	tú	zhè yàng
	अधुना / इदानी / तु / एतरहि / 眼前	elā	惟	तथा / तथा / इति / एवं / एवं / तादिसक / तादिस / इत्थं / इत्थं / इति / एवरूप / 這樣
	yǎn qián	口水	wéi	zhè yàng
	तु / इदानी / अधुना / एतरहि / 立刻	kǒu shuǐ	पन / एव / तु / आदु / केवल / पि / 惟一	तथा / तथा / इति / एवं / एवं / तादिसक / तादिस / इत्थं / इत्थं / इति / एवरूप / 這樣
	lì kè	एळा / खेळ / एला / 唾	wéi yī	zhè yàng
	इदानी / अधुना / तु / एतरहि / 而今	tuò	才	एवं / इत्थं / तथा / एवरूप
	ér jīn	खेळ / एला / एळा / 涎	cái	एवरूप
	इदानी / एतरहि / अधुना / तु /	xián	止	everūpa
		खेळ / एळा / एला / एळालुक	zhǐ	其
		elāiluka	rán ér	qí
		小黃瓜	आदु / पि / तु / पन / एव / 独	एत / तादिस / तादिसक / एवरूप / 如此
		xiǎo huáng guā	dú	rú cǐ
		इन्दवारुणि / एळालुक / 黃瓜	祇	तथा / इति / एवरूप / तादिस / इत्थं / तादिसक / एवं / 这样
		huáng guā	zhī	zhèi yàng
		इन्दवारुणि / एळालुक / 黃瓜	祇	तथा / तथा / इति / एवं / एवं / तादिसक / तादिस / इत्थं / इत्थं / इति / एवरूप /
		huáng guā	zhī	
		इन्दवारुणि / एळालुक /	纒	
			cái	
			隻	
			zhī	

एसन्त	ओकास	ओज	ओदहन	ओधि
esanta	okāsa	oja	odahana	odhi
<p>追求</p> <p>zhuī qiú</p> <p>एसन्त / एसमान / आसेवना /</p>	<p>准许</p> <p>zhǔn xǔ</p> <p>机会</p> <p>jī huì</p> <p>पसङ्ग / ओकास / पकरण / खण /</p> <p>機會</p> <p>jī huì</p> <p>अवसर / ओकास / ओतार / खण /</p> <p>空地</p> <p>kōng dì</p> <p>आकास / आकास / अङ्गण / अङ्गण / ओकास / ओकास /</p> <p>空地</p> <p>kōng de</p> <p>आकास / आकास / अङ्गण / अङ्गण / ओकास / ओकास /</p> <p>空間</p> <p>kōng jiān</p> <p>आकास / ओकास /</p>	<p>中</p> <p>zhōng</p> <p>पीठ / ओज / उर / परियन्त / अन्तो / पथ /</p> <p>原汁</p> <p>yuán zhī</p> <p>果汁</p> <p>guǒ zhī</p> <p>汁</p> <p>zhī</p> <p>汁液</p> <p>zhī yè</p> <p>ओङ्</p> <p>oṅha</p> <p>唇</p> <p>chún</p> <p>अधर / ओङ् /</p> <p>唇管</p> <p>chún guǎn</p> <p>अधर / ओङ् /</p> <p>嘴唇</p> <p>zuǐ chún</p> <p>ओङ् / अधर /</p> <p>駝</p> <p>tuó</p> <p>करभ / ओङ् /</p> <p>駱駝</p> <p>luò tuó</p> <p>करभ / ओङ् /</p> <p>駝</p> <p>tuó</p> <p>करभ / करभ / ओङ् / ओङ् /</p> <p>駝</p> <p>tuó</p> <p>करभ / करभ / ओङ् / ओङ् /</p> <p>駱駝</p> <p>luò tuó</p> <p>करभ / ओङ् /</p> <p>ओतार</p> <p>otāra</p> <p>存取</p> <p>cún qǔ</p> <p>पवेस / ओतार /</p> <p>機會</p> <p>jī huì</p> <p>अवसर / ओकास / ओतार / खण /</p> <p>通路</p> <p>tōng lù</p> <p>मगग / पन्थ / ओतार / अञ्जस / पथ / पज्ज /</p> <p>過失</p> <p>guò shī</p> <p>खलित / निग्गह / अज्जाचार / दोस / अपाय / छिद्द / ओतार /</p> <p>降落</p> <p>jiàng luò</p> <p>ओरुहन / ओतार /</p>	<p>插入</p> <p>chā rù</p> <p>ओदात</p> <p>odāta</p> <p>白</p> <p>bái</p> <p>ओदात / अवदात / धवल / दोसिना /</p> <p>白的</p> <p>bái de</p> <p>ओदात / अवदात / धवल /</p> <p>白皙</p> <p>bái xī</p> <p>अवदात / ओदात / धवल /</p> <p>白粉</p> <p>bái fěn</p> <p>धवल / अवदात / ओदात /</p> <p>白紙</p> <p>bái zhǐ</p> <p>ओदात / धवल / अवदात /</p> <p>白色</p> <p>bái sè</p> <p>अवदात / ओदात / धवल /</p> <p>白色的</p> <p>bái sè de</p> <p>ओदात / धवल / अवदात /</p> <p>白衣</p> <p>bái yī</p> <p>ओदात / धवल / अवदात /</p> <p>皓</p> <p>hào</p> <p>दोसिना / धवल / ओदात / अवदात /</p> <p>皙</p> <p>xī</p> <p>अवदात / धवल / ओदात /</p> <p>皜</p> <p>hào</p> <p>धवल / अवदात / ओदात /</p> <p>皜</p> <p>pó</p> <p>ओदात / धवल / अवदात /</p>	<p>圻</p> <p>qí</p> <p>परिच्छेद / ओधि / अवधि /</p> <p>垓</p> <p>gāi</p> <p>ओधि / परिच्छेद / अवधि /</p> <p>塹</p> <p>shān</p> <p>ओधि / परिच्छेद / अवधि /</p> <p>局限</p> <p>jú xiàn</p> <p>परियन्त / ओधि / परिमाण /</p> <p>徼</p> <p>jiào</p> <p>परिच्छेद / ओधि / अवधि /</p> <p>极限</p> <p>jí xiàn</p> <p>परिच्छेद / परियन्त / अवधि / परिमाण / ओधि /</p> <p>極限</p> <p>jí xiàn</p> <p>परियन्त / परिमाण / ओधि /</p> <p>界限</p> <p>jiè xiàn</p> <p>अवधि / परिच्छेद / ओधि /</p> <p>眇</p> <p>zhěn</p> <p>ओधि / अवधि / परियन्त / परिच्छेद /</p> <p>疆</p> <p>jiāng</p> <p>ओधि / परियन्त / परिच्छेद / अवधि /</p> <p>疆界</p> <p>jiāng jiè</p> <p>ओधि / परिच्छेद / अवधि / परियन्त /</p> <p>边际</p> <p>biān jì</p> <p>अवधि / परियन्त / परिमाण / परिच्छेद / ओधि /</p> <p>邊界</p> <p>biān jiè</p> <p>अवधि / ओधि / परिच्छेद / परियन्त /</p> <p>限</p> <p>xiàn</p> <p>परियन्त / ओधि / परिमाण /</p> <p>限制</p> <p>xiàn zhì</p> <p>परिच्छेद / परिमाण / अवधि / ओधि / नियम / परियन्त /</p> <p>限定</p> <p>xiàn dìng</p> <p>ओधि / नियम / अवधि / परियन्त / परिच्छेद / परिमाण /</p> <p>限度</p> <p>xiàn dù</p> <p>नियम / परिच्छेद / परिमाण / ओधि / अवधि / परियन्त /</p>
एसना	एसमान	एसी	एसी	ओघ
esanā	esamāna	esī	esī	ogha
<p>尋求</p> <p>xún qiú</p> <p>परियेसना / गवेसन / अन्वेसना / एसना / मग्गन /</p> <p>渴望</p> <p>kě wàng</p> <p>कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकङ्खन / जालिनी / अपेक्खन / आसा / एजा / इच्छा / तण्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्द / अभिरुचि / अभिकङ्खित / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /</p>	<p>追求</p> <p>zhuī qiú</p> <p>एसन्त / एसमान / आसेवना /</p>	<p>एसी</p> <p>esī</p> <p>搜索者</p> <p>sōu suǒ zhě</p> <p>एसी / अन्वेसक /</p>	<p>ओक</p> <p>oka</p> <p>下水</p> <p>xià shuǐ</p> <p>तोय / ओक / नीर / अम्बु / जल / अण्ण / दक / उदक /</p> <p>住所</p> <p>zhù suǒ</p> <p>आसय / उपस्सय / निवास / निकेत / आवसथ / ओक / निकेतन / निलय / आलय / निवेस /</p> <p>水</p> <p>shuǐ</p> <p>तोय / पान / अण्ण / जल / उदक / दक / अम्बु / नीर / ओक /</p> <p>水中</p> <p>shuǐ zhōng</p> <p>ओक / जल / अण्ण / उदक / नीर / तोय / दक / अम्बु /</p> <p>水源</p> <p>shuǐ yuán</p> <p>तोय / दक / नीर / पभव / अम्बु / निदान / उदक / ओक / जल / अण्ण /</p> <p>缺水</p> <p>quē shuǐ</p> <p>नीर / जल / तोय / अण्ण / ओक / दक / अम्बु / उदक /</p>	<p>ओघ</p> <p>dà shuǐ</p> <p>水災</p> <p>shuǐ zāi</p> <p>洩</p> <p>jiàng</p> <p>洪</p> <p>hóng</p> <p>洪水</p> <p>hóng shuǐ</p> <p>流</p> <p>liú</p> <p>ओघ / गङ्गा / अस्सव /</p> <p>滿流</p> <p>yǒng liú</p> <p>淹</p> <p>yān</p> <p>ओचरक</p> <p>ocaraka</p> <p>通知者</p> <p>tōng zhī zhě</p> <p>ओचिनन</p> <p>ocinana</p> <p>聚集</p> <p>jù jí</p> <p>काय / ओचिनन / उपसंहरण /</p>
ओक्कन्ति	ओक्कन्ति	ओक्कन्ति	ओक्कन्ति	ओक्कन्ति
okkanti	okkanti	okkanti	okkanti	okkanti
<p>形成</p> <p>xíng chéng</p> <p>ओक्कन्ति / खन्ध /</p>				

ओनोजन	ओपान	ओमसना	ओरक	ओरुहन
onojana	opāna	omasanā	oraka	oruhana
分发	井	侮	低	降落
fēn fā	jǐng	wǔ	dī	jiàng luò
分布状态	उदपान / ओपान / कूप / 以至	ओमसना / उपवाद / घट्टन / आसज्जन / अक्कोस / तिरोक्कार /	नीच / ओरक / निकिट्टु / अधम / छव / अवच / निहीन / निन्नता /	ओरुहन / ओतार /
fēn bù zhuàng tài	yǐ zhì	侮辱	低下	ओरिम
分發	उदपान / कूप / ओपान /	wǔ rǔ	dī xià	orima
fēn fā	嘛	घट्टन / उपवाद / आसज्जन / तिरोक्कार / ओमसना / अक्कोस /	ओरक / अधम / निकिट्टु / अवच / निहीन / नीच / छव /	最低的
分配	ma	汚辱	低沉	zuì dī de
fēn pèi	कूप / उदपान / ओपान /	wū rǔ	dī chén	ओरिम / पच्छिम /
ओपम्म	嘱	ओमसना / आसज्जन / दूसन / अक्कोस / तिरोक्कार / घट्टन / उपवाद /	छव / नीच / निकिट्टु / ओरक / अवच / अधम / निहीन /	ओरोपान
opamma	zhǔ	責備	低的	oropana
比喻	ओपान / कूप / उदपान /	zé bèi	dī de	放低
bǐ yù	好	अपवाद / निग्गण्हण / अतिवाक्य / गरहन / दोस / उपक्कोस / उपवाद / अवण्ण / ओमसना / अक्कोस / निग्गह / अनुवाद /	dī de	fàng dī
比方	hǎo	辱	निन्न / अधम / निकिट्टु / ओरक / नीच / निहीन / अवच / छव /	ओलम्ब
bǐ fāng	कूप / ओपान / उदपान /	rǔ	低級	olamba
निदस्सन / ओपम्म / उदाहरण /	hǎo le	तिरोक्कार / उपवाद / ओमसना / अयस / घट्टन / अक्कोस / आसज्जन /	dī jí	供養
比較	उदपान / ओपान / कूप /	ओरं	अधम / अवच / छव / निहीन / नीच / ओरक / निकिट्टु /	gōng yǎng
bǐ jiào	好啊	oram	低下	उपकरण / ओलम्ब / पग्गह / ओलम्बक / अपस्सय / निस्सय / अवस्सय / पतिट्टा / आलम्ब / आधार / पग्गह / उपत्थम्भ / उपनिस्सय / उपकार / पतिट्टान / आलम्बन / दीप /
निदस्सन / ओपम्म / उपमा /	hǎo a	下	dī luò	撐
直喻	कूप / ओपान / उदपान /	xià	छव / नीच / निकिट्टु / ओरक / अधम / अवच / निहीन /	chēng
zhí yù	安好	अनन्तर / अन्तरिक / ओरं / ओरेन /	अधम / अवच / छव / निहीन / नीच / ओरक / निकिट्टु /	आलम्ब / पतिट्टा / निस्सय / दीप / ओलम्बक / उपनिस्सय / पग्गह / आधार / उपकरण / अवस्सय / आलम्बन / ओलम्ब / पतिट्टान / उपत्थम्भ / पग्गह / अपस्सय / उपकार /
उपमा / ओपम्म /	ān hǎo	下面	bēi	撐腰
ओपात	ओपान / उदपान / कूप /	xià miàn	अवच / निकिट्टु / निहीन / छव / ओरक / नीच / अधम /	chēng yāo
opāta	小康	ओरं / ओरेन /	卑下	पग्गह / निस्सय / उपकार / पग्गह / आलम्ब / उपनिस्सय / आलम्बन / पतिट्टान / उपकरण / अवस्सय / अपस्सय / आधार / पतिट्टा / उपत्थम्भ / ओलम्ब / दीप / ओलम्बक /
陷阱	xiǎo kāng	之下	bēi xià	撐
xiàn jǐng	उदपान / ओपान / कूप /	zhī xià	नीच / छव / निहीन / अवच / ओरक / निकिट्टु / अधम /	chēng
ओपात / बाधन / पास /	很好	ओरेन / ओरं /	鄙	आलम्बन / उपत्थम्भ / अपस्सय / आधार / ओलम्बक / ओलम्ब / पग्गह / उपनिस्सय / पग्गह / अवस्सय / आलम्ब / उपकरण / दीप / पतिट्टान / उपकार / पतिट्टा / निस्सय /
ओभासन	hěn hǎo	在下	bǐ	支持
obhāsana	कूप / उदपान / ओपान /	zài xià	नीच / अवच / छव / निहीन / ओरक / निकिट्टु / अधम /	zhī chí
光亮的	水井	ओरं / ओरेन /	隳	पग्गह / आलम्ब / उपत्थम्भ / पतिट्टा / उपकार / उपकरण / पग्गह / पतिट्टान / अवस्सय / आलम्बन / निस्सय / दीप / उपनिस्सय / ओलम्ब / ओलम्बक / आधार / अपस्सय /
guāng liàng de	shuǐ jǐng	在 下	xí	支援
भस्सर / भासुर / ओभासन /	कूप / उदपान / ओपान /	zài xià miàn	नीच / अधम / निहीन / अवच / निकिट्टु / छव / ओरक /	zhī yuán
ओम	泉	ओरं / ओरेन /	ओरेन	उपकार / अपस्सय / पतिट्टा / पग्गह / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पग्गह / अनुत्ता / पतिट्टान / उपनिस्सय / अवस्सय / ओलम्ब / आलम्ब / निस्सय / आलम्बन / आधार / उपकरण /
oma	quán	在 下面	orena	支撐
劣等的	कूप / उदपान / ओपान / उब्भिद /	xià miàn	下	zhī chēng
liè děng de	良好	ओरं / ओरेन /	xià	उपकरण / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पग्गह / अनुत्ता / पतिट्टान / उपनिस्सय / अवस्सय / ओलम्ब / आलम्ब / निस्सय / आलम्बन / आधार / उपकरण /
ओम / ओमक / दुइल्ल /	liáng hǎo	ओरं / ओरेन /	अनन्तर / अन्तरिक / ओरं / ओरेन /	zhī chēng
ओमक	उदपान / कूप / ओपान /	ओरं / ओरेन /	下	उपकरण / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पतिट्टान / उपनिस्सय /
omaka	ओभासन	ओरं / ओरेन /	xià miàn	ओरस
劣等的	obhāsana	ओरं / ओरेन /	ओरं / ओरेन /	orasa
liè děng de	光亮的	ओरं / ओरेन /	अनन्तर / अन्तरिक / ओरं / ओरेन /	合法的
ओम / ओमक / दुइल्ल /	guāng liàng de	ओरं / ओरेन /	下	hé fǎ de
	भस्सर / भासुर / ओभासन /	ओरं / ओरेन /	下面	
	ओम	ओरं / ओरेन /	xià miàn	
	oma	ओरं / ओरेन /	ओरं / ओरेन /	
	劣等的	ओरं / ओरेन /	अनन्तर / अन्तरिक / ओरं / ओरेन /	
	liè děng de	ओरं / ओरेन /	下	
	ओम / ओमक / दुइल्ल /	ओरं / ओरेन /	xià miàn	
	ओमक	ओरं / ओरेन /	ओरं / ओरेन /	
	omaka	ओरं / ओरेन /	अनन्तर / अन्तरिक / ओरं / ओरेन /	
	劣等的	ओरं / ओरेन /	下	
	liè děng de	ओरं / ओरेन /	xià miàn	
	ओम / ओमक / दुइल्ल /	ओरं / ओरेन /	ओरं / ओरेन /	

ओलम्बक
olambaka
供養
gōng yǎng
उपकरण / ओलम्ब / पग्गह / ओलम्बक / अपस्सय / निस्सय / अवस्सय / पतिट्ठा / आलम्ब / आधार / पग्गाह / उपत्थम्भ / उपनिस्सय / उपकार / पतिट्ठान / आलम्बन / दीप /
撐
chēng
आलम्ब / पतिट्ठा / निस्सय / दीप / ओलम्बक / उपनिस्सय / पग्गह / आधार / उपकरण / अवस्सय / आलम्बन / ओलम्ब / पतिट्ठान / उपत्थम्भ / पग्गाह / अपस्सय / उपकार /
撐腰
chēng yāo
पग्गह / निस्सय / उपकार / पग्गाह / आलम्ब / उपनिस्सय / आलम्बन / पतिट्ठान / उपकरण / अवस्सय / अपस्सय / आधार / पतिट्ठा / उपत्थम्भ / ओलम्ब / दीप / ओलम्बक /
撐
chēng
आलम्बन / उपत्थम्भ / अपस्सय / आधार / ओलम्बक / ओलम्ब / पग्गाह / उपनिस्सय / पग्गह / अवस्सय / आलम्ब / उपकरण / दीप / पतिट्ठान / उपकार / पतिट्ठा / निस्सय /
支持
zhī chí
पग्गह / आलम्ब / उपत्थम्भ / पतिट्ठा / उपकार / उपकरण / पग्गाह / पतिट्ठान / अवस्सय / आलम्बन / निस्सय / दीप / उपनिस्सय / ओलम्ब / ओलम्बक / आधार / अपस्सय /
支援
zhī yuán
उपकार / अपस्सय / पतिट्ठा / पग्गह / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पग्गाह / अनुज्जा / पतिट्ठान / उपनिस्सय / अवस्सय / ओलम्ब / आलम्ब / निस्सय / आलम्बन / आधार / उपकरण /
支撐
zhī chēng
उपकरण / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पतिट्ठान / उपनिस्सय / अपस्सय / पग्गाह / आलम्ब / पग्गह / आधार / आलम्बन / पतिट्ठा / ओलम्ब / निस्सय / अवस्सय / उपकार /

ओलम्बन
olambana
帛
diào
ओलिगल्ल
oligalla
污水坑
wū shuǐ kēng
ओलिगल्ल / चन्दनिका /
ओलीयना
olīyanā
醉心
zuì xīn

ओळारिक
olārika
充足的
chōng zú de
粗
cū
कठिन / गम्म / खर / कक्कस / घन / खळ / कक्खळ / बहल / गहन / ओळारिक / थूल / निट्ठुर /
粗劣
cū liè
ओळारिक / कक्कस / गम्म /
粗糙
cū cāo
ओळारिक / गम्म / कक्कस / थूल /
粗糙的
cū cāo de
कठिन / थूल / निट्ठुर / ओळारिक / दारुण / केक्कस / खळ / गम्म / कक्खळ / खर /
糲
lì
ओळारिक / गम्म / कक्कस /
ओवट्टिका
ovaṭṭika
小袋
xiǎo dài

ओवाद
ovāda
劝告
quàn gào
ओवाद / उपदेस / उपदिसन / अनुसिट्ठि /
咨詢
zī xún
उपदिसन / अनुसिट्ठि / ओवाद / उपदेस /
忠告
zhōng gào
उपदिसन / उपदेस / अनुसिट्ठि / ओवाद /
指令
zhǐ lìng
उपदेस / अज्झापन / ओवाद / चक्क /
指示
zhǐ shì
अज्झापन / ओवाद / उपदेस / उद्देस /

ओसध
osadha
藥
yào
भेसज्ज / अगद / ओसध /
ओसरण
osaraṇa
會議
huì yì

ओस्सजन
ossajana
解雇
jiě gù
釋放
shì fàng
परिमुच्चन / मुच्चन / ओस्सजन / परिमुत्ति / निब्बान / नित्त्यान /
告終
gào zhōng
अपवग्ग / कोण / अन्त / ओसान / परियोसान / अग्ग / निट्ठा / परिनिट्ठान / अवसान / परियन्त / कोटि /
完結
wán jié
निट्ठा / कोटि / ओसान / परियन्त / अन्त / अपवग्ग / परियोसान / अवसान / परिनिट्ठान / कोण / अग्ग /
完結
wán jié
परियन्त / परिनिट्ठान / ओसान / अवसान / अन्त / निट्ठा / अग्ग / अपवग्ग / कोण / परियोसान / कोटि /

定局
dìng jú
ओसान / निगमन / निट्ठा / परियोसान /
底
dǐ
ओसान / अवसान / परियन्त / पद / कोण / परियोसान / निट्ठा / परिनिट्ठान / पाद / अग्ग / अपवग्ग / अन्त / कोटि /
月底
yuè dǐ
परियोसान / अग्ग / अन्त / परियन्त / अवसान / ओसान / कोण / निट्ठा / कोटि / परिनिट्ठान / अपवग्ग /
月末
yuè mò
कोण / अवसान / ओसान / परिनिट्ठान / निट्ठा / परियन्त / अन्त / अग्ग / कोटि / अपवग्ग / परियोसान /
末
mò
परिनिट्ठान / अपवग्ग / अग्ग / परियोसान / ओसान / निट्ठा / अवसान / अन्त / कोटि / परियन्त / कोण /
末尾
mò wěi
अन्त / परियोसान / कोटि / परियन्त / ओसान / निट्ठा / अपवग्ग / अग्ग / अवसान / कोण / परिनिट्ठान /
末端
mò duān
अवसान / अग्ग / परिनिट्ठान / अन्त / परियोसान / कोटि / अपवग्ग / निट्ठा / ओसान / परियन्त / कोण /

ओसान
osāna
下場
xià chǎng
कोण / परिनिट्ठान / परियन्त / अन्त / परियोसान / अग्ग / अवसान / कोटि / अपवग्ग / निट्ठा / ओसान /
停止
tíng zhǐ
ओसान / अवसान / उपरति / निरुज्झन / उपच्छेद /
告終
gào zhōng
अपवग्ग / कोण / अन्त / ओसान / परियोसान / अग्ग / निट्ठा / परिनिट्ठान / अवसान / परियन्त / कोटि /
完結
wán jié
निट्ठा / कोटि / ओसान / परियन्त / अन्त / अपवग्ग / परियोसान / अवसान / परिनिट्ठान / कोण / अग्ग /
完結
wán jié
परियन्त / परिनिट्ठान / ओसान / अवसान / अन्त / निट्ठा / अग्ग / अपवग्ग / कोण / परियोसान / कोटि /
定局
dìng jú
ओसान / निगमन / निट्ठा / परियोसान /
底
dǐ
ओसान / अवसान / परियन्त / पद / कोण / परियोसान / निट्ठा / परिनिट्ठान / पाद / अग्ग / अपवग्ग / अन्त / कोटि /
月底
yuè dǐ
परियोसान / अग्ग / अन्त / परियन्त / अवसान / ओसान / कोण / निट्ठा / कोटि / परिनिट्ठान / अपवग्ग /
月末
yuè mò
कोण / अवसान / ओसान / परिनिट्ठान / निट्ठा / परियन्त / अन्त / अग्ग / कोटि / अपवग्ग / परियोसान /
末
mò
परिनिट्ठान / अपवग्ग / अग्ग / परियोसान / ओसान / निट्ठा / अवसान / अन्त / कोटि / परियन्त / कोण /
末尾
mò wěi
अन्त / परियोसान / कोटि / परियन्त / ओसान / निट्ठा / अपवग्ग / अग्ग / अवसान / कोण / परिनिट्ठान /
末端
mò duān
अवसान / अग्ग / परिनिट्ठान / अन्त / परियोसान / कोटि / अपवग्ग / निट्ठा / ओसान / परियन्त / कोण /

止境
zhǐ jìng
कोण / अग्ग / परियोसान / अन्त / कोटि / परियन्त / ओसान / अवसान / परिनिट्ठान / अपवग्ग / निट्ठा /
盡頭
jìn tóu
कोण / अन्त / परियन्त / अग्ग / परिनिट्ठान / परियोसान / अवसान / कोटि / अपवग्ग / निट्ठा / ओसान /
端
duān
अन्त / कोण / अपवग्ग / परिनिट्ठान / कोटि / अवसान / निट्ठा / परियोसान / ओसान / परियन्त / अग्ग /
端上
duān shàng
कोण / कोटि / अवसान / परिनिट्ठान / अग्ग / ओसान / अपवग्ग / परियोसान / निट्ठा / अन्त / परियन्त /
終
zhōng
परियन्त / कोटि / अपवग्ग / परियोसान / अवसान / अग्ग / कोण / अन्त / ओसान / परिनिट्ठान / निट्ठा /
終結
zhōng jié
ओसान / खय / अन्त / परिनिट्ठान / अपवग्ग / परियोसान / अग्ग / परियन्त / अवसान / कोटि / कोण / निट्ठा /
終點
zhōng diǎn
कोण / परियोसान / ओसान / अन्त / निट्ठा / कोटि / परिनिट्ठान / अपवग्ग / अग्ग / परियन्त / अवसान /
結束
jié shù
परियोसान / अन्त / ओसान / निट्ठा / कोण / अग्ग / परियन्त / अपवग्ग / परिनिट्ठान / अवसान / निट्ठान / कोटि /
結論
jié lùn
ओसान / निगमन / परियोसान / निट्ठा /
終
zhōng
कोटि / परिनिट्ठान / अवसान / निट्ठा / अग्ग / कोण / अपवग्ग / परियन्त / ओसान / परियोसान / अन्त /
终结
zhōng jié
परियोसान / निट्ठा / परिनिट्ठान / अपवग्ग / अवसान / कोण / ओसान / अन्त / कोटि / परियन्त / अग्ग /
結束
jié shù
कोटि / ओसान / अवसान / अग्ग / परियोसान / अपवग्ग / परियन्त / अन्त / निट्ठा / कोण / परिनिट्ठान /
遑
qiú
अवसान / परियन्त / परिनिट्ठान / ओसान / कोण / अपवग्ग / अन्त / निट्ठा / परियोसान / अग्ग / कोटि /

ककु	कक्कस	कक्खळ	कच्छ	कुज
kaku	kakkasa	kakkhaḷa	kaccha	kuja
結	尪	尪	脞	木
jié	cāng	cāng	gē	mù
अच्छ / कक् / इस्स /	थूल / कक्कस / कठिन / खळ /	थूल / कक्कस / कठिन / खळ /	कच्छ / उपकच्छ / उपकच्छक /	कुज / तरु / दारु / पादप / दुम /
कुक्कु	कक्खळ / खर / निडुर /	कक्खळ / खर / निडुर /	腋下	树
kukku	粗	使勁	yì xià	shù
腕尺	cū	shǐ jìn	कच्छ / कच्छ / उपकच्छक /	तरु / दारु / पादप / दुम / कुज /
wàn chǐ	कठिन / गम्म / खर / कक्कस /	थद्द / निडुर / कठिन / कक्खळ /	उपकच्छ / उपकच्छ / उपकच्छक /	樹
कुक्कुच्च	घन / खळ / कक्खळ / बहल /	खर /	腋下	shù
kukkucca	गहन / ओळारिक / थूल / निडुर /	硬	yè xià	तरु / कुज / पादप / दुम /
忧	粗劣	yìng	कच्छ / कच्छ / उपकच्छक /	कञ्चुक
yōu	cū liè	थिर / कक्खळ / निडुर / कठिन /	उपकच्छ / उपकच्छ / उपकच्छक /	kañcuka
患	ओळारिक / कक्कस / गम्म /	खर / असिथिल / देळ्ह / उपत्थद्द	腋下	上衣
huàn	粗糙	/ थद्द /	yè wō	shàng yī
愁	cū cāo	硬殼	उपकच्छक / उपकच्छ / कच्छ /	wài tào
chóu	ओळारिक / गम्म / कक्कस / थूल /	yìng ké	腋下	夾克
憂	粗糙的	थद्द / कठिन / निडुर / कक्खळ /	yì wō	jiǎ kè
yōu	cū cāo de	खर /	उपकच्छक / उपकच्छ / कच्छ /	夾克
कुक्कुच्च / दोमनस्स /	कठिन / थूल / निडुर / ओळारिक /	yìng de	कच्छु	jiǎ kè
憂慮	दारुण / कक्कस / खळ / गम्म /	उपत्थद्द / निडुर / असिथिल / खर	kacchu	夾克
yōu lù	कक्खळ / खर /	/ कक्खळ / थद्द / कठिन /	痒	jiǎ kè
懊悔	糙	粗	yǎng	襦
ào huǐ	cāo	cū	कच्छु / खज्जु /	rú
उपताप / कुक्कुच्च / अनुताप /	खर / निडुर / कक्कस / कक्खळ /	कठिन / गम्म / खर / कक्कस /	痒痒	कञ्चन
担心	कठिन / थूल / खळ /	घन / खळ / कक्खळ / बहल /	yǎng yǎng	kañcana
dān xīn	糲	गहन / ओळारिक / थूल / निडुर /	कच्छु / खज्जु /	純金
操心	糲	粗糙的	癢	chún jīn
cāo xīn	li	cū cāo de	yǎng	जातरूप / तपनीय / चामीकर /
擔心	ओळारिक / गम्म / कक्कस /	कठिन / थूल / निडुर / ओळारिक /	कच्छु / खज्जु /	कनक / कम्बु / कञ्चन /
dān xīn	苛刻	दारुण / कक्कस / खळ / गम्म /	कच्छप	金
擔憂	kē kè	कक्खळ / खर /	kacchapa	jīn
dān yōu	草	糙	海龟	चामीकर / कञ्चन / जातरूप /
कक्कट	cǎo	cǎo	hǎi guī	कम्बु / तपनीय / कनक /
kakkaṭa	पलाल / खर / कठिन / कक्खळ /	खर / निडुर / कक्कस / कक्खळ /	鳖	金子
螃蟹	थूल / तिण / खळ / निडुर /	कठिन / थूल / खळ /	biē	jīn zi
páng xiè	कक्कस /	कठिन / थूल / खळ /	龜	कम्बु / कञ्चन / चामीकर / कनक /
कुलीर / कक्कट /	草	कठिन / थूल / खळ / निडुर /	guī	/ तपनीय / जातरूप /
蟹	cǎo	कक्कस /	कुम्म / कच्छप /	金字
xiè	पलाल / खर / कठिन / कक्खळ /	खळ / कक्कस / कक्खळ / दारुण /	龟	jīn zì
कुक्कुर	थूल / तिण / खळ / निडुर /	草	guī	जातरूप / चामीकर / तपनीय /
kukkura	कक्कस /	cǎo	कुच्चि	कनक / कञ्चन / कम्बु /
尾隨	辛	पलाल / खर / कठिन / कक्खळ /	kucchi	金幣
wěi suí	xīn	थूल / तिण / खळ / निडुर /	内部	jīn bì
犬	辛苦	कक्कस /	nèi bù	जातरूप / तपनीय / चामीकर /
quǎn	xīn kǔ	खर /	उदर / कुच्चि / अब्भन्तर /	कम्बु / कञ्चन / कनक /
犬类	थद्द / निडुर / कठिन / कक्खळ /	कठिन /	कचवर	金心
quǎn lèi	खर /	辛苦	kacavara	jīn xīn
狗	कड्कण	xīn kǔ	垃圾	जातरूप / चामीकर / तपनीय /
gǒu	kañkaṇa	थद्द / निडुर / कठिन / कक्खळ /	lā jī	कम्बु / कञ्चन / कनक /
狗一樣	手鐲	खर /	कसम्बु / कचवर / उक्ताप /	金色
gǒu yī yàng	shǒu zhuó	कटक / कड्कण /	废物	jīn sè
狗肉	कटक / कड्कण /	手鐲	fèi wù	जातरूप / कञ्चन / कम्बु /
gǒu ròu	鐲	shǒu zhuó	कचवर / कसम्बु / उक्ताप /	कञ्चन / कनक / कम्बु / जातरूप /
赛狗	zhuó	कटक / कड्कण /	殘余物	黃金
sài gǒu	कटक / कड्कण /	鐲	cán yú wù	黃金
		zhuó		huáng jīn
		कटक / कड्कण /		कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु /
				/ जातरूप / तपनीय /

कुञ्चिका	कञ्जा	कूट	कटक	कड्ड
kuñcikā	kaññiā	kūṭa	kaṭaka	kaṭṭha
关键	丫頭	上端	手鐮	木料
guān jiàn	yā tóu	shàng duān	shǒu zhuó	mù liào
अपापुरण / अवापुरण / कुञ्चिका / ताळ /	दारिका / कञ्जा / कुमारी / कुमारिका / बाला /	कूट / अगग / पिड्डि /	कडुकण / कटक /	दारु / कड्ड / दब्ब /
要害	女孩	𠄎	手鐮	木材
yào hài	nǚ hái	gāng	shǒu zhuó	mù cái
अवापुरण / अपापुरण / ताळ / कुञ्चिका /	बाला / कञ्जा / कञ्जा / बाला / कुमारी / दारिका / दारिका / कुमारी / कुमारिका / कुमारिका /	坎	कटक / कडुकण /	कड्ड / दारु / दब्ब /
鍵	女孩	kǎn	鐮	材
jiàn	nǚ hái	尖峰	zhuó	cái
ताळ / अवापुरण / अपापुरण / कुञ्चिका /	nǚ hái	jiān fēng	कटक / कडुकण /	आमिस / दारु / कड्ड / दब्ब /
鎖上	बाला / कञ्जा / कञ्जा / बाला / कुमारी / दारिका / दारिका / कुमारी / कुमारिका / कुमारिका /	अगग / पिड्डि / कूट /	कुटुक	森林
suǒ shàng	女孩子	山脊	kaṭuka	sēn lín
कुञ्चिका / अपापुरण / अवापुरण / ताळ /	nǚ hái zi	shān jí	尖銳	कड्ड / अरञ्ज / दब्ब / दारु /
鑰	कञ्जा / कुमारी / बाला / दारिका / कुमारिका /	कूट / कूट /	jiān ruì	कुड्ड
yào	女郎	山脊	तिण्ह / खर / कुटुक / तिप्प /	kuṭṭha
अवापुरण / ताळ / कुञ्चिका / अपापुरण /	nǚ láng	shān jǐ	尖锐	麻瘋病
鑰匙	दारिका / कुमारिका / कञ्जा / कुमारी / बाला /	कूट / कूट /	jiān ruì	má fēng bìng
yào shi	姑娘	岡	तिप्प / कुटुक / तिण्ह / खर /	कुटुम्ब
ताळ / अपापुरण / अवापुरण / कुञ्चिका /	gū niang	gāng	尖锐的	kuṭumba
钥	बाला / दारिका / कुमारिका / बाला / कुमारी / दारिका / कञ्जा / कुमारिका / कञ्जा / कुमारी /	峙	jiān ruì de	一族
yào	姑娘	zhì	तिप्प / खर / तिण्ह / कुटुक /	yī zú
अपापुरण / कुञ्चिका / ताळ / अवापुरण /	gū niáng	峰	急劇	कुल / कुटुम्ब /
钥匙	बाला / दारिका / कुमारिका / बाला / कुमारी / दारिका / कञ्जा / कुमारिका / कञ्जा / कुमारी /	fēng	ji jù	世家
yào shi	小姑娘	欺騙	कुटुक / तिण्ह / तिप्प / खर /	shì jiā
अपापुरण / ताळ / अपापुरण / ताळ / अवापुरण / कुञ्चिका / अवापुरण / कुञ्चिका /	xiǎo gū niang	qī piàn	激烈	कुटुम्ब / कुल /
钥匙	बाला / कुमारिका / कुमारिका / कुमारी / कुमारी / बाला / कञ्जा / कञ्जा / दारिका / दारिका /	कोहञ्ज / निकति / कितव / केराटिय / कुहना / कुहक / कुह / उपलापन / कूट / नेकेतिक /	jī liè	全家
yào chí	小姑娘	突起	xī lì	quán jiā
अपापुरण / ताळ / अपापुरण / ताळ / अवापुरण / कुञ्चिका / अवापुरण / कुञ्चिका /	xiǎo gū niáng	tū qǐ	कुटुक / तिप्प / खर / तिण्ह /	कुल / कुटुम्ब /
鍵	बाला / कुमारिका / कुमारिका / कुमारी / कुमारी / बाला / कञ्जा / कञ्जा / दारिका / दारिका /	脊	痛苦的	quán jiā rén
jiàn	小姑娘	jí	tòng kǔ de	कुल / कुटुम्ब /
अपापुरण / ताळ / अवापुरण / कुञ्चिका /	xiǎo gū niáng	कूट / कूट /	खर / कुटुक / किच्छ /	大家庭
關鍵	少女	脊	銳	dà jiā tíng
guān jiàn	shǎo nǚ	jǐ	ruì	कुटुम्ब / कुल /
अपापुरण / ताळ / कुञ्चिका / अवापुरण /	दारिका / कञ्जा / कुमारी / कुमारिका / कुमारिका / बाला / कुमारी / बाला / दारिका / कञ्जा / कुमारी / बाला / दारिका / कञ्जा /	鋒利	कुटुक / तिण्ह / खर / तिप्प /	宗
कुञ्ज	少女	fēng lì	kuṭuk / tiṇṇh /	zōng
kuñja	shǎo nǚ	kuṭuk / tiṇṇh /	銳	कुल / कुटुम्ब /
峡谷	दारिका / कञ्जा / कुमारी / कुमारिका / कुमारिका / बाला / कुमारी / बाला / दारिका / कञ्जा / कुमारी / बाला / दारिका / कञ्जा /	kuṭuk / tiṇṇh /	ruì	家
xiá gǔ	darika / kañña / kumārī / kumārīkā / bāla / kumārī / bāla / darika / kañña / kumārī / bāla / darika / kañña /	kuṭ / asacch / abhūṭ / atacch / alika /	कुटुक / तिप्प / तिण्ह / खर /	家人
कुञ्जर	darika / kañña / kumārī / kumārīkā / bāla / kumārī / bāla / darika / kañña /	頂峰	kuṭuk / tiṇṇh /	jiā rén
kuñjara	shǎo nǚ	頂端	कटक / तिप्प / तिण्ह / खर /	कुटुम्ब / कुल /
大象	दारिका / कञ्जा / कुमारी / कुमारिका / कुमारिका / बाला / कुमारी / बाला / दारिका / कञ्जा / कुमारी / बाला / दारिका / कञ्जा /	dǐng duān	kaṭacchu	家庭
dà xiàng	darika / kañña / kumārī / kumārīkā / bāla / kumārī / bāla / darika / kañña /	अगग / कूट / पिड्डि / अन्त /	勺	jiā tíng
कुञ्जर / कणेरु / इभ / नाग / करी / गज / दिवप /	darika / kañña / kumārī / kumārīkā / bāla / kumārī / bāla / darika / kañña /	頂点	sháo	निकेत / कुल / निलय / निकेतन / कुटुम्ब / आवास / उपस्सय /
象	darika / kañña / kumārī / kumārīkā / bāla / kumārī / bāla / darika / kañña /	dǐng diǎn	कटक / दब्बी /	家族
xiàng	darika / kañña / kumārī / kumārīkā / bāla / kumārī / bāla / darika / kañña /	अगग / कूट /	勺子	jiā zú
दिवप / करी / इभ / नाग / इव / कणेरु / कुञ्जर / गज /	darika / kañña / kumārī / kumārīkā / bāla / kumārī / bāla / darika / kañña /	顶端	sháo zi	कुटुम्ब / कुल /
	darika / kañña / kumārī / kumārīkā / bāla / kumārī / bāla / darika / kañña /	dǐng duān	कटक / दब्बी /	家眷
	darika / kañña / kumārī / kumārīkā / bāla / kumārī / bāla / darika / kañña /	कूट / पिड्डि / अगग /	匙	jiā zú
	darika / kañña / kumārī / kumārīkā / bāla / kumārī / bāla / darika / kañña /	高峰	shi	कुटुम्ब / कुल /
	darika / kañña / kumārī / kumārīkā / bāla / kumārī / bāla / darika / kañña /	gāo fēng	दब्बी / कटक / कटक / दब्बी /	家眷
	darika / kañña / kumārī / kumārīkā / bāla / kumārī / bāla / darika / kañña /	निय्यूह / थूपिका / कूट /	匙	jiā juàn
	darika / kañña / kumārī / kumārīkā / bāla / kumārī / bāla / darika / kañña /		chí	कुटुम्ब / कुल /
	darika / kañña / kumārī / kumārīkā / bāla / kumārī / bāla / darika / kañña /		दब्बी / कटक / कटक / दब्बी /	属
	darika / kañña / kumārī / kumārīkā / bāla / kumārī / bāla / darika / kañña /		汤匙	shǔ
	darika / kañña / kumārī / kumārīkā / bāla / kumārī / bāla / darika / kañña /		tāng chí	कुटुम्ब / कुल /
	darika / kañña / kumārī / kumārīkā / bāla / kumārī / bāla / darika / kañña /		कटक / दब्बी /	族
	darika / kañña / kumārī / kumārīkā / bāla / kumārī / bāla / darika / kañña /			zú
	darika / kañña / kumārī / kumārīkā / bāla / kumārī / bāla / darika / kañña /			जातिक / गोल्त / कुल / कुटुम्ब /

कटाह	कठिन	कुड्ड	कण्ठ	कण्ण
kaṭāha	kaṭhina	kuḍḍa	kaṅṭha	kaṅṅa
容器	瓮	围墙	吭	外耳
róng qì	cāng	wéi qiáng	háng	wài ěr
पुट / कटाह / आधान / पेळा / उपधारण / पुटक / आधार /	थूल / कक्कस / कठिन / खळ / कक्खळ / खर / निडुर /	भित्ति / कुड्ड /	कण्ठ / कण्ठ / गल / गल /	बु
कटि	使勁	垣	吭	léng
kaṭi	shǐ jìn	yuán	kēng	कोण / कण्ण /
腰	थद / निडुर / कठिन / कक्खळ / खर /	कुड्ड / भित्ति /	कण्ठ / कण्ठ / गल / गल /	耳
yāo	僵	牆	咙	ěr
मज्झ / कटि /	jiāng	qiáng	lóng	耳朵
腰部	असिथिल / उपत्यद / थद / कठिन /	भित्ति / कुड्ड /	कण्ठ / गल /	ěr duǒ
yāo bù	僵硬	牆壁	咽	कण्ण / कण्ण /
मज्झ / जघन / कटि /	jiāng yìng	qiáng bì	yān	耳朵
臀部	कठिन / थद / असिथिल / उपत्यद /	कुड्ड / भित्ति /	कण्ठ / कण्ठ / गल / गल /	ěr duo
tún bù	僵硬的	壁	咽	कण्ण / कण्ण /
उच्छङ्ग / पावळ / कटि / नितम्ब / जघन / आनिसद /	jiāng yìng de	bì	yàn	街角
कुटि	生硬	भित्ति / कुड्ड /	कण्ठ / कण्ठ / गल / गल /	jiē jiǎo
kuṭi	shēng yìng	牆	咽喉	कोण / कण्ण /
小屋	असिथिल / उपत्यद / थद / कठिन /	qiáng	yàn hóu	角
xiǎo wū	硬	कुड्ड / भित्ति /	गल / कण्ठ / कण्ठ / गल /	jiǎo
कुटिका	yìng	牆上	咽喉	角度
kuṭikā	थिर / कक्खळ / निडुर / कठिन / खर / असिथिल / देह / उपत्यद / थद /	qiáng shàng	yān hóu	jiǎo dù
小屋	硬殼	भित्ति / कुड्ड /	喉	角落
xiǎo wū	yìng ké	牆壁	hóu	jiǎo luò
कुटिका / कृटि /	थद / कठिन / निडुर / कक्खळ / खर /	qiáng bì	गल / कण्ठ /	कण्ण / कोण /
कुटिल	硬的	भित्ति / कुड्ड /	咙	转角
kuṭila	yìng de	कड्डन	hóu lóng	zhuǎn jiǎo
一心	उपत्यद / निडुर / असिथिल / खर / कक्खळ / थद / कठिन /	kaḍḍhana	कण्ठ / गल /	कण्ण / कोण /
yī xīn	粗	吸	喉嚨	颞
不誠實	cū	xī	hóu lóng	zōu
bù chéng shí	कठिन / गम्म / खर / कक्कस / घन / खळ / कक्खळ / बहल / गहन / ओळारिक / थूल / निडुर /	拉	गल / कण्ठ /	कण्ण / कोण /
जिंह / कुटिल /	粗糙的	lā	喉头	隅
委	cū cāo de		hóu tóu	yú
wěi	कठिन / थूल / निडुर / ओळारिक / दारुण / कक्कस / खळ / गम्म / कक्खळ / खर /		गल / कण्ठ /	कोण / कण्ण /
屈	糙		噪	कण्णिका
qū	cāo		sǎng	kaṅṅikā
屈曲	खर / निडुर / कक्कस / कक्खळ / कठिन / थूल / खळ /		कण्ठ / गल /	捆
qū qū	艱苦		嗓子	kǔn
弯曲	jiān kǔ		sǎng zi	कलाप / कण्णिका /
wān qū	कठिन / कक्खळ / थद / निडुर / खर /		कण्ठ / गल /	束
歪	草		脖	shù
wāi	cǎo		bó	कलाप / कण्णिका / उद्दान /
	खर / निडुर / कक्कस / कक्खळ / कठिन / थूल / खळ /		गीवा / कण्ठ / गल /	कणेरु
	艱苦		脖子	kaṅeru
	jiān kǔ		bó zi	大象
	कठिन / कक्खळ / थद / निडुर / खर /		कण्ठ / गल / गीवा /	dà xiàng
	草		脰	कुञ्जर / कणेरु / इम / नाग / करी / गज / दिवप /
	cǎo		dòu	象
	पलाल / खर / कठिन / कक्खळ / थूल / तिण / खळ / निडुर / कक्कस /		鬚	xiàng
	辛		jǐng	दिवप / करी / इम / नाग / इव / कणेरु / कुञ्जर / गज /
	xīn		鬚部	
	निडुर / खर / थद / कक्खळ / कठिन /		jǐng bù	
	辛苦		गीवा / गल / कण्ठ /	
	xīn kǔ		颈	
	थद / निडुर / कठिन / कक्खळ / खर /		jǐng	
			कण्ठ / गीवा / गल /	
			颈部	
			jǐng bù	
			कण्ठ / गल / गीवा /	

कण्ह	陰暗	केतु	कत्तरि	कतम
kanha	yīn àn	ketu	kattari	katama
烏	काळ / कालुसिय / कण्ह / तिमिस / तिमिर /	帜	剪	什么
wū	黎	zhì	jiǎn	shén me
काळ / तिमिर / तिमिस / कण्ह /	lí	धज / पताका / केतु /	कत्तरिका / पिप्फलक / कत्तरि / पिप्फल /	何
冥	काळक / काळ / कण्ह /	幡	剪刀	hé
míng	黑	fān	jiǎn dāo	कतर / कतम / कस्मा /
अनुत्तान / गम्भीर / तिमिर / तिमिस / कण्ह / काळ / गांध /	hēi	पताका / केतु / धज /	पिप्फलक / कत्तरिका / कत्तरि / पिप्फल /	哪
变黑	काळ / तिमिस / अन्धकार / तिमिर / कण्ह / काळक / तम /	qí	剪子	nǎ
biàn hēi	黑乎乎	केतु / धज / पताका /	jiǎn zi	कतर / कतम /
काळ / काळक / कण्ह /	hēi hu hu	旌	कत्तरि / पिप्फलक / कत्तरिका / पिप्फल /	哪一
奸	कण्ह / काळ / तिमिर / तिमिस /	jīng	剪	nǎ yī
jiān	黑暗	धज / केतु / पताका /	jiǎn	कतम / कतर /
姦	hēi àn	旗	पिप्फलक / पिप्फल / कत्तरि / कत्तरिका /	哪一个
jiān	तिमिर / काळ / कण्ह / तिमिस / अन्धकार / तम /	qí	कत्तरिका /	nǎ yī gè
孽	黑暗的	पताका / धज / केतु /	kattarikā	कतम / कतर /
niè	hēi àn de	旗子	剪	哪位
दुरित / अकुसल / पाप / कण्ह /	तिमिस / काळ / कण्ह / तिमिर /	qí zi	jiǎn	nǎ wèi
恶	黑的	धज / केतु / पताका /	कत्तरिका / पिप्फलक / कत्तरि / पिप्फल /	कतर / कतम /
è	hēi de	旗帜	剪刀	哪個
惡	काळक / काळ / कण्ह /	qí zhì	jiǎn dāo	nǎ gè
è	黑色	केतु / धज / पताका /	पिप्फलक / कत्तरिका / कत्तरि / पिप्फल /	कतर / कतम /
पाप / कण्ह /	hēi sè	旗幟	剪子	如何
摸黑	काळक / काळ / कण्ह /	qí zhì	jiǎn zi	rú hé
mō hēi	黝	पताका / केतु / कदलि /	कत्तरि / पिप्फलक / कत्तरिका / पिप्फल /	孰
तिमिर / कण्ह / काळ / तिमिस /	yōu	कत्तु	剪	shú
晦	काळ / काळक / कण्ह /	kattu	jiǎn	कतम / कतर /
huì	黝黑	作家	कत्तरिका / पिप्फलक / कत्तरि / पिप्फल /	曷
निसा / तिमिर / काळ / तिमिस / कण्ह /	yōu hēi	zuò jiā	剪	hé
暗	तिमिर / कण्ह / काळ / तिमिस /	作者	jiǎn	那
àn	黧	zuò zhě	पिप्फलक / पिप्फल / कत्तरि / कत्तरिका /	nèi
तिमिस / तिमिर / काळ / कण्ह /	lí	著者	कत्थचि	कतम / कतर / एत / कतम / एत / कतर /
暗的	काळ / तिमिस / तिमिर / कण्ह /	zhù zhě	katthaci	那
àn de	黯	कुत्त	在某處	nà
तिमिस / अनुत्तान / तिमिर / कण्ह / काळ /	àn	kutta	zài mǒu chù	कतम / कतर / एत / कतम / एत / कतर /
暝	काळ / तिमिर / कण्ह / तिमिस /	玩弄男人	某处	कतम / कतर / एत / कतम / एत / कतर /
míng	कुणी	wán nòng nán rén	mǒu chǔ	
कण्ह / तिमिस / काळ / तिमिर /	kuṇī	कत्तबब	某處	
淄	跛子	kattabba	mǒu chù	
zī	bō zi	義務		
काळ / कण्ह / काळक /	पङ्गु / पक्ख / पङ्गुल / पीठसप्पी / कुणी /	yì wu		
烏	कत	कत्तबब / करणीय /		
wū	kata	責任		
काळ / तिमिस / तिमिर / कण्ह /	作出	zé rèn		
玄	zuò chū	कातबब / करणीय / कत्तबब / किच्च /		
xuán	पकत / कत /	责任		
काळक / कण्ह / काळ /	作成	zé rèn		
皂	zuò chéng	करणीय / किच्च / कत्तबब /		
zào	पकत / कत /			
कण्ह / काळक / काळ /	做出			
邪	zuò chū			
xié	पकत / कत /			
邪惡	做完			
xié è	zuò wán			
邪惡的	कत / पकत /			
xié è de	做成			
邪惡	zuò chéng			
xié è	कत / पकत /			
पाप / कण्ह /				

कतर	कतिपय	कथन	कुदाचन	केदार
katara	katipaya	kathana	kudācana	kedāra
何	一些	交談	有时	地
hé	yī xiē	jiāo tán	yǒu shí	dì
कतर / कतम / कस्मा /	एकच्च / एकच्चिय / कतिपय / एक /	कतिका / अल्लाप / आलाप / कथन /	कुदाचि / कुदाचनं / कुदाचन / अप्पेकदा /	पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छमा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पृथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छमा / पृथुवी / जगति / जगति /
哪	一番	कथा	有時候	地
nǎ	yī fān	kāthā	yǒu shí hòu	de
कतर / कतम /	एकच्चिय / एकच्च / कतिपय /	会话	कुदाचन / अप्पेकदा / कुदाचनं / केदाचि /	पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छमा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पृथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छमा / पृथुवी / जगति / जगति /
哪一	些	huì huà	有時	場
nǎ yī	xiē	कथा / आलाप /	yǒu shí	chǎng
कतम / कतर /	एकच्च / एकच्चिय / कतिपय /	故事	कुदाचि / अप्पेकदा / कुदाचनं / कुदाचन /	भू / ठान / ठान / भूमि / छमा / पृथुवी / जगति / जगति /
哪一个	几	gù shì	有時候	場
nǎ yī gè	jǐ	演說	yǒu shí hóu	chǎng
कतम / कतर /	几个	yǎn shuō	अप्पेकदा / कुदाचनं / कदाचि / कुदाचन /	實地
哪一個	好几	言語	有時候	shí de
nǎ yī gè	hǎo jǐ	yán yǔ	yǒu shí hou	田
कतम / कतर /	好幾	कहम	कुदाचन / कुदाचनं / अन्तरन्तरा / कदाचि / अप्पेकदा /	tián
哪位	好幾個	kaddama	कुदाचनं	tián dì
nǎ wèi	hǎo jǐ	坭	kudācanam	tián dì
कतर / कतम /	幾個	ní	有时	田野
哪個	jǐ gè	कलल / पडक / कहम / चिक्खल्ल /	yǒu shí	tián yě
nǎ gè	有些	泥	कुदाचि / कुदाचनं / कुदाचन / अप्पेकदा /	畝
कतर / कतम /	有些	ní	有時候	yǒu shí hòu
孰	yǒu xiē	उक्लाप / कलल / कहम / जल्लिका / चिक्खल्ल / कालुसिय / असुचि / पडक /	yǒu shí hòu	耕地
shú	एकच्चिय / कतिपय / एकच्च /	有人	कुदाचन / अप्पेकदा / कुदाचनं / केदाचि /	gēng dì
कतम / कतर /	有人	yǒu rén	有時	野外
那	有的	एकच्चिय / कतिपय / एकच्च /	yǒu shí	yě wài
nèi	yǒu de shì	कुदाचन / कतिपय / एकच्च /	कुदाचि / अप्पेकदा / कुदाचनं / कुदाचन /	領域
कतम / कतर / एत / कतम / एत / कतर /	有的	某	有時候	領域
那	某	mǒu	yǒu shí hóu	lǐng yù
nà	mǒu	एकच्च / एकच्चिय / कतिपय /	अप्पेकदा / कुदाचनं / कदाचि / कुदाचन /	lǐng yù
कतम / कतर / एत / कतम / एत / कतर /	某些	某些	有時候	
कुतूहल	mǒu xiē	कुतूहल / कुतूहल / उब्बेग / अनुबल /	yǒu shí hou	
kutūhala	एकच्चिय / एकच्च / कतिपय /	若干	कुदाचन / कुदाचनं / अन्तरन्तरा / कदाचि / अप्पेकदा /	
刺激	若干	ruò gàn	कदाचि	
cì jī	ruò gàn	कथङ्कथा	kadāci	
कुतूहल / कुतूहल / उब्बेग / अनुबल /	कथङ्कथा	kathamkathā	kadāci	
कतिका	कथङ्कथा	交談	有时	
katikā	kathamkathā	jiāo tán	yǒu shí	
交談	不確定	कतिका / अल्लाप / आलाप / कथन /	कुदाचि / कुदाचनं / कुदाचन / अप्पेकदा /	
jiāo tán	bù què dìng	协议	有時候	
कतिका / अल्लाप / आलाप / कथन /	疑問	xié yì	yǒu shí hòu	
协议	yí wèn	कतिका / एकत्त /	कुदाचन / अप्पेकदा / कुदाचनं / केदाचि /	
xié yì	द्वेज्झ / द्वेव्हक / आसङ्का / कथङ्कथा /	協定	有時	
कतिका / एकत्त /	疑惑	xié dìng	yǒu shí	
協定	yí huò	एकत्त / कतिका /	कुदाचि / अप्पेकदा / कुदाचनं / कुदाचन /	
xié dìng	आसङ्का / कथङ्कथा / द्वेज्झ / द्वेव्हक /	協議	有時候	
एकत्त / कतिका /	疑慮	xié yì	yǒu shí hóu	
協議	yí lù	कतिका / एकत्त /	अप्पेकदा / कुदाचनं / कदाचि / कुदाचन /	
xié yì	द्वेज्झ / आसङ्का / द्वेव्हक / कथङ्कथा /	契約	有時候	
कतिका / एकत्त /	置疑	qì yuē	yǒu shí hou	
契約	zhì yí	契約	कुदाचन / कुदाचनं / अन्तरन्तरा / कदाचि / अप्पेकदा /	
qì yuē	द्वेज्झ / कथङ्कथा / द्वेव्हक / आसङ्का /	契約		
कतिका / एकत्त /		符合		
符合		fú hé		
fú hé		अन्वय / कतिका / एकत्त /		
अन्वय / कतिका / एकत्त /				

कनक	कन्त	कन्ता	娶妻	कन्दित
kanaka	kanta	kantā	qǔ qī	kandita
純金	丈夫	伉	भरिया / जानि / पिया / कलत्त / कन्ता / जाया /	哭
chún jīn	zhàng fū	kàng	भरिया / कलत्त / पिय / पिया / जाया / पति / जानि /	kū
जातरूप / तपनीय / चामीकर / कनक / कम्बु / कञ्चन /	भत्तु / पिय / धव / धव / पति / पिय / भत्तु / पति / कन्त / कन्त /	कन्ता / कन्त / भरिया / भत्तु / धव / कलत्त / पिय / पिया / जाया / पति / जानि /	भरिया / इत्थि / अङ्गना / थी / नारी /	कन्दित / कन्दन / आरोदना / आदेव /
金	丈夫	太太	कन्ता / इत्थि / अङ्गना / थी / नारी /	कुन्दी
jīn	zhàng fu	tài tài	कन्ता / इत्थि / अङ्गना / थी / नारी /	kunnadī
चामीकर / कञ्चन / जातरूप / कम्बु / तपनीय / कनक /	भत्तु / पिय / धव / धव / पति / पिय / भत्तु / पति / कन्त / कन्त /	कलत्त / जानि / भरिया / जाया / कन्ता / पिया /	कन्ता / इत्थि / अङ्गना / थी / नारी /	小洞
金子	丈夫	夫人	कन्ता / नारी / अङ्गना / थी / इत्थि /	xiǎo hé
jīn zī	伉	fū rén	इत्थि /	कूप
कम्बु / कञ्चन / चामीकर / कनक / तपनीय / जातरूप /	kàng	जानि / कलत्त / भरिया / पिया / कन्ता / जाया /	媳婦	kūpa
金字	कन्ता / कन्त / भरिया / भत्तु / धव / कलत्त / पिय / पिया / जाया / पति / जानि /	कन्ता / जाया /	xí fù	井
jīn zì	合意的	女	कलत्त / कन्ता / भरिया / पिया / जानि / जाया /	jǐng
जातरूप / चामीकर / तपनीय / कनक / कञ्चन / कम्बु /	hé yì de	nǚ	कलत्त / कन्ता / भरिया / पिया / जानि / जाया /	उदपान / ओपान / कूप /
金幣	कन्त / अभिराम /	थी / कन्ता / अङ्गना / नारी / इत्थि / इत्थि /	愛人	以至
jīn bì	外子	女人	ài rén	yǐ zhì
जातरूप / तपनीय / चामीकर / कम्बु / कञ्चन / कनक /	wài zǐ	nǚ rén	जाया / भरिया / पिया / कन्ता / जानि / कलत्त /	उदपान / कूप / ओपान /
金心	कन्त / धव / पति / पिय / भत्तु /	जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अङ्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना /	爱人	嘛
jīn xīn	夫	女人	ài rén	ma
जातरूप / चामीकर / तपनीय / कम्बु / कञ्चन / कनक /	fū	nǚ rén	अङ्गना / नारी / जाया / भरिया / थी / जानि / कलत्त / पिया / कन्ता /	कूप / उदपान / ओपान /
金色	भत्तु / मच्च / दिपद / जन / जन / मच्च / पुरिस / धव / पिय / धव / दिपद / कन्त / पिय / पुम /	जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अङ्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना /	老婆	囑
jīn sè	कन्त / पुरिस / पति / पोस / पति / पुम / पोस / भत्तु /	女人	lǎo pó	zhǔ
जातरूप / कञ्चन / कम्बु / तपनीय / कनक / चामीकर /	夫	nǚ rén	जानि / कलत्त / जाया / कन्ता / पिया / भरिया /	ओपान / कूप / उदपान /
黃金	fu	女子	कन्तार	好
huáng jīn	भत्तु / मच्च / दिपद / जन / जन / मच्च / पुरिस / धव / पिय / धव / दिपद / कन्त / पिय / पुम / कन्त / पुरिस / पति / पोस / पति / पुम / पोस / भत्तु /	nǚ zǐ	kantāra	hǎo
कञ्चन / कनक / कम्बु / जातरूप / चामीकर / तपनीय /	婿	नारी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना / अङ्गना / नारी / थी / कन्ता / कन्ता / थी /	不毛之地	कूप / ओपान / उदपान /
黃金	xù	女子	bù máo zhī dì	好了
huáng jīn	पति / कन्त / धव / पिय / भत्तु /	nǚ zǐ	कन्तार / इरिन /	hǎo le
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /	愉快的	नारी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना / अङ्गना / नारी / थी / कन्ता / कन्ता / थी /	𠂇	उदपान / ओपान / कूप /
黃金	yú kuài de	女的	kuàng	好啊
huáng jīn	कन्त / इट्टु / अभिराम / फासु / अनुकूल /	nǚ de	曠	hǎo a
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /	老公	थी / कन्ता / अङ्गना / इत्थि / नारी / इत्थि /	曠	कूप / ओपान / उदपान /
黃金	lǎo gōng	नारी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना / अङ्गना / नारी / थी / कन्ता / कन्ता / थी /	曠野	安好
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /	धव / पति / कन्त / पिय / भत्तु /	妇人	kuàng yě	ān hǎo
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /		fū rén	沙漠	ओपान / उदपान / कूप /
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /		भरिया / जाया / नारी / इत्थि / अङ्गना / कलत्त / थी / कन्ता / पिया / जानि /	shā mò	小康
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /		妻	जङ्गल / इरिन / कन्तार /	xiǎo kāng
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /		qī	漢	उदपान / ओपान / कूप /
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /		अङ्गना / जाया / थी / पिया / भरिया / कलत्त / जानि / नारी / कन्ता / इत्थि /	mò	很好
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /		妻子	कन्तार / इरिन /	hěn hǎo
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /		qī zi	荒漠	कूप / उदपान / ओपान /
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /		पिया / भरिया / जानि / जाया / कन्ता / कलत्त /	huāng mò	水井
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /		娘	इरिन / कन्तार /	shuǐ jǐng
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /		niang	荒野	कूप / उदपान / ओपान /
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /		जननी / जनिका / अम्बा / कन्ता / थी / अङ्गना / नारी / अम्मा / इत्थि / इत्थि / जनेत्ती /	huāng yě	泉
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /			कन्दुक	quán
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /			kanduka	कूप / उदपान / ओपान / उब्भिद /
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /			球	dòng
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /			qiú	कूप / छिद्द / कुहर / बिल / गम्भर / छिग्गल /
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /			कन्दुक / आयतन / कीळा / गुळ / घटिका /	良好
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /			कन्दन	liáng hǎo
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /			kandana	उदपान / कूप / ओपान /
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /			哭	कूपक
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /			kū	kūpaka
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /			कन्दित / कन्दन / आरोदना / आदेव /	柱
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /				zhù
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /				कील / कूपक / बाहा / आलान / आळान / खील / खाणु / थम्भ /

कपण	कप्पास	कबल	कम्पन	कम्म
kapaṇa	kappāsa	kabala	kampana	kamma
不重要的	棉	一口	發抖	事
bù zhòng yào de	mián	yī kǒu	fā dǒu	shì
丐	कप्पास / पिचु / तूल /	कम	तास / परिसप्पना / चलन / कम्पन /	कम्म / किच्च / कम्मन्त /
gài	棉花	kama	運動	作用
कपण / भिक्खक /	mián huā	一步	yù dòng	zuò yòng
乞丐	कप्पास / पिचु / तूल /	yī bù	कम्पन / चार / इञ्जन / फन्दन / एजा / दव / चलन /	चार / निस्सन्द / कम्म / निप्फत्ति / निप्फज्जन / फल / किरिय / पयोग /
qǐ gài	綿	命令	कम्बु	做事
कपण / भिक्खक /	mián	mìng lìng	kambu	zuò shì
叫花子	पिचु / तूल / कप्पास /	अनुक्कम / कारापन / कम / नियोजन / चक्क /	純金	कम्म / कम्मन्त / किच्च /
jiào huā zi	कपाल	序	chún jīn	券
कपण / भिक्खक /	kapāla	xù	जातरूप / तपनीय / चामीकर / कनक / कम्बु / कञ्चन /	quàn
कप्प	殼	अनुक्कम / कम / परियाय /	金	किरिय / किच्च / कम्म /
kappa	ké	措施	jīn	動作
想	कपालक / कपाल /	cuò shī	जातरूप / चामीकर / कञ्चन / जातरूप / कम्बु / तपनीय / कनक /	dòng zuò
xiǎng	कपालक	पमाण / परिच्छेद / परिमाण / कम /	金子	कम्म / इञ्जन / पयोग / चार / किरिय /
इच्छ / कप्प / तक्क /	kapālaka	方式	jīn zi	勞工
相似	殼	fāng shì	कम्बु / कञ्चन / चामीकर / कनक / तपनीय / जातरूप /	láo gōng
xiǎng sì	ké	कम / नीहार / नय / उपक्कम / पकार /	金字	在職
कप्प / कप्प / उपनिसा /	कपालक / कपाल /	方法	jīn zì	zài zhí
相似	कपि	fāng fǎ	जातरूप / चामीकर / तपनीय / कनक / कञ्चन / कम्बु /	किच्च / कम्मन्त / कम्म /
xiāng sì	kapi	नय / उपाय / पथ / पकार / नीहार / उपक्कम / उपनिसा / जाय / कम / मग्ग /	金幣	工
कप्प / कप्प / उपनिसा /	猩	模式	jīn bì	gōng
कुप्प	xīng	mó shì	जातरूप / तपनीय / चामीकर / कनक / कञ्चन /	कम्मन्त / कम्म / किच्च /
kuppa	猴	जाय / कम / पकार / नय /	金心	gōng zuò
不穩定	hóu	步	jīn xīn	कम्म / किच्च / कम्मन्त /
bù wěn dìng	प्लवङ्गम / कपि / मक्कट /	bù	जातरूप / चामीकर / तपनीय / कम्बु / कञ्चन / कनक /	工作
चञ्चल / क्प्प /	猴子	bù zǐ	जातरूप / चामीकर / तपनीय / कनक / कञ्चन /	gōng fu
कप्पन	hóu zi	步驟	jīn sè	कम्मन्त / कम्म / किच्च /
kappana	प्लवङ्गम / कपि / मक्कट /	bù zhòu	जातरूप / कञ्चन / कम्बु / तपनीय / कनक / चामीकर /	gōng fū
思考	猿	狀態	黃金	कम्मन्त / कम्म / किच्च / कम्मन्त / कम्म / किच्च /
sī kǎo	yuán	zhuàng tài	huáng jīn	業
चिन्तन / तक्कन / कप्पन /	猿猴	腳步	कञ्चन / कनक / कम्बु / जातरूप / चामीकर / तपनीय /	yè
कुप्पन	yuán hóu	jiào bù	黃金	उद्दान / कम्म /
kuppana	कपिल	舉止	huáng jīn	活兒
忿怒	kapila	jǔ zhǐ	कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /	huó r
fèn nù	茶色	पकार / नय / कम / आक्कप्प / इरिया / नीहार / इरियना / उब्बहन /	कम्बल	कम्म / किच्च /
कोध / दोस / दुस्सन / कुप्पन / अभिसज्जन /	chá sè	訓令	kambala	职业
激動	तम्ब / पिङ्गल / कपिल /	xùn lìng	毛毯	zhí yè
jī dòng	茶色的	jìn chéng	máo tǎn	किच्च / कम्मन्त / कम्म /
चलन / पकोप / फन्दित / फन्दन / कप्पन / उब्बिज्जना / आलोळ / परितस्सना / खोभ /	chá sè de	陔	पापुरण / कम्बल /	著作
कप्पर	कपोत	gāi	कुम्भील	zhù zuò
kappara	kapota	順序	kumbhīla	कम्मन्त / पोत्थक / किच्च / कम्म / कम्म / किच्च / कम्मन्त / पोत्थक /
手肘	鴿	shùn xù	鱧魚	著作
shǒu zhǒu	gē	कम / परियाय / अनुक्कम / पटिपाटि / आनुपुब्बी /	è yú	zhe zuò
肘	gē zi	順序	è	कम्मन्त / पोत्थक / किच्च / कम्म / कम्म / किच्च / कम्मन्त / पोत्थक /
zhǒu	gē	shùn xù	鰐魚	行動
	gē zi	पकार / अनुक्कम / नय / जाय / कम / परियाय /	è yú	xíng dòng
	कब्ब	詩		किरिय / किच्च / पयोग / चार / कम्म /
	kabba	詩		行動
	shī	पज्ज / कब्ब / कावेय्य / गेय्य /		xíng dòng
				चार / कम्म / पयोग / किरिय /

起作用	कम्मन्त	कमलासन	कुमारक	कुमारिका
起作用	kammanta	kamalāsana	kumāraka	kumārikā
कम्मन्त / किच्च / कम्म / 辦事	事 shì	創造者 chuàng zào zhě	僮 tóng	丫頭 yā tóu
कम्मन्त / किच्च / कम्म / 飯碗	कम्म / किच्च / कम्मन्त / 事情 shì qíng	ब्रह्म / इस्सर / कमलासन / 造物主 zào wù zhǔ	दारक / दहर / कुमारक / कुमार / 好孩子 hǎo hái zi	दारिका / कञ्जा / कुमारी / कुमारिका / बाला / 処女 chù nǚ
कच्च / कम्म / कुम्म	किच्च / पकरण / पञ्ह / पसङ्ग / कम्मन्त / 做事 zuò shì	ब्रह्म / इस्सर / कमलासन / कुमार kumāra	कुमार / कुमारक / दहर / दारक / 少年 shǎo nián	कुमारी / कुमारिका / कुमारिका / कुमारी / 処女 chǔ nǚ
kumma	कम्म / कम्मन्त / किच्च / 務 wù	僮 tóng	दहर / कुमारक / दारक / कोमार / कुमार / 年青人 nián qīng rén	कुमारी / कुमारिका / कुमारिका / कुमारी / 女孩 nǚ hái
龜	在職 zài zhí	दारक / दहर / कुमारक / कुमार / 好孩子 hǎo hái zi	कुमार / कुमारक / दारक / 男孩 nán hái	बाला / कञ्जा / कञ्जा / बाला / कुमारी / दारिका / दारिका / कुमारी / कुमारिका / कुमारिका / 女孩 nǚ hái
guī	किच्च / कम्मन्त / कम्म / 工 gōng	कुमार / कुमारक / दहर / दारक / 少年 shǎo nián	कुमार / दहर / कुमारक / दारक / 男孩儿 nán hái ér	बाला / कञ्जा / कञ्जा / बाला / कुमारी / दारिका / दारिका / कुमारी / कुमारिका / कुमारिका / 女孩 nǚ hái
कुम्म / कच्छप /	कम्मन्त / कम्म / किच्च / 工作 gōng zuò	दहर / कुमारक / दारक / कोमार / कुमार / 年青人 nián qīng rén	दारक / कुमारक / दहर / कुमार / 男孩子 nán hái zi	बाला / कञ्जा / कञ्जा / बाला / कुमारी / दारिका / दारिका / कुमारी / कुमारिका / कुमारिका / 女孩子 nǚ hái zi
	कम्म / किच्च / कम्मन्त / 工匠 gōng jiàng	कुमार / कुमारक / दारक / 男孩 nán hái	दारक / कुमारक / कुमार / दहर / 童 tóng	कञ्जा / कुमारी / बाला / दारिका / कुमारिका / 女郎 nǚ láng
	कम्मन्त / कम्म / किच्च / कम्मन्त / कम्म / किच्च / 工夫 gōng fū	कुमार / कुमारक / दारक / 男孩儿 nán hái ér	दहर / दारक / कुमारक / पुत्त / कुमार / बाल /	दारिका / कुमारिका / कञ्जा / कुमारी / बाला / 姑娘 gū niang
	कम्मन्त / कम्म / किच्च / कम्मन्त / कम्म / किच्च / 职业 zhí yè	दारक / कुमारक / कुमार / दहर / 童 tóng		बाला / दारिका / कुमारिका / बाला / कुमारी / दारिका / कञ्जा / कुमारिका / कञ्जा / कुमारी / 姑娘 gū niáng
	किच्च / कम्मन्त / कम्म / 職業 zhí yè	दहर / दारक / कुमारक / पुत्त / कुमार / बाल /		बाला / दारिका / कुमारिका / बाला / कुमारी / दारिका / कञ्जा / कुमारिका / कञ्जा / कुमारी / 小姑娘 xiǎo gū niáng
	अवचरण / कम्मन्त / 著作 zhù zuò	दारक / कुमारक / कुमार / दहर / 童 tóng		बाला / कुमारिका / कुमारिका / कुमारी / कुमारी / बाला / कञ्जा / कञ्जा / दारिका / दारिका / 小姑娘 xiǎo gū niang
	कम्मन्त / कम्म / किच्च / कम्म / कम्म / किच्च / कम्मन्त / / पोत्थक / 著作 zhe zuò	दारक / कुमारक / कुमार / दहर / 童 tóng		बाला / कुमारिका / कुमारिका / कुमारी / कुमारी / बाला / कञ्जा / कञ्जा / दारिका / दारिका / 少女 shǎo nǚ
	कम्मन्त / कम्म / किच्च / 起作用 qǐ zuò yòng	दहर / दारक / कुमारक / पुत्त / कुमार / बाल /		दारिका / कञ्जा / कुमारी / कुमारिका / कुमारिका / बाला / कुमारी / बाला / दारिका / कञ्जा / 少女 shǎo nǚ
	कम्मन्त / किच्च / कम्म / 辦事 bàn shì	दहर / दारक / कुमारक / पुत्त / कुमार / बाल /		दारिका / कञ्जा / कुमारी / कुमारिका / कुमारिका / बाला / कुमारी / बाला / दारिका / कञ्जा / 處女 chù nǚ
	कम्मन्त / किच्च / कम्म / कुम्मास			कुमारी / कुमारिका /
	kammāsa			
	不一致的			
	bù yī zhì de			

कुमारी	कर	करजकाय	करणीय	करीस
kumārī	kara	karajakāya	karaṇīya	karīsa
丫頭	一手	体	義務	大便
yā tóu	yī shǒu	तँ	yì wu	dà biàn
दारिका / कञ्जा / कुमारी / कुमारिका / बाला /	भुज / पाणि / कर /	गत्त / कलेबर / बोन्दि / काय / देह / करजकाय /	कत्तब्ब / करणीय /	गूथ / असुचि / उक्कार / उच्चार /
कुमारिका / बाला /	伸手	身	責任	करीस /
处女	shēn shǒu	身	zé rèn	排泄物
chǔ nǚ	भुज / कर / पाणि /	shēn	कातब्ब / करणीय / कत्तब्ब /	pái xiè wù
कुमारी / कुमारिका / कुमारिका / कुमारी /	光線	पाण / काय / करजकाय / जीव / गत्त / कलेबर / देह / चरित / बोन्दि /	किच्च /	गूथ / करीस / उक्कार / असुचि /
कुमारी /	guāng xiàn	身上	責任	उच्चार /
处女	अवभास / पदीप / निभा / पभास / पज्जोत / पभा / भानु / कर / जोति / आलोक / किरण / दित्ति / भा / आभा /	shēn shàng	zé rèn	糞
chù nǚ	到手	करजकाय / कलेबर / काय / देह / बोन्दि / गत्त /	करणीय / किच्च / कत्तब्ब /	fèn
कुमारी / कुमारिका / कुमारिका / कुमारी /	到手	身	करभ	उक्कार / असुचि / करीस / गूथ /
女孩	dào shǒu	身体	karabha	
nǚ hái	भुज / कर / पाणि /	shēn tǐ	手腕	
बाला / कञ्जा / कञ्जा / बाला / कुमारी / दारिका / दारिका / कुमारी / कुमारिका / कुमारिका /	巴掌	कलेबर / देह / करजकाय / बोन्दि / गत्त / काय /	shǒu wàn	
女孩	bā zhǎng	身子	腕	
nǚ hái	भुज / भुज / पाणि / कर / कर / पाणि /	shēn zi	wàn	
बाला / कञ्जा / कञ्जा / बाला / कुमारी / दारिका / दारिका / कुमारी / कुमारिका / कुमारिका /	巴掌	बोन्दि / काय / कलेबर / गत्त / करजकाय / देह /	駝	
女孩子	ba zhǎng	身體	tuò	
nǚ hái zǐ	भुज / भुज / पाणि / कर / कर / पाणि /	shēn tǐ	करभ / ओडु /	
कञ्जा / कुमारी / बाला / दारिका / कुमारिका /	手	कलेबर / देह / गत्त / करजकाय / काय / बोन्दि /	駝	
女郎	shǒu	體	駝	
nǚ láng	भुज / कर / पाणि /	tǐ	tuó	
दारिका / कुमारिका / कञ्जा / कुमारी / बाला /	手掌	बोन्दि / देह / काय / गत्त / कलेबर / करजकाय /	करभ / करभ / ओडु / ओडु /	
姑娘	shǒu zhǎng	करुणा	駝	
gū niang	पाणि / कर /	karuṇā	tuò	
बाला / दारिका / कुमारिका / बाला / कुमारी / दारिका / कञ्जा / कुमारिका / कञ्जा / कुमारी /	手邊	同情	करभ / करभ / ओडु / ओडु /	
姑娘	shǒu biān	tóng qíng	駝	
gū niáng	भुज / कर / पाणि /	करुणा / अनुकम्पन / दया / कारुञ्ज /	luò tuó	
बाला / दारिका / कुमारिका / बाला / कुमारी / दारिका / कञ्जा / कुमारिका / कञ्जा / कुमारी /	指頭	怜悯	करभ / ओडु /	
姑娘	shǒu tóu	lián mǐn	केराटिय	
gū niáng	कर / पाणि / भुज /	अनुकम्पन / करुणा / दया / कारुञ्ज /	kerāṭiya	
बाला / दारिका / कुमारिका / बाला / कुमारी / दारिका / कञ्जा / कुमारिका / कञ्जा / कुमारी /	指甲	憐	欺騙	
小姑娘	zhǐ jiǎ	mǐn	qī piàn	
xiǎo gū niáng	नख / कर /	करुणा / अनुकम्पन /	कोहञ्ज / निकति / कितव / केराटिय / कुहना / कुहक / कुह / उपलापन / कूट / नेकतिक /	
बाला / कुमारिका / कुमारिका / कुमारी / कुमारी / बाला / कञ्जा / कञ्जा / दारिका / दारिका /	稅	憐	詭計	
小姑娘	shuì	mǐn	guǐ jì	
gū niáng	कर / बलि /	करुणा / अनुकम्पन /	केराटिय / कुहना /	
बाला / कुमारिका / कुमारिका / कुमारी / कुमारी / बाला / कञ्जा / कञ्जा / दारिका / दारिका /	稅	慈悲	करी	
小姑娘	shuì	cí bēi	karī	
xiǎo gū niang	कर / बलि /	करुणा / अनुकम्पन /	大象	
बाला / कुमारिका / कुमारिका / कुमारी / कुमारी / बाला / कञ्जा / कञ्जा / दारिका / दारिका /	筆迹	憐	dà xiàng	
少女	bǐ jī	lián	कुञ्जर / कणेरु / इभ / नाग / करी / गज / दिवप /	
shǎo nǚ	कर / पाणि / भुज /	अनुकम्पन / करुणा /	象	
दारिका / कञ्जा / कुमारी / कुमारिका / कुमारिका / बाला / कुमारी / बाला / दारिका / कञ्जा /	करका	憐	xiàng	
कुमारी /	karakā	lián mǐn	दिवप / करी / इभ / नाग / इव / कणेरु / कुञ्जर / गज /	
少女	冰雹	करुणा / दया /		
shǎo nǚ	bīng báo			
दारिका / कञ्जा / कुमारी / कुमारिका / कुमारिका / बाला / कुमारी / बाला / दारिका / कञ्जा /	雹			
कुमारी / बाला / दारिका / कञ्जा /	báo			
處女	báo zi			
chù nǚ				
कुमारी / कुमारिका /				
कय				
kaya				
購買				
gòu mǎi				

कुल	कलङ्क	कलन्दक	कलल	कल्ल
kula	kalaṅka	kalandaka	kalala	kalla
一族	缺點	松鼠	坭	乖
yī zú	quē diǎn	sōng shǔ	ní	guāi
कुल / कुटुम्ब / 世家	पदोस / आदीनव / कलङ्क / छिद् / दोस /	कलेबर	कलल / पङ्क / कद्दम / चिक्खल्ल / 泥	छेक / दक्ख / पटु / कल्ल / कुसल /
shì jiā	कलत्त	kalebara	ní	伶
कुटुम्ब / कुल / 全家	kalatta	体	उक्ताप / कलल / कद्दम / जल्लिका / चिक्खल्ल / कालुसिया / असुधि / पङ्क /	लिंग
quán jiā	伉	tǐ	泥巴	कल्ल / पटु / कल्ल / छेक / दक्ख / दक्ख / छेक / कुसल / कुसल /
कुल / कुटुम्ब / 全家人	kàng	गत्त / कलेबर / बोन्दि / काय / देह / करजकाय /	ní ba	伶
quán jiā rén	कन्ता / कन्त / भरिया / भत्तु / धव / कलत्त / पिय / पिया / जाया / पति / जानि /	身	चिक्खल्ल / पङ्क / कद्दम / कद्दम / चिक्खल्ल / पङ्क / कलल / कलल /	लिंग
कुल / कुटुम्ब / 大家庭	太太	shēn	泥巴	कल्ल / पटु / कल्ल / छेक / दक्ख / दक्ख / छेक / कुसल / कुसल /
dà jiā tíng	tài tài	पाण / काय / करजकाय / जीव / गत्त / कलेबर / देह / चरित / बोन्दि /	ní bā	伶俐
कुटुम्ब / कुल / 宗	कलत्त / जानि / भरिया / जाया / कन्ता / पिया /	身上	चिक्खल्ल / पङ्क / कद्दम / कद्दम / चिक्खल्ल / पङ्क / कलल / कलल /	लिंग लि
zōng	夫人	shēn shàng	泥沼	कल्ल / पटु / छेक / दक्ख /
कुल / कुटुम्ब / 宗族	fū rén	करजकाय / कलेबर / काय / देह / बोन्दि / गत्त /	ní zhǎo	伶俐
zōng zú	जानि / कलत्त / भरिया / पिया / कन्ता / जाया /	身体	पङ्क / कलल / चिक्खल्ल /	दक्ख / छेक / पटु / कल्ल / कुसल /
जातिक / कुल / गोत्त / 家	女人	shēn tǐ		健全的
jiā	nǚ rén	कलेबर / देह / करजकाय / बोन्दि / गत्त / काय /		jiàn quán de
कुटुम्ब / उपस्सय / घर / गेह / आवास / कल / निकेत / गह / निकेतन / निलय /	जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अङ्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना /	身子		健康的
家人	nǚ rén	shēn zi		jiàn kāng de
jiā rén	जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अङ्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना /	बोन्दि / काय / कलेबर / गत्त / करजकाय / देह /		अरोग / कल्ल / निरोग / निरातङ्क /
कुटुम्ब / कुल / 家庭	妇人	身體		焦
jiā tíng	nǚ rén	shēn tǐ		jiāo
निकेत / कुल / निलय / निकेतन / कुटुम्ब / आवास / उपस्सय /	जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अङ्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना /	कलेबर / देह / गत्त / करजकाय / काय / बोन्दि /		कल्ल / पटु / दक्ख / छेक / कुसल /
家族	fù rén	體		准备
jiā zú	भरिया / जाया / नारी / इत्थि / अङ्गना / कलत्त / थी / कन्ता / पिया / जानि /	ति		zhǔn bèi
कुटुम्ब / कुल / 家眷	妻	बोन्दि / देह / काय / गत्त / कलेबर / करजकाय /		妙
jiā juàn	qī	कल्याण		miào
कुटुम्ब / कुल / 家系	qī	kalyāṇa		दक्ख / कुसल / पटु / कल्ल / छेक /
jiā xì	अङ्गना / जाया / थी / पिया / भ रिया / कलत्त / जानि / नारी / कन्ता / इत्थि /	仁慈		就緒
属	妻子	rén cí		jiù xù
shǔ	qī zi	अवेर / दया / कल्याण /		就緒
कुटुम्ब / कुल / 族	पिया / भरिया / जानि / जाया / कन्ता / कलत्त /	德行		jiù xù
zú	娶妻	dé xíng		巧妙
जातिक / गोत्त / कुल / कुटुम्ब / 氏族	qǔ qī	कुसल / कल्याण /		qiǎo miào
shì zú	भरिया / जानि / पिया / कलत्त / कन्ता / जाया /	福利		छेक / कल्ल / पटु / दक्ख /
गोत्त / जातिक / कुल /	媳婦	fú lì		巧妙的
कूल	xí fù	福祉		qiǎo miào de
kūla	कलत्त / कन्ता / भरिया / पिया / जानि / जाया /	fú zhǐ		दक्ख / कल्ल / पटु / छेक / 弄好
堤防	愛人	कल्याण / अत्थ /		nòng hǎo
dī fáng	ài rén	美德		應
कूल / आलि / 河岸	ài rén	měi dé		yuàn
hé àn	अङ्गना / नारी / जाया / भरिया / थी / जानि / कलत्त / पिया / कन्ता /	कल्याण / कुसल /		準備
कूल / तीर /	老婆	迷人的		zhǔn bèi
	lǎo pó	mí rén de		कल्ल / परिवच्छ / उपक्खट / 聰
	जानि / कलत्त / जाया / कन्ता / पिया / भरिया /	जञ्ज / कल्याण /		cōng
				दक्ख / पटु / पण्डित / छेक / कल्ल /
				聰明
				cōng míng
				पटु / कल्ल / दक्ख / छेक /
				聰明的
				cōng míng de
				दक्ख / कल्ल / छेक / पटु /

聰明	कलह	कुलाल	कवच	केवल
cōng míng	kalaha	kulāla	kavaca	kevala
दक्ख / छेक / पटु / कल्ल /	争执	陶工	盔甲	仅仅
能力	zhēng zhí	táo gōng	kuī jiǎ	jǐn jǐn
néng lì	争端	कुलावक	केवट्ट	केवल / एव /
दक्ख / बल / भब्ब / थाम / कल्ल /	zhēng duān	kulāvaka	kevaṭṭa	全部
高明	争议	巢	渔夫	quán bù
gāo míng	zhēng yì	cháo	yú fū	केवल / निस्सेस / अनन / निखिल / कसिण / अनवसेस / असेस / अनूनक /
दक्ख / कल्ल / पटु / छेक /	争论	निड्ड / कुलावक /		全部的
कुलल	zhēng lùn	窩		quán bù de
kulala	吵	wō		केवल / निखिल / असेस / निस्सेस / कसिण /
鷹	chǎo	कुलावक / निड्ड /		只有
yīng	吵架	窠		zhǐ yǒu
कुल्ल	chǎo jià	kē		एव / केवल /
kulla	拌嘴	कुलावक / निड्ड /		唯
木筏	bàn zuǐ	窩		wéi
mù fá	爭吵	wō		केवल / एवं / एव / एकक / आम /
प्लव / कुल्ल /	zhēng chǎo	कुलावक / निड्ड /		唯一
楂	爭執	cù		wéi yī
zhā	zhēng zhí	कुलावक / निड्ड /		एव / केवल / एकक /
कुल्ल / प्लव /	爭論	鳥巢		匳
筏	zhēng lùn	niǎo cháo		hú
fá	碴	निड्ड / कुलावक /		निखिल / निस्सेस / केवल / कसिण / असेस /
कुल्ल / प्लव /	chá	कलि		孤
कल्लोल	chā	kali		gū
kallola	糾紛	擊敗		एकक / केवल /
巨浪	jiū fēn	jī bài		完全
jù làng	कला	कलि / अपजित / अवत्थरण /		wán quán
कलुस	kalā	罪		निखिल / अनूनक / कसिण / निस्सेस / पुण्ण / परिपूर / अनून / केवल / असेस / अनवसेस /
kalusa	功夫	zuì		总体
不道德	gōng fū	असद्धम्म / कलि / निग्गह / पाप / अघ / अवण्ण / अकुसल / उपवाद /		zǒng tǐ
bù dào dé	美术	罪惡		केवल / निखिल / कसिण / असेस /
अनाचार / कलुस /	měi shù	zuì è		惟
犯	艺术	अघ / अकुसल / कलि / असद्धम्म /		wéi
fàn	藝術	罪過		पन / एव / तु / आदु / केवल / पि /
	yì shù	zuì guò		整
	yì shù	असद्धम्म / अघ / आगु / कलि / अकुसल / अतिक्कम / किब्बि / अपराध /		zhěng
	कलाप	कलिङ्गर		केवल / कसिण / असेस / पुण्ण / निस्सेस / अनूनक / परिपूर / अनवसेस / अनून / निखिल /
	kalāpa	kaliṅgara		整个
	捆	木頭		zhěng gè
	kǔn	mù tóu		असेस / निस्सेस / निखिल / कसिण / केवल /
	कलाप / कणिका /	दारु / कलिङ्गर /		整個
	束	कुलीर		zhěng gè
	shù	kulīra		निखिल / केवल / निस्सेस / कसिण /
	कलाप / कणिका / उदान /	螃蟹		整数
	管束	páng xiè		zhěng shù
	guǎn shù	कुलीर / कक्कट /		निस्सेस / कसिण / असेस / केवल / निखिल /
	箭袋	蟹		整整
	jiàn dài	xiè		zhěng zhěng
	कलापी	कुलीर / कक्कट /		निस्सेस / कसिण / पुण्ण / निखिल / परिपूर / केवल / असेस /
	kalāpī	केळी		絕對
	孔雀	keī		jué duì
	kǒng què	歡樂		
	孔雀座	huan lè		
	kǒng què zuò	पमोद / आनन्द / कीळ्णा / तुड्ढि / पामोज्ज / पीति / नन्दि / केळी / तुस्सना / पामुज्ज /		

绝对	कुसुम	केसरी	कस्सक	कसिण
jué duì	kusuma	kesarī	kassaka	kaṣiṇa
通通	花	獅	佃	全部
tōng tōng	huā	shī	diàn	quán bù
केवल / निस्सेस / अनून / अनवसेस / परिपूर / अनूनक / असेस / पुण्ण / निखिल / कसिण /	कुसुम / पुप्फ /	獅子	农夫	केवल / निस्सेस / अनून / निखिल / कसिण / अनवसेस / असेस / अनूनक /
鞋底	huā ruǐ	獅子座	农民	全部的
xié dǐ	कुसुम / पुप्फ /	shī zǐ zuò	nóng mǐn	quán bù de
कवाट	कसम्बु	獅	耕者	केवल / निखिल / असेस / निस्सेस / कसिण /
kavāṭa	kasambu	shī	gēng zhě	佃
窗	垃圾	獅子	農夫	hú
chuāng	lā jī	shī zi	nóng fu	निखिल / निस्सेस / केवल / कसिण / असेस /
कवाट / उल्लोकन / आलोकन / आलोकसन्धि /	कसम्बु / कचवर / उक्लाप /	कुसल	農民	完全
窗口	废物	कुसल	nóng mǐn	wán quán
chuāng kǒu	fèi wù	kusala	कसाय	निखिल / अनूनक / कसिण / निस्सेस / पुण्ण / परिपूर / अनून / केवल / असेस / अनवसेस /
आलोकसन्धि / कवाट / उल्लोकन / आलोकन /	कचवर / कसम्बु / उक्लाप /	专家	kasāya	总体
窗子	कस्मा	zhuān jiā	煮出的汁	zǒng tǐ
chuāng zi	kasmā	乖	zhǔ chū de zhī	केवल / निखिल / कसिण / असेस /
आलोकन / कवाट / आलोकसन्धि / उल्लोकन /	为什么	guāi	छेक / दक्ख / पटु / कल्ल / कुसल /	整
窗户	wèi shén me	伶	ल	zhěng
chuāng hù	kasmā / कस्मा /	líng	कल्ल / पटु / कल्ल / छेक / दक्ख / दक्ख / छेक / कुसल / कुसल /	केवल / कसिण / असेस / पुण्ण / निस्सेस / अनूनक / परिपूर / अनवसेस / अनून / निखिल /
आलोकन / उल्लोकन / कवाट / आलोकसन्धि /	为什么	伶	ल	整个
窗户	wèi shén me	ling	कल्ल / पटु / कल्ल / छेक / दक्ख / दक्ख / छेक / कुसल / कुसल /	zhěng gè
chuāng hù	kasmā / कस्मा /	俐	दक्ख / छेक / कुसल / कुसल /	असेस / निस्सेस / निखिल / कसिण / केवल /
कवाट / उल्लोकन / आलोकसन्धि / आलोकन /	wèi hé	li	दक्ख / छेक / पटु / कल्ल / कुसल /	整個
कवि	कस्मा / कस्मा /	li	दक्ख / छेक / पटु / कल्ल / कुसल /	zhěng gè
kavi	何	焦	कुसल / कल्याण /	निखिल / केवल / निस्सेस / कसिण /
詩人	hé	jiāo	miào	整数
shī rén	कतर / कतम / कस्मा /	कल्ल / पटु / दक्ख / छेक / कुसल /	दक्ख / कुसल / पटु / कल्ल / छेक /	zhěng shù
诗人	何以	善	shàn	निस्सेस / कसिण / असेस / केवल / निखिल /
shī rén	hé yǐ	妙	shào	整整
कुस	何必	德行	dé xíng	zhěng zhěng
kusa	hé bì	dé xíng	कुसल / कल्याण /	निस्सेस / कसिण / पुण्ण / निखिल / परिपूर / केवल / असेस /
很多	何故	美德	měi dé	通通
hěnn duō	hé gù	měi dé	कल्याण / कुसल /	tōng tōng
कुस / भुस / बहु / अनप्पक /	咋	成就	chéng jiù	केवल / निस्सेस / अनून / अनवसेस / परिपूर / अनूनक / असेस / पुण्ण / निखिल / कसिण /
कसट	zǎ	成就	chéng jiù	
kaṣaṭa	कस्मा / घोस /	成就	chéng jiù	
拒	為什麼	成就	chéng jiù	
jù	wèi shén me	成就	chéng jiù	
कसट / अवक्कार /	為何	成就	chéng jiù	
拒絕	wèi hé	成就	chéng jiù	
jù jué	wèi shén me	成就	chéng jiù	
अवक्कार / पच्चक्खान / पटिनिस्सग्ग / कसट /	為什麼	成就	chéng jiù	
渣滓	為什麼	成就	chéng jiù	
zhā zǐ	wèi shén me	成就	chéng jiù	
कसन	為什麼	成就	chéng jiù	
kasana	為什麼	成就	chéng jiù	
耕作	為什麼	成就	chéng jiù	
gēng zuò	為什麼	成就	chéng jiù	

कसिर	कुह	कुहर	काच	कातर
kasira	kuha	kuhara	kāca	kātara
困难	作假	孔	晶	卑鄙的
kùn nán	zuò jiǎ	kǒng	jīng	bēi bǐ de
कसिर / किच्छ / 困難	कुहक / नेकतिक / कुह / कितव / 作弊	छिद् / कुहर / छिग्गल / बिल / 洞	杯	कातर / जेगुच्छ / गारय्ह / उञ्जातब्ब /
kùn nán	zuò bì	dòng	bēi	काम
कसिर / किच्छ / 悲慘	कितव / कुहक / कुह / नेकतिक / 欺詐	कूप / छिद् / कुहर / बिल / गम्भर / छिग्गल /	काच / कोसक / 杯子	kāma
bēi cǎn	qī zhà	洞口	bēi zi	娛
蹇	कितव / कुहक / कुह / नेकतिक / 欺騙	dòng kǒu	काच / कोसक / 水晶	yú
jiǎn	qī piàn	कुहर / छिद् / बिल / छिग्गल / 破洞	shuǐ jīng	आराम / काम / तुडि / 快感
कसिर / किच्छ / 難度	कोहञ्ज / निकति / कितव / केराटिय / कुहना / कुहक / कुह / उपलापन / कूट / नेकतिक /	pò dòng	玻	kuài gǎn
nán dù	欺騙	बिल / कुहर / छिग्गल / छिद् / 穴	bō	तुडि / आराम / काम / 愉快
किच्छ / कसिर / 麻煩	qī piàn	xuè	bō lí	yú kuài
má fán	नेकतिक / कुहक / कितव / कुह / 騙	बिल / छिग्गल / छिद् / छिद् / बिल / कुहर / छिग्गल / कुहर / 窟窿	玻璃制品	आराम / फासक / अत्तमन / इडु / अस्साद / तुडि / परिभोग / काम / 愉悅
कसिर / आयास / उपताप / परिस्सय /	piàn	xué	bō lí zhì pǐn	yú yuè
कुसीत	नेकतिक / कुह / कितव / कुहक / 騙	बिल / छिग्गल / छिद् / छिद् / बिल / कुहर / छिग्गल / कुहर / 窟窿	玻璃杯	आराम / तुडि / काम / 樂趣
kusīta	piàn	kū long	bō lí bēi	lè qù
怠	नेकतिक / कुह / कुहक / कितव / कुहक	बिल / कुहर / छिद् / छिग्गल / 阱	bō lí de	आराम / पमोद / तुडि / काम / नन्दि / आनन्द / 欢乐
dài	कुहक	jǐng	lí	huān lè
कुसीत / अलस / 惰	kuhaka	बिल / छिग्गल / छिद् / कुहर / काक	表蒙子	आराम / आनन्द / पमोद / तुडि / पामोज्ज / काम / पामुज्ज / नन्दि / पीति / 欢喜
duò	作假	kāka	biào měng zi	kuān xǐ
कुसीत / अलस / 懶	zuò jiǎ	乌鸦	काण	huān xǐ
lǎn	कुहक / नेकतिक / कुह / कितव / 作弊	wū yā	kāṇa	पमोद / आराम / तुडि / काम / नन्दि / आनन्द / 高兴
कुसीत / अलस / 懶惰	zuò bì	धङ्क / अरिडु / काक / 烏鴉	盲	gāo xìng
lǎn duò	कितव / कुहक / कुह / नेकतिक / 欺詐	wū yā	máng rén	आराम / तुडि / काम /
अलस / कुसीत / 懶惰的	qī zhà	काक / धङ्क / अरिडु / 鴉	máng rén	कामुक
lǎn duò de	कितव / कुहक / कुह / नेकतिक / 欺騙	yā	काण / अन्ध / 相親	kāmuka
कुसीत / अलस / 懶	qī piàn	अरिडु / धङ्क / काक / 鴉	xiāng qīn	好色的
lǎn	कोहञ्ज / निकति / कितव / केराटिय / कुहना / कुहक / कुह / उपलापन / कूट / नेकतिक /	yā	काण / अन्ध / 瞎	hǎo sè de
कुसीत / अलस / 懶惰	欺騙	धङ्क / अरिडु / काक / काकणिका	xiā	अवस्सुत् / कामुक /
lǎn duò	qī piàn	काकणिका	अन्ध / काण / 瞎子	कामता
अलस / कुसीत /	नेकतिक / कुहक / कितव / कुह / 騙	kākaṇika	xiā zi	kāmatā
	piàn	便士	अन्ध / काण / 瞎眼	渴望
	नेकतिक / कुह / कुहक / कितव / 騙	biàn shì	xiā yǎn	kě wàng
	piàn		काण / अन्ध / 瞽	कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकइखन / जालिनी / अपेक्खन / आसा / एजा / इच्छा / तण्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकइखत्त / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /
	कुहना		gǔ	
	kuhanā		काण / अन्ध /	
	欺騙		कातब्ब	
	qī piàn		kātabba	
	कोहञ्ज / निकति / कितव / केराटिय / कुहना / कुहक / कुह / उपलापन / कूट / नेकतिक /		責任	
	詭計		zé rèn	
	guǐ jì		कातब्ब / करणीय / कत्तब्ब / किच्च /	
	केराटिय / कुहना /			

काय	कार	कारण	कारणा	कारा
kāya	kāra	kāraṇa	kāraṇā	kārā
体	役	动机	受刑	入獄
tǐ	yì	dòng jī	shòu xíng	rù yù
गत्त / कलेबर / बोन्दि / काय / देह / करजकाय /	उपद्धान / कार / पेसन / उपासन / किच्च / पारिचरिया /	अपदेस / अत्थवस / पद / ठान / कारण /	आतापन / कारणा /	囚室
堆	招待	原因	折磨	qiú shì
duī	zhāo dài	yuán yīn	zhé mó	चारक / कारा /
काय / पुञ्ज / चिति / पूग /	उपद्धान / किच्च / उपासन / पारिचरिया / कार / पेसन /	कारण / पद / निमित्त / निदान / ठान / अपदेस / अत्थवस / जनन /	कारणा / आतापन /	囹
穢	服侍	因	拷問	líng
zhěi	fú shì	yīn	kǎo wèn	चारक / कारा /
पुञ्ज / चिति / काय / पूग /	fú shì	yīn	आतापन / कारणा /	大牢
聚集	कार / उपद्धान / उपासन / पेसन / पारिचरिया / किच्च /	कारण / निदान / पटिच्च / अपदेस / अत्थवस / ठान / निमित्त / पद /	拷打	dà láo
jù jí	服务	因素	kǎo dǎ	拘留所
काय / ओचिनन / उपसंहरण /	fú wù	yīn sù	आतापन / कारणा /	jū liú suǒ
身	कार / पारिचरिया / उपद्धान / पेसन / किच्च / उपासन /	पद / निमित्त / ठान / निदान / कारण / धातु / उपनिसा /	酷刑	牢
shēn	服務	引起	kù xíng	láo
पाण / काय / करजकाय / जीव / गत्त / कलेबर / देह / चरित / बोन्दि /	fú wu	yǐn qǐ	कारणा / आतापन /	चारक / कारा / थिर / दब्ह /
身上	उपासन / पेसन / किच्च / उपद्धान / कार / पारिचरिया /	कारण / ठान / निमित्त / पद / निदान /		牢獄
shēn shàng	服役	情理		láo yù
करजकाय / कलेबर / काय / देह / बोन्दि / गत्त /	fú yì	qíng lǐ		चारक / कारा /
身体	उपद्धान / कार / पारिचरिया / उपासन / किच्च / पेसन /	अपदेस / पद / ठान / अत्थवस / निमित्त / कारण /		犴
shēn tǐ	維修	故		àn
कलेबर / देह / करजकाय / बोन्दि / गत्त / काय /	wéi xiū	gù		獄
身子	उपद्धान / उपासन / किच्च / पेसन / पारिचरिया / कार /	ततो / तस्मा / निदान / पद / अतो / अपदेस / कारण / ठान / निमित्त / अत्थवस /		yù
shēn zi	कारुञ्ज	理		कारा / चारक /
बोन्दि / काय / कलेबर / गत्त / करजकाय / देह /	kāruñña	lǐ		獄
身體	同情	कारण / निमित्त / पद / अपदेस / ठान / अत्थवस /		yù
shēn tǐ	tóng qíng	理性		कारा / चारक /
कलेबर / देह / गत्त / करजकाय / काय / बोन्दि /	करुणा / अनुकम्पन / दया / कारुञ्ज /	lǐ xìng		班房
體	怜悯	कारण / अत्थवस / ठान / अपदेस / पद /		bān fáng
tǐ	lián mǐn	理由		監獄
बोन्दि / देह / काय / गत्त / कलेबर / करजकाय /	अनुकम्पन / करुणा / दया / कारुञ्ज /	lǐ yóu		jiān yù
		निमित्त / निदान / अपदेस / ठान / कारण / पद / अत्थवस /		चारक / कारा /
		由		監
		yóu		jiān
		कारण / निमित्त / अपदेस / निदान / पद / ठान / अत्थवस /		चारक / कारा /
		緣故		監牢
		yuán gù		jiān láo
		निमित्त / ठान / कारण / अपदेस / पद / अत्थवस /		चारक / कारा /
		道理		監獄
		dào lǐ		jiān yù
		ठान / अत्थवस / पद / अपदेस / निमित्त / कारण /		कारा / चारक /
				監禁
				jiān jìn
				關押
				guān yā
				बन्ध / कारा /
				कारापन
				kārapana
				命令
				mìng lìng
				अनुक्कम / कारापन / कम / नियोजन / चक्क /

काल	कालङ्कत	काळ	黑的	काळायस
kāla	kālaṅkata	kāḷa	hēi de	kāḷāyasa
早的	死	烏	काळक / काळ / कण्ह /	熨
zǎo de	sǐ	wū	黑色	yùn
时	चवन / नमुचि / पेत / नास / कालकिरिया / मच्यु / कालङ्कत / अन्तक /	काळ / तिमिर / तिमिस / कण्ह /	hēi sè	काळायस / अय /
shí	死的	冥	काळक / काळ / कण्ह /	熨斗
अद्धा / काल /	sǐ de	míng	黝	yùn dòu
时候	पेत / कालङ्कत /	अनुत्तान / गम्भीर / तिमिर / तिमिस / कण्ह / काळ / गाध /	yǒu	अय / काळायस /
shí hou	कालन्तर	变黑	काळ / काळक / कण्ह /	鐵
अद्धा / अद्धा / काल / काल /	kālantara	biàn hēi	黝黑	tiě
时候	一段	काळ / काळक / कण्ह /	yǒu hēi	काळायस / अय /
shí hòu	yī duàn	摸黑	तिमिर / कण्ह / काळ / तिमिस /	鐵頭
अद्धा / अद्धा / काल / काल /	jù hào	mō hēi	黧	tiě tóu
时间	时期	तिमिर / कण्ह / काळ / तिमिस /	lí	काळायस / अय /
shí jiān	時期	晦	काळ / तिमिस / तिमिर / कण्ह /	铁
अद्धा / काल /	時期	huì	黠	tiě
時	時期	निसा / तिमिर / काळ / तिमिस / कण्ह /	àn	अय / काळायस /
shí	時期	暗	काळ / तिमिर / कण्ह / तिमिस /	कावेय्य
काल / अद्धा /	時期	暗	काळक	kāveyya
時候	期	àn	kāḷaka	詩
shí hou	期	तिमिस / तिमिर / काळ / कण्ह /	变黑	shī
अद्धा / काल /	期	暗的	biàn hēi	पज्ज / कब्ब / कावेय्य / गेय्य /
時光	भूमि / कालन्तर /	àn de	काळ / काळक / कण्ह /	诗
shí guāng	期間	तिमिस / अनुत्तान / तिमिर / कण्ह / काळ /	污点	shī
काल / अद्धा /	期間	冥	wū diǎn	诗歌
時間	期間	míng	污點	shī gē
shí jiān	期間	कण्ह / तिमिस / काळ / तिमिर /	wū diǎn	कासु
काल / अद्धा /	कालन्तर / अद्धा / काल /	淄	काळक / पदोस /	kāsu
期间	课时	zī	淄	坑
qī jiān	kè shí	काळ / कण्ह / काळक /	zī	kēng
कालन्तर / अद्धा / काल /	कालुसिय	烏	काळ / कण्ह / काळक /	礦坑
कालकिरिया	kālusiyā	wū	玄	kuàng kēng
kālakiriya	垢	काळ / तिमिस / तिमिर / कण्ह /	xuán	किङ्कर
死	gòu	玄	काळक / कण्ह / काळ /	kin̄kara
sǐ	जल्लिका / असुचि / उक्लाप / कालुसिय /	xuán	皂	隨從
चवन / नमुचि / पेत / नास / कालकिरिया / मच्यु / कालङ्कत / अन्तक /	污	काळक / कण्ह / काळ /	zào	suí cóng
死亡	wū	皂	黎	अन्तेवासी / अन्तेवासिक / अनुचर / अनुयायी / किङ्कर /
sǐ wáng	उक्लाप / असुचि / कालुसिय / जल्लिका /	कण्ह / काळक / काळ /	lí	
चवन / नास / कालकिरिया / मच्यु / अन्तक / नमुचि /	污垢	陰暗	काळक / काळ / कण्ह /	
死地	wū gòu	yīn àn	黑	
sǐ de	उक्लाप / जल्लिका / असुचि / कालुसिय /	काळ / कालुसिय / कण्ह / तिमिस / तिमिर /	hēi	
नास / कालकिरिया / मच्यु / मच्यु / नमुचि / अन्तक / चवन / चवन /	泥	黎	काळ / तिमिस / अन्धकार / तिमिर / कण्ह / काळक / तम /	
死神	ní	lí	黑的	
sǐ shén	उक्लाप / कलल / कद्दम / जल्लिका / चिक्खल्ल / कालुसिय / असुचि / पङ्क /	काळक / काळ / कण्ह /	hēi de	
कालकिरिया / चवन / अन्तक / नास / नमुचि / मच्यु /	秒	黑	काळक / काळ / कण्ह /	
至死	huì	hēi	黑色	
zhì sǐ	कालुसिय / जल्लिका / उक्लाप / असुचि /	काळ / तिमिस / अन्धकार / तिमिर / कण्ह / काळक / तम /	hēi sè	
कालकिरिया / नमुचि / अन्तक / नास / मच्यु / चवन /	陰暗	黑乎乎	काळक / काळ / कण्ह /	
身亡	yīn àn	hēi hu hu	黝	
shēn wáng	काळ / कालुसिय / कण्ह / तिमिस / तिमिर /	कण्ह / काळ / तिमिर / तिमिस /	yǒu	
कालकिरिया / मच्यु / नास / अन्तक / नमुचि / चवन /	हैि àn	黑暗	काळ / काळक / कण्ह /	
	तिमिर / काळ / कण्ह / तिमिस / अन्धकार / तम /	hēi àn		
	黑暗的	hēi àn de		
	तिमिस / काळ / कण्ह / तिमिर /			

किच्च	服务	किच्छ	किञ्जकख	किपिल्लिका
kicca	fú wù	kiccha	kiñjakkha	kipillikā
东西	कार / पारिचरिया / उपद्धान / पेसन / किच्च / उपासन /	吃力	花粉	蚁
dōng xī		chī lì	huā fěn	yǐ
事	服務	困难	कित्ति	किपिल्लिका / पिपीलिका / पिपिल्लिका /
shì	fú wu	kùn nán	kitti	蚂
कम्म / किच्च / कम्मन्त /	उपासन / पेसन / किच्च / उपद्धान / कार / पारिचरिया /	कसिर / किच्छ /	光榮	mǎ
事情	服役	困難	guāng róng	किपिल्लिका / पिपीलिका / पिपिल्लिका /
shì qíng	fú yì	kùn nán	तेज / कित्ति /	蚂蚁
किच्च / पकरण / पञ्ह / पसङ्ग / कम्मन्त /	उपद्धान / कार / पारिचरिया / उपासन / किच्च / पेसन /	कसिर / किच्छ /	名望	mǎ yǐ
事物	本份	屯	míng wàng	किपिल्लिका / पिपिल्लिका / पिपीलिका /
shì wù	běn fèn	tún	名气	mǎ yǐ
值班	機能	किच्छ / गाम /	míng qì	किपिल्लिका / पिपिल्लिका / पिपीलिका /
zhí bān	jī néng	為難	名氣	mǎ yǐ
做事	活兒	wèi nán	míng qì	किपिल्लिका / पिपीलिका / पिपिल्लिका /
zuò shì	huó r	痛苦	名聲	किब्बि
कम्म / कम्मन्त / किच्च /	कम्म / किच्च /	tòng kǔ	míng shēng	kibbisa
券	維修	अघ / आबाध / बाधन / खेद / किच्छ / असात / दुक्ख /	名譽	犯案
quàn	wéi xiū	痛苦的	míng yù	fàn àn
किरिय / किच्च / कम्म /	उपद्धान / उपासन / किच्च / पेसन / पारिचरिया / कार /	tòng kǔ de	榮	किब्बि / अपराध /
功能	职业	खर / कटुक / किच्छ /	róng	犯罪
gōng néng	zhí yè	艰	तेज / कित्ति /	fàn zuì
在職	किच्च / कम्मन्त / कम्म /	jiān	榮耀	अपराध / दुस्सन / किब्बि /
zài zhí	著作	艱難	róng yào	犯罪率
किच्च / कम्मन्त / कम्म /	zhù zuò	jiān nán	तेज / कित्ति /	fàn zuì lǜ
外遇	कम्मन्त / पोत्थक / किच्च / कम्म / कम्म / किच्च / कम्मन्त / पोत्थक /	蹇	榮	अपराध / किब्बि /
wài yù	职业	jiǎn	róng	罪行
契	著作	कसिर / किच्छ /	कित्ति / तेज /	zuò xíng
qì	zhe zuò	难	कित्तिम	अपराध / आगु / किब्बि /
契据	कम्मन्त / पोत्थक / किच्च / कम्म / कम्म / किच्च / कम्मन्त / पोत्थक /	nán	kittima	罪過
qì jù	行动	難	人造的	zuì guò
工	xíng dòng	nán	rén zào de	असदम्म / अघ / आगु / कलि / अकसल / अतिक्कम / किब्बि / अपराध /
gōng	किरिय / किच्च / पयोग / चार / कम्म /	難以	कितव	辜
कम्मन्त / कम्म / किच्च /	責任	nán yǐ	kitava	gū
工作	zé rèn	難度	作假	किब्बि / अपराध /
gōng zuò	कातब्ब / करणीय / कत्तब्ब / किच्च /	nán dù	zuò jiǎ	किमि
कम्म / किच्च / कम्मन्त /	责任	किच्छ / कसिर /	कुहक / नेकतिक / कुह / कितव /	kimi
工夫	zé rèn	किञ्चन	作弊	蟲
gōng fū	करणीय / किच्च / कत्तब्ब /	kiñcana	zuò bì	chóng
कम्मन्त / कम्म / किच्च / कम्मन्त / कम्म / किच्च /	起作用	某事	कितव / कुहक / कुह / नेकतिक /	किमि / पुलव /
工夫	qǐ zuò yòng	mǒu shì	欺詐	
gōng fu	कम्मन्त / किच्च / कम्म /	किञ्चन / किञ्चि /	qī zhà	
कम्मन्त / कम्म / किच्च /	辦事	某物	कितव / कुहक / कुह / नेकतिक /	
役	bàn shì	mǒu wù	欺騙	
yì	कम्मन्त / किच्च / कम्म /	किञ्चन / किञ्चि /	qī piàn	
उपद्धान / कार / पेसन / उपासन / किच्च / पारिचरिया /	饭碗	diǎn r	कोहञ्ज / निकति / कितव / केराटिय / कुहना / कुहक / कुह / उपलापन / कूट / नेकतिक /	
手术	fàn wǎn	किञ्चि / किञ्चन /	欺騙	
shǒu shù	किच्च / कम्म /	किञ्चि	qī piàn	
招待		kiñci	नेकतिक / कुहक / कितव / कुह /	
zhāo dài		某事	騙	
उपद्धान / किच्च / उपासन / पारिचरिया / कार / पेसन /		mǒu shì	piàn	
服侍		किञ्चन / किञ्चि /	नेकतिक / कुह / कितव / कुहक /	
fú shì		某物	騙	
कार / उपद्धान / उपासन / पेसन / पारिचरिया / किच्च /		mǒu wù	piàn	
		किञ्चन / किञ्चि /	नेकतिक / कुह / कुहक / कितव /	
		點兒		
		diǎn r		
		किञ्चि / किञ्चन /		

किर	किरिय	किलमथ	कीळा	कोडुक
kira	kiriya	kilamatha	kāṭā	koṭṭhaka
实在	作用	疲倦	好玩	儲藏室
shí zài	zuò yòng	pí juàn	hǎo wán	chǔ cáng shì
नून / अद्दा / किर / खो / खलु / 實在	चार / निस्सन्द / कम्म / निष्फत्ति / निष्फज्जन / फल / किरिय / पयोग /	निब्बि / तन्दी / किलमथ / परिस्सम /	दव / कीळा /	कोस / कोडुक /
shí zài	券	疲勞	玩	出入口
अद्दा / किर / खो /	quàn	pí láo	wán	chū rù kǒu
果然	किरिय / किच्च / कम्म /	परिस्सम / तन्दी / किलमथ / तन्दित / निब्बि /	खिड्डा / कीळा /	कोडुक / गोपुर /
guǒ rán	動作	疲勞	球	堡壘
किर / खलु / खो / अद्दा / नून /	dòng zuò	pí láo	qiú	bǎo lěi
果真	कम्म / इज्जन / पयोग / चार / किरिय /	किलमथ / परिस्सम /	कन्दुक / आयतन / कीळा / गुळ / घटिका /	壁櫪
guǒ zhēn	性能	किलेस	कोक	bì chú
अद्दा / किर / नून / खलु / खो /	xìng néng	kilesa	koka	寨
洵	績	激情	狼	zhài
xún	jī	jī qíng	láng	砦
當真	績	किस	कोच्छ	zhài
dāng zhēn	jī	kisa	koccha	खन्धावार / कोडुक /
खो / किर /	किरिय / किरिय /	किसा	刷	要塞
真地	績	憔悴的	shuā	yào sǎi
zhēn de	jì	qiáo cuì de	刷子	कोडुक / कोडुक / बल / नगर / नगर /
खो / किर / किर / खो /	किरिय / किरिय /	शुआ रुओ दे	shuā zi	要塞
真地	行功	कीर	毛刷	yào sài
zhēn dì	xíng dòng	kīra	máo shuā	कोडुक / कोडुक / बल / नगर / नगर /
खो / किर / किर / खो /	किरिय / किच्च / पयोग / चार / कम्म /	鸚鵡	कोजव	
真狗	行動	yīng wǔ	kojava	
zhēn gòu	xíng dòng	鸚	地毯	
खो / किर /	चार / कम्म / पयोग / किरिय /	wǔ	dì tǎn	
真实地	表現	鸚	अत्थर / अत्थर / कोजव / कोजव /	
zhēn shí dì	biǎo xiàn	yīng	地毯	
खो / किर /	किरीट	鸚鵡	de tǎn	
真是	kirīṭa	yīng wǔ	अत्थर / अत्थर / कोजव / कोजव /	
zhēn shì	冕	कील	कोडु	
खो / किर /	miǎn	kīla	koṭṭha	
真正地	किरीट / मकुट /	柱	下腹	
zhēn zhèng dì	冠	zhù	xià fù	
अद्दा / किर / खो /	guān	कील / कुपक / बाहा / आलान / आळान / खील / खाणु / थम्भ /	उदर / कोडु /	
真的	मकुट / किरीट / चूळा /	椿	肚	
zhēn de	冠冕	zhuāng	dù	
खो / किर / खलु / अद्दा / नून /	guān miǎn	पञ्ज / खील / कील /	कोडु / उदर / आमासय / जठर /	
किरण	加冕	कीळनक	肚子	
kiraṇa	jjā miǎn	kīṇanaka	dù zi	
光線	किरीट / मकुट /	玩具	जठर / कोडु / उदर /	
guāng xiàn	王冠	wán jù	腹	
अवभास / पदीप / निभा / पभास / पज्जोत / पभा / भानु / कर / जोति / आलोक / किरण / दित्ति / भा / आभा /	wáng guān	कीळना	fù	
光輝	किरीट / मकुट /	kīṇānā	जठर / उदर / कोडु / आमासय /	
guāng huī	王权	歡樂	腹部	
तेज / किरण / जुति / आभा / जोति /	wáng quán	huan lè	fù bù	
		पमोद / आनन्द / कीळना / तुड्डि / पामोज्ज / पीति / नन्दि / केळी / तुस्सना / पामुज्ज /	कोडु / उदर / जठर /	

कोट्टास	कोटि
koṭṭhāsa	koṭi
一部份	下場
yī bù fèn	xià chǎng
अवयव / पटिविस / भाग / अंस / कोट्टास /	कोण / परिनिद्धान / परियन्त / अन्त / परियोसान / अग्ग / अवसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान /
一部分	告終
yī bù fēn	gào zhōng
भाग / कोट्टास / पटिविस /	अपवग्ग / कोण / अन्त / ओसान / परियोसान / अग्ग / निद्दा / परिनिद्धान / अवसान / परियन्त / कोटि /
份	完結
fèn	wán jié
भाग / पटिविस / पत्ति / कोट्टास / अंस / अवयव /	निद्दा / कोटि / ओसान / परियन्त / अन्त / अपवग्ग / परियोसान / अवसान / परिनिद्धान / कोण / अग्ग /
共享	完結
gòng xiǎng	wán jié
पत्ति / भाग / कोट्टास / पटिविस /	निद्दा / कोटि / ओसान / परियन्त / अन्त / अपवग्ग / परियोसान / अवसान / परिनिद्धान / कोण / अग्ग /
共用	完結
gòng yòng	wán jié
पटिविस / पत्ति / कोट्टास / भाग /	परियन्त / परिनिद्धान / ओसान / अवसान / अन्त / निद्दा / अग्ग / अपवग्ग / कोण / परियोसान / कोटि /
分享	底
fēn xiǎng	dǐ
पत्ति / पटिविस / कोट्टास / भाग /	ओसान / अवसान / परियन्त / पद / कोण / परियोसान / निद्दा / परिनिद्धान / पाद / अग्ग / अपवग्ग / अन्त / कोटि /
股	指出
gǔ	zhǐ chū
भाग / पत्ति / अवयव / पटिविस / अंस / कोट्टास /	月底
股份	yuè dǐ
gǔ fèn	परियोसान / अग्ग / अन्त / परियन्त / अवसान / ओसान / कोण / निद्दा / कोटि / परिनिद्धान / अपवग्ग /
पटिविस / भाग / पत्ति / कोट्टास /	月末
股票	yuè mò
gǔ piào	कोण / अवसान / ओसान / परिनिद्धान / निद्दा / परियन्त / अन्त / अग्ग / कोटि / अपवग्ग / परियोसान /
पटिविस / पत्ति / कोट्टास / भाग /	末
部份	mò
bù fèn	परिनिद्धान / अपवग्ग / अग्ग / परियोसान / ओसान / निद्दा / अवसान / अन्त / कोटि / परियन्त / कोण /
अंस / कोट्टास / अवयव / पटिविस / भाग /	末尾
部分	mò wěi
bù fēn	अन्त / परियोसान / कोटि / परियन्त / ओसान / निद्दा / अपवग्ग / अग्ग / अवसान / कोण / परिनिद्धान /
कोट्टास / पत्ति / अवयव / अंस / पटिविस / भाग /	末端
	mò duān
	अवसान / अग्ग / परिनिद्धान / अन्त / परियोसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान / परियन्त / कोण /
	止境
	zhǐ jìng
	कोण / अग्ग / परियोसान / अन्त / कोटि / परियन्त / ओसान / अवसान / परिनिद्धान / अपवग्ग / निद्दा /
	点
	diǎn

盡頭	jǐn tóu
कोण / अन्त / परियन्त / अग्ग / परिनिद्धान / परियोसान / अवसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान /	端
端	duān
अन्त / कोण / अपवग्ग / परिनिद्धान / कोटि / अवसान / निद्दा / परियोसान / ओसान / परियन्त / अग्ग /	端上
端上	duān shàng
कोण / कोटि / अवसान / परिनिद्धान / अग्ग / ओसान / अपवग्ग / परियोसान / निद्दा / अन्त / परियन्त /	終
終	zhōng
परियन्त / कोटि / अपवग्ग / परियोसान / अवसान / अग्ग / कोण / अन्त / ओसान / परिनिद्धान / निद्दा /	終結
終結	zhōng jié
ओसान / खय / अन्त / परिनिद्धान / अपवग्ग / परियोसान / अग्ग / परियन्त / अवसान / कोटि / कोण / निद्दा /	終點
終點	zhōng diǎn
कोण / परियोसान / ओसान / अन्त / निद्दा / कोटि / परिनिद्धान / अपवग्ग / अग्ग / परियन्त / अवसान /	結束
結束	jié shù
परियोसान / अन्त / ओसान / निद्दा / कोण / अग्ग / परियन्त / अपवग्ग / परिनिद्धान / अवसान / निद्धान / कोटि /	終
終	zhōng
कोटि / परिनिद्धान / अवसान / निद्दा / अग्ग / कोण / अपवग्ग / परियन्त / ओसान / परियोसान / अन्त /	終結
終結	zhōng jié
परियोसान / निद्दा / परिनिद्धान / अपवग्ग / अवसान / कोण / ओसान / अन्त / कोटि / परियन्त / अग्ग /	結束
結束	jié shù
कोटि / ओसान / अवसान / अग्ग / परियोसान / अपवग्ग / परियन्त / अन्त / निद्दा / कोण / परिनिद्धान /	邊
邊	qiū
अवसान / परियन्त / परिनिद्धान / ओसान / कोण / अपवग्ग / अन्त / निद्दा / परियोसान / अग्ग / कोटि /	點
點	diǎn
कोटि / बिन्दु /	

कोण	koṇa
下場	xià chǎng
कोण / परिनिद्धान / परियन्त / अन्त / परियोसान / अग्ग / अवसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान /	告終
告終	gào zhōng
अपवग्ग / कोण / अन्त / ओसान / परियोसान / अग्ग / निद्दा / परिनिद्धान / अवसान / परियन्त / कोटि /	完結
完結	wán jié
निद्दा / कोटि / ओसान / परियन्त / अन्त / अपवग्ग / परियोसान / अवसान / परिनिद्धान / कोण / अग्ग /	完結
完結	wán jié
परियन्त / परिनिद्धान / ओसान / अवसान / अन्त / निद्दा / अग्ग / अपवग्ग / कोण / परियोसान / कोटि /	底
底	dǐ
ओसान / अवसान / परियन्त / पद / कोण / परियोसान / निद्दा / परिनिद्धान / पाद / अग्ग / अपवग्ग / अन्त / कोटि /	弓
弓	gōng
धनु / इस्सास / चाप / कोण /	月底
月底	yuè dǐ
परियोसान / अग्ग / अन्त / परियन्त / अवसान / ओसान / कोण / निद्दा / कोटि / परिनिद्धान / अपवग्ग /	月末
月末	yuè mò
कोण / अवसान / ओसान / परिनिद्धान / निद्दा / परियन्त / अन्त / अग्ग / कोटि / अपवग्ग / परियोसान /	末
末	mò
परिनिद्धान / अपवग्ग / अग्ग / परियोसान / ओसान / निद्दा / अवसान / अन्त / कोटि / परियन्त / कोण /	末尾
末尾	mò wěi
अन्त / परियोसान / कोटि / परियन्त / ओसान / निद्दा / अपवग्ग / अग्ग / अवसान / कोण / परिनिद्धान /	船首
船首	chuán shǒu
धनु / चाप / कोण / इस्सास /	街角
街角	jiē jiǎo
कोण / कण्ण /	角落
角落	jiǎo luò
कण्ण / कोण /	躬
躬	gōng
इस्सास / धनु / कोण / चाप /	

盡頭	jǐn tóu
कोण / अन्त / परियन्त / अग्ग / परिनिद्धान / परियोसान / अवसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान /	端
端	duān
अन्त / कोण / अपवग्ग / परिनिद्धान / कोटि / अवसान / निद्दा / परियोसान / ओसान / परियन्त / अग्ग /	端上
端上	duān shàng
कोण / कोटि / अवसान / परिनिद्धान / अग्ग / ओसान / अपवग्ग / परियोसान / निद्दा / अन्त / परियन्त /	終
終	zhōng
परियन्त / कोटि / अपवग्ग / परियोसान / अवसान / अग्ग / कोण / अन्त / ओसान / परिनिद्धान / निद्दा /	終結
終結	zhōng jié
ओसान / खय / अन्त / परिनिद्धान / अपवग्ग / परियोसान / अग्ग / परियन्त / अवसान / कोटि / कोण / निद्दा /	終點
終點	zhōng diǎn
कोण / परियोसान / ओसान / अन्त / निद्दा / कोटि / परिनिद्धान / अपवग्ग / अग्ग / परियन्त / अवसान /	結束
結束	jié shù
परियोसान / अन्त / ओसान / निद्दा / कोण / अग्ग / परियन्त / अपवग्ग / परिनिद्धान / अवसान / निद्धान / कोटि /	終
終	zhōng
कोटि / परिनिद्धान / अवसान / निद्दा / अग्ग / कोण / अपवग्ग / परियन्त / ओसान / परियोसान / अन्त /	終結
終結	zhōng jié
परियोसान / निद्दा / परिनिद्धान / अपवग्ग / अवसान / कोण / ओसान / अन्त / कोटि / परियन्त / अग्ग /	結束
結束	jié shù
कोटि / ओसान / अवसान / अग्ग / परियोसान / अपवग्ग / परियन्त / अन्त / निद्दा / कोण / परिनिद्धान /	船首
船首	chuán shǒu
धनु / चाप / कोण / इस्सास /	街角
街角	jiē jiǎo
कोण / कण्ण /	角落
角落	jiǎo luò
कण्ण / कोण /	躬
躬	gōng
इस्सास / धनु / कोण / चाप /	

转角
zhuǎn jiǎo
कण्ण / कोण /
迮
qiú
अवसान / परियन्त / परिनिदान / ओसान / कोण / अपवग्ग / अन्त / निद्दा / परियोसान / अग्ग / कोटि /
陬
zōu
कण्ण / कोण /
隅
yú
कोण / कण्ण /
鞠躬
jū gōng
चाप / इस्सास / धनु / कोण / पणाम /

कोत्हल
kotūhala
刺激
cì jī
कोत्हल / कुत्हल / उब्बेग / अनुबल /
好奇心
hǎo qí xīn

कोध
kodha
忿怒
fèn nù
कोध / दोस / दुस्सन / कुप्पन / अभिसज्जन /
怒
nù
दोस / कोध / पकोप /
怒火
nù huǒ
कोध / दोस / पकोप /
佛
fú
पकोप / दोस / कोध /
愤
fèn
दोस / कोध / पकोप /
愤怒
fèn nù
दोस / कोध / पकोप /
憤怒
fèn nù
कोध / दोस / पकोप /

कोधन
kodhana
不受控制的
bù shòu kòng zhì de
易怒的
yì nù de

कोप
kopa
激怒
jī nù
कोप / पकोप / पटिघ / आघात / पदोस /

कोमुदी
komudī
月光
yuè guāng
जुण्हा / कोमुदी / चन्द / चन्दिका / चन्दिमा /
कोमार
komāra
少年
shǎo nián
दहर / कुमारक / दारक / कोमार / कुमार /
年轻的
nián qīng de
तरुण / कोमार /

कोरक
koraka
花蕾
huā lěi
मुकुल / जालक / कोरक / मुकुल /
芽
yá
मकुल / मुकुल / पवाळ / कोरक / जालक /
苞
bāo
कोरक / मुकुल / मुकुल / जालक /
萌芽
méng yá
मकुल / जालक / मुकुल / कोरक /
蕾
lěi
जालक / मुकुल / कोरक / मुकुल /

कोलक
kolaka
椒
jiāo
胡椒
hú jiāo

कोविद
kovida
精通的
jīng tōng de

कोस
kosa
儲藏室
chǔ cáng shì
कोस / कोडक /
庫房
kù fáng
鞞
qiào
कोस / कोसी /

कोसक
kosaka
一杯
yī bēi
一杯量
yī bēi liàng
杯
bēi
काच / कोसक /
杯子
bēi zi
काच / कोसक /
獎杯
jiǎng bēi
盂
yú
पुटक / पुट / कोसक / पेळा / आधार /
盃
bēi
盅
zhōng
茶杯
chá bēi

कोसज्ज
kosajja
怠惰
dài duò
तन्दी / कोसज्ज / आलस्य / आलसिय /
कोसफल
kosaphala
肉豆寇
ròu dòu kòu
कोसल्ल
kosalla
精通
jīng tōng
कोसिक
kosika
熬夜的人
áo yè de rén
उळम्प / कोसिक /
猫头鹰
māo tóu yīng
कोसिक / उळम्प /
貓頭鷹
māo tóu yīng
कोसिक / उळम्प /
कोसी
kosī
鞞
qiào
कोस / कोसी /

कोहञ्ज
kohañña
欺騙
qī piàn
कोहञ्ज / निकति / कितव / केराटिय / कुहना / कहक / कह / उपलापन / कूट / नेकैतिक /

ख
kha
天
tiān
अब्भ / दिवस / अण्ह / अघ / नाक / देव / आकास / अम्बर / दिव / दिन / ख / अन्तळिकख /
天界
tiān jiè
देव / ख / अघ / अब्भ / आकास / अम्बर / अन्तळिकख /
天空
tiān kōng
अन्तळिकख / अघ / दिव / आकास / अब्भ / नाक / तारा / अनिल / ख / अम्बर / देव / तारका /
雲霄
yún xiāo
देव / अम्बर / अन्तळिकख / ख / अब्भ / आकास / अघ /

खग
khaga
雀
què
खग / द्विज / दिज /
鳥
niǎo
द्विज / दिज / खग /
鳥
niǎo
द्विज / खग / द्विज /

खज्जु
khajju
痒
yǎng
कच्छु / खज्जु /
痒痒
yǎng yǎng
कच्छु / खज्जु /
癢
yǎng
कच्छु / खज्जु /

खज्ज
khañja
跛足的
bǒ zú de
खज्ज / पङ्गु / पङ्गुल /

खे
xhe
包庇
bāo bì
पापुरण / छदन / खेटक / पच्चत्थरण / खेट / पिधान / अपिधान / पच्छाद /
屏蔽
píng bì
खेटक / खेट /
盾
dùn
खेट / खेटक /
盾牌
dùn pái
खेटक / खेट /
盾
dùn
खेट / खेटक /
盾牌
dùn pái
खेटक / खेट /

खे
xhe
包庇
bāo bì
पापुरण / छदन / खेटक / पच्चत्थरण / खेट / पिधान / अपिधान / पच्छाद /
屏蔽
píng bì
खेटक / खेट /
盾
dùn
खेट / खेटक /
盾牌
dùn pái
खेटक / खेट /
盾
dùn
खेट / खेटक /
盾牌
dùn pái
खेटक / खेट /

खे
xhe
包庇
bāo bì
पापुरण / छदन / खेटक / पच्चत्थरण / खेट / पिधान / अपिधान / पच्छाद /
屏蔽
píng bì
खेटक / खेट /
盾
dùn
खेट / खेटक /
盾牌
dùn pái
खेटक / खेट /
盾
dùn
खेट / खेटक /
盾牌
dùn pái
खेटक / खेट /

खे
xhe
包庇
bāo bì
पापुरण / छदन / खेटक / पच्चत्थरण / खेट / पिधान / अपिधान / पच्छाद /
屏蔽
píng bì
खेटक / खेट /
盾
dùn
खेट / खेटक /
盾牌
dùn pái
खेटक / खेट /

खे
xhe
包庇
bāo bì
पापुरण / छदन / खेटक / पच्चत्थरण / खेट / पिधान / अपिधान / पच्छाद /
屏蔽
píng bì
खेटक / खेट /
盾
dùn
खेट / खेटक /
盾牌
dùn pái
खेटक / खेट /

खे
xhe
包庇
bāo bì
पापुरण / छदन / खेटक / पच्चत्थरण / खेट / पिधान / अपिधान / पच्छाद /
屏蔽
píng bì
खेटक / खेट /
盾
dùn
खेट / खेटक /
盾牌
dùn pái
खेटक / खेट /

खे
xhe
包庇
bāo bì
पापुरण / छदन / खेटक / पच्चत्थरण / खेट / पिधान / अपिधान / पच्छाद /
屏蔽
píng bì
खेटक / खेट /
盾
dùn
खेट / खेटक /
盾牌
dùn pái
खेटक / खेट /

खे
xhe
包庇
bāo bì
पापुरण / छदन / खेटक / पच्चत्थरण / खेट / पिधान / अपिधान / पच्छाद /
屏蔽
píng bì
खेटक / खेट /
盾
dùn
खेट / खेटक /
盾牌
dùn pái
खेटक / खेट /

खे
xhe
包庇
bāo bì
पापुरण / छदन / खेटक / पच्चत्थरण / खेट / पिधान / अपिधान / पच्छाद /
屏蔽
píng bì
खेटक / खेट /
盾
dùn
खेट / खेटक /
盾牌
dùn pái
खेटक / खेट /

खे
xhe
包庇
bāo bì
पापुरण / छदन / खेटक / पच्चत्थरण / खेट / पिधान / अपिधान / पच्छाद /
屏蔽
píng bì
खेटक / खेट /
盾
dùn
खेट / खेटक /
盾牌
dùn pái
खेटक / खेट /

खे
xhe
包庇
bāo bì
पापुरण / छदन / खेटक / पच्चत्थरण / खेट / पिधान / अपिधान / पच्छाद /
屏蔽
píng bì
खेटक / खेट /
盾
dùn
खेट / खेटक /
盾牌
dùn pái
खेटक / खेट /

खण	खुद्द	खन्ति	खेप	खय
khana	khudda	khanti	khepa	khaya
一刻	子	寬容	投	廢物
yī kè	jié	kuān róng	tóu	fèi wù
分	खुद्द / थोक / अप्पक / अप्प / चुल्ल / परित्त /	寬恕	पात / पास / खेप /	परिक्खय / खय /
fēn	小	kuān shù	投擲	浪費
分鐘	xiǎo	पच्चाहार / खन्ति /	tóu zhì	làng fèi
fēn zhōng	अप्पक / चुल्ल / थोक / खुद्द / परित्त / अप्प /	希望	खेम	परिक्खय / खय /
分钟	小班	xī wàng	khema	浪費
fēn zhōng	xiǎo bān	खन्ति / अभिकङ्खित / अभिकङ्खन / आसा / अपेक्खन / आसिसना / अभिरुचि / इच्छन / अभिलासा /	保險箱	làng fèi
时刻	परित्त / अप्प / खुद्द / अप्पक / थोक / चुल्ल /	忍耐	bǎo xiǎn xiāng	खय / परिक्खय /
shí kè	小的	rěn nài	खेम / अभय /	白費
shí jī	xiǎo de	अधिवासना / खमन / खन्ति / तित्तिक्खा /	太平	bái fèi
पसङ्ग / खण / पकरण /	अप्पक / खुद्द / थोक / परित्त / चुल्ल / अप्प /	特赦	tài píng	परिक्खय / खय /
時刻	微小	tè shè	安	破壞
shí kè	wēi xiǎo	耐力	ān	pò huài
時機	परित्त / खुद्द / अप्प / थोक / अप्पक / चुल्ल /	nài lì	अभय / निब्बुति / खेम /	अत्थ / घात / नास / उपच्छेद / भञ्जन / अपचिन्न / निग्घातन / पीठन / नासन / खय / नस्सन /
shí jī	渺小	nài xīn	安全	終結
會兒	miǎo xiǎo	अधिवासना / खमन / अधिवासक / खन्ति /	ān quán	zhōng jié
huì r	परित्त / अप्प / चुल्ल / खुद्द / थोक / अप्पक /	耐性	पाटिभोग / अभय / खेम /	ओसान / खय / अन्त / परिनिट्ठान / अपवग्ग / परियोसान / अग्ग / परियन्त / अवसान / कोटि / कोण / निट्ठा /
机会	芮	nài xìng	ān quán dì	虛度
jī huì	ruì	खमन / खन्ति /	穩妥	虛度
पसङ्ग / ओकास / पकरण / खण /	अप्पक / खुद्द / अप्प / थोक / परित्त / चुल्ल /	赦免	wěn tuǒ	xū dù
機會	芮	shè miǎn	खेम / अभय /	खय / परिक्खय /
jī huì	fèi	饒恕	खमन	衰退
अवसर / ओकास / ओतार / खण /	अप्प / खुद्द / थोक / परित्त / चुल्ल / अप्पक /	ráo shù	khamana	shuāi tuì
片刻	叢	खन्ध	容忍	खय / जरा / जरता /
piàn kè	zuì	khandha	róng rěn	
瞬間	अप्प / अप्पक / चुल्ल / थोक / खुद्द / परित्त /	區	忍受	
shùn jiān	薄	qū	rěn shòu	
瞬間	bó	大批	忍耐	
shùn jiān	थोक / परित्त / अप्प / परित्त / अप्प / चुल्ल / तनु / चुल्ल / अप्पक / खुद्द / अप्पक / खुद्द / थोक / तनु /	dà pī	rěn nài	
關頭	藐	彌撒	अधिवासना / खमन / खन्ति / तित्तिक्खा /	
guān tóu	miǎo	mí sā	耐性	
खण्ड	薄	形成	nài xìng	
khanda	báo	xíng chéng	खमन / खन्ति /	
壞掉	थोक / परित्त / अप्प / परित्त / अप्प / चुल्ल / तनु / चुल्ल / अप्पक / खुद्द / अप्पक / खुद्द / थोक / तनु /	खन्धावार		
huài diào	藐	khandhāvāra		
खण्ड / भग्ग /	miǎo	安营		
破	थोक / परित्त / अप्पक / खुद्द / चुल्ल / अप्प /	ān yíng		
pò	裨	營		
खण्ड / भग्ग /	bì	yíng		
破碎	खुद्द / परित्त / अप्प / चुल्ल / थोक / अप्पक /	砦		
pò suì	bi	zhài		
भग्ग / खण्ड /	खुद्द / परित्त / अप्प / चुल्ल / थोक / अप्पक /	खन्धावार / कोट्टक /		
खेद		营		
kheda		yíng		
痛苦		陣營		
tòng kǔ		zhèn yíng		
अघ / आबाध / बाधन / खेद / किच्छ / असात / दुक्ख /		集中營		
遺憾		jí zhōng yíng		
yí hàn		露營		
		lù yíng		

खर	辛
khara	xīn
伧	निडुर / खर / थद्द / कक्खळ / कठिन /
cāng	辛苦
थूल / कक्कस / कठिन / खळ / कक्खळ / खर / निडुर /	xīn kǔ
使勁	थद्द / निडुर / कठिन / कक्खळ / खर /
shǐ jìn	銳
थद्द / निडुर / कठिन / कक्खळ / खर /	ruì
固	कटुक / तिण्ह / खर / तिप्प /
gù	鋒利
थिर / एकघन / घन / खर / दळ्ह /	fēng lì
尖銳	कटुक / तिप्प / खर / तिण्ह /
jiān ruì	銳
तिण्ह / खर / कटुक / तिप्प /	ruì
尖锐	कटुक / तिप्प / तिण्ह / खर /
jiān ruì	खुर
तिप्प / कटुक / तिण्ह / खर /	khura
尖锐的	剃刀
jiān ruì de	tì dāo
तिप्प / खर / तिण्ह / कटुक /	蹄
急劇	tí
jí jù	खतु
कटुक / तिण्ह / तिप्प / खर /	khalu
犀利	实在
xī lì	shí zài
कटुक / तिप्प / खर / तिण्ह /	नून / अद्दा / किर / खो / खलु /
痛苦的	實際上
tòng kǔ de	shí jì shàng
खर / कटुक / किच्छ /	खो / अद्दा / खलु / नून /
硬	果然
yìng	guǒ rán
थिर / कक्खळ / निडुर / कठिन /	किर / खलु / खो / अद्दा / नून /
खर / असिथिल / दळ्ह / उपत्यद्द / थद्द /	果真
硬殼	guǒ zhēn
yìng ké	अद्दा / किर / नून / खलु / खो /
थद्द / कठिन / निडुर / कक्खळ /	當然
खर /	dāng rán
硬的	ननु / एकन्त / खो / खलु / नून /
yìng de	अद्दा /
उपत्यद्द / निडुर / असिथिल / खर /	的確
कक्खळ / थद्द / कठिन /	de què
粗	खो / खलु / अद्दा / नून /
cū	真的
कठिन / गम्म / खर / कक्कस /	zhēn de
घन / खळ / कक्खळ / बहल /	खो / किर / खलु / अद्दा / नून /
गहन / ओळारिक / थूल / निडुर /	确
粗糙的	què
cū cāo de	नून / खो / खलु / अद्दा /
कठिन / थूल / निडुर / ओळारिक /	確
दारुण / कक्कस / खळ / गम्म /	què
कक्खळ / खर /	खलु / नून / अद्दा / खो /
糙	確實
cāo	què shí
खर / निडुर / कक्कस / कक्खळ /	नून / खलु / खो / अद्दा /
कठिन / थूल / खळ /	खलित
艱苦	khālita
jiān kǔ	過失
कठिन / कक्खळ / थद्द / निडुर /	guò shī
खर /	खलित / निग्गह / अज्जाचार /
草	दोस / अपाय / छिद्द / ओतार /
cǎo	
पलाल / खर / कठिन / कक्खळ /	
थूल / तिण / खळ / निडुर /	
कक्कस /	

खळ	खादनीय
khāḷa	khādaniya
伧	甜食
cāng	tián shí
थूल / कक्कस / कठिन / खळ /	糖果
कक्खळ / खर / निडुर /	táng guǒ
卑鄙的人	खिड्डा
bēi bǐ de rén	khidḍā
流氓	奏
liú máng	zòu
無賴	娛樂
wú lài	yú lè
粗	嬉
cū	xī
कठिन / गम्म / खर / कक्कस /	戏
घन / खळ / कक्खळ / बहल /	xì
गहन / ओळारिक / थूल / निडुर /	戲
粗略的	xì
cū luè de	打球
粗糙的	dǎ qiú
cū cāo de	扮
कठिन / थूल / निडुर / ओळारिक /	扮
दारुण / कक्कस / खळ / गम्म /	ban
कक्खळ / खर /	抹
糙	mō
cāo	游戏
खर / निडुर / कक्कस / कक्खळ /	yóu xì
कठिन / थूल / खळ /	खिड्डा / नच्च /
苛刻	演
kē kè	yǎn
खळ / कक्कस / कक्खळ / दारुण /	玩
草	wán
cǎo	खिड्डा / कीळा /
पलाल / खर / कठिन / कक्खळ /	玩兒
थूल / तिण / खळ / निडुर /	wán r
कक्कस /	玩弄
खेळ	wán nòng
khēḷa	玩耍
口水	wán shuǎ
kǒu shuǐ	耍
एळा / खेळ / एला /	shuǎ
唾	踢球
tuò	tī qiú
खेळ / एला / एळा /	
唾液	
tuò yè	
खेळ / एला / एळा /	
涎	
xián	
खेळ / एळा / एला /	
खाणु	
khāṇu	
柱	
zhù	
कील / कूपक / बाहा / आलान /	
आळान / खील / खाणु / थम्भ /	
खादन	
khādana	
吃	
chī	
खादन / असन / भोत्तुं / अनुभवन /	
भक्खन /	

खिप्प	hippa
徇	xùn
खिप्प / तुरित /	很快地
hěn kuài dì	
तुरित / आसु / तुवटं / खिप्पं /	
अविलम्बितं / खिप्प /	快
快	kuài
खिप्प / थिर / तुरित /	快的
快的	kuài de
खिप्प / तुरित /	快速
快速	kuài sù
खिप्प / तुरित /	速
速	sù
खिप्प / तुरित / जव / थिर /	
खिप्पं	hippam
很快	hěn kuài
तुवटं / खिप्पं / अविलम्बितं / आसु /	
很快地	hěn kuài dì
हैन कुअै दि	तुरित / आसु / तुवटं / खिप्पं /
तुरित / आसु / तुवटं / खिप्पं /	अविलम्बितं / खिप्प /
趕快	gǎn kuài
अविलम्बितं / तुवटं / आसु / खिप्पं /	
趕快	gǎn kuài
तुवटं / अविलम्बितं / खिप्पं / आसु /	
迅速地	xùn sù dì
खिप्पं / तुवटं / तुरित /	
अविलम्बितं / आसु /	
खीर	khīra
乳	rǔ
पय / खीर / दुद्द / उर /	乳汁
乳汁	rǔ zhī
खीर / पय / दुद्द /	吸奶
吸奶	xī nǎi
खीर / उर /	奶
奶	nǎi
खीर / पय / दुद्द /	牛奶
牛奶	niú nǎi
पय / खीर / दुद्द /	

खील	खो	खोभ	गङ्गा	गण
khīla	kho	khobha	gaṅgā	gaṇa
柱	实在	休克	川	一群
zhù	shí zài	xiū kè	chuān	yī qún
कील / कूपक / बाहा / आलान / आळान / खील / खाणु / थम्भ /	नून / अद्दा / किर / खो / खलु /	चाल / खोभ /	गङ्गा / आपगा / नदी /	निकाय / गण / देव /
樁	實在	惊	水系	人潮
zhuāng	shí zài	jīng	shuǐ xì	rén cháo
पुञ्ज / खील / कील /	अद्दा / किर / खो /	चाल / खोभ /	गङ्गा / नदी / आपगा /	人群
	實際上	激動	江	rén qún
	shí jì shàng	jī dòng	jiāng	众
	खो / अद्दा / खलु / नून /	चलन / पकोप / फन्दित / फन्दन / कूपन / उब्बिज्जना / आलोळ / परितस्सना / खोभ /	आपगा / गङ्गा / नदी /	zhòng
	果然	震	河	擁擠
	guǒ rán	zhèn	hé	yōng jǐ
	किर / खलु / खो / अद्दा / नून /	खोभ / चाल /	गङ्गा / आपगा / नदी /	支部
	果真	震動	河口	zhī bù
	guǒ zhēn	zhèn dòng	hé kǒu	眾
	अद्दा / किर / नून / खलु / खो /	खोभ / चाल /	河川	zhòng
	當然	震動	hé chuān	組
	dāng rán	zhèn dòng	नदी / आपगा / गङ्गा /	zǔ
	ननु / एकन्त / खो / खलु / नून / अद्दा /	चाल / तूणीर / तूण / खोभ /	河水	निकाय / गण /
	當真	震撼	hé shuǐ	群
	dāng zhēn	zhèn hàn	गङ्गा / नदी / आपगा /	qún
	खो / किर /	चाल / खोभ /	河流	निकाय / गण / उद्दान /
	的確	震驚	hé liú	隊
	de què	zhèn jīng	गङ्गा / नदी / आपगा /	duì
	खो / खलु / अद्दा / नून /	खोभ / चाल /	河裡	गुण
	真地	驚	hé li	guṇa
	zhēn dì	jīng	आपगा / गङ्गा / नदी /	品質
	खो / किर / किर / खो /	खोभ / चाल /	流	pǐn zhì
	真地	驚恐	liú	गुण / अङ्ग /
	zhēn de	jīng kǒng	ओघ / गङ्गा / अस्सव /	品質
	खो / किर / किर / खो /	चाल / खोभ /	गच्छ	pǐn zhì
	真夠		gaccha	गुण / अङ्ग /
	zhēn gòu		事业	質
	खो / किर /		shì yè	zhì
	真实地		गच्छ / निदान /	गुण / अङ्ग /
	zhēn shí dì		厂	質量
	खो / किर /		chǎng	zhì liàng
	真是		工場	अङ्ग / गुण /
	zhēn shì		gōng chǎng	质
	खो / किर /		廠	zhì
	真正地		chǎng	अङ्ग / गुण /
	zhēn zhèng dì		株	質量
	अद्दा / किर / खो /		zhū	zhì liàng
	真的		栽	गुण / अङ्ग /
	zhēn de		zāi	
	खो / किर / खलु / अद्दा / नून /		植	
	确		zhí	
	què		植物	
	नून / खो / खलु / अद्दा /		zhí wù	
	確		गज	
	què		gaja	
	खलु / नून / अद्दा / खो /		大象	
	確實		dà xiàng	
	què shí		कञ्जर / कणेरु / इभ / नाग / करी / गज / दिवप /	
	नून / खलु / खो / अद्दा /		象	
			xiàng	
			दिवप / करी / इभ / नाग / इव / कणेरु / कृञ्जर / गज /	

गणना	गत्त	गुत्ति	गूथ	गद
ganānā	gatta	gutti	gūtha	gada
号	体	保护	大便	作響
hào	tǐ	bǎo hù	dà biàn	zuò xiǎng
号码	गत्त / कलेबर / बोन्दि / काय / देह / करजकाय /	अनुपालन / तायन / पटिसरण / आरक्खा / निस्सय / अनुरक्खा / परिहार / गोपन / अनुरक्खन / गुत्ति / नाथ / अभिरक्खन / ताण / पालन /	गूथ / असुचि / उक्कार / उच्चार / करीस /	गद / धनित / निन्नाद / घोस / 健全
hào mǎ	身		排泄物	jàn quán
多寡	shēn		pái xiè wù	गद / धनित / घोस / निन्नाद /
duō guǎ	पाण / काय / करजकाय / जीव / गत्त / कलेबर / देह / चरित / बोन्दि /	保護	गूथ / करीस / उक्कार / असुचि / उच्चार /	呕心
数	身上	bǎo hù	糞	ǒu xīn
shù	shēn shàng	तायन / गोपन / गुत्ति / परिहार / अनुरक्खा / अनुरक्खन / पटिसरण / नाथ / अभिरक्खन / आरक्खा / अनुपालक / पालन / अनुपालन / निस्सय / ताण /	fèn	गेलञ्ज / गद /
数字	करजकाय / कलेबर / काय / देह / बोन्दि / गत्त /	守卫	उक्कार / असुचि / करीस / गूथ /	嚙
shù zì	身体	shǒu wèi		hāo
數	shēn tǐ	आरक्खक / गुत्ति /		घोस / धनित / गद / निन्नाद /
shù	कलेबर / देह / करजकाय / बोन्दि / गत्त / काय /	守衛		声
數目	身子	shǒu wèi		shēng
shù mù	shēn zi	आरक्खक / गुत्ति /		धनित / निन्नाद / घोस / गद /
算术	बोन्दि / काय / कलेबर / गत्त / करजकाय / देह /	守護		声音
suàn shù	身體	shǒu wèi		shēng yīn
算術	shēn tǐ	把守		गद / धनित / निन्नाद / घोस / 恙
suàn shù	कलेबर / देह / गत्त / करजकाय / काय / बोन्दि /	bǎ shǒu		yàng
編號	體	गुत्ति / आरक्खक /		आतङ्क / गद / गेलञ्ज / आमय /
biān hào	shēn tǐ	注意		有聲
编号	tǐ	zhù yì		yǒu shēng
biān hào	बोन्दि / देह / काय / गत्त / कलेबर / करजकाय /	चित्तीकार / गुत्ति / गारव / अचचना / गोपन / परिहार / अविप्पवास /		घोस / गद / धनित / निन्नाद /
號	號碼	看守		演講
hào	hào mǎ	kàn shǒu		yǎn jiǎng
號碼	計算	आरक्खक / गुत्ति / आरक्खा /		भासन / उदाहार / अभिलाप / गद /
hào mǎ	jì suàn	衛		疾
計算	gūnika	wèi		jí
jì suàn	ganikā	गुत्ति / आरक्खक /		गेलञ्ज / आतङ्क / गद / आबाध /
गणिका	妓女	門衛		疾病
ganikā	jì nǚ	mén wèi		jí bìng
妓女	गणिका / गणिका / अभिसारिका / अभिसारिका /	आरक्खक / गुत्ति /		आबाध / आतङ्क / गद / गेलञ्ज / आमय /
jì nǚ	गणिका / गणिका / अभिसारिका / अभिसारिका /	गति		病
गणिका	gati	事業		bìng
गणिका	shì yè	去		आमय / गद / आबाधिक / आतुर / गेलञ्ज / आतङ्क / गितान / आबाध /
गणिका	qù	गति / गमन / चार /		聲
गणिका	命運	命運		shēng
गणिका	mìng yùn	नियति / गति /		निन्नाद / गद / घोस / धनित /
गणिका	命運	命運		聲音
गणिका	mìng yùn	गति / नियति /		shēng yīn
गणिका	涯	涯		निन्नाद / गद / घोस / धनित /
गणिका	yá	生涯		聲響
गणिका	shēng yá	課程		shēng xiǎng
गणिका	kè chéng	課程		घोस / धनित / निन्नाद / गद /
गणिका				聽起來
गणिका				tīng qǐ lái
गणिका				निन्नाद / धनित / घोस / गद /
गणिका				音
गणिका				yīn
गणिका				गद / घोस / धनित / निन्नाद /
गणिका				音效
गणिका				yīn xiào
गणिका				गद / धनित / निन्नाद / घोस /
गणिका				音響
गणिका				yīn xiǎng
गणिका				धनित / गद / निन्नाद / घोस /

響聲	गन्ध	गमन	गम्भीर	遼
xiǎng shēng	gandha	gamana	gambhīra	miǎo
घोस / गद / निन्नाद / धनित / 鳴	味道	去	冥	गम्म
míng	wèi dào	qù	míng	gamma
घोस / निन्नाद / धनित / गद / 鳴	गन्ध / अस्साद / 嗅覚	गति / गमन / चार / 導致	अनुत्तान / गम्भीर / तिमिर / तिमिस / कण्ह / काळ / गाध / 根深	粗
míng	xiù jué	dǎo zhì	gēn shēn	cū
गद / घोस / निन्नाद / धनित /	气味	गमन / निदान / 征程	अनुत्तान / गाध / गम्भीर / 深	कठिन / गम्म / खर / कक्कस / घन / खळ / कक्खळ / बहल / गहन / ओळारिक / थूल / निदुर / 粗俗的
गद्वभ	qì wèi	zhēng chéng	shēn	cū sù de
gadrabha	氣味	चारिका / गमन / 征途	गाध / अनुत्तान / गम्भीर / 深切	जम्म / गम्म / असब्भी / 粗劣
驢	qì wèi	zhēng tú	shēn qiè	cū liè
lú	熏	गमन / चारिका / 散步	गम्भीर / अनुत्तान / गाध / 深刻	ओळारिक / कक्कस / गम्म / 粗糙
lú	xūn	sàn bù	shēn kè	cū cāo
गद्वभ / गद्वभ /	गन्ध / धूम / 香	旅游	गम्भीर / गाध / अनुत्तान / 深厚	ओळारिक / गम्म / कक्कस / थूल / 粗糙的
驢	xiāng	lǚ yóu	shēn hòu	cū cāo de
lú	xiāng shuǐ	गमन / गमन / चारिका / 旅游	गम्भीर / अनुत्तान / गाध / 深处	कठिन / थूल / निदुर / ओळारिक / दारुण / कक्कस / खळ / गम्म / कक्खळ / खर /
गद्वभ / गद्वभ /	香油	लु यू	shēn chǔ	糲
驢子	xiāng yóu	गमन / गमन / चारिका / 旅程	गम्भीर / गाध / अनुत्तान / 深奥的	li
lú zi	गन्धद्व	लु चेंग	shēn ào de	ओळारिक / गम्म / कक्कस /
गन्थ	gandhabba	गमन / चारिका / चारिका / गमन / 旅程	深度	गमिक
gantha	音樂家	लु चेंग	shēn dù	gamika
作文	yīn lè jiā	गमन / चारिका / चारिका / गमन / 旅行	गम्भीर / गाध / 深沉	旅行者
zuò wén	音樂家	लु चेंग	shēn chén	lǚ xíng zhě
गन्थन / गन्थ /	yīn lè jiā	गमन / चारिका / चारिका / गमन / 旅行	गाध / अनुत्तान / गम्भीर / 深海	पथावी / गमिक / अदिक / गमिक / अदिक / अद्गू / पथिक / पथिक /
本文	gabbita	लु खिंग	shēn hǎi	旅行者
běn wén	傲慢的	गमन / चारिका / चारिका / गमन / 旅程	深深	lǚ xíng zhě
組成	ào màn de	लु खिंग	shēn shēn	पथावी / गमिक / अदिक / गमिक / अदिक / अद्गू / पथिक / पथिक /
zú chéng	गब्बि / दप्पित /	गमन / चारिका / चारिका / 程	अनुत्तान / गाध / गम्भीर / 深的	游客
गन्थ / गन्थन /	गब्भ	chéng	shēn de	yóu kè
गन्थन	gabbha	अनुक्कम / चारिका / गमन / 追逐	अनुत्तान / गाध / गम्भीर / 深處	अद्गू / गमिक / पथिक / पथावी / अदिक /
गन्थाना	gabbhara	zhuī zhu	shēn chù	गेय्य
作文	山洞		गाध / अनुत्तान / गम्भीर / 深邃	geyya
zuò wén	洞		shēn suì	詩
गन्थन / गन्थ /	dòng		गाध / अनुत्तान / गम्भीर / 淵	shī
扭轉	दुप / छिद्द / कुहर / बिल / गब्भर / छिग्गल /		yuān	पज्ज / कब्ब / कावेय्य / गेय्य /
niǔ zhuǎn	दुप / छिद्द / कुहर / बिल / गब्भर / छिग्गल /		गाध / अनुत्तान / गम्भीर / 湛	गुय्ह
組成	दुप / छिद्द / कुहर / बिल / गब्भर / छिग्गल /		zhàn	guyha
zú chéng	dòng xué		अनुत्तान / गम्भीर / गाध / 窳	祕
गन्थ / गन्थन /	गब्भर / गब्भर /		yǎo	mì
編織	दुप / छिद्द / कुहर / बिल / गब्भर / छिग्गल /		अनुत्तान / गाध / गम्भीर / 覃	神秘
biān zhī	kū		tán	shén mì
	गब्भासय		अनुत्तान / गम्भीर / गाध / 邃	秘
	gabbhāsaya		suì	mì
	子宮		गम्भीर / अनुत्तान / गाध /	mì mī
	zi gōng			隱秘
	गब्भ / गब्भासय /			yǐn mī
	子宮			
	zi gōng			

गरु	गुरु	गरुक	गल	गेलञ्ज
garu	guru	garuka	gala	gelañña
值得尊敬的	師資	岸然	吭	呕心
zhí dé zūn jìng de	shī zī	àn rán	háng	ǒu xīn
गरु / आयस्मन्तु / 可敬的	गुरु / आचेर / गरु / अज्झायक / आचरिय /	惨重	कण्ठ / कण्ठ / गल / गल /	गेलञ्ज / गद /
kě jìng de	惨重	cǎn zhòng	吭	恙
導師	cǎn zhòng	गरुक / गुरु / गरु / भारिक /	kēng	yàng
dǎo shī	गरुक / गुरु / गरु / भारिक /	沈重	कण्ठ / कण्ठ / गल / गल /	आतङ्क / गद / गेलञ्ज / आमय /
師資	教師	shěn zhòng	咙	疾
shī zī	jiào shī	गुरु / गरुक / भारिक / गरु /	lóng	jí
गुरु / आचेर / गरु / अज्झायक / आचरिय /	आचेर / आचरिय / गुरु / अज्झायक / गरु /	沈重的	कण्ठ / गल /	गेलञ्ज / आतङ्क / गद / आबाध /
惨重	沈重	shěn zhòng de	咽	疾病
cǎn zhòng	shěn zhòng	गुरु / गरु / गरुक / भारिक /	yān	jí bìng
गरुक / गुरु / गरु / भारिक /	गुरु / गरुक / भारिक / गरु /	沉重	कण्ठ / कण्ठ / गल / गल /	आबाध / आतङ्क / गद / गेलञ्ज / आमय /
教師	沈重的	chén zhòng	咽	病
jiào shī	shěn zhòng de	गरुक / गरु / गुरु / भारिक /	yàn	bìng
आचेर / आचरिय / गुरु / अज्झायक / गरु /	गुरु / गरु / गरुक / भारिक /	笨重	कण्ठ / कण्ठ / गल / गल /	आमय / गद / आबाधिक / आतुर / गेलञ्ज / आतङ्क / गितान / आबाध /
沈重	沉重	bèn zhòng	咽喉	गुळ
shěn zhòng	chén zhòng	गुरु / भारिक / गरु / गरुक /	yān hóu	गुल
गुरु / गरुक / भारिक / गरु /	गरुक / गरु / गुरु / भारिक /	笨重	गल / कण्ठ / कण्ठ / गल /	加糖
沈重的	bèn zhòng	繁重	咽喉	jiā táng
shěn zhòng de	गुरु / भारिक / गरु / गरुक /	fán zhòng	喉	地球
गुरु / गरु / गरुक / भारिक /	繁重	भारिक / गुरु / गरुक / गरु /	hóu	de qiú
沉重	fán zhòng	zhòng xíng	गल / कण्ठ /	पृथुवी / पृथुवी / गुळ / गुळ / भूमि / छमा / छमा / भूमि / भू / धरणी / भू / जगति / जगति / धरणी /
chén zhòng	भारिक / गुरु / गरुक / गरु /	भारिक / गरु / गुरु / गरुक /	喉咙	地球
गरुक / गरु / गुरु / भारिक /	老师	重大	hóu lóng	dì qiú
笨重	lǎo shī	zhòng dà	कण्ठ / गल /	पृथुवी / पृथुवी / गुळ / गुळ / भूमि / छमा / छमा / भूमि / भू / धरणी / भू / जगति / जगति / धरणी /
bèn zhòng	गरु / गुरु / आचेर / अज्झायक / आचरिय /	重的	喉嚨	方糖
गुरु / भारिक / गरु / गरुक /	老師	zhòng de	hóu lóng	fāng táng
繁重	lǎo shī	गुरु / भारिय / गरुक / भारिक / गुरु /	गल / कण्ठ /	球
fán zhòng	गरु / अज्झायक / आचरिय / गुरु / आचेर /	重要	hóu tóu	qiú
भारिक / गुरु / गरुक / गरु /	重型	zhòng yào	喉头	糖果
老师	zhòng xíng	重要的	hóu tóu	fāng táng
lǎo shī	भारिक / गरु / गुरु / गरुक /	zhòng yào de	嗓	球
गरु / गुरु / आचेर / अज्झायक / आचरिय /	重的	गरुक / अनप्पक /	sǎng	qiú
老師	zhòng de	重重	कण्ठ / गल /	कन्दुक / आयतन / कीळा / गुळ / घटिका /
lǎo shī	गरु / भारिय / गरुक / भारिक / गुरु /	zhòng zhòng	嗓子	糖
गरु / अज्झायक / आचरिय / गुरु / आचेर /	重重	गुरु / गरु / गरुक / भारिक /	sǎng zi	táng
重型	zhòng zhòng	गरहन	脖	糖蜜
zhòng xíng	गुरु / गरु / गरुक / भारिक /	garahana	bó	táng mì
भारिक / गरु / गुरु / गरुक /	譴責	譴責	गौवा / कण्ठ / गल /	फाणित / गुळ /
重的	qiǎn zé	उपारम्भ / गरहन /	脖子	
zhòng de	उपारम्भ / गरहन /	責備	bó zi	
गरु / भारिय / गरुक / भारिक / गुरु /	zé bèi	अपवाद / निग्गहण / अतिवाक्य / गरहन / दोस / उपक्कोस / उपवाद / अवण्ण / ओमसना / अक्कोस / निग्गह / अनुवाद /	कण्ठ / गल / गौवा /	
重重	अपवाद / निग्गहण / अतिवाक्य / गरहन / दोस / उपक्कोस / उपवाद / अवण्ण / ओमसना / अक्कोस / निग्गह / अनुवाद /		脰	
zhòng zhòng			dòu	
गुरु / गरु / गरुक / भारिक /			गल / कण्ठ / गौवा /	
			頸	
			jǐng	
			गौवा / कण्ठ / गल /	
			頸部	
			jǐng bù	
			गौवा / गल / कण्ठ /	
			颈	
			jǐng	
			कण्ठ / गौवा / गल /	
			頸部	
			jǐng bù	
			कण्ठ / गल / गौवा /	

गवेसन
gavesana
尋
xún
मग्न / गवेसन / अन्वेसना / परियेसना /
尋
xún
मग्न / अन्वेसना / गवेसन / परियेसना /
尋找
xún zhǎo
मग्न / अन्वेसना / गवेसन / परियेसना /
尋求
xún qiú
परियेसना / गवेसन / अन्वेसना / एसना / मग्न /
搜
sōu
गवेसन / परियेसना / अन्वेसना / मग्न /
搜尋
sōu xún
अन्वेसना / मग्न / गवेसन / परियेसना /
搜查
sōu chá
परियेसना / अन्वेसना / मग्न / गवेसन /
搜索
sōu suǒ
मग्न / गवेसन / अन्वेसना / परियेसना /
搜身
sōu shēn
मग्न / गवेसन / अन्वेसना / परियेसना /
查
chá
परियेसना / गवेसन / अन्वेसना / मग्न /
查閱
chá yuè
गवेसन / परियेसना / अन्वेसना / मग्न /
索
suǒ
अन्वेसना / मग्न / परियेसना / गवेसन /
追尋
zhuī xún
परियेसना / अन्वेसना / मग्न / गवेसन /

गह
gaha
住宅
zhù zhái
निकेतन / आवास / निकेत / गह / निवेस / गेह / अगार / घर / निलय / निवास / उपस्सय /
家
jiā
कुटुम्ब / उपस्सय / घर / गेह / आवास / कुल / निकेत / गह / निकेतन / निलय /
居
jū
屋
wū
गेह / घर / गह / निवेस / अगार / निलय /
屋子
wū zi
गेह / गह / निलय / अगार / निकेतन / घर / निवेस /
屋頂
wū dǐng
गह / छदन /
房
fáng
अगार / घर / निलय / निवेस / गह / निकेतन / गेह /
房子
fáng zi
निवेस / घर / निलय / गह / गेह / निकेतन / अगार /
房屋
fáng wū
निलय / निकेतन / गेह / अगार / गह / घर / निवेस /
捨
shě
अगार / गेह / गह / घर / निलय / निवेस /
收容
shōu róng
गह / निवेस / गेह / अगार / घर / निलय /
舍
shě
घर / घर / निवेस / गेह / निलय / निवेस / अगार / अगार / गह / गेह / गह / निलय /
舍
shè
घर / घर / निवेस / गेह / निलय / निवेस / अगार / अगार / गह / गेह / गह / निलय /

गेह
geha
主場
zhǔ chǎng
निलय / निकेतन / उपस्सय / निकेत / घर / गेह / आवास /
主頁
zhǔ yè
निकेत / निलय / आवास / निकेतन / गेह / घर / उपस्सय /
住宅
zhù zhái
निकेतन / आवास / निकेत / गह / निवेस / गेह / अगार / घर / निलय / निवास / उपस्सय /
住家
zhù jiā
आवास / निलय / निकेत / घर / निकेतन / उपस्सय / गेह /
回國
huí guó
निकेत / आवास / गेह / घर / उपस्सय / निकेतन / निलय /
在家
zài jiā
घर / गेह / निलय / आवास / उपस्सय / निकेत / निकेतन /
家
jiā
कुटुम्ब / उपस्सय / घर / गेह / आवास / कुल / निकेत / गह / निकेतन / निलय /
家園
jiā yuán
आवास / उपस्सय / निकेतन / गेह / निलय / घर / निकेत /
家園
jiā yuán
निलय / घर / निकेतन / निकेत / उपस्सय / आवास / गेह /
家裡
jiā li
आवास / गेह / निलय / घर / निकेतन / निकेत / उपस्सय /
居家
jū jiā
घर / गेह / आवास / उपस्सय / निलय / निकेतन / निकेत /
屋
wū
गेह / घर / गह / निवेस / अगार / निलय /
屋子
wū zi
गेह / गह / निलय / अगार / निकेतन / घर / निवेस /
房
fáng
अगार / घर / निलय / निवेस / गह / निकेतन / गेह /
房子
fáng zi
निवेस / घर / निलय / गह / गेह / निकेतन / अगार /
房屋
fáng wū
निलय / निकेतन / गेह / अगार / गह / घर / निवेस /

捨
shě
अगार / गेह / गह / घर / निलय / निवेस /
收容
shōu róng
गह / निवेस / गेह / अगार / घर / निलय /
故鄉
gù xiāng
घर / गेह / उपस्सय / निकेत / आवास / निलय / निकेतन /
老家
lǎo jiā
आवास / गेह / उपस्सय / निकेत / निकेतन / निलय / घर /
舍
shè
घर / घर / निवेस / गेह / निलय / निवेस / अगार / अगार / गह / गेह / गह / निलय /
舍
shě
घर / घर / निवेस / गेह / निलय / निवेस / अगार / अगार / गह / गेह / गह / निलय /
गहण
gahaṇa
把握
bǎ wò
抓
zhuā
拿
ná
獲得
huò de
गहण / पत्तुं /
萃
cuì
घन / गहण / गहन / बहल /
गहणी
gahaṇī
妊娠
rèn shēn
懷孕
huái yùn
消化
xiāo huà
परिणाम / गहणी / जीरण /

गहन
gahana
丛林
cóng lín
जङ्गल / गहन /
厚
hòu
बहल / गहन / घन /
厚的
hòu de
घन / बहल / गहन /
叢林
cóng lín
गहन / जङ्गल /
密
mì
बहल / घन / गहन /
密封的
mì fēng de
稠
chóu
बहल / गहन / घन /
粗
cū
कठिन / गम्भ / खर / कक्कस / घन / खळ / कक्खळ / बहल / गहन / ओळारिक / थूल / निद्र /
萃
cuì
घन / गहण / गहन / बहल /
蕪
wéng
बहल / गहन / घन /

गाध	गान	गायक	गाळ्ह	गाहन
gādha	gāna	gāyaka	gālha	gāhana
冥	唱歌	女歌手	紫	跳水
míng	chàng gē	nǚ gē shǒu	jǐn	tiào shuǐ
अनुत्तान / गम्भीर / तिमिर / तिमिस / कण्ह / काळ / गाध /	गीत / गायन / गान /	गायक / गायक /	紫的	
根深	嵩	女歌手	jǐn de	
gēn shēn	sōng	nǚ gē shǒu	紫	
अनुत्तान / गाध / गम्भीर /	उळार / गान / गीत / गीतिका /	गायक / गायक /	紫	
深	曲	歌唱家	jǐn	
shēn	qū	gē chàng jiā	गावी	
गाध / अनुत्तान / गम्भीर /	गीतिका / गीतिका / गीत / गीत /	歌手	gāvī	
深切	गीत / गान /	歌手	母牛	
shēn qiè	曲	gē shǒu	mǔ niú	
गम्भीर / अनुत्तान / गाध /	qū	गायन	धेनु / गावी /	
深刻	गीतिका / गीतिका / गीत / गीत /	gāyana	牛	
shēn kè	गीत / गान /	唱歌	niú	
गम्भीर / गाध / अनुत्तान /	曲子	chàng gē	गावो / गो / धेनु / गावी /	
深厚	qū zi	गीत / गायन / गान /	牯	
shēn hòu	गीतिका / गान / गीत /	歌唱	gǔ	
गम्भीर / अनुत्तान / गाध /	歌	gē chàng	गावी / धेनु /	
深处	gē	गायन / गान / गीत /	गावो	
shēn chǔ	गीत / गान / गीतिका /	歌聲	gāvo	
गम्भीर / गाध / अनुत्तान /	歌唱	gē shēng	家畜	
深度	gē chàng	गान / गायन / गीत /	jiā chù	
shēn dù	गायन / गान / गीत /	गारय्ह	गावो / गो /	
गम्भीर / गाध /	歌曲	gārayha	牛	
深沉	gē qǔ	卑鄙的	niú	
shēn chén	गीतिका / गान / गीत / गीत /	bēi bǐ de	गावो / गो / धेनु / गावी /	
गाध / अनुत्तान / गम्भीर /	गीतिका / गान /	कातर / जेगुच्छ / गारय्ह /	गाह	
深深	歌曲	उञ्जातब्ब /	gāha	
shēn shēn	gē qū	गारव	主意	
अनुत्तान / गाध / गम्भीर /	गीतिका / गान / गीत / गीत /	gārava	尊敬	
深的	गीतिका / गान /	尊敬	zhǔ yì	
shēn de	歌聲	zūn jìng	念頭	
अनुत्तान / गाध / गम्भीर /	gē shēng	अचचना / चित्तीकार / नमक्कार /	niàn tóu	
深處	गान / गायन / गीत /	पच्युडान / पूजा / नमस्सन /	思想	
shēn chù	嶺	पुरेक्खार / गारव / पटिपूजना /	sī xiǎng	
गाध / अनुत्तान / गम्भीर /	sòng	अपचायन /	आभोग / चित्त / गाह / चिन्तन /	
深邃	गीतिका / गीत / गान /	尊重	想法	
shēn suì	गाम	zūn zhòng	xiǎng fǎ	
गाध / अनुत्तान / गम्भीर /	gāma	गारव / चित्तीकार / अचचना /	गाह / आभोग / चिन्तन / चित्त /	
渊	屯	崇敬	意念	
yuān	tún	chóng jìng	yì niàn	
गाध / अनुत्तान / गम्भीर /	क्किच्छ / गाम /	अपचायन / पटिपूजना / पच्युडान /	意見	
湛	庄	गारव / अचचना / नमस्सन /	yì jiàn	
zhàn	zhuāng	चित्तीकार /	दिट्ठि / गाह /	
अनुत्तान / गम्भीर / गाध /	村	敬	捕獲	
窈	cūn	jìng	bǔ huò	
yǎo	村子	अचचना / चित्तीकार / गारव /	構想	
अनुत्तान / गाध / गम्भीर /	cūn zi	注意	gòu xiǎng	
葦	cūn zhuāng	zhù yì	理念	
tán	莊	चित्तीकार / गुत्ति / गारव /	lǐ niàn	
अनुत्तान / गम्भीर / गाध /	zhuāng	अचचना / गोपन / परिहार /	理想	
邃	गामिक	अविप्पवास /	lǐ xiǎng	
sui	gāmika	翽	表象	
गम्भीर / अनुत्तान / गाध /	村民	yì	biǎo xiàng	
	cūn mín	अचचना / चित्तीकार / गारव /	點子	
			diǎn zi	

गिनि	開火
gini	kāi huǒ
大火	गिनि / अग्नि / जोति / पावक / अनल /
dà huǒ	गिम्ह
गिनि / जोति / अनल / अग्नि / पावक /	gimha
失火	熱
shī huǒ	rè
पावक / गिनि / जोति / अग्नि / अनल /	तेज / उण्ह / घम्म / निदाघ / गिम्ह / आताप /
如火	गिरि
rú huǒ	giri
अग्नि / गिनि / जोति / अनल / पावक /	山
开火	shān
kāi huǒ	नग / पब्त / गिरि / अदि /
गिनि / अग्नि / अनल / पावक / जोति /	山地
消防隊	shān de
xiāo fáng duì	अदि / पब्त / पब्त / अदि / गिरि / नग / गिरि / नग /
अग्नि / गिनि / अनल / पावक / जोति /	山地
火	shān dì
huǒ	अदि / पब्त / पब्त / अदि / गिरि / नग / गिरि / नग /
जोति / अग्नि / पावक / गिनि / धूम / अट्टिच / अनल /	山路
火光	shān lù
huǒ guāng	नग / पब्त / अदि / गिरि /
जोति / अग्नि / पावक / अनल / गिनि /	岳
火勢	yuè
huǒ shì	नग / अदि / गिरि / पब्त /
जोति / अनल / गिनि / पावक / अग्नि /	巖
火災	yuè
huǒ zāi	गिरि / नग / पब्त / अदि /
अग्नि / अनल / जोति / गिनि / पावक /	गिलन
火燒	gilana
huǒ shāo	吞
अग्नि / गिनि / अनल / जोति / पावक /	tūn
火警	गिलन / अज्झोहार / अज्झोहरण /
huǒ jǐng	
जोति / अग्नि / अनल / गिनि / पावक /	
燃起	
rán qǐ	
अग्नि / पावक / जोति / गिनि / अनल /	
燧	
suì	
अनल / पावक / जोति / गिनि / अग्नि /	
著火	
zhe huǒ	
पावक / अग्नि / अग्नि / अनल / पावक / गिनि / गिनि / जोति / अनल / जोति /	
著火	
zhù huǒ	
पावक / अग्नि / अग्नि / अनल / पावक / गिनि / गिनि / जोति / अनल / जोति /	
起火	
qǐ huǒ	
अग्नि / जोति / गिनि / पावक / अनल /	

गिलान	不舒服的
gilāna	bù shū fú de
गिलानक / गिलान /	患病
患病	huàn bìng
आतुर / गिलान / आबाधिक /	生病
生病	shēng bìng
आतुर / गिलान / आबाधिक /	生病的
生病的	shēng bìng de
दुखी / दुखित / आतुर / आबाधिक / गिलान /	病
病	bìng
आमय / गद / आबाधिक / आतुर / गोलञ्ज / आतङ्क / गिलान / आबाध /	病人
病人	bìng rén
गिलान / गिलानक / आबाधिक / अधिवासक /	病弱
病弱	bìng ruò
आतुर / गिलान / आबाधिक /	病的
病的	bìng de
आतङ्क / आबाध / गिलान / गिलानक /	瘁
瘁	cuì
गिलान / आतुर / आबाधिक /	飏
飏	huǎng
आबाधिक / गिलान / आतुर /	गिलानक
गिलानक	gilānaka
不舒服的	bù shū fú de
गिलानक / गिलान /	病人
病人	bìng rén
गिलान / गिलानक / आबाधिक / अधिवासक /	病的
病的	bìng de
आतङ्क / आबाध / गिलान / गिलानक /	
गिही	
gihī	俗人
俗人	sú rén
पुथु / गिही /	

गीत	唱歌
gīta	chàng gē
गीत / गायन / गान /	嵩
嵩	sōng
उठार / गान / गीत / गीतिका /	उठार / गान / गीत / गीतिका /
गीतिका / गीतिका / गीत / गीत / गान / गान /	曲
曲	qū
गीतिका / गीतिका / गीत / गीत / गान / गान /	गीतिका / गीतिका / गीत / गीत / गान / गान /
गीतिका / गीतिका / गीत / गीत / गान / गान /	曲
曲	qū
गीतिका / गीतिका / गीत / गीत / गान / गान /	曲子
曲子	qū zi
गीतिका / गान / गीत /	गीतिका / गान / गीत /
歌	gē
गीतिका / गान / गीत /	गीत / गान / गीतिका /
歌	歌曲
gē qǔ	gē qǔ
गीत / गान / गीतिका /	गीतिका / गान / गीत / गीत / गीतिका / गान /
歌唱	歌曲
gē chàng	gē chàng
गायन / गान / गीत /	歌曲
歌曲	gē qǔ
गीतिका / गान / गीत / गीत / गीतिका / गान /	गीतिका / गान / गीत / गीत / गीतिका / गान /
歌曲	gē qǔ
gē qǔ	गीतिका / गान / गीत / गीत / गीतिका / गान /
गीतिका / गान / गीत / गीत / गीतिका / गान /	गीतिका / गान / गीत / गान /
गीतिका / गान / गीत / गान /	गीवा
गीवा	gīwā
腭	bó
bó	गीवा / कण्ठ / गल /
गीवा / कण्ठ / गल /	脖子
脖子	bó zi
कण्ठ / गल / गीवा /	脰
脰	dòu
गल / कण्ठ / गीवा /	頸
頸	jǐng
गीवा / कण्ठ / गल /	頸部
頸部	jǐng bù
गीवा / गल / कण्ठ /	頸
頸	jǐng
कण्ठ / गीवा / गल /	頸部
頸部	jǐng bù
कण्ठ / गल / गीवा /	

गीतिका	嵩
gītīkā	sōng
उठार / गान / गीत / गीतिका /	उठार / गान / गीत / गीतिका /
曲	qū
गीतिका / गीतिका / गीत / गीत / गान / गान /	गीतिका / गीतिका / गीत / गीत / गान / गान /
曲	qū
गीतिका / गीतिका / गीत / गीत / गान / गान /	गीतिका / गीतिका / गीत / गीत / गान / गान /
曲	qū
गीतिका / गीतिका / गीत / गीत / गान / गान /	曲子
曲子	qū zi
गीतिका / गान / गीत /	गीतिका / गान / गीत /
歌	gē
गीतिका / गान / गीत /	गीत / गान / गीतिका /
歌	歌曲
gē qǔ	gē qǔ
गीतिका / गान / गीतिका /	गीतिका / गान / गीत / गीत / गीतिका / गान /
歌唱	歌曲
gē chàng	gē chàng
गायन / गान / गीत /	歌曲
歌曲	gē qǔ
गीतिका / गान / गीत / गीत / गीतिका / गान /	गीतिका / गान / गीत / गीत / गीतिका / गान /
歌曲	gē qǔ
gē qǔ	गीतिका / गान / गीत / गीत / गीतिका / गान /
गीतिका / गान / गीत / गीत / गीतिका / गान /	गीतिका / गान / गीत / गान /
गीतिका / गान / गीत / गान /	गीवा
गीवा	gīwā
腭	bó
bó	गीवा / कण्ठ / गल /
गीवा / कण्ठ / गल /	脖子
脖子	bó zi
कण्ठ / गल / गीवा /	脰
脰	dòu
गल / कण्ठ / गीवा /	頸
頸	jǐng
गीवा / कण्ठ / गल /	頸部
頸部	jǐng bù
गीवा / गल / कण्ठ /	頸
頸	jǐng
कण्ठ / गीवा / गल /	頸部
頸部	jǐng bù
कण्ठ / गल / गीवा /	

गो	गोपक	गोपन	गोपुर	घन
go	gopaka	gopana	gopura	ghana
公牛	巡夜者	保护	出入口	厚
gōng niú	xún yè zhě	bǎo hù	chū rù kǒu	hòu
गो / पुङ्गव / गोण / 家畜	गोपक / आरक्खक / 看守人	अनुपालन / तायन / पटिसरण / आरिक्खा / निस्सय / अनुरक्खा / परिहार / गोपन / अनुरक्खन / गुत्ति / नाथ / अभिरक्खन / ताण / पालन /	कोट्टक / गोपुर / घट्टन	बहल / गहन / घन / 厚的
jiā chù	kàn shǒu rén	保護	ghaṭṭana	hòu de
गावो / गो / 牛	गोपक / आरक्खक /	保護	侮	घन / बहल / गहन / 固
niú		bǎo hù	wǔ	gù
गावो / गो / धेनु / गावी /		तायन / गोपन / गुत्ति / परिहार / अनुरक्खा / अनुरक्खन / पटिसरण / नाथ / अभिरक्खन / आरक्खा / अनुपालक / पालन / अनुपालन / निस्सय / ताण /	ओमसना / उपवाद / घट्टन / आसज्जन / अक्कोस / तिरोक्कार /	थिर / एकघन / घन / खर / दक्कह / 密
गोघातक		在乎	侮辱	mi
goghātaka		关心	wǔ rǔ	mi
宰		guān xīn	घट्टन / उपवाद / आसज्जन / तिरोक्कार / ओमसना / अक्कोस /	बहल / घन / गहन / 密集的
zǎi		गोपन / पटिजग्गन / परिहार / आरक्खा /	汚辱	mi jí de
屠夫		在乎	wū rǔ	बहल / घन / 捶
tú fu		zài hū	ओमसना / आसज्जन / दून / अक्कोस / तिरोक्कार / घट्टन / उपवाद /	chuí
गोघातक / गोघातक /		परिहार / गोपन / पटिजग्गन / गोपन / पटिजग्गन / परिहार / आरक्खा / आरक्खा /	辱	棍棒
屠夫		在乎	rǔ	gùn bàng
tú fu		zài hu	तिरोक्कार / उपवाद / ओमसना / अयस / घट्टन / अक्कोस / आसज्जन /	મુગર / घन / 槌
गोघातक / गोघातक /		परिहार / गोपन / पटिजग्गन / गोपन / पटिजग्गन / परिहार / आरक्खा / आरक्खा /	घटन	chuí
गोचर		在意	ghaṭana	稠
gocara		zài yì	組合	chóu
牧场		आरक्खा / गोपन / पटिजग्गन / परिहार /	zǔ hé	बहल / गहन / घन / 粗
mù chǎng		打理	ghaṭā	cū
गोण		dǎ lǐ	串	कठिन / गम्म / खर / कक्कस / घन / खळ / कक्खळ / बहल / गहन / ओळारिक / थूल / निट्टर /
gona		परिहार / आरक्खा / पटिजग्गन / गोपन /	chuàn	結實
公牛		料理	घटिका	jié shí
gōng niú		liào lǐ	ghaṭikā	एकघन / घन / 萃
गो / पुङ्गव / गोण /		आरक्खा / गोपन / परिहार / पटिजग्गन /	球	cuì
गोत्त		注意	qiú	घन / गहण / गहन / बहल / 蒺
gotta		zhù yì	कन्दुक / आयतन / कीळा / गुळ / घटिका /	wěng
宗族		चित्तीकार / गुत्ति / गारव / अच्चना / गोपन / परिहार / अविप्पवास /	घत	बहल / गहन / घन / 錘子
zōng zú		照料	ghata	chuí zi
जातिक / कुल / गोत्त / 族		zhào liào	酥油	錘
zú		पटिजग्गन / परिहार / गोपन / परिचरण / आरक्खा /	sū yóu	chuí
जातिक / गोत्त / कुल / कुटुम्ब / 氏族		照看		घम्म
shì zú		zhào kàn		ghamma
गोत्त / जातिक / कुल /		परिहार / गोपन / पटिजग्गन / आरक्खा /		熱
祖先		留心		rè
zǔ xiān		liú xīn		तेज / उण्ह / घम्म / निदाघ / गिम्ह / आताप /
祖宗		परिहार / पटिजग्गन / गोपन / आरक्खा / पटिसङ्खान /		
zǔ zōng		看護		
血统		kàn hù		
xuè tǒng		परिहार / गोपन / आरक्खा / पटिजग्गन /		
उत्पाद / उद्धान / उत्पत्ति / पभव / गोत्त /		關心		
गोनस		guān xīn		
gonasa		पटिजग्गन / गोपन / परिहार / आरक्खा /		
毒蛇		關照		
dú shé		guān zhào		
		आरक्खा / पटिजग्गन / परिहार / गोपन /		

घर
ghara
主場
zhǔ chǎng
निलय / निकेतन / उपस्सय / निकेत / घर / गेह / आवास /
主頁
zhǔ yè
निकेत / निलय / आवास / निकेतन / गेह / घर / उपस्सय /
住宅
zhù zhái
निकेतन / आवास / निकेत / गह / निवेस / गेह / अगार / घर / निलय / निवास / उपस्सय /
住家
zhù jiā
आवास / निलय / निकेत / घर / निकेतन / उपस्सय / गेह /
回國
huí guó
निकेत / आवास / गेह / घर / उपस्सय / निकेतन / निलय /
在家
zài jiā
घर / गेह / निलय / आवास / उपस्सय / निकेत / निकेतन /
家
jiā
कुटुम्ब / उपस्सय / घर / गेह / आवास / कुल / निकेत / गह / निकेतन / निलय /
家園
jiā yuán
आवास / उपस्सय / निकेतन / गेह / निलय / घर / निकेत /
家園
jiā yuán
निलय / घर / निकेतन / निकेत / उपस्सय / आवास / गेह /
家裡
jiā li
आवास / गेह / निलय / घर / निकेतन / निकेत / उपस्सय /
居家
jū jiā
घर / गेह / आवास / उपस्सय / निलय / निकेतन / निकेत /
屋
wū
गेह / घर / गह / निवेस / अगार / निलय /
屋子
wū zi
गेह / गह / निलय / अगार / निकेतन / घर / निवेस /
房
fáng
अगार / घर / निलय / निवेस / गह / निकेतन / गेह /
房子
fáng zi
निवेस / घर / निलय / गह / गेह / निकेतन / अगार /
房屋
fáng wū
निलय / निकेतन / गेह / अगार / गह / घर / निवेस /

捨
shě
अगार / गेह / गह / घर / निलय / निवेस /
收容
shōu róng
गह / निवेस / गेह / अगार / घर / निलय /
故鄉
gù xiāng
घर / गेह / उपस्सय / निकेत / आवास / निलय / निकेतन /
老家
lǎo jiā
आवास / गेह / उपस्सय / निकेत / निकेतन / निलय / घर /
舍
shě
घर / घर / निवेस / गेह / निलय / निवेस / अगार / अगार / गह / गेह / गह / निलय /
舍
shè
घर / घर / निवेस / गेह / निलय / निवेस / अगार / अगार / गह / गेह / गह / निलय /

घाण
ghāṇa
嗅到
xiù dào
घाण / नय्य्ह / नासिका / नासा /
嗅覺
xiù jué
घाण / नय्य्ह / नासा / नासिका /
鼻
bí
नासा / नय्य्ह / घाण / नासिका /
鼻子
bí zi
नय्य्ह / नासा / नासिका / घाण /

घात
ghāta
屠殺
tú shā
殺害
shā hài
अभिघात / निग्घातन / अभिघातन / घात / अतिपात / नासन / पातन /
破壞
pò huài
अत्थ / घात / नास / उपच्छेद / भञ्जन / अपचिन्न / निग्घातन / पीळन / नासन / खय / नस्सन /

घास
ghāsa
食
shí
भिकखा / घास / भत्त / आमिस / आहार / अन्न / भोत्तु / असित / भोजन / असन /
食品
shí pǐn
भिकखा / आहार / आमिस / भोजन / भत्त / असन / अन्न / असित / घास /
食物
shí wù
घास / भोजन / भिकखा / अण्ण / आहार / अन्न / आमिस / असित / भत्त / असन /
飯
fàn
आहार / असित / असन / घास / अन्न / आमिस / भिकखा / भत्त / भोजन /

घोर
ghora
了不得
le bù dé
भेरव / घोर / घोर / भेरव / बीभ च्च /
了不得
le bù de
भेरव / घोर / घोर / भेरव / बीभ च्च /
凶
xiōng
अतिघोर / घोर /
可怕
kě pà
अतिघोर / भयानक / भयावह / घोर / अतिदारुण / बीभच्च / भेरव / भीसन / भीम /
可怕的
kě pà de
भयावह / भीम / अतिदारुण / घोर / भयानक / भेरव / बीभच्च / भय / अतिघोर / भीसन /
可怖
kě bù
घोर / अतिघोर /

घोस
ghosa
作響
zuò xiǎng
गद / धनित / निन्नाद / घोस /
健全
jiàn quán
गद / धनित / घोस / निन्नाद /
叫喊
jiào hǎn
घोस / उन्नाद /
唃
yāo
呼喊
hū hǎn
उन्नाद / घोस /
昨
zǎ
कस्मा / घोस /
喊
hǎn
घोस / उन्नाद /
喊叫
hǎn jiào
घोस / उन्नाद /
噤
hāo
घोस / धनित / गद / निन्नाद /
嚷
rǎng
घोस / उन्नाद /
声
shēng
धनित / निन्नाद / घोस / गद /
声音
shēng yīn
गद / धनित / निन्नाद / घोस /
大叫
dà jiào
घोस / उन्नाद /
大喊
dà hǎn
उन्नाद / घोस /
有聲
yǒu shēng
घोस / गद / धनित / निन्नाद /
聲
shēng
निन्नाद / गद / घोस / धनित /
聲音
shēng yīn
निन्नाद / गद / घोस / धनित /
聲響
shēng xiǎng
घोस / धनित / निन्नाद / गद /
聽起來
tīng qǐ lái
निन्नाद / धनित / घोस / गद /
音
yīn
गद / घोस / धनित / निन्नाद /

音效
yīn xiào
गद / धनित / निन्नाद / घोस /
音響
yīn xiǎng
धनित / गद / निन्नाद / घोस /
響聲
xiǎng shēng
घोस / गद / निन्नाद / धनित /
鳴
míng
घोस / निन्नाद / धनित / गद /
鳴
míng
गद / घोस / निन्नाद / धनित /

च	चे	चक्क	चक्खु	चच्चर
ca	ce	cakka	cakku	caccara
与	一但	令	目	中庭
yǔ	yī dàn	lìng	mù	zhōng tíng
पन / अपि / च /	倘	अनुक्कम / पटिपाटि / आनुपुब्बी / परियाय / चक्क /	चक्खु / नयन / अक्खि /	墀
且	tǎng	周期	眸	chí
qiě	倘若	zhōu qī	चक्खु / नयन / अक्खि /	庭
पन / च / अपि /	tǎng ruò	命令	眼	tíng
並	假	mìng lìng	yǎn	庭院
bìng	jiǎ	अनुक्कम / कारापन / कम / नियोजन / चक्क /	नयन / अक्खि / चक्खु /	tíng yuàn
च / पन / अपि /	假使	循环	眼珠	院
並且	jiǎ shǐ	xún huán	yǎn zhū	yuàn
bìng qiě	假如	चक्क / परिवट्ट /	नयन / चक्खु / अक्खि /	院子
अपि / पन / च /	也	循環	眼界	yuàn zi
也	jiǎ rú	xún huán	yǎn jiè	चञ्चल
yě	假若	指令	眼病	cañcala
अथो / च / अथ /	jiǎ ruò	zhǐ lìng	yǎn bìng	不穩定
以及	hǎo xiàng	उपदेस / अज्झापन / ओवाद / चक्क /	नयन / अक्खि / चक्खु /	bù wěn dìng
yǐ jí	如果	指揮	眼睛	चञ्चल / कुप्प /
अपि / च / पन /	jiù shì	zhǐ huī	yǎn jīng	移動
併	就是	揮	चक्खु / अक्खि / नेतु / अक्खि / चक्खु / नयन / नयने / नेतु /	yí dòng
bìng	rú guō	huī	眼睛	चटक
पन / अपि / च /	兼	huī	yǎn jīng	caṭaka
兼	jiān	揮	चक्खु / अक्खि / नेतु / अक्खि / चक्खु / नयन / नयने / नेतु /	麻雀
jiān	是否	毗	睛	má què
च / अपि / पन /	shì fǒu	pí	jīng	चण्ड
又	de huà	自行車	नयन / अक्खि / अक्खि / चक्खु / नयन / चक्खु /	caṇḍa
yòu	若	zì xíng chē	睛	多情
पन / पुन / अपि / च /	ruò	輪子	jīng	duō qíng
及	इव / चे /	lún zi	नयन / अक्खि / अक्खि / चक्खु / नयन / चक्खु /	悍
及	若是	輪子	चकित	hàn
jí	ruò shì	lún zi	cakita	暴力
अपि / पन / च /	要是	轆	害怕	bào lì
及其	yào shì	kū	hài pà	暴烈
jí qí		चक्क / चक्क /	पटिभय / भय / चकित / भीति /	bào liè
पन / अपि / च /		轆	चङ्गोटक	चुण
和		gū	caṅgotaka	cuṇṇa
hé		騎車	匣子	粉
च / अपि / पन /		qí chē	xiá zi	fěn
太			小木盒	fěn mò
tài			xiǎo mù hé	细粉
च / अति /			小箱	xì fěn
并			xiǎo xiāng	金粉
bìng			手箱	jīn fěn
च / पन / अपि /			shǒu xiāng	चतु
并且			चूचुक	catu
bìng qiě			cūcuka	四
पन / अपि / च /			乳头	sì
暨			rǔ tóu	四个的
jì			乳頭	sì gè de
च / पन / अपि /			rǔ tóu	四個
汰			奶嘴	sì gè
tài			nǎi zuǐ	四次
而				sì cì
ér				
च / अपि / पन /				
而且				
ér qiě				
उत्तरि / अपि / च / उत्तरि / पन /				
與				
yǔ				
च / अपि / पन /				

चेत	चेतिय	चम्	चम्म	चरित
ceta	cetiya	camū	camma	carita
宗旨	紀念碑	軍	皮	世
zōng zhǐ	jì niàn bēi	jūn	pí	shì
चेत / अत्य /	चुद्दस	धजिनी / अनीक / बलकाय / बल / चम् /	छवि / चम्म / तच /	जीव / जगति / पजा / पाण / चरित /
心意	cuddasa	军队	皮的	人命
xīn yì	十四	jūn duì	pí de	rén mìng
意向	shí sì	बलकाय / बल / अनीक / धजिनी / चम् /	तच / चम्म /	जीव / चरित / पाण /
yì xiàng	十四個	大群	pí fū	人生
意图	shí sì gè	dà qún	तच / चम्म /	rén shēng
yì tú	चुदितक	चम् / अनीक / धजिनी / बलकाय / बल /	皮膚	पाण / चरित / जीव /
意圖	cuditaka	大軍	pí fū	個性
yì tú	被告	dà jūn	तच / छवि / चम्म /	gè xìng
अज्झासय / अधिप्पाय / चेतना / चेत / परिकप्प /	bèi gào	बलकाय / चम् / बल / अनीक / धजिनी /	皮革	mìng
旨趣	चन्द	धजिनी /	pí gé	जीव / पाण / चरित / नियति /
zhǐ qù	canda	軍隊	肌膚	品行
用心	月亮	jūn duì	jī fū	pǐn xíng
yòng xīn	yuè liàng	बलकाय / धजिनी / चम् / बल / अनीक /	तच / चम्म /	चरित / चारित्त /
用意	तारा / चन्द / उळ / तारका / चन्दिमा /	部队	fū	壽命
yòng yì	月光	bù duì	तच / चम्म /	shòu mìng
目的	yuè guāng	चम् / धजिनी / अनीक / बलकाय / बल /	革	जीव / पाण / आयु / चरित /
mù de	जुण्हा / कोमुदी / चन्द / चन्दिका / चन्दिमा /	陸軍	gé	性命
चेत / अन्त /	月球	lù jūn	चरण	xìng mìng
चतुत्थ	yuè qiú	धजिनी / चम् / अनीक / बलकाय / बल /	carana	जीव / चरित / पाण /
catuttha	चन्दिमा / चन्द /	चुम्बट	尺	生
第四	चन्दनिका	cumbaṭa	尺	shēng
dì sì	candanikā	卷	chǐ	पाण / चरित / उपपत्ति / जीव /
第四的	污水坑	juǎn	अधिपति / ईस / अधिप / पाद / चरण / पद /	生命
dì sì de	wū shuǐ kēng	चुम्बट / अज्झाय / चुम्बटक /	步行	shēng mìng
चेतना	ओलिगल्ल / चन्दनिका /	墊	bù xíng	चरित / पाण / जीव /
cetanā	चन्दिका	diàn	腳	生平
意圖	candikā	भिसि / चुम्बटक / चुम्बट /	jiǎo	shēng píng
yì tú	月光	线圈	पद / पाद / चरण /	जीव / चरित / पाण /
अज्झासय / अधिप्पाय / चेतना / चेत / परिकप्प /	yuè guāng	xiàn quān	jiǎo	生活
चतुब्बि	जुण्हा / कोमुदी / चन्द / चन्दिका / चन्दिमा /	चुम्बट / चुम्बटक /	jiǎo	shēng huó
catubbidha	चन्दिमा	चुम्बटक	पद / चरण / पाद /	आजीव / जीव / चरित / जीवन / चारी / पाण /
四重的	candimā	cumbaṭaka	腳踏	身
sì zhòng de	月亮	卷	jiǎo tà	shēn
चतुर	yuè liàng	juǎn	चरण / पाद / पद /	पाण / काय / करजकाय / जीव / गल्ल / कलेबर / देह / चरित / बोन्दि /
catura	तारा / चन्द / उळ / तारका / चन्दिमा /	चुम्बट / अज्झाय / चुम्बटक /	yīng chǐ	चरिम
精明的	月光	墊	चरण / पद / पाद /	carima
jīng míng de	yuè guāng	diàn	足	最後的
जाननक / चत्र /	जुण्हा / कोमुदी / चन्द / चन्दिका / चन्दिमा /	भिसि / चुम्बटक / चुम्बट /	zú	zuì hòu de
चेतसिक	月球	线圈	पद / चरण / पाद /	चरिम / चरिमक / पच्छिम /
cetasika	yuè qiú	xiàn quān	足部	चरिमक
心理的	चन्दिमा / चन्द /	चुम्बट / चुम्बटक /	zú bù	carimaka
xīn lǐ de	चुबु	下巴	पद / पाद / चरण /	最後的
智力的	cubuka	xià ba	चरिम / चरिमक / पच्छिम /	zuì hòu de
zhì lì de	下巴	चुबु / चुबु /	चरिया	cariyā
चुति	xià bā	下巴	操作	操行
cuti	चुबु / चुबु /	下巴	cāo xíng	चरिया / पटिपत्ति /
消失	xià bā	चुबु / चुबु /		
xiāo shī	अन्तरधायन / अदस्सन / नब्बापन / चुति / अभाव / अन्तरधान / अपगम /	額		
	hàn			

चेल	चुल्ल	चवन	चाटि	चामीकर
cela	culla	cavana	cāṭi	cāmikara
佈	子	死	一壺	純金
bù	jié	sǐ	yī hú	chún jīn
चोळ / चेल / अम्बर / दुस्स / पट / 布	खुद्द / थोक / अप्पक / अप्प / चुल्ल / परित्त /	चवन / नमुचि / पेत / नास / कालकिरिया / मच्चु / कालइकत / अन्तक /	चाटि / उक्खलि /	जातरूप / तपनीय / चामीकर / कनक / कम्बु / कञ्चन /
bù	小	死亡	壺	金
पट / चेल / अम्बर / चोळ / दुस्स / 布帛菽粟	xiǎo	सँ वंग	हू	jīn
bù bó shū sù	अप्पक / चुल्ल / थोक / खुद्द / परित्त / अप्प /	चवन / नास / कालकिरिया / मच्चु / अन्तक / नमुचि /	उक्खलि / चाटि /	चामीकर / कञ्चन / जातरूप / कम्बु / तपनीय / कनक /
पट / चोळ / दुस्स / अम्बर / चेल / 布料	小班	死地	壺	金子
bù liào	xiǎo bān	सँ दि	हू	jīn zì
चेल / दुस्स / चोळ / पट / अंसु / अम्बर / चोळक /	परित्त / अप्प / खुद्द / अप्पक / थोक / चुल्ल /	नास / कालकिरिया / मच्चु / मच्चु / नमुचि / अन्तक / चवन / चवन /	चाटि / उक्खलि /	कम्बु / कञ्चन / चामीकर / कनक / तपनीय / जातरूप /
桌布	xiǎo de	死地	缸	金字
zhuō bù	अप्पक / खुद्द / थोक / परित्त / चुल्ल / अप्प /	सँ de	gāng	jīn zì
चोळ / पट / चेल / अम्बर / दुस्स / 衣料	微小	नास / कालकिरिया / मच्चु / मच्चु / नमुचि / अन्तक / चवन / चवन /	चाटि / उक्खलि /	जातरूप / चामीकर / तपनीय / कनक / कञ्चन / कम्बु /
yī liào	wēi xiǎo	死神	罐	金幣
अम्बर / दुस्स / पट / चोळ / चेल / 衣服	परित्त / खुद्द / अप्प / थोक / अप्पक / चुल्ल /	सँ shén	guàn	jīn bì
yī fú	未成人	कालकिरिया / चवन / अन्तक / नास / नमुचि / मच्चु /	उक्खलि / चाटि /	जातरूप / तपनीय / चामीकर / कम्बु / कञ्चन / कनक /
चेल / छादन / दुस्स / निवासन / अच्छादन / पट /	wèi chéng nián rén	至死	鍋	金心
चलन	渺小	zhì sǐ	guō	jīn xīn
calana	miǎo xiǎo	कालकिरिया / नमुचि / अन्तक / नास / मच्चु / चवन /	उक्खलि / चाटि /	जातरूप / चामीकर / तपनीय / कम्बु / कञ्चन / कनक /
激動	परित्त / अप्प / चुल्ल / खुद्द / थोक / अप्पक /	身亡	guō	金色
jī dòng	芮	shēn wáng	उक्खलि / चाटि /	jīn sè
चलन / पकोप / फन्दित / फन्दन / कम्पन / उब्बिज्जना / आलोळ / परितस्सना / खोभ /	ruì	कालकिरिया / मच्चु / नास / अन्तक / नमुचि / चवन /	चातुरिय	जातरूप / कञ्चन / कम्बु / तपनीय / कनक / चामीकर /
發抖	अप्पक / खुद्द / अप्प / थोक / परित्त / चुल्ल /	चाग	cāturīya	黃金
fā dǒu	芮	cāga	技術	huáng jīn
तास / परिसप्पना / चलन / कम्पन /	fèi	天才	jì shù	कञ्चन / कनक / कम्बु / जातरूप / चामीकर / तपनीय /
運動	अप्प / खुद्द / थोक / परित्त / चुल्ल / अप्पक /	tiān cái	नेपुञ्ज / चातुरिय /	黃金
yùn dòng	叢	चाग / उपहार / उपायन /	精明	huáng jīn
कम्पन / चार / इञ्जन / फन्दन / एजा / दव / चलन /	zuì	慷慨	jīng míng	कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /
	अप्प / अप्पक / चुल्ल / थोक / खुद्द / परित्त /	kāng kǎi	दक्ख / चातुरिय /	
	薄	礼物	चाप	
	báo	lǐ wù	cāpa	
	थोक / परित्त / अप्प / परित्त / अप्प / चुल्ल / तनु / चुल्ल / अप्पक / खुद्द / अप्पक / खुद्द / थोक / तनु /	उपायन / चाग / उपहार /	弓	
	薄	禮物	gōng	
	bó	lǐ wù	धनु / इस्सास / चाप / कोण /	
	थोक / परित्त / अप्प / परित्त / अप्प / चुल्ल / तनु / चुल्ल / अप्पक / खुद्द / अप्पक / खुद्द / थोक / तनु /	पण्णाकार / पाहुण / चाग / उपायन / उपहार /	船首	
	藐	賜	chuán shǒu	
	miǎo	賜	धनु / चाप / कोण / इस्सास /	
	थोक / परित्त / अप्पक / खुद्द / चुल्ल / अप्प /	sì	躬	
	裨	उपायन / उपहार / चाग /	gōng	
	bì	贈送	इस्सास / धनु / कोण / चाप /	
	खुद्द / परित्त / अप्प / चुल्ल / थोक / अप्पक /	zèng sòng	鞠躬	
चूळा	cūlā	चाग / उपायन / उपहार /	jū gōng	
	冠	賜	चाप / इस्सास / धनु / कोण / पणाम /	
	guān	cì		
मकुट / किरिट / चूळा /		उपहार / उपहार / चाग / उपायन / चाग / उपायन /		
		賜		
		sì		
		उपहार / उपहार / चाग / उपायन / चाग / उपायन /		

चार	चारक	चारिका	चाल	चित्त
cāra	cāraḥ	cārikā	cāla	citta
作用	囚室	征程	休克	上漆
zuò yòng	qiú shì	zhēng chéng	xiū kè	shàng qī
चार / निस्सन्द / कम्म / निप्फत्ति / निप्फज्जन / फल / किरिय / पयोग /	चारक / कारा /	चारिका / गमन /	चाल / खोभ /	以為
動作	囹	征途	惊	yǐ wèi
dòng zuò	líng	zhēng tú	jīng	आभोग / चित्त / चिन्तन /
कम्म / इज्जन / पयोग / चार / किरिय /	चारक / कारा /	गमन / चारिका /	चाल / खोभ /	图片
動議	牢	旅游	震	tú piàn
dòng yì	láo	lǚ yóu	zhèn	पटिमा / पटिबिम्ब / चित्त / बिम्ब /
फन्दन / एजा / इज्जन / चार /	चारक / कारा / थिर / दव्ह /	गमन / गमन / चारिका /	खोभ / चाल /	圖片
去	牢獄	旅程	震动	圖片
qù	láo yù	lǚ chéng	zhèn dòng	tú piàn
गति / गमन / चार /	चारक / कारा /	गमन / चारिका / चारिका / गमन /	खोभ / चाल /	圖畫
推移	獄	旅程	震動	tú huà
tuī yí	yù	lǚ chéng	zhèn dòng	心
行动	कारा / चारक /	गमन / चारिका / चारिका / गमन /	चाल / तूणीर / तूण / खोभ /	xīn
xíng dòng	監獄	लू खिंग	震撼	心像
किरिय / किच्च / पयोग / चार / कम्म /	jjān yù	लू खिंग	zhèn hàn	xīn xiàng
行動	चारक / कारा /	गमन / चारिका / चारिका / गमन /	चाल / खोभ /	पटिमा / चित्त / बिम्ब / पटिबिम्ब /
xíng dòng	監	लू खिंग	震驚	心思
चार / कम्म / पयोग / किरिय /	jjān	गमन / चारिका / चारिका / गमन /	zhèn jīng	xīn sī
运动	चारक / कारा /	लू तु	jīng	आभोग / चिन्तन / चित्त /
yùn dòng	監牢	程	驚恐	心想
चार / फन्दन / एजा / इज्जन /	jjān láo	chéng	jīng kǒng	xīn xiǎng
運動	चारक / कारा /	अनुक्कम / चारिका / गमन /	चाल / खोभ /	पटिमा / चिन्तन / चित्त / पटिबिम्ब / आभोग / बिम्ब /
yùn dòng	監獄	चारित्त	चिक्खल्ल	思想
कम्पन / चार / इज्जन / फन्दन / एजा / दव / चलन /	jjān yù	cāritta	cikkhalla	sī xiǎng
	कारा / चारक /	品行	像泥沼的地方	आभोग / चित्त / गाह / चिन्तन /
	चारण	pǐn xíng	xiàng ní zhǎo de dì fāng	想像
	cāraṇa	चरित / चारित्त /	坭	xiǎng xiàng
	管理	練習	ní	चित्त / पटिमा / बिम्ब / पटिबिम्ब /
	guǎn lǐ	liàn xí	कलल / पड्क / कदम / चिक्खल्ल /	想法
	पटिजग्गन / अधिकार / चारण /	आसेवना / आचार / पटिपज्जन / अनुचरण / चारित्त / पटिपत्ति / उपसेवना /	沼泽	xiǎng fǎ
		習慣	zhǎo zé	गाह / आभोग / चिन्तन / चित्त /
		xí guàn	沼澤	想象
		行	zhǎo zé	xiǎng xiàng
		xíng	चिक्खल्ल / पलिप /	想過
		पन्ति / चारित्त /	泥	xiǎng guò
		行为	ní	आभोग / चिन्तन / चित्त /
		xíng wéi	उक्ताप / कलल / कदम / जल्लिका / चिक्खल्ल / कालुसिय / असुचि / पड्क /	照片
		चारी	泥巴	zhào piàn
		cāri	ní bā	画
		演戲	चिक्खल्ल / पड्क / कदम / कदम / चिक्खल्ल / पड्क / कलल / कलल /	huà
		yǎn xì	泥巴	畫
		yǎn jì	ní ba	huà
		生活	चिक्खल्ल / पड्क / कदम / कदम / चिक्खल्ल / पड्क / कलल / कलल /	精神
		shēng huó	泥沼	jīng shén
		आजीव / जीव / चरित / जीवन / चारी / पाण /	ní zhǎo	बु / चित्त /
			ní zhǎo	繪畫
			पड्क / कलल / चिक्खल्ल /	huì huà
			烂泥	胸
			làn ní	xiōng
				चित्त / उर /
				颜料
				yán liào

चित्तता	चिन्तन	चोच	चोळ	छेक
cittatā	cintana	coca	co a	cheka
上色	以為	芭	佈	乖
shàng sè	yǐ wèi	bā	bù	guāi
彩色	आभोग / चित्त / चिन्तन /	芭蕉	चोळ / चेल / अम्बर / दुस्स / पट /	छेक / दक्ख / पटु / कल्ल / कुसल /
cǎi sè	心思	bā jiāo	布	伶
चित्तीकार	xīn sī	蕉	bù	ling
cittīkāra	आभोग / चिन्तन / चित्त /	jiāo	पट / चेल / अम्बर / चोळ / दुस्स /	कल्ल / पटु / कल्ल / छेक / दक्ख /
尊敬	心想	香蕉	布帛菽粟	/ दक्ख / छेक / कुसल / कुसल /
zūn jìng	xīn xiǎng	xiāng jiāo	bù bó shū sù	伶
अच्यना / चित्तीकार / नमक्कार /	पटिमा / चिन्तन / चित्त /	चोदक	पट / चोळ / दुस्स / अम्बर / चेल /	líng
पच्चुद्धान / पूजा / नमस्सन /	पटिबिम्ब / आभोग / बिम्ब /	codaka	布料	कल्ल / पटु / कल्ल / छेक / दक्ख /
पुरेक्खार / गारव / पटिपूजना /	思想	原告	bù liào	/ दक्ख / छेक / कुसल / कुसल /
अपचायन /	sī xiǎng	yuán gào	चेल / दुस्स / चोळ / पट / अंसु /	伶俐
尊重	आभोग / चित्त / गाह / चिन्तन /	चोदना	अम्बर / चोळक /	ling li
zūn zhòng	思索	codanā	桌布	कल्ल / पटु / छेक / दक्ख /
गारव / चित्तीकार / अच्यना /	sī suǒ	指控	zhuō bù	俐
崇敬	思維	zhǐ kòng	चोळ / पट / चेल / अम्बर / दुस्स /	lì
chóng jìng	sī wéi	चोदना / अब्भाचिक्खन /	衣料	दक्ख / छेक / पटु / कल्ल / कुसल /
अपचायन / पटिपूजना / पच्चुद्धान /	思緒	控告	yī liào	/
गारव / अच्यना / नमस्सन /	sī xù	kòng gào	अम्बर / दुस्स / पट / चोळ / चेल /	焦
चित्तीकार /	思維	अब्भाचिक्खन / चोदना /	चोळक	jiāo
敬	sī wéi	罪名	co aka	कल्ल / पटु / दक्ख / छेक / कुसल /
jìng	思考	zuì míng	布料	/
अच्यना / चित्तीकार / गारव /	sī kǎo	चोदना / अब्भाचिक्खन /	bù liào	妙
注意	चिन्तन / तक्कन / कप्पन /	罪狀	चेल / दुस्स / चोळ / पट / अंसु /	miào
zhù yì	思路	zuì zhuàng	अम्बर / चोळक /	दक्ख / कुसल / पटु / कल्ल / छेक /
चित्तीकार / गुत्ति / गारव /	sī lù	चोदना / अब्भाचिक्खन /	छ	/
अच्यना / गोपन / परिहार /	想法	चोपन	cha	巧妙
अविप्पवास /	xiǎng fǎ	copana	六	qiǎo miào
翹	गाह / आभोग / चिन्तन / चित्त /	攪拌	liù	छेक / कल्ल / पटु / दक्ख /
yì	想過	jiào bàn	六個	巧妙的
अच्यना / चित्तीकार / गारव /	xiǎng guò	चोर	liù gè	qiào miào de
考慮	आभोग / चिन्तन / चित्त /	चिन्तनक		दक्ख / कल्ल / पटु / छेक /
kǎo lù	चिन्तनक	cintanaka		聰
चिति	深思的	小偷		cōng
citi	shēn sī de	xiǎo tōu		दक्ख / पटु / पण्डित / छेक /
堆	चिन्तनक / पतिस्सत / चिन्तक /	चोर / थेनक / थेन / तक्कर /		कल्ल /
duī	चीनरट्टु	強盜		聰明
काय / पुञ्ज / चिति / पूग /	cīnaratt̥ṭha	qiáng dào		cōng míng
積	中国	दस्सु / चोर /		पटु / कल्ल / दक्ख / छेक /
zhě	zhōng guó	盜		聰明的
पुञ्ज / चिति / काय / पूग /	中國	dào		cōng míng de
चिन्तक	zhōng guó	थेन / थेनक / तक्कर / चोर /		दक्ख / कल्ल / छेक / पटु /
cintaka	中華	盜		聰明
深思的	zhōng huá	dào		cōng míng
shēn sī de	华	थेन / तक्कर / चोर / थेनक /		दक्ख / छेक / पटु / कल्ल /
चिन्तनक / पतिस्सत / चिन्तक /	huá	盜賊		高明
	瓷器	dào zéi		gāo míng
	cí qì	दस्सु / चोर /		दक्ख / कल्ल / पटु / छेक /
	華	竊賊		
	huá	qiè zéi		छद्दु
		चोर / थेन / तक्कर / थेनक /		chatṭha
		賊		第六的
		zéi		dì liù de
		चोर / थेनक / तक्कर / थेन /		छड्डन
		賊		chaḍḍana
		zéi		丟棄
		थेन / थेनक / तक्कर / चोर /		diū qì
		賊		छड्डन / पटिनिस्सग्ग / निक्खेप /
		zéi		अवक्कार /
		थेन / थेनक / तक्कर / चोर /		排斥
				pái chì

छण	छदन	蓋	छन्द	छम्भितत्त
chaṇa	chadana	gài	chanda	chambhitatta
祭典	包含	पिधान / पचत्थरण / छादन / अपिधान / पच्छाद / छदन / पापुरण /	不妨	麻醉
jì diǎn	bāo hán	पिधान / पचत्थरण / छादन / अपिधान / पच्छाद / छदन / पापुरण /	bù fáng	má zuì
節	पचत्थरण / अपिधान / पापुरण / पच्छाद / पिधान / छदन /	蓋上	心願	
jié	包庇	gài shàng	xīn yuàn	
節慶	bāo bì	छदन / अपिधान / पापुरण / पिधान / पच्छाद / पचत्थरण /	必	
jié qīng	पापुरण / छदन / खेटक / पचत्थरण / खेट / पिधान / अपिधान / पच्छाद /	蓋子	bì	
節日	पापुरण / छदन / खेटक / पचत्थरण / खेट / पिधान / अपिधान / पच्छाद /	gài zi	意志	
jié rì	包罗	अपिधान / पच्छाद / पिधान / छदन / पचत्थरण / थकन / पापुरण / पटल /	yì zhì	
节	bāo luó	蔽	意願	
jié	अपिधान / छदन / पिधान / पच्छाद / पापुरण / पचत्थरण /	bì	yì yuàn	
节庆	套	पच्छाद / पिधान / छदन / पापुरण / अपिधान / पचत्थरण /	愿望	
jié qīng	tào	覆	yuàn wàng	
छट्टिका	अत्थरण / पापुरण / अपिधान / पच्छाद / पचत्थरण / छदन / पिधान /	fù	अपेक्खन / निकामना / अभिलासा / इच्छा / इच्छन / जालिनी / आसा / आसिसना / पिहायना / छन्द /	
chaddikā	套子	पापुरण / पच्छाद / छदन / अपिधान / पिधान / पचत्थरण /	慾	
嘔吐	tào zi	覆蓋	yù	
ou tǔ	पिधान / अपिधान / पच्छाद / पचत्थरण / पापुरण / छदन /	fù gài	yù	
	封皮	अपिधान / छदन / पच्छाद / पचत्थरण / पापुरण / पिधान / परियोनहन /	祝	
	fēng pí	遮	zhù	
	पापुरण / अपिधान / पच्छाद / पचत्थरण / पिधान / छदन /	zhē	इच्छन / इच्छा / अभिलासा / आसिसना / आसा / छन्द /	
	屋頂	छदन / छादन / पचत्थरण / पिधान / पच्छाद / पापुरण / अपिधान /	要	
	wū dǐng	遮住	yào	
	गह / छदन /	zhē zhù	छन्द / अभियाचन /	
	屋顶	पिधान / पच्छाद / पापुरण / छदन / पचत्थरण / अपिधान /	遺囑	
	wū dǐng	遮掩	yí zhǔ	
	幌子	zhē yǎn	छन्दक	
	huǎng zi	छदन / पापुरण / पच्छाद / अपिधान /	chandaka	
	पिधान / पचत्थरण / छदन / पापुरण / पच्छाद / अपिधान /	房頂	投票	
	fáng dǐng	fáng dǐng	tóu piào	
	捂	捂	छन्दता	
	wǔ	wǔ	chandatā	
	अपिधान / पापुरण / छदन / पिधान / पच्छाद / पचत्थरण /	掩	渴望	
	掩	yǎn	kě wàng	
	yǎn	पिधान / पचत्थरण / पापुरण / अपिधान / पच्छाद / छदन /	कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकइखन / जालिनी / अपेक्खन / आसा / एजा / इच्छा / तण्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकइखत / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /	
	yǎn gài	पच्छाद / पिधान / पचत्थरण / पापुरण / छदन / अपिधान /	छन्न	
	पच्छाद / पिधान / पचत्थरण / पापुरण / छदन / अपिधान /	掩護	channa	
	yǎn hù	掩護	隱	
	पच्छाद / अपिधान / पचत्थरण / पिधान / पापुरण / छदन /	掩飾	yǐn	
	掩飾	yǎn shì	पटिच्छन्न / छन्न /	
	छदन / पापुरण / पच्छाद / पिधान / पचत्थरण / अपिधान /	蓋	छप्पद	
	gài	gài	chappada	
	पिधान / अपिधान / पापुरण / पचत्थरण / छदन / पच्छाद /	罩	蜂	
	罩	zhào	fēng	
	अत्थरण / पापुरण / पिधान / अपिधान / छदन / पचत्थरण / पच्छाद /		अलि / छप्पद /	
			蜜蜂	
			mì fēng	
			अलि / छप्पद /	

छमा
chamā
土
tǔ
धरणी / जगति / छमा / भूमि / पंसु / भू / पृथुवी /
土地
tǔ de
भूमि / अवनि / पंसु / छमा / भूमि / छमा / पंसु / अवीनि / थल / थल /
土地
tǔ dì
भूमि / अवनि / पंसु / छमा / भूमि / छमा / पंसु / अवीनि / थल / थल /
土壤
tǔ rǎng
भू / पृथुवी / छमा / पंसु / धरणी / भूमि / जगति /
地
de
पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छमा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पृथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छमा / पृथुवी / जगति / जगति /
地
dì
पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छमा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पृथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छमा / पृथुवी / जगति / जगति /
地上
de shàng
भूमि / थल / छमा /
地球
de qiú
पृथुवी / पृथुवी / गूळ / गूळ / भूमि / छमा / छमा / भूमि / भू / धरणी / भू / जगति / जगति / धरणी /
地球
dì qiú
पृथुवी / पृथुवी / गूळ / गूळ / भूमि / छमा / छमा / भूमि / भू / धरणी / भू / जगति / जगति / धरणी /
地皮
de pí
छमा / थल / थल / भूमि /
地线
dì xiàn
पृथुवी / धरणी / छमा / भूमि / जगति / भू /
地面
de miàn
भूमि / पृथुवी / भू / भू / धरणी / भूमि / छमा / जगति / पृथुवी / थल / धरणी / थल / जगति / छमा /
地面
dì miàn
भूमि / पृथुवी / भू / भू / धरणी / भूमि / छमा / जगति / पृथुवी / थल / धरणी / थल / जगति / छमा /
大地
dà de
धरणी / धरणी / पृथुवी / छमा / पृथुवी / जगति / भू / छमा / भू / भूमि / जगति / भूमि /

大地
dà dì
धरणी / धरणी / पृथुवी / छमा / पृथुवी / जगति / भू / छमा / भू / भूमि / जगति / भूमि /
接地
jiē dì
जगति / भूमि / थल / थल / धरणी / छमा / धरणी / भू / छमा / भूमि / जगति / भू / पृथुवी / पृथुवी /
接地
jiē de
जगति / भूमि / थल / थल / धरणी / छमा / धरणी / भू / छमा / भूमि / जगति / भू / पृथुवी / पृथुवी /
泥土
ní tǔ
धरणी / पृथुवी / पंसु / जगति / भू / छमा / भूमि /
छव
chava
低
dī
नीच / ओरक / निकिडु / अधम / छव / अवच / निहीन / निन्नता /
低下
dī xià
ओरक / अधम / निकिडु / अवच / निहीन / नीच / छव /
低沉
dī chén
छव / नीच / निकिडु / ओरक / अवच / अधम / निहीन /
低的
dī de
निन्न / अधम / निकिडु / ओरक / नीच / निहीन / अवच / छव /
低級
dī jí
अधम / अवच / छव / निहीन / नीच / ओरक / निकिडु /
低落
dī luò
छव / नीच / निकिडु / ओरक / अधम / अवच / निहीन /
卑
bēi
अवच / निकिडु / निहीन / छव / ओरक / नीच / अधम /
卑下
bēi xià
नीच / छव / निहीन / अवच / ओरक / निकिडु / अधम /
鄙
bǐ
नीच / अवच / छव / निहीन / ओरक / निकिडु / अधम /
隳
xí
नीच / अधम / निहीन / अवच / निकिडु / छव / ओरक /

छवि
chavi
外皮
wài pí
皮
pí
छवि / चम्म / तच /
皮膚
pí fū
तच / छवि / चम्म /
छात
chāta
餓
è
छात / छातज्झत्त /
饑
jī
छात / छातज्झत्त /
飢
jī
छातज्झत्त / छात /
饥饿的
jī è de
छात / छातज्झत्त /
餓
è
छातज्झत्त / छात /
छातज्झत्त
chātajjhatta
餓
è
छात / छातज्झत्त /
饑
jī
छात / छातज्झत्त /
飢
jī
छातज्झत्त / छात /
饥饿的
jī è de
छात / छातज्झत्त /
餓
è
छातज्झत्त / छात /

छादन
chādāna
服装
fú zhuāng
अच्छादन / निवासन / छादन /
服装
fú zhuāng
निवासन / छादन / अच्छादन /
蓋
gài
पिधान / पचत्थरण / छादन / अपिधान / पच्छाद / छदन / पापुरण /
衣服
yī fú
चेल / छादन / दुस्स / निवासन / अच्छादन / पट /
衣物
yī wù
छादन / निवासन / अच्छादन /
遮
zhē
छदन / छादन / पचत्थरण / पिधान / पच्छाद / पापुरण / अपिधान /
छाया
chāyā
影
yǐng
影子
yǐng zi
暗影
àn yǐng
肖像
xiào xiàng
पटिबिम्ब / पटिमा / छाया / बिम्ब /
荫
yìn
阴影
yīn yǐng
陰影
yīn yǐng
छारिका
chārikā
灰燼
huī jìn
छारिका / भस्म /

छिग्गल
chiggala
孔
kǒng
छिद् / कुहर / छिग्गल / बिल /
洞
dòng
कप / छिद् / कुहर / बिल / गम्भर / छिग्गल /
洞口
dòng kǒu
कुहर / छिद् / बिल / छिग्गल /
破洞
pò dòng
बिल / कुहर / छिग्गल / छिद् /
穴
xué
बिल / छिग्गल / छिद् / छिद् / बिल / कुहर / छिग्गल / कुहर /
穴
xuè
बिल / छिग्गल / छिद् / छिद् / बिल / कुहर / छिग्गल / कुहर /
窟窿
kū long
बिल / कुहर / छिद् / छिग्गल /
阱
jǐng
बिल / छिग्गल / छिद् / कुहर /

छिद्द
chidda
孔
kǒng
छिद्द / कुहर / छिग्गल / बिल / 有洞的
yǒu dòng de
洞
dòng
कूप / छिद्द / कुहर / बिल / गम्भर / छिग्गल /
洞口
dòng kǒu
कुहर / छिद्द / बिल / छिग्गल / 破洞
pò dòng
बिल / कुहर / छिग्गल / छिद्द / 穴
xué
बिल / छिग्गल / छिद्द / छिद्द / बिल / कुहर / छिग्गल / कुहर / 穴
xué
बिल / छिग्गल / छिद्द / छिद्द / बिल / कुहर / छिग्गल / कुहर / 穿孔的
chuān kǒng de
窟窿
kū long
बिल / कुहर / छिद्द / छिग्गल / 缺點
quē diǎn
पदोस / आदीनव / कलङ्क / छिद्द / दोस /
裂縫
liè fèng
दरी / छिद्द /
過失
guò shī
खलित / निग्गह / अज्जाचार / दोस / अपाय / छिद्द / औतार /
阱
jǐng
बिल / छिग्गल / छिद्द / कुहर /
जग्घना
jagghanā
笑
xiào
जग्घना / परिहास /
जेगुच्च
jeguccha
卑鄙的
bēi bǐ de
कातर / जेगुच्च / गारय्ह / उन्नातब्ब /

जगति
jagati
世
shì
जीव / जगति / पजा / पाण / च रित /
世上
shì shàng
世界
shì jiè
世界上
shì jiè shàng
世間
shì jiān
人間
rén jiān
土
tǔ
धरणी / जगति / छमा / भूमि / पंसु / भू / पृथुवी /
土壤
tǔ rǎng
भू / पृथुवी / छमा / पंसु / धरणी / भूमि / जगति /
地
de
पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छमा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पृथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छमा / पृथुवी / जगति / जगति /
地球
dì qiú
पृथुवी / पृथुवी / गुळ / गुळ / भूमि / छमा / छमा / भूमि / भू / धरणी / भू / जगति / जगति / धरणी /
地线
dì xiàn
पृथुवी / धरणी / छमा / भूमि / जगति / भू /
地面
de miàn
भूमि / पृथुवी / भू / भू / धरणी / भूमि / छमा / जगति / पृथुवी / थल / धरणी / थल / जगति / छमा /
地面
dì miàn
भूमि / पृथुवी / भू / भू / धरणी / भूमि / छमा / जगति / पृथुवी / थल / धरणी / थल / जगति / छमा /
大地
dà de
धरणी / धरणी / पृथुवी / छमा / पृथुवी / जगति / भू / छमा / भू / भूमि / जगति / भूमि /

大地
dà dì
धरणी / धरणी / पृथुवी / छमा / पृथुवी / जगति / भू / छमा / भू / भूमि / जगति / भूमि /
天下
tiān xià
天地
tiān de
宇宙
yǔ zhòu
接地
jiē de
जगति / भूमि / थल / थल / धरणी / छमा / धरणी / भू / छमा / भूमि / जगति / भू / पृथुवी / पृथुवी /
接地
jiē dì
जगति / भूमि / थल / थल / धरणी / छमा / धरणी / भू / छमा / भूमि / जगति / भू / पृथुवी / पृथुवी /
新世界
xīn shì jiè
泥土
ní tǔ
धरणी / पृथुवी / पंसु / जगति / भू / छमा / भूमि /
紆
shū
जघन
jaghana
屁股
pì gǔ
जघन / पावळ / आनिसद /
腰部
yāo bù
मज्झ / जघन / कटि /
臀部
tún bù
उच्छङ्ग / पावळ / कटि / नितम्ब / जघन / आनिसद /
जङ्गल
jaṅgala
丛林
cóng lín
जङ्गल / गहन /
叢林
cóng lín
गहन / जङ्गल /
沙漠
shā mò
जङ्गल / इरिन / कन्तार /

जज्जर
jajjara
估
gū
पुराण / जर / बु / जज्जर /
古
gǔ
बु / पुराण / जर / जज्जर /
古老
gǔ lǎo
जर / बु / पुराण / जज्जर /
年老的
nián lǎo de
जर / जज्जर / बु / पुराण /
年迈
nián mài
जर / जज्जर / बु / पुराण /
旧
jiù
पुराण / जज्जर / बु / जर /
旧的
jiù de
बु / जर / पुराण / जज्जर /
老
lǎo
जर / बु / थेर / पुराण / जज्जर / आचरिय /
老的
lǎo de
जज्जर / बु / जर / पुराण /
舊
jiù
जर / जज्जर / बु / पुराण /
舊的
jiù de
जर / पुराण / बु / जज्जर /
जञ्ज
jañña
迷人的
mí rén de
जञ्ज / कल्याण /
जट
jata
把
bǎ
बाहा / जट /
把手
bǎ shǒu
जट / बाहा /
把柄
bǎ bǐng
बाहा / जट /
柄
bǐng
जट / दण्ड / बाहा /

जेड्ड
jetṭha
最初の
zuì chū de
आवत्थिक / आदि / जेड्ड / धूर / मुख्य / पधान / मुख / पाकतिक / पठम /
至高的
zhì gāo de
जठर
jathara
肚
dù
कोड्ड / उदर / आमासय / जठर /
肚子
dù zi
जठर / कोड्ड / उदर /
肚皮
dù pí
उदर / जठर /
胃
wèi
जठर / आमासय / उदर /
腹
fù
जठर / उदर / कोड्ड / आमासय /
腹部
fù bù
कोड्ड / उदर / जठर /
臚
lú
जठर / उदर /
जण्णु
jaṇṇu
膝
xī
जण्णु / जाणु /
膝上
xī shàng
जण्णु / जाणु /
膝下
xī xià
जण्णु / जाणु /
膝蓋
xī gài
उच्छङ्ग / जाणु / जण्णु /
जुण्ह
junḥa
明亮的
míng liàng de
जुण्ह / उज्जल / भासूर / भस्सर /
जुणहा
junhā
月光
yuè guāng
जुणहा / कोमुदी / चन्द / चन्दिका / चन्दिमा /

जूत	जन
jūta	jana
賭博	人
dǔ bó	rén
賭博	पोस / दिपद / जन / पुम / पोरिस / पुरिस / पुगल / मच्च / जन्तु /
dǔ bó	人中
जतुका	rén zhōng
jatukā	人们
蝙蝠	rén men
biān fú	人們
अजिनपत्ता / जतुका /	rén men
जुति	人士
juti	rén shì
光亮	पुगल / जन / पुरिस /
guāng liàng	人心
पकास / तपन / दोसिना / जुति / दिप्पन / जलन / दित्ति /	rén xīn
光輝	人民
guāng huī	rén mín
तेज / किरण / जुति / आभा / जोति /	夫
	fū
	भत्तु / मच्च / दिपद / जन / जन / मच्च / पुरिस / धव / पिय / धव / दिपद / कन्त / पिय / पुम / कन्त / पुरिस / पति / पोस / पति / पुम / पोस / भत्तु /
	夫
	fu
	भत्तु / मच्च / दिपद / जन / जन / मच्च / पुरिस / धव / पिय / धव / दिपद / कन्त / पिय / पुम / कन्त / पुरिस / पति / पोस / पति / पुम / पोस / भत्तु /
	子民
	zǐ mín
	成年男子
	chéng nián nán zǐ
	जन / पुरिस / मच्च /
	曼
	màn
	मच्च / पुथुल / पुम / पुरिस / पोस / उरु / जेन / दिपद /
	民
	mín
	民眾
	mín zhòng
	氓
	máng
	男人
	nán rén
	पुरिस / दिपद / पुम / जन / मच्च / पोस /
	男子
	nán zǐ
	पोस / पुम / पुरिस / दिपद / मच्च / जन /
	男子漢
	nán zǐ hàn
	पुरिस / दिपद / पोस / जन / पुम / मच्च /
	眾人
	zhòng rén
	者
	zhě
	जन / पुरिस / पुगल /

萌	méng
जनक	जनक
janaka	公公
gōng gōng	जनक / तात /
天父	tiān fù
जनक / तात /	岳父
yuè fù	जनक / तात /
椿	chūn
जनक / तात /	父
fù	जनक / तात /
父親	fù qīn
जनक / तात /	父親
fù qīn	जनक / तात /
爷	yé
तात / जनक / जनक /	爷
yé	तात / जनक / जनक /
爸爸	bà bà
जनक / तात /	爹
diē	जनक / तात /
爺	yé
जनक / तात /	生父
shēng fù	तात / जनक /
老子	lǎo zi
जनक / तात /	जन्तु
jantu	人
rén	पोस / दिपद / जन / पुम / पोरिस / पुरिस / पुगल / मच्च / जन्तु /
生物	shēng wù
जन्तु / पाणी / देही / पाण /	

जनेत्ती	जनेत्ती
janetti	娘
niáng	जननी / जनिका / अम्बा / कन्ता / थी / अङ्गना / नारी / अम्मा / इत्थि / इत्थि / जनेत्ती /
婆婆	pó pó
जननी / जनेत्ती / जनिका / अम्बा / अम्मा /	岳母
yuè mǔ	जनेत्ती / अम्बा / अम्मा / जनिका / जननी /
母	mǔ
जननी / अम्मा / जनिका / अम्बा / जनेत्ती /	母親
mǔ qīn	जननी / जनिका / जनेत्ती / अम्मा / अम्बा /
母親	mǔ qīn
अम्मा / अम्बा / जनिका / जनेत्ती / जननी /	जनन
जनन	janana
原因	yuán yīn
कारण / पद / निमित्त / निदान / ठान / अपदेस / अत्यवस / जनन /	जननी
जननी	jananī
娘	niáng
जननी / जनिका / अम्बा / कन्ता / थी / अङ्गना / नारी / अम्मा / इत्थि / इत्थि / जनेत्ती /	婆婆
pó pó	जननी / जनेत्ती / जनिका / अम्बा / अम्मा /
岳母	yuè mǔ
जनेत्ती / अम्बा / अम्मा / जनिका / जननी /	母
mǔ	जननी / अम्मा / जनिका / अम्बा / जनेत्ती /
母親	mǔ qīn
जननी / जनिका / जनेत्ती / अम्मा / अम्बा /	母親
mǔ qīn	अम्मा / अम्बा / जनिका / जनेत्ती / जननी /

जनपद	जनपद
janapada	国
guó	देस / जाति / जनपद /
國家	guó jiā
देस / जाति / जनपद /	國
guó	देस / जनपद /
國家	guó jiā
देस / जनपद /	國度
guó dù	जनपद / देस /
我國	wǒ guó
जनपद / देस /	江山
jiāng shān	जनपद / देस /
治國	zhì guó
देस / जनपद /	鄉村
xiāng cūn	देस / जनपद /
जनाधिप	जनाधिप
janādhipa	君王
jūn wáng	देव / पत्थिव / जनाधिप / जनिन्द / इन्द /
國王	guó wáng
पत्थिव / जनिन्द / इन्द / जनाधिप / देव / दिसम्पति /	國王
guó wáng	जनिन्द / इन्द / देव / जनाधिप / पत्थिव /
大王	dà wáng
पत्थिव / जनिन्द / देव / जनाधिप / इन्द /	特大
tè dà	इन्द / देव / पत्थिव / जनिन्द / जनाधिप /
王	wáng
जनाधिप / पत्थिव / देव / जनिन्द / इन्द /	

जनिका	जम्बीर	जर	जल	जलनिधि
janikā	jambīra	jara	jala	jalanidhi
娘	奧兰治	估	下水	大洋
niáng	ào lán zhì	gū	xià shuǐ	dà yáng
जननी / जनिका / अम्बा / कन्ता / थी / अङ्गना / नारी / अम्मा / इत्थि / इत्थि / जनेत्ती /	桔子	पुराण / जर / बु / जज्जर /	तोय / ओक / नीर / अम्बु / जल / अण्ण / दक / उदक /	जलनिधि / अण्णव / जलधि /
婆婆	jú zi	發燒	水	大海
pó pó	जम्बीर / जम्बीर /	fā shāo	水	dà hǎi
जननी / जनेत्ती / जनिका / अम्बा / अम्मा /	桔子	古	shuǐ	अण्णव / उदधि / जलनिधि /
岳母	jié zi	gǔ	तोय / पान / अण्ण / जल / उदक / दक / अम्बु / नीर / ओक /	जलधि /
yuè mǔ	जम्बीर / जम्बीर /	बु / पुराण / जर / जज्जर /	水中	海洋
जनेत्ती / अम्बा / अम्मा / जनिका / जननी /	橘	古老	shuǐ zhōng	hǎi yáng
母	jú	gǔ lǎo	ओक / जल / अण्ण / उदक / नीर / तोय / दक / अम्बु /	अण्णव / जलनिधि / जलधि /
mǔ	橘子	जर / बु / पुराण / जज्जर /	水源	瀚
जननी / अम्मा / जनिका / अम्बा / जनेत्ती /	jú zi	年老的	shuǐ yuán	hàn
母親	橘色	nián lǎo de	तोय / दक / नीर / पभव / अम्बु / निदान / उदक / ओक / जल / अण्ण /	जलनिधि / जलधि / अण्णव /
mǔ qīn	jú sè	जर / जज्जर / बु / पुराण /	缺水	瀛
जननी / जनिका / जनेत्ती / अम्मा / अम्बा /	橘色的	nián mài	quē shuǐ	yíng
母親	jú sè de	जर / जज्जर / बु / पुराण /	नीर / जल / तोय / अण्ण / ओक / दक / अम्बु / उदक /	जलधि / अण्णव / जलनिधि /
mǔ qīn	橙	旧	जलूका	जल्लिका
जननी / जनिका / जनेत्ती / अम्मा / अम्बा /	chéng	jiù	जलूका	jallikā
母親	橙子	पुराण / जज्जर / बु / जर /	吸血鬼	垢
mǔ qīn	chéng zi	旧的	xī xuè guǐ	gòu
अम्मा / अम्बा / जनिका / जनेत्ती / जननी /	橙色的	jiù de	水蛭	जल्लिका / असुचि / उक्ताप / कालुसिय /
जनिन्द	chéng sè	बु / जर / पुराण / जज्जर /	shuǐ zhì	汚
janinda	橙色的	热病	蛭	wū
君王	chéng sè de	rè bìng	zhì	उक्ताप / असुचि / कालुसिय / जल्लिका /
jūn wáng	जम्म	rè bìng	जलधि	汚垢
देव / पत्थिव / जनाधिप / जनिन्द / इन्द /	jamma	發燒	jaladhi	wū gòu
国王	卑鄙	fā shāo	大洋	उक्ताप / जल्लिका / असुचि / कालुसिय /
guó wáng	bēi bǐ	老	dà yáng	泥
पत्थिव / जनिन्द / इन्द / जनाधिप / देव / दिसम्पति /	可鄙	lǎo	जलनिधि / अण्णव / जलधि /	ní
國王	kě bǐ	जर / बु / थेर / पुराण / जज्जर / आचरिय /	大海	उक्ताप / कलल / कहम / जल्लिका / चिकखल्ल / कालुसिय / असुचि / पङ्क /
guó wáng	可鄙的	老的	dà hǎi	穉
जनिन्द / इन्द / देव / जनाधिप / पत्थिव /	kě bǐ de	lǎo de	अण्णव / उदधि / जलनिधि / जलधि /	huì
大王	उञ्जातब्ब / जम्म /	जज्जर / बु / जर / पुराण /	海洋	कालुसिय / जल्लिका / उक्ताप / असुचि /
dà wáng	粗俗的	舊	hǎi yáng	
पत्थिव / जनिन्द / देव / जनाधिप / इन्द /	cū sú de	jiù	अण्णव / जलनिधि / जलधि /	
特大	जय	जर / जज्जर / बु / पुराण /	瀚	
tè dà	jaya	舊的	hàn	
इन्द / देव / पत्थिव / जनिन्द / जनाधिप /	勝	jiù de	जलनिधि / जलधि / अण्णव /	
王	shèng	जर / पुराण / बु / जज्जर /	瀛	
wáng	勝利	衰老的	yíng	
जनाधिप / पत्थिव / देव / जनिन्द / इन्द /	shèng lì	shuāi lǎo de	जलधि / अण्णव / जलनिधि /	
好勝	hǎo shèng	जरता	जलन	
戰勝	戰勝	jaratā	jalana	
zhàn shèng	捷	衰退	光亮	
捷	jié	shuāi tuì	guāng liàng	
胜	shèng	खय / जरा / जरता /	पकास / तपन / दोसिना / जुति / दिप्पन / जलन / दित्ति /	
shèng	勝利	जरा	燃燒	
勝利	shèng lì	jarā	rán shāo	
shèng lì		衰退	झायन / जलन /	
		shuāi tuì		
		खय / जरा / जरता /		

जळ	जव	जागर	जातरूप	जाति
jala	java	jāgara	jātarūpa	jāti
傻	力	注意的	純金	再生
shǎ	lì	zhùyì de	chúnjīn	zàishēng
दुम्मेध / दन्ध / अन्ध / दुप्पञ्ज / जळ / बाल /	जव / बल / आधिपतेय्य / आनुभाव / तेज / पभाव / आधिपच्च / थाम /	जागर / अप्पमत्त / अस्सव /	जातरूप / तपनीय / चामीकर / कनक / कम्बु / कञ्चन /	निब्बत्तन / जाति / उप्पत्ति / उपपत्ति /
傻事	力气	jǐng xǐng de	金	出生
shǎ shì	lì qì	अप्पमत्त / जागर /	jīn	chūshēng
दन्ध / जळ /	जव / पभाव / थाम / बल /	जागरिय	चामीकर / कञ्चन / जातरूप / कम्बु / तपनीय / कनक /	उप्पज्जन / उप्पाद / जाति / पजायन / निब्बत्तन / जायन /
呆	力氣	jāgariya	金子	出身
dāi	lì qì	熬夜	jīn zǐ	chūshēn
बाल / दन्ध / दुम्मेध / अन्ध / जळ / ठान / दुप्पञ्ज /	जव / बल / पभाव / थाम /	áo yè	कम्बु / कञ्चन / चामीकर / कनक / तपनीय / जातरूप /	पजायन / उप्पज्जन / जाति / उप्पत्ति / निब्बत्तन / पभव / उप्पाद / उद्धान / जायन /
愚	力量	警戒	金字	国
yú	lì liàng	jǐng jiè	jīn zì	guó
जळ / दन्ध /	तेज / आनुभाव / थाम / आधिपच्च / जव / पभाव / बल / आधिपतेय्य /	अप्पमाद / जागरिय /	जातरूप / चामीकर / तपनीय / कनक / कञ्चन / कम्बु /	देस / जाति / जनपद /
愚笨	勢力	जाणु	金幣	国家
yú bèn	shì lì	jāṇu	jīn bì	guójiā
दन्ध / जळ /	जव / आनुभाव / आधिपच्च / थाम / बल / तेज / पभाव / आधिपतेय्य /	膝	जातरूप / तपनीय / चामीकर / कम्बु / कञ्चन / कनक /	देस / जाति / जनपद /
愚蠢的	實力	xī	金心	民族
yú chǔn de	shí lì	जण्णु / जाणु /	jīn xīn	mínzú
अन्ध / दन्ध / दुम्मेध / जळ / बाल / दुप्पञ्ज /	बल / थाम / पभाव / जव /	膝上	जातरूप / चामीकर / तपनीय / कम्बु / कञ्चन / कनक /	जाति / जातिक /
慢	快慢	xī shàng	金色	生下
màn	kuàimàn	जण्णु / जाणु /	jīn sè	shēng xià
दन्ध / जळ /	速	膝下	जातरूप / कञ्चन / कम्बु / तपनीय / कनक / चामीकर /	पजायन / उप्पाद / जायन / उप्पज्जन / जाति / निब्बत्तन /
慢慢地	sù	xī xià	黃金	生出
mànmàndì	sù	जण्णु / जाणु /	huángjīn	shēngchū
दन्ध / जळ /	खिप्प / तुरित / जव / थिर /	膝蓋	कञ्चन / कनक / कम्बु / जातरूप / चामीकर / तपनीय /	पजायन / जायन / उप्पाद / उप्पज्जन / जाति / निब्बत्तन /
慢的	速力	xī gài	黃金	种族
mànde	sù lì	उच्छङ्ग / जाणु / जण्णु /	huángjīn	zhǒngzú
जळ / दन्ध /	速度		कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /	zhǒngzú
懵	sùdù			誕
měng	sùlǜ			dàn
जळ / दन्ध /	速率			जाति / उप्पाद / पजायन / निब्बत्तन / जायन / उप्पज्जन /
痴	sùlù			誕
chī	fēichē			dàn
दुम्मेध / जळ / दन्ध / अन्ध / बाल / दुप्पञ्ज /	जवन			जाति / उप्पाद / पजायन / जायन / निब्बत्तन / उप्पज्जन /
笨	javana			誕
bèn	奔跑			dàn
जळ / दुप्पञ्ज / अन्ध / बाल / दुम्मेध / दन्ध /	bēnpǎo			जाति / उप्पाद / पजायन / जायन / निब्बत्तन / उप्पज्जन /
笨的	धावन / जवन /			賽跑
bènde	敏捷			sàipǎo
दुम्मेध / दन्ध / जळ / अन्ध / दुप्पञ्ज / बाल /	mǐnjié			賽馬
緩慢	पटिभाग / जवन /			sàimǎ
huǎnmàn	迅速的			
जळ / दन्ध /	xùnsùde			जातिक
蠢	जवन / तुरित /			jātika
chǔn	जुहन			宗族
दन्ध / जळ /	juhana			zōngzú
蠢笨	供奉			जातिक / कुल / गोत्त /
chǔnbèn	gōngfèng			族
दन्ध / जळ /	अपचायन / आहृति / आहण / नमस्सन / जुहने / पूजा /			zú
迟缓				जातिक / गोत्त / कुल / कुटुम्ब /
chíhuǎn				氏族
दन्ध / जळ /				shìzú
				गोत्त / जातिक / कुल /
				民族
				mínzú
				जाति / जातिक /

जाननक	जानि
jānanaka	jāni
精明的	伉
jīng míng de	kàng
जाननक / चतुर /	कन्ता / कन्त / भरिया / भत्तु / धव / कलत्त / पिय / पिया / जाया / पति / जानि /
	剝奪
	bō duó
	剝奪
	bō duó
	太太
	tài tài
	कलत्त / जानि / भरिया / जाया / कन्ता / पिया /
	夫人
	fū rén
	जानि / कलत्त / भरिया / पिया / कन्ता / जाया /
	夫妻
	fū qī
	जानि / जाया /
	女人
	nǚ rén
	जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अङ्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना /
	女人
	nǚ rén
	जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अङ्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना /
	妇人
	fù rén
	भरिया / जाया / नारी / इत्थि / अङ्गना / कलत्त / थी / कन्ता / पिया / जानि /
	妻
	qī
	अङ्गना / जाया / थी / पिया / भरिया / कलत्त / जानि / नारी / कन्ता / इत्थि /
	妻子
	qī zi
	पिया / भरिया / जानि / जाया / कन्ता / कलत्त /
	娶妻
	qǔ qī
	भरिया / जानि / पिया / कलत्त / कन्ता / जाया /
	媳婦
	xí fù
	कलत्त / कन्ता / भरिया / पिया / जानि / जाया /
	愛人
	ài rén
	जाया / भरिया / पिया / कन्ता / जानि / कलत्त /
	愛人
	ài rén
	अङ्गना / नारी / जाया / भरिया / थी / जानि / कलत्त / पिया / कन्ता /
	老婆
	lǎo pó
	जानि / कलत्त / जाया / कन्ता / पिया / भरिया /
	損失
	sǔn shī
	नस्सन / परिहानि / अलाभ / अपाय / जानि /
	損失
	sǔn shī
	अलाभ / नस्सन / अपाय / जानि / परिहानि /

爱人	ài rén
	अङ्गना / नारी / जाया / भरिया / थी / जानि / कलत्त / पिया / कन्ता /
	老婆
	lǎo pó
	जानि / कलत्त / जाया / कन्ता / पिया / भरिया /
	茫然
	máng rán
	परिहानि / अपाय / जानि / नस्सन / अलाभ /
	敗
	bài
	अलाभ / नस्सन / परिहानि / अपाय / जानि /
	जायन
	jāyana
	出生
	chū shēng
	उप्पज्जन / उप्पाद / जाति / पजायन / निब्बत्तन / जायन /
	出身
	chū shēn
	पजायन / उप्पज्जन / जाति / उप्पत्ति / निब्बत्तन / पभव / उप्पाद / उद्धान / जायन /
	生下
	shēng xià
	पजायन / उप्पाद / जायन / उप्पज्जन / जाति / निब्बत्तन /
	生出
	shēng chū
	पजायन / जायन / उप्पाद / उप्पज्जन / जाति / निब्बत्तन /
	誕
	dàn
	जाति / उप्पाद / पजायन / निब्बत्तन / जायन / उप्पज्जन /
	誕
	dàn
	जाति / उप्पाद / पजायन / जायन / निब्बत्तन / उप्पज्जन /
	愛人
	ài rén
	जाया / भरिया / पिया / कन्ता / जानि / कलत्त /
	愛人
	ài rén
	अङ्गना / नारी / जाया / भरिया / थी / जानि / कलत्त / पिया / कन्ता /
	老婆
	lǎo pó
	जानि / कलत्त / जाया / कन्ता / पिया / भरिया /

जाया	jāyā
	伉
	kàng
	कन्ता / कन्त / भरिया / भत्तु / धव / कलत्त / पिय / पिया / जाया / पति / जानि /
	太太
	tài tài
	कलत्त / जानि / भरिया / जाया / कन्ता / पिया /
	夫人
	fū rén
	जानि / कलत्त / भरिया / पिया / कन्ता / जाया /
	夫妻
	fū qī
	जानि / जाया /
	女人
	nǚ rén
	जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अङ्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना /
	女人
	nǚ rén
	जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अङ्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना /
	妇人
	fù rén
	भरिया / जाया / नारी / इत्थि / अङ्गना / कलत्त / जानि / नारी / कन्ता / इत्थि /
	妻
	qī
	अङ्गना / जाया / थी / पिया / भरिया / कलत्त / जानि / नारी / कन्ता / इत्थि /
	妻子
	qī zi
	पिया / भरिया / जानि / जाया / कन्ता / कलत्त /
	娶妻
	qǔ qī
	भरिया / जानि / पिया / कलत्त / कन्ता / जाया /
	媳婦
	xí fù
	कलत्त / कन्ता / भरिया / पिया / जानि / जाया /
	愛人
	ài rén
	जाया / भरिया / पिया / कन्ता / जानि / कलत्त /
	愛人
	ài rén
	अङ्गना / नारी / जाया / भरिया / थी / जानि / कलत्त / पिया / कन्ता /
	老婆
	lǎo pó
	जानि / कलत्त / जाया / कन्ता / पिया / भरिया /

जार	jāra
	情夫
	qíng fū
	जाल
	jāla
	网
	wǎng
	网际
	wǎng jì
	जालक
	jālaka
	花蕾
	huā lěi
	मुकुल / जालक / कोरक / मुकुल /
	芽
	yá
	मुकुल / मुकुल / पवाळ / कोरक / जालक /
	苞
	bāo
	कोरक / मुकुल / मकुल / जालक /
	萌芽
	méng yá
	मुकुल / जालक / मुकुल / कोरक /
	蕾
	lěi
	जालक / मुकुल / कोरक / मकुल /
	जाला
	jāla
	火焰
	huǒ yàn
	जाला / अच्चि /
	焰
	yàn
	जाला / अच्चि /

जालिनी
jālinī
愿望
yuàn wàng
अपेकखन / निकामना / अभिलासा / इच्छा / इच्छन / जालिनी / आसा / आसिसना / पिहायना / छन्द /
期望
qī wàng
अभिलासा / इच्छा / अभिकङ्खित / इच्छन / जालिनी / पिहायना / अपेकखन / निकामना / अभिकङ्खन / आसा / आसिसना /
欲望
yù wàng
आसा / पिहायना / तण्हा / निकामना / अपेकखन / आसिसना / इच्छा / अभिलासा / जालिनी / इच्छन /
欲求
yù qiú
आसा / निकामना / इच्छा / इच्छन / अपेकखन / आसिसना / जालिनी / अभिलासा / पिहायना /
渴望
kě wàng
कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकङ्खन / जालिनी / अपेकखन / आसा / एजा / इच्छा / तण्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकङ्खित / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /
渴求
kě qiú
तण्हा / एजा / तसिना / नन्दि / अभिगिज्झन / जालिनी /
要求
yào qiú
आसिसना / आसा / जालिनी / पिहायना / इच्छन / निकामना / अभिलासा / अत्य / इच्छा / अपेकखन / अभियाचन /
願望
yuàn wàng
अपेकखन / निकामना / अभिलासा / आसिसना / आसा / पिहायना / इच्छन / इच्छा / जालिनी /

जिगुच्छन
jigucchana
厭惡
yàn è
जिगुच्छन / पटिघ / अनालय / भरति / पटिघात / निब्बि /
憎惡
zēng è

जिगिसना
jigimsanā
渴望
kě wàng
कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकङ्खन / जालिनी / अपेकखन / आसा / एजा / इच्छा / तण्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकङ्खित / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /

जिगिसा
jigimsā
渴望
kě wàng
कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकङ्खन / जालिनी / अपेकखन / आसा / एजा / इच्छा / तण्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकङ्खित / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /
जिन
jina
勝利者
shèng lì zhě
征服者
zhēng fú zhě
अभिभू / जिन /
जिव्हा
jivhā
口舌
kǒu shé
舌
shé
舌头
shé tóu
舌頭
shé tóu
语言
yǔ yán
निरुत्ति / जिव्हा / भासा /

जिह
jimha
不老實
bù lǎo shí
不誠實
bù chéng shí
जिह / कुटिल /
不诚实
bù chéng shí

जीरण
jīraṇa
消化
xiāo huà
परिणाम / गहणी / जीरण /

जीव
jīva
世
shì
जीव / जगति / पजा / पाण / चरित /
人命
rén mìng
जीव / चरित / पाण /
人生
rén shēng
पाण / चरित / जीव /
命
mìng
जीव / पाण / चरित / नियति /
壽命
shòu mìng
जीव / पाण / आयु / चरित /
性命
xìng mìng
जीव / चरित / पाण /
生
shēng
पाण / चरित / उपपत्ति / जीव /
生命
shēng mìng
चरित / पाण / जीव /
生平
shēng píng
जीव / चरित / पाण /
生活
shēng huó
आजीव / जीव / चरित / जीवन / चारी / पाण /
身
shēn
पाण / काय / करजकाय / जीव / गत्त / कलेबर / देह / चरित / बोन्दि /

जीवन
jīvana
生活
shēng huó
आजीव / जीव / चरित / जीवन / चारी / पाण /
生計
shēng jì
पोसावनिक / जीवन / जीविका / आजीव /
生計
shēng jì
आजीव / जीविका / जीवन /

जोति
jōti
五星
wǔ xīng
जोति / तारका / तारा / उळ / नक्खत्त /
亮光
liàng guāng
भानु / आभा / अवभास / जोति / पर्भास / पज्जोत / पभा / भा / आलोक / निभा / दित्ति / पदीप /
光
guāng
आलोक / दित्ति / भा / पज्जोत / पदीप / पभास / आभा / पभा / जोति / अवभास / भानु / निभा /
光線
guāng xiàn
अवभास / पदीप / निभा / पभास / पज्जोत / पभा / भानु / कर / जोति / आलोक / किरण / दित्ति / भा / आभा /
光芒
guāng máng
तेज / जोति / आभा /
光輝
guāng huī
तेज / किरण / जुति / आभा / जोति /
加上星号
jiā shàng xīng hào
उळ / नक्खत्त / तारा / तारका / जोति /
大火
dà huǒ
गिनि / जोति / अनल / अग्नि / पावक /
失火
shī huǒ
पावक / गिनि / जोति / अग्नि / अनल /
如火
rú huǒ
अग्नि / गिनि / जोति / अनल / पावक /
對光
duì guāng
पज्जोत / जोति / भानु / पदीप / पभा / अवभास / आलोक / दित्ति / निभा / भा / पभास / आभा /
开火
kāi huǒ
गिनि / अग्नि / अनल / पावक / जोति /
恆星
héng xīng
जोति / नक्खत्त / तारा / उळ / तारका /
明星
míng xīng
जोति / तारका / नक्खत्त / उळ / तारा /
星
xīng
तारका / तारा / जोति / उळ / नक्खत्त /

星星
xīng xīng
तारा / उळ / तारका / नक्खत्त / जोति /
星辰
xīng chén
उळ / तारका / जोति / तारा / नक्खत्त /
消防隊
xiāo fáng duì
अग्नि / गिनि / अनल / पावक / जोति /
淡
dàn
जोति / निभा / पज्जोत / पभा / भानु / आलोक / भा / अवभास / दित्ति / पभास / पदीप / आभा /
淡淡
dàn dàn
पदीप / जोति / दित्ति / अवभास / आभा / पज्जोत / पभा / पभास / आलोक / भानु / भा / निभा /
清淡
qīng dàn
पभास / पज्जोत / पदीप / आलोक / पभा / दित्ति / जोति / भा / निभा / भानु / अवभास / आभा /
火
huǒ
जोति / अग्नि / पावक / गिनि / धूम / अच्चि / अनल /
火光
huǒ guāng
जोति / अग्नि / पावक / अनल / गिनि /
火勢
huǒ shì
जोति / अनल / गिनि / पावक / अग्नि /
火災
huǒ zāi
अग्नि / अनल / जोति / गिनि / पावक /
火燒
huǒ shāo
अग्नि / गिनि / अनल / जोति / पावक /
火警
huǒ jǐng
जोति / अग्नि / अनल / गिनि / पावक /
灯
dēng
दित्ति / पदीप / अवभास / पभास / आलोक / पभा / जोति / भा / भानु / पज्जोत / आभा / निभा /
燃起
rán qǐ
अग्नि / पावक / जोति / गिनि / अनल /
燈
dēng
पज्जोत / दित्ति / पभा / जोति / भानु / निभा / भा / पदीप / पर्भास / आभा / अवभास / आलोक / दीप /
燈光
dēng guāng
पज्जोत / भानु / आलोक / भा / पभा / अवभास / पभास / आभा / दित्ति / निभा / जोति / पदीप /

燧
sui
अनल / पावक / जोति / गिनि / अग्नि /
發光
fā guāng
भानु / आभा / पभास / पज्जोत / पभा / अवभास / पदीप / जोति / भा / निभा / आलोक / दित्ति /
著火
zhù huǒ
पावक / अग्नि / अग्नि / अनल / पावक / गिनि / गिनि / जोति / अनल / जोति /
著火
zhe huǒ
पावक / अग्नि / अग्नि / अनल / पावक / गिनि / गिनि / जोति / अनल / जोति /
起火
qǐ huǒ
अग्नि / जोति / गिनि / पावक / अनल /
輕
qīng
दित्ति / पभास / आलोक / पभा / जोति / पदीप / निभा / पज्जोत / भानु / आभा / अवभास / भा /
輕便
qīng biàn
पदीप / आभा / दित्ति / पभास / अवभास / निभा / पभा / आलोक / पज्जोत / भानु / भा / जोति /
輕
qīng
पज्जोत / निभा / पदीप / पभा / भा / जोति / पभास / अवभास / भानु / दित्ति / आलोक / आभा /
開火
kāi huǒ
गिनि / अग्नि / जोति / पावक / अनल /

ज्ञान
jhāna
冥想
míng xiǎng
打坐
dǎ zuò
沈思
shěn sī
沉思
chén sī
默念
mò niàn
ज्ञायन
jhāyana
燃燒
rán shāo
ज्ञायन / जलन /
त्रत्त
ñatta
學習
xué xí
उगगहन / परियापुणन / त्रत्त / उगगह /
त्रत्ति
ñatti
公告
gōng gào
त्रत्ति / निवेदन / जापन / आरोच ना / पवेदन / पञ्जापन /
告示
gào shì
निवेदन / आरोचना / त्रत्ति / पञ्जाण / जापन / पवेदन /
宣言
xuān yán
उगघोस / त्रत्ति /
聲明
shēng míng
त्रत्ति / अपदेस /
जाण
ñāna
智
zhì
बु / पञ्जा / भूरि / जाण / अमोह /
智慧
zhì huì
पञ्जा / बु / भूरि / जाण / अमोह /
洞察力
dòng chá lì
जाण / पञ्जा / दस्सन / निज्झान /
जाति
ñāti
親戚
qīn qi
जाति / बन्धव /

जापन
ñāpana
公告
gōng gào
त्रत्ति / निवेदन / जापन / आरोच ना / पवेदन / पञ्जापन /
告示
gào shì
निवेदन / आरोचना / त्रत्ति / पञ्जाण / जापन / पवेदन /
通告
tōng gào
通知
tōng zhī
जाय
ñāya
制
zhì
制度
zhì dù
方法
fāng fǎ
नय / उपाय / पथ / पकार / नीहार / उपक्कम / उपनिसा / जाय / कम / मग्ग /
模式
mó shì
जाय / कम / पकार / नय /
系統
xì tǒng
系统
xì tǒng
製
zhì
順序
shùn xù
पकार / अनुक्कम / नय / जाय / कम / परियाय /
體制
tǐ zhì
體系
tǐ xì

उपन
thapana
安置
ān zhì
ठान
thāna
任
rèn
पद / अधिकार / धुर / ठान /
任職
rèn zhí
धुर / ठान / अधिकार /
位
wèi
पद / आयतन / पदेस / अवहान / निसीदन / आसन / ठान / पीठ /
位子
wèi zi
ठान / पद / निसीदन / पीठ / पदेस / आसन /
位置
wèi zhi
अवहान / पद / पदेस / ठान / आसन / निसीदन / आयतन / पीठ /
停留
tíng liú
到
dào wèi
ठान / पद / पदेस /
辦公室
bàn gōng shì
ठान / पद / अधिकार /
动机
dòng jī
अपदेस / अत्यवस / पद / ठान / कारण /
原因
yuán yīn
कारण / पद / निमित्त / निदान / ठान / अपदेस / अत्यवस / जनन /
去處
qù chù
ठान / पद / पदेस /
呆
dāi
बाल / दन्ध / दुम्मेध / अन्ध / जळ / ठान / दुप्पञ्ज /
因
yīn
कारण / निदान / पटिच्च / अपदेस / अत्यवस / ठान / निमित्त / पद /
因素
yīn sù
पद / निमित्त / ठान / निदान / कारण / धातु / उपनिसा /
地
dì
पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छमा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पृथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छमा / पृथुवी / जगति / जगति /
地
de
पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छमा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पृथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छमा / पृथुवी / जगति / जगति /

地位
de wèi
पदेस / पदेस / ठान / अवहान / पद / पद / ठान / आयतन / आयतन / अवहान /
地位
dì wèi
पदेस / पदेस / ठान / अवहान / पद / पद / ठान / आयतन / आयतन / अवहान /
地方
dì fāng
पदेस / पदेस / पद / पद / ठान /
地点
dì diǎn
ठान / पदेस / पद /
場所
chǎng suǒ
ठान / पद / पदेस /
处
chù
अधिकार / ठान / धुर / धुर / अधिकार / ठान /
处
chǔ
अधिकार / ठान / धुर / धुर / अधिकार / ठान /
安放
ān fàng
पदेस / ठान / पद /
寄予
jì yǔ
पद / पदेस / ठान /
席
xí
पद / ठान / आसन / निसीदन / पदेस / पीठ /
廡
xiè
ठान / पद / अधिकार /
引 起
yǐn qǐ
कारण / ठान / निमित्त / पद / निदान /
待
dài
情理
qíng lǐ
अपदेस / पद / ठान / अत्यवस / निमित्त / कारण /
所
suǒ
पद / पदेस / ठान /
故
gù
ततो / तस्मा / निदान / पद / अतो / अपदेस / कारण / ठान / निमित्त / अत्यवस /
狀
dāi
理
lǐ
कारण / निमित्त / पद / अपदेस / ठान / अत्यवस /

रिखि	ठानीय	तु	इररि	इररि
lǐ xíng	thānīya	tu	zài yǎn qián	xiàn zài
कारण / अत्थवस / ठान / अपदेस / पद /	दरररर	नूठू	इररि / अधुना / एतररि / तु /	एतररि / तु / इररि / अधुना /
रररु	dà chéng shì	bù guò	रूइ	इररि / तु / इररि / अधुना /
lǐ yóu	दरररर	पन / तु / पि / आदु /	rú jīn	xiàn zài hái shì
नरररर / नरररन / अपदेस / ठान / कारण / पद / अत्थवस /	dà dōu shì	नररर	तु / इररि / अधुना / एतररि /	तु / पन /
रूण	दू	nǎi shì	रू	इररि
huán jìng	dōu	पि / तु / आदु / पन /	shàng	xiàn zài
दू	उअय / उओ / ठानीय / उअ /	इ	पन / तु /	तु / इररि / अधुना / एतररि /
yóu	दूरर	jīn	रू	dāng nián
कारण / नरररर / अपदेस / नरररन / पद / ठान / अत्थवस /	dōu shì	तु / अज्ज / अधुना / इररि / एतररि /	jiù	तु / अथ / अथो / तु /
रू	नगर / ठानीय /	इररर	रू	dāng shí
liú	शूदू	jīn cháo	jiè shí	अथ / अथो / तु /
रूअ	ठारी	तु / इररि / एतररि / अधुना /	अथ / तु / अथो /	अथ / अथो / तु /
liú xià	thāyī	रू	yǐ	dāng shí de
नररररर / ठान /	रूअरर	réng	अथो / तु / अथ /	अथ / तु / अथो /
रूण	रूअरर	पन / तु /	दरर	दरर
yuán gù	ठररर / ठारी / अधरररर / थारर /	réng rán	dāng nián	yǎn xià
नरररर / ठान / कारण / अपदेस / पद / अत्थवस /	रूअरर	पन / तु /	तु / अथो / अथ /	अधुना / इररि / तु / एतररि /
रू	रूअरर	रूअरर	दरर	इररि
shǔ	ठररर	réng jiù	dāng shí	yǎn qián
अधररर / ठान / पद /	ठररर	पन / तु /	अथ / तु / अथो /	तु / इररि / अधुना / एतररि /
रू	thiti	दरर	दरर	इररि
zhí	रूअरर	dàn	dāng shí de	jiù jìng
धुर / अधररर / ठान /	wěn dìng xìng	तु / पन / आदु / पि / एव /	तु / अथ / अथो /	नरररररर / अरररररर /
रू	ठररर	दरर	wéi	नररररर / अररररर / पि / फल / नररररर / तु /
zhí	thitika	dàn shì	पन / एव / तु / आदु / केवल / पि /	इररर
पद / ठान / अधररर / धुर /	नररर	पन / तु / पि / आदु / एव / अपर /	रू	इररि / अधुना / तु / एतररि /
दू	bù xiǔ de	इररर	jiē zhe	रू
chù	ठररर / अरर /	yī rán	अथ / अथो / अथो / तु / तु / अथ /	ér jīn
अधररर / ठान / धुर /	रूअरर	तु / पन /	रू	इररि / एतररि / अधुना / तु /
yá	ठररर / ठारी / अधरररर / थारर /	biàn	रू	इररि
अधररर / ठान / पद /	रूअरर	अथ / तु / अथो / फररर /	jiē zhù	zhè shí
shēn fèn		रू	अथ / अथो / अथो / तु / तु / अथ /	अथ / अथो / तु /
आयतन / ठान / पद / पदेस / अवइरर /		zé	रू	इररि
bàn gōng		अथ / तु / अथो /	yú shì	suì
ठान / धुर / अधररर /		रूअर	अथो / तु / अथ /	अथ / तु / अथो /
bàn gōng shì		gāng cái	इररर	इररर
अधररर / ठान / धुर /		अधुना / इररि / तु / एतररि /	cǐ kè	hái méi
dòu liú		रू	एतररि / अधुना / तु / इररि /	तु / पन /
दू		zè	रू	इररर
dào lǐ		तु / अथ / अथो /	cǐ shí	hái méi yǒu
ठान / अत्थवस / पद / अपदेस / नरररर / कारण /		què	एतररि / अधुना / तु / इररि /	पन / तु /
bù wèi		पन / तु / पि / आदु /	रू	इररर
पदेस / ठान / अवइरर / आयतन / पद /		shù	rán	nà shí
		què	तथा / पि / इररि / एवं / इत्थं / तु /	अथो / तारदेव / तु / तारदे / अथ /
		रू	रू	इररर
		zhǐ	rán hòu	nà shí hou
		पन / पि / एव / तु / आदु /	तु / अथ / अथो /	अथ / तु / अथो /
		zhǐ shì	rán hòu	nà me
		एव / पन / पि / आदु / तु /	अथो / पच्छा / अथ / अपर / तु /	तु / अथ / पन / अथो /
		kě shì	रू	
		अपर / पन / एव / तु / आदु / पि /	xiàn	
			इररि / तु / अधुना / एतररि /	

तक्क	तुङ्ग	तच	तच्छ	तच्छक
takka	tuŋga	taca	taccha	tacchaka
想	崇	削皮	事實	木匠
xiǎng	chóng	xuē pí	shì shí	mù jiàng
इच्छ / कप्प / तक्क / उच्च	नमस्सन / अपचायन / तुङ्ग / उच्च / अब्भुन्नत /	剝	तच्छ / अविसंवाद / धम्म / तथ /	तच्छक / तच्छक /
逻辑	昂	bō	实	木匠
luó	áng	剝	shí	mù jiàng
逻辑	अब्भुन्नत / तुङ्ग / उच्च /	bō	तच्छ / तथ /	तच्छक / तच्छक /
luó jí	杲	吠	實	木工
邏輯	gǎo	fèi	shí	mù gōng
luó jì	अब्भुन्नत / उच्च / तुङ्ग /	भुक्करण / तच /	तच्छ / तथ /	
तक्कन	撞	壳	现实	
takkana	tóng	ké	xiàn shí	
思考	अब्भुन्नत / तुङ्ग / उच्च /	तच / तच /	तथ / तच्छ /	
sī kǎo	馗	壳	真	
चिन्तन / तक्कन / कप्पन /	kuí	qiào	zhēn	
推理	उच्च / अब्भुन्नत / तुङ्ग /	तच / तच /	तथ / तच्छ /	
tuī lǐ	高	树皮	真实的	
तक्कर	gāo	shù pí	zhēn shí de	
takkara	उदार / अब्भुन्नत / उच्च / तुङ्ग /	犬吠	तथ / तच्छ /	
小偷	高位	quǎn fèi	真實	
xiǎo tōu	gāo wèi	皮	zhēn shí	
चोर / थेनक / थेन / तक्कर /	तुङ्ग / उच्च / अब्भुन्नत /	皮	तथ / तच्छ /	
盜	高昂	pí	真正	
dào	gāo áng	छवि / चम्म / तच /	zhēn zhèng	
थेन / थेनक / तक्कर / चोर /	तुङ्ग / उच्च / अब्भुन्नत /	皮的	तथ / तच्छ /	
盜	高水平	pí de	真正的	
dào	gāo shuǐ píng	तच / चम्म /	zhēn zhèng de	
थेन / तक्कर / चोर / थेनक /	उच्च / अब्भुन्नत / तुङ्ग /	皮肤	तथ / तच्छ /	
竊賊	高的	pí fū	तुच्छ	
qiè zéi	gāo de	तच / चम्म /	tuccha	
चोर / थेन / तक्कर / थेनक /	उच्च / अब्भुन्नत / उच्चार / तुङ्ग /	皮膚	寥	
賊		pí fū	liáo	
zéi		तच / छवि / चम्म /	愣	
चोर / थेनक / तक्कर / थेन /		肌膚	lèng	
賊		jī fū	楞	
zéi		तच / चम्म /	xiāo	
थेन / थेनक / तक्कर / चोर /		肤	清空	
		fū	qīng kōng	
		तच / चम्म /	空	
			kōng	
			空心	
			kōng xīn	
			तुच्छ / बिल /	
			空格	
			kōng gé	
			空洞	
			kōng dòng	
			空瓶	
			kōng píng	
			空白	
			kōng bái	
			आकास / तुच्छ /	
			空的	
			kōng de	
			空著	
			kōng zhe	
			糝	
			kōu	
			तुच्छ / बिल /	

तेज
teja
光榮
guāng róng
तेज / किरिति /
光芒
guāng máng
तेज / जोति / आभा /
光輝
guāng huī
तेज / किरण / जुति / आभा /
जोति /
冪
mì
आधिपतेय्य / आधिपच्च / पभाव /
आनुभाव / बल / थाम / तेज /
力
lì
जव / बल / आधिपतेय्य /
आनुभाव / तेज / पभाव /
आधिपच्च / थाम /
力量
lì liàng
तेज / आनुभाव / थाम / आधिपच्च /
जव / पभाव / बल / आधिपतेय्य /
功
gōng
थाम / आधिपच्च / आनिसंस /
आधिपतेय्य / आनुभाव / बल /
तेज / पुञ्ज /
功率
gōng lǜ
आधिपच्च / आनुभाव / आनुभाव /
थाम / पभाव / बल / बल /
पभाव / थाम / आधिपतेय्य /
आधिपतेय्य / आधिपच्च / तेज /
तेज /
功率
gōng lǜ
आधिपच्च / आनुभाव / आनुभाव /
थाम / पभाव / बल / बल /
पभाव / थाम / आधिपतेय्य /
आधिपतेय्य / आधिपच्च / तेज /
तेज /
勢力
shì lì
जव / आनुभाव / आधिपच्च / थाम /
बल / तेज / पभाव / आधिपतेय्य /
動力
dòng lì
आनुभाव / बल / आधिपच्च /
आधिपतेय्य / तेज / थाम /
大权
dà quán
तेज / आनुभाव / बल / पभाव /
थाम /
大權
dà quán
बल / आधिपतेय्य / आनुभाव /
आधिपच्च / थाम / तेज /
威
wēi
आनुभाव / थाम / तेज / आधिपच्च /
आधिपतेय्य / बल / पभाव /
威力
wēi lì
आधिपतेय्य / पभाव / आधिपच्च /
तेज / आनुभाव / थाम / बल /

冪
mì
थाम / आनुभाव / तेज / बल /
आधिपतेय्य / आधिपच्च /
強國
qiáng guó
आधिपतेय्य / थाम / बल / तेज /
आधिपच्च / आनुभाव /
強权
qiáng quán
बल / आनुभाव / आधिपच्च / तेज /
तेज / बल / आनुभाव /
斷電
duàn diàn
आधिपतेय्य / आधिपच्च / थाम /
तेज / बल / आनुभाव /
权力
quán lì
बल / पभाव / थाम / तेज /
आनुभाव /
榮
róng
तेज / किरिति /
榮耀
róng yào
तेज / किरिति /
權力
quán lì
आनुभाव / थाम / आधिपच्च / तेज /
आधिपतेय्य / बल /
熱
rè
तेज / उण्ह / घम्म / निदाघ /
गिम्ह / आताप /
榮
róng
किरिति / तेज /
तज्जना
tajjanā
威脅
wēi xié
तज्जनी
tajjanī
食指
shí zhǐ
तेजन
tejana
矢
shǐ
असन / उसु / तेजन /
箭
jiàn
असन / उसु / तेजन /

तट्टक
tattaka
粥碗
zhōu wǎn

तुट्टि
tutṭhi
喜悅
xǐ yuè
पीति / नन्दि / तुस्सना / पमोद /
तुट्टि / पामोज्ज / पामुज्ज /
आनन्द / पीणन /
喜悅
xǐ yuè
तुट्टि / नन्दि / आनन्द / पामुज्ज /
पमोद / पीति / पामोज्ज /
तुस्सना /
娛
yú
आराम / काम / तुट्टि /
快感
kuài gǎn
तुट्टि / आराम / काम /
愉快
yú kuài
आराम / फासुक / अत्तमन / इड्ड /
अस्साद / तुट्टि / परिभोग / काम /
愉悅
yú yuè
आराम / तुट्टि / काम /
樂趣
lè qù
आराम / पमोद / तुट्टि / काम /
नन्दि / आनन्द /
欢乐
huān lè
आराम / आनन्द / पमोद / तुट्टि /
पामोज्ज / काम / पामुज्ज /
नन्दि / पीति /
欢喜
huān xǐ
पमोद / आराम / तुट्टि / काम /
नन्दि / आनन्द /
歡喜
huan xǐ
अभिनन्दन / पमोद / तुस्सना /
आनन्द / पामुज्ज / पीति / नन्दि /
तुट्टि / पामोज्ज /
歡樂
huan lè
पमोद / आनन्द / कीळना / तुट्टि /
पामोज्ज / पीति / नन्दि / केळी /
तुस्सना / पामुज्ज /
禧
xǐ
पीति / पामुज्ज / नन्दि / पामोज्ज /
नन्दि / पमोद / पमोद / तुस्सना /
तुट्टि / आनन्द /
高兴
gāo xìng
आराम / तुट्टि / काम /

तूण
tūṇa
震動
zhèn dòng
चाल / तूणीर / तूण / खोभ /

तण्हा
taṇhā
口渴
kǒu kě
तसिना / तण्हा / पिपासा /
愛
ài
पियायना / तण्हा /
欲望
yù wàng
आसा / पिहायना / तण्हा /
निकामना / अपेक्खन / आसिसना /
इच्छा / अभिलासा / जालिनी /
इच्छन /
渴望
kě wàng
कामता / इच्छन / इच्छ /
अभिकइखन / जालिनी / अपेक्खन /
आसा / एजा / इच्छा / तण्हा /
अभिलासा / आसिसना / जिगिसा /
छन्दता / तसिना / जिगिसना /
नन्दि / अभिरुचि / अभिकइखित /
निकामना / पिहायना / एसना /
पिपासा / अभिगिज्झन /
渴求
kě qiú
तण्हा / एजा / तसिना / नन्दि /
अभिगिज्झन / जालिनी /
तुण्हीभूत
tunhībhūta
貂
mò
तुण्हीभाव
tunhībhāva
寂靜
jì jìng
沈默
shěn mò
तुण्हीभाव / तुण्हीभाव /
沈默
chén mò
तुण्हीभाव / तुण्हीभाव /
沈默
chén mò
तूणीर
tūṇīra
震動
zhèn dòng
चाल / तूणीर / तूण / खोभ /

तत्थ
tattha
存有
cún yǒu
तत्र / तत्थ / तहं / तहिं /
那兒
nà r
तत्र / तत्थ / तहिं / तहं /
那裡
nà li
तहिं / तत्थ / तहं / तत्र /
那里
nèi lǐ
तहं / तत्र / तहिं / तत्थ /

तत्र
tatra
存有
cún yǒu
तत्र / तत्थ / तहं / तहिं /
那兒
nà r
तत्र / तत्थ / तहिं / तहं /
那裡
nà li
तहिं / तत्थ / तहं / तत्र /
那里
nèi lǐ
तहं / तत्र / तहिं / तत्थ /

ततिय
tatiya
三次
sān cì
三等
sān děng
丙
bǐng
協力
xié lì
第三
dì sān
第三次
dì sān cì

ततो
tato
因此
yīn cǐ
तस्मा / अतो / एवं / ततो / इति /
इत्थं / उद्धं / इतो / तथा /
所以
suǒ yǐ
तथा / ततो / तस्मा / अतो /
故
gù
ततो / तस्मा / निदान / पद /
अतो / अपदेस / कारण / ठान /
निमित्त / अत्थवस /
自從
zì cóng
ततो / पभुति /

तथ	तथा	तनु	तनुजा	तनय
tatha	tathā	tanu	tanujā	tanaya
事實	以致	消瘦	千金	儿子
shì shí	yǐ zhì	xiāo shòu	qiān jīn	ér zi
तच्छ / अविसंवाद / धम्म / तथ / 实	因此	瘦	धीतु / दृहितु / तनुजा / 女儿	अत्तज / तनुज / तात / अत्रज / तनय / पुत्त /
shí	yīn cǐ	shòu	nǚ ér	兒子
तच्छ / तथ /	तस्मा / अतो / एवं / ततो / इति / इत्थं / उद्धं / इतो / तथा /	瘦的	तनुजा / धीतु / दुहितु /	r zi
實	因而	shòu de	女兒	तनय / अत्रज / तनुज / पुत्त / तात / अत्तज /
shí	yīn ér	稀薄	nǚ r	公子
तच्छ / तथ /	इति / तथा / इत्थं / एवं /	xī bó	तनुजा / अत्रज / दुहितु / धीतु / 女孩儿	gōng zi
现实	如此	तनु / तनु / 稀薄	nǚ hái ér	तनुज / तनय / तात / पुत्त / अत्तज / अत्रज /
xiàn shí	rú cǐ	xī báo	दुहितु / तनुजा / धीतु / 媳	nǚ xù
तथ / तच्छ /	तथा / इति / एवरूप / तादिस / इत्थं / तादिसक / एवं /	तनु / तनु / 精巧	xí	तनुज / तनुज / तनय / तात / पुत्त / अत्रज / तनय / धीतु / अत्रज / अत्तज / पुत्त / अत्तज /
真	所以	jīng qiǎo	दुहितु / तनुजा / धीतु / 獨生女	女婿
zhēn	suǒ yǐ	細	dú shēng nǚ	nǚ xù
तथ / तच्छ /	तथा / ततो / तस्मा / अतो / 然	xì	धीतु / तनुजा / दृहितु /	तनुज / तनुज / तनय / तात / पुत्त / अत्रज / तनय / धीतु / अत्रज / अत्तज / पुत्त / अत्तज /
zhēn shí de	rán	薄	तन्त	後代
तथ / तच्छ /	तथा / पि / इति / एवं / इत्थं / तु /	báo	tanta	hòu dài
真實	由此	थोक / परित्त / अप्प / परित्त / अप्प / चुल्ल / तनु / चुल्ल / अप्पक / खुद्द / अप्पक / खुद्द / थोक / तनु /	線	अपच्य / तनय / तनुज /
zhēn shí	yóu cǐ	थोक / तनु /	xiàn	तपन
तथ / तच्छ /	तथा / एवं / इत्थं / इति /	薄	पालि / तन्त / तन्तु / आवली /	tapana
真正	这样	bó	तन्तु	光亮
zhēn zhèng	zhèi yàng	थोक / परित्त / अप्प / परित्त / अप्प / चुल्ल / तनु / चुल्ल / अप्पक / खुद्द / अप्पक / खुद्द / थोक / तनु /	tantu	guāng liàng
तथ / तच्छ /	तथा / तथा / इति / एवं / एवं / तादिसक / तादिस / इत्थं / इत्थं / इति / एवरूप /	薄的	xiàn	पकास / तपन / दोसिना / जुति / दिप्पन / जलन / दित्ति /
真正的	这样	bó de	पालि / तन्त / तन्तु / आवली /	光明
zhēn zhèng de	zhè yàng	तनु / तनु /	繩索	guāng míng
तथ / तच्छ /	इति / एवरूप /	薄的	shéng suǒ	तपन / दोसिना /
	這樣	báo de	तन्दि	出色
	zhè yàng	तनु / तनु /	tandita	chū sè
	एवं / इत्थं / तथा /	तनुज	厌倦	快活
	這麼	tanuja	yàn juàn	kuài huó
	zhè me	儿子	厌烦	明亮
		ér zi	yàn fán	míng liàng
		अत्तज / तनुज / तात / अत्रज / तनय / पुत्त /	疲倦的	तपन / दोसिना /
		兒子	pí juàn de	輝
		r zi	疲勞	huī
		तनय / अत्रज / तनुज / पुत्त / तात / अत्तज /	pí láo	
		公子	परिस्सम / तन्दी / किलमथ / तन्दि / निब्बि /	
		gōng zi	疲勞的	
		तनुज / तनय / तात / पुत्त / अत्तज / अत्रज /	pí láo de	
		女婿	तन्दी	
		nǚ xù	tandī	
		तनुज / तनुज / तनय / तात / पुत्त / अत्रज / तनय / धीतु / अत्रज / अत्तज / पुत्त / अत्तज /	怠情	
		女婿	dài duò	
		nǚ xù	तन्दी / कोसज्ज / आलस्य / आलसिय /	
		तनुज / तनुज / तनय / तात / पुत्त / अत्रज / तनय / धीतु / अत्रज / अत्तज / पुत्त / अत्तज /	疲倦	
		後代	pí juàn	
		hòu dài	निब्बि / तन्दी / किलमथ / परिस्सम /	
		अपच्य / तनय / तनुज /	疲勞	
			pí láo	
			परिस्सम / तन्दी / किलमथ / तन्दि / निब्बि /	

तपनीय	तम्ब	तुमुल	तुम्ही	तरुण
tapanīya	tamba	tumula	tunhī	taruṇa
純金	布朗	伟	沈默的	仔
chún jīn	bù lǎng	wěi	shěn mò de	zǐ
जातरूप / तपनीय / चामीकर / कनक / कम्बु / कञ्चन /	पिङ्गल / तम्ब /	उरु / पुथुल / तुमुल /	तुम्ही / निस्सद /	少
金	成褐色	偉	靜	shǎo
jīn	chéng hè sè	wěi	jìng	ईसक / अप्पक / तरुण / अप्प /
चामीकर / कञ्चन / जातरूप / कम्बु / तपनीय / कनक /	तम्ब / पिङ्गल /	उरु / तुमुल /	默默地	年少
金子	棕色	偉大	mò mò dì	nián shǎo
jīn zī	zōng sè	wěi dà	तर	年紀
कम्बु / कञ्चन / चामीकर / कनक / / तपनीय / जातरूप /	तम्ब / पिङ्गल /	उरु / तुमुल /	tara	nián jì
金字	茶色	冢	横越	年輕
jīn zì	chá sè	zhǒng	héng yuè	nián qīng
जातरूप / चामीकर / तपनीय / कनक / कञ्चन / कम्बु /	तम्ब / पिङ्गल / कपिल /	तुमुल / उरु /	路口	年輕人
金幣	褐	夥	lù kǒu	nián qīng rén
jīn bì	hè	huǒ	तरु	年輕
जातरूप / तपनीय / चामीकर / कम्बु / कञ्चन / कनक /	तम्ब / पिङ्गल /	उरु / तुमुल /	taru	nián qīng
金心	褐色	大	木	年輕的
jīn xīn	hè sè	dà	mù	nián qīng de
जातरूप / तपनीय / चामीकर / कम्बु / कञ्चन / कनक /	पिङ्गल / तम्ब /	तिकिच्छक / तुमुल / पुथुल / अति / उरु /	कुज / तरु / दारु / पादप / दुम / 树	तरुण / कोमार / 年青
金色	銅	大牌	shù	nián qīng
jīn sè	tóng	dà pái	तरु / दारु / पादप / दुम / कुज / 樹	幼
जातरूप / कञ्चन / कम्बु / तपनीय / कनक / चामीकर /	तóng bǎn	उरु / तुमुल /	shù	yòu
黃金	銅	大的	तरु / कुज / पादप / दुम /	पुत्त / तरुण / बाल / 稚
huáng jīn	tóng	dà de	तरङ्ग	zhì
कञ्चन / कनक / कम्बु / जातरूप / चामीकर / तपनीय /		उरु / पुथुल / तुमुल /	taraṅga	तरणी
黃金		柴	揮動	tarāṇī
huáng jīn		zàng	huī dòng	小船
कञ्चन / चामीकर / कनक / कम्बु / जातरूप / तपनीय /		उरु / उरु / तुमुल / थूल / थूल / तुमुल /	水波	xiǎo chuán
तम		柴	shuǐ bō	दोणिका / नावा / तरणी / दोणि / 小艇
tama		zhuǎng	波	xiǎo tǐng
不知		उरु / उरु / तुमुल / थूल / थूल / तुमुल /	bō	दोणिका / दोणि / तरणी / नावा / 舟
bù zhī		弘	bō làng	zhōu
तम / अविज्जा / अजानन / अञ्जाण /		hóng	浪	नावा / तरणी / दोणिका / दोणि / 航
幽暗		तुमुल / उरु /	làng	háng
yōu àn		恢	浪头	नावा / दोणि / तरणी / दोणिका / 船
तम / तिमिर /		huī	làng tóu	bó
无知		तुमुल / उरु /	làng cháo	नावा / तरणी /
wú zhī		極大		船
तम / अविज्जा / अजानन / अञ्जाण /		jí dà		chuán
無知		उरु / तुमुल /		दोणि / दोणिका / तरणी / नावा /
wú zhī		盛大的		तेरस
अजानन / अञ्जाण / तम / अविज्जा /		shèng dà de		terasa
黑		碩		十三
hēi		shuò		shí sān
काळ / तिमिस / अन्धकार / तिमिर / कण्ह / काळक / तम /		तुमुल / पुथुल / उरु /		तेरस / तेळस /
黑暗		莫大		
hēi àn		mò dà		
तिमिर / काळ / कण्ह / तिमिस / अन्धकार / तम /		उरु / तुमुल /		
		舩		
		gōng		
		उरु / तुमुल /		

तुरित turita	तूल tūla	तळाक taḷāka	तुस्सना tussanā	तहिं tahim
匆忙地 cōng máng dì	棉 mián	湖 hú	喜悅 xǐ yuè	存有 cún yǒu
徇 xùn	कप्पास / पिचु / तूल / 棉花 mián huā	湖水 hú shuǐ	पीति / नन्दि / तुस्सना / पमोद / तुडि / पामोज्ज / पामुज्ज / आनन्द / पीणन /	तत्र / तत्थ / तहं / तहिं / 那兒 nà r
खिप्प / तुरित / 很快地 hěn kuài dì	कप्पास / पिचु / तूल / 綿 mián	湖泊 hú pō	喜悅 xǐ yuè	तत्र / तत्थ / तहिं / तहं / 那裡 nà li
तुरित / आसु / तुवटं / खिप्पं / अविलम्बितं / खिप्प /	पिचु / तूल / कप्पास /	潢 huáng	तुडि / नन्दि / आनन्द / पामुज्ज / पमोद / पीति / पामोज्ज / तुस्सना /	तहिं / तत्थ / तहं / तत्र / 那里 nèi lǐ
快 kuài	तेल tela	तुवटं tuvaṭam	歡喜 huan xǐ	तहं / तत्र / तहिं / तत्थ /
खिप्प / थिर / तुरित /	油 yóu	很快 hěn kuài	अभिनन्दन / पमोद / तुस्सना / आनन्द / पामुज्ज / पीति / नन्दि / तुडि / पामोज्ज /	तुहिन tuhina
快的 kuài de	油彩 yóu cǎi	तुवटं / खिप्पं / अविलम्बितं / आसु 7	歡樂 huan lè	露 lù
खिप्प / तुरित /	油料 yóu liào	很快地 hěn kuài dì	पमोद / आनन्द / कीळना / तुडि / पामोज्ज / पीति / नन्दि / कैळी / तुस्सना / पामुज्ज /	उस्साव / तुहिन / 露水 lù shuǐ
快速 kuài sù	油水 yóu liào	तुरित / आसु / तुवटं / खिप्पं / अविलम्बितं / खिप्प /	禮 xǐ	तुहिन / उस्साव / 露珠 lù zhū
खिप्प / तुरित /	油水 yóu shuǐ	趕快 gǎn kuài	喜 xǐ	तुहिन / उस्साव /
快速的 kuài sù de	油污 yóu wū	अविलम्बितं / तुवटं / आसु / खिप्पं /	पीति / पामुज्ज / नन्दि / पामोज्ज / नन्दि / पमोद / पमोद / तुस्सना / तुडि / आनन्द /	露珠 lù zhū
斋 zhāi	油脂 yóu zhī	趕快 gǎn kuài	तसिना tasinā	तुहिन / उस्साव /
迅 xùn	तेल / थूल / 石油 shí yóu	तुवटं / अविलम्बितं / खिप्पं / आसु 7	口渴 kǒu kě	ताण tāṇa
तुरित / थिर / 迅速 xùn sù	तुलन tulana	तुवटं / आसु / खिप्पं / अविलम्बितं / आसु /	तसिना / तण्हा / पिपासा / 渴望 kě wàng	保护 bǎo hù
थिर / तुरित / 迅速地 xùn sù dì	等級 děng jí	खिप्पं / तुवटं / तुरित / अविलम्बितं / आसु /	कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकइखन / जालिनी / अपेक्खन / आसा / एजा / इच्छा / तण्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकइखत / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /	अनुपालन / तायन / पटिसरण / आरक्खा / निस्सय / अनुरक्खा / परिहार / गोपन / अनुरक्खन / गुत्ति / नाथ / अभिरक्खन / ताण / पालन /
迅速的 xùn sù de	तुल्य tulya	तस्मा tasmā	निष्कामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /	保護 bǎo hù
जवन / तुरित / 速 sù	相等的 xiāng děng de	因此 yīn cǐ	渴求 kě qiú	तायन / गोपन / गुत्ति / परिहार / अनुरक्खा / अनुरक्खन / पटिसरण / नाथ / अभिरक्खन / आरक्खा / अनुपालक / पालन / अनुपालन / निस्सय / ताण /
खिप्प / तुरित / जव / थिर / 遽 jù	निभ / तुल्य /	所以 suǒ yǐ	तण्हा / एजा / तसिना / नन्दि / अभिगिज्झन / जालिनी /	飯依 fàn yī
थिर / तुरित / 飛快 fēi kuài	तुला tulā	तथा / ततो / तस्मा / अतो / 故 gù	तहं tāhāṃ	避難所 bì nán suǒ
天平 tiān píng	天平 tiān píng	ततो / तस्मा / निदान / पद / अतो / अपदेस / कारण / ठान / निमित्त / अत्थवस /	存有 cún yǒu	पट्टन / ताण / 避難所 bì nán suǒ
平衡 píng héng	椽 chuán		तत्र / तत्थ / तहं / तहिं / 那兒 nà r	那兒 nà r
基礎 jī chǔ	秤 chèng		तत्र / तत्थ / तहिं / तहं / 那裡 nà li	那裡 nà li
आधार / पाद / उपनिस्सय / तल / 平面 píng miàn	秤 chèng		तहिं / तत्थ / तहं / तत्र / 那里 nèi lǐ	那里 nèi lǐ
तल / भूमि /	तेळस telasa		तहं / तत्र / तहिं / तत्थ /	那里 nèi lǐ
	十三 shí sān			
	तेरस / तेळस /			

तात	तादिस	तारका	तारा	ताळ
tāta	tādisa	tārakā	tārā	tāla
儿子	其	五星	五星	乐
ér zi	qí	wǔ xīng	wǔ xīng	lè
अत्तज / तनुज / तात / अत्रज / तनय / पुत्त /	एत / तादिस / तादिसक / एवरूप /	जोति / तारका / तारा / उळ /	जोति / तारका / तारा / उळ /	关键
兒子	如此	नकखत्त /	नकखत्त /	guān jiàn
r zi	rú cǐ	加上星号	加上星号	अपापुरण / अवापुरण / कुञ्चिका /
तनय / अत्रज / तनुज / पुत्त /	तथा / इति / एवरूप / तादिस /	jiā shàng xīng hào	jiā shàng xīng hào	ताळ /
तात / अत्तज /	इत्थं / तादिसक / एवं /	उळ / नकखत्त / तारा / तारका /	उळ / नकखत्त / तारा / तारका /	樂
公公	这样	जोति /	जोति /	lè
gōng gōng	zhèi yàng	天空	天空	要害
जनक / तात /	तथा / तथा / इति / एवं / एवं /	tiān kōng	tiān kōng	yào hài
公子	तादिसक / तादिस / इत्थं / इत्थं /	अन्तळिक्ख / अघ / दिव / आकास /	अन्तळिक्ख / अघ / दिव / आकास /	अवापुरण / अपापुरण / ताळ /
gōng zi	इति / एवरूप /	अम्भ / नाक / तारा / अनिल /	अम्भ / नाक / तारा / अनिल /	कुञ्चिका /
तनुज / तनय / तात / पुत्त /	तादिसक	ख / अम्बर / देव / तारका /	ख / अम्बर / देव / तारका /	譜
अत्तज / अत्रज /	tādisaka	恆星	恆星	pǔ
天父	其	héng xīng	héng xīng	譜
tiān fù	qí	जोति / नकखत्त / तारा / उळ /	जोति / नकखत्त / तारा / उळ /	pǔ
जनक / तात /	एत / तादिस / तादिसक / एवरूप /	तारका /	तारका /	ताळ / उद्दान /
女婿	如此	明星	明星	鍵
nǚ xù	rú cǐ	míng xīng	míng xīng	jiàn
तनुज / तनुज / तनय / तात /	तथा / इति / एवरूप / तादिस /	जोति / तारका / नकखत्त / उळ /	जोति / तारका / नकखत्त / उळ /	ताळ / अवापुरण / अपापुरण /
पुत्त / अत्रज / तनय / धीतु /	इत्थं / तादिसक / एवं /	तारा /	तारा /	कुञ्चिका /
अत्रज / अत्तज / पुत्त / अत्तज /	这样	星	星	鎖上
岳父	zhèi yàng	xīng	xīng	suǒ shàng
yuè fù	तथा / तथा / इति / एवं / एवं /	तारका / तारा / जोति / उळ /	तारका / तारा / जोति / उळ /	कुञ्चिका / अपापुरण / अवापुरण /
जनक / तात /	तादिसक / तादिस / इत्थं / इत्थं /	नकखत्त /	नकखत्त /	ताळ /
樁	इति / एवरूप /	星星	星星	鑰
chūn	तायन	xīng xīng	xīng xīng	鑰
जनक / तात /	tāyana	तारा / उळ / तारका / नकखत्त /	तारा / उळ / तारका / नकखत्त /	yào
父	保护	जोति /	जोति /	अवापुरण / ताळ / कुञ्चिका /
fù	bǎo hù	星辰	星辰	अपापुरण /
जनक / तात /	अनुपालन / तायन / पटिसरण /	xīng chén	xīng chén	鑰匙
父亲	आरंक्खा / निरसय / अनुरक्खा /	उळ / तारका / जोति / तारा /	उळ / तारका / जोति / तारा /	yào shì
fù qīn	परिहार / गोपन / अनुरक्खन /	नकखत्त /	नकखत्त /	ताळ / अपापुरण / अवापुरण /
जनक / तात /	गुत्ति / नाथ / अभिरक्खन / ताण /	月亮	月亮	कुञ्चिका /
父親	पालन /	yuè liàng	yuè liàng	钥
fù qīn	保護	तारा / चन्द / उळ / तारका /	तारा / चन्द / उळ / तारका /	yào
जनक / तात /	保護	चन्दिमा /	चन्दिमा /	अपापुरण / कुञ्चिका / ताळ /
父親	bǎo hù	तारेतु	tāretu	अवापुरण /
fù qīn	तायन / गोपन / गुत्ति / परिहार /	救世主	救世主	钥匙
जनक / तात /	अनुरक्खा / अनुरक्खन / पटिसरण /	jiù shì zhǔ	jiù shì zhǔ	yào chí
爺	नाथ / अभिरक्खन / आरक्खा /	救星	救星	अपापुरण / ताळ / अपापुरण / ताळ /
ye	अनुपालक / पालन / अनुपालन /	jiù xīng	jiù xīng	अवापुरण / कुञ्चिका / अवापुरण /
तात / जनक / जनक /	निरसय / ताण /			कुञ्चिका /
爸爸				钥匙
bà bà				yào shì
जनक / तात /				अपापुरण / ताळ / अपापुरण / ताळ /
爹				अवापुरण / कुञ्चिका / अवापुरण /
diē				कुञ्चिका /
जनक / तात /				鍵
爺				jiàn
ye				अपापुरण / ताळ / अवापुरण /
जनक / तात /				कुञ्चिका /
生父				關鍵
shēng fù				guān jiàn
तात / जनक /				अपापुरण / ताळ / कुञ्चिका /
老子				अवापुरण /
lǎo zi				音乐
जनक / तात /				yīn lè
				音樂
				yīn lè

ताळन	तास	ति	तिण्ह	तित्थ
tāḷana	tāsa	ti	tiṅha	tiittha
打	怕	三	尖銳	信仰
dǎ	pà	sān	jiān ruì	xìn yǎng
उप्पोठन / ताळन / पोठन / अन्वाहत / पहरण /	तास / भय / पटिभय / आसङ्का / उत्तास /	三个的	तिण्ह / खर / कटुक / तिप्प /	दिट्ठि / तित्थ / पसाद / भत्ति / आगम /
敲	忧	sān gè de	尖锐	信奉
qiāo	chū	三人	jiān ruì	xìn fèng
तावदे	पटिभय / भय / उत्तास / भीरुक / तास / आसङ्का /	sān rén	तिप्प / कटुक / तिण्ह / खर /	तित्थ / भत्ति / दिट्ठि /
tāvade	恐	三份	尖锐的	信念
立即地	kǒng	sān fèn	jiān ruì de	xìn niàn
lì jí dì	उत्तास / आसङ्का / भय / पटिभय / तास /	三個	तिप्प / खर / तिण्ह / कटुक /	भत्ति / तित्थ / दिट्ठि / पसाद /
तावदे / तावदेव /	उत्तसंन / भय / तास / आसङ्का /	sān gè	急劇	तित्तिक्खा
那時	恐懼	三名	jiǐ jù	tiitikkhā
nà shí	kǒng bù	sān míng	कटुक / तिण्ह / तिप्प / खर /	忍耐
अथो / तावदेव / तु / तावदे / अथ /	पटिभय / उत्तास / उत्रास /	तिक्खत्तुं	xī lì	rěn nài
तावदेव	उत्तसंन / भय / तास / आसङ्का /	tikkhattuṃ	कटुक / तिप्प / खर / तिण्ह /	अधिवासना / खमन / खन्ति / तित्तिक्खा /
tāvadeva	恐惧	三倍	銳	तिपु
立即地	kǒng jù	三倍	ruì	tipu
lì jí dì	भय / तास / आसङ्का / उत्तास / पटिभय /	sān bèi	कटुक / तिण्ह / खर / तिप्प /	領導
तावदे / तावदेव /	恐懼	तिकिच्छक	鋒利	lǐng dǎo
那時	kǒng jù	tikicchaka	fēng lì	तिप्प
nà shí	तास / उत्तास / भय / पटिभय / आसङ्का /	医师	कटुक / तिप्प / खर / तिण्ह /	tippa
अथो / तावदेव / तु / तावदे / अथ /	憚	yī shī	銳	刺骨的
	dàn	भिसक्क / तिकिच्छक /	ruì	cì gú de
	आसङ्का / पटिभय / भीति / भय / उत्तास / तास /	医生	कटुक / तिप्प / तिण्ह / खर /	तिब्ब / तिप्प /
	惶恐	yī shēng	तित्त	尖銳
	huáng kǒng	तिकिच्छक / भिसक्क /	tiitta	jiān ruì
	तास / उत्तास / आसङ्का / पटिभय / भय /	博士	苦	तिण्ह / खर / कटुक / तिप्प /
	懼	bó shì	kǔ	尖锐
	jù	大	तित्तक / तित्त /	jiān ruì
	तास / आसङ्का / उत्तास / भय / पटिभय /	dà	苦瓜	तिप्प / कटुक / तिण्ह / खर /
	畏	तिकिच्छक / तुमुल / पुथुल / अति / उरु /	kǔ guā	尖锐的
	wèi	大夫	苦的	jiān ruì de
	पटिभय / आसङ्का / तास / भय / उत्तास /	dà fu	kǔ de	तिप्प / खर / तिण्ह / कटुक /
	畏懼	तिकिच्छक / तिकिच्छक /	तित्त / तित्तक /	急劇
	wèi jù	大夫	तित्तक	jí jù
	उत्तास / भय / पटिभय / तास / आसङ्का /	dà fu	tiittaka	कटुक / तिण्ह / तिप्प / खर /
	發抖	तिकिच्छक / तिकिच्छक /	苦	急性
	fā dǒu	yī shī	kǔ	jí xìng
	तास / परिसप्पना / चलन / कम्पन /	तिकिच्छक / भिसक्क /	तित्तक / तित्त /	犀利
	虞	तिखिण	苦瓜	xī lì
	yú	tikhīṇa	kǔ guā	कटुक / तिप्प / खर / तिण्ह /
	पटिभय / तास / आसङ्का / भय / उत्तास /	尖的	तित्तक / तित्त /	銳
		jiān de	苦的	ruì
		तिण	kǔ de	कटुक / तिण्ह / खर / तिप्प /
		tiṅa	तित्त / तित्तक /	鋒利
		芳草	तित्ति	fēng lì
		fāng cǎo	tiitti	कटुक / तिप्प / खर / तिण्ह /
		草	滿足	銳
		cǎo	mǎn zú	ruì
		पलाल / खर / कठिन / कक्खळ / थूल / तिण / खळ / निडुर / कक्कस /	तित्ति / अस्साद /	कटुक / तिप्प / तिण्ह / खर /
		青草	邊緣	तिपुस
		qīng cǎo	biān yuán	tipusa
			तित्ति / परियन्त /	南瓜
				nán guā

तिब्ब	तिमिस	तिरच्छान	तिरो	तिरोक्कार
tibba	timisa	tiracchāna	tiro	tirokkāra
刺骨的	烏	兽	之外	侮
cì gú de	wū	shòu	zhī wài	wǔ
तिब्ब / तिप्प /	काळ / तिमिर / तिमिस / कण्ह /	तिरच्छान / पसु /	बहि / तिरो / बहिद्धा / बाहिर /	ओमसना / उपवाद / घट्टन /
तिमिर	冥	动物	以外	आसज्जन / अक्कोस / तिरोक्कार /
timira	míng	dòng wù	yǐ wài	侮辱
烏	अनुत्तान / गम्भीर / तिमिर /	तिरच्छान / पसु /	बाहिर / तिरो / बहिद्धा / बहि /	wǔ rǔ
wū	तिमिस / कण्ह / काळ / गांध /	动物性	外	घट्टन / उपवाद / आसज्जन /
काळ / तिमिर / तिमिस / कण्ह /	摸黑	dòng wù xìng	wài	तिरोक्कार / ओमसना / अक्कोस /
冥	mō hēi	動物	बाहिर / बहि / तिरो / बहिद्धा /	汚辱
míng	तिमिर / कण्ह / काळ / तिमिस /	dòng wù	外側	wū rǔ
अनुत्तान / गम्भीर / तिमिर /	晦	獸	wài cè	ओमसना / आसज्जन / दूसन /
तिमिस / कण्ह / काळ / गांध /	huì	शòu	बहि / बाहिर / बहिद्धा / तिरो /	अक्कोस / तिरोक्कार / घट्टन /
幽暗	निसा / तिमिर / काळ / तिमिस /	पसु / तिरच्छान /	外界	उपवाद /
yōu àn	कण्ह /	畜牲	wài jiè	辱
तम / तिमिर /	暗	chù shēng	बहि / तिरो / बाहिर / बहिद्धा /	rǔ
摸黑	àn	पसु / तिरच्छान /	外表	तिरोक्कार / उपवाद / ओमसना /
mō hēi	तिमिस / तिमिर / काळ / कण्ह /	畜生	wài biǎo	अयस / घट्टन / अक्कोस /
तिमिर / कण्ह / काळ / तिमिस /	暗的	chù shēng	तिरो / पातु / बहि / बहिद्धा /	आसज्जन /
晦	àn de	पसु / तिरच्छान /	बाहिर / आंकार /	तिसति
huì	तिमिस / अनुत्तान / तिमिर /	野兽	外邊	timsati
निसा / तिमिर / काळ / तिमिस /	kण्ह / काळ /	yě shòu	wài biān	三十
कण्ह /	暗	पसु / तिरच्छान /	बहि / तिरो / बाहिर / बहिद्धा /	sān shí
暗	àn	烏	外面	卅
àn	तिमिस / तिमिर / काळ / कण्ह /	wū	wài miàn	sà
तिमिस / तिमिर / काळ / कण्ह /	暗的	काळ / तिमिस / तिमिर / कण्ह /	तिरो / बहि / बहिद्धा / बाहिर /	तीर
暗的	àn de	陰暗	外頭	tīra
àn de	तिमिस / अनुत्तान / तिमिर /	yīn àn	wài tóu	岸
तिमिस / कण्ह / काळ /	瞑	काळ / कालुसिय / कण्ह / तिमिस /	तिरो / बाहिर / बहि / बहिद्धा /	àn
瞑	黑	तिमिर /	局外的	河岸
míng	hēi	黑	jú wài de	hé àn
कण्ह / तिमिस / काळ / तिमिर /	hēi	काळ / तिमिस / अन्धकार /	बाहिर / तिरो / बहिद्धा / बहि /	कूल / तीर /
烏	黑乎乎	तिमिर / कण्ह / काळक / तम /	窗外	海岸
wū	hēi hu hu	黑乎乎	chuāng wài	hǎi àn
काळ / तिमिस / तिमिर / कण्ह /	黑	黑乎乎	बहिद्धा / तिरो / बाहिर / बहि /	滨
陰暗	hēi hu hu	黑乎乎	超出	bīn
yīn àn	कण्ह / काळ / तिमिर / तिमिस /	黑暗	chāo chū	तोमर
काळ / कालुसिय / कण्ह / तिमिस /	黑暗	hēi àn	परं / तिरो /	tomara
तिमिर /	hēi àn	तिमिर / काळ / कण्ह / तिमिस /	超过	矛
黑	tiमिर / काळ / कण्ह / तिमिस /	अन्धकार / तम /	chāo guò	máo
hēi	अन्धकार / तम /	黑暗的	परं / तिरो /	鏃
काळ / तिमिस / अन्धकार /	黑暗的	hēi àn de	門外	shā
तिमिर / कण्ह / काळक / तम /	hēi àn de	तिमिस / काळ / कण्ह / तिमिर /	mén wài	
黑乎乎	黑乎乎	黝黑	बाहिर / बहि / तिरो / बहिद्धा /	
hēi hu hu	कण्ह / काळ / तिमिर / तिमिस /	yōu hēi		
कण्ह / काळ / तिमिर / तिमिस /	黑暗	तिमिर / कण्ह / काळ / तिमिस /		
黑暗	hēi àn	黧		
hēi àn	तिमिर / काळ / कण्ह / तिमिस /	lí		
तिमिर / काळ / कण्ह / तिमिस /	अन्धकार / तम /	काळ / तिमिस / तिमिर / कण्ह /		
黑暗的	黑暗的	黯		
hēi àn de	hēi àn de	àn		
तिमिस / काळ / कण्ह / तिमिर /	黝黑	काळ / तिमिर / कण्ह / तिमिस /		
黝黑	yōu hēi			
yōu hēi	तिमिर / कण्ह / काळ / तिमिस /			
तिमिर / कण्ह / काळ / तिमिस /	黧			
黧	lí			
काळ / तिमिस / तिमिर / कण्ह /	黯			
黯	àn			
àn	काळ / तिमिर / कण्ह / तिमिस /			
काळ / तिमिर / कण्ह / तिमिस /				

तोय	थद्द	थेन	थम्भ	थल
toya	thaddha	thena	thambha	thala
下水	使勁	小偷	支柱	國土
xià shuǐ	shǐ jìn	xiǎo tōu	zhī zhù	guó tǔ
तोय / ओक / नीर / अम्बु / जल / अण्ण / दक / उदक /	थद्द / निद्दुर / कठिन / कक्खळ / खर /	चोर / थेनक / थेन / तक्कर /	柱	土地
水	僵	盜	zhù	tǔ de
shuǐ	jiāng	dào	कील / कूपक / बाहा / आलान / आळान / खील / खाणु / थम्भ /	भूमि / अवनि / पंसु / छम्मा / भूमि / छम्मा / पंसु / अवनि / थल / थल /
तोय / पान / अण्ण / जल / उदक / दक / अम्बु / नीर / ओक /	असिथिल / उपत्थद्द / थद्द / कठिन /	盜	柱子	土地
水中	僵硬	dào	zhù zi	tǔ dì
shuǐ zhōng	jiāng yìng	थेन / तक्कर / चोर / थेनक /	柱状物	भूमि / अवनि / पंसु / छम्मा / भूमि / छम्मा / पंसु / अवनि / थल / थल /
ओक / जल / अण्ण / उदक / नीर / तोय / दक / अम्बु /	कठिन / थद्द / असिथिल / उपत्थद्द /	竊賊	zhù zhuàng wù	地
水源	強硬	qiè zéi	楹	de
shuǐ yuán	qiáng yìng	चोर / थेन / तक्कर / थेनक /	yíng	पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छम्मा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पुथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छम्मा / पुथुवी / जगति / जगति /
तोय / दक / नीर / पभव / अम्बु / निदान / उदक / ओक / जल / अण्ण /	強硬	賊	थेर	di
缺水	qiáng yìng	zéi	thera	पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छम्मा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पुथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छम्मा / पुथुवी / जगति / जगति /
quē shuǐ	qiáng yìng de	賊	老	地
नीर / जल / तोय / अण्ण / ओक / दक / अम्बु / उदक /	強硬的	zéi	lǎo	dì
थकन	shēng yìng	थेन / थेनक / तक्कर / चोर /	जर / बु / थेर / पुराण / जज्जर / आचरिय /	पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छम्मा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पुथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छम्मा / पुथुवी / जगति / जगति /
thakana	असिथिल / उपत्थद्द / थद्द / कठिन /	थेनक		dì
蓋子	硬	thenaka		पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छम्मा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पुथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छम्मा / पुथुवी / जगति / जगति /
gài zi	yìng	小偷		地上
अपिधान / पच्छाद / पिधान / छदन / पच्चत्थरण / थकन / पापुरण / पटल /	थिर / कक्खळ / निद्दुर / कठिन / खर / असिथिल / देव्ह / उपत्थद्द / थद्द /	xiǎo tōu		de shàng
थेत	硬朗	盜		भूमि / थल / छम्मा /
theta	yìng lǎng	dào		地皮
可靠	硬殼	थेन / थेनक / तक्कर / चोर /		dì pí
kě kào	yìng ké	盜		छम्मा / थल / थल / भूमि /
可靠的	थद्द / कठिन / निद्दुर / कक्खळ / खर /	dào		地皮
kě kào de	硬的	थेन / तक्कर / चोर / थेनक /		de pí
पच्चयिक / थेत /	yìng de	竊賊		छम्मा / थल / थल / भूमि /
	उपत्थद्द / निद्दुर / असिथिल / खर / कक्खळ / थद्द / कठिन /	qiè zéi		地面
	艱苦	चोर / थेन / तक्कर / थेनक /		de miàn
	jiān kǔ	賊		भूमि / पुथुवी / भू / भू / धरणी / भूमि / छम्मा / जगति / पुथुवी / थल / धरणी / थल / जगति / छम्मा /
	कठिन / कक्खळ / थद्द / निद्दुर / खर /	zéi		地面
	辛	थेन / थेनक / तक्कर / चोर /		dì miàn
	xīn	थूप		भूमि / पुथुवी / भू / भू / धरणी / भूमि / छम्मा / जगति / पुथुवी / थल / धरणी / थल / जगति / छम्मा /
	निद्दुर / खर / थद्द / कक्खळ / कठिन /	thūpa		接地
	辛苦	佛塔		jiē dì
	xīn kǔ	fó tǎ		जगति / भूमि / थल / थल / धरणी / छम्मा / धरणी / भू / छम्मा / भूमि / जगति / भू / पुथुवी / पुथुवी /
	難纏	थूपिका		接地
	nán chán	thūpikā		jiē de
	韧	尖塔		जगति / भूमि / थल / थल / धरणी / छम्मा / धरणी / भू / छम्मा / भूमि / जगति / भू / पुथुवी / पुथुवी /
	rèn	jiān tǎ		陸
		高峰		lù
		gāo fēng		陆地
		निय्यूह / थूपिका / कूट /		lù dì
		थबक		陸
		thabaka		lù
		串		陆地
		chuàn		lù dì
		पन्ति / थबक / उद्दान / घटा /		陸
				lù
				陸地
				lù de

थूल
thūla
尙
cāng
थूल / कक्कस / कठिन / खळ / कक्कळ / खर / निडूर /
莢
zhuǎng
उरु / उरु / तुमुल / थूल / थूल / तुमुल /
莢
zàng
उरु / उरु / तुमुल / थूल / थूल / तुमुल /
油脂
yóu zhī
तेल / थूल /
粗
cū
कठिन / गम्म / खर / कक्कस / घन / खळ / कक्कळ / बहल / गहन / ओळारिक / थूल / निडूर /
粗糙
cū cāo
ओळारिक / गम्म / कक्कस / थूल /
粗糙的
cū cāo de
कठिन / थूल / निडूर / ओळारिक / दारुण / कक्कस / खळ / गम्म / कक्कळ / खर /
糙
cāo
खर / निडूर / कक्कस / कक्कळ / कठिन / थूल / खळ /
肥
féi
肥肉
féi ròu
肥胖
féi pàng
胖
pàng
胖的
pàng de
脂
zhī
脂肪
zhī fáng
草
cǎo
पलाल / खर / कठिन / कक्कळ / थूल / तिण / खळ / निडूर / कक्कस /

थेव
theva
一滴
yī dī
थेव / पतन /
掉落
diào luò
थेव / पतन /
水滴
shuǐ dī
थेव / पतन /
滴
dī
थेव / पतन / पगघरण /
落
luò
थेव / पतन /
降
jiàng
थेव / पतन / अवतरण /
थविका
thavikā
背包
bèi bāo
錢包
qián bāo
थविका / पसिबक /
थुस
thusa
糠
kāng

थाम
thāma
幕
mì
आधिपतेय्य / आधिपच्च / पभाव / आनुभाव / बल / थाम / तेज /
力
lì
जव / बल / आधिपतेय्य / आनुभाव / तेज / पभाव / आधिपच्च / थाम /
力气
lì qì
जव / पभाव / थाम / बल /
力氣
lì qì
जव / बल / पभाव / थाम /
力量
lì liàng
तेज / आनुभाव / थाम / आधिपच्च / जव / पभाव / बल / आधिपतेय्य /
功
gōng
थाम / आधिपच्च / आनिसंस / आधिपतेय्य / आनुभाव / बल / तेज / पुञ्ज /
功率
gōng lǜ
आधिपच्च / आनुभाव / आनुभाव / थाम / पभाव / बल / बल / पभाव / थाम / आधिपतेय्य / आधिपतेय्य / तेज /
功率
gōng lǜ
आधिपच्च / आनुभाव / आनुभाव / थाम / पभाव / बल / बल / पभाव / थाम / आधिपतेय्य / आधिपतेय्य / तेज /
勢力
shì lì
जव / आनुभाव / आधिपच्च / थाम / बल / तेज / पभाव / आधिपतेय्य /
動力
dòng lì
आनुभाव / बल / आधिपच्च / आधिपतेय्य / तेज / थाम /
大权
dà quán
तेज / आनुभाव / बल / पभाव / थाम /
大權
dà quán
बल / आधिपतेय्य / आनुभाव / आधिपच्च / थाम / तेज /
威
wēi
आनुभाव / थाम / तेज / आधिपच्च / आधिपतेय्य / बल / पभाव /
威力
wēi lì
आधिपतेय्य / पभाव / आधिपच्च / तेज / आनुभाव / थाम / बल /
實力
shí lì
बल / थाम / पभाव / जव /

मि
mì
थाम / आनुभाव / तेज / बल / आधिपतेय्य / आधिपच्च /
強國
qiáng guó
आधिपतेय्य / थाम / बल / तेज / आधिपच्च / आनुभाव /
強权
qiáng quán
बल / आनुभाव / आधिपच्च / तेज / थाम / आधिपतेय्य / पभाव /
斷電
duàn diàn
आधिपतेय्य / आधिपच्च / थाम / तेज / बल / आनुभाव /
有力的
yǒu lì de
बली / थाम /
权力
quán lì
बल / पभाव / थाम / तेज / आनुभाव /
權力
quán lì
आनुभाव / थाम / आधिपच्च / तेज / आधिपतेय्य / बल /
活力
huó lì
उस्सुक / पगगह / उद्गान / धिति / पगगाह / थाम /
能力
néng lì
दक्ख / बल / भब्ब / थाम / कल्ल /
थाल
thāla
盤子
pán zi
पाति / थाल /
碟子
dié zi
थालक
thālaka
大口杯
dà kǒu bēi
烧杯
shāo bēi
थावर
thāvara
固定的
gù dìng de
थावर / अहारिय / असंहारिम / अकम्पिय /
堅固
jiān gù
थावर / थिर / दळ्ह /
持久的
chí jiǔ de
ठितिक / ठायी / अधिवासक / थावर /

थिर
thira
事務所
shì wu suǒ
दळ्ह / थिर /
公司
gōng sī
दळ्ह / थिर /
固
gù
थिर / एकघन / घन / खर / दळ्ह /
堅
jiān
थिर / दळ्ह /
坚决
jiān jué
थिर / दळ्ह /
坚定
jiān dìng
थिर / दळ्ह /
堅
jiān
दळ्ह / थिर /
堅固
jiān gù
थावर / थिर / दळ्ह /
堅定
jiān dìng
थिर / दळ्ह /
快
kuài
खिप्प / थिर / तुरित /
恆久
héng jiǔ
持久
chí jiǔ
有耐久力
yǒu nài jiǔ lì
牢
láo
चारक / कारा / थिर / दळ्ह /
牢固
láo gù
थिर / दळ्ह /
硬
yìng
थिर / कक्कळ / निडूर / कठिन / खर / असिथिल / दळ्ह / उपत्थद्ध / थद्ध /
磐
pán
पासाण / थिर / दळ्ह /
耐久的
nài jiǔ de
迅
xùn
तुरित / थिर /
迅速
xùn sù
थिर / तुरित /

सु	थी	थोक	दक	दकख
खिप्प / तुरित / जव / थिर /	女	子	下水	霏
ड	nǚ	jié	xià shuǐ	guāi
jù	थी / कन्ता / अङ्गना / नारी / इत्थि / इत्थि /	खुद् / थोक / अप्पक / अप्प / चुल्ल / परित्त /	तोय / ओक / नीर / अम्बु / जल / अण्ण / दक / उदक /	छेक / दकख / पटु / कल्ल / कुसल /
थिर / तुरित /	女人	小	水	伶
	nǚ rén	xiǎo	shuǐ	líng
	जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अङ्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना /	अप्पक / चुल्ल / थोक / खुद् / परित्त / अप्प /	तोय / पान / अण्ण / जल / उदक / दक / अम्बु / नीर / ओक /	कल्ल / पटु / कल्ल / छेक / दकख / दकख / छेक / कुसल / कुसल /
	女人	小班	水中	伶
	nǚ rén	xiǎo bān	shuǐ zhōng	líng
	जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अङ्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना /	परित्त / अप्प / खुद् / अप्पक / थोक / चुल्ल /	ओक / जल / अण्ण / उदक / नीर / तोय / दक / अम्बु /	कल्ल / पटु / कल्ल / छेक / दकख / दकख / छेक / कुसल / कुसल /
	女子	小的	水源	伶俐
	nǚ zǐ	xiǎo de	shuǐ yuán	líng lì
	नारी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना / अङ्गना / नारी / थी / कन्ता / कन्ता / थी /	अप्पक / खुद् / थोक / परित्त / चुल्ल / अप्प /	तोय / दक / नीर / पभव / अम्बु / निदान / उदक / ओक / जल / अण्ण /	कल्ल / पटु / छेक / दकख /
	女子	微小	缺水	俏
	nǚ zǐ	wēi xiǎo	quē shuǐ	qiào
	नारी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना / अङ्गना / नारी / थी / कन्ता / कन्ता / थी /	परित्त / खुद् / अप्प / थोक / अप्पक / चुल्ल /	नीर / जल / तोय / अण्ण / ओक / दक / अम्बु / उदक /	俐
	女子	渺小	दुक	दकख / छेक / पटु / कल्ल / कुसल /
	nǚ zǐ	miǎo xiǎo	duka	焦
	नारी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना / अङ्गना / नारी / थी / कन्ता / कन्ता / थी /	परित्त / अप्प / चुल्ल / खुद् / थोक / अप्पक /	雙	jiāo
	女的	芮	shuāng	कल्ल / पटु / दकख / छेक / कुसल /
	nǚ de	ruì		妙
	थी / कन्ता / अङ्गना / इत्थि / नारी / इत्थि /	अप्पक / खुद् / अप्प / थोक / परित्त / चुल्ल /		miào
	妇	芮		दकख / कुसल / पटु / कल्ल / छेक /
	fù	fèi		巧妙
	थी / नारी / कन्ता / इत्थि / अङ्गना /	अप्प / खुद् / थोक / परित्त / चुल्ल / अप्पक /		qiǎo miào
	妇人	蕞		छेक / कल्ल / पटु / दकख /
	fù rén	zuì		巧妙的
	भरिया / जाया / नारी / इत्थि / अङ्गना / कलत्त / थी / कन्ता / पिया / जानि /	अप्प / अप्पक / चुल्ल / थोक / खुद् / परित्त /		qiǎo miào de
	妻	薄		दकख / कल्ल / पटु / छेक /
	qī	báo		棒
	अङ्गना / जाया / थी / पिया / भरिया / कलत्त / जानि / नारी / कन्ता / इत्थि /	थोक / परित्त / अप्प / परित्त / अप्प / चुल्ल / तनु / चुल्ल / अप्पक / खुद् / अप्पक / खुद् / थोक / तनु /		bàng
	娘	薄		आवरण / पतोद / दकख / दण्डक /
	niang	bó		精明
	जननी / जनिका / अम्बा / कन्ता / थी / अङ्गना / नारी / अम्मा / इत्थि / इत्थि / जनेत्ती /	थोक / परित्त / अप्प / परित्त / अप्प / चुल्ल / तनु / चुल्ल / अप्पक / खुद् / अप्पक / खुद् / थोक / तनु /		jīng míng
	婦人	藐		दकख / चातुरिय /
	fù rén	miǎo		聰
	कन्ता / इत्थि / अङ्गना / थी / नारी /	थोक / परित्त / अप्पक / खुद् / चुल्ल / अप्प /		cōng
	婦女	襪		दकख / पटु / पण्डित / छेक / कल्ल /
	fù nǚ	bì		聰明
	कन्ता / नारी / अङ्गना / थी / इत्थि /	खुद् / परित्त / अप्प / चुल्ल / थोक / अप्पक /		cōng míng
	爱人			पटु / कल्ल / दकख / छेक /
	ài rén			聰明的
	अङ्गना / नारी / जाया / भरिया / थी / जानि / कलत्त / पिया / कन्ता /			cōng míng de
				दकख / कल्ल / छेक / पटु /
				聰明
				cōng míng
				दकख / छेक / पटु / कल्ल /
				能力
				néng lì
				दकख / बल / भब्व / थाम / कल्ल /
				高明
				gāo míng
				दकख / कल्ल / पटु / छेक /

मलि	दुजिव्ह	दूत	दन्त	दन्ध
má lì	dujivha	dūta	danta	dandha
दुक्ख	蛇	使者	尖牙	傻
dukkha	shé	shǐ zhě	jiān yá	shǎ
烦恼	भोगी / दुजिव्ह / आसीविस / उरग / अहि / अलगद्द /	दूत / पेस्सिक /	牙	दुम्मेध / दन्ध / अन्ध / दुप्पञ्ज / जळ / बाल /
fán nǎo	दुइ	信使	yá	傻事
疼	दुत्था	xìn shǐ	दसन / दिवज / दन्त /	shǎ shì
téng	不善	पेस्सिक / दूत /	牙齒	दन्ध / जळ /
दुक्ख / असात / अघ /	bù shàn	信差	yá chǐ	呆
疼痛	不良	xìn chà	दसन / दिवज / दन्त /	dāi
téng tòng	不道德的	पेस्सिक / पेस्सिक / दूत / दूत /	牙齒	बाल / दन्ध / दुम्मेध / अन्ध / जळ / ठान / दुप्पञ्ज /
दुक्ख / असात / अघ /	bù liáng	信差	yá chǐ	愚
痛	不道德的	xìn chà	दन्त / दसन / दिवज /	yú
tòng	坏的	पेस्सिक / पेस्सिक / दूत / दूत /	舂	जळ / दन्ध /
दुक्ख / असात / अघ /	huài de	特使	fǎng	愚笨
痛苦	麻	tè shǐ	芳	yú bèn
tòng kǔ	yǔ	दुतिय	fāng	दन्ध / जळ /
अघ / आबाध / बाधन / खेद / किच्छ / असात / दुक्ख /	दुहुल्ल	dutiya	齒	愚蠢
दुक्खापन	दुत्थुल्ल	二等	chǐ	yú chǔn
dukkhāpana	दुत्थुल्ल	èr děng	दिवज / दसन / दन्त /	बाल्य / दन्ध / बाल /
傷害	下流的	伯仲叔季	齒	愚蠢的
shāng hài	xià liú de	bó zhòng shū jì	chǐ	yú chǔn de
अहित / दुक्खापन / अपकार / अनन्ध /	劣等的	秒	दिवज / दसन / दन्त /	अन्ध / दन्ध / दुम्मेध / जळ / बाल / दुप्पञ्ज /
दक्खिण	liè děng de	第二	दुन्दुभि	慢
dakkhiṇa	ओम / ओमक / दुइल्ल /	di èr	dundubhi	màn
南方	दण्ड	第二次	大鼓	दन्ध / जळ /
nán fāng	danḍa	di èr cì	dà gǔ	慢慢地
南方的	刑	第二的	दुन्दुभि / भेरि /	màn màn dì
nán fāng de	xíng	di èr de	滚筒	दन्ध / जळ /
दुक्खित	刑罚	दुद्ध	gǔn tǒng	慢的
dukkhita	xíng fá	乳	भेरि / दुन्दुभि /	màn de
不快樂	处罚	rǔ	鼓	जळ / दन्ध /
bù kuài lè	chǔ fá	पय / खीर / दुद्ध / उर /	gǔ	懵
不高興	懲罰	乳汁	भेरि / दुन्दुभि /	měng
bù gāo xìng	chéng fá	乳汁		जळ / दन्ध /
使痛苦的	懲罰	rǔ zhī		痴
shǐ tòng kǔ de	chéng fá	खीर / पय / दुद्ध /		chī
生病的	柄	奶		दुम्मेध / जळ / दन्ध / अन्ध / बाल / दुप्पञ्ज /
shēng bìng de	bǐng	nǎi		笨
दुक्खी / दुक्खित / आतुर / आबाधिक / गिलान /	जट / दण्ड / बाहा /	खीर / पय / दुद्ध /		bèn
惹	梗	牛奶		जळ / दुप्पञ्ज / अन्ध / बाल / दुम्मेध / दन्ध /
xǐ	gěng	niú nǎi		笨的
दुक्खी	दण्ड / नाळ /	पय / खीर / दुद्ध /		bèn de
dukkhī	罰金			दुम्मेध / दन्ध / जळ / अन्ध / दुप्पञ्ज / बाल /
生病的	fá jīn			緩慢
shēng bìng de	茎			huǎn màn
दुक्खी / दुक्खित / आतुर / आबाधिक / गिलान /	jīng			जळ / दन्ध /
दुग्ग	蒂			蠢
dugga	dì			chǔn
城堡	दण्डक			दन्ध / जळ /
chéng bǎo	danḍaka			蠢笨
नगर / उद्याप / दुग्ग /	杖			chǔn bèn
दुग्गन्ध	zhàng			दन्ध / जळ /
duggandha	棍			迟缓
臭味	gùn			chí huǎn
chòu wèi	棒			दन्ध / जळ /
	bàng			
	आवरण / पतोद / दक्ख / दण्डक /			

दुन्नामक	दप्पित	दुब्बल	दब्बी	दमथ
dunnāmaka	dappita	dubbala	dabbī	damatha
痔	傲慢的	孱	勺	征服
zhì	ào màn de	chán	sháo	zhēng fú
दुन्नामक / अरिस /	गब्बि / दप्पित /	अबल / दुब्बल /	कटच्छु / दब्बी /	अभिमहन / निम्महन / दम /
痔核	दब्ब	弱	勺子	दमथ /
zhì hé	dabba	ruò	sháo zi	抑制
痔疮	事件	दुब्बल / अबल /	कटच्छु / दब्बी /	yì zhì
zhì chuāng	shì jiàn	弱	匙	निसेध / उपरति / दमथ / दम /
दुन्नामक / अरिस /	पसङ्ग / पकरण / पवत्ति / दब्ब /	ruò de	shì	控制
痔疾	实体	अबल / दुब्बल /	दब्बी / कटच्छु / कटच्छु / दब्बी /	kòng zhì
zhì jí	shí tǐ	微弱	匙	इस्सरिय / आधिपच्च / दमथ /
दुप्पञ्ज	實質	wēi ruò	chí	दुम्मेध
duppāñña	shí zhì	दुब्बल / अबल /	दब्बी / कटच्छु / कटच्छु / दब्बी /	dummedha
傻	有道	微弱的	杓子	傻
shǎ	yǒu dào	wēi ruò de	sháo zi	shǎ
दुम्मेध / दन्ध / अन्ध / दुप्पञ्ज /	इस्सरिय / भोग / दब्ब / धन /	दुब्बल / अबल /	दब्बी / उळ्ङ्क /	दुम्मेध / दन्ध / अन्ध / दुप्पञ्ज /
जळ / बाल /	अत्थ /	昏	汤匙	जळ / बाल /
傻子	木料	hūn	tāng chí	傻子
shǎ zi	mù liào	昏倒	कटच्छु / दब्बी /	shǎ zi
बाल / दुम्मेध / दुप्पञ्ज /	दारु / कट्ट / दब्ब /	hūn dǎo	दुब्भक	बाल / दुम्मेध / दुप्पञ्ज /
呆	木材	दुब्बल / दुब्बल /	dubbhaka	呆
dāi	mù cái	昏倒	叛逆的	dāi
बाल / दन्ध / दुम्मेध / अन्ध /	कट्ट / दारु / दब्ब /	hūn dào	pàn nì de	बाल / दन्ध / दुम्मेध / अन्ध /
जळ / ठान / दुप्पञ्ज /	材	दुब्बल / दुब्बल /	दुब्भन	जळ / ठान / दुप्पञ्ज /
愚蠢的	cái	暈倒	dubbhana	愚蠢的
yú chǔn de	आमिस / दारु / कट्ट / दब्ब /	yūn dào	叛逆	yú chǔn de
अन्ध / दन्ध / दुम्मेध / जळ /	材料	柔弱	pàn nì	अन्ध / दन्ध / दुम्मेध / जळ /
बाल / दुप्पञ्ज /	cái liào	róu ruò	दम	बाल / दुप्पञ्ज /
痴	आमिस / दब्ब /	अबल / दुब्बल /	dama	痴
chī	森林	薄弱	征服	chī
दुम्मेध / जळ / दन्ध / अन्ध /	sēn lín	bó ruò	zhēng fú	दुम्मेध / जळ / दन्ध / अन्ध /
बाल / दुप्पञ्ज /	कट्ट / अरञ्ज / दब्ब / दारु /	अबल / दुब्बल / पभङ्गुर /	अभिमहन / निम्महन / दम /	बाल / दुप्पञ्ज /
笨	物質	पभङ्गुर / अबल / दुब्बल /	दमथ /	笨
bèn	wù zhì	薄弱	抑制	bèn
जळ / दुप्पञ्ज / अन्ध / बाल /	दब्ब / पुब्ब /	báo ruò	yì zhì	जळ / दुप्पञ्ज / अन्ध / बाल /
दुम्मेध / दन्ध /	物质	अबल / दुब्बल / पभङ्गुर /	निसेध / उपरति / दमथ / दम /	दुम्मेध / दन्ध /
笨的	wù zhì	पभङ्गुर / अबल / दुब्बल /	控制	笨的
bèn de	wù zhì	虛弱	kòng zhì	bèn de
दुम्मेध / दन्ध / जळ / अन्ध /	दब्ब / आमिस /	xū ruò	इस्सरिय / आधिपच्च / दमथ /	दुम्मेध / दन्ध / जळ / अन्ध /
दुप्पञ्ज / बाल /	纺织品	दुब्बल / अबल /	दम /	दुप्पञ्ज / बाल /
笨蛋	fáng zhī pǐn	衰	馴服	笨蛋
bèn dàn	財富	shuāi	xún fú	bèn dàn
दुप्पञ्ज / दुम्मेध / बाल /	cái fù	अबल / दुब्बल /	दुम	दुप्पञ्ज / दुम्मेध / बाल /
दप्पण	अत्थ / भग / दब्ब / भाग्य /	衰弱	duma	
dappaṇa	इस्सरिय / धन / भोग /	shuāi ruò	木	
反射镜	财富	अबल / दुब्बल /	mù	
fǎn shè jìng	cái fù	軟弱	kūj / तरु / दारु / पादप / दुम /	
आदास / दप्पण /	इस्सरिय / अत्थ / धन / भग /	ruǎn ruò	树	
鏡	भोग / दब्ब /	दुब्बल / अबल /	shù	
jìng			तरु / दारु / पादप / दुम / कुज /	
आदास / दप्पण /			樹	
鏡子			shù	
jìng zi			तरु / कुज / पादप / दुम /	
दप्पण / आदास /				
鏡				
jìng				
दप्पण / आदास /				
鏡子				
jìng zi				
आदास / दप्पण /				

दया	दूर	दल	दळ्ह	देव
dayā	dūra	dala	dalha	deva
仁慈	距	叶	事務所	一群
rén cí	jù	yè	shì wu suǒ	yī qún
अवेर / दया / कल्याण /	距离	दल / पलास / पण्णक / पत्त /	दळ्ह / थिर /	निकाय / गण / देव /
同情	jù lí	पण्ण / पट्ट /	公司	上帝
tóng qíng	jù lí	瓣	gōng sī	shàng dì
करुणा / अनुकम्पन / दया /	距離	bàn	दळ्ह / थिर /	देव / देवत्त / अमर /
कारुञ्ज /	jù lí	箔	固	君王
好意	路程	bó	gù	jūn wáng
hǎo yì	lù chéng	पण्णक / पलास / पण्ण / पत्त /	थिर / एकघन / घन / खर / दळ्ह /	देव / पत्थिव / जनाधिप / जनिन्द
अनुगगणहन / उपकार / दया / अवेर	迴	दल / पट्ट /	坚	/ इन्द /
/	jiǒng	花瓣	jiān	国王
怜悯	遯	huā bàn	थिर / दळ्ह /	guó wáng
lián mǐn	tì	葉	坚决	पत्थिव / जनिन्द / इन्द /
अनुकम्पन / करुणा / दया /	遐	yè	jiān jué	जनाधिप / देव / दिसम्पति /
कारुञ्ज /	xiá	पत्त / पट्ट / दल / पण्णक / पण्ण	थिर / दळ्ह /	國王
恤	遠	/ पलास /	坚定	guó wáng
xù	yuǎn	葉子	jiān dìng	जनिन्द / इन्द / देव / जनाधिप /
憐憫	遠方	yè zi	थिर / दळ्ह /	पत्थिव /
lián mǐn	yuǎn fāng	पलास / पट्ट / पण्णक / पत्त /	堅	大王
करुणा / दया /	yuǎn fāng	पण्ण / दल /	jiān	dà wáng
दर	遠處	页	दळ्ह / थिर /	पत्थिव / जनिन्द / देव / जनाधिप
dara	yuǎn chù	yè	堅固	/ इन्द /
惶	yuǎn jìn	पत्त / दल / पण्णक / पट्ट /	jiān gù	天
huáng	遙遠	पलास / पण्ण /	थावर / थिर / दळ्ह /	tiān
दर / दरथ /	yáo yuǎn	jiān gù	堅定	अब्भ / दिवस / अण्ह / अघ /
焦急	遙远的	थावर / थिर / दळ्ह /	jiān dìng	नाक / देव / आकास / अम्बर /
jiāo jí	yáo yuǎn de	堅定	थिर / दळ्ह /	दिव / दिन / ख / अन्तळिक्ख /
दरथ / दर /	yáo yuǎn de	jiān dìng	牢	天界
焦慮	दरथ	láo	लौ	tiān jiè
jiāo lù	daratha	चारक / कारा / थिर / दळ्ह /	牢固	देव / ख / अघ / अब्भ / आकास /
दर / दरथ /	惶	láo gù	láo gù	अम्बर / अन्तळिक्ख /
焦慮	huáng	थिर / दळ्ह /	硬	tiān kōng
jiāo lù	दर / दरथ /	yìng	ying	अन्तळिक्ख / अघ / दिव / आकास
दर / दरथ /	焦急	थिर / कक्खळ / निदुर / कठिन /	थिर / दळ्ह /	/ अब्भ / नाक / तारा / अनिल /
दर / दरथ /	jiāo jí	खर / असिथिल / दळ्ह / उपत्थद्ध	磐	ख / अम्बर / देव / तारका /
दर / दरथ /	焦慮	/ थद्ध /	wǎn	特大
दर / दरथ /	jiāo lù	磐	精力充沛的	tè dà
दर / दरथ /	jiāo lù	pán	jīng lì chōng pèi de	इन्द / देव / पत्थिव / जनिन्द /
दर / दरथ /	दर / दरथ /	पासाण / थिर / दळ्ह /	उस्सुक / दळ्ह /	जनाधिप /
दर / दरथ /	दर / दरथ /	穩	दव	王
दर / दरथ /	दर / दरथ /	wěn	dava	wáng
दर / दरथ /	दर / दरथ /	精力充沛的	好玩	जनाधिप / पत्थिव / देव / जनिन्द
दर / दरथ /	दर / दरथ /	jīng lì chōng pèi de	hǎo wán	/ इन्द /
दर / दरथ /	दर / दरथ /	उस्सुक / दळ्ह /	दव / कीळा /	神
दर / दरथ /	दर / दरथ /	दव	娱乐	shén
दर / दरथ /	दर / दरथ /	dava	yú lè	अमर / देव / देवत्त / निज्जर /
दर / दरथ /	दर / दरथ /	好玩	運動	雲霄
दर / दरथ /	दर / दरथ /	hǎo wán	yùn dòng	yún xiāo
दर / दरथ /	दर / दरथ /	दव / कीळा /	कम्पन / चार / इञ्जन / फन्दन /	देव / अम्बर / अन्तळिक्ख / ख /
दर / दरथ /	दर / दरथ /	娱乐	एजा / दव / चलन /	अब्भ / आकास / अघ /
दर / दरथ /	दर / दरथ /	yú lè		
दर / दरथ /	दर / दरथ /	運動		
दर / दरथ /	दर / दरथ /	yùn dòng		
दर / दरथ /	दर / दरथ /	कम्पन / चार / इञ्जन / फन्दन /		
दर / दरथ /	दर / दरथ /	एजा / दव / चलन /		

द्वेज्झ	द्वेव्हक	द्वि	देवी	दसन
dvejǰha	dve ǰhaka	dvi	devī	dasana
可疑的	怀疑	一對	女神	牙
kě yí de	huái yí	yī duì	nǚ shén	yá
怀疑	द्वेज्झ / द्वेव्हक / आसङ्का /	द्वि / द्वय / द्वन्द /	अच्छरा / देवी / देवी /	दसन / द्विज / दन्त /
huái yí	疑	两个	女神	牙齒
द्वेज्झ / द्वेव्हक / आसङ्का /	yí	liǎng gè	nǚ shén	yá chǐ
疑	द्वेज्झ / द्वेव्हक / आसङ्का /	二	अच्छरा / देवी / देवी /	दसन / द्विज / दन्त /
yí	疑問	èr	皇后	牙齒
द्वेज्झ / द्वेव्हक / आसङ्का /	yí wèn	二級	huáng hòu	yá chǐ
疑問	द्वेज्झ / द्वेव्हक / आसङ्का /	èr jí	दस	दन्त / दसन / द्विज /
yí wèn	कथङ्कथा /	兩	dasa	齒
द्वेज्झ / द्वेव्हक / आसङ्का /	疑惑	liǎng	十	chǐ
कथङ्कथा /	yí huò	उभय / द्वि / उभ / उभो /	shí	द्विज / दसन / दन्त /
疑惑	आसङ्का / कथङ्कथा / द्वेज्झ /	兩份	十位	齒
yí huò	द्वेव्हक /	liǎng fèn	shí wèi	chǐ
आसङ्का / कथङ्कथा / द्वेज्झ /	疑慮	兩個	द्विज / दसन / दन्त /	द्विज / दसन / दन्त /
द्वेव्हक /	yí lù	兩個	देस	दूसन
疑慮	द्वेज्झ / आसङ्का / द्वेव्हक /	liǎng gè	desa	dūsana
yí lù	कथङ्कथा /	兩項	區域	汚染
द्वेज्झ / आसङ्का / द्वेव्हक /	置疑	liǎng xiàng	qū yù	wū rǎn
कथङ्कथा /	zhì yí	द्विज	देस / भूमि / पदेस / आयतन /	汚辱
矛盾	द्वेज्झ / कथङ्कथा / द्वेव्हक /	dvija	国	wū rǔ
आसङ्का /	द्वादस	牙	guó	ओमसना / आसज्जन / दूसन /
máo dùn	dvādasa	yá	देस / जाति / जनपद /	अक्कोस / तिरोक्कार / घड़न /
置疑	十二	दसन / द्विज / दन्त /	国家	उपवाद /
zhì yí	shí èr	牙齒	guó jiā	腐敗
द्वेज्झ / कथङ्कथा / द्वेव्हक /	द्वादस / बारस /	yá chǐ	देस / जाति / जनपद /	fǔ bài
आसङ्का /	द्वार	दसन / द्विज / दन्त /	國	दोस / दूसन /
देवत्त	dvāra	牙齒	guó	दस्सु
devatta	入口	yá chǐ	देस / जनपद /	dassu
上帝	rù kǒu	दन्त / दसन / द्विज /	國家	強盜
shàng dì	पवेस / आवेसन / द्वार / मुख /	雀	guó jiā	qiáng dào
देव / देवत्त / अमर /	大門	què	देस / जनपद /	दस्सु / चोर /
神	dà mén	खग / द्विज / दिज /	國度	盜賊
shén	大門	鳥	guó dù	dào zéi
अमर / देव / देवत्त / निज्जर /	dà mén	niǎo	जनपद / देस /	दस्सु / चोर /
神性	車門	द्विज / दिज / खग /	地域	दुस्स
shén xìng	chē mén	鳥	dì yù	dussa
द्वन्द	門	niǎo	देस / देस /	佈
dvanda	mén	दिज / खग / द्विज /	地域	bù
一對夫婦	門口	齒	de yù	चोळ / चेल / अम्बर / दुस्स / पट /
yī duì fū fù	mén kǒu	chǐ	देस / देस /	布
द्वन्द / द्वय /	门	द्विज / दसन / दन्त /	我國	bù
一對	mén	齒	wǒ guó	पट / चेल / अम्बर / चोळ / दुस्स /
yī duì	高考	chǐ	जनपद / देस /	布帛菽粟
द्वि / द्वय / द्वन्द /	gāo kǎo	द्विज / दसन / दन्त /	江山	bù bó shū sù
叭	पवेस / मुख / आवेसन / द्वार /	द्विप	jiāng shān	पट / चोळ / दुस्स / अम्बर / चेल /
ba	द्वय / द्वन्द /	dvipa	जनपद / देस /	布料
द्वय / द्वन्द /	द्वय	大象	治國	bù liào
dvaya	一對夫婦	dà xiàng	zhì guó	चेल / दुस्स / चोळ / पट / अंसु /
一對夫婦	yī duì fū fù	कञ्जर / कणेरु / इभ / नाग / करी	देस / जनपद /	अम्बर / चोळक /
yī duì fū fù	द्वन्द / द्वय /	7 गज / द्विप /	鄉村	桌布
一對	一對	象	xiāng cūn	zhuō bù
yī duì	द्वि / द्वय / द्वन्द /	xiàng	देस / जनपद /	चोळ / पट / चेल / अम्बर / दुस्स /
द्वि / द्वय / द्वन्द /	叭	द्विप / करी / इभ / नाग / इव /		衣料
叭	ba	कणेरु / कञ्जर / गज /		yī liào
ba	द्वय / द्वन्द /			अम्बर / दुस्स / पट / चोळ / चेल /
द्वय / द्वन्द /				衣服
				yī fú
				चेल / छादन / दुस्स / निवासन /
				अच्छादन / पट /

दस्सेति	दहर	दानव	दारक	दारिका
dasseti	dahara	dānava	dāraka	dārikā
可知	懂	巨人	懂	丫頭
kě zhī	tóng	jù rén	tóng	yā tóu
दस्सन	दारक / दहर / कुमारक / कुमार /	दारु	दारक / दहर / कुमारक / कुमार /	दारिका / कञ्जा / कुमारी /
dassana	好孩子	dāru	好孩子	कुमारिका / बाला /
洞察力	hǎo hái zi	木	hǎo hái zi	女孩
dòng chá lì	कुमार / कुमारक / दहर / दारक /	mù	कुमार / कुमारक / दहर / दारक /	nǚ hái
ज्ञाण / पञ्जा / दस्सन / निज्झाण /	少年	कुज / तरु / दारु / पादप / दुम /	小孩	बाला / कञ्जा / कञ्जा / बाला /
直覺	shǎo nián	木料	xiǎo hái	कुमारी / दारिका / दारिका / कुमारी /
zhí jué	दहर / कुमारक / दारक / कोमार /	mù liào	पुत्त / दारक / बाल /	कुमारिका / कुमारिका /
直觉	कुमार /	दारु / कड़ु / दब्ब /	少年	女孩
zhí jué	नान हाई	木材	shǎo nián	nǚ hái
看見	कुमार / दहर / कुमारक / दारक /	mù cái	दहर / कुमारक / दारक / कोमार /	बाला / कञ्जा / कञ्जा / बाला /
kàn jiàn	मोमार्क /	कड़ु / दारु / दब्ब /	कुमार /	कुमारी / दारिका / दारिका / कुमारी /
दुस्सन	नान हाई एर	木柴	nián qīng rén	कुमारिका / कुमारिका /
dussana	दारक / कुमारक / दहर / कुमार /	mù chái	कुमार / कुमारक / दारक /	nǚ hái zi
忿怒	मोमार्क /	इन्धन / दारु / एध / इधुम /	मोमार्क /	कञ्जा / कुमारी / बाला / दारिका /
fèn nù	नान हाई जि	मोमार्क /	मोमार्क /	कुमारिका /
कोध / दोस / दुस्सन / कुप्पन /	दारक / कुमारक / कुमार / दहर /	mù tóu	nán hái	नान हाई
अभिसज्जन /	童	दारु / कलिङ्गर /	कुमार / दहर / कुमारक / दारक /	कुमारी / दारिका / कञ्जा /
犯罪	tóng	材	मोमार्क /	कुमारी / बाला /
fàn zuì	दहर / दारक / कुमारक / पुत्त /	cái	nán hái ér	गुमार्क /
अपराध / दुस्सन / किब्बि /	कुमार / बाल /	आमिस / दारु / कड़ु / दब्ब /	दारक / कुमारक / दहर / कुमार /	बाला / दारिका / कुमारिका / बाला /
देह	दुहितु	林木	nán hái zi	कुमारी / दारिका / कञ्जा /
deha	duhitu	लिन मु	दारक / कुमारक / कुमार / दहर /	कुमारिका / कञ्जा / कुमारी /
体	千金	अरञ्ज / दारु /	童	कुमारी /
tǐ	qiān jīn	शु	tóng	गुमार्क /
गत्त / कलेबर / बोन्दि / काय /	धीतु / दुहितु / तनुजा /	शु	दहर / दारक / कुमारक / पुत्त /	बाला / दारिका / कुमारिका / बाला /
देह / करजकाय /	गुमार्क /	तरु / दारु / पादप / दुम / कुज /	कुमार / बाल /	कुमारी / कञ्जा / कुमारी /
身	nǚ ér	सैन लिन	दारुण	कुमारी /
shēn	तनुजा / धीतु / दुहितु /	कड़ु / अरञ्ज / दब्ब / दारु /	dāruṇa	कुमारी /
पाण / काय / करजकाय / जीव /	गुमार्क /		गुमार्क /	कुमारी / बाला / कञ्जा /
गत्त / कलेबर / देह / चरित /	nǚ r		yán	कञ्जा / दारिका / दारिका /
बोन्दि /	तनुजा / अत्रज / दुहितु / धीतु /		गुमार्क /	कुमारी /
身上	गुमार्क /		yán zhòng	कुमारी /
shēn shàng	गुमार्क /		रुमार्क /	कुमारी /
करजकाय / कलेबर / काय / देह /	nǚ hái ér		cán kù	कुमारी /
बोन्दि / गत्त /	दुहितु / तनुजा / धीतु /		रुमार्क /	कुमारी /
身体	गुमार्क /		cán kù	कुमारी /
shēn tǐ	xí		दु	कुमारी /
कलेबर / देह / करजकाय / बोन्दि /	दुहितु / तनुजा / धीतु /		रुमार्क /	कुमारी /
गत्त / काय /	गुमार्क /		रुमार्क /	कुमारी /
身子	nǚ shēng nǚ		cū cǎo de	कुमारी /
shēn zi	धीतु / तनुजा / दुहितु /		कठिन / थूल / निडुर / ओळरिक /	कुमारी /
बोन्दि / काय / कलेबर / गत्त /	देही		दारुण / कक्कस / खळ / गम्म /	कुमारी /
करजकाय / देह /	देही		कक्कळ / खर /	कुमारी /
身體	dehī		कु	कुमारी /
shēn tǐ	शु		kē	कुमारी /
कलेबर / देह / गत्त / करजकाय /	शु		कु	कुमारी /
काय / बोन्दि /	जन्तु / पाणी / देही / पाण /		kē kè	कुमारी /
體	दाडिम		खळ / कक्कस / कक्कळ / दारुण /	कुमारी /
tǐ	dādim			कुमारी /
बोन्दि / देह / काय / गत्त /	दु			कुमारी /
कलेबर / करजकाय /	दाडिम / दाडिम /			कुमारी /
दुहन	शु			कुमारी /
duhana	शु			कुमारी /
擠奶	शु			कुमारी /
jǐ nǎi	दाडिम / दाडिम /			कुमारी /
दान	दान			कुमारी /
dāna	dāna			कुमारी /
慈善	दु			कुमारी /
cí shàn	दु			कुमारी /

दिज	दित्ति
dija	ditti
雀	亮光
què	liàng guāng
खग / दिवज / दिज /	भानु / आभा / अवभास / जोति / पभास / पज्जोत / पभा / भा / आलोक / निभा / दित्ति / पदीप /
鳥	光
niǎo	guāng
दिवज / दिज / खग /	आलोक / दित्ति / भा / पज्जोत / पदीप / पभास / आभा / पभा / जोति / अवभास / भानु / निभा /
鳥	光亮
niǎo	guāng liàng
दिज / खग / दिवज /	पकास / तपन / दोसिना / जुति / दिप्पन / जलन / दित्ति /
दिङ्गि	光線
dītīng	guāng xiàn
信仰	अवभास / पदीप / निभा / पभास / पज्जोत / पभा / भानु / कर / जोति / आलोक / किरण / दित्ति / भा / आभा /
xìn yǎng	對光
दिङ्गि / तित्थ / पसाद / भत्ति / आगम /	duì guāng
信奉	पज्जोत / जोति / भानु / पदीप / पभा / अवभास / आलोक / दित्ति / निभा / भा / पभास / आभा /
xìn fèng	淡
तित्थ / भत्ति / दिङ्गि /	dàn
信念	जोति / निभा / पज्जोत / पभा / भानु / आलोक / भा / अवभास / दित्ति / पभास / पदीप / आभा /
xìn niàn	淡淡
भत्ति / तित्थ / दिङ्गि / पसाद /	dàn dàn
意見	पदीप / जोति / दित्ति / अवभास / आभा / पज्जोत / पभा / पभास / आलोक / भानु / भा / निभा /
yì jiàn	清淡
दिङ्गि / गाह /	qīng dàn
理論	पभास / पज्जोत / पदीप / आलोक / पभा / दित्ति / जोति / भा / निभा / भानु / अवभास / आभा /
lǐ lùn	灯
理论	dēng
lǐ lùn	दित्ति / पदीप / अवभास / पभास / आलोक / पभा / जोति / भा / भानु / पज्जोत / आभा / निभा /
論	燈
lùn	dēng
दिङ्गि / अत्थकथा /	पज्जोत / दित्ति / पभा / जोति / भानु / निभा / भा / पदीप / पभास / आभा / अवभास / आलोक / दीप /
论	燈光
lùn	dēng guāng
	पज्जोत / भानु / आलोक / भा / पभा / अवभास / पभास / आभा / दित्ति / निभा / जोति / पदीप /
	發光
	fā guāng
	भानु / आभा / पभास / पज्जोत / पभा / अवभास / पदीप / जोति / भा / निभा / आलोक / दित्ति /
	輕
	qīng
	दित्ति / पभास / आलोक / पभा / जोति / पदीप / निभा / पज्जोत / भानु / आभा / अवभास / भा /
	輕便
	qīng biàn
	पदीप / आभा / दित्ति / पभास / अवभास / निभा / पभा / आलोक / पज्जोत / भानु / भा / जोति /

輕	qīng
	पज्जोत / निभा / पदीप / पभा / भा / जोति / पभास / अवभास / भानु / दित्ति / आलोक / आभा /
दिन	दिन
dina	全天
	quán tiān
	दिन / अण्ह / दिवस /
	天
	tiān
	अब्भ / दिवस / अण्ह / अघ / नाक / देव / आकास / अम्बर / दिव / दिन / ख / अन्तळिक्ख /
	太陽
	tài yáng
	दिन / भानु / अक्क / दिवस / आदिच्च /
	日
	rì
	दिवस / दिन / अण्ह /
	日子
	rì zi
	दिन / दिवस / अण्ह /
	日日
	rì rì
	दिवस / दिन / अण्ह /
	晷
	zhòu
	अण्ह / दिन / दिवस /
	晝
	zhòu
	अण्ह / दिन / दिवस /
	當日
	dāng rì
	दिवस / दिन / अण्ह /
	白天
	bái tiān
	अण्ह / दिवस / दिन /
	白日
	bái rì
	दिवस / दिन / अण्ह /

दिपद	dipada
	人
	rén
	पोस / दिपद / जन / पुम / पोरिस / पुरिस / पुग्गल / मच्च / जन्तु /
	夫
	fū
	भत्तु / मच्च / दिपद / जन / जन / मच्च / पुरिस / धव / पिय / धव / दिपद / कन्त / पिय / पुम / कन्त / पुरिस / पति / पोस / पति / पुम / पोस / भत्तु /
	夫
	fū
	भत्तु / मच्च / दिपद / जन / जन / मच्च / पुरिस / धव / पिय / धव / दिपद / कन्त / पिय / पुम / कन्त / पुरिस / पति / पोस / पति / पुम / पोस / भत्तु /
	曼
	màn
	मच्च / पुथुल / पुम / पुरिस / पोस / उरु / जन / दिपद /
	男人
	nán rén
	पुरिस / दिपद / पुम / जन / मच्च / पोस /
	男子
	nán zi
	पोस / पुम / पुरिस / दिपद / मच्च / जन /
	男子漢
	nán zi hàn
	पुरिस / दिपद / पोस / जन / पुम / मच्च /
	दिप्पन
	dippana
	光亮
	guāng liàng
	पकास / तपन / दोसिना / जुति / दिप्पन / जलन / दित्ति /
	दिब्ब
	diḅba
	𑖀
	jī
	卜
	bo
	दिब्ब / दिब्ब /
	卜
	bǔ
	दिब्ब / दिब्ब /
	天上
	tiān shàng
	葡
	bó

दिव	diva
	上天
	shàng tiān
	दिव / नाक /
	天
	tiān
	अब्भ / दिवस / अण्ह / अघ / नाक / देव / आकास / अम्बर / दिव / दिन / ख / अन्तळिक्ख /
	天堂
	tiān táng
	दिव / नाक /
	天意
	tiān yì
	नाक / दिव /
	天空
	tiān kōng
	अन्तळिक्ख / अघ / दिव / आकास / अब्भ / नाक / तारा / अनिल / ख / अम्बर / देव / तारका /
	极乐
	jí lè
	दिव / नाक /
	蒼天
	cāng tiān
	नाक / दिव /
	霄
	xiāo
	नाक / दिव /

दिवस
divasa
全天
quán tiān
दिन / अण्ह / दिवस /
天
tiān
अब्भ / दिवस / अण्ह / अघ / नाक / देव / आकास / अम्बर / दिव / दिन / ख / अन्तःल्लिक्ख /
太陽
tài yáng
दिन / भानु / अक्क / दिवस / आदिच्च /
日
rì
दिवस / दिन / अण्ह /
日子
rì zi
दिन / दिवस / अण्ह /
日日
rì rì
दिवस / दिन / अण्ह /
晷
zhòu
अण्ह / दिन / दिवस /
晝
zhòu
अण्ह / दिन / दिवस /
當日
dāng rì
दिवस / दिन / अण्ह /
白天
bái tiān
अण्ह / दिवस / दिन /
白日
bái rì
दिवस / दिन / अण्ह /

दिस
disa
仇人
chóu rén
पच्चनिक / पच्चत्थिक / पटिकण्टक / अभिघाती / अमित्त / पच्चामित्त / दिस / पटिपक्ख / अरि /
敵
dí
अमित्त / अभिघाती / अरि / पच्चत्थिक / पच्चनिक / पटिपक्ख / दिस / पच्चामित्त / पटिकण्टक /
敌人
dí rén
अमित्त / पटिपक्ख / अभिघाती / पटिकण्टक / दिस / अरि / पच्चत्थिक / पच्चनिक / पच्चामित्त /
敵方
dí fāng
पच्चत्थिक / अरि / दिस / पटिकण्टक / पच्चामित्त / अमित्त / पटिपक्ख / अभिघाती / पच्चनिक /
敵軍
dí jūn
पटिपक्ख / दिस / पच्चनिक / पटिकण्टक / पच्चत्थिक / अरि / अमित्त / अभिघाती / पच्चामित्त /

दिसम्पति

disampati
国王
guó wáng
पत्थिव / जनिन्द / इन्द / जनाधिप / देव / दिसम्पति /
皇
huáng

दीघ

dīgha
冗长的
rǒng zhǎng de
多头
duō tóu
悠久
yōu jiǔ
莘
xīn
长
zhǎng
长的
zhǎng de

दीप
dīpa
供養
gōng yǎng
उपकरण / ओलम्ब / पग्गह / ओलम्बक / अपस्सय / निस्सय / अवस्सय / पतिट्ठा / आलम्ब / आधार / पग्गाह / उपत्थम्भ / उपनिस्सय / उपकार / पतिट्ठान / आलम्बन / दीप /
助
zhù
पतिट्ठा / उपकार / अनुग्गणहन / आलम्ब / अनुबल / पटिसरण / उपकरण / दीप / अवलम्बन / अवस्सय /
協助
xié zhù
आलम्ब / अनुबल / अवलम्बन / उपकार / दीप / उपकरण / अवस्सय / अनुग्गणहन / पटिसरण / पतिट्ठा /
壁助
bì zhù
उपकरण / पटिसरण / अवस्सय / उपकार / अनुग्गणहन / दीप / अनुबल / अवलम्बन / आलम्ब / पतिट्ठा /
小島
xiǎo dǎo
島
dǎo
島嶼
dǎo yǔ
島
dǎo
幫
bāng
अनुबल / पतिट्ठा / आलम्ब / अनुग्गणहन / दीप / अवलम्बन / उपकरण / पटिसरण / उपकार / अवस्सय /
幫助
bāng zhù
अनुबल / उपकरण / अनुग्गणहन / दीप / पतिट्ठा / अवलम्बन / पटिसरण / उपकार / अवस्सय / आलम्ब /
幫忙
bāng máng
अवस्सय / दीप / पतिट्ठा / उपकरण / अनुग्गणहन / उपकार / पटिसरण / अनुबल / आलम्ब / अवलम्बन /
幫
bāng
अनुग्गणहन / अवलम्बन / उपकरण / पतिट्ठा / उपकार / अवस्सय / अनुबल / पटिसरण / दीप / आलम्ब /
幫助
bāng zhù
पतिट्ठा / अवलम्बन / अवस्सय / दीप / पटिसरण / उपकार / अनुग्गणहन / अनुबल / उपकरण / आलम्ब /
幫忙
bāng máng
अनुग्गणहन / अवलम्बन / उपकार / अवस्सय / अनुबल / उपकरण / आलम्ब / दीप / पटिसरण / पतिट्ठा /

扶
fú
आलम्ब / पटिसरण / अवस्सय / दीप / अनुग्गणहन / उपकरण / उपकार / पतिट्ठा / अवलम्बन / अनुबल /
扶助
fú zhù
अवस्सय / उपकरण / दीप / अनुग्गणहन / उपकार / अवलम्बन / अनुबल / पटिसरण / आलम्ब / पतिट्ठा /
撐
chēng
आलम्ब / पतिट्ठा / निस्सय / दीप / ओलम्बक / उपनिस्सय / पग्गह / आधार / उपकरण / अवस्सय / आलम्बन / ओलम्ब / पतिट्ठान / उपत्थम्भ / पग्गाह / अपस्सय / उपकार /
撐腰
chēng yāo
पग्गह / निस्सय / उपकार / पग्गाह / आलम्ब / उपनिस्सय / आलम्बन / पतिट्ठान / उपकरण / अवस्सय / अपस्सय / आधार / पतिट्ठा / उपत्थम्भ / ओलम्ब / दीप / ओलम्बक /
撐
chēng
आलम्बन / उपत्थम्भ / अपस्सय / आधार / ओलम्बक / ओलम्ब / पग्गाह / उपनिस्सय / पग्गह / अवस्सय / आलम्ब / उपकरण / दीप / पतिट्ठान / उपकार / पतिट्ठा / निस्सय /
支持
zhī chí
पग्गह / आलम्ब / उपत्थम्भ / पतिट्ठा / उपकार / उपकरण / पग्गाह / पतिट्ठान / अवस्सय / आलम्बन / निस्सय / दीप / उपनिस्सय / ओलम्ब / ओलम्बक / आधार / अपस्सय /
支援
zhī yuán
उपकार / अपस्सय / पतिट्ठा / पग्गह / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पग्गाह / अनुत्ता / पतिट्ठान / उपनिस्सय / अवस्सय / ओलम्ब / आलम्ब / निस्सय / आलम्बन / आधार / उपकरण /
支撐
zhī chēng
उपकरण / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पतिट्ठान / उपनिस्सय / अपस्सय / पग्गाह / आलम्ब / पग्गह / आधार / आलम्बन / पतिट्ठा / ओलम्ब / निस्सय / अवस्सय / उपकार /
救助
jiù zhù
पतिट्ठा / अवस्सय / अनुबल / अवलम्बन / अनुग्गणहन / दीप / आलम्ब / उपकरण / उपकार / पटिसरण /
救命
jiù mìng
अवलम्बन / आलम्ब / पटिसरण / उपकरण / अनुग्गणहन / दीप / अनुबल / उपकार / अवस्सय / पतिट्ठा /
救援
jiù yuán
आलम्ब / पटिसरण / अनुग्गणहन / उपकार / दीप / अवस्सय / अवलम्बन / उपकरण / अनुबल / पतिट्ठा /

有助
yǒu zhù
पटिसरण / अवलम्बन / पतिट्ठा / उपकरण / दीप / अनुबल / उपकार / अवस्सय / अनुग्गणहन / आलम्ब /
洲
zhōu
燈
dēng
पञ्जोत / दित्ति / पभा / जोति / भानु / निभा / भा / पदीप / पभास / आभा / अवभास / आलोक / दीप /
दीपना
dīpanā
解釋
jiě shì
दीपना / परिदीपन / निगमन / निब्बेठन / उद्दीपना / पकास /
解釋
jiě shì
दीपना / निब्बेठन / पकास / परिदीपन / उद्दीपना / निगमन / निदेस /
說明
shuō míng
निब्बेठन / निदान / अट्ठकथा / उद्दीपना / निगमन / पकास / दीपना / परिदीपन /

दीपि

dīpi
美洲豹
měi zhōu bào
दीपिक / दीपि /
豹
bào
दीपि / दीपिक /

दीपिक

dīpika
美洲豹
měi zhōu bào
दीपिक / दीपि /
豹
bào
दीपि / दीपिक /

दोणि

doṇi
小船
xiǎo chuán
दोणिका / नावा / तरणी / दोणि /
小艇
xiǎo tǐng
दोणिका / दोणि / तरणी / नावा /
舟
zhōu
नावा / तरणी / दोणिका / दोणि /
航
háng
नावा / दोणि / तरणी / दोणिका /
船
chuán
दोणि / दोणिका / तरणी / नावा /

दोणिका	दोस	दोसिना	धङ्क	धजिनी
donikā	dosa	dosinā	dhaṅka	dhajinī
小船	忿怒	亮	乌鸦	軍
xiǎo chuán	fèn nù	liàng	wū yā	jūn
दोणिका / नावा / तरणी / दोणि / 小艇	कोध / दोस / दुस्सन / कुप्पन / अभिसज्जन /	光亮	धङ्क / अरिडु / काक /	धजिनी / अनीक / बलकाय / बल / चम् /
xiǎo tǐng	怒	guāng liàng	烏鴉	军队
दोणिका / दोणि / तरणी / नावा / 舟	nù	पकास / तपन / दोसिना / जुति / दिप्पन / जलन / दित्ति /	wū yā	jūn duì
zhōu	दोस / कोध / पकोप /	光明	काक / धङ्क / अरिडु /	बलकाय / बल / अनीक / धजिनी / चम् /
नावा / तरणी / दोणिका / दोणि / 航	怒火	guāng míng	鴉	大群
háng	nù huǒ	तपन / दोसिना /	yā	dà qún
नावा / दोणि / तरणी / दोणिका / 船	कोध / दोस / पकोप /	布赖特	अरिडु / धङ्क / काक /	चम् / अनीक / धजिनी / बलकाय / बल /
chuán	佛	bù lài tè	yā	大軍
दोणि / दोणिका / तरणी / नावा /	fú	明	धङ्क / अरिडु / काक /	dà jūn
दोमनस्स	愆	míng	धज	बलकाय / चम् / बल / अनीक / धजिनी /
domanassa	愤	दोसिना / अन्तरिक / अनन्तर /	dhaja	軍隊
不愉快	fèn	明亮	帜	jūn duì
bù yú kuài	fèn	míng liàng	zhì	बलकाय / धजिनी / चम् / बल / अनीक /
दोमनस्स / अप्पिय /	fèn nù	तपन / दोसिना /	धज / पताका / केतु /	部隊
憂	愤怒	明媚	幡	bù duì
yōu	fèn nù	míng mèi	fān	चम् / धजिनी / अनीक / बलकाय / बल /
कुक्कुच्च / दोमनस्स /	दोस / कोध / पकोप /	昶	पताका / केतु / धज /	陸軍
	憤怒	chǎng	徽	lù jūn
	fèn nù	景	huī	धजिनी / चम् / अनीक / बलकाय / बल /
	कोध / दोस / पकोप /	jǐng	旂	धुत्त
	毛病	दोसिना / उपलद्धि /	qí	dhutta
	máo bìng	月光照耀的	केतु / धज / पताका /	惡棍
	瑕	yuè guāng zhào yào de	旌	è gùn
	xiá	朗	jīng	धुत्त / धुत्तक /
	眚	lǎng	धज / केतु / पताका /	धुत्तक
	shěng	炯	旗	dhuttaka
	破綻	jiǒng	qí	惡棍
	pò zhàn	炳	पताका / धज / केतु /	è gùn
	缺点	bǐng	旗子	धुत्त / धुत्तक /
	quē diǎn	熹	qí zi	धन
	缺陷	xī	धज / केतु / पताका /	dhana
	quē xiàn	爽	旗帜	地產
	缺點	shuǎng	qí zhì	dì chǎn
	quē diǎn	璀璨	केतु / धज / पताका /	屬性
	पदोस / आदीनव / कलङ्क / छिद्द / दोस /	cuǐ càn	符	shǔ xìng
	腐敗	bái	fú	所有权
	fǔ bài	ओदात / अवदात / धवल / दोसिना /	fú hào	suǒ yǒu quán
	दोस / दूसन /	皎	象征	भोग / आयत्त / धन /
	責備	jiǎo	xiàng zhēng	有道
	zé bèi	皓	象徵	yǒu dào
	अपवाद / निग्गहण / अतिवाक्य / गरहन / दोस / उपक्कोस / उपवाद / अवण्ण / ओमसना / अक्कोस / निग्गह / अनुवाद /	hào	xiàng zhǐ	इस्सरिय / भोग / दब्ब / धन / अत्थ /
	蹉	दोसिना / धवल / ओदात / अवदात /		財富
	cuō	粲		cái fù
	過失	càn		अत्थ / भग / दब्ब / भाग्य / इस्सरिय / धन / भोग /
	guò shī	翌		財產
	खलित / निग्गह / अज्जाचार / दोस / अपाय / छिद्द / ओतार /	yì		cái chǎn
		अन्तरिक / दोसिना / अनन्तर /		財富
		耿		cái fù
		gěng		इस्सरिय / अत्थ / धन / भग / भोग / दब्ब /
		鏗		
		juān		

धनु	धनित	धूम	धम्म	धम्मता
dhanu	dhanita	dhūma	dhamma	dhammatā
弓	作響	冒煙	事實	大自然
gōng	zuò xiǎng	mào yān	shì shí	dà zì rán
धनु / इस्सास / चाप / कोण / 船首	गद / धनित / निन्नाद / घोस / 健全	吸煙	तच्छ / अविसंवाद / धम्म / तथ / 品德	धम्मता / भाव / धम्म / पकति / 天性
chuán shǒu	jiàn quán	xī yān	pǐn dé	tiān xìng
धनु / चाप / कोण / इस्सास / 躬	गद / धनित / घोस / निन्नाद / 嘴	火	大自然	धम्मता / भाव / पकति / धम्म / 性情
gōng	hāo	huǒ	dà zì rán	xìng qíng
इस्सास / धनु / कोण / चाप / 鞠躬	घोस / धनित / गद / निन्नाद / 声	जोति / अग्नि / पावक / गिनि / धूम / अच्चि / अनल / 烟	धम्मता / भाव / धम्म / पकति / 天性	अधिमुत्ति / धम्म / पकति / धम्मता / भाव / 性質
jū gōng	shēng	yān	tiān xìng	xìng zhì
चाप / इस्सास / धनु / कोण / पणाम /	धनित / निन्नाद / घोस / गद / 声音	煙	धम्मता / भाव / पकति / धम्म / 德	भाव / धम्म / धम्मता / पकति / 性質
धेनु	shēng yīn	yān wù	dé	xìng zhì
dhenu	shēng yīn	yān wù	德性	xìng zhì
母牛	गद / धनित / निन्नाद / घोस / 有聲	熏	dé xìng	धम्मता / धम्म / भाव / पकति / 本性
mǔ niú	yǒu shēng	xūn	xìng qíng	běn xìng
धेनु / गावी / 牛	घोस / गद / धनित / निन्नाद / 聲	गन्ध / धूम / 燻	अधिमुत्ति / धम्म / पकति / धम्मता / भाव / 性格	भाव / धम्म / पकति / धम्मता / 本質
niú	shēng	xūn	xìng gé	běn zhì
गावो / गो / धेनु / गावी / 牯	निन्नाद / गद / घोस / धनित / 聲音	菸	धम्म / भाव / पकति / 性質	धम्म / धम्मता / भाव / पकति / 本质
gǔ	shēng yīn	yān	xìng zhì	běn zhì
गावी / धेनु /	निन्नाद / गद / घोस / धनित / 聲響	धमक	भाव / धम्म / धम्मता / पकति / 性質	धम्मता / धम्म / पकति / भाव / 自然
	shēng xiǎng	dhamaka	xìng zhì	zì rán
	घोस / धनित / निन्नाद / गद / 聽起來	演奏者	भाव / धम्म / धम्मता / पकति / 性質	भाव / पकति / धम्मता / पाकतिक / धम्म / 自然界
	tīng qǐ lái	yǎn zòu zhě	xìng zhì	zì rán jiè
	निन्नाद / धनित / घोस / गद / 音	धमक / धम /	धम्मता / धम्म / भाव / पकति / 本性	धम्मता / पकति / धम्म / भाव /
	yīn	धमनि	běn xìng	
	गद / घोस / धनित / निन्नाद / 音效	dhamani	भाव / धम्म / पकति / धम्मता / 本質	
	yīn xiào	叶脉	běn zhì	
	गद / धनित / निन्नाद / घोस / 音響	yè mài	धम्म / धम्मता / भाव / पकति / 本质	
	yīn xiǎng	血管	běn zhì	
	धनित / गद / निन्नाद / घोस / 響聲	xuè guǎn	धम्मता / धम्म / पकति / भाव / 法	
	xiǎng shēng	静脉	fǎ	
	घोस / गद / निन्नाद / धनित / 鳴	jìng mài	धम्म / नीति / 自然	
	míng	jìng mài	zì rán	
	घोस / निन्नाद / धनित / गद / 鸣		भाव / पकति / धम्मता / पाकतिक / धम्म / 自然界	
	míng		zì rán jiè	
	गद / घोस / निन्नाद / धनित /		धम्मता / पकति / धम्म / भाव / 道德	
	धम		dào dé	
	dhama			
	演奏者			
	yǎn zòu zhě			
	धमक / धम /			

धुर	धरणी	泥土	धुव	धातु
dhura	dharanī	ní tǔ	dhuva	dhātu
任	土	धरणी / पृथुवी / पंसु / जगति / भू / छमा / भूमि /	常任	元素
rèn	tǔ	धूलि	cháng rèn	yuán sù
पद / अधिकार / धुर / ठान /	धरणी / जगति / छमा / भूमि / पंसु / भू / पृथुवी /	dhūli	常设的	因素
任職	土壤	空	cháng shè de	yīn sù
rèn zhí	tǔ rǎng	bèn	恒	पद / निमित्त / ठान / निदान / कारण / धातु / उपनिषा /
धुर / ठान / अधिकार /	भू / पृथुवी / छमा / पंसु / धरणी / भूमि / जगति /	पंसु / धूलि /	héng	成份
前部	地	埃	永久	chéng fèn
qián bù	dì	āi	yǒng jiǔ	成分
धुर / पमुख / अभिमुख / मुख /	पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छमा / केदार / भू / थल / भूमि /	पंसु / धूलि /	धुव / अच्चन्त /	chéng fēn
处	पद / पद / केदार / थल / पृथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छमा / पृथुवी / जगति / जगति /	塵	永久的	अङ्ग / धातु /
chù	地	chén	yǒng jiǔ de	要素
अधिकार / ठान / धुर / धुर /	地	पंसु / धूलि /	धुव / अच्चन्त /	yào sù
अधिकार / ठान /	di	chén	धवल	धातु / अवयव /
处	पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छमा / केदार / भू / थल / भूमि /	पंसु / धूलि /	dhavala	धाती
chǔ	पद / पद / केदार / थल / पृथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छमा / पृथुवी / जगति / जगति /	沙塵	白	dhāti
अधिकार / ठान / धुर / धुर /	地球	shā chén	bái	护士
अधिकार / ठान /	di qiú	धूलि / पंसु /	ओदात / अवदात / धवल / दोसिना /	hù shì
接近的	地球	灰塵	白的	धाती / उपद्दाक / आपादिका / पोसिका /
jiē jìn de	di qiú	huī chén	bái de	護士
उपनायिक / निकट / निकट्ट /	पृथुवी / पृथुवी / गुळ / गुळ / भूमि / छमा / छमा / भूमि / भू / धरणी / भू / जगति / जगति / धरणी /	धूलि / पंसु /	ओदात / अवदात / धवल /	hù shì
आगमन / धुर / आसन्न / उपकट्ट / अविदूर /	地球	灰尘	白暫	पोसिका / धाती / आपादिका / उपद्दाक /
最初の	de qiú	huī chén	bái xǐ	護理
zuì chū de	पृथुवी / पृथुवी / गुळ / गुळ / भूमि / छमा / छमा / भूमि / भू / धरणी / भू / जगति / जगति / धरणी /	धूलि / पंसु /	अवदात / ओदात / धवल /	hù lǐ
आवत्यिक / आदि / जेड्ड / धुर /	地球	धव	白粉	धाती / उपद्दाक / आपादिका / पोसिका /
मुख्य / पधान / मुख / पाकातिक / पठम /	de qiú	dhava	bái fěn	धारेतु
最前部	पृथुवी / पृथुवी / गुळ / गुळ / भूमि / छमा / छमा / भूमि / भू / धरणी / भू / जगति / जगति / धरणी /	丈夫	धवल / अवदात / ओदात /	dhāretu
zuì qián bù	地线	zhàng fu	白紙	dhāretu
职	dì xiàn	भत्तु / पिय / धव / धव / पति / पिय / भत्तु / पति / कन्त /	bái zhǐ	所有权人
zhí	पृथुवी / धरणी / छमा / भूमि / जगति / भू /	कन्त /	ओदात / धवल / अवदात /	suǒ yǒu quán rén
धुर / अधिकार / ठान /	地面	丈夫	白色	所有者
職	di miàn	zhàng fū	bái sè	suǒ yǒu zhě
zhí	भूमि / पृथुवी / भू / भू / धरणी / भूमि / छमा / जगति / पृथुवी / थल / धरणी / थल / जगति / छमा /	भत्तु / पिय / धव / धव / पति / पिय / भत्तु / पति / कन्त /	अवदात / ओदात / धवल /	धारेतु / पति / इस्सर /
पद / ठान / अधिकार / धुर /	地面	伉	白色的	持有人
處	de miàn	kàng	bái sè de	chí yǒu rén
chù	भूमि / पृथुवी / भू / भू / धरणी / भूमि / छमा / जगति / पृथुवी / थल / धरणी / थल / जगति / छमा /	कन्ता / कन्त / भरिया / भत्तु / धव / कलत्त / पिय / पिया / जाया / पति / जानि /	ओदात / धवल / अवदात /	धावन
अधिकार / ठान / धुर /	地面	外子	白衣	dhāvana
費用	de miàn	wài zi	bái yī	奔跑
fèi yòng	भूमि / पृथुवी / भू / भू / धरणी / भूमि / छमा / जगति / पृथुवी / थल / धरणी / थल / जगति / छमा /	कन्त / धव / पति / पिय / भत्तु /	ओदात / धवल / अवदात /	bēn pǎo
धुर / भति / परिब्बय /	大地	夫	皓	धावन / जवन /
辦公	dà dì	fū	hào	
bàn gōng	धरणी / धरणी / पृथुवी / छमा / पृथुवी / जगति / भू / छमा / भू / भूमि / जगति / भूमि /	भत्तु / मच्च / दिपद / जन / जन / मच्च / परिस / धव / पिय / धव / दिपद / कन्त / पिय / पुम /	दोसिना / धवल / ओदात / अवदात /	
bàn gōng shì	大地	कन्त / परिस / पति / पोस / पति / पुम / पोस / भत्तु /	暫	
अधिकार / ठान / धुर /	dà de	夫	xǐ	
	धरणी / धरणी / पृथुवी / छमा / पृथुवी / जगति / भू / छमा / भू / भूमि / जगति / भूमि /	夫	अवदात / धवल / ओदात /	
	接地	fu	皓	
	jiē de	भत्तु / मच्च / दिपद / जन / जन / मच्च / परिस / धव / पिय / धव / दिपद / कन्त / पिय / पुम /	hào	
	जगति / भूमि / थल / थल / धरणी / छमा / धरणी / भू / छमा / भूमि / जगति / भू / पृथुवी / पृथुवी /	कन्त / परिस / पति / पोस / पति / पुम / पोस / भत्तु /	धवल / अवदात / ओदात /	
	接地	婿	皤	
	jiē dì	xù	pó	
	जगति / भूमि / थल / थल / धरणी / छमा / धरणी / भू / छमा / भूमि / जगति / भू / पृथुवी / पृथुवी /	पति / कन्त / धव / पिय / भत्तु /	ओदात / धवल / अवदात /	
		老公		
		lǎo gōng		
		धव / पति / कन्त / पिय / भत्तु /		

धिति	धीतलिका	न	नक्खत्त	नख
dhiti	dhīṭalikā	na	nakkhatta	nakha
决心	娃娃	不	五星	指甲
jué xīn	wá wá	bù	wǔ xīng	zhǐ jiǎ
अधिमोक्ख / धिति / अधिद्वान / पणिधान /	洋娃娃	不了	जोति / तारका / तारा / उळ / नक्खत्त /	नख / कर /
勇气	yáng wá wá	bù le	加上星号	指甲剪
yǒng qì	玩偶	不去	jiā shàng xīng hào	zhǐ jiǎ jiǎn
勇氣	wán ǒu	bù qù	उळ / नक्खत्त / तारा / तारका / जोति /	爪
yǒng qì		不可以	恆星	zhuǎ
有勇氣		bù kě yǐ	héng xīng	नख / नख /
yǒu yǒng qì		不是	जोति / नक्खत्त / तारा / उळ / तारका /	爪
活力		bù shì	明星	zhǎo
huó lì		不需要	míng xīng	नख / नख /
उस्सुक्क / पग्गह / उद्वान / धिति / पग्गाह / थाम /		bù xū yào	जोति / तारका / नक्खत्त / उळ / तारा /	釘
精力		bù fēi	星	dīng
jīng lì		可不是	xīng	釘子
धिति / उद्वान / बल / पग्गाह / पग्गह / उस्सुक्क /		kě bù shì	तारका / तारा / जोति / उळ / नक्खत्त /	dīng zi
胆量		否	星座	釘
dǎn liàng		fǒu	xīng zuò	dīng
能源		否定	उळ / नक्खत्त /	नग
néng yuán		fǒu dìng	星星	naga
पग्गाह / धिति / उद्वान / उस्सुक्क / पग्गह /		न / पटिक्खेप /	xīng xīng	山
能量		弗	तारा / उळ / तारका / नक्खत्त / जोति /	shān
néng liàng		fú	星辰	नग / पब्बत / गिरि / अदि /
उस्सुक्क / पग्गह / धिति / पग्गह / उद्वान /		拒绝	xīng chén	山地
膽子		jù jué	उळ / तारका / जोति / तारा / नक्खत्त /	shān dì
dǎn zi		无	नेकतिक	अदि / पब्बत / पब्बत / अदि / गिरि / नग / गिरि / नग /
膽量		wú	nekatika	山地
dǎn liàng		未	作假	shān de
高能		wèi	zuò jiǎ	अदि / पब्बत / पब्बत / अदि / गिरि / नग / गिरि / नग /
gāo néng		毋	कुहक / नेकतिक / कुह / कितव / 作弊	山路
उद्वान / उस्सुक्क / पग्गह / पग्गाह / धिति /		wú	zuò bì	shān lù
धीतु		沒	कितव / कुहक / कुह / नेकतिक / 欺詐	नग / पब्बत / अदि / गिरि /
dhītu		méi	qī zhà	岳
千金		méi yǒu	कितव / कुहक / कुह / नेकतिक / 欺騙	yuè
qiān jīn		沒法	qī piàn	नग / अदि / गिरि / पब्बत /
धीतु / दुहितु / तनुजा /		méi fǎ	कोहअ / निकति / कितव / केराटिय / कुहना / कुहक / कुह / उपलापन / कूट / नेकतिक / 欺騙	嶽
女儿		méi	qī piàn	yuè
nǚ ér		沒有	नेकतिक / कुहक / कितव / कुह / 騙	गिरि / नग / पब्बत / अदि /
तनुजा / धीतु / दुहितु /		méi yǒu de	piàn	नगिय
女兒		無	नेकतिक / कुह / कितव / कुहक / 騙	naggiya
nǚ r		wú	piàn	裸露
तनुजा / अत्रज / दुहितु / धीतु /		無需	नेकतिक / कुह / कुहक / कितव /	luǒ lù
女婿		wú xū	piàn	
nǚ xù		還不	नेकतिक / कुह / कुहक / कितव /	
तनुज / तनुज / तनय / तात / पुत्त / अत्रज / तनय / धीतु / अत्रज / अत्तज / पुत्त / अत्तज /		都不		
女孩儿		都不		
nǚ hái ér		都不		
दुहितु / तनुजा / धीतु /		dōu bù		
媳				
xí				
दुहितु / तनुजा / धीतु /				
獨生女				
dú shēng nǚ				
धीतु / तनुजा / दुहितु /				

नगर	नङ्गुड	नेतु	नदी	नून
nagara	naṅguṭṭha	netu	nadī	nūna
城	尾	水道	川	一定
chéng	wěi	shuǐ dào	chuān	yī dìng
城區	नङ्गुड / पुच्छ /	眼睛	गङ्गा / आपगा / नदी /	अद्दा / अञ्जदत्थु / नून /
chéng qū	尾巴	yǎn jīng	水系	定然
城堡	wěi ba	चक्खु / अक्खि / नेतु / अक्खि /	shuǐ xì	dìng rán
chéng bǎo	पुच्छ / नङ्गुड / पुच्छ / नङ्गुड /	चक्खु / नयन / नयन / नेतु /	गङ्गा / नदी / आपगा /	अद्दा / नून /
नगर / उद्दाप / दुग्ग /	尾巴	眼睛	江	实在
城市	wěi bā	yǎn jīng	jiāng	shí zài
chéng shì	पुच्छ / नङ्गुड / पुच्छ / नङ्गुड /	चक्खु / अक्खि / नेतु / अक्खि /	आपगा / गङ्गा / नदी /	नून / अद्दा / किर / खो / खलु /
城裡	尾部	चक्खु / नयन / नयन / नेतु /	河	實際上
chéng lǐ	wěi bù	瞳孔	hé	shí jì shàng
城鎮	पुच्छ / नङ्गुड /	tóng kǒng	गङ्गा / आपगा / नदी /	खो / अद्दा / खलु / नून /
chéng zhèn	町梢	नेतु / अक्खि /	河川	当然
城镇	dīng shāo	領袖	hé chuān	dāng rán
chéng zhèn	पुच्छ / नङ्गुड /	lǐng xiù	नदी / आपगा / गङ्गा /	अद्दा / नून /
小鎮	नङ्गल	नायक / निध्यातु / पामोक्ख /	河水	当然可以
xiǎo zhèn	naṅgala	पधान / नेतु /	hé shuǐ	dāng rán kě yǐ
市	犁	नूतन	गङ्गा / नदी / आपगा /	नून / अद्दा /
shì	lí	nūтана	河流	必定
आपण / नगर /	耒	新	hé liú	bì dìng
市府	耒	xīn	गङ्गा / नदी / आपगा /	नून / अद्दा /
shì fǔ	耕	अहत / अभिनव / नव / नूतन /	河裡	果然
市立	耜	अचिर /	hé li	guǒ rán
shì lì	耜	新的	आपगा / गङ्गा / नदी /	किर / खलु / खो / अद्दा / नून /
要塞	si	xīn de	ननु	果真
yào sài	नच्च	अभिनव / अहत / अचिर / नूतन /	nanu	guǒ zhēn
कोट्टक / कोट्टक / बल / नगर /	nacca	नव /	當然	अद्दा / किर / नून / खलु / खो /
要塞	游戏	新鮮	dāng rán	當然
yào sāi	yóu xì	xīn xiān	ननु / एकन्त / खो / खलु / नून /	dāng rán
कोट्टक / कोट्टक / बल / नगर /	खिड्डा / नच्च /	नव / अभिनव / अहत / नूतन /	अद्दा /	ननु / एकन्त / खो / खलु / नून /
進城	舞蹈	अहत /	的確	的確
jìn chéng	wǔ dǎo	鮮	de què	खो / खलु / अद्दा / नून /
都市	表演	xiān	真的	zhēn de
dōu shì	biǎo yǎn	अभिनव / अहत / नूतन / नव /	खो / किर / खलु / अद्दा / नून /	确
नगर / ठानीय /	नच्चक	नति	què	नून / खो / खलु / अद्दा /
都會	naccaka	nati	確	確
dōu huì	扮演者	傾向	què	què
鎮	bàn yǎn zhě	qīng xiàng	खलु / नून / अद्दा / खो /	確實
zhèn	नच्चक / नच्चक /	निन्नता / आसय / अभिनिवेस /	確實	què shí
鎮	扮演者	पाताल / पसङ्ग / अनुसय /	què shí	नून / खलु / खो / अद्दा /
zhèn	ban yǎn zhě	पब्भार / अधिमुत्ति / नति /		
镇	नच्चक / नच्चक /			
zhèn	演員			
	yǎn yuán			
	演員			
	yǎn yuán			
	舞者			
	wǔ zhě			

नन्दि	नब्बापन	नमस्सन	नय	नयन
nandi	nabbāpana	namassana	naya	nayana
喜悅	冷却	供奉	打算	攜帶
xǐ yuè	lěng què	gòng fèng	dǎ suàn	xié dài
पीति / नन्दि / तुस्सना / पमोद / तुड्ढि / पामोज्ज / पामुज्ज / आनन्द / पीणन /	नब्बापन / निब्बान /	अपचायन / आहुति / आहुण / नमस्सन / जुहने / पूजा /	方式	目
喜悅	冷却	尊敬	fāng shì	mù
xǐ yuè	lěng què	zūn jìng	कम / नीहार / नय / उपक्कम / पकार /	चक्खु / नयन / अक्खि / पकार /
तुड्ढि / नन्दि / आनन्द / पामुज्ज / पमोद / पीति / पामोज्ज / तुस्सना /	निब्बान / नब्बापन /	अचचना / चित्तीकार / नमक्कार / पच्चुड्ढान / पूजा / नमस्सन / पुरेक्खार / गारव / पटिपूजना / अपचायन /	方案	眸
樂趣	消失	崇	fāng àn	móu
lè qù	xiāo shī	chóng	方法	चक्खु / नयन / अक्खि /
आराम / पमोद / तुड्ढि / काम / नन्दि / आनन्द /	अन्तरधायन / अदस्सन / नब्बापन / चुति / अभाव / अन्तरधान / अपगम /	नमस्सन / अपचायन / तुङ्ग / उच्च / अब्भुन्नत /	fāng fǎ	眼
欢乐	नमक्कार	崇拜	नय / उपाय / पथ / पकार / नीहार / उपक्कम / उपनिसा / जाय / कम / मग्ग /	yǎn
huān lè	namakkāra	chóng bài	模式	नयन / अक्खि / चक्खु /
आराम / आनन्द / पमोद / तुड्ढि / पामोज्ज / काम / पामुज्ज / नन्दि / पीति /	尊敬	पणिपात / अपचायन / पणाम / आहुण / नमस्सन /	mó shì	眼珠
欢喜	zūn jìng	崇敬	जाय / कम / पकार / नय /	yǎn zhū
huān xǐ	अचचना / चित्तीकार / नमक्कार / पच्चुड्ढान / पूजा / नमस्सन / पुरेक्खार / गारव / पटिपूजना / अपचायन /	chóng jìng	策	नयन / चक्खु / अक्खि /
पमोद / आराम / तुड्ढि / काम / नन्दि / आनन्द /	नमुचि	अपचायन / पटिपूजना / पच्चुड्ढान / गारव / अचचना / नमस्सन / चित्तीकार /	cè	眼病
歡喜	namuci	拜	策劃	yǎn bìng
huān xǐ	死	bài	cè huà	नयन / अक्खि / चक्खु /
अभिनन्दन / पमोद / तुस्सना / आनन्द / पामुज्ज / पीति / नन्दि / तुड्ढि / पामोज्ज /	सँ	अपचायन / नमस्सन /	舉止	眼睛
歡樂	sǐ	敬神	jǔ zhǐ	yǎn jīng
huan lè	चवन / नमुचि / पेत / नास / कालकिरिया / मच्चु / कालइक्त / अन्तक /	jìng shén	पकार / नय / कम / आकप्प / इरिया / नीहार / इरियना / उब्बहन /	चक्खु / अक्खि / नेतु / अक्खि / चक्खु / नयन / नयन / नेतु /
पमोद / आनन्द / कीळना / तुड्ढि / पामोज्ज / पीति / नन्दि / केळी / तुस्सना / पामुज्ज /	死亡	नमस्सन / अपचायन /	計劃	眼睛
渴望	sǐ wáng	祭拜	jì huà	yǎn jīng
kě wàng	चवन / नास / कालकिरिया / मच्चु / अन्तक / नमुचि /	jì bài	पकप्पना / नय /	चक्खु / अक्खि / नेतु / अक्खि / चक्खु / नयन / नयन / नेतु /
कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकइखन / जालिनी / अपेक्खन / आसा / एजा / इच्छा / तण्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकइखत / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /	死地	नमस्सन / अपचायन /	計畫	睛
渴求	sǐ de	禮拜	jì huà	jīng
kě qiú	नास / कालकिरिया / मच्चु / मच्चु / नमुचि / अन्तक / चवन / चवन /	lǐ bài	计划	नयन / अक्खि / अक्खि / चक्खु / नयन / चक्खु /
तण्हा / एजा / तसिना / नन्दि / अभिगिज्झन / जालिनी /	死神	नमस्सन / अपचायन /	jì huà	睛
禱	sǐ shén	至死	順序	jīng
xǐ	कालकिरिया / चवन / अन्तक / नास / नमुचि / मच्चु /	zhì sǐ	shùn xù	नयन / अक्खि / अक्खि / चक्खु / नयन / चक्खु /
पीति / पामुज्ज / नन्दि / पामोज्ज / नन्दि / पमोद / पमोद / तुस्सना / तुड्ढि / आनन्द /	身亡	kaalikiriyā / namuci / anntak / chavan / chavan /	पकार / अनुक्कम / नय / जाय / कम / परियाय /	नयन
禱	shēn wáng	kaalikiriyā / chavan / anntak / naas / namuci / mच्चु /		नयन
xǐ	कालकिरिया / मच्चु / नास / अन्तक / नमुचि / चवन /			नयन
पीति / पामुज्ज / नन्दि / पामोज्ज / नन्दि / पमोद / पमोद / तुस्सना / तुड्ढि / आनन्द /				नयन

नेपुञ्ज

nepuñña

技術

jì shù

नेपुञ्ज / चातुरिय /

नय्हु

natthu

嗅到

xiù dào

घाण / नय्ह / नासिका / नासा /

嗅覺

xiù jué

घाण / नय्ह / नासा / नासिका /

鼻

bí

नासा / नय्ह / घाण / नासिका /

鼻子

bí zi

नय्ह / नासा / नासिका / घाण /

नळ	नेवासिक	नहान	न्हारु	नाटिका
naḷa	nevāsika	nahāna	nhāru	nāṭikā
管	同住者	沐浴	筋肉	舞女
guǎn	tóng zhù zhě	mù yù	jīn ròu	wǔ nǚ
आयतिका / नाळ / नाळिका / नळ / पनाळिका /	居住者	नहान / न्हान /	न्हारु / नहारु /	नाथ
管子	jū zhù zhě	洗浴	肌肉	nātha
guǎn zi	居民	xǐ yù	jī ròu	保护
नाळ / पनाळिका / नळ / नाळिका / आयतिका /	jū mín	न्हान / नहान /	न्हारु / नहारु /	bǎo hù
芦	駐	洗澡	肌腱	अनुपालन / तायन / पटिसरण / आरक्खा / निस्सय / अनुरक्खा / परिहार / गोपन / अनुरक्खन / गुत्ति / नाथ / अभिरक्खन / ताण / पालन /
lú	zhù	xǐ zǎo	jī jiàn	保護
芦苇	नस्सन	न्हान / नहान /	न्हारु / नहारु /	bǎo hù
lú wěi	nassana	浴	腱	तायन / गोपन / गुत्ति / परिहार / अनुरक्खा / अनुरक्खन / पटिसरण / नाथ / अभिरक्खन / आरक्खा / अनुपालक / पालन / अनुपालन / निस्सय / ताण /
苇	损失	yù	jiàn	保護
wěi	sǔn shī	नहान / न्हान /	न्हारु / नहारु /	bǎo hù
茅草	नस्सन / परिहानि / अलाभ / अपाय / जानि /	游泳	腱子	तायन / गोपन / गुत्ति / परिहार / अनुरक्खा / अनुरक्खन / पटिसरण / नाथ / अभिरक्खन / आरक्खा / अनुपालक / पालन / अनुपालन / निस्सय / ताण /
máo cǎo	損失	yóu yǒng	jiàn zi	
葭	sǔn shī	नहान / न्हान /	न्हारु / नहारु /	नाक
jiā	अलाभ / नस्सन / अपाय / जानि / परिहानि /	澡	nāka	nāka
蒹	破壞	zǎo	上天	不同地
jiān	pò huài	नहान / न्हान /	shàng tiān	bù tóng dì
蘆葦	अत्थ / घात / नास / उपच्छेद / भञ्जन / अपचिनन / निग्घातन / पीळन / नासन / खय / नस्सन /	नहान / न्हान /	दिव / नाक /	पुथुसो / नाना /
lú wěi	茫然	nhāna	天	不同的
नव	máng rán	沐浴	tiān	bù tóng de
nava	परिहानि / अपाय / जानि / नस्सन / अलाभ /	mù yù	अब्भ / दिवस / अण्ह / अघ / नाक / देव / आकास / अम्बर / दिव / दिन / ख / अन्तळिक्ख /	
九	败	xǐ yù	天堂	
jiǔ	bài	न्हान / नहान /	tiān táng	
九個	अलाभ / नस्सन / परिहानि / अपाय / जानि /	洗浴	दिव / नाक /	
jiǔ gè	नेसाद	xǐ zǎo	天意	
新	nesāda	न्हान / नहान /	tiān yì	
xīn	獵人	浴	नाक / दिव /	
अहत / अभिनव / नव / नूतन / अचिर /	liè rén	yù	天空	
新的	獵人	नहान / न्हान /	tiān kōng	
xīn de	liè rén	游泳	अन्तळिक्ख / अघ / दिव / आकास / अब्भ / नाक / तारा / अनिल / ख / अम्बर / देव / तारका /	
अभिनव / अहत / अचिर / नूतन / नव /	नहुत	yóu yǒng	极乐	
新鮮	nahuta	नहान / न्हान /	jí lè	
xīn xiān	一萬	澡	दिव / नाक /	
नव / अभिनव / अहत / नूतन /	yī wàn	zǎo	蒼天	
耗	wàn	नहान / न्हान /	cāng tiān	
hào	wàn	नहारु	नाक / दिव /	
नव / अचिर / अभिनव / नूतन / अहत /	萬	nahāru	霽	
鮮	wàn	筋肉	xiāo	
xiān	萬	jīn ròu	नाक / दिव /	
अभिनव / अहत / नूतन / नव /	नवुत्ति	न्हारु / नहारु /	नाग	
नवुत्ति	navuti	肌肉	nāga	
navuti	九十	jī ròu	大象	
九十	jiǔ shí	न्हारु / नहारु /	dà xiàng	
jiǔ shí	नवम	腱	कञ्जर / कणेरु / इभ / नाग / करी / गज / दिवप /	
नवम	navama	jiàn	象	
navama	第九	न्हारु / नहारु /	xiàng	
第九	dì jiǔ	肌腱	दिवप / करी / इभ / नाग / इव / कणेरु / कञ्जर / गज /	
dì jiǔ		jī jiàn	नागर	
		नहारु / नहारु /	nāgara	
		腱子	公民	
		jiàn zi	gōng mǐn	
		न्हारु / नहारु /	市民	
			shì mǐn	

नाम	नारी
nāma	nānā
任命	女
rèn mìng	nǚ
अव्हय / अभिधान / आख्या / नाम / अव्हान /	थी / कन्ता / अङ्गना / नारी / इत्थि / इत्थि /
取名	女人
qǔ míng	nǚ rén
अव्हय / नाम / अभिधान / आख्या / अव्हान /	जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अङ्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना /
名	女人
míng	nǚ rén
अव्हान / अभिधान / नाम / आख्या / अव्हय /	नारी
名义	nǚ rén
míng yì	जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अङ्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना /
आख्या / नाम / अव्हान / अभिधान / अव्हय /	नारी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना / अङ्गना / नारी / थी / कन्ता / कन्ता / थी /
名字	女子
míng zì	nǚ zǐ
अव्हान / अव्हय / अभिधान / नाम / आख्या /	नारी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना / अङ्गना / नारी / थी / कन्ता / कन्ता / थी /
名称	女子
míng chēng	nǚ zǐ
अव्हान / अव्हय / आख्या / नाम / अभिधान /	नारी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना / अङ्गना / नारी / थी / कन्ता / कन्ता / थी /
名稱	女子的
míng chēng	nǚ de
अव्हय / नाम / अव्हान / अभिधान / आख्या /	थी / कन्ता / अङ्गना / इत्थि / नारी / इत्थि /
名義	婦
míng yì	fù
आख्या / नाम / अव्हय / अव्हान / अभिधान /	थी / नारी / कन्ता / इत्थि / अङ्गना /
名詞	妇人
míng cí	fù rén
अव्हान / अव्हय / अभिधान / नाम / आख्या /	भरिया / जाया / नारी / इत्थि / अङ्गना / कलत्त / थी / कन्ता / पिया / जानि /
命名	妻
mìng míng	qī
अव्हान / अव्हय / आख्या / अभिधान / नाम /	अङ्गना / जाया / थी / पिया / भरिया / कलत्त / जानि / नारी / कन्ता / इत्थि /
姓名	娘
xìng míng	niang
अभिधान / आख्या / नाम / अव्हय / अव्हान /	जननी / जनिका / अम्बा / कन्ता / थी / अङ्गना / नारी / अम्मा / इत्थि / इत्थि / जनेत्ती /
指名	婦人
zhǐ míng	fù rén
नाम / अव्हय / अभिधान / अव्हान / आख्या /	कन्ता / इत्थि / अङ्गना / थी / नारी /

नायक	नारी
nāyaka	nānā
主人	女人
zhǔ rén	nǚ rén
इस्सर / पति / अधिप / नायक / अधिपति / अय्य /	कन्ता / नारी / अङ्गना / थी / इत्थि /
女主人	爱人
nǚ zhǔ rén	ài rén
अय्या / नायक /	अङ्गना / नारी / जाया / भरिया / थी / जानि / कलत्त / पिया / कन्ता /
領袖	
lǐng xiù	
नायक / निर्यातु / पामोक्ख / पधान / नेतु /	

नाळ	नास
nǎo	nāsā
樓	死
gēng	sǐ
दण्ड / नाळ /	चवन / नमुचि / पेत / नास / कालकिरिया / मच्चु / कालङ्कत / अन्तक /
管	死亡
guǎn	sǐ wáng
आयतिका / नाळ / नाळिका / नळ / पनाळिका /	चवन / नास / कालकिरिया / मच्चु / अन्तक / नमुचि /
管子	死地
guǎn zǐ	sǐ de
नाळ / पनाळिका / नळ / नाळिका / आयतिका /	नास / कालकिरिया / मच्चु / मच्चु / नमुचि / अन्तक / चवन / चवन /
नाळिका	死神
nǎi kā	sǐ shén
奶瓶	कालकिरिया / चवन / अन्तक / नास / नमुचि / मच्चु /
nǎi píng	毀滅
瓶	huǐ miè
píng	परिहानि / नास / पराभव /
瓶子	破壞
píng zǐ	pò huài
管	अत्थ / घात / नास / उपच्छेद / भञ्जन / अपचिनन / निग्घातन / पीळन / नासन / खय / नस्सन /
guǎn	至死
आयतिका / नाळ / नाळिका / नळ / पनाळिका /	zhì sǐ
管子	कालकिरिया / नमुचि / अन्तक / नास / मच्चु / चवन /
guǎn zǐ	身亡
नाळ / पनाळिका / नळ / नाळिका / आयतिका /	shēn wáng
酒瓶	कालकिरिया / मच्चु / नास / अन्तक / नमुचि / चवन /
jiǔ píng	नासन

नावा	नासना
náwa	nāsana
小船	殺害
xiǎo chuán	shā hài
दोणिका / नावा / तरणी / दोणि /	अभिघात / निग्घातन / अभिघातन / घात / अतिपात / नासन / पातन /
小艇	破壞
xiǎo tǐng	pò huài
दोणिका / दोणि / तरणी / नावा /	अत्थ / घात / नास / उपच्छेद / भञ्जन / अपचिनन / निग्घातन / पीळन / नासन / खय / नस्सन /
渡口	逐出
dù kǒu	zhú chū
港口	पटिविनोदन / बहि / नासन / निक्कड्डन /
gǎng kǒu	航
पट्टन / नावा /	háng
舟	नावा / दोणि / तरणी / दोणिका /
zhōu	船
नावा / तरणी / दोणिका / दोणि /	bó
航	नावा / तरणी /
háng	船
नावा / दोणि / तरणी / दोणिका /	chuán
船	दोणि / दोणिका / तरणी / नावा /
bó	
नावा / तरणी /	
船	
chuán	
दोणि / दोणिका / तरणी / नावा /	

नासिका	नासिका
nāsikā	nāsikā
嗅到	嗅到
xiù dào	xiù dào
घाण / नय्य्ह / नासिका / नासा /	घाण / नय्य्ह / नासिका / नासा /
嗅覺	嗅覺
xiù jué	xiù jué
घाण / नय्य्ह / नासा / नासिका /	घाण / नय्य्ह / नासा / नासिका /
鼻	鼻
bí	bí
नासा / नय्य्ह / घाण / नासिका /	नासा / नय्य्ह / घाण / नासिका /
鼻子	鼻子
sǐ de	sǐ de
नास / कालकिरिया / मच्चु / मच्चु / नमुचि / अन्तक / चवन / चवन /	नास / कालकिरिया / मच्चु / मच्चु / नमुचि / अन्तक / चवन / चवन /
死神	死神
sǐ shén	sǐ shén
कालकिरिया / चवन / अन्तक / नास / नमुचि / मच्चु /	कालकिरिया / चवन / अन्तक / नास / नमुचि / मच्चु /
逐出	逐出
zhú chū	zhú chū
पटिविनोदन / बहि / नासन / निक्कड्डन /	पटिविनोदन / बहि / नासन / निक्कड्डन /
निक्खेप	निक्खेप
nikkhepa	nikkhepa
丟棄	丟棄
diū qì	diū qì
छड्डन / पटिनिस्सग / निक्खेप / अवक्कार /	छड्डन / पटिनिस्सग / निक्खेप / अवक्कार /
निक्खम	निक्खम
nikkhama	nikkhama
離開	離開
lí kāi	lí kāi
निस्सरण / अपक्कम / निक्खम / निग्गम / पक्कम /	निस्सरण / अपक्कम / निक्खम / निग्गम / पक्कम /
निकट	निकट
nikaṭa	nikaṭa
接近的	接近的
jiē jìn de	jiē jìn de
उपनायिक / निकट / निकट्टु / आगमन / धुर / आसन्न / उपकट्टु / अविदूर /	उपनायिक / निकट / निकट्टु / आगमन / धुर / आसन्न / उपकट्टु / अविदूर /
निकट्टु	निकट्टु
nikaṭṭha	nikaṭṭha
接近的	接近的
jiē jìn de	jiē jìn de
उपनायिक / निकट / निकट्टु / आगमन / धुर / आसन्न / उपकट्टु / अविदूर /	उपनायिक / निकट / निकट्टु / आगमन / धुर / आसन्न / उपकट्टु / अविदूर /
नासा	नासा
nāsā	nāsā
嗅到	嗅到
xiù dào	xiù dào
घाण / नय्य्ह / नासिका / नासा /	घाण / नय्य्ह / नासिका / नासा /
嗅覺	嗅覺
xiù jué	xiù jué
घाण / नय्य्ह / नासा / नासिका /	घाण / नय्य्ह / नासा / नासिका /
鼻	鼻
bí	bí
नासा / नय्य्ह / घाण / नासिका /	नासा / नय्य्ह / घाण / नासिका /
鼻子	鼻子
bí zǐ	bí zǐ
नय्य्ह / नासा / नासिका / घाण /	नय्य्ह / नासा / नासिका / घाण /

निकेत	निकेतन	房子	निकामना	निकाय
niketa	niketana	fáng zi	nikāmanā	nikāya
主場	主場	निवेश / घर / निलय / गह / गेह / निकेतन / अगार /	愿望	一群
zhǔ chǎng	zhǔ chǎng	房屋	yuàn wàng	yī qún
निलय / निकेतन / उपस्सय / निकेत / घर / गेह / आवास /	निलय / निकेतन / उपस्सय / निकेत / घर / गेह / आवास /	fáng wū	अपेक्खन / निकामना / अभिलासा / इच्छा / इच्छन / जालिनी /	निकाय / गण / देव /
主頁	主頁	निलय / निकेतन / गेह / अगार / गह / घर / निवेश /	आसा / आसिसना / पिहायना / छन्द /	團
zhǔ yè	zhǔ yè	故鄉	期望	tuán
निकेत / निलय / आवास / निकेतन / गेह / घर / उपस्सय /	निकेत / निलय / आवास / निकेतन / गेह / घर / उपस्सय /	gù xiāng	qī wàng	团体
住宅	住宅	घर / गेह / उपस्सय / निकेत / आवास / निलय / निकेतन /	अभिलासा / इच्छा / अभिकङ्खित / इच्छन / जालिनी / पिहायना / अपेक्खन / निकामना / अभिकङ्खन / आसा / आसिसना /	tuán tǐ
zhù zhái	zhù zhái	老家	欲望	團
निकेतन / आवास / निकेत / गह / निवेश / गेह / अगार / घर / निलय / निवास / उपस्सय /	निकेतन / आवास / निकेत / गह / निवेश / गेह / अगार / घर / निलय / निवास / उपस्सय /	lǎo jiā	yuàn wàng	tuán
住家	住家	आवास / गेह / उपस्सय / निकेत / निकेतन / निलय / घर /	आसा / पिहायना / तण्हा / निकामना / अपेक्खन / आसिसना / इच्छा / अभिलासा / जालिनी / इच्छन /	tuán tǐ
zhù jiā	zhù jiā	निकति	आसा / पिहायना / तण्हा / निकामना / अपेक्खन / आसिसना / इच्छा / अभिलासा / जालिनी / इच्छन /	宗派
आवास / निलय / निकेत / घर / निकेतन / उपस्सय / गेह /	आवास / निलय / निकेत / घर / निकेतन / उपस्सय / गेह /	निकति	欲求	zōng pài
住所	住所	निकति	yù qiú	小組
zhù suǒ	zhù suǒ	欺騙	आसा / निकामना / इच्छा / इच्छन / अपेक्खन / आसिसना / जालिनी / अभिलासा / पिहायना /	xiǎo zǔ
आसय / उपस्सय / निवास / निकेत / आवसथ / ओक / निकेतन / निलय / आलय / निवेश /	आसय / उपस्सय / निवास / निकेत / आवसथ / ओक / निकेतन / निलय / आलय / निवेश /	qī piàn	渴望	收集
回國	回國	कोहञ्ज / निकति / कितव / केराटिय / कुहना / कुहक / कुह / उपलापन / कूट / नेकतिक /	kě wàng	shōu jí
huí guó	huí guó	निकस	कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकङ्खन / जालिनी / अपेक्खन / आसा / एजा / इच्छा / तण्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकङ्खित / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्जन /	教派
निकेत / आवास / गेह / घर / उपस्सय / निकेतन / निलय /	निकेत / आवास / गेह / घर / उपस्सय / निकेतन / निलय /	निकसा	派	jiào pài
在家	在家	磨石	pài	पक्ख / निकाय / भाग /
zài jiā	zài jiā	mó shí	पक्ख / निकाय / भाग /	派系
घर / गेह / निलय / आवास / उपस्सय / निकेत / निकेतन /	घर / गेह / निलय / आवास / उपस्सय / निकेत / निकेतन /	निसाण / निकस /	yào qiú	pài xì
家	家		要求	निकाय / पक्ख / भाग /
jiā	jiā		yào qiú	組
कटुम्ब / उपस्सय / घर / गेह / आवास / कुल / निकेत / गह / निकेतन / निलय /	कटुम्ब / उपस्सय / घर / गेह / आवास / कुल / निकेत / गह / निकेतन / निलय /		आसिसना / आसा / जालिनी / पिहायना / इच्छन / निकामना / अभिलासा / अत्थ / इच्छा / अपेक्खन / अभियाचन /	zǔ
家園	家園		願望	निकाय / गण /
jiā yuán	jiā yuán		yuàn wàng	組
आवास / उपस्सय / निकेतन / गेह / निलय / घर / निकेत /	आवास / उपस्सय / निकेतन / गेह / निलय / घर / निकेत /		अपेक्खन / निकामना / अभिलासा / आसिसना / आसा / पिहायना / इच्छन / इच्छा / जालिनी /	zǔ
家園	家園			群
jiā yuán	jiā yuán			qún
निलय / घर / निकेतन / निकेत / उपस्सय / आवास / गेह /	निलय / घर / निकेतन / निकेत / उपस्सय / आवास / गेह /			निकाय / गण / उदान /
家庭	家庭			群體
jiā tíng	jiā tíng			qún tǐ
निकेत / कुल / निलय / निकेतन / कुटुम्ब / आवास / उपस्सय /	निकेत / कुल / निलय / निकेतन / कुटुम्ब / आवास / उपस्सय /			集團
家裡	家裡			jí tuán
jiā li	jiā li			
आवास / गेह / निलय / घर / निकेतन / निकेत / उपस्सय /	आवास / गेह / निलय / घर / निकेतन / निकेत / उपस्सय /			
居家	居家			
jū jiā	jū jiā			
घर / गेह / आवास / उपस्सय / निलय / निकेतन / निकेत /	घर / गेह / आवास / उपस्सय / निलय / निकेतन / निकेत /			
故鄉	屋子			
gù xiāng	wū zi			
घर / गेह / उपस्सय / निकेत / आवास / निलय / निकेतन /	गेह / गह / निलय / अगार / निकेतन / घर / निवेश /			
老家	房			
lǎo jiā	fáng			
आवास / गेह / उपस्सय / निकेत / निकेतन / निलय / घर /	अगार / घर / निलय / निवेश / गह / निकेतन / गेह /			

निकिट्ट	निखिल
nikitṭha	nikhila
低	一切
dī	yī qiè
नीच / ओरक / निकिट्ट / अधम / छव / अवच / निहीन / निन्नता /	निखिल / असेस / निस्सेस /
低下	一切の
dī xià	yī qiè de
ओरक / अधम / निकिट्ट / अवच / निहीन / नीच / छव /	万物
低沉	wàn wù
dī chén	असेस / निखिल /
छव / नीच / निकिट्ट / ओरक / अवच / अधम / निहीन /	俱
低的	jù
dī de	निखिल / असेस /
निन्न / अधम / निकिट्ट / ओरक / नीच / निहीन / अवच / छव /	全
低級	quán
dī jí	निखिल / असेस /
अधम / अवच / छव / निहीन / ओरक / निकिट्ट /	全部
低落	quán bù
dī luò	केवल / निस्सेस / अनून / निखिल / कसिण / अनवसेस / असेस / अनूलक /
छव / नीच / निकिट्ट / ओरक / अधम / अवच / निहीन /	全部的
卑	quán bù de
bēi	केवल / निखिल / असेस / निस्सेस / कसिण /
अवच / निकिट्ट / निहीन / छव / ओरक / नीच / अधम /	全都
卑下	quán dōu
bēi xià	असेस / निखिल /
नीच / छव / निहीन / अवच / ओरक / निकिट्ट / अधम /	全體
鄙	quán tǐ
bǐ	निखिल / निस्सेस / असेस /
नीच / अवच / छव / निहीन / ओरक / निकिट्ट / अधम /	凡是
隳	fán shì
xī	निस्सेस / निखिल / असेस /
नीच / अधम / निहीन / अवच / निकिट्ट / छव / ओरक /	各
	gè
	एकमेक / एकेक / निखिल /
	匳
	hú
	निखिल / निस्सेस / केवल / कसिण / असेस /
	均
	jūn
	निखिल / निस्सेस / असेस / पटिभाग /
	大家
	dà jiā
	असेस / निखिल /
	完全
	wán quán
	निखिल / अनूलक / कसिण / निस्सेस / पुण्ण / परिपूर / अनून / केवल / असेस / अनवसेस /
	总体
	zǒng tǐ
	केवल / निखिल / कसिण / असेस /
	所有
	suǒ yǒu
	निस्सेस / असेस / निखिल /

所有的	suǒ yǒu de
असेस / निखिल /	整
zhěng	zhěng
केवल / कसिण / असेस / पुण्ण / निस्सेस / अनूलक / परिपूर / अनवसेस / अनून / निखिल /	整个
zhěng gè	zhěng gè
असेस / निस्सेस / निखिल / कसिण / केवल /	整個
zhěng gè	zhěng gè
निखिल / केवल / निस्सेस / कसिण /	整天
zhěng tiān	zhěng tiān
निस्सेस / असेस / निखिल /	整数
zhěng shù	zhěng shù
निस्सेस / कसिण / असेस / केवल / निखिल /	整整
zhěng zhěng	zhěng zhěng
निस्सेस / कसिण / पुण्ण / निखिल / परिपूर / केवल / असेस /	每
měi	měi
असेस / निस्सेस / एकमेक / एकेक / निखिल /	每一
měi yī	měi yī
निखिल / एकेक / एकमेक /	皆
jiē	jiē
निस्सेस / असेस / निखिल /	统统
tǒng tǒng	tǒng tǒng
निखिल / असेस /	胥
xū	xū
निखिल / निस्सेस / असेस /	芸芸
yún yún	yún yún
निखिल / असेस / अन्तरे / निस्सेस /	萬物
wàn wù	wàn wù
असेस / निखिल /	通通
tōng tōng	tōng tōng
केवल / निस्सेस / अनून / अनवसेस / परिपूर / अनूलक / असेस / पुण्ण / निखिल / कसिण /	

निग्गण्हण

niggaṇḥana

責備	zé bèi
अपवाद / निग्गण्हण / अतिवाक्य / गरहन / दोस / उपक्कोस / उपवाद / अवण्ण / ओमसना / अक्कोस / निग्गह / अनुवाद /	

निग्गम	niggama
出去	chū qù
निग्गम / बहि /	結果
jié guǒ	jié guǒ
निप्फज्जन / अभिसन्द / निप्फत्ति / निग्गम / निस्सन्द / अभिसन्दन / फल /	離開
lí kāi	निस्सरण / अपक्कम / निक्खम / निग्गम / पक्कम /
निग्गुम्ब	niggumba
清楚的	qīng chǔ de
निग्गह	niggaha
咎	jiù
अवण्ण / निग्गह / उपवाद /	怨
yuàn	yuàn
निग्गह / उपवाद / अवण्ण /	歸咎
guī jiù	guī jiù
निग्गह / उपवाद / अवण्ण /	罪
zuì	zuì
असद्धम्म / कलि / निग्गह / पाप / अघ / अवण्ण / अकुसल / उपवाद /	責備
zé bèi	zé bèi
अपवाद / निग्गण्हण / अतिवाक्य / गरहन / दोस / उपक्कोस / उपवाद / अवण्ण / ओमसना / अक्कोस / निग्गह / अनुवाद /	責怪
zé guài	zé guài
उपवाद / अवण्ण / निग्गह / अपवाद /	過失
guò shī	guò shī
खलित / निग्गह / अज्जाचार / दोस / अपाय / छिद्द / ओतार /	
निग्घातन	nigghātana
殺害	shā hài
अभिघात / निग्घातन / अभिघातन / घात / अतिपात / नासन / पातन /	破壞
pò huài	pò huài
अत्थ / घात / नास / उपच्छेद / भञ्जन / अपचिनन / निग्घातन / पीठन / नासन / खय / नस्सन /	

निगमन	nigamana
定局	dìng jú
ओसान / निगमन / निद्दा / परियोसान /	結論
jié lùn	jié lùn
ओसान / निगमन / परियोसान / निद्दा /	解釋
jiě shì	jiě shì
दीपना / परिदीपन / निगमन / निब्बेठन / उद्दीपना / पकास /	解釋
jiě shì	jiě shì
दीपना / निब्बेठन / पकास / परिदीपन / उद्दीपना / निगमन / निद्देस /	說明
shuō míng	shuō míng
निब्बेठन / निदान / अट्टकथा / उद्दीपना / निगमन / पकास / दीपना / परिदीपन /	
निघंस	nighamsa
摩擦	mó cā
निघंस / आमसन /	
निच्च	nicca
不變	bù biàn
निच्चोल	niccola
赤裸的	chì luǒ de
निच्चय	nicchaya
果斷	guǒ duàn
決議	jué yì
अधिद्धान / निच्चय /	
निज्जर	nijjara
神	shén
अमर / देव / देवत / निज्जर /	
निज्झान	nijjhāna
洞察力	dòng chá lì
जाण / पञ्चा / दस्सन / निज्झान /	

निदुर
nitṭhura
伧
cāng
थूल / कक्कस / कठिन / खळ / कक्खळ / खर / निदुर /
使勁
shǐ jìn
थद्द / निदुर / कठिन / कक्खळ / खर /
硬
yìng
थिर / कक्खळ / निदुर / कठिन / खर / असिथिल / दँव्ह / उपत्थद्द / थद्द /
硬殼
yìng ké
थद्द / कठिन / निदुर / कक्खळ / खर /
硬的
yìng de
उपत्थद्द / निदुर / असिथिल / खर / कक्खळ / थद्द / कठिन /
粗
cū
कठिन / गम्म / खर / कक्कस / घन / खळ / कक्खळ / बहल / गहन / ओळारिक / थूल / निदुर /
粗糙的
cū cāo de
कठिन / थूल / निदुर / ओळारिक / दारुण / कक्कस / खळ / गम्म / कक्खळ / खर /
糙
cāo
खर / निदुर / कक्कस / कक्खळ / कठिन / थूल / खळ /
艱苦
jiān kǔ
कठिन / कक्खळ / थद्द / निदुर / खर /
草
cǎo
पलाल / खर / कठिन / कक्खळ / थूल / तिण / खळ / निदुर / कक्कस /
辛
xīn
निदुर / खर / थद्द / कक्खळ / कठिन /
辛苦
xīn kǔ
थद्द / निदुर / कठिन / कक्खळ / खर /

निद्दा
nitṭhā
下場
xià chǎng
कोण / परिनिद्दान / परियन्त / अन्त / परियोसान / अग्ग / अवसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान /
告終
gào zhōng
अपवग्ग / कोण / अन्त / ओसान / परियोसान / अग्ग / निद्दा / परिनिद्दान / अवसान / परियन्त / कोटि /
完結
wán jié
निद्दा / कोटि / ओसान / परियन्त / अन्त / अपवग्ग / परियोसान / अवसान / परिनिद्दान / कोण / अग्ग /
完結
wán jié
निद्दा / कोटि / ओसान / परियन्त / अन्त / अपवग्ग / कोण / परियोसान / कोटि /
完美
wán měi
पारमिता / निद्दा / पारमी /
定局
dìng jú
ओसान / निगमन / निद्दा / परियोसान /
底
dǐ
ओसान / अवसान / परियन्त / पद / कोण / परियोसान / निद्दा / परिनिद्दान / पाद / अग्ग / अपवग्ग / अन्त / कोटि /
月底
yuè dǐ
परियोसान / अग्ग / अन्त / परियन्त / अवसान / ओसान / कोण / निद्दा / कोटि / परिनिद्दान / अपवग्ग /
月末
yuè mò
कोण / अवसान / ओसान / परिनिद्दान / निद्दा / परियन्त / अन्त / अग्ग / कोटि / अपवग्ग / परियोसान /
末
mò
परिनिद्दान / अपवग्ग / अग्ग / परियोसान / ओसान / निद्दा / अवसान / अन्त / कोटि / परियन्त / कोण /
末尾
mò wěi
अन्त / परियोसान / कोटि / परियन्त / ओसान / निद्दा / अपवग्ग / अग्ग / अवसान / कोण / परिनिद्दान /
末端
mò duān
अवसान / अग्ग / परिनिद्दान / अन्त / परियोसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान / परियन्त / कोण /

止境
zhǐ jìng
कोण / अग्ग / परियोसान / अन्त / कोटि / परियन्त / ओसान / अवसान / परिनिद्दान / अपवग्ग / निद्दा /
盡頭
jìn tóu
कोण / अन्त / परियन्त / अग्ग / परिनिद्दान / परियोसान / अवसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान /
端
duān
अन्त / कोण / अपवग्ग / परिनिद्दान / कोटि / अवसान / निद्दा / परियोसान / ओसान / परियन्त / अग्ग /
端上
duān shàng
कोण / कोटि / अवसान / परिनिद्दान / अग्ग / ओसान / अपवग्ग / परियोसान / निद्दा / अन्त / परियन्त /
終
zhōng
परियन्त / कोटि / अपवग्ग / परियोसान / अवसान / अग्ग / कोण / अन्त / ओसान / परिनिद्दान / निद्दा /
終結
zhōng jié
ओसान / खय / अन्त / परिनिद्दान / अपवग्ग / परियोसान / अग्ग / परियन्त / अवसान / कोटि / कोण / निद्दा /
終點
zhōng diǎn
कोण / परियोसान / ओसान / अन्त / निद्दा / कोटि / परिनिद्दान / अपवग्ग / अग्ग / परियन्त / अवसान /
結束
jié shù
परियोसान / अन्त / ओसान / निद्दा / कोण / अग्ग / परियन्त / अपवग्ग / परिनिद्दान / अवसान / निद्दान / कोटि /
結論
jié lùn
ओसान / निगमन / परियोसान / निद्दा /
終
zhōng
कोटि / परिनिद्दान / अवसान / निद्दा / अग्ग / कोण / अपवग्ग / परियन्त / ओसान / परियोसान / अन्त /
終結
zhōng jié
परियोसान / निद्दा / परिनिद्दान / अपवग्ग / अवसान / कोण / ओसान / अन्त / कोटि / परियन्त / अग्ग /
結束
jié shù
कोटि / ओसान / अवसान / अग्ग / परियोसान / अपवग्ग / परियन्त / अन्त / निद्दा / कोण / परिनिद्दान /
進
qiú
अवसान / परियन्त / परिनिद्दान / ओसान / कोण / अपवग्ग / अन्त / निद्दा / परियोसान / अग्ग / कोटि /

निद्दान
nitṭhāna
完工
wán gōng
पारिपूरि / निद्दान /
完成
wán chéng
पारमी / अननक / निष्फत्ति / पारमिता / निद्दान / अनन / पारिपूरि / पूर / परिपूर / अनवसेस / पुण्ण / नित्थरण /
結束
jié shù
परियोसान / अन्त / ओसान / निद्दा / कोण / अग्ग / परियन्त / अपवग्ग / परिनिद्दान / अवसान / निद्दान / कोटि /
निड्ड
niḍḍa
巢
cháo
निड्ड / कुलावक /
窩
wō
कुलावक / निड्ड /
窠
kē
कुलावक / निड्ड /
窩
wō
कुलावक / निड्ड /
簇
cù
कुलावक / निड्ड /
鳥巢
niǎo cháo
निड्ड / कुलावक /
नित्तेज
nitteja
不安的
bù ān de
नित्तेज / अफासु /
नित्तुदन
nittudana
刺
cì
नित्थरण
nittharaṇa
克服
kè fú
अतिवत्त / नित्थरण / अभिभवन / उत्तरण /
完成
wán chéng
पारमी / अननक / निष्फत्ति / पारमिता / निद्दान / अनन / पारिपूरि / पूर / परिपूर / अनवसेस / पुण्ण / नित्थरण /
穿越
chuān yuè

नितम्ब
nitamba
臀部
tún bù
उच्छङ्ग / पावळ / कटि / नितम्ब / जघन / आनिसद /
निद्देस
niddesa
描寫
miáo xiě
描述
miáo shù
解釋
jiě shì
दीपना / निब्बेठन / पकास / परिदीपन / उद्दीपना / निगमन / निद्देस /
निद्दा
niddā
入睡
rù shuì
眠
mián
睡
shuì
睡不著
shuì bù zhe
睡覺
shuì jué
睡覺
shuì jué
覺
jué
觉
jué
निद्दोस
niddosa
完美的
wán měi de
अनेळक / अक्खत / अनेळ / निद्दोस /
निद्धमन
niddhamana
排出物
pái chū wù

निदस्सन	निदाघ	निदान	源泉	निन्नाद
nidassana	nidāgha	nidāna	yuán quán	ninnāda
例	乾旱	事业	निदान / पभव /	作響
lì	qián hàn	shì yè	源点	zuò xiǎng
उदाहरण / निदस्सन /	夏	गच्छ / निदान /	yuán diǎn	गद / धनित / निन्नाद / घोस /
例子	xià	令人	पभव / निदान /	健全
lì zì	夏令	lìng rén	源頭	jiàn quán
निदस्सन / उदाहरण /	xià lìng	來源	yuán tóu	गद / धनित / घोस / निन्नाद /
实例	夏天	lái yuán	पभव / निदान /	嚙
shí lì	xià tiān	पभव / निदान /	理由	hāo
उदाहरण / निदस्सन /	夏季	促使	lǐ yóu	घोस / धनित / गद / निन्नाद /
样品	xià jì	cù shǐ	निमित्त / निदान / अपदेस / ठान / कारण / पद / अत्यवस /	声
yàng pǐn	夏日	出处	由	shēng
样本	xià rì	chū chǔ	yóu	धनित / निन्नाद / घोस / गद /
yàng běn	夏的	निदान / पभव /	कारण / निमित्त / अपदेस / निदान / पद / ठान / अत्यवस /	声音
उदाहरण / निदस्सन /	xià de	原因	繇	shēng yīn
榜样	熱	yuán yīn	zhòu	गद / धनित / निन्नाद / घोस /
bǎng yàng	rè	कारण / पद / निमित्त / निदान / ठान / अपदेस / अत्यवस / जनन /	致	有聲
निदस्सन / उदाहरण /	तेज / उण्ह / घम्म / निदाघ / गिम्ह / आताप /	因	zhì	yǒu shēng
榜樣	避暑	yīn	致使	घोस / गद / धनित / निन्नाद /
bǎng yàng	bì shǔ	कारण / निदान / पटिच्च / अपदेस / अत्यवस / ठान / निमित्त / पद /	zhì shǐ	聲
उदाहरण / निदस्सन /		因素	說明	shēng
模范		yīn sù	shuō míng	निन्नाद / गद / घोस / धनित /
mó fàn		पद / निमित्त / ठान / निदान / कारण / धातु / उपनिसा /	निब्बेठन / निदान / अट्ठकथा / उद्दीपना / निगमन / पकास / दीपना / परिदीपन /	聲音
निदस्सन / उदाहरण /		導致	起因	shēng yīn
比方		dǎo zhì	qǐ yīn	निन्नाद / गद / घोस / धनित /
bǐ fāng		गमन / निदान /	निन्न	響
निदस्सन / ओपम्म / उदाहरण /		引起	ninna	shēng xiǎng
比較		yǐn qǐ	低地	घोस / धनित / निन्नाद / गद /
bǐ jiào		कारण / ठान / निमित्त / पद / निदान /	dī dì	聽起來
निदस्सन / ओपम्म / उपमा /		故	低的	tīng qǐ lái
為例		gù	dī de	निन्नाद / धनित / घोस / गद /
wèi lì		ततो / तस्मा / निदान / पद / अतो / अपदेस / कारण / ठान / निमित्त / अत्यवस /	निन्न / अधम / निकिड्ड / ओरक / नीच / निहीन / अवच / छव /	音
निदस्सन / उदाहरण /		本源	निन्नाद	yīn
範		běn yuán	ninnatā	गद / घोस / धनित / निन्नाद /
fàn		पभव / उद्गान / उत्पत्ति / निदान /	低	ghōs / dhānit / ninnāda / gada /
उदाहरण / निदस्सन /		来源	dī	音響
范		lái yuán	नीच / ओरक / निकिड्ड / अधम / छव / अवच / निहीन / निन्नाद /	yīn xiǎng
निदस्सन / उदाहरण /		根源	傾向	धनित / गद / निन्नाद / घोस /
范例		gēn yuán	qīng xiàng	響聲
fàn lì		उद्गान / उत्पत्ति / निदान / पभव /	निन्नाद / आसय / अभिनिवेस / पाताल / पसङ्ग / अनुसय / पब्भार / अधिमुत्ति / नति /	xiǎng shēng
उदाहरण / निदस्सन /		水源		घोस / गद / निन्नाद / धनित /
表率		shuǐ yuán		鳴
biǎo lǜ		तोय / दक / नीर / पभव / अम्बु / निदान / उदक / ओक / जल / अण्ण /		míng
निदस्सन / उदाहरण /		泉源		घोस / निन्नाद / धनित / गद /
證據		quán yuán		鳴
zhèng jù		निदान / पभव /		míng
		源		गद / घोस / निन्नाद / धनित /
		yuán		निपक
		उब्भिद / पभव / निदान /		nipaka
		源头		明智的
		yuán tóu		míng zhì de
		पभव / निदान /		निपज्जन
				nipajjana
				躺下
				tǎng xià

निप्पक्क	निप्फज्जन	निप्फत्ति	निपात	निब्बेठन
nippakka	nippahjjana	nipphatti	nipāta	nibbēṭhana
煮沸	作用	作用	落下	解释
zhǔ fèi	zuò yòng	zuò yòng	luò xià	jiě shì
煮沸的	चार / निस्सन्द / कम्म / निप्फत्ति / निप्फज्जन / फल / किरिय / पयोग /	चार / निस्सन्द / कम्म / निप्फत्ति / निप्फज्जन / फल / किरिय / पयोग /	पात / पतन / निपात / निबद्धं	दीपना / परिदीपन / निगमन / निब्बेठन / उद्दीपना / पकास /
zhǔ fèi de			nibaddham	解釋
निप्पदेस	傲	完成	一向	jiě shì
nippadesa	xiào	wán chéng	yī xiàng	दीपना / निब्बेठन / पकास / परिदीपन / उद्दीपना / निगमन / निदेस /
包括一切的	印象	पारमी / अननक / निप्फत्ति / पारमिता / निद्धान / अनून / पारिपरि / पूर / परिपूर / अनवसेस / पुण्ण / नित्थरण /	अभिण्हसो / निबद्धं /	說明
bāo kuò yī qiè de	yìn xiàng	成效	一律	shuō míng
	yǐng xiǎng	chéng xiào	yī lǜ	निब्बेठन / निदान / अट्टकथा / उद्दीपना / निगमन / पकास / दीपना / परिदीपन /
	成就	फल / निस्सन्द / अभिसन्द / अभिसन्दन / निप्फज्जन / निप्फत्ति /	निबद्धं / अभिण्हसो /	
	chéng jiù	成果	从来	निब्बत्तन
	आराधना / निप्फादन / कुसलता / अभिनिप्फत्ति / निप्फज्जन /	chéng guǒ	cóng lái	nibbattana
	成效	फल / निस्सन्द / निप्फज्जन / अभिसन्द / निप्फत्ति / आय / उदय / अभिसन्दन /	अभिण्हसो / निबद्धं /	再生
	chéng xiào	xiào	历来	zài shēng
	फल / निस्सन्द / अभिसन्द / अभिसन्दन / निप्फज्जन / निप्फत्ति /	निस्सन्द / निप्फत्ति / फल / निप्फज्जन /	li lái	निब्बत्तन / जाति / उप्पत्ति / उपपत्ति /
	成果	效應	向來	出生
	chéng guǒ	xiào yīng	xiàng lái	chū shēng
	फल / निस्सन्द / निप्फज्जन / अभिसन्द / निप्फत्ति / आय / उदय / अभिसन्दन /	फल / निप्फज्जन / निस्सन्द / निप्फत्ति /	अभिण्हसो / निबद्धं /	उपज्जन / उप्पाद / जाति / पजायन / निब्बत्तन / जायन /
	成績	效果	始終	出身
	chéng jī	xiào guǒ	shǐ zhōng	chū shēn
	效	निप्फज्जन / अभिसन्द / फल / अभिसन्दन / निस्सन्द / निप्फत्ति /	अभिण्हसो / निबद्धं /	पजायन / उप्पज्जन / जाति / उप्पत्ति / निब्बत्तन / पभव / उप्पाद / उद्धान / जायन /
	xiào	guǒ	常	生下
	निस्सन्द / निप्फत्ति / फल / निप्फज्जन /	निप्फज्जन / अभिसन्द / फल / अभिसन्दन / निस्सन्द / निप्फत्ति /	cháng	shēng xià
	效應	究竟	निबद्धं / अभिण्हसो / अभिण्हं /	पजायन / उप्पाद / जायन / उप्पज्जन / जाति / निब्बत्तन /
	xiào yīng	jiū jìng	從來	生出
	फल / निप्फज्जन / निस्सन्द / निप्फत्ति /	निप्फत्ति / अभिसन्दन / अभिसन्द / फल / निप्फज्जन / निस्सन्द /	cóng lái	shēng chū
	效果	究竟	अभिण्हसो / निबद्धं /	पजायन / जायन / उप्पाद / उप्पज्जन / जाति / निब्बत्तन /
	xiào guǒ	jié guǒ	总是	誕
	निप्फज्जन / अभिसन्द / फल / अभिसन्दन / निस्सन्द / निप्फत्ति /	निप्फज्जन / अभिसन्द / निप्फत्ति / निगम / निस्सन्द / अभिसन्दन / फल /	zǒng shì	dàn
	果	結果	अभिण्हसो / निबद्धं /	जाति / उप्पाद / पजायन / निब्बत्तन / जायन / उप्पज्जन /
	guǒ	jié guǒ	yǒng	誕
	निप्फत्ति / अभिसन्दन / अभिसन्द / फल / निप्फज्जन / निस्सन्द /	निप्फज्जन / अभिसन्द / निप्फत्ति / निगम / निस्सन्द / अभिसन्दन / फल /	निबद्धं / अभिण्हसो /	dàn
	究竟	结果	總是	जाति / उप्पाद / पजायन / जायन / निब्बत्तन / उप्पज्जन /
	jiū jìng	jié guǒ	zǒng shì	निब्बत्तापन
	निप्फज्जन / अभिसन्दन / निप्फत्ति / अभिसन्द / पि / फल / निस्सन्द / तु /	अभिसन्दन / निस्सन्द / अभिसन्द / फल / निप्फज्जन / निप्फत्ति /	अभिण्हसो / निबद्धं /	nibbattāpana
	結果	निप्फल	總能	繁殖
	jié guǒ	nippphala	zǒng néng	fán zhí
	निप्फज्जन / अभिसन्द / निप्फत्ति / निगम / निस्सन्द / अभिसन्दन / फल /	निप्फल	अभिण्हसो / निबद्धं /	निब्बुति
	结果	nippphala	निबन्ध	nibbuti
	jié guǒ	tú rán de	nibandha	和平
	निप्फज्जन / अभिसन्द / निप्फत्ति / निगम / निस्सन्द / अभिसन्दन / फल /	अफल / निरत्थक / निप्फल /	硬要	hé píng
	结果	निप्फादन	yìng yào	和約
	jié guǒ	nippphādana	उपनिबन्धन / निबन्ध /	hé yuē
	अभिसन्दन / निस्सन्द / अभिसन्द / फल / निप्फज्जन / निप्फत्ति /	成就	綁	安
		chéng jiù	bǎng	ān
		आराधना / निप्फादन / कुसलता / अभिनिप्फत्ति / निप्फज्जन /		अभय / निब्बुति / खेम /
		製造		
		zhì zào		
		निप्फादन / उप्पादन /		

निब्बेध
nibbedha
侵入
qīn rù
निब्बेध / पटिवेध /
刺穿
cì chuān
滲透
shèn tòu
पटिवेध / निब्बेध /
滲透
shèn tòu
पटिवेध / निब्बेध /

निब्बान
nibbāna
冷却
lěng què
नब्बापन / निब्बान /
冷卻
lěng què
निब्बान / नब्बापन /
釋放
shì fàng
परिमुचन / मुञ्चन / ओस्सजन /
परिमत्ति / निब्बान / निय्यान /

निब्बि
nibbicikicca
信任的
xìn rèn de
厭惡
yàn è
जिगच्छन / पटिघ / अनालय /
अरति / पटिघात / निब्बि /
工資
gōng zī
疲倦
pí juàn
निब्बि / तन्दी / किलमथ /
परिस्सम /
疲勞
pí láo
परिस्सम / तन्दी / किलमथ /
तन्दित / निब्बि /
相似的
xiāng sì de
एकविध / उपम / पटिभाग / निभ
/ निब्बि /

निब्भय
nibbhaya
吃
gē
勇
yǒng
勇敢
yǒng gǎn
勇敢的
yǒng gǎn de
पगब्भ / निब्भय /
英
yīng

निभ
nibha
相似的
xiāng sì de
एकविध / उपम / पटिभाग / निभ
/ निब्बि /
相等的
xiāng děng de
निभ / तुल्य /

निभा
nibhā
亮光
liàng guāng
भानु / आभा / अवभास / जोति /
पभास / पज्जोत / पभा / भा /
आलोक / निभा / दित्ति / पदीप /
光
guāng
आलोक / दित्ति / भा / पज्जोत /
पदीप / पभास / आभा / पभा /
जोति / अवभास / भानु / निभा /
光彩
guāng cǎi
आभा / निभा / पज्जोत / उज्जोत /
光線
guāng xiàn
अवभास / पदीप / निभा / पभास /
पज्जोत / पभा / भानु / कर /
जोति / आलोक / किरण / दित्ति /
भा / आभा /
對光
duì guāng
पज्जोत / जोति / भानु / पदीप /
पभा / अवभास / आलोक / दित्ति
/ निभा / भा / पभास / आभा /
淡
dàn
जोति / निभा / पज्जोत / पभा /
भानु / आलोक / भा / अवभास /
दित्ति / पभास / पदीप / आभा /
淡淡
dàn dàn
पदीप / जोति / दित्ति / अवभास /
आभा / पज्जोत / पभा / पभास /
आलोक / भानु / भा / निभा /
清淡
qīng dàn
पभास / पज्जोत / पदीप / आलोक
/ पभा / दित्ति / जोति / भा /
निभा / भानु / अवभास / आभा /
灯
dēng
दित्ति / पदीप / अवभास / पभास
/ आलोक / पभा / जोति / भा /
भानु / पज्जोत / आभा / निभा /
燈
dēng
पज्जोत / दित्ति / पभा / जोति /
भानु / निभा / भा / पदीप /
पभास / आभा / अवभास / आलोक
/ दीप /
燈光
dēng guāng
पज्जोत / भानु / आलोक / भा /
पभा / अवभास / पभास / आभा /
दित्ति / निभा / जोति / पदीप /
發光
fā guāng
भानु / आभा / पभास / पज्जोत /
पभा / अवभास / पदीप / जोति /
भा / निभा / आलोक / दित्ति /
輕
qīng
दित्ति / पभास / आलोक / पभा /
जोति / पदीप / निभा / पज्जोत /
भानु / आभा / अवभास / भा /
輕便
qīng biàn
पदीप / आभा / दित्ति / पभास /
अवभास / निभा / पभा / आलोक /
पज्जोत / भानु / भा / जोति /

निभा
nibhā
亮光
liàng guāng
भानु / आभा / अवभास / जोति /
पभास / पज्जोत / पभा / भा /
आलोक / निभा / दित्ति / पदीप /
光
guāng
आलोक / दित्ति / भा / पज्जोत /
पदीप / पभास / आभा / पभा /
जोति / अवभास / भानु / निभा /
光彩
guāng cǎi
आभा / निभा / पज्जोत / उज्जोत /
光線
guāng xiàn
अवभास / पदीप / निभा / पभास /
पज्जोत / पभा / भानु / कर /
जोति / आलोक / किरण / दित्ति /
भा / आभा /
對光
duì guāng
पज्जोत / जोति / भानु / पदीप /
पभा / अवभास / आलोक / दित्ति
/ निभा / भा / पभास / आभा /
淡
dàn
जोति / निभा / पज्जोत / पभा /
भानु / आलोक / भा / अवभास /
दित्ति / पभास / पदीप / आभा /
淡淡
dàn dàn
पदीप / जोति / दित्ति / अवभास /
आभा / पज्जोत / पभा / पभास /
आलोक / भानु / भा / निभा /
清淡
qīng dàn
पभास / पज्जोत / पदीप / आलोक
/ पभा / दित्ति / जोति / भा /
निभा / भानु / अवभास / आभा /
灯
dēng
दित्ति / पदीप / अवभास / पभास
/ आलोक / पभा / जोति / भा /
भानु / पज्जोत / आभा / निभा /
燈
dēng
पज्जोत / दित्ति / पभा / जोति /
भानु / निभा / भा / पदीप /
पभास / आभा / अवभास / आलोक
/ दीप /
燈光
dēng guāng
पज्जोत / भानु / आलोक / भा /
पभा / अवभास / पभास / आभा /
दित्ति / निभा / जोति / पदीप /
發光
fā guāng
भानु / आभा / पभास / पज्जोत /
पभा / अवभास / पदीप / जोति /
भा / निभा / आलोक / दित्ति /
輕
qīng
दित्ति / पभास / आलोक / पभा /
जोति / पदीप / निभा / पज्जोत /
भानु / आभा / अवभास / भा /
輕便
qīng biàn
पदीप / आभा / दित्ति / पभास /
अवभास / निभा / पभा / आलोक /
पज्जोत / भानु / भा / जोति /

निमित्त
nimitta
兆
zhào
兆头
zhào tóu
先兆
xiān zhào
前兆
qián zhào
原因
yuán yīn
कारण / पद / निमित्त / निदान /
ठान / अपदेस / अत्यवस / जनन /
因
yīn
कारण / निदान / पटिच्च / अपदेस
/ अत्यवस / ठान / निमित्त / पद /
因素
yīn sù
पद / निमित्त / ठान / निदान /
कारण / धातु / उपनिसा /
引起
yǐn qǐ
कारण / ठान / निमित्त / पद /
निदान /
徵兆
zhǐ zhào
情理
qíng lǐ
अपदेस / पद / ठान / अत्यवस /
निमित्त / कारण /
故
gù
ततो / तस्मा / निदान / पद /
अतो / अपदेस / कारण / ठान /
निमित्त / अत्यवस /
标记
biāo jì
理
lǐ
कारण / निमित्त / पद / अपदेस /
ठान / अत्यवस /
理由
lǐ yóu
निमित्त / निदान / अपदेस / ठान
/ कारण / पद / अत्यवस /
由
yóu
कारण / निमित्त / अपदेस /
निदान / पद / ठान / अत्यवस /
緣故
yuán gù
निमित्त / ठान / कारण / अपदेस
/ पद / अत्यवस /
迹象
jī xiàng
道理
dào lǐ
ठान / अत्यवस / पद / अपदेस /
निमित्त / कारण /
預兆
yù zhào

निमज्ज
nimujjā
潛水
qián shuǐ
निमन्तन
nimantana
邀請
yāo qǐng
अज्जेसना / निमन्तन / आराधना /
आमन्तन / पवारणा /
निम्मदन
nimmaddana
征服
zhēng fú
अभिमदन / निम्मदन / दम /
दमथ /
鎮壓
zhèn yā
निमेस
nimesa
眨眼
zhǎ yǎn

निमित्त
nimitta
兆
zhào
兆头
zhào tóu
先兆
xiān zhào
前兆
qián zhào
原因
yuán yīn
कारण / पद / निमित्त / निदान /
ठान / अपदेस / अत्यवस / जनन /
因
yīn
कारण / निदान / पटिच्च / अपदेस
/ अत्यवस / ठान / निमित्त / पद /
因素
yīn sù
पद / निमित्त / ठान / निदान /
कारण / धातु / उपनिसा /
引起
yǐn qǐ
कारण / ठान / निमित्त / पद /
निदान /
徵兆
zhǐ zhào
情理
qíng lǐ
अपदेस / पद / ठान / अत्यवस /
निमित्त / कारण /
故
gù
ततो / तस्मा / निदान / पद /
अतो / अपदेस / कारण / ठान /
निमित्त / अत्यवस /
标记
biāo jì
理
lǐ
कारण / निमित्त / पद / अपदेस /
ठान / अत्यवस /
理由
lǐ yóu
निमित्त / निदान / अपदेस / ठान
/ कारण / पद / अत्यवस /
由
yóu
कारण / निमित्त / अपदेस /
निदान / पद / ठान / अत्यवस /
緣故
yuán gù
निमित्त / ठान / कारण / अपदेस
/ पद / अत्यवस /
迹象
jī xiàng
道理
dào lǐ
ठान / अत्यवस / पद / अपदेस /
निमित्त / कारण /
預兆
yù zhào

नियति	निय्यातन	निरुज्झन	निरय	निलय
niyati	niyyātaṇa	nirujjhana	niraya	nilaya
命	歸還	停止	地獄	主場
mìng	guī hái	tíng zhǐ	dì yù	zhǔ chǎng
जीव / पाण / चरित / नियति /	पच्चागमन / पटिदान / निय्यातन /	ओसान / अवसान / उपरति /	अपाय / निरय /	निलय / निकेतन / उपस्सय /
命运	निय्यान	निरुज्झन / उपच्छेद /	地獄	निकेत / घर / गेह / आवास /
mìng yùn	niyyāna	निरुत्ति	de yù	主頁
नियति / गति /	出發	nirutti	अपाय / निरय /	zhǔ yè
命運	chū fā	文	निरवसेस	निकेत / निलय / आवास /
mìng yùn	wài chū	wén	niravasesa	निकेतन / गेह / घर / उपस्सय /
गति / नियति /	外出	भासा / निरुत्ति /	包含的	住宅
天命	wài chū	語	bāo hán de	zhù zhái
tiān mìng	बहि / निय्यान / निस्सरण /	yǔ	निरातङ्क	निकेतन / आवास / निकेत / गह /
宿命	放鬆	निरुत्ति / भासा /	nirātaṅka	निवेस / गेह / अगार / घर /
sù mìng	fàng sōng	語言	健康的	निलय / निवास / उपस्सय /
नियम	救出	yǔ yán	jiàn kāng de	住家
niyama	jiù chū	भासा / निरुत्ति /	रोग / कल्ल / निरोग / निरातङ्क /	zhù jiā
限制	釋放	語	निरालय	आवास / निलय / निकेत / घर /
xiàn zhì	shì fàng	yǔ	nirālaya	निकेतन / उपस्सय / गेह /
परिच्छेद / परिमाण / अवधि /	परिमुच्यन / मुच्यन / ओस्सजन /	निरुत्ति / भासा /	不管	निकेतन / आवसथ / ओक /
ओधि / नियम / परियन्त /	परिमुत्ति / निब्बान / निय्यान /	語言	bù guǎn	निकेतन / निलय / आलय / निवेस /
限定	नियामक	yǔ yán	निरालय	回國
xiàn dìng	niyāmaka	निरुत्ति / जिह्वा / भासा /	nirālaya	huí guó
ओधि / नियम / अवधि / परियन्त /	司令	語言学	禁食的	निकेत / आवास / गेह / घर /
परिच्छेद / परिमाण /	sī lìng	yǔ yán xué	jìn shí de	उपस्सय / निकेतन / निलय /
限度	司令官	भासा / निरुत्ति /	निरोग	在家
xiàn dù	sī lìng guān	निरत्य	nirōga	zài jiā
नियम / परिच्छेद / परिमाण /	指揮官	nirattha	健康的	घर / गेह / निलय / आवास /
ओधि / अवधि / परियन्त /	zhǐ huī guān	徒然	jiàn kāng de	उपस्सय / निकेत / निकेतन /
नियमन	指揮官	tú rán	अरोग / कल्ल / निरोग / निरातङ्क /	家
niyamana	zhǐ huī guān	निरत्य / निरत्यक /	निरोग	jiā
固定	總司令	निरत्यक	niroga	कटुम्ब / उपस्सय / घर / गेह /
gù dìng	zǒng sī lìng	niratthaka	健康的	आवास / कुल / निकेत / गह /
定义	船長	徒然	jiàn kāng de	निकेतन / निलय /
dìng yì	chuán zhǎng	tú rán	अरोग / कल्ल / निरोग / निरातङ्क /	家園
नियमन / परिच्छन्दन /	नियोजन	निरत्य / निरत्यक /	निरोग	jiā yuán
定義	नियोजना	तुर्लक्ष	niroga	आवास / उपस्सय / निकेतन / गेह /
dìng yì	命令	तुर्लक्ष	健康的	निलय / घर / निकेतन / निकेत /
परिच्छन्दन / नियमन /	mìng lìng	तुर्लक्ष	jiàn kāng de	उपस्सय / आवास / गेह /
निय्यूह	अनुक्कम / कारापन / कम /	निरपेक्ख	अरोग / कल्ल / निरोग / निरातङ्क /	家庭
niyyūha	नियोजन / चक्क /	nirapekkha	निरोग	jiā tíng
小塔	निरग्गल	不注意的	健康的	निकेत / कुल / निलय / निकेतन /
xiǎo tǎ	niraggala	bù zhùyì de	jiàn kāng de	कुटुम्ब / आवास / उपस्सय /
高峰	漫	उम्मुख / निरपेख / निरपेक्ख /	अरोग / कल्ल / निरोग / निरातङ्क /	家裡
gāo fēng	màn	निरपेख	निरोग	jiā li
निय्यूह / थूपिका / कूट /	अबन्धन / अपलिबु / अबद्ध /	nirapekha	不注意的	आवास / गेह / निलय / घर /
निय्यूहनन	निरग्गल /	不注意的	bù zhùyì de	निकेतन / निकेत / उपस्सय /
nitthunana	自由	उम्मुख / निरपेख / निरपेक्ख /	उम्मुख / निरपेख / निरपेक्ख /	居家
呻吟	zì yóu	निरुपद्धव	निरुपद्धव	jiū jiā
shēn yīn	निरग्गल / अपलिबु / अबन्धन /	nirupaddava	安心的	घर / गेह / आवास / उपस्सय /
哀悼	अबद्ध /	安心的	ān xīn de	निलय / निकेतन / निकेत /
āi dào	自由的	安心的	निरपराध	屋
निय्यातु	zì yóu de	安心的	niraparādha	wū
niyyātu	अपलिबु / अबन्धन / निरग्गल /	安心的	清白的	गेह / घर / गह / निवेस / अगार /
頷袖	अबद्ध /	安心的	qīng bái de	निलय /
lǐng xiù	解放	清白的		屋子
नायक / निय्यातु / पामोक्ख /	jiě fàng	清白的		wū zi
पधान / नेतु /	निरग्गल / अबन्धन / अबद्ध /	清白的		गेह / गह / निलय / अगार /
	अपलिबु /	清白的		निकेतन / घर / निवेस /

房	निवेदन	निवेश	निवाप	निवासन
fáng	nivedana	nivesa	nivāpa	nivāsana
अगार / घर / निलय / निवेश / गह / निकेतन / गेह /	公告	住宅	誘餌	打扮
房子	gōng gào	zhù zhái	yòu ěr	dǎ bàn
fáng zi	जत्ति / निवेदन / जापन / आरोचना / पवेदन / पञ्जापन /	निकेतन / आवास / निकेत / गह / निवेश / गेह / अगार / घर / निलय / निवास / उपस्सय /	आमिस / निवाप /	निवासन / निवासन /
निवेश / घर / निलय / गह / गेह / निकेतन / अगार /	呈報	住所	诱惑	打扮
房屋	chéng bào	住所	yòu huò	dǎ ban
fáng wū	告示	zhù suǒ	आमिस / निवाप /	निवासन / निवासन /
निलय / निकेतन / गेह / अगार / गह / घर / निवेश /	gào shì	आसय / उपस्सय / निवास / निकेत / आवसथ / ओक / निकेतन / निलय / आलय / निवेश /	餌	服
捨	निवेदन / आरोचना / जत्ति / पञ्जाण / जापन / पवेदन /	屋	ěr	fú
shě	報告	wū	निवाप / आमिस /	服裝
अगार / गेह / गह / घर / निलय / निवेश /	bào gào	गेह / घर / गह / निवेश / अगार / निलय /	饵	fú zhuāng
收容	報案	屋子	ěr	अच्छादन / निवासन / छादन /
shōu róng	bào àn	wū zi	आमिस / निवाप /	服裝
गह / निवेश / गेह / अगार / घर / निलय /	情報	गेह / गह / निलय / अगार / निकेतन / घर / निवेश /	निवारण	fú zhuāng
故鄉	निवेदन / पटिभाण / बु /	房	nivāraṇa	निवासन / छादन / अच्छादन /
gù xiāng	舉報	fáng	擋住	洋裝
घर / गेह / उपस्सय / निकेत / आवास / निलय / निकेतन /	jǔ bào	अगार / घर / निलय / निवेश / गह / निकेतन / गेह /	dǎng zhù	yáng zhuāng
老家		房子	防范	穿戴
lǎo jiā		fáng zi	fáng fàn	chuān dài
आवास / गेह / उपस्सय / निकेत / निकेतन / निलय / घर /		निवेश / घर / निलय / गह / गेह / निकेतन / अगार /	निसेध / निवारण /	衣服
舍		房屋	預防	yī fú
shè		fáng wū	yù fáng	चेल / छादन / दुस्स / निवासन / अच्छादन / पट /
घर / घर / निवेश / गेह / निलय / निवेश / अगार / अगार / गह / गेह / गह / निलय /		निलय / निकेतन / गेह / अगार / गह / घर / निवेश /	預防	衣物
舍		捨	yù fáng	yī wù
shě		shě	निवारण / निसेध /	छादन / निवासन / अच्छादन /
घर / घर / निवेश / गेह / निलय / निवेश / अगार / अगार / गह / गेह / गह / निलय /		अगार / गेह / गह / घर / निलय / निवेश /	निवास	衣裳
निल्लोप		收容	nivāsa	yī shang
nillopa		shōu róng	住宅	निसेध
掠奪		गह / निवेश / गेह / अगार / घर / निलय /	zhù zhái	nisedha
è duó		殖民地	निकेतन / आवास / निकेत / गह / निवेश / गेह / अगार / घर / निलय / निवास / उपस्सय /	取締
निवत्तन		zhí mín de	住所	qǔ dī
nivattana		निवेश / निवेश /	zhù suǒ	抑制
中斷		殖民地	आसय / उपस्सय / निवास / निकेत / आवसथ / ओक / निकेतन / निलय / आलय / निवेश /	yì zhì
zhōng duàn		zhí mín dì	निवारण / निसेध /	निसेध / उपरति / दमथ / दम /
折回		舍	निवास	班固
zhé huí		shè	nivāsa	bān gù
留下		घर / घर / निवेश / गेह / निलय / निवेश / अगार / अगार / गह / गेह / गह / निलय /	住宅	禁
liú xià		舍	zhù zhái	jìn
निवत्तन / ठान /		shě	निकेतन / आवास / निकेत / गह / निवेश / गेह / अगार / घर / निलय / निवास / उपस्सय /	禁令
		ghar / ghar / nivesa / geh / nilaya / nivesa / agara / agara / gh / gh / gh / nilaya /	住所	jìn lìng
		ghar / ghar / nivesa / geh / nilaya / nivesa / agara / agara / gh / gh / gh / nilaya /	zhù suǒ	पटिसेध / निसेध /
		ghar / ghar / nivesa / geh / nilaya / nivesa / agara / agara / gh / gh / gh / nilaya /	आसय / उपस्सय / निवास / निकेत / आवसथ / ओक / निकेतन / निलय / आलय / निवेश /	禁止
		解决	निवारण / निसेध /	jìn zhǐ
		jiě jué	निवारण / निसेध /	निसेध / पटिसेध /
			預防	防范
			yù fáng	fáng fàn
			पटिसेध / निवारण / निसेध /	निसेध / निवारण /
			預防	預防
			yù fáng	yù fáng
			निवारण / निसेध /	निवारण / निसेध /

निसेवन
nisevana
使用
shǐ yòng
पटिसेवन / अत्थवस / उपभोग / पयोजन / परिभोग / निसेवन / अत्थ /

निस्सङ्ग
nissaṅga
不自私的
bù zì sī de
अमम / निस्सङ्ग /

निस्सद्द
nissadda
沈默的
shěn mò de
तुम्ही / निस्सद्द /

निस्सन्द
nissanda
作用
zuò yòng
चार / निस्सन्द / कम्म / निष्फत्ति / निष्फज्जन / फल / किरिय / पयोग /

成效
chéng xiào
फल / निस्सन्द / अभिसन्द / अभिसन्दन / निष्फज्जन / निष्फत्ति /

成果
chéng guǒ
फल / निस्सन्द / निष्फज्जन / अभिसन्द / निष्फत्ति / आय / उदय / अभिसन्दन /

效
xiào
निस्सन्द / निष्फत्ति / फल / निष्फज्जन /

效應
xiào yǐng
फल / निष्फज्जन / निस्सन्द / निष्फत्ति /

效果
xiào guǒ
निष्फज्जन / अभिसन्द / फल / अभिसन्दन / निस्सन्द / निष्फत्ति /

果
guǒ
निष्फत्ति / अभिसन्दन / अभिसन्द / फल / निष्फज्जन / निस्सन्द /

究竟
jiū jìng
निष्फज्जन / अभिसन्दन / निष्फत्ति / अभिसन्द / पि / फल / निस्सन्द / तु /

結果
jié guǒ
निष्फज्जन / अभिसन्द / निष्फत्ति / निग्गम / निस्सन्द / अभिसन्दन / फल /
结果
jié guǒ
अभिसन्दन / निस्सन्द / अभिसन्द / फल / निष्फज्जन / निष्फत्ति /

解除
jiě chú

निस्सय
nissaya
供養
gōng yǎng
उपकरण / ओलम्ब / पग्गह / ओलम्बक / अपस्सय / निस्सय / अवस्सय / पतिट्ठा / आलम्ब / आधार / पग्गाह / उपत्थम्भ / उपनिस्सय / उपकार / पतिट्ठान / आलम्बन / दीप /

保护
bǎo hù
अनुपालन / तायन / पटिसरण / आरक्खा / निस्सय / अनुरक्खा / परिहार / गोपन / अनुरक्खन / गुत्ति / नाथ / अभिरक्खन / ताण / पालन /

保護
bǎo hù
तायन / गोपन / गुत्ति / परिहार / अनुरक्खा / अनुरक्खन / पटिसरण / नाथ / अभिरक्खन / आरक्खा / अनुपालक / पालन / अनुपालन / निस्सय / ताण /

撐
chēng
आलम्ब / पतिट्ठा / निस्सय / दीप / ओलम्बक / उपनिस्सय / पग्गह / आधार / उपकरण / अवस्सय / आलम्बन / ओलम्ब / पतिट्ठान / उपत्थम्भ / पग्गाह / अपस्सय / उपकार /

撐腰
chēng yāo
पग्गह / निस्सय / उपकार / पग्गाह / आलम्ब / उपनिस्सय / आलम्बन / पतिट्ठान / उपकरण / अवस्सय / अपस्सय / आधार / पतिट्ठा / उपत्थम्भ / ओलम्ब / दीप / ओलम्बक /

撐
chēng
आलम्बन / उपत्थम्भ / अपस्सय / आधार / ओलम्बक / ओलम्ब / पग्गाह / उपनिस्सय / पग्गह / अवस्सय / आलम्ब / उपकरण / दीप / पतिट्ठान / उपकार / पतिट्ठा / निस्सय /

支持
zhī chí
पग्गह / आलम्ब / उपत्थम्भ / पतिट्ठा / उपकार / उपकरण / पग्गाह / पतिट्ठान / अवस्सय / आलम्बन / निस्सय / दीप / उपनिस्सय / ओलम्ब / ओलम्बक / आधार / अपस्सय /

支援
zhī yuán
उपकार / अपस्सय / पतिट्ठा / पग्गह / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पग्गाह / अनुज्जा / पतिट्ठान / उपनिस्सय / अवस्सय / ओलम्ब / आलम्ब / निस्सय / आलम्बन / आधार / उपकरण /

支撐
zhī chēng
उपकरण / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पतिट्ठान / उपनिस्सय / अपस्सय / पग्गाह / आलम्ब / पग्गह / आधार / आलम्बन / पतिट्ठा / ओलम्ब / निस्सय / अवस्सय / उपकार /

支撐
zhī chēng
उपकरण / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पतिट्ठान / उपनिस्सय / अपस्सय / पग्गाह / आलम्ब / पग्गह / आधार / आलम्बन / पतिट्ठा / ओलम्ब / निस्सय / अवस्सय / उपकार /

支撐
zhī chēng
उपकरण / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पतिट्ठान / उपनिस्सय / अपस्सय / पग्गाह / आलम्ब / पग्गह / आधार / आलम्बन / पतिट्ठा / ओलम्ब / निस्सय / अवस्सय / उपकार /

支撐
zhī chēng
उपकरण / दीप / ओलम्बक / उपत्थम्भ / पतिट्ठान / उपनिस्सय / अपस्सय / पग्गाह / आलम्ब / पग्गह / आधार / आलम्बन / पतिट्ठा / ओलम्ब / निस्सय / अवस्सय / उपकार /

निस्सरण
nissaraṇa
外出
wài chū
बहि / निय्यान / निस्सरण /

逃脫
táo tuō
離開
lí kāi
निस्सरण / अपक्कम / निक्खम / निग्गम / पक्कम /

逃脫
táo tuō
離開
lí kāi
निस्सरण / अपक्कम / निक्खम / निग्गम / पक्कम /

逃脫
táo tuō
離開
lí kāi
निस्सरण / अपक्कम / निक्खम / निग्गम / पक्कम /

逃脫
táo tuō
離開
lí kāi
निस्सरण / अपक्कम / निक्खम / निग्गम / पक्कम /

逃脫
táo tuō
離開
lí kāi
निस्सरण / अपक्कम / निक्खम / निग्गम / पक्कम /

逃脫
táo tuō
離開
lí kāi
निस्सरण / अपक्कम / निक्खम / निग्गम / पक्कम /

逃脫
táo tuō
離開
lí kāi
निस्सरण / अपक्कम / निक्खम / निग्गम / पक्कम /

逃脫
táo tuō
離開
lí kāi
निस्सरण / अपक्कम / निक्खम / निग्गम / पक्कम /

逃脫
táo tuō
離開
lí kāi
निस्सरण / अपक्कम / निक्खम / निग्गम / पक्कम /

逃脫
táo tuō
離開
lí kāi
निस्सरण / अपक्कम / निक्खम / निग्गम / पक्कम /

逃脫
táo tuō
離開
lí kāi
निस्सरण / अपक्कम / निक्खम / निग्गम / पक्कम /

निस्सेस
nissesa
一切
yī qiè
निखिल / असेस / निस्सेस /

全部
quán bù
केवल / निस्सेस / अनून / निखिल / कसिण / अनवसेस / असेस / अनूनक /

全部的
quán bù de
केवल / निखिल / असेस / निस्सेस / कसिण /

全體
quán tǐ
निखिल / निस्सेस / असेस /

凡
fán
निखिल / असेस / निस्सेस /

凡是
fán shì
निस्सेस / निखिल / असेस /

匳
hú
निखिल / निस्सेस / केवल / कसिण / असेस /

均
jūn
निखिल / निस्सेस / असेस / पटिभाग /

完全
wán quán
निखिल / अनूनक / कसिण / निस्सेस / पुण्ण / परिपूर / अनून / केवल / असेस / अनवसेस /

完全地
wán quán dì
अनवसेस / असेस / निस्सेस /

所有
suǒ yǒu
निस्सेस / असेस / निखिल /

整
zhěng
केवल / कसिण / असेस / पुण्ण / निस्सेस / अनूनक / परिपूर / अनवसेस / अनून / निखिल /

每
měi
असेस / निस्सेस / एकमेक / एकेक / निखिल /

皆
jiē
निस्सेस / असेस / निखिल /

霄
xū
निखिल / निस्सेस / असेस /

芸芸
yún yún
निखिल / असेस / अन्तरे / निस्सेस /

通通
tōng tōng
केवल / निस्सेस / अनून / अनवसेस / परिपूर / अनूनक / असेस / पुण्ण / निखिल / कसिण /

निस्सितक
nissitaka
信徒
xìn tú
निस्सितक / पक्ख / अनुगामी / अनुगामिक /

追隨者
zhuī suí zhě
निस्सितक / अनुगामिक / अनुगामी /

निस्सिरीक
nissiriika
不幸的
bù xìng de
निस्सिरीक / अलक्खिक /

不幸的
bù xìng de
निस्सिरीक / अलक्खिक /

不幸的
bù xìng de
निस्सिरीक / अलक्खिक /

不幸的
bù xìng de
निस्सिरीक / अलक्खिक /

不幸的
bù xìng de
निस्सिरीक / अलक्खिक /

निसा	निसीदन	निहीन	नीच	नीति
nisā	nisīdana	nihīna	nīca	nīti
入夜	位	低	低	定律
rù yè	wèi	dī	dī	dìng lǜ
夜	पद / आयतन / पदेस / अवहान / निसीदन / आसन / ठान / पीठ /	नीच / ओरक / निकिडु / अधम / छव / अवच / निहीन / निन्नता /	नीच / ओरक / निकिडु / अधम / छव / अवच / निहीन / निन्नता /	नीति / नीति / 定律
yè	位子	低下	低下	dìng lǜ
夜幕	wèi zi	dī xià	dī xià	नीति / नीति /
yè mù	ठान / पद / निसीदन / पीठ / पदेस / आसन /	ओरक / अधम / निकिडु / अवच / निहीन / नीच / छव /	ओरक / अधम / निकिडु / अवच / निहीन / नीच / छव /	律
夜晚	位置	低沉	低沉	lǜ
yè wǎn	wèi zhì	dī chén	dī chén	नीति / नीति /
夜游	अवहान / पद / पदेस / ठान / आसन / निसीदन / आयतन / पीठ /	छव / नीच / निकिडु / ओरक / अवच / अधम / निहीन /	छव / नीच / निकिडु / ओरक / अवच / अधम / निहीन /	律
yè yóu	后座	低的	低的	lǜ
夜行	hòu zuò	dī de	dī de	नीति / नीति /
yè xíng	पीठ / आसन / निसीदन /	निन्न / अधम / निकिडु / ओरक / नीच / निहीन / अवच / छव /	निन्न / अधम / निकिडु / ओरक / नीच / निहीन / अवच / छव /	法
宵	席	低級	低級	fǎ
xiāo	xí	dī jí	dī jí	धम्म / नीति /
宿	पद / ठान / आसन / निसीदन / पदेस / पीठ /	अधम / अवच / छव / निहीन / नीच / ओरक / निकिडु /	अधम / अवच / छव / निहीन / नीच / ओरक / निकिडु /	法則
sù	座	低落	低落	fǎ zé
整夜	zuò	dī luò	dī luò	法學
zhěng yè	निसीदन / पीठ / आसन /	छव / नीच / निकिडु / ओरक / अधम / अवच / निहीन /	छव / नीच / निकिडु / ओरक / अधम / अवच / निहीन /	fǎ xué
晚	座位	卑	卑	法律
wǎn	zuò wèi	bēi	bēi	fǎ lǜ
晚上	निसीदन / आसन / पीठ /	अवच / निकिडु / निहीन / छव / ओरक / नीच / अधम /	अवच / निकिडु / निहीन / छव / ओरक / नीच / अधम /	規律
wǎn shàng	座椅	卑下	卑下	guī lǜ
晦	zuò yǐ	bēi xià	bēi xià	नीर
hui	निसीदन / पीठ / आसन /	नीच / छव / निहीन / अवच / ओरक / निकिडु / अधम /	नीच / छव / निहीन / अवच / ओरक / निकिडु / अधम /	nīra
निसा / तिमिर / काळ / तिमिस / कण्ह /		有罪的	鄙	下水
每晚		yǒu zuì de	bǐ	xià shuǐ
měi wǎn		निहीन / पापिय / पापक /	नीच / अवच / छव / निहीन / ओरक / निकिडु / अधम /	तोय / ओक / नीर / अम्बु / जल / अण्ण / दक / उदक /
黄昏		鄙	隰	水
huáng hūn		bǐ	xí	shuǐ
黑夜		नीच / अवच / छव / निहीन / ओरक / निकिडु / अधम /	नीच / अधम / निहीन / अवच / निकिडु / छव / ओरक /	तोय / पान / अण्ण / जल / उदक / दक / अम्बु / नीर / ओक /
hēi yè		隰		水中
निसाण		xí		shuǐ zhōng
nisāṇa		नीच / अधम / निहीन / अवच / निकिडु / छव / ओरक /		ओक / जल / अण्ण / उदक / नीर / तोय / दक / अम्बु /
磨石				水源
mó shí				shuǐ yuán
निसाण / निक्स /				तोय / दक / नीर / पभव / अम्बु / निदान / उदक / ओक / जल / अण्ण /
निसामक				缺水
nisāmaka				quē shuǐ
深切注意的				नीर / जल / तोय / अण्ण / ओक / दक / अम्बु / उदक /
shēn qiè zhù yì de				
निसीथ				
nisītha				
午夜				
wǔ yè				
निसीथ / अड्ढरत्त /				
半夜				
bàn yè				
निसीथ / अड्ढरत्त /				
夜半				
yè bàn				
निसीथ / अड्ढरत्त /				

नील	पक्ख	पेक्खण	पकति	पकरण
nīla	pakkha	pekkhaṇa	pakati	pakaraṇa
沧	一方	看	人品	事件
cāng	yī fāng	kàn	rén pǐn	shì jiàn
湛藍	側	視力	人物	पसङ्ग / पकरण / पवत्ति / दब्ब /
zhàn lán	cè	shì lì	rén wù	事情
滄	पस्स / पक्ख /	पक्खन्दन	品格	shì qíng
cāng	信徒	pakkhandana	pǐn gé	किच्च / पकरण / पञ्ह / पसङ्ग /
碧	xìn tú	跳	大自然	कम्मन्त /
bì	निस्सित्तक / पक्ख / अनुगामी / अनुगामिक /	tiào	dà zì rán	場合
藍	側	पक्खन्दिका	धम्मता / भाव / धम्म / पकति /	chǎng hé
lán	cè	pakkhandikā	天性	पकरण / पसङ्ग /
藍色	पक्ख / पस्स /	痢	tiān xìng	时机
lán sè	党	lì	धम्मता / भाव / पकति / धम्म /	shí jī
藍	dǎng	अतिसार / पक्खन्दिका /	性情	पसङ्ग / खण / पकरण /
lán	半邊	痢疾	xìng qíng	机会
藍色	bàn biān	lì jí	अधिमुत्ति / धम्म / पकति / धम्मता / भाव /	jī huì
lán sè	पस्स / पक्ख /	पक्खन्दिका / अतिसार /	性格	पसङ्ग / ओकास / पकरण / खण /
青色	幫派	पकत	xìng gé	肇端
qīng sè	bāng pài	pakata	धम्म / भाव / पकति /	zhào duān
नीहार	पक्ख / भाग /	作出	性質	पकरण / पसङ्ग /
nīhāra	旁边	zuò chū	xìng zhì	近因
方式	páng biān	पकत / कत /	भाव / धम्म / धम्मता / पकति /	jìn yīn
fāng shì	पस्स / पक्ख /	作成	性質	पकरण / पसङ्ग /
कम / नीहार / नय / उपक्कम / पकार /	páng biān	zuò chéng	xìng zhì	पकार
方法	派	做	धम्मता / धम्म / भाव / पकति /	pakāra
fāng fǎ	pài	zuò	běn xìng	方式
नय / उपाय / पथ / पकार / नीहार / उपक्कम / उपनिसा / जाय / कम / मग्ग /	pài duì	做出	भाव / धम्म / पकति / धम्मता /	fāng shì
樣子	派對	zuò chū	běn zhì	कम / नीहार / नय / उपक्कम / पकार /
yàng zi	派系	做完	धम्म / धम्मता / भाव / पकति /	方法
नीहार / आकार / पकार /	pài xì	zuò wán	本质	fāng fǎ
舉止	निकाय / पक्ख / भाग /	कत / पकत /	běn zhì	नय / उपाय / पथ / पकार / नीहार / उपक्कम / उपनिसा / जाय / कम / मग्ग /
jǔ zhǐ	當事人	做成	धम्मता / धम्म / पकति / भाव /	模式
पकार / नय / कम / आकप्प / इरिया / नीहार / इरियना / उब्बहन /	dāng shì rén	zuò chéng	自然	mó shì
पक्कम	羽翼	कत / पकत /	zì rán	जाय / कम / पकार / नय /
pakkama	yǔ yì	पकत / पकत /	भाव / पकति / धम्मता / पाकतिक / धम्म /	樣子
離開	翅	zuò wán	自然界	yàng zi
lí kāi	翅膀	कत / पकत /	zì rán jiè	नीहार / आकार / पकार /
निस्सरण / अपक्कम / निक्खम / निग्गम / पक्कम /	chì bǎng	पकत / पकत /	पकप्पना	舉止
	पत्त / पक्ख /	पकत / पकत /	pakappanā	jǔ zhǐ
	翼	पकत / पकत /	安排	पकार / नय / कम / आकप्प / इरिया / नीहार / इरियना / उब्बहन /
	yì	पकत / पकत /	ān pái	順序
	跛子	पकत / पकत /	पकप्पना / परिकम्म / पज्जापन / अज्झासय /	shùn xù
	bō zi	पङ्गु / पक्ख / पङ्गुल / पीठसप्पी / कुणी /	計劃	पकार / अनुक्कम / नय / जाय / कम / परियोय /
	边	पङ्गु / पक्ख / पङ्गुल / पीठसप्पी / कुणी /	jì huà	
	biān	पत्त / पक्ख / परियन्त /	पकप्पना / नय /	
	黨	黨		
	dǎng	黨		

能量
néng liàng
उस्सुक्क / पग्गाह / धिति / पग्गह / उद्धान /
舉起
jǔ qǐ
पग्गाह / पग्गह /
贊助
zàn zhù
पग्गाह / पग्गह /
高能
gāo néng
उद्धान / उस्सुक्क / पग्गह / पग्गाह / धिति /

पग्घरण
paggharaṇa
滴
dī
थेव / पतन / पग्घरण /

पग्गुण
paguṇa
熟悉的
shú xī de

पग्ग्भ
pagabbha
勇敢的
yǒng gǎn de
पग्ग्भ / निब्भय /

पङ्क
paṅka
坭
ní

कलल / पङ्क / कद्दम / चिक्खल्ल /
泥
ní
उक्काप / कलल / कद्दम / जल्लिका / चिक्खल्ल / कालुसिय / असुचि / पङ्क /
泥巴
ní bā

चिक्खल्ल / पङ्क / कद्दम / कद्दम / चिक्खल्ल / पङ्क / कलल / कलल /
泥巴
ní ba
चिक्खल्ल / पङ्क / कद्दम / कद्दम / चिक्खल्ल / पङ्क / कलल / कलल /
泥沼
ní zhǎo

पङ्क / कलल / चिक्खल्ल /
पङ्गु
paṅgu
跛子
bǒ zi
पङ्गु / पक्ख / पङ्गुल / पीठसप्पी / कुणी /
跛足的
bǒ zú de
खञ्ज / पङ्गु / पङ्गुल /

पङ्गु
paṅgu
跛子
bǒ zi
पङ्गु / पक्ख / पङ्गुल / पीठसप्पी / कुणी /
跛足的
bǒ zú de
खञ्ज / पङ्गु / पङ्गुल /

पङ्गुल
paṅgula
跛子
bǒ zi
पङ्गु / पक्ख / पङ्गुल / पीठसप्पी / कुणी /
跛足的
bǒ zú de
खञ्ज / पङ्गु / पङ्गुल /
पुङ्गव
puṅgava
公牛
gōng niú
गो / पुङ्गव / गोग /

पच्चेक
pacceka
分开
fēn kāi
分開
fēn kāi
分離
fēn lí
पच्चेक / भेद /
各自的
gè zì de

पच्चक्खान
paccakkhāna
拒絕
jù jué
अवक्कार / पच्चक्खान / पटिनिस्सग्ग / कसट /

पच्चुद्धान
paccuṭṭhāna
尊敬
zūn jìng
अच्चना / चित्तीकार / नमक्कार / पच्चुद्धान / पूजा / नमस्सन / पुरेक्खार / गारव / पटिपूजना / अपचायन /
崇敬
chóng jìng
अपचायन / पटिपूजना / पच्चुद्धान / गारव / अच्चना / नमस्सन / चित्तीकार /

पच्चत्थरण
paccattharaṇa
包含
bāo hán
पच्चत्थरण / अपिधान / पापुरण / पच्छाद / पिधान / छदन /
包庇
bāo bì
पापुरण / छदन / खेटक / पच्चत्थरण / खेट / पिधान / अपिधान / पच्छाद /
包罗
bāo luó
अपिधान / छदन / पिधान / पच्छाद / पापुरण / पच्चत्थरण /
套
tào
अत्थरण / पापुरण / अपिधान / पच्छाद / पच्चत्थरण / छदन / पिधान /
套子
tào zi
पिधान / अपिधान / पच्छाद / पच्चत्थरण / पापुरण / छदन /
封皮
fēng pí
पापुरण / अपिधान / पच्छाद / पच्चत्थरण / पिधान / छदन /
幌子
huǎng zi
पिधान / पच्चत्थरण / छदन / पापुरण / पच्छाद / अपिधान /
床單
chuáng dān
अत्थरण / पत्त / पट्ट / पच्चत्थरण /
摺
wǔ
अपिधान / पापुरण / छदन / पिधान / पच्छाद / पच्चत्थरण /
掩
yǎn
पिधान / पच्चत्थरण / पापुरण / अपिधान / पच्छाद / छदन /
掩蓋
yǎn gài
पच्छाद / पिधान / पच्चत्थरण / पापुरण / छदन / अपिधान /
掩護
yǎn hù
पच्छाद / अपिधान / पच्चत्थरण / पिधान / पापुरण / छदन /
掩飾
yǎn shì
छदन / पापुरण / पच्छाद / पिधान / पच्चत्थरण / अपिधान /
蓋
gài
पिधान / अपिधान / पापुरण / पच्चत्थरण / छदन / पच्छाद /
罩
zhào
अत्थरण / पापुरण / पिधान / अपिधान / छदन / पच्चत्थरण / पच्छाद /

蓋
gài
पिधान / पच्चत्थरण / छादन / अपिधान / पच्छाद / छदन / पापुरण /
蓋上
gài shàng
छदन / अपिधान / पापुरण / पिधान / पच्छाद / पच्चत्थरण /
蓋子
gài zi
अपिधान / पच्छाद / पिधान / छदन / पच्चत्थरण / थकन / पापुरण / पटल /
蔽
bì
पच्छाद / पिधान / छदन / पापुरण / अपिधान / पच्चत्थरण /
覆
fù
पापुरण / पच्छाद / छदन / पच्चत्थरण / पिधान / पच्चत्थरण /
覆蓋
fù gài
अपिधान / छदन / पच्छाद / पच्चत्थरण / पापुरण / पिधान / परियोनहन /
遮
zhē
छदन / छादन / पच्चत्थरण / पिधान / पच्छाद / पापुरण / अपिधान /
遮住
zhē zhù
पिधान / पच्छाद / पापुरण / छदन / पच्चत्थरण / अपिधान /
遮掩
zhē yǎn
छदन / पापुरण / पच्छाद / अपिधान / पिधान / पच्चत्थरण /

पच्चत्थिक
paccatthika
仇人
chóu rén
पच्चनिक / पच्चत्थिक / पटिकण्टक / अभिघाती / अमित्त / पच्चामित्त / दिस / पटिपक्ख / अरि /
件
wǔ
पटिपक्ख / अमित्त / पच्चत्थिक / पच्चनिक /
反對
fǎn duì
對手
duì shǒu
पच्चामित्त / पच्चनिक / अमित्त / पच्चत्थिक / पटिपक्ख /
敵
dí
अमित्त / अभिघाती / अरि / पच्चत्थिक / पच्चनिक / पटिपक्ख / दिस / पच्चामित्त / पटिकण्टक /
敵人
dí rén
अमित्त / पटिपक्ख / अभिघाती / पटिकण्टक / दिस / अरि / पच्चत्थिक / पच्चनिक / पच्चामित्त /
敵
dí
अमित्त / अभिघाती / पच्चनिक / पच्चामित्त / दिस / पटिकण्टक / पटिपक्ख / अरि / पच्चत्थिक /
敵人
dí rén
दिस / अभिघाती / पच्चनिक / पटिपक्ख / अरि / पच्चत्थिक / पटिकण्टक / पच्चामित्त / अमित्त /
敵方
dí fāng
पच्चत्थिक / अरि / दिस / पटिकण्टक / पच्चामित्त / अमित्त / पटिपक्ख / अभिघाती / पच्चनिक /
敵軍
dí jūn
पटिपक्ख / दिस / पच्चनिक / पटिकण्टक / पच्चत्थिक / अरि / अमित्त / अभिघाती / पच्चामित्त /

पच्चन
paccana
沸騰
fèi téng
沸騰
fèi téng
苦楚
kǔ chǔ
असात / पच्चन /

पच्यनिक	पच्यवेक्खन	पच्यामित्त	पुच्छ	पच्छाद
paccanika	paccavekkhana	paccāmitta	puccha	pacchāda
不利的	反射	仇人	尾	包含
bù lì de	fǎn shè	chóu rén	wěi	bāo hán
पच्यनिक / पटिकण्टक /	反思	पच्यनिक / पच्यत्थिक / पटिकण्टक / अभिघाती / अमित्त / पच्यामित्त / दिस / पटिपक्ख / अरि /	नङ्गुडु / पुच्छ /	पच्यत्थरण / अपिधान / पापुरण / पच्छाद / पिधान / छदन /
仇人	反省	अरि /	尾巴	包庇
chóu rén	fǎn xǐng	对手	wěi bā	bāo bì
पच्यनिक / पच्यत्थिक / पटिकण्टक / अभिघाती / अमित्त / पच्यामित्त / दिस / पटिपक्ख / अरि /	檢討	duì shǒu	पुच्छ / नङ्गुडु / पुच्छ / नङ्गुडु /	पापुरण / छदन / खेटक / पच्यत्थरण / खेट / पिधान / अपिधान / पच्छाद /
件	檢討	पच्यामित्त / पच्यनिक / अमित्त / पच्यत्थिक / पटिपक्ख /	尾巴	包罗
wǔ	jiǎn tǎo	敌	wěi ba	bāo luó
पटिपक्ख / अमित्त / पच्यत्थिक / पच्यनिक /	पच्यगमन	敵	पुच्छ / नङ्गुडु / पुच्छ / नङ्गुडु /	अपिधान / छदन / पिधान / पच्छाद / पापुरण / पच्यत्थरण /
否定的	paccāgamana	dí	尾部	套
fǒu dìng de	交還	अमित्त / अभिघाती / अरि / पच्यत्थिक / पच्यनिक / पटिपक्ख / दिस / पच्यामित्त / पटिकण्टक /	wěi bù	tào
对手	jiāo hái	敌人	पुच्छ / नङ्गुडु /	अत्थरण / पापुरण / अपिधान / पच्छाद / पच्यत्थरण / छदन / पिधान /
duì shǒu	回	敌人	盯梢	套子
पच्यामित्त / पच्यनिक / अमित्त / पच्यत्थिक / पटिपक्ख /	回	dí rén	dīng shāo	tào zi
敌	huí lái	अमित्त / पटिपक्ख / अभिघाती / पटिकण्टक / दिस / अरि / पच्यत्थिक / पच्यनिक / पच्यामित्त /	पुच्छ / नङ्गुडु /	पिधान / अपिधान / पच्छाद / पच्यत्थरण / पापुरण / छदन /
dí	huí lái	敵	पच्छा	封皮
अमित्त / अभिघाती / अरि / पच्यत्थिक / पच्यनिक / पटिपक्ख / दिस / पच्यामित्त / पटिकण्टक /	回去	dí	pacchā	fēng pí
敌人	huí qù	अमित्त / अभिघाती / पच्यनिक / पच्यामित्त / दिस / पटिकण्टक / पटिपक्ख / अरि / पच्यत्थिक /	之后	पापुरण / अपिधान / पच्छाद / पच्यत्थरण / पिधान / छदन /
dí rén	回歸	敵人	zhī hòu	幌子
अमित्त / पटिपक्ख / अभिघाती / पटिकण्टक / दिस / अरि / पच्यत्थिक / पच्यनिक / पच्यामित्त /	huí guī	dí rén	परं / पच्छा /	huǎng zi
敵	归	दिस / अभिघाती / पच्यनिक / पटिपक्ख / अरि / पच्यत्थिक / पटिकण्टक / पच्यामित्त / अमित्त /	后	पिधान / पच्यत्थरण / छदन / पापुरण / पच्छाद / अपिधान /
dí	guī	敵方	hòu	括
अमित्त / अभिघाती / पच्यनिक / पच्यामित्त / दिस / पटिकण्टक / पटिपक्ख / अरि / पच्यत्थिक /	歸來	dí fāng	पच्छा / परं /	wǔ
敵人	guī lái	पच्यत्थिक / अरि / दिस / पटिकण्टक / पच्यामित्त / अमित्त / पटिपक्ख / अभिघाती / पच्यनिक /	然後	अपिधान / पापुरण / छदन / पिधान / पच्छाद / पच्यत्थरण /
dí rén	पच्यगमन / पटिदान / निय्यातन /	敵軍	rán hòu	掩
दिस / अभिघाती / पच्यनिक / पटिपक्ख / अरि / पच्यत्थिक / पटिकण्टक / पच्यामित्त / अमित्त /	返	dí jūn	अथो / पच्छा / अथ / अपर / तु /	wǎn
敵方	fǎn	पटिपक्ख / दिस / पच्यनिक / पटिकण्टक / पच्यत्थिक / अरि / अमित्त / अभिघाती / पच्यामित्त /	पुच्छा	पिधान / पच्यत्थरण / पापुरण / पच्छाद / छदन /
dí fāng	返回	魔鬼	pucchā	幌子
पच्यत्थिक / अरि / दिस / पटिकण्टक / पच्यामित्त / अमित्त / पटिपक्ख / अभिघाती / पच्यनिक /	fǎn huí	mó guǐ	問題	yǎn gài
敵軍	返航	पच्यहार	wèn tí	पच्छाद / पिधान / पच्यत्थरण / पापुरण / छदन / अपिधान /
dí jūn	fǎn háng	paccāhāra	पुच्छा / पञ्ह / परिपुच्छा /	掩護
पटिपक्ख / दिस / पच्यनिक / पटिकण्टक / पच्यत्थिक / अरि / अमित्त / अभिघाती / पच्यामित्त /	迴	包涵		yǎn hù
敵軍	huí	bāo hán		पच्छाद / अपिधान / पच्यत्थरण / पिधान / पापुरण / छदन /
dí jūn	退回	पच्यहार / इस्स / अच्छ /		掩飾
पटिपक्ख / दिस / पच्यनिक / पटिकण्टक / पच्यत्थिक / अरि / अमित्त / अभिघाती / पच्यामित्त /	tuì huí	原諒		yǎn shì
相反的	退还	yuán liàng		छदन / पापुरण / पच्छाद / पिधान / पच्यत्थरण / अपिधान /
xiāng fǎn de	tuì hái	宽恕		蓋
पटिलोम / पच्यनिक / पटिपक्ख /	送回	kuān shù		gài
पच्ययिक	sòng huí	पच्यहार / खन्ति /		पिधान / अपिधान / पापुरण / पच्यत्थरण / छदन / पच्छाद /
paccayika	重回	歉		罩
可靠的	zhòng huí	qiàn		zhào
kě kào de	重返	歉意		अत्थरण / पापुरण / पिधान / अपिधान / छदन / पच्यत्थरण / पच्छाद /
पच्ययिक / थैत /	zhòng fǎn	qiàn yì		蓋
		致歉		gài
		zhì qiàn		पिधान / पच्यत्थरण / छदन / अपिधान / पच्छाद / छदन / पापुरण /
		道歉		
		dào qiàn		

蓋上	पच्छिम	पचारक	पज्ज	馬路
gài shàng	pacchima	pacāraḱa	pajja	mǎ lù
छदन / अपिधान / पापुरण / पिधान / पच्छाद / पच्चत्थरण /	刚过去的	出品	修路	अञ्जस / मग्ग / पज्ज / पथ / पन्थ /
蓋子	gāng guò qù de	chū pǐn	xiū lù	पुज्ज
gài zi	往西	出版者	मग्ग / अञ्जस / पन्थ / पथ / पज्ज /	pujja
अपिधान / पच्छाद / पिधान / छदन / पच्चत्थरण / थकन / पापुरण / पटल /	wǎng xī	chū bǎn zhě	徑	表示尊敬的
蔽	पतीचि / पतीचि / पच्छिम / पच्छिम /	发行人	jìng	biǎo shì zūn jìng de
bì	往西	fā xíng rén	पन्थ / पज्ज / अञ्जस / पथ / मग्ग /	
पच्छाद / पिधान / छदन / पापुरण / अपिधान / पच्चत्थरण /	wǎng xī	पुँछनी	徑	
覆	पतीचि / पतीचि / पच्छिम / पच्छिम /	puñchanī	jìng	
fù	最低的	巾	पन्थ / पथ / अञ्जस / मग्ग / पज्ज /	
पापुरण / पच्छाद / छदन / अपिधान / पिधान / पच्चत्थरण /	zuì dī de	jīn	詩	
覆蓋	ओरिम / पच्छिम /	手巾	shī	
fù gài	最后	shǒu jīn	पज्ज / कब्ब / कावेय्य / गेय्य /	
अपिधान / छदन / पच्छाद / पच्चत्थरण / पापुरण / पिधान / परियोनहन /	zuì hòu	毛巾	路	
遮	पच्छिम / अन्तिम /	máo jīn	lù	
zhē	最后的		पथ / मग्ग / पन्थ / अञ्जस / पज्ज /	
छदन / छादन / पच्चत्थरण / पिधान / पच्छाद / पापुरण / अपिधान /	zuì hòu de		路上	
遮住	चरिम / चरिमक / पच्छिम /		lù shàng	
zhē zhù	最新		पथ / पन्थ / अञ्जस / पज्ज / मग्ग /	
पिधान / पच्छाद / पापुरण / छदन / पच्चत्थरण / अपिधान /	zuì xīn		路径	
遮掩	最近的		lù jìng	
zhē yǎn	zui jìn de		मग्ग / अञ्जस / पथ / पज्ज / पन्थ /	
छदन / पापुरण / पच्छाद / अपिधान / पिधान / पच्चत्थरण /	अचिर / पच्छिम /		路线	
पच्छिज्जन	最遲		lù xiàn	
pacchijjana	zuì chí		पज्ज / मग्ग / पन्थ / अञ्जस / पथ /	
中止	西		路途	
zhōng zhǐ	xī		lù tú	
पच्छिज्जन / उक्खपन / उपच्छेद / उक्खेपन /	पतीचि / अपर / अपर / पतीचि / पच्छिम / पच्छिम /		पथ / मग्ग / पज्ज / पन्थ / अञ्जस /	
	西		轨	
	xī		guǎ	
	पतीचि / अपर / अपर / पतीचि / पच्छिम / पच्छिम /		पज्ज / पथ / पन्थ / मग्ग / अञ्जस /	
	西域		轨道	
	xī yù		guǎ dào	
	पच्छिम / अपर /		पज्ज / मग्ग / अञ्जस / पन्थ / पथ /	
	西方的		途	
	xī fāng de		tú	
	पच्छिम / अपर /		मग्ग / पन्थ / अञ्जस / पज्ज / पथ /	
	西洋		途徑	
	xī yáng		tú jìng	
	अपर / पच्छिम / पच्छिम / अपर /		मग्ग / पथ / पन्थ / पज्ज / अञ्जस /	
	西洋		通路	
	xī yáng		tōng lù	
	अपर / पच्छिम / पच्छिम / अपर /		मग्ग / पन्थ / ओतार / अञ्जस / पथ / पज्ज /	
पचलायिका	पचलायिका		道	
pacalāyikā	打瞌睡		dào	
	dǎ kē shuì		पथ / पन्थ / अञ्जस / मग्ग / पज्ज /	
			道路	
			dào lù	
			मग्ग / पन्थ / अञ्जस / पथ / पज्ज /	

पज्जोत
pajjota
亮光
liàng guāng
भानु / आभा / अवभास / जोति / पभास / पज्जोत / पभा / भा / आलोक / निभा / दित्ति / पदीप /
光
guāng
आलोक / दित्ति / भा / पज्जोत / पदीप / पभास / आभा / पभा / जोति / अवभास / भानु / निभा /
光彩
guāng cǎi
आभा / निभा / पज्जोत / उज्जोत /
光線
guāng xiàn
अवभास / पदीप / निभा / पभास / पज्जोत / पभा / भानु / कर / जोति / आलोक / किरण / दित्ति / भा / आभा /
對光
duì guāng
पज्जोत / जोति / भानु / पदीप / पभा / अवभास / आलोक / दित्ति / निभा / भा / पभास / आभा /
淡
dàn
जोति / निभा / पज्जोत / पभा / भानु / आलोक / भा / अवभास / दित्ति / पभास / पदीप / आभा /
淡淡
dàn dàn
पदीप / जोति / दित्ति / अवभास / आभा / पज्जोत / पभा / पभास / आलोक / भानु / भा / निभा /
清淡
qīng dàn
पभास / पज्जोत / पदीप / आलोक / पभा / दित्ति / जोति / भा / निभा / भानु / अवभास / आभा /
灯
dēng
दित्ति / पदीप / अवभास / पभास / आलोक / पभा / जोति / भा / भानु / पज्जोत / आभा / निभा /
燈
dēng
पज्जोत / दित्ति / पभा / जोति / भानु / निभा / भा / पदीप / पभास / आभा / अवभास / आलोक / दीप /
燈光
dēng guāng
पज्जोत / भानु / आलोक / भा / पभा / अवभास / पभास / आभा / दित्ति / निभा / जोति / पदीप /
發光
fā guāng
भानु / आभा / पभास / पज्जोत / पभा / अवभास / पदीप / जोति / भा / निभा / आलोक / दित्ति /
輕
qīng
दित्ति / पभास / आलोक / पभा / जोति / पदीप / निभा / पज्जोत / भानु / आभा / अवभास / भा /
輕便
qīng biàn
पदीप / आभा / दित्ति / पभास / अवभास / निभा / पभा / आलोक / पज्जोत / भानु / भा / जोति /

轻
qīng
पज्जोत / निभा / पदीप / पभा / भा / जोति / पभास / अवभास / भानु / दित्ति / आलोक / आभा /
पजा
pajā
一代
yī dài
世
shì
जीव / जगति / पजा / पाण / चरित /
世代
shì dài
代
dài
पजा / आयु /
代人
dài rén
子孫
zǐ sūn
पसव / अपच्च / पजा /
孳
nú
अपच्च / पुत्त / पजा / पसव / बाल /
生成
shēng chéng
輩
bèi
पूजा
pūjā
供奉
gòng fèng
अपचायन / आहृति / आहुण / नमस्सन / जुहने / पूजा १
尊敬
zūn jìng
अचचना / चित्तीकार / नमक्कार / पचुद्धान / पूजा / नमस्सन / परेक्खार / गारेव / पटिपूजना / अपचायन /

पजायन
pajāyana
出生
chū shēng
उप्पज्जन / उप्पाद / जाति / पजायन / निब्बत्तन / जायन /
出身
chū shēn
पजायन / उप्पज्जन / जाति / उप्पत्ति / निब्बत्तन / पभव / उप्पाद / उद्धान / जायन /
存在
cún zài
अत्थिता / पजायन / पवत्तन /
生下
shēng xià
पजायन / उप्पाद / जायन / उप्पज्जन / जाति / निब्बत्तन /
生出
shēng chū
पजायन / जायन / उप्पाद / उप्पज्जन / जाति / निब्बत्तन /
誕
dàn
जाति / उप्पाद / पजायन / निब्बत्तन / जायन / उप्पज्जन /
誕
dàn
जाति / उप्पाद / पजायन / जायन / निब्बत्तन / उप्पज्जन /
पञ्च
pañca
五
wǔ
五個
wǔ gè
五次
wǔ cì
五的
wǔ de
伍
wu
पञ्च / पञ्च /
伍
wǔ
पञ्च / पञ्च /
पञ्चविध
pañcavidha
五倍
wǔ bèi
पञ्चानन्तरिय
pañcānantariya
緦父
shì fù

पुञ्ज
puñja
一堆
yī duī
堆
duī
काय / पुञ्ज / चिति / पूग /
桩
zhuāng
椿
zhuāng
पुञ्ज / खील / कील /
穢
zhě
पुञ्ज / चिति / काय / पूग /
पञ्जर
pañjara
笼
lóng
पञ्जर / पञ्जर /
笼
lǒng
पञ्जर / पञ्जर /
籠
lóng
籠子
lóng zi
पुञ्ज
puñña
值得
zhí de
पुञ्ज / आनिसंस / पुञ्ज / आनिसंस /
值得
zhí dé
पुञ्ज / आनिसंस / पुञ्ज / आनिसंस /
功
gōng
थाम / आधिपच्च / आनिसंस / आधिपतेय्य / आनुभाव / बल / तेज / पुञ्ज /
正義
zhèng yì

पञ्जा
paññā
智
zhì
बु / पञ्जा / भूरि / ज्ञाण / अमोह /
智慧
zhì huì
पञ्जा / बु / भूरि / ज्ञाण / अमोह /
洞察力
dòng chá lì
ज्ञाण / पञ्जा / दस्सन / निज्झान /
深知
shēn zhī
आजानन / परिजानन / अधिगम / पञ्जा / बोध / अनुबोध / अवबोध /
知識
zhī shi
पञ्जा / अधिगम / बोध / आजानन / परिजानन / अनुबोध / अवबोध /
知識
zhī shī
अनुबोध / अधिगम / पञ्जा / अवबोध / बोध / परिजानन / आजानन /
知道
zhī dào
識
shi
अवबोध / बोध / परिजानन / अनुबोध / पञ्जा / आजानन / अधिगम /
识
shi
अधिगम / अवबोध / बोध / परिजानन / बोध / पञ्जा / पञ्जा / अनुबोध / परिजानन / अनुबोध / अधिगम / अवबोध / आजानन /
识
shī
अधिगम / अवबोध / बोध / परिजानन / बोध / पञ्जा / पञ्जा / अनुबोध / परिजानन / अनुबोध / अधिगम / अवबोध / आजानन /
पञ्जाण
paññāṇa
告示
gào shì
निवेदन / आरोचना / जत्ति / पञ्जाण / ज्ञापन / पवेदन /
表徵
biǎo zhǐ
पञ्जापन
paññāpana
公告
gōng gào
जत्ति / निवेदन / ज्ञापन / आरोच ना / पवेदन / पञ्जापन /
安排
ān pái
पक्कपणा / परिकम्म / पञ्जापन / अज्झासय /

पञ्ह	पटु	पुट	पुटक	पटङ्ग
pañha	paṭu	puṭa	puṭaka	paṭaṅga
事情	乖	一籃	一籃	蚱
shì qíng	guāi	yī lán	yī lán	zhà
किच्च / पकरण / पञ्ह / पसङ्ग / कम्मन्त /	छेक / दक्ख / पटु / कल्ल / कुसल /	पुट / पुटक / पिटक /	पुट / पुटक / पिटक /	अधिपातक / पटङ्ग /
問題	伶	兜	兜	蚱蟻
wèn tí	líng	dōu	dōu	zhà měng
पुच्छा / पञ्ह / परिपुच्छा /	कल्ल / पटु / कल्ल / छेक / दक्ख /	पुट / पुटक /	पुट / पुटक /	अधिपातक / पटङ्ग /
回答	/ दक्ख / छेक / कुसल / कुसल /	匚	匚	蟻
huí dá	伶俐	fāng	fāng	měng
पटिवचन / पञ्ह / उत्तर /	ling lì	पुटक / पुट / पिटक /	पुटक / पुट / पिटक /	अधिपातक / पटङ्ग /
审问	कल्ल / पटु / छेक / दक्ख /	口袋	口袋	蝗虫
shěn wèn	俐	kǒu dài	kǒu dài	huáng chóng
提問	lì	पुट / पुटक /	पुट / पुटक /	अधिपातक / पटङ्ग /
tí wèn	दक्ख / छेक / पटु / कल्ल / कुसल /	吊籃	吊籃	蠟
質問	/	diào lán	diào lán	měng
zhì wèn	憊	पुट / पिटक / पुटक /	पुट / पिटक / पुटक /	अधिपातक / पटङ्ग /
質疑	jiào	容器	容器	पट्ट
zhì yí	कल्ल / पटु / दक्ख / छेक / कुसल /	róng qì	róng qì	patta
質詢	/	पुट / कटाह / आधान / पेळा /	पुट / कटाह / आधान / पेळा /	叶
zhì xún	妙	उपधारण / पुटक / आधार /	उपधारण / पुटक / आधार /	yè
अभिनयन / पञ्ह /	miào	棹	棹	दल / पलास / पण्णक / पत्त /
问题	दक्ख / कुसल / पटु / कल्ल / छेक /	lǎo	lǎo	पण्ण / पट्ट /
wèn tí	巧妙	पिटक / पुटक / पुट /	पिटक / पुटक / पुट /	平板
पट	qiǎo miào	盂	盂	píng bǎn
paṭa	छेक / कल्ल / पटु / दक्ख /	yú	yú	पट्ट / पट्टक /
佈	巧妙的	पुटक / पुट / कोसक / पेळा /	पुटक / पुट / कोसक / पेळा /	床單
bù	qiǎo miào de	आधार /	आधार /	chuáng dān
चोळ / चेल / अम्बर / दुस्स / पट /	दक्ख / कल्ल / पटु / छेक /	筐	筐	अत्थरण / पत्त / पट्ट / पच्चत्थरण /
布	聰	kuāng	kuāng	片
bù	cōng	पुट / पिटक / पुटक /	पुट / पिटक / पुटक /	piàn
पट / चेल / अम्बर / चोळ / दुस्स /	दक्ख / पटु / पण्डित / छेक /	笱	笱	पट्ट / पत्त /
布帛菽粟	कल्ल /	shāo	shāo	箔
bù bó shū sù	聰明	पुटक / पुट / पिटक /	पुटक / पुट / पिटक /	bó
पट / चोळ / दुस्स / अम्बर / चेल /	cōng míng	lán	lán	पण्णक / पलास / पण्ण / पत्त /
布料	पटु / कल्ल / दक्ख / छेक /	पिटक / पुटक / पुट /	पिटक / पुटक / पुट /	दल / पट्ट /
bù liào	聰明的	簾	簾	繡帶
चेल / दुस्स / चोळ / पट / अंसु /	cōng míng de	lù	lù	běng dài
अम्बर / चोळक /	दक्ख / कल्ल / छेक / पटु /	पुट / पुटक / पिटक /	पुट / पुटक / पिटक /	पट्ट / पट्टिका /
桌布	聰明	籃	籃	繃帶
zhuō bù	cōng míng	lán	lán	bēng dài
चोळ / पट / चेल / अम्बर / दुस्स /	दक्ख / छेक / पटु / कल्ल /	पिटक / पुट / पुटक /	पिटक / पुट / पुटक /	पट्टिका / पट्ट /
衣料	高明	籃子	籃子	羽毛
yī liào	gāo míng	lán zi	lán zi	yǔ máo
अम्बर / दुस्स / पट / चोळ / चेल /	दक्ख / कल्ल / पटु / छेक /	पिटक / पुटक / पुट /	पिटक / पुटक / पुट /	पत्त / पट्ट /
衣服		袋	袋	葉
yī fú		dài	dài	yè
चेल / छादन / दुस्स / निवासन /		पुटक / पुट / पसिब्बक /	पुटक / पुट / पसिब्बक /	पत्त / पट्ट / दल / पण्णक / पण्ण /
अच्छादन / पट /				पलास /
				葉子
				yè zi
				पलास / पट्ट / पण्णक / पत्त /
				पण्ण / दल /
				薄片
				bó piàn
				पट्टक / पट्ट /
				頁
				yè
				पत्त / दल / पण्णक / पट्ट /
				पलास / पण्ण /

पट्टक	पटल	पटिक्खेप	पटिग्गणहन	पटिच्छादी
paṭṭaka	paṭala	paṭikkhepa	paṭigganhana	paṭicchādī
平板	信封	不存在	前台	隱蔽
píng bǎn	xìn fēng	bù cún zài	qián tái	yǐn bì
पट्ट / पट्टक /	封套	反对	接受	पटिच्छादक / पटिच्छादी /
薄片	fēng tàò	fǎn duì	jiē shòu	
bó piàn	封袋	否定	接待	
पट्टक / पट्ट /	fēng dài	fǒu dīng	jiē dài	
पट्टन	影片	न / पटिक्खेप /	पटिग्गहेतु	
paṭṭana	yǐng piàn	异议	paṭiggahetu	
口岸	片子	yì yì	接受者	
kǒu àn	片子	拒绝	jiē shòu zhě	
埠	piàn zi	拒絶	पटिगच्च	
bù	电影	jù jué	paṭigacca	
左舷的	diàn yǐng	न / पटिक्खेप /	預先	
zuǒ xián de	膜	異議	yù xiān	
港口	mó	yì yì	पटिघ	
gǎng kǒu	膠片	पटिकण्टक	paṭigha	
पट्टन / नावा /	jiāo piàn	paṭikaṇṭaka	paṭigha	
端口	蓋子	不利的	厭惡	
duān kǒu	蓋子	bù lì de	yàn è	
避难所	gài zi	पच्चनिक / पटिकण्टक /	जिगुच्छन / पटिघ / अनालय /	
bì nán suǒ	अपिधान / पच्छाद / पिधान /	仇人	अरति / पटिघात / निब्बि /	
पट्टन / ताण /	छदन / पच्चत्थरण / थकन /	chóu rén	激怒	
पट्टिका	पापुरण / पटल /	पच्चनिक / पच्चत्थिक /	jī nù	
paṭṭikā	薄膜	पटिकण्टक / अभिघाती / अमित्त /	कोप / पकोप / पटिघ / आघात /	
繃帶	bó mó	पच्चामित्त / दिस / पटिपक्ख /	पदोस /	
bēng dài	軟片	अरि /	碰撞	
पट्टिका / पट्टिका /	ruǎn piàn	敌	pèng zhuàng	
繃帶	पटि	dí	पटिघात / पटिघ / आघात /	
bēng dài	पति	अमित्त / अभिघाती / अरि /	अभिघात /	
腰帶	相反	पच्चत्थिक / पच्चनिक / पटिपक्ख	पटिघात	
yāo dài	xiāng fǎn	/ दिस / पच्चामित्त / पटिकण्टक /	paṭighāta	
	पटि / पति / पटि /	敌人	厭惡	
	相反	dí rén	yàn è	
	xiāng fǎn	अमित्त / पटिपक्ख / अभिघाती /	जिगुच्छन / पटिघ / अनालय /	
	पटि / पति / पटि /	पटिकण्टक / दिस / अरि /	अरति / पटिघात / निब्बि /	
	逆	पच्चत्थिक / पच्चनिक /	碰撞	
	nì	पच्चामित्त /	pèng zhuàng	
	पटि / पति / पटि /	敵	पटिघात / पटिघ / आघात /	
	逆	dí	अभिघात /	
	nì	अमित्त / अभिघाती / पच्चनिक /	पटिच्च	
	पटि / पति / पटि /	पच्चामित्त / दिस / पटिकण्टक /	paṭicca	
	पटिक्कूल	पटिपक्ख / अरि / पच्चत्थिक /	因	
	paṭikkūla	पटिकण्टक / पच्चामित्त / अमित्त /	yīn	
	不愉快的	敵方	कारण / निदान / पटिच्च / अपदेस	
	bù yú kuài de	dí fāng	/ अत्थवस / ठान / निमित्त / पद /	
	पटिक्कूल / अनिड्ड / असुभ /	पच्चत्थिक / अरि / दिस /	關於	
	असात / अप्पिय /	पटिकण्टक / पच्चामित्त / अमित्त	guān yú	
	पटिककोसना	/ पटिपक्ख / अभिघाती / पच्चनिक	आरब्ध / पटिच्च /	
	paṭikkosanā	/	पटिच्छन्न	
	抗議	敵軍	paṭicchanna	
	kàng yì	dí jūn	隱	
	抗議	पटिपक्ख / दिस / पच्चनिक /	yǐn	
	kàng yì	पटिकण्टक / पच्चत्थिक / अरि /	पटिच्छन्न / छन्न /	
		अमित्त / अभिघाती / पच्चामित्त /	पटिच्छादक	
		पटिकम्म	paṭicchādaka	
		paṭikkamma	paṭicchādaka	
		矯正	隱蔽	
		jiǎo zhèng	yǐn bì	
		贖罪	पटिच्छादक / पटिच्छादी /	
		shú zuì		

पटिजग्गन	पटिञ्ञा	पटिपक्ख	पटिपज्जन	पटिपाटि
paṭijaggana	paṭiññā	paṭipakkha	paṭipajjana	paṭipāṭi
修	同意	仇人	程式	令
xiū	tóng yì	chóu rén	chéng shì	lìng
修復	अपलोकन / पटिञ्ञा / अनुञ्ञा / अनुमति /	पच्चनिक / पच्चत्थिक / पटिकण्टक / अभिघाती / अमित्त /	練習	अनुक्कम / पटिपाटि / आनुपुब्बी / परियाय / चक्क /
xiū fù	有希望	पच्चामित्त / दिस / पटिपक्ख / अरि /	liàn xí	承
修理	yǒu xī wàng	件	आसेवना / आचार / पटिपज्जन / अनुचरण / चारित्त / पटिपत्ति / उपसेवना /	chéng
xiū lǐ	पटिस्सव / पटिञ्ञा /	wǔ	遵守	अनुक्कम / पटिपाटि / परियाय / आनुपुब्बी /
修補	答應	पटिपक्ख / अमित्त / पच्चत्थिक / पच्चनिक /	zūn shǒu	次序
xiū bǔ	dá yīng	对手	पटिपज्जन / अभियुञ्जन / अभियोग /	cì xù
关心	पटिञ्ञा / पटिस्सव /	duì shǒu	पटिपूजना	पटिपाटि / अनुक्कम / आनुपुब्बी / परियाय /
guān xīn	約定	पच्चामित्त / पच्चनिक / अमित्त / पच्चत्थिक / पटिपक्ख /	paṭipūjanā	秩序
गोपन / पटिजग्गन / परिहार / आरक्खा /	yuē dìng	對面	尊敬	zhì xù
在乎	पटिञ्ञा / पटिस्सव /	duì miàn	zūn jìng	अनुक्कम / आनुपुब्बी / पटिपाटि / परियाय /
zài hu	許	敵	अच्चना / चित्तीकार / नमक्कार / पच्चुद्धान / पूजा / नमस्सन / पुरेक्खार / गारव / पटिपूजना / अपचायन /	訂
परिहार / गोपन / पटिजग्गन / गोपन / पटिजग्गन / परिहार / आरक्खा / आरक्खा /	xǔ	敵	chóng jìng	dìng
在乎	पटिञ्ञा / पटिस्सव /	dí	अपचायन / पटिपूजना / पच्चुद्धान / गारव / अच्चना / नमस्सन / चित्तीकार /	परियाय / पटिपाटि / आनुपुब्बी / अनुक्कम /
zài hu	許可	अमित्त / अभिघाती / अरि / पच्चत्थिक / पच्चनिक / पटिपक्ख / दिस / पच्चामित्त / पटिकण्टक /	敬	訂單
परिहार / गोपन / पटिजग्गन / गोपन / पटिजग्गन / परिहार / आरक्खा / आरक्खा /	xǔ kě	敵人	chóng jìng	dìng dān
在乎	अपलोकन / पटिञ्ञा / अनुञ्ञा / अनुमति / ओकास /	dí rén	अपचायन / पटिपूजना / पच्चुद्धान / गारव / अच्चना / नमस्सन / चित्तीकार /	परियाय / अनुक्कम / पटिपाटि / आनुपुब्बी /
zài hū	許諾	अमित्त / पटिपक्ख / अभिघाती / पटिकण्टक / दिस / अरि / पच्चत्थिक / पच्चनिक / पच्चामित्त /	敬意	訂
परिहार / गोपन / पटिजग्गन / गोपन / पटिजग्गन / परिहार / आरक्खा / आरक्खा /	xǔ nuò	敵	jìng yì	dìng
在意	पटिस्सव / पटिञ्ञा /	dí	榮譽	परियाय / आनुपुब्बी / पटिपाटि / अनुक्कम /
zài yì	諾	अमित्त / अभिघाती / पच्चनिक / पच्चामित्त / दिस / पटिकण्टक / पटिपक्ख / अरि / पच्चत्थिक /	róng yù	順序
आरक्खा / गोपन / पटिजग्गन / परिहार /	nuò	敵人	पटिपूजना / पुरेक्खार / अच्चना /	shùn xù
打理	पटिञ्ञा / पटिस्सव /	dí rén	पटिपत्ति	कम / परियाय / अनुक्कम / पटिपाटि / आनुपुब्बी /
dǎ lǐ	諾言	दिस / अभिघाती / पच्चनिक / पटिपक्ख / अरि / पच्चत्थिक / पटिकण्टक / पच्चामित्त / अमित्त /	paṭipatti	पटिबल
परिहार / आरक्खा / पटिजग्गन / गोपन /	nuò yán	敵方	操行	paṭibala
料理	पटिदान	dí fāng	cāo xíng	勝任
liào lǐ	paṭidāna	दिस / अभिघाती / पच्चनिक / पटिपक्ख / अरि / पच्चत्थिक / पटिकण्टक / पच्चामित्त / अमित्त /	चरिया / पटिपत्ति /	shèng rèn
आरक्खा / गोपन / परिहार / पटिजग्गन /	歸還	敵方	練習	भब्ब / पटिबल /
照料	guī hái	dí fāng	liàn xí	得力
zhào liào	पच्चआगमन / पटिदान / निच्ययातन /	पच्चत्थिक / अरि / दिस / पटिकण्टक / पच्चामित्त / अमित्त / पटिपक्ख / अभिघाती / पच्चनिक /	आसेवना / आचार / पटिपज्जन / अनुचरण / चारित्त / पटिपत्ति / उपसेवना /	de lì
पटिजग्गन / परिहार / गोपन / परिचरण / आरक्खा /	पटिनिस्सग्ग	敵軍		पटिबल / भब्ब / भब्ब /
照着	paṭinissagga	dí jūn		能干
zhào kàn	paṭidāna	पटिपक्ख / दिस / पच्चनिक / पटिकण्टक / पच्चत्थिक / अरि / अमित्त / अभिघाती / पच्चामित्त /		néng gān
परिहार / गोपन / पटिजग्गन / आरक्खा /	歸還	相反的		पटिबल / पटिबल / भब्ब / भब्ब /
留心	diū qì	xiāng fǎn de		能干
liú xīn	छड्डन / पटिनिस्सग्ग / निकखेप / अवक्कार /	पटिलोम / पच्चनिक / पटिपक्ख /		néng gàn
परिहार / पटिजग्गन / गोपन / आरक्खा / पटिसङ्खान /	拒絕	पटिपुग्गल		पटिबल / पटिबल / भब्ब / भब्ब /
看護	jù jué	paṭipuggala		पटिबाहक
kàn hù	丟棄	匹配		paṭibāhaka
परिहार / गोपन / आरक्खा / पटिजग्गन /	diū qì	pǐ pèi		逐退的
管理	छड्डन / पटिनिस्सग्ग / निकखेप / अवक्कार /	夥伴		zhú tuì de
guǎn lǐ	丟棄	huǒ bàn		
पटिजग्गन / अधिकार / चारण /	拒絕			
脩	jù jué			
xiū	अवक्कार / पच्चक्खान / पटिनिस्सग्ग / कसट /			
關心	看護			
guān xīn	kàn hù			
पटिजग्गन / गोपन / परिहार / आरक्खा /	परिहार / गोपन / आरक्खा / पटिजग्गन /			
關照	管理			
guān zhào	guǎn lǐ			
आरक्खा / पटिजग्गन / परिहार / गोपन /	पटिजग्गन / अधिकार / चारण /			

पटिबिम्ब	पटिभय	पटिभाग	पटिमा	पटिलोम
paṭibimba	paṭibhaya	paṭibhāga	paṭimā	paṭiloma
偶	害怕	俦	偶	相反的
ǒu	hài pà	móu	ǒu	xiāng fǎn de
पटिमा / बिम्ब / अपि / पटिबिम्ब / 像	पटिभय / भय / चकित / भीति / 怕	पटिभाग / उपम / 均	पटिमा / बिम्ब / अपि / पटिबिम्ब / 像	पटिलोम / पच्चनिक / पटिपक्ख / पटिवचन
xiàng	pà	jūn	xiàng	paṭivacana
पटिमा / बिम्ब / इव / पटिबिम्ब / 副本	तास / भय / पटिभय / आसङ्का / उत्तास /	निखिल / निस्सेस / असेस / पटिभाग /	पटिमा / बिम्ब / इव / पटिबिम्ब / 印像	响应
fù běn	怵	均衡	yìn xiàng	xiǎng yīng
印像	chù	jūn héng	बिम्ब / पटिबिम्ब / पटिमा / 图像	उत्तर / पटिवचन / 回信
yìn xiàng	पटिभय / भय / उत्तास / भीरुक / तास / आसङ्का /	相似的	tú xiàng	huí xìn
बिम्ब / पटिबिम्ब / पटिमा / 反映	恐	xiāng sì de	बिम्ब / पटिमा / पटिबिम्ब / 图片	पटिवचन / उत्तर / 回復
fǎn yìng	kǒng	एकविध / उपम / पटिभाग / निभ / निब्बि /	tú piàn	huí fù
पटिबिम्ब / परिवितक्क / 图像	उत्तास / आसङ्का / भय / पटिभय / तास /	相等	पटिमा / पटिबिम्ब / चित्त / बिम्ब /	पटिवचन / उत्तर / 回答
tú xiàng	恐怖	等於	圖像	huí dá
बिम्ब / पटिमा / पटिबिम्ब / 图片	kǒng bù	děng yú	tú xiàng	पटिवचन / पञ्ह / उत्तर / 回覆
tú piàn	पटिभय / उत्तास / उत्रास / उत्तसन / भय / तास / आसङ्का / 恐惧	पटिभाग	पटिबिम्ब / बिम्ब / पटिमा / 形像	huí fù
पटिमा / पटिबिम्ब / चित्त / बिम्ब /	kǒng jù	paṭibhāṇa	xíng xiàng	पटिवचन / उत्तर / 回話
圖像	भय / तास / आसङ्का / उत्तास / पटिभय /	情報	पटिमा / पटिबिम्ब / बिम्ब / 形象	huí huà
tú xiàng	恐懼	निवेदन / पटिभाग / बु / 情報	xíng xiàng	उत्तर / पटिवचन / 答
पटिबिम्ब / बिम्ब / पटिमा / 形像	kǒng jù	qing bào	बिम्ब / पटिमा / पटिबिम्ब / 影像	dá
xíng xiàng	तास / उत्तास / भय / पटिभय / आसङ्का /	पटिभाग / बु / 敏捷	yǐng xiàng	पटिवचन / उत्तर / 答對
पटिमा / पटिबिम्ब / बिम्ब / 形象	dàn	mǐn jié	पटिमा / पटिबिम्ब / बिम्ब / 心像	dá duì
xíng xiàng	आसङ्का / पटिभय / भीति / भय / उत्तास / तास /	पटिभाग / जवन / 智力	xīn xiàng	उत्तर / पटिवचन / 答案
बिम्ब / पटिमा / पटिबिम्ब / 影像	惶恐	zhì lì	पटिमा / चित्त / बिम्ब / पटिबिम्ब /	dá àn
yǐng xiàng	huáng kǒng	बु / पटिभाग / 理智	心想	उत्तर / पटिवचन / 答覆
पटिमा / पटिबिम्ब / बिम्ब / 心像	तास / उत्तास / आसङ्का / पटिभ य / भय /	lǐ zhì	xīn xiǎng	dá fù
xīn xiàng	懼	पटिभाग / बु / 窍	पटिमा / चिन्तन / चित्त / पटिबिम्ब / आभोग / बिम्ब / 想像	उत्तर / पटिवचन / 解答
पटिमा / चित्त / बिम्ब / पटिबिम्ब /	jù	qiào	xiǎng xiàng	jiě dá
心想	तास / आसङ्का / उत्तास / भय / पटिभय /	पटिभाग / बु / 映像	चित्त / पटिमा / बिम्ब / पटिबिम्ब /	पटिवचन / उत्तर / पटिवेध
xīn xiǎng	畏	yìng xiàng	yìng xiàng	paṭivedha
पटिमा / चिन्तन / चित्त / पटिबिम्ब / आभोग / बिम्ब /	wèi	पटिमा / बिम्ब / पटिबिम्ब / 相似的事物	पटिमा / बिम्ब / पटिबिम्ब / 相似的事物	侵入
想像	पटिभय / आसङ्का / तास / भय / उत्तास /	xiāng sì de shì wù	xiāng sì de shì wù	qīn rù
xiǎng xiàng	畏懼	पटिमा / बिम्ब / पटिबिम्ब / 肖像	पटिमा / बिम्ब / पटिबिम्ब / 肖像	निब्बेध / पटिवेध / 渗透
चित्त / पटिमा / बिम्ब / पटिबिम्ब /	wèi jù	xiào xiàng	xiào xiàng	shèn tòu
映像	उत्तास / भय / पटिभय / तास / आसङ्का /	पटिबिम्ब / पटिमा / छाया / बिम्ब / 雕像	पटिबिम्ब / पटिमा / छाया / बिम्ब / 雕像	पटिवेध / निब्बेध / 渗透
xiàng xiàng	虞	diāo xiàng	diāo xiàng	shèn tòu
चित्त / पटिमा / बिम्ब / पटिबिम्ब /	yú	पटिमा / पटिबिम्ब / बिम्ब / पटिलाभ	पटिमा / पटिबिम्ब / बिम्ब / पटिलाभ	पटिवेध / निब्बेध / 理解
ying xiàng	पटिभय / तास / आसङ्का / भय / उत्तास /	paṭilābha	取得	lǐ jiě
पटिमा / बिम्ब / पटिबिम्ब / 相似的事物	पटिभय / तास / आसङ्का / भय / उत्तास /	paṭivinodana	पटिलाभ / परिग्गह / परिग्गह /	अनबोध / अनुबु / अवबोध / पटिवेध / उपहान /
xiāng sì de shì wù		paṭivinodana		पटिविनोदन
पटिमा / बिम्ब / पटिबिम्ब / 肖像		paṭivinodana		paṭivinodana
xiào xiàng				逐出
पटिबिम्ब / पटिमा / छाया / बिम्ब / 雕像				zhú chū
diāo xiàng				पटिविनोदन / बहि / नासन / निक्कड्डन /
पटिमा / पटिबिम्ब / बिम्ब /				

पटिविस
paṭivimsa
一部份
yī bù fèn
अवयव / पटिविस / भाग / अंस / कोट्टास /
一部分
yī bù fēn
भाग / कोट्टास / पटिविस /
份
fèn
भाग / पटिविस / पत्ति / कोट्टास / अंस / अवयव /
共享
gòng xiǎng
पत्ति / भाग / कोट्टास / पटिविस /
共用
gòng yòng
पटिविस / पत्ति / कोट्टास / भाग /
分享
fēn xiǎng
पत्ति / पटिविस / कोट्टास / भाग /
股
gǔ
भाग / पत्ति / अवयव / पटिविस / अंस / कोट्टास /
股份
gǔ fèn
पटिविस / भाग / पत्ति / कोट्टास /
股票
gǔ piào
पटिविस / पत्ति / कोट्टास / भाग /
部份
bù fèn
अंस / कोट्टास / अवयव / पटिविस / भाग /
部分
bù fēn
कोट्टास / पत्ति / अवयव / अंस / पटिविस / भाग /

पटिविस्सक

paṭivissaka
附近的
fù jìn de

पटिसङ्खान

paṭisaṅkhāna
留心
liú xīn
परिहार / पटिजग्गन / गोपन / आरक्खा / पटिसङ्खान /

पटिसेध

paṭisedha
禁令
jìn lìng
पटिसेध / निसेध /
禁止
jìn zhǐ
निसेध / पटिसेध /
防止
fáng zhǐ
預防
yù fáng
पटिसेध / निवारण / निसेध /

पटिसन्धि
paṭisandhi
重聚
zhòng jù
重逢
zhòng féng

पटिसरण
paṭisaraṇa
保护
bǎo hù
अनुपालन / तायन / पटिसरण / आरक्खा / निस्सय / अनुरक्खा / परिहार / गोपन / अनुरक्खन / गुत्ति / नाथ / अभिरक्खन / ताण / पालन /
保護
bǎo hù
तायन / गोपन / गुत्ति / परिहार / अनुरक्खा / अनुरक्खन / पटिसरण / नाथ / अभिरक्खन / आरक्खा / अनुपालक / पालन / अनुपालन / निस्सय / ताण /
助
zhù
पतिट्टा / उपकार / अनुगगणहन / आलम्ब / अनुबल / पटिसरण / उपकरण / दीप / अवलम्बन / अवस्सय /
協助
xié zhù
आलम्ब / अनुबल / अवलम्बन / उपकार / दीप / उपकरण / अवस्सय / अनुगगणहन / पटिसरण / पतिट्टा /
壁助
bì zhù
उपकरण / पटिसरण / अवस्सय / उपकार / अनुगगणहन / दीप / अनुबल / अवलम्बन / आलम्ब / पतिट्टा /
幫
bāng
अनुबल / पतिट्टा / आलम्ब / अनुगगणहन / दीप / अवलम्बन / उपकरण / पटिसरण / उपकार / अवस्सय /
幫助
bāng zhù
अनुबल / उपकरण / अनुगगणहन / दीप / पतिट्टा / अवलम्बन / पटिसरण / उपकार / अवस्सय / आलम्ब /
幫忙
bāng máng
अवस्सय / दीप / पतिट्टा / उपकरण / अनुगगणहन / उपकार / पटिसरण / अनुबल / आलम्ब / अवलम्बन /
幫
bāng
अनुगगणहन / अवलम्बन / उपकरण / पतिट्टा / उपकार / अवस्सय / अनुबल / पटिसरण / दीप / आलम्ब /
幫助
bāng zhù
पतिट्टा / अवलम्बन / अवस्सय / दीप / पटिसरण / उपकार / अनुगगणहन / अनुबल / उपकरण / आलम्ब /
幫忙
bāng máng
अनुगगणहन / अवलम्बन / उपकार / अवस्सय / अनुबल / उपकरण / आलम्ब / दीप / पटिसरण / पतिट्टा /
扶
fú
आलम्ब / पटिसरण / अवस्सय / दीप / अनुगगणहन / उपकरण / उपकार / पतिट्टा / अवलम्बन / अनुबल /

扶助
fú zhù
अवस्सय / उपकरण / दीप / अनुगगणहन / उपकार / अवलम्बन / अनुबल / पटिसरण / आलम्ब / पतिट्टा /
救助
jiù zhù
पतिट्टा / अवस्सय / अनुबल / अवलम्बन / अनुगगणहन / दीप / आलम्ब / उपकरण / उपकार / पटिसरण /
救命
jiù mìng
अवलम्बन / आलम्ब / पटिसरण / उपकरण / अनुगगणहन / दीप / अनुबल / उपकार / अवस्सय / पतिट्टा /
救援
jiù yuán
आलम्ब / पटिसरण / अनुगगणहन / उपकार / दीप / अवस्सय / अवलम्बन / उपकरण / अनुबल / पतिट्टा /
有助
yǒu zhù
पटिसरण / अवलम्बन / पतिट्टा / उपकरण / दीप / अनुबल / उपकार / अवस्सय / अनुगगणहन / आलम्ब /

पटिसल्लान

paṭisallāna
退休
tuì xiū

पटिसेवन

paṭisevana
中用
zhōng yòng
使用
shǐ yòng
पटिसेवन / अत्थवस / उपभोग / पयोजन / परिभोग / निसेवन / अत्थ /
跟隨
gēn suí
अनुसार / अनुयन्त / अन्वागत / अन्वायिक / पटिसेवन / अनुबन्धन /

पटिस्सव
paṭissava
有希望
yǒu xī wàng
पटिस्सव / पटिञ्जा /
答應
dá yīng
पटिञ्जा / पटिस्सव /
約定
yuē dìng
पटिञ्जा / पटिस्सव /
許
xǔ
पटिञ्जा / पटिस्सव /
許諾
xǔ nuò
पटिस्सव / पटिञ्जा /
諾
nuò
पटिञ्जा / पटिस्सव /
諾言
nuò yán
पटिस्सव / पटिञ्जा /
贊成
zàn chéng

पठम	पण्डक	पुण्ण	滿載	पण्णरस
paṭhama	paṇḍaka	puṇṇa	mǎn zài	pannarasa
一次	太監	充分	परिपूर / पुण्ण / 畢	十五
yī cì	tài jiān	chōng fēn	bì	shí wǔ
आदि / एकदा / अगग / पठम / 乍	宦官	पुण्ण / बह् / परिपूर / 充滿	पुण्ण / परिपूर / अनवसेस / अनूनक / अनून /	पण्णरस / पण्णरस / 十五
zhà	huàn guān	chōng mǎn	盈	shí wǔ
पठम / अगग / आदि /	पण्डुरोग	पुण्ण / उस्सन्नता / परिपूर / 全力	yíng	पण्णरस / पण्णरस / 十五個
元	paṇḍuroga	quán lì	परिपूर / पुण्ण /	shí wǔ gè
yuán	疸	पुण्ण / परिपूर /	通通	पण्णरस / पण्णरस / 十五個
आदि / अगग / पठम /	dǎn	十足	tōng tōng	shí wǔ gè
先	黄疸	shí zú	केवल / निस्सेस / अनून / अनवसेस / परिपूर / अनूनक / असेस / पुण्ण / निखिल / कसिण /	पण्णरस / पण्णरस /
xiān	huáng dǎn	परिपूर / पुण्ण /	飽	पण्णरस / पण्णरस /
आदि / अगग / पठम /	पण्डित	羸	bǎo	पण्णाकार
先前的	paṇḍita	yíng	परिपूर / पुण्ण /	paṇṇākāra
xiān qián de	哲	आय / पुण्ण / आनिसंस / पत्ति / उदय / परिपूर / उपभोग /	飽	禮物
पठम / पुब्ब / पुराण / पुरिम /	zhé	完全	bǎo	lǐ wù
先在	明智	wán quán	पुण्ण / परिपूर /	पण्णाकार / पाहुण / चाग / उपायन / उपहार /
xiān zài	míng zhì	निखिल / अनूनक / कसिण / निस्सेस / पुण्ण / परिपूर / अनून / केवल / असेस / अनवसेस /	पण्णक	पण्णासा
आदि / पठम / अगग /	智者	完成	paṇṇaka	paṇṇāsā
原始	zhì zhě	wán chéng	信	五十
yuán shǐ	聰	पारमी / अनूनक / निष्फत्ति / पारमिता / निदान / अनून / पारिपूरि / पूर / परिपूर / अनवसेस / पुण्ण / नित्थरण /	xìn	wǔ shí
अगग / पठम / आवत्थिक / आदि /	cōng	परिपूर / अनून / पुण्ण / अनवसेस / अनूनक /	अक्खर / पण्णक / पण्ण /	पणाम
在先	दक्ख / पट्टु / पण्डित / छेक / कल्ल /	완성	信件	paṇāma
zài xiān	英明	wán zhěng	xìn jiàn	崇拜
अगग / पठम / आदि /	英明	परिपूर / अनून / पुण्ण / अनवसेस / अनूनक /	पण्णक / पण्ण / अक्खर /	chóng bài
搶先	yīng míng	완성	函	पणिपात / अपचायन / पणाम / आहण / नमस्सन /
qiǎng xiān	पण्ण	wán bì	hán	鞠躬
अगग / आदि / पठम /	paṇṇa	पुण्ण / अनूनक / अनवसेस / अनून / परिपूर /	पण्ण / अक्खर / पण्णक /	jū gōng
最初	信	成套	叶	चाप / इस्सास / धनु / कोण / पणाम /
zuì chū	xìn	chéng tào	yè	पणिधान
पठम / अगग / आदि /	अक्खर / पण्णक / पण्ण /	पुण्ण / अनूनक / अनवसेस / अनून / परिपूर /	दल / पलास / पण्णक / पत्त / पण्ण / पट्ट /	paṇidhāna
最初的	信件	完整	字母	决心
zuì chū de	xìn jiàn	zhěng zhěng	zì mǔ	jué xīn
आवत्थिक / आदि / जेड्ड / धूर / मुख्य / पधान / मुख / पार्कातिक / पठम /	पण्णक / पण्ण / अक्खर /	केवल / कसिण / असेस / पुण्ण / निस्सेस / अनूनक / परिपूर / अनवसेस / अनून / निखिल /	अक्खर / पण्णक / पण्ण /	अधिमोक्ख / धिति / अधिदान / पणिधान /
第一	函	整整	bó	决心
dì yī	hán	zhěng zhěng	पण्णक / पलास / पण्ण / पत्त / दल / पट्ट /	jué xīn
अगग / आदि / पठम /	पण्ण / अक्खर / पण्णक /	निस्सेस / कसिण / पुण्ण / निखिल / परिपूर / केवल / असेस /	葉	पणिधान / अधिमोक्ख / अधिमुत्ति / अधिदान /
第一個	叶	毕	yè	पणिपात
dì yī gè	yè	bì	पत्त / पट्ट / दल / पण्णक / पण्ण / पलास /	paṇipāta
आदि / पठम / अगग /	दल / पलास / पण्णक / पत्त / पण्ण / पट्ट /	परिपूर / पुण्ण / अनवसेस / अनून / अनूनक /	葉子	崇拜
第一名	字母	滿	yè zǐ	chóng bài
dì yī míng	zì mǔ	zhǎn	पलास / पट्ट / पण्णक / पत्त / पण्ण / दल /	पणिपात / अपचायन / पणाम / आहण / नमस्सन /
पठम / आदि / अगग /	अक्खर / पण्णक / पण्ण /	滿	頁	पणीत
第一次	箔	mǎn	yè	paṇīta
dì yī cì	bó	滿	पत्त / दल / पण्णक / पट्ट / पलास / पण्ण /	可口的
पठम / अगग / आदि /	पण्णक / पलास / पण्ण / पत्त / दल / पट्ट /	mǎn de	पुण्णता	kě kǒu de
起先	葉	परिपूर / पुण्ण /	puṇṇatā	
qǐ xiān	yè	滿的	滿	
आदितो / पठम /	पत्त / पट्ट / दल / पण्णक / पण्ण / पलास /	mǎn de	mǎn	
首	葉子	परिपूर / पुण्ण /	पुण्णता / परिपूर / पुण्ण /	
shǒu	yè zǐ	滿	滿懷	
पठम / अगग / आदि /	पलास / पट्ट / पण्णक / पत्त / पण्ण / दल /	mǎn huái	mǎn huái	
首先	頁	पुण्णता / परिपूर / पुण्ण /	滿	
shǒu xiān	yè	滿懷	滿	
पठम / अगग / आदि /	पत्त / दल / पण्णक / पट्ट / पलास / पण्ण /	पुण्ण / परिपूर /	滿	

पेत	पत्त	पुत्त	小孩	पत्ति
peta	patta	putta	xiǎo hái	patti
人世	叶	儿	पुत्त / दारक / बाल /	份
rén shì	yè	ér	小孩子	fèn
已故的	दल / पलास / पण्णक / पत्त / पण्ण / पट्ट /	बाल / बाल / पुत्त / पुत्त /	xiǎo hái zi	भाग / पटिविस / पत्ति / कोट्टास / अंस / अवयव /
yǐ gù de	床單	儿	पुत्त / बाल /	共享
幽灵	chuáng dān	r	幼	gòng xiǎng
yōu líng	अत्थरण / पत्त / पट्ट / पच्चत्थरण /	बाल / बाल / पुत्त / पुत्त /	yòu	पत्ति / भाग / कोट्टास / पटिविस /
幽靈	毛片	儿子	पुत्त / तरुण / बाल /	共用
yōu líng	máo piàn	ér zi	童	gòng yòng
आसव / पेत /	片	अत्तज / तनुज / तात / अत्रज / तनय / पुत्त /	tóng	पटिविस / पत्ति / कोट्टास / भाग /
死	piàn	儿童	दहर / दारक / कुमारक / पुत्त / कुमार / बाल /	分享
sǐ	पट्ट / पत्त /	ér tóng		fēn xiǎng
चवन / नमुचि / पेत / नास / कालकिरिया / मच्चु / कालङ्कत / अन्तक /	箔	बाल / पुत्त /		पत्ति / पटिविस / कोट्टास / भाग /
死了	bó	兒		利
sǐ le	पण्णक / पलास / पण्ण / पत्त / दल / पट्ट /	r		lì
死去	羽	बाल / पुत्त /		आय / आनिसंस / उपभोग / पत्ति /
sǐ qù	yǔ	兒子		利潤
死寂	羽毛	r zi		lì rùn
sǐ jì	yǔ máo	तनय / अत्रज / तनुज / पुत्त / तात / अत्तज /		पत्ति / आय / आनिसंस / उपभोग /
死的	पत्त / पट्ट /	兒童		利潤
sǐ de	翅膀	r tóng		lì rùn
पेत / कालङ्कत /	chì bǎng	पुत्त / बाल /		आनिसंस / पत्ति / उपभोग / आय /
過世	पत्त / पक्ख /	公子		到任
guò shì	葉	gōng zi		dào rèn
पेत / अच्यन्त /	yè	तनुज / तनय / तात / पुत्त / अत्तज / अत्रज /		अनुपपत्ति / पत्ति / अब्भागमन /
鬼	पत्त / पट्ट / दल / पण्णक / पण्ण / पलास /	罔		到來
guǐ	葉子	jiǎn		dào lái
鬼魂	yè zi	पुत्त / बाल /		dào lái
guǐ hún	पलास / पट्ट / पण्णक / पत्त / पण्ण / दल /	女孀		dào lái
	页	nǚ xù		dào lái
	yè	तनुज / तनुज / तनय / तात / पुत्त / अत्रज / तनय / धीतु / अत्रज / अत्तज / पुत्त / अत्तज /		पत्ति / आगमन / अब्भागमन / अनुपपत्ति /
	पत्त / दल / पण्णक / पट्ट / पलास / पण्ण /	女孀		贏
	पत्तुं	nǚ xù		yíng
	pattum	तनुज / तनुज / तनय / तात / पुत्त / अत्रज / तनय / धीतु / अत्रज / अत्तज / पुत्त / अत्तज /		आय / पुण्ण / आनिसंस / पत्ति / उदय / परिपूर / उपभोग /
	到達	子		抵达
	dào dá	zi		dǐ dá
	抵	पुत्त / बाल /		पत्ति / आगमन / अनुपपत्ति / अब्भागमन /
	dǐ	子女		抵達
	獲得	zi nǚ		dǐ dá
	huò de	पुत्त / बाल / पुत्त /		पत्ति / आगमन / अनुपपत्ति / अब्भागमन /
	गहण / पत्तुं /	子女		收益
	达	zi nǚ		shōu yì
	dá	पुत्त / बाल / पुत्त /		उदय / पत्ति / आय / बलि / अय / आनिसंस / उपभोग /
	達	孳		步兵
	dá	nú		bù bīng
	達到	अपच्च / पुत्त / पजा / पसव / बाल /		भट / पत्ति /
	dá dào	孩		潤
	पत्तुं / पत्ति /	hái		rùn
		बाल / पुत्त /		पत्ति / आय / आनिसंस / उपभोग /
		孩子		潤
		hái zi		rùn
		पुत्त / बाल /		उपभोग / आय / आनिसंस / पत्ति /
		孺		獲利
		rú		huò lì
		बाल / पुत्त /		पत्ति / उपभोग / आय / आनिसंस /

撐
chēng
आलम्ब / पतिङ्गा / निस्सय / दीप / ओलम्बक / उपनिस्सय / पग्गह / आधार / उपकरण / अवस्सय / आलम्बन / ओलम्ब / पतिङ्गान / उपत्यम्भ / पग्गाह / अपस्सय / उपकार /
撐腰
chēng yāo
पग्गह / निस्सय / उपकार / पग्गाह / आलम्ब / उपनिस्सय / आलम्बन / पतिङ्गान / उपकरण / अवस्सय / अपस्सय / आधार / पतिङ्गा / उपत्यम्भ / ओलम्ब / दीप / ओलम्बक /
撐
chēng
आलम्बन / उपत्यम्भ / अपस्सय / आधार / ओलम्बक / ओलम्ब / पग्गाह / उपनिस्सय / पग्गह / अवस्सय / आलम्ब / उपकरण / दीप / पतिङ्गान / उपकार / पतिङ्गा / निस्सय /
支持
zhī chí
पग्गह / आलम्ब / उपत्यम्भ / पतिङ्गा / उपकार / उपकरण / पग्गाह / पतिङ्गान / अवस्सय / आलम्बन / निस्सय / दीप / उपनिस्सय / ओलम्ब / ओलम्बक / आधार / अपस्सय /
支撐
zhī yuán
उपकार / अपस्सय / पतिङ्गा / पग्गह / दीप / ओलम्बक / उपत्यम्भ / पग्गाह / अनुज्जा / पतिङ्गान / उपनिस्सय / अवस्सय / ओलम्ब / आलम्ब / निस्सय / आलम्बन / आधार / उपकरण /
支撐
zhī chēng
उपकरण / दीप / ओलम्बक / उपत्यम्भ / पतिङ्गान / उपनिस्सय / अपस्सय / पग्गाह / आलम्ब / पग्गह / आधार / आलम्बन / पतिङ्गा / ओलम्ब / निस्सय / अवस्सय / उपकार /
救助
jiù zhù
पतिङ्गा / अवस्सय / अनुबल / अवलम्बन / अनुग्गण्हन / दीप / आलम्ब / उपकरण / उपकार / पटिसरण /
救命
jiù mìng
अवलम्बन / आलम्ब / पटिसरण / उपकरण / अनुग्गण्हन / दीप / अनुबल / उपकार / अवस्सय / पतिङ्गा /
救援
jiù yuán
आलम्ब / पटिसरण / अनुग्गण्हन / उपकार / दीप / अवस्सय / अवलम्बन / उपकरण / अनुबल / पतिङ्गा /
有助
yǒu zhù
पटिसरण / अवलम्बन / पतिङ्गा / उपकरण / दीप / अनुबल / उपकार / अवस्सय / अनुग्गण्हन / आलम्ब /

पतिङ्गान
patiṅṅhāna
供養
gōng yǎng
उपकरण / ओलम्ब / पग्गह / ओलम्बक / अपस्सय / निस्सय / अवस्सय / पतिङ्गा / आलम्ब / आधार / पग्गाह / उपत्यम्भ / उपनिस्सय / उपकार / पतिङ्गान / आलम्बन / दीप /
建立
jiàn lì
पतिङ्गान / उक्कुज्ज /
撐
chēng
आलम्ब / पतिङ्गा / निस्सय / दीप / ओलम्बक / उपनिस्सय / पग्गह / आधार / उपकरण / अवस्सय / आलम्बन / ओलम्ब / पतिङ्गान / उपत्यम्भ / पग्गाह / अपस्सय / उपकार /
撐腰
chēng yāo
पग्गह / निस्सय / उपकार / पग्गाह / आलम्ब / उपनिस्सय / आलम्बन / पतिङ्गान / उपकरण / अवस्सय / अपस्सय / आधार / पतिङ्गा / उपत्यम्भ / ओलम्ब / दीप / ओलम्बक /
撐
chēng
आलम्बन / उपत्यम्भ / अपस्सय / आधार / ओलम्बक / ओलम्ब / पग्गह / उपनिस्सय / पग्गह / अवस्सय / आलम्ब / उपकरण / दीप / पतिङ्गान / उपकार / पतिङ्गा / निस्सय /
支持
zhī chí
पग्गह / आलम्ब / उपत्यम्भ / पतिङ्गा / उपकार / उपकरण / पग्गाह / पतिङ्गान / अवस्सय / आलम्बन / निस्सय / दीप / उपनिस्सय / ओलम्ब / ओलम्बक / आधार / अपस्सय /
支撐
zhī yuán
उपकार / अपस्सय / पतिङ्गा / पग्गह / दीप / ओलम्बक / उपत्यम्भ / पग्गाह / अनुज्जा / पतिङ्गान / उपनिस्सय / अवस्सय / ओलम्ब / आलम्ब / निस्सय / आलम्बन / आधार / उपकरण /
支持
zhī chēng
उपकरण / दीप / ओलम्बक / उपत्यम्भ / पतिङ्गान / उपनिस्सय / अपस्सय / पग्गाह / आलम्ब / पग्गह / आधार / आलम्बन / पतिङ्गा / ओलम्ब / निस्सय / अवस्सय / उपकार /

पतिङ्गापेतु
patiṅṅhāpetu
建立者
jiàn lì zhě
पतिस्सत
patissata
深思的
shēn sī de
चिन्तनक / पतिस्सत / चिन्तक /
留心的
liú xīn de

पतीचि
patīci
往西
wǎng xī
पतीचि / पतीचि / पच्छिम / पच्छिम /
往西
wǎng xī
पतीचि / पतीचि / पच्छिम / पच्छिम /
朝西
cháo xī
西
xī
पतीचि / अपर / अपर / पतीचि / पच्छिम / पच्छिम /
西
xī
पतीचि / अपर / अपर / पतीचि / पच्छिम / पच्छिम /
西區
xī qū
西方
xī fāng
पतीचि / पतीचि /
西方
xī fāng
पतीचि / पतीचि /
西部
xī bù
पतीचि / पतीचि /
西部
xī bù
पतीचि / पतीचि /
西面
xī miàn
पतीचि / पतीचि /
西面
xī miàn
पतीचि / पतीचि /

पतोद
patoda
刺棒
cì bàng
पाचन / पाजन / पतोद /
棒
bàng
आवरण / पतोद / दक्ख / दण्डक /
駕駛
jià shǐ
पाजन / पतोद /
पथ
patha
中
zhōng
पीठ / ओज / उर / परियन्त / अन्तो / पथ /
修路
xiū lù
मग्ग / अज्जस / पन्थ / पथ / पज्ज /
办法
bàn fǎ
मग्ग / पथ / पन्थ /
徑
jìng
पन्थ / पज्ज / अज्जस / पथ / मग्ग /
徑
jìng
पन्थ / पथ / अज्जस / मग्ग / पज्ज /
方法
fāng fǎ
नय / उपाय / पथ / पकार / नौहार / उपक्कम / उपनिसा / जाय / कम / मग्ग /
航向
háng xiàng
航線
háng xiàn
课程
kè chéng
路
lù
पथ / मग्ग / पन्थ / अज्जस / पज्ज /
路上
lù shàng
पथ / पन्थ / अज्जस / पज्ज / मग्ग /
路径
lù jìng
मग्ग / अज्जस / पथ / पज्ज / पन्थ /
路線
lù xiàn
路线
lù xiàn
पज्ज / मग्ग / पन्थ / अज्जस / पथ /
路途
lù tú
पथ / मग्ग / पज्ज / पन्थ / अज्जस /
軌
guǐ
पज्ज / पथ / पन्थ / मग्ग / अज्जस /
軌道
guǐ dào
पज्ज / मग्ग / अज्जस / पन्थ / पथ /
辦法
bàn fǎ
पन्थ / पथ / मग्ग /

途
tú
मग्ग / पन्थ / अज्जस / पज्ज / पथ /
途徑
tú jìng
मग्ग / पथ / पन्थ / पज्ज / अज्जस /
通路
tōng lù
मग्ग / पन्थ / ओतार / अज्जस / पथ / पज्ज /
道
dào
पथ / पन्थ / अज्जस / मग्ग / पज्ज /
道路
dào lù
मग्ग / पन्थ / अज्जस / पथ / पज्ज /
量
liàng
परिमाण / पथ /
馬路
mǎ lù
अज्जस / मग्ग / पज्ज / पथ / पन्थ /
पुथु
puthu
俗人
sú rén
पुथु / गिही /
पुथुल
puthula
伟
wěi
उरु / पुथुल / तुमुल /
大
dà
तिकिच्छक / तुमुल / पुथुल / अति / उरु /
大的
dà de
उरु / पुथुल / तुमुल /
大號
dà hào
उरु / पुथुल /
曼
màn
मच्च / पुथुल / पुम / पुरिस / पोस / उरु / जैन / दिपेद /
碩
shuò
तुमुल / पुथुल / उरु /

पुथुवी	泥土
puthuvī	ní tǔ
土	धरणी / पुथुवी / पंसु / जगति / भू / छमा / भूमि /
tǔ	पुथुसो
धरणी / जगति / छमा / भूमि / पंसु / भू / पुथुवी /	puthuso
土壤	不同地
tǔ rǎng	bù tóng dì
भू / पुथुवी / छमा / पंसु / धरणी / भूमि / जगति /	पुथुसो / नाना /
地	पथावी
dì	pathāvī
पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छमा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पुथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छमा / पुथुवी / जगति / जगति /	旅行者
地	lǚ xíng zhě
de	पथावी / गमिक / अद्विक / गमिक / अद्विक / अद्वगू / पथिक / पथिक /
पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छमा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पुथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छमा / पुथुवी / जगति / जगति /	游客
地	yóu kè
de	अद्वगू / गमिक / पथिक / पथावी / अद्विक /
पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छमा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पुथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छमा / पुथुवी / जगति / जगति /	行人
地球	xíng rén
de qiú	पथावी / पदिक / पथिक /
पुथुवी / पुथुवी / गूळ / गूळ / भूमि / छमा / छमा / भूमि / भू / धरणी / भू / जगति / जगति / धरणी /	पथिक
地球	pathika
dì qiú	旅行者
पुथुवी / पुथुवी / गूळ / गूळ / भूमि / छमा / छमा / भूमि / भू / धरणी / भू / जगति / जगति / धरणी /	lǚ xíng zhě
地线	पथावी / गमिक / अद्विक / गमिक / अद्विक / अद्वगू / पथिक / पथिक /
dì xiàn	旅行者
पुथुवी / धरणी / छमा / भूमि / जगति / भू /	lǚ xíng zhě
地面	पथावी / गमिक / अद्विक / गमिक / अद्विक / अद्वगू / पथिक / पथिक /
de miàn	游客
भूमि / पुथुवी / भू / भू / धरणी / भूमि / छमा / जगति / पुथुवी / थल / धरणी / थल / जगति / छमा /	yóu kè
地面	अद्वगू / गमिक / पथिक / पथावी / अद्विक /
dì miàn	行人
भूमि / पुथुवी / भू / भू / धरणी / भूमि / छमा / जगति / पुथुवी / थल / धरणी / थल / जगति / छमा /	xíng rén
大地	पथावी / पदिक / पथिक /
dà de	
धरणी / धरणी / पुथुवी / छमा / पुथुवी / जगति / भू / छमा / भू / भूमि / जगति / भूमि /	
大地	
dà dì	
धरणी / धरणी / पुथुवी / छमा / पुथुवी / जगति / भू / छमा / भू / भूमि / जगति / भूमि /	
接地	
jiē dì	
जगति / भूमि / थल / थल / धरणी / छमा / धरणी / भू / छमा / भूमि / जगति / भू / पुथुवी / पुथुवी /	
接地	
jiē de	
जगति / भूमि / थल / थल / धरणी / छमा / धरणी / भू / छमा / भूमि / जगति / भू / पुथुवी / पुथुवी /	

पद	地位
pada	de wèi
一句话	पदेस / पदेस / ठान / अवद्धान / पद / पद / ठान / आयतन / आयतन / अवद्धान /
yī jù huà	地方
任	de fāng
rèn	पदेस / पदेस / पद / पद / ठान /
पद / अधिकार / धुर / ठान /	地方
位	dì fāng
wèi	पदेस / पदेस / पद / पद / ठान /
पद / आयतन / पदेस / अवद्धान / निसीदन / आसन / ठान / पीठ /	地点
位子	dì diǎn
wèi zi	ठान / पदेस / पद /
ठान / पद / निसीदन / पीठ / पदेस / आसन /	基地
位置	jī de
wèi zhì	पाद / पद / पद /
अवद्धान / पद / पदेस / ठान / आसन / निसीदन / आयतन / पीठ /	基地
刊登	jī dì
kān dēng	पाद / पद / पद /
到	基础
dào wèi	jī chǔ
ठान / पद / पदेस /	पद / पाद /
办公室	場所
bàn gōng shì	chǎng suǒ
ठान / पद / अधिकार /	ठान / पद / पदेस /
动机	安放
dòng jī	ān fàng
अपदेस / अत्यवस / पद / ठान / कारण /	पदेस / ठान / पद /
原因	寄予
yuán yīn	jì yǔ
कारण / पद / निमित्त / निदान / ठान / अपदेस / अत्यवस / जनन /	पद / पदेस / ठान /
去處	尺
qù chù	尺
ठान / पद / पदेस /	原因
因	yuán yīn
yīn	कारण / पद / निमित्त / निदान / ठान / अपदेस / अत्यवस / जनन /
कारण / निदान / पटिच्च / अपदेस / अत्यवस / ठान / निमित्त / पद /	去處
因素	qù chù
yīn sù	ठान / पद / पदेस /
पद / निमित्त / ठान / निदान / कारण / धातु / उपनिसा /	因
地	yīn
dì	कारण / निदान / पटिच्च / अपदेस / अत्यवस / ठान / निमित्त / पद /
पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छमा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पुथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छमा / पुथुवी / जगति / जगति /	因素
地	yīn sù
de	पद / निमित्त / ठान / निदान / कारण / धातु / उपनिसा /
पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छमा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पुथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छमा / पुथुवी / जगति / जगति /	地
地位	dì
dì wèi	पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छमा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पुथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छमा / पुथुवी / जगति / जगति /
पदेस / पदेस / ठान / अवद्धान / पद / पद / ठान / आयतन / आयतन / अवद्धान /	地

故	地位
gù	de wèi
ततो / तस्मा / निदान / पद / अतो / अपदेस / कारण / ठान / निमित्त / अत्यवस /	पदेस / पदेस / ठान / अवद्धान / पद / पद / ठान / आयतन / आयतन / अवद्धान /
根本	地方
gēn běn	de fāng
पाद / पद /	पदेस / पदेस / पद / पद / ठान /
理	地方
lǐ	dì fāng
कारण / निमित्त / पद / अपदेस / ठान / अत्यवस /	पदेस / पदेस / पद / पद / ठान /
理性	地点
lǐ xìng	dì diǎn
कारण / अत्यवस / ठान / अपदेस / पद /	ठान / पदेस / पद /
理由	基地
lǐ yóu	jī de
निमित्त / निदान / अपदेस / ठान / कारण / पद / अत्यवस /	पाद / पद / पद /
由	基地
yóu	jī dì
कारण / निमित्त / अपदेस / निदान / पद / ठान / अत्यवस /	पाद / पद / पद /
緣故	基础
yuán gù	jī chǔ
निमित्त / ठान / कारण / अपदेस / पद / अत्यवस /	पद / पाद /
署	場所
shǔ	chǎng suǒ
अधिकार / ठान / पद /	ठान / पद / पदेस /
職	安放
zhí	ān fàng
पद / ठान / अधिकार / धुर /	पदेस / ठान / पद /
職位	寄予
zhí wèi	jì yǔ
脚	पद / पदेस / ठान /
jiǎo	尺
पद / पाद / चरण /	原因
脚	yuán yīn
jiǎo	कारण / पद / निमित्त / निदान / ठान / अपदेस / अत्यवस / जनन /
पद / चरण / पाद /	去處
腳步	qù chù
jiǎo bù	ठान / पद / पदेस /
脚踏	因
jiǎo tà	yīn
चरण / पाद / पद /	कारण / निदान / पटिच्च / अपदेस / अत्यवस / ठान / निमित्त / पद /
英尺	因素
yīng chǐ	yīn sù
चरण / पद / पाद /	पद / निमित्त / ठान / निदान / कारण / धातु / उपनिसा /
衙	地
yá	dì
अधिकार / ठान / पद /	पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छमा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पुथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छमा / पुथुवी / जगति / जगति /
足	地
zú	de
पद / चरण / पाद /	पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छमा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पुथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छमा / पुथुवी / जगति / जगति /
足部	地位
zú bù	dì wèi
पद / पाद / चरण /	पदेस / पदेस / ठान / अवद्धान / पद / पद / ठान / आयतन / आयतन / अवद्धान /
身份	
shēn fèn	
आयतन / ठान / पद / पदेस / अवद्धान /	
	所
	suǒ
	पद / पदेस / ठान /

身分	पदेस
shēn fēn	padesa
अवद्धान / आयतन / पद /	交椅
道理	jiāo yǐ
dào lǐ	位
ठान / अत्थवस / पद / अपदेस /	wèi
निमित्त / कारण /	पद / आयतन / पदेस / अवद्धान /
邮件	निसीदन / आसन / ठान / पीठ /
yóu jiàn	位子
邮政	wèi zi
yóu zhèng	ठान / पद / निसीदन / पीठ /
部位	पदेस / आसन /
bù wèi	位置
पदेस / ठान / अवद्धान / आयतन /	wèi zhi
पद /	अवद्धान / पद / पदेस / ठान /
	आसन / निसीदन / आयतन / पीठ /
	到位
dào wèi	ठान / पद / पदेस /
區域	區域
qū yù	देस / भूमि / पदेस / आयतन /
去處	去處
qù chù	ठान / पद / पदेस /
地	地
di	पदेस / धरणी / पदेस / धरणी /
	छमा / केदार / भू / थल / भूमि /
	पद / पद / केदार / थल / पृथुवी /
	भू / ठान / ठान / भूमि / छमा /
	पृथुवी / जगति / जगति /
地	地
de	पदेस / धरणी / पदेस / धरणी /
	छमा / केदार / भू / थल / भूमि /
	पद / पद / केदार / थल / पृथुवी /
	भू / ठान / ठान / भूमि / छमा /
	पृथुवी / जगति / जगति /
地位	地位
dì wèi	पदेस / पदेस / ठान / अवद्धान /
	पद / पद / ठान / आयतन /
	आयतन / अवद्धान /
地位	地位
de wèi	पदेस / पदेस / ठान / अवद्धान /
	पद / पद / ठान / आयतन /
	आयतन / अवद्धान /
地方	地方
de fāng	पदेस / पदेस / पद / पद / ठान /
地位	地位
dì fāng	पदेस / पदेस / पद / पद / ठान /
地点	地点
dì diǎn	ठान / पदेस / पद /
地點	地點
de diǎn	場所
場所	chǎng suǒ
chǎng suǒ	ठान / पद / पदेस /
安放	安放
ān fàng	पदेस / ठान / पद /

定位	ding wèi
寄予	jì yǔ
पद / पदेस / ठान /	席
席	xí
पद / ठान / आसन / निसीदन /	所
पदेस / पीठ /	所
所	suǒ
पद / पदेस / ठान /	所在地
所在地	suǒ zài dì
पदेस / पदेस /	所在地
所在地	suǒ zài de
पदेस / पदेस /	斑
斑	bān
斑點	bān diǎn
身份	身份
shēn fèn	आयतन / ठान / पद / पदेस /
आयतन /	अवद्धान /
部位	部位
bù wèi	पदेस / ठान / अवद्धान / आयतन /
पदेस /	पद /
पदातु	पदातु
padātu	分配者
分配者	fēn pèi zhě
पदातु / भागी /	पदान
पदान	padāna
授予	授予
shòu yǔ	पदिक
पदिक	padika
行人	行人
xíng rén	पथावी / पदिक / पथिक /

पदीप	padīpa
亮光	liàng guāng
भानु / आभा / अवभास / जोति /	पभास / पज्जोत / पभा / भा /
आलोक / निभा / दित्ति / पदीप /	光
光	guāng
आलोक / दित्ति / भा / पज्जोत /	पदीप / पभास / आभा / पभा /
जोति / अवभास / भानु / निभा /	光線
光線	guāng xiàn
अवभास / पदीप / निभा / पभास /	पज्जोत / पभा / भानु / कर /
जोति / आलोक / किरण / दित्ति /	भा / आभा /
भा / आभा /	對光
對光	duì guāng
पज्जोत / जोति / भानु / पदीप /	पभा / अवभास / आलोक / दित्ति /
निभा / भा / पभास / आभा /	淡
淡	dàn
जोति / निभा / पज्जोत / पभा /	भानु / आलोक / भा / अवभास /
दित्ति / पभास / पदीप / आभा /	淡淡
淡淡	dàn dàn
पदीप / जोति / दित्ति / अवभास /	आभा / पज्जोत / पभा / पभास /
आलोक / भानु / भा / निभा /	清淡
清淡	qīng dàn
पभास / पज्जोत / पदीप / आलोक /	पभा / दित्ति / जोति / भा /
निभा / भानु / अवभास / आभा /	灯
灯	dēng
दित्ति / पदीप / अवभास / पभास /	आलोक / पभा / जोति / भा /
भानु / पज्जोत / आभा / निभा /	燈
燈	dēng
पज्जोत / दित्ति / पभा / जोति /	भानु / निभा / भा / पदीप /
पभास / आभा / अवभास / आलोक /	दीप /
दीप /	燈光
燈光	dēng guāng
पज्जोत / भानु / आलोक / भा /	पभा / अवभास / पभास / आभा /
दित्ति / निभा / जोति / पदीप /	發光
發光	fā guāng
भानु / आभा / पभास / पज्जोत /	पभा / अवभास / पदीप / जोति /
भा / निभा / आलोक / दित्ति /	輕
輕	qīng
दित्ति / पभास / आलोक / पभा /	जोति / पदीप / निभा / पज्जोत /
भानु / आभा / अवभास / भा /	輕便
輕便	qīng biàn
पदीप / आभा / दित्ति / पभास /	अवभास / निभा / पभा / आलोक /
पज्जोत / भानु / भा / जोति /	

轻	qīng
पज्जोत / निभा / पदीप / पभा /	भा / जोति / पभास / अवभास /
भानु / दित्ति / आलोक / आभा /	पदोस
पदोस	padosa
傍晚	bàng wǎn
微明	wēi míng
暮	mù
污點	wū diǎn
काळक / पदोस /	激怒
激怒	jī nù
कोप / पकोप / पटिघ / आघात /	पदोस /
पदोस /	缺點
缺點	quē diǎn
पदोस / आदीनव / कलङ्क / छिद्द /	दोस /
दोस /	薄暮
薄暮	bó mù
黃昏	huáng hūn
पधंस	पधंस
padhamsa	冒犯
冒犯	mào fàn
違反	wéi fǎn
पधंस / उल्लङ्घन /	違規
違規	wéi guī
पधान	पधान
padhāna	主要的
主要的	zhǔ yào de
पमुख / पधान / पामोक्ख /	最初的
最初的	zuì chū de
आवत्थिक / आदि / जेडु / धुर /	मुख्य / पधान / मुख / पाकतिक /
मुख्य / पधान / मुख / पाकतिक /	पठम /
पठम /	領袖
領袖	líng xiù
नायक / नित्यातु / पामोक्ख /	पधान / नेतु /
पधान / नेतु /	首席
首席	shǒu xī
पमुख / पधान / पामोक्ख /	魁
魁	kuí
पधान / पामोक्ख / पमुख /	

पन	只	पुन	पन्थ	馬路
pana	zhǐ	puna	pantha	mǎ lù
不遇	पन / पि / एव / तु / आदु /	一再	修路	अञ्जस / मग्ग / पज्ज / पथ / पन्थ /
bù guò	只是	yī zài	xiū lù	पनाळिका
पन / तु / पि / आदु /	zhǐ shì	一遍	मग्ग / अञ्जस / पन्थ / पथ / पज्ज /	panālikā
与	एव / पन / पि / आदु / तु /	yī biàn	办法	煙斗
yǔ	可是	再	bàn fǎ	yān dòu
पन / अपि / च /	kě shì	再	मग्ग / पथ / पन्थ /	管
且	अपि / पन / एव / तु / आदु / पि /	再一次	徑	guǎn
qiě	和	zài yī cì	jìng	आयतिका / नाळ / नाळिका / नळ / पनाळिका /
पन / च / अपि /	hé	再度	पन्थ / पज्ज / अञ्जस / पथ / मग्ग /	管子
並	च / अपि / पन /	zài dù	徑	guǎn zi
bìng	尚	再次	jìng	नाळ / पनाळिका / नळ / नाळिका / आयतिका /
च / पन / अपि /	shàng	zài cì	पन्थ / पथ / अञ्जस / मग्ग / पज्ज /	管用
並且	पन / तु /	又	路	guǎn yòng
bìng qiě	并	yòu	lù	通道
अपि / पन / च /	bìng	पन / पुन / अपि / च /	पथ / मग्ग / पन्थ / अञ्जस / पज्ज /	tōng dào
乃是	च / पन / अपि /	重新	路上	पनाळिका / पाठ /
nǎi shì	并且	zhòng xīn	लु शंग	पूप
पि / तु / आदु / पन /	bìng qiě	पन्ति	पथ / पन्थ / अञ्जस / पज्ज / मग्ग /	pūpa
仍	पन / अपि / च /	panti	मग्ग /	糕
réng	惟	一串	路径	gāo
पन / तु /	wéi	yī chuàn	lù jìng	पूव / पूप /
仍然	पन / एव / तु / आदु / केवल / पि /	串	मग्ग / अञ्जस / पथ / पज्ज / पन्थ /	蛋糕
réng rán	暨	chuàn	路线	dàn gāo
पन / तु /	jì	पन्ति / थबक / उद्दान / घटा /	lù xiàn	पूव / पूप /
仍舊	च / पन / अपि /	列	पज्ज / मग्ग / पन्थ / अञ्जस / पथ /	西薄
réng jiù	然而	liè	路途	xī bó
पन / तु /	rán ér	行	lù tú	पूव / पूप /
以及	आदु / पि / तु / पन / एव /	xíng	पथ / मग्ग / पज्ज / पन्थ / अञ्जस /	餅
yǐ jí	现在还是	पन्ति / चारित्त /	guǎ	bǐng
अपि / च / पन /	xiàn zài hái shì		पज्ज / पथ / पन्थ / मग्ग / अञ्जस /	पूप / पूव /
但	तु / पन /		軌道	पपञ्च
dàn	而		guǐ dào	papañca
तु / पन / आदु / पि / एव /	ér		पज्ज / मग्ग / अञ्जस / पन्थ / पथ /	妄想
但是	च / अपि / पन /		辦法	wàng xiǎng
dàn shì	而且		bàn fǎ	妨礙
पन / तु / पि / आदु / एव / अपि /	ér qiě		पन्थ / पथ / मग्ग /	fáng ài
併	उत्तरि / अपि / च / उत्तरि / पन /		途	幻想
bìng	與		tú	huàn xiǎng
पन / अपि / च /	yǒu		मग्ग / पन्थ / अञ्जस / पज्ज / पथ /	障礙
依然	ch / अपि / पन /		途徑	zhàng ài
yī rán	還沒		tú jìng	पपञ्च / परिपन्थ / अन्तराय /
तु / पन /	hái méi		मग्ग / पथ / पन्थ / पज्ज / अञ्जस /	障礙
兼	तु / पन /		通路	पपञ्च / आवरण / अन्तराय / परिपन्थ / पळिबोध /
jiān	還沒有		tōng lù	पुप्फ
च / अपि / पन /	hái méi yǒu		मग्ग / पन्थ / ओतार / अञ्जस / पथ / पज्ज /	puppha
却	पन / तु /		道	花
què	那麼		dào	huā
पन / तु / पि / आदु /	nà me		पथ / पन्थ / अञ्जस / मग्ग / पज्ज /	कुसुम / पुप्फ /
卻	तु / अथ / पन / अथो /		道路	花蕊
què			dào lù	हुआ रूई
पन / आदु / तु / पि /			मग्ग / पन्थ / अञ्जस / पथ / पज्ज /	कुसुम / पुप्फ /
又				
yòu				
पन / पुन / अपि / च /				
及				
jí				
अपि / पन / च /				
及其				
jí qí				
पन / अपि / च /				

पपात	पुब्बा	पभङ्गुर	पभव	由来
papāta	pubbā	pabhaṅgura	pabhava	yóu lái
崖	东	易碎	來歷	पभव / उत्पत्ति / उद्धान /
yá	dōng	yì suì	lái lì	血统
पुब्ब	पुरत्थिम / पुरत्था / पुब्बा /	脆	पभव / उत्पत्ति / उद्धान /	xuè tǒng
pabba	向东	cuì	來源	उत्पाद / उद्धान / उत्पत्ति / पभव /
段	xiàng dōng	脆弱	lái yuán	गोत्त /
duàn	पुरत्था / पुब्बा /	cuì ruò	पभव / निदान /	起源
पुब्ब	向东的	薄弱	出处	qǐ yuán
pubba	xiàng dōng de	bó ruò	chū chǔ	उद्धान / उत्पत्ति / पभव / उत्पाद /
先前的	पुब्बा / पुरत्था /	अबल / दुब्बल / पभङ्गुर /	निदान / पभव /	
xiān qián de	東	पभङ्गुर / अबल / दुब्बल /	出身	
पठम / पुब्ब / पुराण / पुरिम /	dōng	薄弱	chū shēn	
物質	पुब्बा / पुरत्था /	báo ruò	पजायन / उत्पज्जन / जाति /	
wù zhì	東邊	अबल / दुब्बल / पभङ्गुर /	उत्पत्ति / निब्बत्तन / पभव /	
दुब्ब / पुब्ब /	dōng biān	पभङ्गुर / अबल / दुब्बल /	उत्पाद / उद्धान / जायन /	
脓	पुरत्था / पुब्बा /	पभुति	原点	
nóng	東部	pabhuti	yuán diǎn	
अस्सव / पू / पुब्ब /	dōng bù	以來	पभव / उद्धान / उत्पत्ति /	
膿	पाचीन / पुब्बा / पुरत्था /	yǐ lái	始源	
nóng	華東	jì rán	shǐ yuán	
पू / पुब्ब / अस्सव /	huá dōng	jì rán	उद्धान / पभव / उत्पत्ति /	
पुब्ब	पुब्बा / पुरत्था /	jì rán	开始	
pubbe	पब्बाजन	yóu yú	kāi shǐ	
以往	pabbājana	由於	朔	
yǐ wǎng	放逐	自	shuò	
從前	fàng zhú	自	本源	
cóng qián	流亡	自從	běn yuán	
पुरतो / पुब्बे / पुरा / पुरे /	liú wáng	zì cóng	पभव / उद्धान / उत्पत्ति / निदान /	
過去	流刑	ततो / पभुति /	来历	
guò qù	liú xíng	自此	lái lì	
अतीत / पुब्बे /	流放	zì cǐ	उद्धान / इतिहास / पभव / उत्पत्ति /	
पुब्बण्ह	liú fàng		來源	
pubbanha	被放逐者		lái yuán	
午前	bèi fàng zhú zhě		निदान / पभव /	
wǔ qián	驱逐		根源	
पुब्बत	qū zhú		gēn yuán	
pabbata	पुब्भार		उद्धान / उत्पत्ति / निदान / पभव /	
山	pabbhāra		水源	
shān	傾向		shuǐ yuán	
नग / पुब्बत / गिरि / अदि /	qīng xiàng		तोय / दक / नीर / पभव / अम्बु /	
山地	निन्नता / आसय / अभिनिवेस /		निदान / उदक / ओक / जल /	
shān de	पाताल / पसङ्ग / अनुसय /		अण्ण /	
अदि / पुब्बत / पुब्बत / अदि /	पुब्भार / अधिमृत्ति / नति /		泉源	
गिरि / नग / गिरि / नग /	पभू		quán yuán	
山地	pabhū		निदान / पभव /	
shān dì	領主		源	
अदि / पुब्बत / पुब्बत / अदि /	líng zhǔ		yuán	
गिरि / नग / गिरि / नग /	अधिप / इस्सर / अय्य / अधिपति		उब्भिद / पभव / निदान /	
山路	/ पभू / पति /		源头	
shān lù	पभङ्गु		yuán tóu	
नग / पुब्बत / अदि / गिरि /	pabhaṅgu		पभव / निदान /	
岳	脆弱		源泉	
yuè	cuì ruò de		yuán quán	
नग / अदि / गिरि / पुब्बत /	脆的		निदान / पभव /	
嶽	cuì de		源点	
yuè			yuán diǎn	
गिरि / नग / पुब्बत / अदि /			पभव / निदान /	
			源頭	
			yuán tóu	
			पभव / निदान /	

轻	पेम	पमुख	पमज्जना	पमाद
qīng	pema	pamukha	pamajjanā	pamāda
पज्जोत / निभा / पदीप / पभा / भा / जोति / पभास / अवभास / भानु / दित्ति / आलोक / आभा /	恋愛	主要的	延	懈怠
पुम	liàn ài	zhǔ yào de	yán	xiè dài
puma	पियायना / पेम /	पमुख / पधान / पामोक्ख /	延迟	疏忽
人	感情	前方	yán chí	shū hū
rén	gǎn qíng	qián fāng	延遲	पमोद
पोस / दिपद / जन / पुम / पोरिस / पुरिस / पुग्गल / मच्च / जन्तु /	春	पमुख / मुख / अभिमुख /	yán chí	pamoda
夫	chūn	前端	拖延	喜悅
fu	पियायना / उब्भिद / पेम /	qián duān	tuō yán	xǐ yuè
भत्तु / मच्च / दिपद / जन / जन / मच्च / पुरिस / धव / पिय / धव / दिपद / कन्त / पिय / पुम / कन्त / पुरिस / पति / पोस / पति / पुम / पोस / भत्तु /	爱	अभिमुख / मुख / पमुख /	पमज्जना / परिकइदन /	पीति / नन्दि / तुस्सना / पमोद / तुडि / पामोज्ज / पामुज्ज / आनन्द / पीणन /
夫	ài	前線	挨	喜悅
fū	पियायना / पेम /	qián xiàn	ǎi	xǐ yuè
भत्तु / मच्च / दिपद / जन / जन / मच्च / पुरिस / धव / पिय / धव / दिपद / कन्त / पिय / पुम / कन्त / पुरिस / पति / पोस / पति / पुम / पोस / भत्तु /		मुख / अभिमुख / पमुख /	耽	तुडि / नन्दि / आनन्द / पामुज्ज / पमोद / पीति / पामोज्ज / तुस्सना /
曼		前線	dān	樂趣
màn		qián xiàn	耽擱	lè qù
मच्च / पुथुल / पुम / पुरिस / पोस / उरु / जन / दिपद /		मुख / अभिमुख / पमुख /	dān gē	आराम / पमोद / तुडि / काम / नन्दि / आनन्द /
牡		qián biān	耽擱	欢乐
mǔ		मुख / पमुख / अभिमुख /	dān gē	huān lè
पुरिस / पुम /		前部	耽誤	आराम / आनन्द / पमोद / तुडि / पामोज्ज / काम / पामुज्ज / नन्दि / पीति /
男		qián bù	dān wù	欢喜
nán		धुर / पमुख / अभिमुख / मुख /	पमाण	huān xǐ
पुम / पुरिस /		前面	pamāṇa	पमोद / आराम / तुडि / काम / नन्दि / आनन्द /
男人		qián miàn	大小	歡喜
nán rén		पमुख / अभिमुख / मुख /	dà xiǎo	huan xǐ
पुरिस / दिपद / पुम / जन / मच्च / पोस /		bēn jīn	परिमाण / पमाण /	पमोद / आराम / तुडि / काम / नन्दि / आनन्द /
男子		正面	尺寸	歡喜
nán zi		zhèng miàn	chǐ cùn	huan xǐ
पोस / पुम / पुरिस / दिपद / मच्च / जन /		मुख / अभिमुख / पमुख /	度量	अभिनन्दन / पमोद / तुस्सना / आनन्द / पामुज्ज / पीति / नन्दि / तुडि / पामोज्ज /
男子漢		資本	dù liàng	歡樂
nán zi hàn		zī běn	परिच्छेद / पमाण / परिमाण /	huan lè
पुरिस / दिपद / पोस / जन / पुम / मच्च /		跟前	措施	पमोद / आनन्द / कीळना / तुडि / पामोज्ज / पीति / नन्दि / कँळी / तुस्सना / पामुज्ज /
男性		gēn qián	cuò shī	禧
nán xìng		अभिमुख / मुख / पमुख /	पमाण / परिच्छेद / परिमाण / कम् /	xǐ
पुम / पुरिस /		車頭	測	पीति / पामुज्ज / नन्दि / पामोज्ज / नन्दि / पमोद / पमोद / तुस्सना / तुडि / आनन्द /
男的		chē tóu	cè	禧
nán de		पमुख / अभिमुख / मुख /	परिच्छेद / पमाण / परिमाण /	xǐ
पुरिस / पुम /		陣	測量	पीति / पामुज्ज / नन्दि / पामोज्ज / नन्दि / पमोद / पमोद / तुस्सना / तुडि / आनन्द /
雄		zhèn	cè liàng	पमाण / परिमाण / परिच्छेद /
xióng		पमुख / अभिमुख / मुख /	測	पमोद / आनन्द / कीळना / तुडि / पामोज्ज / पीति / नन्दि / कँळी / तुस्सना / पामुज्ज /
पुम / पुरिस /		陣	cè	禧
雄性		zhèn xiàn	पमाण / परिमाण / परिच्छेद /	xǐ
xióng xìng		मुख / अभिमुख / पमुख /	測量	पीति / पामुज्ज / नन्दि / पामोज्ज / नन्दि / पमोद / पमोद / तुस्सना / तुडि / आनन्द /
पुरिस / पुम /		陣線	cè liàng	पय
雄的		zhèn xiàn	पमाण / परिमाण / परिच्छेद /	paya
xióng de		पमुख / अभिमुख / मुख /	衡	乳
पुम / पुरिस /		shǒu xí	héng	rǔ
雄性		पमुख / पधान / पामोक्ख /	परिच्छेद / पमाण / परिमाण /	पय / खीर / दुद / उर /
xióng xìng		魁	衡量	乳汁
पुरिस / पुम /		kuí	héng liàng	rǔ zhī
雄的		पधान / पामोक्ख / पमुख /	पमाण / परिमाण / परिच्छेद /	खीर / पय / दुद /
xióng de			量度	奶
पुम / पुरिस /			liàng dù	nǎi
			परिच्छेद / परिमाण / पमाण /	खीर / पय / दुद /
				牛奶
				niú nǎi
				पय / खीर / दुद /

पूय	पयोजन	पर	परं	पुरेक्खार
pūya	payojana	para	param	purekkhāra
脓	使用	其他	之后	尊敬
nóng	shǐ yòng	qí tā	zhī hòu	zūn jìng
अस्सव / पूय / पुब्ब / 膿	पटिसेवन / अत्थवस / उपभोग / पयोजन / परिभोग / निसेवन / अत्थ /	इतर / अञ्ज / पर / 其他人	परं / पच्छा / 之後	अच्चना / चित्तीकार / नमक्कार / पच्चुड्डान / पूजा / नमस्सन / पुरेक्खार / गारेव / पटिपूजना / अपचायन /
nóng	利用	qí tā rén	zhī hòu	熱愛
पूय / पुब्ब / अस्सव /	li yòng	पर / इतर / अञ्ज /	后	熱愛
पेय्य	अत्थवस / परिभोग / अत्थ / पयोजन / उपभोग /	其它	hòu	rè ài
peyya	從事	qí tā	पच्छा / परं /	पुरेक्खार / अभिप्पसाद / पसीदन / भत्ति / पियायना /
可以喝的	cóng shì	पर / अञ्ज / इतर /	后的	荣誉
kě yǐ hē de	योग / पयोजन /	其它的	hòu de	róng yù
पयोग	施用	qí tā de	後	पटिपूजना / पुरेक्खार / अच्चना /
payoga	shī yòng	इतर / अञ्ज / पर /	hòu	पुरत्था
作用	पयोजन / अत्थ / अभिनिरोपन / अत्थवस / परिभोग / उपभोग /	別	經	puratthā
zuò yòng	用	bié	jīng	东
चार / निस्सन्द / कम्म / निप्फत्ति / निप्फज्जन / फल / किरिय / पयोग /	yòng	अञ्ज / इतर / पर /	jīng	dōng
努力	पयोजन / परिभोग / उपभोग / अत्थवस / अत्थ /	别的	jīng guò	पुरत्थिम / पुरत्था / पुब्बा / 向東
nǔ lì	用法	bié de	经	xiàng dōng
आतप्प / पग्गह / उस्साह / उस्सहन / पग्गाह / परिस्सम / उग्घटित / आयूहन / पयोग /	yòng fǎ	इतर / अञ्ज / पर /	jīng	पुरत्था / पुब्बा / 向東的
動作	परिभोग / अत्थ / उपभोग / अत्थवस / पयोजन /	別	jīng guò	xiàng dōng de
dòng zuò	用途	bié rén	超出	पुब्बा / पुरत्था / 東
कम्म / इञ्जन / पयोग / चार / किरिय /	yòng tú	别的	chāo chū	dōng
從事	पयोजन / अत्थवस / उपभोग / परिभोग / अत्थ /	bié de	परं / तिरो / 超过	पुब्बा / पुरत्था / 東邊
cóng shì	运用	इतर / अञ्ज / पर /	chāo guò	dōng biān
पयोग / पयोजन /	yùn yòng	另	परं / तिरो /	पुरत्था / पुब्बा / 東部
行動	पयोजन / अत्थ / उपभोग / परिभोग / अत्थवस /	lìng	पुरे	dōng bù
xíng dòng	運用	अपर / अञ्ज / इतर / पर /	pure	पाचीन / पुब्बा / पुरत्था / 華東
किरिय / किच्च / पयोग / चार / कम्म /	yùn yòng	另一個	之前	huá dōng
行動	परिभोग / अभिनिरोपन / अत्थवस / अत्थ / उपभोग / पयोजन /	lìng yī gè	zhī qián	पुब्बा / पुरत्था /
xíng dòng		另外	पुरतो / पुरे / 從前	पुरत्थिम
चार / कम्म / पयोग / किरिय /		lìng wài	cóng qián	puratthima
		उत्तरि / पर / उत्तरिं / अञ्ज / इतर /	पुरतो / पुब्बे / पुरा / पुरे / 此前	东
		驚	पुरतो / पुरे /	dōng
		biè	此前	पुरत्थिम / पुरत्था / पुब्बा / 東區
		पर / अञ्ज / इतर /	cǐ qián	dōng qū
		陌生人	पुरे / पुरतो / 面前	
		mò shēng rén	miàn qián	
		अत्तिथि / पर / अब्भागत / आगन्तुक /	पुरतो / पुरे /	
			पूर	
			pūra	
			完成	
			wán chéng	
			पारमी / अननक / निप्फत्ति / पारमिता / निड्डान / अनन / पारिपरि / पर / परिपूर / अनवसेस / पूणं / नित्थरण /	
			परक्कम	
			parakkama	
			用功	
			yòng gōng	

पुरतो	पुराण	परिक्खय	परिकम्म	परिच्छेद
purato	purāṇa	parikkhaya	parikamma	pariccheda
之前	估	廢物	安排	圻
zhī qián	gū	fèi wù	ān pái	qí
पुरतो / पुरे / 在前	पुराण / जर / बु / जज्जर / 先前的	परिक्खय / खय / 枯竭	पकप्पना / परिकम्म / पज्जापन / अज्झासय /	परिच्छेद / ओधि / अवधि / 圻
zài qián	xiān qián de	kū jié	परिग्गह	gāi
從前	पठम / पुब्ब / पुराण / पुरिम / 古	浪費	pariggaha	ओधि / परिच्छेद / अवधि / 塹
cóng qián	gǔ	làng fèi	佔有	shān
पुरतो / पुब्बे / पुरा / पुरे / 此前	बु / पुराण / जर / जज्जर / 古老	परिक्खय / खय / 浪费	取得	ओधि / परिच्छेद / अवधि / 境
cǐ qián	gǔ lǎo	làng fèi	qǔ de	jìng
पुरे / पुरतो / 稅前	जर / बु / पुराण / जज्जर / 年老的	खय / परिक्खय / 白費	पटिलाभ / परिग्गह / परिग्गह / 取得	परियन्त / अवधि / परिच्छेद / 度量
shuì qián	nián lǎo de	bái fèi	qǔ dé	dù liàng
面前	जर / जज्जर / बु / पुराण / 年迈	परिक्खय / खय / 腐朽	पटिलाभ / परिग्गह / परिग्गह /	परिच्छेद / पमाण / परिमाण / 徼
miàn qián	nián mài	fǔ xiǔ	परिगणहन	jiào
पुरतो / पुरे /	जर / जज्जर / बु / पुराण / 旧	xū dù	diào chá	परिच्छेद / ओधि / अवधि / 措施
परसु	jiù	खय / परिक्खय /	अन्वेसना / उपपरिक्खन / परिगणहन /	cuò shī
parasu	पुराण / जज्जर / बु / जर / 旧的	परिक्खार		पमाण / परिच्छेद / परिमाण / कम /
斧頭	jiù de	parikkhāra		极限
fǔ tóu	बु / जर / पुराण / जज्जर / 老	備		jí xiàn
फरसु / परसु /	lǎo	bèi		परिच्छेद / परियन्त / अवधि / परिमाण / ओधि /
पुरा	जर / बु / थेर / पुराण / जज्जर / आचरिय /	器材		測
purā	lǎo de	qì cái		cè
從前	जज्जर / बु / जर / पुराण / 舊	bì xū pǐn		परिच्छेद / पमाण / परिमाण / 測量
cóng qián	jiù	परिक्खार / अत्थ / उपकरण / 裝備		cè liàng
पुरतो / पुब्बे / पुरा / पुरे /	जर / जज्जर / बु / पुराण / 舊的	zhuāng bèi		पमाण / परिमाण / परिच्छेद / 測
	jiù de	zhuāng bèi		cè
	जर / पुराण / बु / जज्जर /	zhuāng zhì		पमाण / परिमाण / परिच्छेद / 測量
	पराभव	設備		cè liàng
	parābhava	shè bèi		पमाण / परिमाण / परिच्छेद / 界限
	毀滅	设备		jiè xiàn
	huǐ miè	shè bèi		अवधि / परिच्छेद / ओधि / 眡
	परिहानि / नास / पराभव /	配件		zhěn
		pèi jiàn		ओधि / अवधि / परियन्त / परिच्छेद /
		परिकड्ढन		疆
		parikaḍḍhana		jiāng
		拖延		ओधि / परियन्त / परिच्छेद / अवधि /
		tuō yán		疆界
		पमज्जना / परिकड्ढन /		jiāng jiè
		परिकप्प		ओधि / परिच्छेद / अवधि / परियन्त /
		parikappa		衡
		假定		héng
		jià dìng		परिच्छेद / पमाण / परिमाण / 衡量
		意圖		héng liàng
		yì tú		पमाण / परिमाण / परिच्छेद /
		अज्झासय / अधिप्पाय / चेतना / चेत / परिकप्प /		

<p>辺际</p> <p>biān jì</p> <p>अवधि / परियन्त / परिमाण / परिच्छेद / ओधि /</p> <p>邊界</p> <p>biān jiè</p> <p>अवधि / ओधि / परिच्छेद / परियन्त /</p> <p>量度</p> <p>liàng dù</p> <p>परिच्छेद / परिमाण / पमाण /</p> <p>际</p> <p>jì</p> <p>परिच्छेद / अवधि / परियन्त /</p> <p>限制</p> <p>xiàn zhì</p> <p>परिच्छेद / परिमाण / अवधि / ओधि / नियम / परियन्त /</p> <p>限定</p> <p>xiàn dìng</p> <p>ओधि / नियम / अवधि / परियन्त / परिच्छेद / परिमाण /</p> <p>限度</p> <p>xiàn dù</p> <p>नियम / परिच्छेद / परिमाण / ओधि / अवधि / परियन्त /</p>	<p>परिजानन</p> <p>parijānana</p> <p>深知</p> <p>shēn zhī</p> <p>आजानन / परिजानन / अधिगम / पञ्जा / बोध / अनुबोध / अवबोध /</p> <p>知識</p> <p>zhī shi</p> <p>पञ्जा / अधिगम / बोध / आजानन / परिजानन / अनुबोध / अवबोध /</p> <p>知識</p> <p>zhī shī</p> <p>अनुबोध / अधिगम / पञ्जा / अवबोध / बोध / परिजानन / आजानन /</p> <p>識</p> <p>shi</p> <p>अवबोध / बोध / परिजानन / अनुबोध / पञ्जा / आजानन / अधिगम /</p> <p>识</p> <p>shī</p> <p>अधिगम / अवबोध / बोध / परिजानन / बोध / पञ्जा / पञ्जा / अनुबोध / परिजानन / अनुबोध / अधिगम / अवबोध / आजानन / आजानन /</p>	<p>परिणाम</p> <p>pariṇāma</p> <p>发展</p> <p>fā zhǎn</p> <p>变</p> <p>biàn</p> <p>变化</p> <p>biàn huà</p> <p>变更</p> <p>biàn gèng</p> <p>开发</p> <p>kāi fā</p> <p>成熟</p> <p>chéng shú</p> <p>परिपाक / परिणाम / परिपाचन / पाक /</p> <p>改</p> <p>gǎi</p> <p>改變</p> <p>gǎi biàn</p> <p>更改</p> <p>gèng gǎi</p> <p>消化</p> <p>xiāo huà</p> <p>परिणाम / गहणी / जीरण /</p> <p>變</p> <p>biàn</p> <p>變動</p> <p>biàn dòng</p> <p>अञ्जथत्त / परिणाम /</p> <p>變化</p> <p>biàn huà</p> <p>變更</p> <p>biàn gèng</p> <p>轉變</p> <p>zhuǎn biàn</p> <p>转变</p> <p>zhuǎn biàn</p>	<p>परित्त</p> <p>paritta</p> <p>不足道</p> <p>bù zú dào</p> <p>子</p> <p>jié</p> <p>खुद् / थोक / अप्पक / अप्प / चुल्ल / परित्त /</p> <p>小</p> <p>xiǎo</p> <p>अप्पक / चुल्ल / थोक / खुद् / परित्त / अप्प /</p> <p>小班</p> <p>xiǎo bān</p> <p>परित्त / अप्प / खुद् / अप्पक / थोक / चुल्ल /</p> <p>小的</p> <p>xiǎo de</p> <p>अप्पक / खुद् / थोक / परित्त / चुल्ल / अप्प /</p> <p>少的</p> <p>shǎo de</p> <p>ईसक / अप्प / अप्पक / परित्त /</p> <p>微不足道</p> <p>wēi bù zú dào</p> <p>微小</p> <p>wēi xiǎo</p> <p>परित्त / खुद् / अप्प / थोक / अप्पक / चुल्ल /</p> <p>渺小</p> <p>miǎo xiǎo</p> <p>परित्त / अप्प / चुल्ल / खुद् / थोक / अप्पक /</p> <p>芮</p> <p>ruì</p> <p>अप्पक / खुद् / अप्प / थोक / परित्त / चुल्ल /</p> <p>蒺</p> <p>fèi</p> <p>अप्प / खुद् / थोक / परित्त / चुल्ल / अप्पक /</p> <p>蕞</p> <p>zuì</p> <p>अप्प / अप्पक / चुल्ल / थोक / खुद् / परित्त /</p> <p>薄</p> <p>báo</p> <p>थोक / परित्त / अप्प / परित्त / अप्प / चुल्ल / तनु / चुल्ल / अप्पक / खुद् / अप्पक / खुद् / थोक / तनु /</p> <p>薄</p> <p>bó</p> <p>थोक / परित्त / अप्प / परित्त / अप्प / चुल्ल / तनु / चुल्ल / अप्पक / खुद् / अप्पक / खुद् / थोक / तनु /</p> <p>藐</p> <p>miǎo</p> <p>थोक / परित्त / अप्पक / खुद् / चुल्ल / अप्प /</p> <p>襍</p> <p>bì</p> <p>खुद् / परित्त / अप्प / चुल्ल / थोक / अप्पक /</p>	<p>परित्ताण</p> <p>parittāṇa</p> <p>庇護</p> <p>bì hù</p> <p>परितस्सना</p> <p>paritassanā</p> <p>激動</p> <p>jī dòng</p> <p>चलन / पकोप / फन्दित / फन्दन / कप्पन / उब्बिज्जना / आलोठ / परितस्सना / खोभ /</p> <p>परिताप</p> <p>paritāpa</p> <p>迫害</p> <p>pò hài</p> <p>परिदेव</p> <p>parideva</p> <p>悲泣</p> <p>bēi qì</p> <p>परिदीपन</p> <p>paridīpana</p> <p>解釋</p> <p>jiě shì</p> <p>दीपना / परिदीपन / निगमन / निब्बेठन / उद्दीपना / पकास /</p> <p>解釋</p> <p>jiě shì</p> <p>दीपना / निब्बेठन / पकास / परिदीपन / उद्दीपना / निगमन / निहेस /</p> <p>說明</p> <p>shuō míng</p> <p>निब्बेठन / निदान / अट्ठकथा / उद्दीपना / निगमन / पकास / दीपना / परिदीपन /</p> <p>परिनायक</p> <p>parināyaka</p> <p>領導者</p> <p>lǐng dǎo zhě</p>
<p>परिच्छिन्दन</p> <p>paricchindana</p> <p>定义</p> <p>dìng yì</p> <p>नियमन / परिच्छिन्दन /</p> <p>定義</p> <p>dìng yì</p> <p>परिच्छिन्दन / नियमन /</p> <p>परिचय</p> <p>paricaya</p> <p>熟悉</p> <p>shú xī</p> <p>परिचरण</p> <p>paricaraṇa</p> <p>照料</p> <p>zhào liào</p> <p>पट्टिजग्गन / परिहार / गोपन / परिचरण / आरक्खा /</p>	<p>परिणय</p> <p>pariṇaya</p> <p>姻</p> <p>yīn</p> <p>婚</p> <p>hūn</p> <p>婚事</p> <p>hūn shì</p> <p>परिणय / आवाह /</p> <p>婚姻</p> <p>hūn yīn</p> <p>परिणय / आवाह /</p> <p>婚嫁</p> <p>hūn jià</p> <p>婚禮</p> <p>hūn lǐ</p> <p>आवाह / परिणय /</p> <p>成親</p> <p>chéng qīn</p>			

परिनिद्धान
pariniṭṭhāna
下場
xià chǎng
कोण / परिनिद्धान / परियन्त / अन्त / परियोसान / अग्ग / अवसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान /
告終
gào zhōng
अपवग्ग / कोण / अन्त / ओसान / परियोसान / अग्ग / निद्दा / परिनिद्धान / अवसान / परियन्त / कोटि /
完結
wán jié
निद्दा / कोटि / ओसान / परियन्त / अन्त / अपवग्ग / परियोसान / अवसान / परिनिद्धान / कोण / अग्ग /
完結
wán jié
परियन्त / परिनिद्धान / ओसान / अवसान / अन्त / निद्दा / अग्ग / अपवग्ग / कोण / परियोसान / कोटि /
底
dǐ
ओसान / अवसान / परियन्त / पद / कोण / परियोसान / निद्दा / परिनिद्धान / पाद / अग्ग / अपवग्ग / अन्त / कोटि /
月底
yuè dǐ
परियोसान / अग्ग / अन्त / परियन्त / अवसान / ओसान / कोण / निद्दा / कोटि / परिनिद्धान / अपवग्ग /
月末
yuè mò
कोण / अवसान / ओसान / परिनिद्धान / निद्दा / परियन्त / अन्त / अग्ग / कोटि / अपवग्ग / परियोसान /
末
mò
परिनिद्धान / अपवग्ग / अग्ग / परियोसान / ओसान / निद्दा / अवसान / अन्त / कोटि / परियन्त / कोण /
末尾
mò wěi
अन्त / परियोसान / कोटि / परियन्त / ओसान / निद्दा / अपवग्ग / अग्ग / अवसान / कोण / परिनिद्धान /
末端
mò duān
अवसान / अग्ग / परिनिद्धान / अन्त / परियोसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान / परियन्त / कोण /
止境
zhǐ jìng
कोण / अग्ग / परियोसान / अन्त / कोटि / परियन्त / ओसान / अवसान / परिनिद्धान / अपवग्ग / निद्दा /
盡頭
jìn tóu
कोण / अन्त / परियन्त / अग्ग / परिनिद्धान / परियोसान / अवसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान /

端
duān
अन्त / कोण / अपवग्ग / परिनिद्धान / कोटि / अवसान / निद्दा / परियोसान / ओसान / परियन्त / अग्ग /
端上
duān shàng
कोण / कोटि / अवसान / परिनिद्धान / अग्ग / ओसान / अपवग्ग / परियोसान / निद्दा / अन्त / परियन्त /
終
zhōng
परियन्त / कोटि / अपवग्ग / परियोसान / अवसान / अग्ग / कोण / अन्त / ओसान / परिनिद्धान / निद्दा /
終結
zhōng jié
ओसान / खय / अन्त / परिनिद्धान / अपवग्ग / परियोसान / अग्ग / परियन्त / अवसान / कोटि / कोण / निद्दा /
終點
zhōng diǎn
कोण / परियोसान / ओसान / अन्त / निद्दा / कोटि / परिनिद्धान / अपवग्ग / अग्ग / परियन्त / अवसान /
結束
jié shù
परियोसान / अन्त / ओसान / निद्दा / कोण / अग्ग / परियन्त / अपवग्ग / परिनिद्धान / अवसान / निद्धान / कोटि /
終
zhōng
कोटि / परिनिद्धान / अवसान / निद्दा / अग्ग / कोण / अपवग्ग / परियन्त / ओसान / परियोसान / अन्त /
终结
zhōng jié
परियोसान / निद्दा / परिनिद्धान / अपवग्ग / अवसान / कोण / ओसान / अन्त / कोटि / परियन्त / अग्ग /
结束
jié shù
कोटि / ओसान / अवसान / अग्ग / परियोसान / अपवग्ग / परियन्त / अन्त / निद्दा / कोण / परिनिद्धान /
遛
qiú
अवसान / परियन्त / परिनिद्धान / ओसान / कोण / अपवग्ग / अन्त / निद्दा / परियोसान / अग्ग / कोटि /

परिपुच्छा

परिपुच्छा
paripucchā
問題
wèn tí
पुच्छा / पन्ह / परिपुच्छा /

परिपन्थ
paripantha
危
wēi
परिपन्थ / ईघ / उपहव / परिस्सय / उपसग्ग / अन्तराय /
危險
wēi xiǎn
परिपन्थ / उपसग्ग / अन्तराय / परिस्सय / ईघ / उपहव /
危險
wēi xiǎn
परिपन्थ / अन्तराय / उपसग्ग / उपहव / ईघ / परिस्सय /
威胁
wēi xié
अन्तराय / उपहव / परिपन्थ / ईघ / परिस्सय / उपसग्ग /
当儿
dāng ér
अन्तराय / उपसग्ग / परिस्सय / उपहव / ईघ / परिपन्थ /
障碍
zhàng ài
पपञ्च / परिपन्थ / अन्तराय /
障礙
zhàng ài
पपञ्च / आवरण / अन्तराय / परिपन्थ / पळिबोध /

परिपूर
paripūra
充分
chōng fēn
पुण्ण / बह् / परिपूर /
充滿
chōng mǎn
पुण्ण / उस्सन्नता / परिपूर /
全力
quán lì
पुण्ण / परिपूर /
十足
shí zú
परिपूर / पुण्ण /
贏
yíng
आय / पुण्ण / आनिसंस / पत्ति / उदय / परिपूर / उपभोग /
完全
wán quán
निखिल / अनूनक / कसिण / निस्सेस / पुण्ण / परिपूर / अनून / केवल / असेस / अनवसेस /
完成
wán chéng
पारमी / अनूनक / निप्फत्ति / पारमिता / निद्धान / अनून / पारिपूरि / पूर / परिपूर / अनवसेस / पुण्ण / नित्थरण /
完整
wán zhěng
परिपूर / अनून / पुण्ण / अनवसेस / अनूनक /
完畢
wán bì
पुण्ण / अनूनक / अनवसेस / अनून / परिपूर /
成套
chéng tào
पुण्ण / अनून / अनवसेस / अनूनक / परिपूर /
整
zhěng
केवल / कसिण / असेस / पुण्ण / निस्सेस / अनूनक / परिपूर / अनवसेस / अनून / निखिल /
整整
zhěng zhěng
निस्सेस / कसिण / पुण्ण / निखिल / परिपूर / केवल / असेस /
毕
bì
परिपूर / पुण्ण / अनवसेस / अनून / अनूनक /
滿
mǎn
पुण्ण / परिपूर /
满的
mǎn de
परिपूर / पुण्ण /
滿
mǎn
पुण्णता / परिपूर / पुण्ण /
滿懷
mǎn huái
पुण्ण / परिपूर /

滿載
mǎn zài
परिपूर / पुण्ण /
畢
bì
पुण्ण / परिपूर / अनवसेस / अनूनक / अनून /
盈
yíng
परिपूर / पुण्ण /
通通
tōng tōng
केवल / निस्सेस / अनून / अनवसेस / परिपूर / अनूनक / असेस / पुण्ण / निखिल / कसिण /
飽
bǎo
परिपूर / पुण्ण /
飽
bǎo
पुण्ण / परिपूर /
परिपाक
paripāka
到期
dào qī
成熟
chéng shú
परिपाक / परिणाम / परिपाचन / पाक /

परिपाचन
paripācana
成熟
chéng shú
परिपाक / परिणाम / परिपाचन / पाक /

परिब्बय
paribbaya
費用
fèi yòng
धुर / भति / परिब्बय /
開支
kāi zhī

परिभोग
paribhoga
享受
xiǎng shòu
使用
shǐ yòng
पटिसेवन / अत्यवस / उपभोग / पयोजन / परिभोग / निसेवन / अत्य /
利用
lì yòng
अत्यवस / परिभोग / अत्य / पयोजन / उपभोग /
愉快
yú kuài
आराम / फासुक / अत्तमन / इह / अस्साद / तुडि / परिभोग / काम /
施用
shǐ yòng
पयोजन / अत्य / अभिनिरोपन / अत्यवस / परिभोग / उपभोग /
用
yòng
पयोजन / परिभोग / उपभोग / अत्यवस / अत्य /
用法
yòng fǎ
परिभोग / अत्य / उपभोग / अत्यवस / पयोजन /
用途
yòng tú
पयोजन / अत्यवस / उपभोग / परिभोग / अत्य /
运用
yùn yòng
पयोजन / अत्य / उपभोग / परिभोग / अत्यवस /
運用
yùn yòng
परिभोग / अभिनिरोपन / अत्यवस / अत्य / उपभोग / पयोजन /

पुरिम
purima
先前的
xiān qián de
पठम / पुब्ब / पुराण / पुरिम /

परिमुच्चन
parimuccana
釋放
shì fàng
परिमुच्चन / मुञ्चन / ओस्सजन / परिमुत्ति / निब्बान / निट्यान /

परिमुत्ति
parimutti
釋放
shì fàng
परिमुच्चन / मुञ्चन / ओस्सजन / परिमुत्ति / निब्बान / निट्यान /

परिमद्दन
parimaddana
磨碎
mó suì

परिमाण
parimāṇa
大小
dà xiǎo
परिमाण / पमाण /
局限
jú xiàn
परियन्त / ओधि / परिमाण /
幅度
fú dù
度量
dù liàng
परिच्छेद / पमाण / परिमाण /
措施
cuò shī
पमाण / परिच्छेद / परिमाण / कम /
极限
jí xiàn
परिच्छेद / परियन्त / अवधि / परिमाण / ओधि /
極限
jí xiàn
परियन्त / परिमाण / ओधि /
測
cè
परिच्छेद / पमाण / परिमाण /
測量
cè liàng
पमाण / परिमाण / परिच्छेद /
測
cè
पमाण / परिमाण / परिच्छेद /
測量
cè liàng
पमाण / परिमाण / परिच्छेद /
衡
héng
परिच्छेद / पमाण / परिमाण /
衡量
héng liàng
पमाण / परिमाण / परिच्छेद /
边际
biān jì
अवधि / परियन्त / परिमाण / परिच्छेद / ओधि /
量
liàng
परिमाण / पथ /
量度
liàng dù
परिच्छेद / परिमाण / पमाण /
限
xiàn
परियन्त / ओधि / परिमाण /
限制
xiàn zhì
परिच्छेद / परिमाण / अवधि / ओधि / नियम / परियन्त /
限定
xiàn dìng
ओधि / नियम / अवधि / परियन्त / परिच्छेद / परिमाण /

限度
xiàn dù
नियम / परिच्छेद / परिमाण / ओधि / अवधि / परियन्त /
下場
xià chǎng
कोण / परिनिद्धान / परियन्त / अन्त / परियोसान / अगग / अवसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान /
中
zhōng
पीठ / ओज / उर / परियन्त / अन्तो / पथ /
刃
rèn
告終
gào zhōng
अपवग्ग / कोण / अन्त / ओसान / परियोसान / अगग / निद्दा / परिनिद्धान / अवसान / परियन्त / कोटि /
境
jìng
परियन्त / अवधि / परिच्छेद /
完結
wán jié
निद्दा / कोटि / ओसान / परियन्त / अन्त / अपवग्ग / परियोसान / अवसान / परिनिद्धान / कोण / अगग /
完結
wán jié
परियन्त / परिनिद्धान / ओसान / अवसान / अन्त / निद्दा / अगग / अपवग्ग / कोण / परियोसान / कोटि /
局限
jú xiàn
परियन्त / ओधि / परिमाण /
底
dǐ
ओसान / अवसान / परियन्त / पद / कोण / परियोसान / निद्दा / परिनिद्धान / पाद / अगग / अपवग्ग / अन्त / कोटि /
月底
yuè dǐ
परियोसान / अगग / अन्त / परियन्त / अवसान / ओसान / कोण / निद्दा / कोटि / परिनिद्धान / अपवग्ग /
月末
yuè mò
कोण / अवसान / ओसान / परिनिद्धान / निद्दा / परियन्त / अन्त / अगग / कोटि / अपवग्ग / परियोसान /
末
mò
परिनिद्धान / अपवग्ग / अगग / परियोसान / ओसान / निद्दा / अवसान / अन्त / कोटि / परियन्त / कोण /
末尾
mò wěi
अन्त / परियोसान / कोटि / परियन्त / ओसान / निद्दा / अपवग्ग / अगग / अवसान / कोण / परिनिद्धान /

परियन्त
pariyanta
下場
xià chǎng
कोण / परिनिद्धान / परियन्त / अन्त / परियोसान / अगग / अवसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान /
中
zhōng
पीठ / ओज / उर / परियन्त / अन्तो / पथ /
刃
rèn
告終
gào zhōng
अपवग्ग / कोण / अन्त / ओसान / परियोसान / अगग / निद्दा / परिनिद्धान / अवसान / परियन्त / कोटि /
境
jìng
परियन्त / अवधि / परिच्छेद /
完結
wán jié
निद्दा / कोटि / ओसान / परियन्त / अन्त / अपवग्ग / परियोसान / अवसान / परिनिद्धान / कोण / अगग /
完結
wán jié
परियन्त / परिनिद्धान / ओसान / अवसान / अन्त / निद्दा / अगग / अपवग्ग / कोण / परियोसान / कोटि /
局限
jú xiàn
परियन्त / ओधि / परिमाण /
底
dǐ
ओसान / अवसान / परियन्त / पद / कोण / परियोसान / निद्दा / परिनिद्धान / पाद / अगग / अपवग्ग / अन्त / कोटि /
月底
yuè dǐ
परियोसान / अगग / अन्त / परियन्त / अवसान / ओसान / कोण / निद्दा / कोटि / परिनिद्धान / अपवग्ग /
月末
yuè mò
कोण / अवसान / ओसान / परिनिद्धान / निद्दा / परियन्त / अन्त / अगग / कोटि / अपवग्ग / परियोसान /
末
mò
परिनिद्धान / अपवग्ग / अगग / परियोसान / ओसान / निद्दा / अवसान / अन्त / कोटि / परियन्त / कोण /
末尾
mò wěi
अन्त / परियोसान / कोटि / परियन्त / ओसान / निद्दा / अपवग्ग / अगग / अवसान / कोण / परिनिद्धान /

末端
mò duān
अवसान / अगग / परिनिद्धान / अन्त / परियोसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान / परियन्त / कोण /
极限
jí xiàn
परिच्छेद / परियन्त / अवधि / परिमाण / ओधि /
棧
léng
極限
jí xiàn
परियन्त / परिमाण / ओधि /
止境
zhǐ jìng
कोण / अगग / परियोसान / अन्त / कोटि / परियन्त / ओसान / अवसान / परिनिद्धान / अपवग्ग / निद्दा /
湄
méi
眇
zhěn
ओधि / अवधि / परियन्त / परिच्छेद /
疆
jiāng
ओधि / परियन्त / परिच्छेद / अवधि /
疆界
jiāng jiè
ओधि / परिच्छेद / अवधि / परियन्त /
盡頭
jìn tóu
कोण / अन्त / परियन्त / अगग / परिनिद्धान / परियोसान / अवसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान /
端
duān
अन्त / कोण / अपवग्ग / परिनिद्धान / कोटि / अवसान / निद्दा / परियोसान / ओसान / परियन्त / अगग /
端上
duān shàng
कोण / कोटि / अवसान / परिनिद्धान / अगग / ओसान / अपवग्ग / परियोसान / निद्दा / अन्त / परियन्त /
終
zhōng
परियन्त / कोटि / अपवग्ग / परियोसान / अवसान / अगग / कोण / अन्त / ओसान / परिनिद्धान / निद्दा /
終結
zhōng jié
ओसान / खय / अन्त / परिनिद्धान / अपवग्ग / परियोसान / अगग / परियन्त / अवसान / कोटि / कोण / निद्दा /
終點
zhōng diǎn
कोण / परियोसान / ओसान / अन्त / निद्दा / कोटि / परिनिद्धान / अपवग्ग / अगग / परियन्त / अवसान /

結束
jié shù
परियोसान / अन्त / ओसान / निद्दा / कोण / अगग / परियन्त / अपवग्ग / परिनिद्दान / अवसान / निद्दान / कोटि /
緣
yuán
終
zhōng
कोटि / परिनिद्दान / अवसान / निद्दा / अगग / कोण / अपवग्ग / परियन्त / ओसान / परियोसान / अन्त /
终结
zhōng jié
परियोसान / निद्दा / परिनिद्दान / अपवग्ग / अवसान / कोण / ओसान / अन्त / कोटि / परियन्त / अगग /
结束
jié shù
कोटि / ओसान / अवसान / अगग / परियोसान / अपवग्ग / परियन्त / अन्त / निद्दा / कोण / परिनिद्दान /
缘
yuán
边
biān
पस्स / पक्ख / परियन्त /
边境
biān jìng
边沿
biān yán
边缘
biān yuán
边际
biān jì
अवधि / परियन्त / परिमाण / परिच्छेद / ओधि /
邊
qiú
अवसान / परियन्त / परिनिद्दान / ओसान / कोण / अपवग्ग / अन्त / निद्दा / परियोसान / अगग / कोटि /
邊
biān
邊境
biān jìng
邊界
biān jiè
अवधि / ओधि / परिच्छेद / परियन्त /
邊緣
biān yuán
तित्ति / परियन्त /
鋒
fēng
际
jì
परिच्छेद / अवधि / परियन्त /
限
xiàn
परियन्त / ओधि / परिमाण /

限制
xiàn zhì
परिच्छेद / परिमाण / अवधि / ओधि / नियम / परियन्त /
限定
xiàn dìng
ओधि / नियम / अवधि / परियन्त / परिच्छेद / परिमाण /
限度
xiàn dù
नियम / परिच्छेद / परिमाण / ओधि / अवधि / परियन्त /
परियेसना
pariyesana
尋
xún
मग्गन / गवेसन / अन्वेसना / परियेसना /
尋
xún
मग्गन / अन्वेसना / गवेसन / परियेसना /
尋找
xún zhǎo
मग्गन / अन्वेसना / गवेसन / परियेसना /
尋求
xún qiú
परियेसना / गवेसन / अन्वेसना / एसना / मग्गन /
搜
sōu
गवेसन / परियेसना / अन्वेसना / मग्गन /
搜尋
sōu xún
अन्वेसना / मग्गन / गवेसन / परियेसना /
搜查
sōu chá
परियेसना / अन्वेसना / मग्गन / गवेसन /
搜索
sōu suǒ
मग्गन / गवेसन / अन्वेसना / परियेसना /
搜身
sōu shēn
मग्गन / गवेसन / अन्वेसना / परियेसना /
查
chá
परियेसना / गवेसन / अन्वेसना / मग्गन /
查閱
chá yuè
गवेसन / परियेसना / अन्वेसना / मग्गन /
索
suǒ
अन्वेसना / मग्गन / परियेसना / गवेसन /
追尋
zhuī xún
परियेसना / अन्वेसना / मग्गन / गवेसन /

परियापुणन
pariyāpuṇana
學習
xué xí
उग्गणहन / परियापुणन / जत्त / उग्गह /
परियाय
pariyāya
令
lìng
अनुक्कम / पटिपाटि / आनुपुब्बी / परियाय / चक्क /
序
xù
अनुक्कम / कम / परियाय /
承
chéng
अनुक्कम / पटिपाटि / परियाय / आनुपुब्बी /
次序
cì xù
पटिपाटि / अनुक्कम / आनुपुब्बी / परियाय /
秩序
zhì xù
अनुक्कम / आनुपुब्बी / पटिपाटि / परियाय /
訂
dìng
परियाय / पटिपाटि / आनुपुब्बी / अनुक्कम /
訂單
dìng dān
परियाय / अनुक्कम / पटिपाटि / आनुपुब्बी /
訂
dìng
परियाय / आनुपुब्बी / पटिपाटि / अनुक्कम /
轉動
zhuǎn dòng
順序
shùn xù
कम / परियाय / अनुक्कम / पटिपाटि / आनुपुब्बी /
順序
shùn xù
पकार / अनुक्कम / नय / जाय / कम / परियाय /

परियोनहन
pariyonahana
覆蓋
fù gài
अपिधान / छदन / पच्छाद / पच्चत्थरण / पापुरण / पिधान / परियोनहन /

परियोसान
pariyosāna
下場
xià chǎng
कोण / परिनिद्दान / परियन्त / अन्त / परियोसान / अगग / अवसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान /
告終
gào zhōng
अपवग्ग / कोण / अन्त / ओसान / परियोसान / अगग / निद्दा / परिनिद्दान / अवसान / परियन्त / कोटि /
完結
wán jié
निद्दा / कोटि / ओसान / परियन्त / अन्त / अपवग्ग / परियोसान / अवसान / परिनिद्दान / कोण / अगग /
完結
wán jié
परियन्त / परिनिद्दान / ओसान / अवसान / अन्त / निद्दा / अगग / अपवग्ग / कोण / परियोसान / कोटि /
定局
dìng jú
ओसान / निगमन / निद्दा / परियोसान /
底
dǐ
ओसान / अवसान / परियन्त / पद / कोण / परियोसान / निद्दा / परिनिद्दान / पाद / अगग / अपवग्ग / अन्त / कोटि /
月底
yuè dǐ
परियोसान / अगग / अन्त / परियन्त / अवसान / ओसान / कोण / निद्दा / कोटि / परिनिद्दान / अपवग्ग /
月末
yuè mò
कोण / अवसान / ओसान / परिनिद्दान / निद्दा / परियन्त / अन्त / अगग / कोटि / अपवग्ग / परियोसान /
末
mò
परिनिद्दान / अपवग्ग / अगग / परियोसान / ओसान / निद्दा / अवसान / अन्त / कोटि / परियन्त / कोण /
末尾
mò wěi
अन्त / परियोसान / कोटि / परियन्त / ओसान / निद्दा / अपवग्ग / अगग / अवसान / कोण / परिनिद्दान /
末端
mò duān
अवसान / अगग / परिनिद्दान / अन्त / परियोसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान / परियन्त / कोण /
止境
zhǐ jìng
कोण / अगग / परियोसान / अन्त / कोटि / परियन्त / ओसान / अवसान / परिनिद्दान / अपवग्ग / निद्दा /

盡頭
jǐn tóu
कोण / अन्त / परियन्त / अगग / परिनिद्दान / परियोसान / अवसान / कोटि / अपवग्ग / निद्दा / ओसान /
端
duān
अन्त / कोण / अपवग्ग / परिनिद्दान / कोटि / अवसान / निद्दा / परियोसान / ओसान / परियन्त / अगग /
端上
duān shàng
कोण / कोटि / अवसान / परिनिद्दान / अगग / ओसान / अपवग्ग / परियोसान / निद्दा / अन्त / परियन्त /
終
zhōng
परियन्त / कोटि / अपवग्ग / परियोसान / अवसान / अगग / कोण / अन्त / ओसान / परिनिद्दान / निद्दा /
終結
zhōng jié
ओसान / खय / अन्त / परिनिद्दान / अपवग्ग / परियोसान / अगग / परियन्त / अवसान / कोटि / कोण / निद्दा /
終點
zhōng diǎn
कोण / परियोसान / ओसान / अन्त / निद्दा / कोटि / परिनिद्दान / अपवग्ग / अगग / परियन्त / अवसान /
結束
jié shù
परियोसान / अन्त / ओसान / निद्दा / कोण / अगग / परियन्त / अपवग्ग / परिनिद्दान / अवसान / निद्दान / कोटि /
結論
jié lùn
ओसान / निगमन / परियोसान / निद्दा /
終
zhōng
कोटि / परिनिद्दान / अवसान / निद्दा / अगग / कोण / अपवग्ग / परियन्त / ओसान / परियोसान / अन्त /
终结
zhōng jié
परियोसान / निद्दा / परिनिद्दान / अपवग्ग / अवसान / कोण / ओसान / अन्त / कोटि / परियन्त / अगग /
結束
jié shù
कोटि / ओसान / अवसान / अगग / परियोसान / अपवग्ग / परियन्त / अन्त / निद्दा / कोण / परिनिद्दान /
邊
qiú
अवसान / परियन्त / परिनिद्दान / ओसान / कोण / अपवग्ग / अन्त / निद्दा / परियोसान / अगग / कोटि /

परिरक्खन
parirakkhana
守護
shǒu hù
गुत्ति / परिरक्खन / आरक्ख /

परिवच्छ	पुरिस	雄的	परिस्सय	परिहानि
parivaccha	purisa	xióng de	parissaya	parihāni
準備	人	पुम / पुरिस /	冒	損失
zhǔn bèi	rén	परिसङ्का	mào	sǔn shī
कल्ल / परिवच्छ / उपक्खट /	पोस / दिपद / जन / पुम / पोरिस / पुरिस / पुग्गल / मच्च / जन्तु /	parisaṅkā	危	नस्सन / परिहानि / अलाभ / अपाय / जानि /
परिवट्ट	人士	懷疑	wēi	損失
parivaṭṭa	人士	huái yí	परिपन्थ / ईघ / उपद्व / परिस्सय / उपसग्ग / अन्तराय /	sǔn shī
一圈	rén shì	परिसप्पना / परिसङ्का / आसङ्का /	危險	अलाभ / नस्सन / अपाय / जानि / परिहानि /
yī quān	पुग्गल / जन / पुरिस /	परिसप्पना	wēi xiǎn	毀滅
匝	夫	parisappanā	परिपन्थ / उपसग्ग / अन्तराय / परिस्सय / ईघ / उपद्व /	huǐ miè
zā	fū	懷疑	危險物	परिहानि / नास / पराभव /
圆圈	भत्तु / मच्च / दिपद / जन / जन / मच्च / पुरिस / धव / पिय / धव / दिपद / केन्त / पिय / पुम /	huái yí	wēi xiǎn wù	減少
yuán quān	कन्त / पुरिस / पति / पोस / पति / पुम / पोस / भत्तु /	परिसप्पना / परिसङ्का / आसङ्का /	危險	jiǎn shǎo
圈	夫	猶豫	wēi xiǎn	茫然
quān	fu	yóu yù	परिपन्थ / अन्तराय / उपसग्ग / उपद्व / ईघ / परिस्सय /	máng rán
圈子	भत्तु / मच्च / दिपद / जन / जन / मच्च / पुरिस / धव / पिय / धव / दिपद / केन्त / पिय / पुम /	發抖	危險性	परिहानि / अपाय / जानि / नस्सन / अलाभ /
quān zi	कन्त / पुरिस / पति / पोस / पति / पुम / पोस / भत्तु /	fā dǒu	wēi xiǎn xìng	敗
圓圈	成年男子	तास / परिसप्पना / चलन / कम्पन /	威胁	bài
yuán quān	chéng nián nán zi	परिस्सजन	wēi xié	अलाभ / नस्सन / परिहानि / अपाय / जानि /
圓	जन / पुरिस / मच्च /	parissajana	अन्तराय / उपद्व / परिपन्थ / ईघ / परिस्सय / उपसग्ग /	
yuán	曼	擁抱	当儿	
循环	màn	yōng bào	dāng ér	
xún huán	मच्च / पुथुल / पुम / पुरिस / पोस / उरु / जन / दिपद /	परिस्सम	अन्तराय / उपसग्ग / परिस्सय / उपद्व / ईघ / परिपन्थ /	
चक्क / परिवट्ट /	मच्च / पुथुल / पुम / पुरिस / पोस / उरु / जन / दिपद /	parissama	險	
परिवत्तन	牡	努力	xiǎn	
parivattana	牡	nǔ lì	險	
旋轉	mǔ	आतप्प / पग्गह / उरुसाह / उरुसहन / पग्गाह / परिस्सम / उग्घटित / आयूहन / पयोग /	xiǎn	
xuán zhuǎn	पुरिस / पुम /	疲倦	風險	
परिवत्तन / आवत्त /	男	pí juàn	fēng xiǎn	
翻譯	nán	निब्बि / तन्दी / किलमथ / परिस्सम /	風險	
fān yì	पुम / पुरिस /	疲勞	fēng xiǎn	
परिवत्तन / अनुवाद /	nán rén	pí láo	麻煩	
翻译	पुरिस / दिपद / पुम / जन / मच्च / पोस /	परिस्सम / तन्दी / किलमथ / तन्दित / निब्बि /	má fán	
fān yì	男子	疲勞	कसिर / आयास / उपताप / परिस्सय /	
परिवत्तन / अनुवाद /	nán zi	pí láo		
译文	男子漢	किलमथ / परिस्सम /	परिसा	
yì wén	nán zi hàn		parisā	
परिवत्तन / अनुवाद /	पुरिस / दिपद / पोस / जन / पुम / मच्च /		会议	
परिवार	男性		huì yì	
parivāra	nán xìng		協會	
陪伴	पुम / पुरिस /		xié huì	
péi bàn	男性的		集會	
परिवितक्क	nán xìng de		jí huì	
parivittakka	男的			
反映	nán de			
fǎn yìng	पुरिस / पुम /			
पटिबिम्ब / परिवितक्क /	者			
	zhě			
	जन / पुरिस / पुग्गल /			
	雄			
	xióng			
	पुम / पुरिस /			
	雄性			
	xióng xìng			
	पुरिस / पुम /			

परिहार
parihāra
保护
bǎo hù
अनुपालन / तायन / पटिसरण / आरंक्खा / निस्सय / अनुरक्खा / परिहार / गोपन / अनुरक्खन / गुत्ति / नाथ / अभिरक्खन / ताण / पालन /
保護
bǎo hù
तायन / गोपन / गुत्ति / परिहार / अनुरक्खा / अनुरक्खन / पटिसरण / नाथ / अभिरक्खन / आरक्खा / अनुपालक / पालन / अनुपालन / निस्सय / ताण /
关心
guān xīn
गोपन / पटिजग्गन / परिहार / आरक्खा /
在乎
zài hu
परिहार / गोपन / पटिजग्गन / गोपन / पटिजग्गन / परिहार / आरक्खा / आरक्खा /
在乎
zài hū
परिहार / गोपन / पटिजग्गन / गोपन / पटिजग्गन / परिहार / आरक्खा / आरक्खा /
在意
zài yì
आरक्खा / गोपन / पटिजग्गन / परिहार /
威 ^{ꠘꠞꠤ}
wēi yán
尊 ^{ꠘꠞꠤ}
zūn yán
尊嚴
zūn yán
打理
dǎ lǐ
परिहार / आरक्खा / पटिजग्गन / गोपन /
料理
liào lǐ
आरक्खा / गोपन / परिहार / पटिजग्गन /
注意
zhù yì
चित्तीकार / गुत्ति / गारव / अच्चना / गोपन / परिहार / अविप्पवास /
注意力
zhù yì lì
अविप्पवास / परिहार /
注目
zhù mù
परिहार / अविप्पवास /
照料
zhào liào
पटिजग्गन / परिहार / गोपन / परिचरण / आरक्खा /
照看
zhào kàn
परिहार / गोपन / पटिजग्गन / आरक्खा /

留心
liú xīn
परिहार / पटिजग्गन / गोपन / आरक्खा / पटिसड्खान /
留神
liú shén
अविप्पवास / परिहार /
看護
kàn hù
परिहार / गोपन / आरक्खा / पटिजग्गन /
避免
bì miǎn
परिहार / प्हान /
關心
guān xīn
पटिजग्गन / गोपन / परिहार / आरक्खा /
關注
guān zhù
परिहार / अविप्पवास /
關照
guān zhào
आरक्खा / पटिजग्गन / परिहार / गोपन /
體面
tǐ miàn
परिहास
parihāsa
嘲弄
cháo nòng
笑
xiào
जग्घना / परिहास /

परो
paro
上述
shàng shù
उद्धं / परो / उपरि /
上面
shàng miàn
उद्धं / उपरि / परो /
以上
yǐ shàng
उपरि / उद्धं / परो /
再作
zài zuò
उत्तरि / उत्तरि / परो /
前述
qián shù
उपरि / परो / उद्धं /
向上
xiàng shàng
在上面
zài shàng miàn
परो / उद्धं / अधि /
更
gèng
बहतर / उत्तरि / भिय्यो / उत्तरि / परो / भिय्योसो /
更远的
gèng yuǎn de
परो / उत्तरि / उत्तरि /
此外
cǐ wài
अपि / उत्तरि / उत्तरि / परो /
進一步
jìn yī bù
उत्तरि / उत्तरि / परो /
पेलक
pelaka
兔子
tù zi
野兔
yě tù
पलुज्जन
palujjana
崩潰
bēng kuì
पल्लङ्क
pallaṅka
沙发
shā fā
沙發
shā fā
पुलव
pulava
蟲
chóng
किमि / पुलव /

प्लव
plava
木筏
mù fá
प्लव / कुल्ल /
楂
zhā
कुल्ल / प्लव /
浮子
fú zi
筏
fá
कुल्ल / प्लव /
प्लवङ्गम
plavaṅgama
猴
hóu
प्लवङ्गम / कपि / मक्कट /
猴子
hóu zi
प्लवङ्गम / कपि / मक्कट /
पलाप
palāpa
廢話
fèi huà
胡扯
hú chě
पलाल
palāla
吸管
xǐ guǎn
稻草
dào cǎo
草
cǎo
पलाल / खर / कठिन / कक्खळ / थूल / तिण / खळ / निदुर / कक्कस /
पलास
palāsa
叶
yè
दल / पलास / पण्णक / पत्त / पण्ण / पट्ट /
箔
bó
पण्णक / पलास / पण्ण / पत्त / दल / पट्ट /
葉
yè
पत्त / पट्ट / दल / पण्णक / पण्ण / पलास /
葉子
yè zi
पलास / पट्ट / पण्णक / पत्त / पण्ण / दल /
頁
yè
पत्त / दल / पण्णक / पट्ट / पलास / पण्ण /

पलित
palita
成熟的
chéng shú de
पुलिन
pulina
沙
shā
沙地
shā de
पुलिन / पुलिन /
沙地
shā dì
पुलिन / पुलिन /
沙子
shā zi
砂
shā
पलिप
palipa
沼澤
zhǎo zé
चिक्खल्ल / पलिप /
पतोभन
palobhana
引誘
yǐn yòu
पेळा
peǎ
容器
róng qì
पुट / कटाह / आधान / पेळा / उपधारण / पुटक / आधार /
盂
yú
पुटक / पुट / कोसक / पेळा / आधार /
盒子
hé zi
पळिबोध
palibodha
故障
gù zhàng
障礙
zhàng ài
पपञ्च / आवरण / अन्तराय / परिपन्थ / पळिबोध /

पूव	पवइढन	पवत्तन	पवेदन	पवाह
pūva	pavaḍḍhana	pavattana	pavedana	pavāha
糕	加價	前進	公告	水流
gāo	jiā jià	qián jìn	gōng gào	shuǐ liú
पूव / पूप / 蛋糕	फातिकम्म / अभिवइढन / उपब्रूहन / पवइढन / उदय / उगम / उन्नति /	執行	त्रत्ति / निवेदन / जापन / आरोचना / पवेदन / पञ्जापन /	पवाह / अस्सव / 流动
dàn gāo	加大	zhí xíng	告示	liú dòng
पूव / पूप / 西薄	加大	पवत्तन / अनुचरण /	gào shì	पवाह / अस्सव /
xī bó	jiā dà	存在	निवेदन / आरोचना / त्रत्ति / पञ्जाण / जापन / पवेदन /	溪流
पूव / पूप / 餅	उदय / उन्नति / उपब्रूहन / अभिवइढन / उगम / पवइढन / फातिकम्म /	cún zài	पवन	xī liú
bǐng	增	अत्थिता / पजायन / पवत्तन /	पवना	पविवित्त
पूप / पूव / 餅	zēng	存在物	和風	pavivitta
bǐng	zēng	cún zài wù	hé fēng	孤獨
पूप / पूव / 餅	पवइढन / अभिवइढन / फातिकम्म / उदय / उन्नति / उपब्रूहन / उगम /	अत्थिता / पवत्तन /	अनिल / पवन /	gū dú
bǐng	增加	shí cún	風	पसु
पूव / पूव /	zēng jiā	पवत्तन / अत्थिता /	fēng	pasu
	ब्रूहन / फातिकम्म / उपब्रूहन / उगम / अभिवइढन / उन्नति / उदय / पवइढन /	生存	अनिल / पवन /	兽
	增多	shēng cún	風大	shòu
	zēng duō	पवत्तन / आजीव / अत्थिता /	fēng dà	तिरच्छान / पसु / 动物
	पवइढन / फातिकम्म / अभिवइढन / उपब्रूहन / उदय / उगम / उन्नति /	पवत्तापन	अनिल / पवन /	dòng wù
	增强	pavattāpana	风	तिरच्छान / पसु / 獸
	zēng qiáng	保存	fēng	獸
	उगम / उपब्रूहन / फातिकम्म / पवइढन / उन्नति / अभिवइढन / उदय /	bǎo cún	अनिल / पवन /	shòu
	zēng zhuāng	पालन / अनुरक्खन / पवत्तापन /	पवर	पसु / तिरच्छान / 畜牲
	zēng zhī	維持	pavara	chù shēng
	उगम / उन्नति / अभिवइढन / उदय / उपब्रूहन / पवइढन / फातिकम्म /	wéi chí	貴族	पसु / तिरच्छान / 畜牲
	zēng tiān	उपत्थम्भ / पवत्तापन /	guì zú	चु शेंग
	फातिकम्म / उगम / उदय / उपब्रूहन / उन्नति / अभिवइढन / पवइढन /	पवत्ति	पवेस	पसु / तिरच्छान / 畜生
	zēng cháng	pavatti	pavesa	चु शेंग
	अभिवइढन / उदय / उगम / उपब्रूहन / फातिकम्म / पवइढन / उन्नति /	事件	入口	पसु / तिरच्छान / 野兽
	益	shì jiàn	rù kǒu	yě shòu
	yì	पसइग / पकरण / पवत्ति / दब्ब / 事端	पवेस / आवेसन / द्वार / मुख / 存取	पसु / तिरच्छान /
	zhuó	shì duān	cún qǔ	पवेस / ओतार /
	अभिवइढन / उपब्रूहन / उदय / पवइढन / उन्नति / फातिकम्म / उगम /	入射	高考	gāo kǎo
	zhuó	rù shè	新聞	पवेस / मुख / आवेसन / द्वार /
	長大	xīn wén	xīn wén	पवारणा
	zhǎng dà	新聞	xīn wén	pavāraṇā
पवेणी	पवेणी	消息	消息	邀請
paveṇī	paveṇī	xiāo xī	पवत्ति / पवत्ति /	yāo qǐng
传统	传统	消息	消息	अज्जेसना / निमन्तन / आराधना / आमन्तन / पवारणा /
chuán tǒng	chuán tǒng	xiāo xi	पवत्ति / पवत्ति /	पवाळ
पारम्परिय / इतिहास / अन्वय / पवेणी / अनुस्सव /	पारम्परिय / इतिहास / अन्वय / पवेणी / अनुस्सव /	發生	發生	pavāḷa
傳統	傳統	fā shēng	shān	珊
chuán tǒng	chuán tǒng	訊	珊瑚	shān hú
अन्वय / इतिहास / पवेणी / अनुस्सव / पारम्परिय /	अन्वय / इतिहास / पवेणी / अनुस्सव / पारम्परिय /	xùn	shān hú zhì wán jù	珊瑚制玩具
		訊	瑚	瑚
		xùn	shān hú zhì wán jù	芽
		音信	hú	yá
		yīn xìn	मकल / मुकुल / पवाळ / कोरक / जौलक /	

पंसु	पसङ्ग	पेसन	पस्स	पेस्सिक
pamsu	pasaṅga	pesana	passa	peSSika
土	事件	役	側	仆
tǔ	shì jiàn	yì	cè	pū
धरणी / जगति / छमा / भूमि / पंसु / भू / पृथुवी /	पसङ्ग / पकरण / पवत्ति / दब्ब / 事情	उपद्धान / कार / पेसन / उपासन / किच्च / पारिचरिया /	पस्स / पक्ख / 側	仆入
土地	shì qíng	招待	cè	pū rén
tǔ de	किच्च / पकरण / पज्ज / पसङ्ग / कम्मन्त /	zhāo dài	पक्ख / पस्स / 半邊	使者
भूमि / अवनि / पंसु / छमा / भूमि / छमा / पंसु / अवाने / थल / थल /	傾向	उपद्धान / किच्च / उपासन / पारिचरिया / कार / पेसन /	bàn biān	shǐ zhě
土地	qīng xiàng	服侍	पस्स / पक्ख / 旁边	दूत / पेस्सिक / 信使
tǔ dì	निन्नता / आसय / अभिनिवेस / पाताल / पसङ्ग / अनुसय / पब्भार / अधिमुत्ति / नति /	fú shì	páng biān	xìn shǐ
भूमि / अवनि / पंसु / छमा / भूमि / छमा / पंसु / अवाने / थल / थल /	場合	कार / उपद्धान / उपासन / पेसन / पारिचरिया / किच्च /	पस्स / पक्ख / 旁边	पेस्सिक / दूत / 信差
土壤	chǎng hé	服务	पस्स / पक्ख / 旁边	xìn chà
tǔ rǎng	पकरण / पसङ्ग /	fú wù	páng biān	पेस्सिक / पेस्सिक / दूत / दूत / 信差
भू / पृथुवी / छमा / पंसु / धरणी / भूमि / जगति /	大事	कार / पारिचरिया / उपद्धान / पेसन / किच्च / उपासन /	पस्स / पक्ख / 边	xìn chā
土质	dà shì	服務	biān	पेस्सिक / पेस्सिक / दूत / दूत / 僕
tǔ zhì	大事件	fú wu	पस्स / पक्ख / परियन्त /	pú
埧	dà shì jiàn	उपासन / पेसन / किच्च / उपद्धान / कार / पारिचरिया /	पस्सद्धि	公务员
bèn	时机	服役	passaddhi	gōng wù yuán
पंसु / धूलि /	shí jī	fú yì	寧靜	廡
埃	पसङ्ग / खण / पकरण /	उपद्धान / कार / पारिचरिया / उपासन / किच्च / पेसन /	níng jìng	sī
āi	机会	維修	平靜	廡
पंसु / धूलि /	jī huì	wéi xiū	píng jìng	sī
塵	पसङ्ग / ओकास / पकरण / खण / 肇端	उपद्धान / उपासन / किच्च / पेसन / पारिचरिया / कार /	पस्सद्धि / पस्सम्भना / अविक्खेप /	用人
chén	zhào duān	資訊	पस्सम्भना	yòng rén
पंसु / धूलि /	पकरण / पसङ्ग /	zī xùn	passambhanā	पसाद
尘	賽事	पसव	平靜	pasāda
chén	sài shì	pasava	píng jìng	信仰
पंसु / धूलि /	近因	子孫	पस्सद्धि / पस्सम्भना / अविक्खेप /	xìn yǎng
沙塵	jìn yīn	zi sūn	पससा	दिट्ठि / तित्थ / पसाद / भत्ति / आगम /
shā chén	पकरण / पसङ्ग /	पसव / अपच्च / पजा /	pasamsā	信念
धूलि / पंसु /	पसत	拏	称赞	xìn niàn
泥土	pasata	nú	zàn měi	भत्ति / तित्थ / दिट्ठि / पसाद /
ní tǔ	一把	अपच्च / पुत्त / पजा / पसव / बाल /	पस्साव	पसाधन
धरणी / पृथुवी / पंसु / जगति / भू / छमा / भूमि /	yī bǎ	提出	passāva	pasādhana
灰塵		tí chū	小使	裝飾物
huī chén		उद्देस / पसव /	xiǎo biàn	zhuāng shì wù
धूलि / पंसु /		流出	尿	पसाधन / आभरण / अलङ्कार /
灰尘		liú chū	溺	裝修
huī chén		अभिसन्द / पसव /	niào	zhuāng xiū
धूलि / पंसु /			溺	आभरण / पसाधन / अलङ्करण / अलङ्कार /
पेसक			nì	裝飾
pesaka			पस्सास	zhuāng shì
寄件人			passāsa	पसाधन / अलङ्कार / पिलन्धन / आभरण / अलङ्करण /
jì jiàn rén			呼氣	पसारण
寄信人			hū qì	pasāraṇa
jì xìn rén				伸展
				shēn zhǎn
				पेसि
				pesi
				薄的切片
				bó de qiè piàn
				पेसि / पेसिका /

पेसिका	पहूत	पहिणन	पाचन	पाण
pesikā	pahūta	pahiṇana	pācana	pāṇa
薄的切片	丰	发送	刺棒	一口气
bó de qiè piàn	fēng	fā sòng	cì bàng	yī kǒu qì
पेसि / पेसिका /	丰富的	派遣	पाचन / पाजन / पतोद /	一口氣
पसिब्बक	fēng fù de	pài qiǎn	पाचीन	yī kǒu qì
pasibbaka	充份	特派	pācīna	世
一袋	chōng fèn	tè pài	東方	shì
yī dài	充沛	遣	dōng fāng	जीव / जगति / पजा / पाण / चरित /
囊	chōng pèi	qiǎn	東部	人命
náng	沛	पहोनक	dōng bù	rén mìng
大袋子	pèi	pahonaka	पाचीन / पुब्बा / पुरत्या /	जीव / चरित / पाण /
dà dài zi	盎	充份的	पाजन	人生
手提包	àng	chōng fèn de	pājana	rén shēng
shǒu tí bāo	盎然	पाक	刺棒	पाण / चरित / जीव /
提包	àng rán	pāka	cì bàng	呼吸
tí bāo	穰	成熟	पाचन / पाजन / पतोद /	hū xī
旅行包	ráng	chéng shú	駕駛	पाणन / पाण / आपाण / आन / आण /
lǚ xíng bāo	裕	परिपाक / परिणाम / परिपाचन / पाक /	jià shǐ	命
पसिब्बक / पसिब्बक /	yù	पाकट	पाजन / पतोद /	mìng
旅行包	पहरण	pākaṭa	पाटिभोग	जीव / पाण / चरित / नियति /
lǚ xíng bāo	paharaṇa	出名的	pāṭibhoga	壽命
पसिब्बक / पसिब्बक /	打	chū míng de	保安	shòu mìng
橐	dǎ	पाकतिक	bǎo ān	जीव / पाण / आयु / चरित /
tuó	उप्पोठन / ताळन / पोठन / अन्वाहत / पहरण /	pākatika	保证金	性命
洗劫	पहान	天然	bǎo zhèng jīn	xìng mìng
xǐ jié	pahāna	tiān rán	保釋	जीव / चरित / पाण /
紙袋	切除	最初的	bǎo shì	息
zhǐ dài	qiè chú	zuì chū de	保釋金	xī
袋	पहान / उब्भार /	आवत्तिक / आदि / जेडु / धुर / मुख्य / पधान / मुख / पाकतिक / पठम /	bǎo shì jīn	उदय / उदय / पाण /
dài	避免	自然	安全	氣息
पुटक / पुट / पसिब्बक /	bì miǎn	zì rán	ān quán	qì xī
袋子	परिहार / पहान /	भाव / पकति / धम्मता / पाकतिक / धम्म /	पाटिभोग / अभय / खेम /	生
dài zi	पहार	自然的	安全性	shēng
錢包	pahāra	zì rán de	ān quán xìng	पाण / चरित / उपपत्ति / जीव /
qián bāo	一發	पागुञ्जता	अभय / पाटिभोग /	生命
थविका / पसिब्बक /	yī fā	pāguññatā	担保	shēng mìng
麻布袋	吹	經歷	dǎn bǎo	चरित / पाण / जीव /
má bù dài	chuī	jīng lì	पाठ	生平
麻袋	打擊	經驗	pāṭha	shēng píng
má dài	dǎ jī	jīng yàn	通过	जीव / चरित / पाण /
पसीदन	攻擊	经历	tōng guò	生活
pasīdana	gōng jī	jīng lì	通道	shēng huó
熱愛	उपक्कमन / पहार / अधिपतन / उपक्कम /	经验	tōng dào	आजीव / जीव / चरित / जीवन / चारी / पाण /
rè ài	पहास	jīng yàn	पनाळिका / पाठ /	生物
पुरेक्खार / अभिप्पसाद / पसीदन / भत्ति / पियायना /	pahāsa	見識	पाठ	shēng wù
	欢笑	體會	पाठ	जन्तु / पाणी / देही / पाण /
	huan xiào	tǐ huì	通过	身
	पहास / पहास /	tǐ huì	tōng guò	shēn
	欢笑	體驗	通道	पाण / काय / करजकाय / जीव / गल्ल / कलेबर / देह / चरित / बोन्दि /
	huān xiào	tǐ yàn	tōng dào	鼻息
	पहास / पहास /	पागब्भिय	पनाळिका / पाठ /	bí xī
	歡笑	pāgabbhiya	पाठ	पाण / पाण /
	huan xiào	大膽	पाठ	bí xī
		dà dǎn	पाठ	पाण / पाण /

पाणन	पात	पातु	पाद	पादप
pāṇana	pāta	pātu	pāda	pādapa
呼吸	下跌	在前面	垒	木
hū xī	xià diē	zài qián miàn	lěi	mù
पाणन / पाण / आपाण / आन / आण /	पात / अपचय /	外表	基	कुज / तरु / दारु / पादप / दुम /
呼吸的	坠	wài biǎo	jī	树
hū xī de	zhuì	तिरो / पातु / बहि / बहिद्धा / बाहिर / आकार /	基地	shù
आपाण / पाणन / आण / आन /	duò	顯示	jī de	तरु / दारु / पादप / दुम / कुज /
पाणि	墜	xiǎn shì	पाद / पद / पद /	樹
pāni	墜	पातन	基础	shù
一手	zhuì	pātana	jī chǔ	तरु / कुज / पादप / दुम /
yī shǒu	墜入	殺害	पद / पाद /	पान
भुज / पाणि / कर /	zhuì rù	shā hài	基礎	pāna
伸手	墜	अभिघात / निग्घातन / अभिघातन / घात / अतिपात / नासन / पातन /	jī chǔ	喝
shēn shǒu	duò	पाताल	आधार / पाद / उपनिस्सय / तल /	hē
भुज / कर / पाणि /	扔	pātāla	壘	पान / पिवन /
到手	rēng	傾向	尺	喝了
dào shǒu	投	qīng xiàng	chǐ	hē le
भुज / कर / पाणि /	tóu	निन्नता / आसय / अभिनिवेस / पाताल / पसङ्ग / अनुसय / पब्भार / अधिमुत्ति / नति /	अधिपति / ईस / अधिप / पाद / चरण / पद /	好喝
巴掌	掉	深淵	底	hǎo hē
ba zhǎng	diào	shēn yuān	dǐ	水
भुज / भुज / पाणि / कर / कर / पाणि /	掉下	深淵	ओसान / अवसान / परियन्त / पद / कोण / परियोसान / निद्धा / परिनिद्धान / पाद / अग्ग / अपवग्ग / अन्त / कोटि /	shuǐ
巴掌	diào xià	shēn yuān	底座	तोय / पान / अण्ण / जल / उदक / दक / अम्बु / नीर / ओक /
भुज / भुज / पाणि / कर / कर / पाणि /	摔	पाति	dǐ zuò	糖漿
手	shuāi	pāti	根據地	táng jiāng
shǒu	摔下	一碗	gēn jù de	糖漿
भुज / कर / पाणि /	shuāi xià	yī wǎn	根本	táng jiāng
手掌	摔倒	保齡球	gēn běn	飲
shǒu zhǎng	shuāi dǎo	bǎo líng qiú	पाद / पद /	yǐn
पाणि / कर /	पात / पात /	盆子	膀	yǐn
手邊	摔倒	pén zi	kuà	飲料
shǒu biān	shuāi dào	盤子	पाद / ऊरु /	yǐn liào
भुज / कर / पाणि /	paत / पात /	pán zi	腳	पाप
手頭	paत / पात /	पाति / थाल /	jiǎo	pāpa
shǒu tóu	luò xià	碗	पद / पाद / चरण /	孽
कर / पाणि / भुज /	paत / पतन / निपात /	wǎn	腳	niè
掌	diē	鉢	jiǎo	दुरित / अकुसल / पाप / कण्ह /
zhǎng	diē xià	bō	腳踏	惡
掌心	paत / पात /		jiǎo tà	è
zhǎng xīn	diē dào		चरण / पाद / पद /	पाप / कण्ह /
棕	paत / पात /		腿	罪
zōng	diē xià		tuǐ	zuì
笔迹	diē dào		पाद / ऊरु /	असद्धम्म / कलि / निग्गह / पाप / अघ / अवण्ण / अकुसल / उपवाद /
bǐ jī	diē dào		英尺	邪惡
कर / पाणि / भुज /	diē dào		yīng chǐ	xié è
पाणी	diē dào		चरण / पद / पाद /	पाप / कण्ह /
pāni	diē dào		足	पापक
生物	diē luò		zú	pāpaka
shēng wù			पद / चरण / पाद /	有罪的
जन्तु / पाणी / देही / पाण /			足部	yǒu zuì de
			zú bù	निहीन / पापिय / पापक /
			पद / पाद / चरण /	पापणिक
				pāpaṇika
				店主
				diàn zhǔ
				आपणिक / पापणिक /

पापुरण
pāpuraṇa
包含
bāo hán
पचत्थरण / अपिधान / पापुरण / पच्छाद / पिधान / छदन /
包庇
bāo bì
पापुरण / छदन / खेटक / पचत्थरण / खेट / पिधान / अपिधान / पच्छाद /
包罗
bāo luó
अपिधान / छदन / पिधान / पच्छाद / पापुरण / पचत्थरण /
套
tào
अत्थरण / पापुरण / अपिधान / पच्छाद / पचत्थरण / छदन / पिधान /
套子
tào zi
पिधान / अपिधान / पच्छाद / पचत्थरण / पापुरण / छदन /
封皮
fēng pí
पापुरण / अपिधान / पच्छाद / पचत्थरण / पिधान / छदन /
幌子
huǎng zi
पिधान / पचत्थरण / छदन / पापुरण / पच्छाद / अपिधान /
捂
wǔ
अपिधान / पापुरण / छदन / पिधान / पच्छाद / पचत्थरण /
掩
yǎn
पिधान / पचत्थरण / पापुरण / अपिधान / पच्छाद / छदन /
掩蓋
yǎn gài
पच्छाद / पिधान / पचत्थरण / पापुरण / छदन / अपिधान /
掩護
yǎn hù
पच्छाद / अपिधान / पचत्थरण / पिधान / पापुरण / छदन /
掩飾
yǎn shì
छदन / पापुरण / पच्छाद / पिधान / पचत्थरण / अपिधान /
毛毯
máo tǎn
पापुरण / कम्बल /
蓋
gài
पिधान / अपिधान / पापुरण / पचत्थरण / छदन / पच्छाद /
罩
zhào
अत्थरण / पापुरण / पिधान / अपिधान / छदन / पचत्थरण / पच्छाद /
蓋
gài
पिधान / पचत्थरण / छादन / अपिधान / पच्छाद / छदन / पापुरण /

蓋上
gài shàng
छदन / अपिधान / पापुरण / पिधान / पच्छाद / पचत्थरण /
蓋子
gài zi
अपिधान / पच्छाद / पिधान / छदन / पचत्थरण / थकन / पापुरण / पटल /
蔽
bì
पच्छाद / पिधान / छदन / पापुरण / अपिधान / पचत्थरण /
覆
fù
पापुरण / पच्छाद / छदन / अपिधान / पिधान / पचत्थरण /
覆蓋
fù gài
अपिधान / छदन / पच्छाद / पचत्थरण / पापुरण / पिधान / परियोनहन /
遮
zhē
छदन / छादन / पचत्थरण / पिधान / पच्छाद / पापुरण / अपिधान /
遮住
zhē zhù
पिधान / पच्छाद / पापुरण / छदन / पचत्थरण / अपिधान /
遮掩
zhē yǎn
छदन / पापुरण / पच्छाद / अपिधान / पिधान / पचत्थरण /

पापिमन्तु

pāpimantu

罪人

zuì rén

पापिय

pāpiya

有罪的

yǒu zuì de

निहीन / पापिय / पापक /

पामुज्ज
pāmujja
喜悅
xǐ yuè
पीति / नन्दि / तुस्सना / पमोद / तुड्ढि / पामोज्ज / पामुज्ज / आनन्द / पीणन /
喜悅
xǐ yuè
तुड्ढि / नन्दि / आनन्द / पामुज्ज / पमोद / पीति / पामोज्ज / तुस्सना /
欢乐
huān lè
आराम / आनन्द / पमोद / तुड्ढि / पामोज्ज / काम / पामुज्ज / नन्दि / पीति /
歡喜
huān xǐ
अभिनन्दन / पमोद / तुस्सना / आनन्द / पामुज्ज / पीति / नन्दि / तुड्ढि / पामोज्ज /
歡樂
huān lè
पमोद / आनन्द / कीळना / तुड्ढि / पामोज्ज / पीति / नन्दि / केळी / तुस्सना / पामुज्ज /
禧
xǐ
पीति / पामुज्ज / नन्दि / पामोज्ज / नन्दि / पमोद / पमोद / तुस्सना / तुड्ढि / आनन्द /

पामोक्ख

pāmokkha

主要的

zhǔ yào de

पमुख / पधान / पामोक्ख /

第一的

dì yī de

領袖

líng xiù

नायक / निर्यातु / पामोक्ख /

पधान / नेतु /

首席

shǒu xī

पमुख / पधान / पामोक्ख /

魁

kuí

पधान / पामोक्ख / पमुख /

पामोज्ज
pāmojja
喜悅
xǐ yuè
पीति / नन्दि / तुस्सना / पमोद / तुड्ढि / पामोज्ज / पामुज्ज / आनन्द / पीणन /
喜悅
xǐ yuè
तुड्ढि / नन्दि / आनन्द / पामुज्ज / पमोद / पीति / पामोज्ज / तुस्सना /
欢乐
huān lè
आराम / आनन्द / पमोद / तुड्ढि / पामोज्ज / काम / पामुज्ज / नन्दि / पीति /
歡喜
huān xǐ
अभिनन्दन / पमोद / तुस्सना / आनन्द / पामुज्ज / पीति / नन्दि / तुड्ढि / पामोज्ज /
歡樂
huān lè
पमोद / आनन्द / कीळना / तुड्ढि / पामोज्ज / पीति / नन्दि / केळी / तुस्सना / पामुज्ज /
禧
xǐ
पीति / पामुज्ज / नन्दि / पामोज्ज / नन्दि / पमोद / पमोद / तुस्सना / तुड्ढि / आनन्द /

पायेन

pāyena

主要地

zhǔ yào dì

通常

tōng cháng

पारम्परिय

pārampariya

传统

chuán tǒng

पारम्परिय / इतिहास / अन्वय /

पवेणी / अनुस्सव /

傳統

chuán tǒng

अन्वय / इतिहास / पवेणी /

अनुस्सव / पारम्परिय /

पारमिता

pāramitā

完成

wán chéng

पारमी / अननक / निष्फत्ति /

पारमिता / निद्धान / अनन /

पारिपरि / पूर / परिपूर / अनवसेस /

पूर्ण / निरत्थरण /

完美

wán měi

पारमिता / निद्धान / पारमी /

पारमी
pāramī
完成
wán chéng
पारमी / अननक / निष्फत्ति / पारमिता / निद्धान / अनन / पारिपरि / पूर / परिपूर / अनवसेस / पूर्ण / निरत्थरण /
完美
wán měi
पारमिता / निद्धान / पारमी /

पारिचरिया

pāricariyā

役

yì

उपद्धान / कार / पेसन / उपासन /

किच्च / पारिचरिया /

招待

zhāo dài

उपद्धान / किच्च / उपासन /

पारिचरिया / कार / पेसन /

服侍

fú shì

कार / उपद्धान / उपासन / पेसन /

पारिचरिया / किच्च /

服务

fú wù

कार / पारिचरिया / उपद्धान / पेसन /

किच्च / उपासन /

服務

fú wù

उपासन / पेसन / किच्च / उपद्धान /

कार / पारिचरिया /

服役

fú yì

उपद्धान / कार / पारिचरिया /

उपासन / किच्च / पेसन /

等候

děng hòu

उपद्धान / उपद्धान / पारिचरिया /

पारिचरिया /

等候

děng hou

उपद्धान / उपद्धान / पारिचरिया /

पारिचरिया /

維修

wéi xiū

उपद्धान / उपासन / किच्च / पेसन /

पारिचरिया / कार /

पारिपूरि

pāripūri

完工

wán gōng

पारिपूरि / निद्धान /

完成

wán chéng

पारमी / अननक / निष्फत्ति /

पारमिता / निद्धान / अनन /

पारिपरि / पूर / परिपूर / अनवसेस /

पूर्ण / निरत्थरण /

पालन	पावक	開火	पाहुण	पि
pālana	pāvaka	kāi huǒ	pāhuṇa	pī
保存	大火	गिनि / अग्नि / जोति / पावक / अनल /	來賓	不過
bǎo cún	dà huǒ	पावचन	lái bīn	bù guò
पालन / अनुरक्खन / पवत्तापन / 保护	गिनि / जोति / अनल / अग्नि / पावक /	pāvacana	अब्भागत / आगन्तुक / अतिथि / पाहुण /	पन / तु / पि / आदु /
bào hu	失火	聖經	做客	乃是
अनुपालन / तायन / पटिसरण / आरक्खा / निस्सय / अनुरक्खा / परिहार / गोपन / अनुरक्खन / गुत्ति / नाथ / अभिरक्खन / ताण / पालन /	shī huǒ	shèng jīng	zuò kè	nǎi shì
保護	पावक / गिनि / जोति / अग्नि / अनल /	पावचन / आगम /	अब्भागत / अतिथि / आगन्तुक / पाहुण /	पि / तु / आदु / पन /
bǎo hù	如火	पावळ	客	也許
तायन / गोपन / गुत्ति / परिहार / अनुरक्खा / अनुरक्खन / पटिसरण / नाथ / अभिरक्खन / आरक्खा / अनुपालक / पालन / अनुपालन / निस्सय / ताण /	rú huǒ	pāvaja	kè	yě xǔ
政府	अग्नि / गिनि / जोति / अनल / पावक /	屁股	अब्भागत / अतिथि / पाहुण / आगन्तुक /	也許
zhèng fǔ	开火	pì gǔ	客人	yě xǔ
पालि	kāi huǒ	जघन / पावळ / आनिसद /	客入	但
pāli	गिनि / अग्नि / अनल / पावक / जोति /	臀部	kè rén	dàn
一線	消防隊	tún bù	आगन्तुक / पाहुण / अब्भागत / अतिथि /	तु / पन / आदु / पि / एव /
yī xiàn	xiāo fáng duì	उच्छङ्ग / पावळ / कटि / नितम्ब / जघन / आनिसद /	賓	但是
yī xíng	अग्नि / गिनि / अनल / पावक / जोति /	पास	bīn	dàn shì
線	火	pāsa	पाहुण / अब्भागत / आगन्तुक / अतिथि /	पन / तु / पि / आदु / एव / अपि /
xiàn	huǒ	投	來賓	却
पालि / तन्त / तन्तु / आवली /	जोति / अग्नि / पावक / गिनि / धूम / अच्चि / अनल /	tóu	lái bīn	què
線條	火光	पात / पास / खेप /	आगन्तुक / पाहुण / अब्भागत / अतिथि /	पन / तु / पि / आदु /
xiàn tiáo	huǒ guāng	羅網	禮物	卻
線路	हुओ गुआंग	luó wǎng	lǐ wù	què
xiàn lù	जोति / अग्नि / पावक / अनल / गिनि /	陷阱	पण्णाकार / पाहुण / चाग / उपायन / उपहार /	पन / आदु / तु / पि /
线	火勢	xiàn jǐng	賓	只
xiàn	हुओ शि	ओपात / बाधन / पास /	bīn	zhǐ
线路	जोति / अनल / गिनि / पावक / अग्नि /	पासाण	पाहुण / आगन्तुक / अब्भागत / अतिथि /	पन / पि / एव / तु / आदु /
xiàn lù	火災	pāsāṇa	來賓	只是
线	हुओ झा	小石	bīn	zhǐ shì
xiàn	अग्नि / अनल / जोति / गिनि / पावक /	xiǎo shí	पाहुण / आगन्तुक / अब्भागत / अतिथि /	एव / पन / पि / आदु / तु /
线路	火燒	उपल / अस्मा / पासाण /		可是
xiàn lù	हुओ शआ	岩		kě shì
行了	अग्नि / गिनि / अनल / जोति / पावक /	yán		अपि / पन / एव / तु / आदु / पि /
xíng le	火警	yán shí		可能
行的	हुओ जिंग	巖		kě néng
xíng de	जोति / अग्नि / अनल / गिनि / पावक /	yán		大概
	燃起	晃動		dà gài
	rán qǐ	huang dòng		पि / बहसो / बहल /
	अग्नि / पावक / जोति / गिनि / अनल /	核		恐怕
	燧	hé		kǒng pà
	suì	अस्मा / पासाण /		惟
	अनल / पावक / जोति / गिनि / अग्नि /	石		wéi
	著火	shí		पन / एव / तु / आदु / केवल / पि /
	zhù huǒ	पासाण / अस्मा / उपल /		或
	पावक / अग्नि / अग्नि / अनल / पावक / गिनि / गिनि / जोति / अनल / जोति /	石板		huò
	著火	shí bǎn		पि / आदु / उद /
	zhe huǒ	石頭		或許
	पावक / अग्नि / अग्नि / अनल / पावक / गिनि / गिनि / जोति / अनल / जोति /	shí tóu		huò xǔ
	著火	उपल / अस्मा / पासाण /		或許
	zhe huǒ	磐		huò xǔ
	पावक / अग्नि / अग्नि / अनल / पावक / गिनि / गिनि / जोति / अनल / जोति /	pán		然
	起火	पासाण / थिर / दब्ह /		rán
	qǐ huǒ	磐石		तथा / पि / इति / एवं / इत्थं / तु /
	अग्नि / जोति / गिनि / पावक / अनल /	pán shí		然而
				rán ér
				आदु / पि / तु / पन / एव /

究竟	पिटक	पिट्ठ	पिट्ठि	पिदहन
jiū jìng	pītake	pīṭṭha	pīṭṭhi	pidahana
निष्फज्जन / अभिसन्दन / निष्फत्ति / अभिसन्द / पि / फल / निस्सन्द / तु /	一籃	后面	上端	關閉
पिङ्गल	yī lán	hòu miàn	shàng duān	guān bì
piṅgala	पुट / पुटक / पिटक / 𠄎	पिट्ठि / पिट्ठ / 向后	कूट / अग्न / पिट्ठि / 后面	पिदहन / आवरण /
布朗	fāng	xiàng hòu	hòu miàn	
bù lǎng	पुटक / पुट / पिटक / 吊籃	पिट्ठि / पिट्ठ / 回	पिट्ठि / पिट्ठ / 向后	
पिङ्गल / तम्ब / 成褐色	diào lán	huí	xiàng hòu	
chéng hè sè	पुट / पिटक / पुटक / 椶	पति / पच्चागमन / पिट्ठि / पिट्ठ / 回頭	पिट्ठि / पिट्ठ / 回	
तम्ब / पिङ्गल / 棕色	lǎo	huí tóu	huí	
zōng sè	पिटक / पुटक / पुट / 筐	पिट्ठि / पिट्ठ / 帶回	पति / पच्चागमन / पिट्ठि / पिट्ठ / 回頭	
तम्ब / पिङ्गल / 茶色	kuāng	dài huí	huí tóu	
chá sè	पुट / पिटक / पुटक / 筭	पिट्ठ / पिट्ठि / 手背	पिट्ठि / पिट्ठ / 尖峰	
तम्ब / पिङ्गल / कपिल / 褐	shāo	shǒu bèi	jiān fēng	
hè	पुटक / पुट / पिटक / 籃	पिट्ठ / पिट्ठि / 拿回	अग्न / पिट्ठि / कूट / 帶回	
तम्ब / पिङ्गल / 褐色	lán	nǎ huí	dài huí	
hè sè	पिटक / पुटक / पुट / 簾	पिट्ठ / पिट्ठि / 椅背	पिट्ठ / पिट्ठि / 手背	
पिङ्गल / तम्ब / पिचु	lù	yǐ bèi	shǒu bèi	
picu	पुट / पुटक / पिटक / 籃	पिट्ठि / पिट्ठ / 背影	पिट्ठ / पिट्ठि / 拿回	
棉	lán	bèi yǐng	nǎ huí	
mián	पिटक / पुट / पुटक / 籃子	पिट्ठ / पिट्ठि / 背部	पिट्ठ / पिट्ठि / 椅背	
कप्पास / पिचु / तूल / 棉花	lán zi	bèi bù	yǐ bèi	
mián huā	पिटक / पुटक / पुट /	पिट्ठ / पिट्ठि / 背面	पिट्ठि / पिट्ठ / 背影	
कप्पास / पिचु / तूल / 綿		bèi miàn	bèi yǐng	
mián		पिट्ठि / पिट्ठ / 表面	पिट्ठ / पिट्ठि / 背部	
पिचु / तूल / कप्पास /		biǎo miàn	bèi bù	
		走回	पिट्ठ / पिट्ठि / 背面	
		zǒu huí	bèi miàn	
		पिट्ठ / पिट्ठि / 退后	पिट्ठि / पिट्ठ / 走回	
		tùi hòu	zǒu huí	
		पिट्ठ / पिट्ठि / 面	पिट्ठ / पिट्ठि / 退后	
		miàn	tùi hòu	
		आन्नन / पिट्ठ / 麵	पिट्ठ / पिट्ठि / 頂端	
		miàn	dǐng duān	
			अग्न / कूट / पिट्ठि / अन्न / 頂端	
			dǐng duān	
			कूट / पिट्ठि / अग्न /	
			पितामह	
			pítāmaha	
			祖父	
			zǔ fù	
			अय्यक / पितामह / 老爺爺	
			lǎo ye ye	
			पितामह / अय्यक /	

पिधान
pidhāna
包含
bāo hán
पचत्थरण / अपिधान / पापुरण / पच्छाद / पिधान / छदन /
包庇
bāo bì
पापुरण / छदन / खेटक / पचत्थरण / खेट / पिधान / अपिधान / पच्छाद /
包罗
bāo luó
अपिधान / छदन / पिधान / पच्छाद / पापुरण / पचत्थरण /
套
tào
अत्थरण / पापुरण / अपिधान / पच्छाद / पचत्थरण / छदन / पिधान /
套子
tào zi
पिधान / अपिधान / पच्छाद / पचत्थरण / पापुरण / छदन /
封皮
fēng pí
पापुरण / अपिधान / पच्छाद / पचत्थरण / पिधान / छदन /
幌子
huǎng zi
पिधान / पचत्थरण / छदन / पापुरण / पच्छाद / अपिधान /
捂
wǔ
अपिधान / पापुरण / छदन / पिधान / पच्छाद / पचत्थरण /
掩
yǎn
पिधान / पचत्थरण / पापुरण / अपिधान / पच्छाद / छदन /
掩盖
yǎn gài
पच्छाद / पिधान / पचत्थरण / पापुरण / छदन / अपिधान /
掩护
yǎn hù
पच्छाद / अपिधान / पचत्थरण / पिधान / पापुरण / छदन /
掩饰
yǎn shì
छदन / पापुरण / पच्छाद / पिधान / पचत्थरण / अपिधान /
盖
gài
पिधान / अपिधान / पापुरण / पचत्थरण / छदन / पच्छाद /
罩
zhào
अत्थरण / पापुरण / पिधान / अपिधान / छदन / पचत्थरण / पच्छाद /
盖
gài
पिधान / पचत्थरण / छदन / अपिधान / पच्छाद / छदन / पापुरण /

蓋上
gài shàng
छदन / अपिधान / पापुरण / पिधान / पच्छाद / पचत्थरण /
蓋子
gài zi
अपिधान / पच्छाद / पिधान / छदन / पचत्थरण / थकन / पापुरण / पटल /
蔽
bì
पच्छाद / पिधान / छदन / पापुरण / अपिधान / पचत्थरण /
覆
fù
पापुरण / पच्छाद / छदन / अपिधान / पिधान / पचत्थरण /
覆盖
fù gài
अपिधान / छदन / पच्छाद / पचत्थरण / पापुरण / पिधान / परियोनहन /
遮
zhē
छदन / छदन / पचत्थरण / पिधान / पच्छाद / पापुरण / अपिधान /
遮住
zhē zhù
पिधान / पच्छाद / पापुरण / छदन / पचत्थरण / अपिधान /
遮掩
zhē yǎn
छदन / पापुरण / पच्छाद / अपिधान / पिधान / पचत्थरण /

पिनास
pināsa
粘膜炎
zhān mó yán
पिप्फल
pippphala
剪
jiǎn
कत्तरिका / पिप्फलक / कत्तरि / पिप्फल /
剪刀
jiǎn dāo
पिप्फलक / कत्तरिका / कत्तरि / पिप्फल /
剪子
jiǎn zi
कत्तरि / पिप्फलक / कत्तरिका / पिप्फल /
剪
jiǎn
पिप्फलक / पिप्फल / कत्तरि / कत्तरिका /

पिप्फलक
pippphalaka
剪
jiǎn
कत्तरिका / पिप्फलक / कत्तरि / पिप्फल /
剪刀
jiǎn dāo
पिप्फलक / कत्तरिका / कत्तरि / पिप्फल /
剪子
jiǎn zi
कत्तरि / पिप्फलक / कत्तरिका / पिप्फल /
剪
jiǎn
पिप्फलक / पिप्फल / कत्तरि / कत्तरिका /
पिपासा
pipāsā
口渴
kǒu kě
तसिना / तण्हा / पिपासा /
渴望
kě wàng
कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकइखन / जालिनी / अपेक्खन / आसा / एजा / इच्छा / तण्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकइयत / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्जन /

पिपिल्लिका
pipillikā
蚊
yǐ
किपिल्लिका / पिपीलिका / पिपिल्लिका /
蚂
mǎ
किपिल्लिका / पिपीलिका / पिपिल्लिका /
蚂蚁
mǎ yǐ
किपिल्लिका / पिपिल्लिका / पिपीलिका /
螞蟻
mǎ yǐ
किपिल्लिका / पिपीलिका / पिपिल्लिका /

पिपीलिका
pipīlikā
蚊
yǐ
किपिल्लिका / पिपीलिका / पिपिल्लिका /
蚂
mǎ
किपिल्लिका / पिपीलिका / पिपिल्लिका /
蚂蚁
mǎ yǐ
किपिल्लिका / पिपीलिका / पिपिल्लिका /

पिपीलिका
pipīlikā
蚊
yǐ
किपिल्लिका / पिपीलिका / पिपिल्लिका /
蚂
mǎ
किपिल्लिका / पिपीलिका / पिपिल्लिका /
蚂蚁
mǎ yǐ
किपिल्लिका / पिपीलिका / पिपिल्लिका /
螞蟻
mǎ yǐ
किपिल्लिका / पिपीलिका / पिपिल्लिका /
पिय
piya
丈夫
zhàng fū
भत्तु / पिय / धव / धव / पति / पिये / भत्तु / पति / कन्त / कन्त /
丈夫
zhàng fu
भत्तु / पिय / धव / धव / पति / पिये / भत्तु / पति / कन्त / कन्त /
伉
kàng
कन्ता / कन्त / भरिया / भत्तु / धव / कलत्त / पिय / पिया / जाया / पति / जानि /
外子
wài zi
कन्त / धव / पति / पिय / भत्तु /
夫
fū
भत्तु / मच्च / दिपद / जन / जन / मच्च / पुरिस / धव / पिय / धव / दिपद / कन्त / पिय / पुम / कन्त / पुरिस / पति / पौस / पति / पुम / पौस / भत्तु /
夫
fū
भत्तु / मच्च / दिपद / जन / जन / मच्च / पुरिस / धव / पिय / धव / दिपद / कन्त / पिय / पुम / कन्त / पुरिस / पति / पौस / पति / पुम / पौस / भत्तु /
婿
xù
पति / कन्त / धव / पिय / भत्तु /
老公
lǎo gōng
धव / पति / कन्त / पिय / भत्तु /
親愛的
qīn ài de

पिया
piyā
伉
kàng
कन्ता / कन्त / भरिया / भत्तु / धव / कलत्त / पिय / पिया / जाया / पति / जानि /
太太
tài tài
कलत्त / जानि / भरिया / जाया / कन्ता / पिया /
夫人
fū rén
जानि / कलत्त / भरिया / पिया / कन्ता / जाया /
女人
nǚ rén
जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अङ्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना /
女人
nǚ rén
जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अङ्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना /
妇人
fù rén
भरिया / जाया / नारी / इत्थि / अङ्गना / कलत्त / थी / कन्ता / पिया / जानि /
妻
qī
अङ्गना / जाया / थी / पिया / भरिया / कलत्त / जानि / नारी / कन्ता / इत्थि /
妻子
qī zi
पिया / भरिया / जानि / जाया / कन्ता / कलत्त /
娶妻
qǔ qī
भरिया / जानि / पिया / कलत्त / कन्ता / जाया /
媳婦
xí fù
कलत्त / कन्ता / भरिया / पिया / जानि / जाया /
愛人
ài rén
जाया / भरिया / पिया / कन्ता / जानि / कलत्त /
爱人
ài rén
अङ्गना / नारी / जाया / भरिया / थी / जानि / कलत्त / पिया / कन्ता /
老婆
lǎo pó
जानि / कलत्त / जाया / कन्ता / पिया / भरिया /

पियायना	पिसन	पीठ	पीत	पीळन
piyāyanā	pisana	pīṭha	pīta	pīlana
性愛	研磨	中	金色的	伤
xìng ài	yán mó	zhōng	jīn sè de	shāng
恋	पिसन / पिसन /	पीठ / ओज / उर / परियन्त / अन्तो / पथ /	पीतक / पीत /	伤害
liàn	पिसन	位	黃色	shāng hài
恋愛	pīmsana	位	huáng sè	अहित / पीळन / अनत्थ /
liàn ài	研磨	wèi	पीत / पीतक /	损
पियायना / पेम /	yán mó	पद / आयतन / पदेस / अवद्धान / निसीदन / आसन / ठान / पीठ /	黃	sǔn
情	पिसन / पिसन /	位子	huáng	损伤
qíng	पिसित	wèi zi	पीत / पीतक /	sǔn shāng
愛	pisita	ठान / पद / निसीदन / पीठ / पदेस / आसन /	黃色	पीळन / अहित / अनत्थ /
ài	肉	位置	huáng sè	损害
पियायना / तण्हा /	ròu	位置	पीत / पीतक /	sǔn hài
愛上	आमिस / पिसित /	wèi zhì	पीतक	अनत्थ / पीळन /
ài shàng	肉體	अवद्धान / पद / पदेस / ठान / आसन / निसीदन / आयतन / पीठ /	pītaka	損傷
愛情	ròu tǐ	后座	金色的	sǔn shāng
ài qíng	आमिस / पिसित /	hòu zuò	jīn sè de	損壞
慈愛	血肉	पीठ / आसन / निसीदन /	पीतक / पीत /	sǔn huài
cí ài	xuè ròu	席	黃色	損害
戀	पिसित / आमिस /	xí	huáng sè	sǔn hài
liàn	पिहायना	पद / ठान / आसन / निसीदन / पदेस / पीठ /	黃	破壞
戀愛	pīhāyanā	座	huáng	pò huài
liàn ài	願望	zuò	पीत / पीतक /	अत्थ / घात / नास / उपच्छेद / भञ्जन / अपचिनन / निग्घातन / पीळन / नासन / खय / नस्सन /
摯愛	yuàn wàng	निसीदन / पीठ / आसन /	黃色	पीठन
zhì ài	अपेक्खन / निकामना / अभिलासा / इच्छा / इच्छन / जालिनी / आसा / आसिसना / पिहायना / छन्द /	座位	huáng sè	poṭhana
春	期望	zuò wèi	पीत / पीतक /	打
chūn	qī wàng	निसीदन / आसन / पीठ /	पीति	dǎ
पियायना / उब्भिद / पेम /	अभिलासा / इच्छा / अभिकङ्खित / इच्छन / जालिनी / पिहायना / अपेक्खन / निकामना / अभिकङ्खन / आसा / आसिसना /	座椅	pīti	उप्पोठन / ताळन / पोठन / अन्वाहत / पहरण /
深愛	अभिलासा / इच्छा / अभिकङ्खित / इच्छन / जालिनी / पिहायना / अपेक्खन / निकामना / अभिकङ्खन / आसा / आसिसना /	zuò yǐ	喜悅	
shēn ài	अभिकङ्खन / आसा / आसिसना /	निसीदन / पीठ / आसन /	xǐ yuè	
熱愛	欲望	椅	पीति / नन्दि / तुस्सना / पमोद / तुडि / पामोज्ज / पामुज्ज / आनन्द / पीणन /	
rè ài	yuè wàng	yǐ	喜悅	
पुरेक्खार / अभिप्पसाद / पसीदन / भत्ति / पियायना /	आसा / पिहायना / तण्हा / निकामना / अपेक्खन / आसिसना / इच्छा / अभिलासा / जालिनी / इच्छन /	椅子	xǐ yuè	
愛	欲求	yǐ zi	तुडि / नन्दि / आनन्द / पामुज्ज / पमोद / पीति / पामोज्ज / तुस्सना /	
ài	yuè qiú	पीठसप्पी	情緒	
पियायना / पेम /	आसा / निकामना / इच्छा / इच्छन / अपेक्खन / आसिसना / जालिनी / अभिलासा / पिहायना /	pīṭhasappī	qing xù	
爱的	渴望	跛子	情趣	
ài de	yuè qiú	bō zi	qing qù	
鐘情	आसा / निकामना / इच्छा / इच्छन / अपेक्खन / आसिसना / जालिनी / अभिलासा / पिहायना /	पङ्गु / पक्ख / पङ्गुल / पीठसप्पी / कुणी /	欢乐	
zhōng qíng	渴望	पीणन	huān lè	
पिलन्धन	kě wàng	pīnana	आराम / आनन्द / पमोद / तुडि / पामोज्ज / काम / पामुज्ज / नन्दि / पीति /	
pilandhana	कामता / इच्छन / इच्छ / अभिकङ्खन / जालिनी / अपेक्खन / आसा / एजा / इच्छा / तण्हा / अभिलासा / आसिसना / जिगिसा / छन्दता / तसिना / जिगिसना / नन्दि / अभिरुचि / अभिकङ्खित / निकामना / पिहायना / एसना / पिपासा / अभिगिज्झन /	喜悅	歡喜	
穿著	yaò qiú	xǐ yuè	huan xǐ	
chuān zhù	आसिसना / आसा / जालिनी / पिहायना / इच्छन / निकामना / अभिलासा / अत्थ / इच्छा / अपेक्खन / अभियाचन /	पीति / नन्दि / तुस्सना / पमोद / तुडि / पामोज्ज / पामुज्ज / आनन्द / पीणन /	अभिनन्दन / पमोद / तुस्सना / आनन्द / पामुज्ज / पीति / नन्दि / तुडि / पामोज्ज /	
裝飾	願望	पीति / नन्दि / तुस्सना / पमोद / तुडि / पामोज्ज / पामुज्ज / आनन्द / पीणन /	huan lè	
zhuāng shì	yaò qiú	पीति / नन्दि / तुस्सना / पमोद / तुडि / पामोज्ज / पामुज्ज / आनन्द / पीणन /	पमोद / आनन्द / कीळना / तुडि / पामोज्ज / पीति / नन्दि / कळी / तुस्सना / पामुज्ज /	
पसाधन / अलङ्कार / पिलन्धन / आभरण / अलङ्करण /	yaò qiú	पीति / नन्दि / तुस्सना / पमोद / तुडि / पामोज्ज / पामुज्ज / आनन्द / पीणन /	歡樂	
पिळका	yuàn wàng	अपेक्खन / निकामना / अभिलासा / आसिसना / आसा / पिहायना / इच्छन / इच्छा / जालिनी /	huan lè	
pīlakā	अपेक्खन / निकामना / अभिलासा / आसा / पिहायना / इच्छन / इच्छा / जालिनी /		禧	
水泡			xǐ	
shuǐ pào			पीति / पामुज्ज / नन्दि / पामोज्ज / नन्दि / पमोद / पमोद / तुस्सना / तुडि / आनन्द /	
पिवन				
pivana				
喝				
hē				
पान / पिवन /				

पोत्थक	पोस	फन्दन	फल	फुसित
potthaka	posa	phandana	phala	phusita
书	人	動議	作用	下降
shū	rén	dòng yì	zuò yòng	xià jiàng
书籍	पोस / दिपद / जन / पुम / पोरिस / पुरिस / पुगल / मच्च / जन्तु /	फन्दन / एजा / इञ्जन / चार /	चार / निस्सन्द / कम्म / निष्फत्ति / निष्फज्जन / फल / किरिय / पयोग /	फुसितक / फुसित /
shū jí	夫	激動	किरिय / पयोग /	फुसितक
冊	fu	jī dòng	成效	phusitaka
cè	भत्तु / मच्च / दिपद / जन / जन / मच्च / पुरिस / धव / पिय / धव	चलन / पकोप / फन्दित / फन्दन / कप्पन / उब्बिज्जना / आलोळ / परितस्सना / खोभ /	chéng xiào	下降
冊子	/ दिपद / कन्त / पिय / पुम /	運動	फल / निस्सन्द / अभिसन्द / अभिसन्दन / निष्फज्जन / निष्फत्ति /	xià jiàng
cè zi	कन्त / पुरिस / पति / पोस / पति / पुम / पोस / भत्तु /	yùn dòng	फल / निस्सन्द / अभिसन्द / अभिसन्दन / निष्फत्ति /	फुसितक / फुसित /
冊	夫	चार / फन्दन / एजा / इञ्जन /	成果	फाणित
cè	fū	運動	chéng guǒ	phāṇita
書	भत्तु / मच्च / दिपद / जन / जन / मच्च / पुरिस / धव / पिय / धव	yùn dòng	फल / निस्सन्द / निष्फज्जन / अभिसन्द / निष्फत्ति / आय / उदय / अभिसन्दन /	糖蜜
shū	/ दिपद / कन्त / पिय / पुम /	कम्पन / चार / इञ्जन / फन्दन / एजा / दव / चलन /	效	táng mì
書本	कन्त / पुरिस / पति / पोस / पति / पुम / पोस / भत्तु /	फन्दित	xiào	फाणित / गुळ /
shū běn	曼	phandita	निस्सन्द / निष्फत्ति / फल / निष्फज्जन /	
本子	màn	激動	效應	
běn zi	मच्च / पुथुल / पुम / पुरिस / पोस / उरु / जन / दिपद /	jī dòng	xiào yīng	
簿子	男人	चलन / पकोप / फन्दित / फन्दन / कप्पन / उब्बिज्जना / आलोळ / परितस्सना / खोभ /	फल / निष्फज्जन / निस्सन्द / निष्फत्ति /	
bù zi	nán rén	फरसु	效果	
著作	पुरिस / दिपद / पुम / जन / मच्च / पोस /	pharasu	xiào guǒ	
zhù zuò	男子	斧頭	निष्फज्जन / अभिसन्द / फल / अभिसन्दन / निस्सन्द / निष्फत्ति /	
कम्मन्त / पोत्थक / किच्च / कम्म / कम्म / किच्च / कम्मन्त / पोत्थक /	nán zi	fǔ tóu	果	
著作	पोस / पुम / पुरिस / दिपद / मच्च / जन /	फरसु / परसु /	guǒ	
zhe zuò	男子漢		निष्फत्ति / अभिसन्दन / अभिसन्द / फल / निष्फज्जन / निस्सन्द /	
कम्मन्त / पोत्थक / किच्च / कम्म / कम्म / किच्च / कम्मन्त / पोत्थक /	nán zi hàn		果实	
預定	पुरिस / दिपद / पोस / जन / पुम / मच्च /		guǒ shí	
yù dìng	पोसावनिक		果實	
पोत्थनिका	posāvanika		guǒ shí	
potthanikā	生計		果心	
七	shēng jì		guǒ xīn	
bī	पोसावनिक / जीवन / जीविका / आजीव /		水果	
七首	पोसिका		shuǐ guǒ	
bī shǒu	posikā		究竟	
短劍	護士		jiū jìng	
duǎn jiàn	hù shì		निष्फज्जन / अभिसन्दन / निष्फत्ति / अभिसन्द / पि / फल / निस्सन्द / तु /	
पोरिस	धाती / उपद्दाक / आपादिका / पोसिका /		結果	
porisa	護士		jié guǒ	
人	hù shì		निष्फज्जन / अभिसन्द / निष्फत्ति / निग्गम / निस्सन्द / अभिसन्दन / फल /	
rén	पोसिका / धाती / आपादिका / उपद्दाक /		结果	
पोस / दिपद / जन / पुम / पोरिस / पुरिस / पुगल / मच्च / जन्तु /	護理		jié guǒ	
पोरिसाद	hù lǐ		अभिसन्दन / निस्सन्द / अभिसन्द / फल / निष्फज्जन / निष्फत्ति /	
porisāda	धाती / उपद्दाक / आपादिका / पोसिका /		फुसन	
食人者	फेण		phusana	
shí rén zhě	pheṇa		觸	
	人渣		chù	
	rén zhā		फस्स	
	沫		phassa	
	mò		接觸	
	泡沫		jiē chù	
	pào mò		फोट्टब्ब / फस्स / अभिघात /	
	बु / बु / फेण /		联络	
			lián luò	

फातिकम्म	फासु	फासुका	बु	老
phātikamma	phāsu	phāsukā	buḍḍha	lǎo
加價	安慰	肋	估	जर / बु / थेर / पुराण / जज्जर / आचरिय /
jiā jià	ān wèi	lè	gū	老的
फातिकम्म / अभिवड्ढन / उपब्रूहन / पवड्ढन / उदय / उगम / उन्नति /	फासु / अस्सास /	फासुलिका / फासुका / फासुका / फासुलिका /	पुराण / जर / बु / जज्जर /	lǎo de
加大	安逸	肋	古	जज्जर / बु / जर / पुराण /
jiā dà	ān yì	lèi	gǔ	耄
उदय / उन्नति / उपब्रूहन / अभिवड्ढन / उगम / पवड्ढन / फातिकम्म /	容易	फासुलिका / फासुका / फासुका / फासुलिका /	बु / पुराण / जर / जज्जर /	mào
增	容易的	肋骨	古老	舊
zēng	róng yì de	lèi gú	gǔ lǎo	jiù
पवड्ढन / अभिवड्ढन / फातिकम्म / उदय / उन्नति / उपब्रूहन / उगम /	愉快的	फासुका / फासुलिका /	जर / बु / पुराण / जज्जर /	जर / जज्जर / बु / पुराण /
增加	yú kuài de	फासुलिका	头脑	舊的
zēng jiā	कन्त / इड्ढ / अभिराम / फासु / अनुकूल /	phāsulikā	tóu nǎo	jiù de
ब्रूहन / फातिकम्म / उपब्रूहन / उगम / अभिवड्ढन / उन्नति / उदय / पवड्ढन /	慰	肋	年老	जर / पुराण / बु / जज्जर /
增多	wèi	lè	nián lǎo	बद्ध
zēng duō	फासु / अस्सास /	फासुलिका / फासुका / फासुका / फासुलिका /	बु / आयु /	baddha
पवड्ढन / फातिकम्म / अभिवड्ढन / उपब्रूहन / उदय / उगम / उन्नति /	慰藉	肋	年老的	有義務
增强	wèi jiè	lèi	nián lǎo de	yǒu yì wu
zēng qiáng	फासु / अस्सास /	फासुलिका / फासुका / फासुका / फासुलिका /	जर / जज्जर / बु / पुराण /	बन्धन / बन्ध / बद्ध /
उगम / उपब्रूहन / फातिकम्म / पवड्ढन / उन्नति / अभिवड्ढन / उदय /	舒服的	肋骨	nián mài	束縛
增殖	fāng biàn de	lèi gú	जर / जज्जर / बु / पुराण /	shù fù
zēng zhí	易	फासुका / फासुलिका /	情報	बन्ध / बद्ध / बन्धन /
उगम / उन्नति / अभिवड्ढन / उदय / उपब्रूहन / पवड्ढन / फातिकम्म /	yi	फीत	qíng bào	बधिर
增长	舒服	phīta	निवेदन / पटिभाण / बु /	badhira
zēng zhǎng	shū fú	富有的	情报	聾
अभिवड्ढन / उदय / उगम / उपब्रूहन / फातिकम्म / पवड्ढन / उन्नति /	फासु / अस्सास /	fù yǒu de	qíng bào	lóng
复原	舒服的	फीत / अड्ढ /	पटिभाण / बु /	聵
fù yuán	shū fú de	फोड्ढब	旄	kuì
复职	舒适	phoṭṭhabba	máo	聾
fù zhí	shū shì	接觸	旧	lóng
恢复	फासु / अस्सास /	jiē chù	jiù	बन्ध
huī fù	फासुक	jiè chù	पुराण / जज्जर / बु / जर /	bandha
益	phāsuka	फोड्ढब / फस्स / अभिघात /	旧的	有義務
yi	不方便	觸摸	jiù de	yǒu yì wu
उपब्रूहन / अभिवड्ढन / फातिकम्म / पवड्ढन / उन्नति / उगम / उदय /	不方便的	chù mō	बु / जर / पुराण / जज्जर /	बन्धन / बन्ध / बद्ध /
茁	bù fāng biàn		智	束縛
zhuó	便		zhì	shù fù
अभिवड्ढन / उपब्रूहन / उदय / पवड्ढन / उन्नति / फातिकम्म /	biàn		बु / पञ्जा / भूरि / जाण / अमोह /	बन्ध / बद्ध / बन्धन /
恢复	अथ / तु / अथो / फासुक /		智力	關押
huī fù	便利		zhì lì	guān yā
益	biàn lì		बु / पटिभाण /	बन्ध / कारा /
方便	宜人		智慧	बन्धन
fāng biàn	yi rén		zhì huì	bandhana
愉快的	愉快		पञ्जा / बु / भूरि / जाण / अमोह /	有義務
yú kuài	yú kuài		泡沫	yǒu yì wu
आराम / फासुक / अत्तमन / इड्ढ / अस्साद / तुड्ढि / परिभोग / काम /	आराम / फासुक / अत्तमन / इड्ढ / अस्साद / तुड्ढि / परिभोग / काम /		pào mò	बन्धन / बन्ध / बद्ध /
方便	方便		बु / बु / फेण /	束縛
fāng biàn	方便		泡沫	shù fù
			pào mò	बन्ध / बद्ध / बन्धन /
उपब्रूहन / अभिवड्ढन / फातिकम्म / पवड्ढन / उन्नति / उगम / उदय /			बु / बु / फेण /	बन्धव
茁			理智	bandhava
zhuó			lǐ zhì	戚
अभिवड्ढन / उपब्रूहन / उदय / पवड्ढन / उन्नति / फातिकम्म / उगम /			पटिभाण / बु /	qī
恢复			窍	बन्धव / बन्धव /
huī fù			qiào	戚
益			पटिभाण / बु /	qī
精神			精神	बन्धव / बन्धव /
jīng shén			jīng shén	親戚
बु / चित्त /			बु / चित्त /	qīn qī
				जाति / बन्धव /

बब्बु	ब्रहन्त
babbu	brahanta
猫	巨人般的
māo	jù rén bān de
बिळार / मज्जार / बब्बु / बब्बुक /	巨大
貓	jù dà
māo	ब्रहन्त / अतिमहन्त /
बिळार / बब्बु / मज्जार / बब्बुक /	巨大的
बब्बुक	jù dà de
babbuka	ब्रहन्त / अतिमहन्त /
猫	廣大
māo	guǎng dà
बिळार / मज्जार / बब्बु / बब्बुक /	अतिमहन्त / ब्रहन्त /
貓	昊
māo	hào
बिळार / बब्बु / मज्जार / बब्बुक /	ब्रहन्त / अतिमहन्त /
ब्यग्घ	浩大
byaggha	hào dà
老虎	अतिमहन्त / ब्रहन्त /
lǎo hǔ	浩瀚
虎	hào hàn
hǔ	अतिमहन्त / ब्रहन्त /
ब्यञ्जन	澹
byañjana	mǎng
子音	ब्रहन्त / अतिमहन्त /
zi yīn	茫
辅音	máng
fǔ yīn	अतिमहन्त / ब्रहन्त /
音节	茫茫
yīn jié	máng máng
ब्यापाद	ब्रहन्त / अतिमहन्त /

ब्यापाद	ब्रह्म
byāpāda	brahma
惡意	創造者
è yì	chuàng zào zhě
उपनयहना / उपनाह / ब्यापाद /	ब्रह्म / इस्सर / कमलासन /
ब्रूहन	梵
brūhana	fàn
增加	造物主
zēng jiā	zào wù zhǔ
ब्रूहन / फातिकम्म / उपब्रूहन / उग्गम / अभिवड्ढन / उन्नति / उदय / पवड्ढन /	ब्रह्म / इस्सर / कमलासन /

बल	बल
bala	bala
军	军
jūn	jūn
धजिनी / अनीक / बलकाय / बल / चमू /	धजिनी / अनीक / बलकाय / बल / चमू /
军队	军队
jūn duì	军队
बलकाय / बल / अनीक / धजिनी / चमू /	बलकाय / बल / अनीक / धजिनी / चमू /
羸	羸
mì	mì
आधिपतेय्य / आधिपच्च / पभाव / आनुभाव / बल / थाम / तेज /	आधिपतेय्य / आधिपच्च / पभाव / आनुभाव / बल / थाम / तेज /
力	力
lì	力
जव / बल / आधिपतेय्य / आनुभाव / तेज / पभाव / आधिपच्च / थाम /	जव / बल / आधिपतेय्य / आनुभाव / तेज / पभाव / आधिपच्च / थाम /
力气	力气
lì qì	力气
जव / पभाव / थाम / बल /	जव / पभाव / थाम / बल /
力氣	力氣
lì qì	力氣
जव / बल / पभाव / थाम /	जव / बल / पभाव / थाम /
力量	力量
lì liàng	力量
तेज / आनुभाव / थाम / आधिपच्च / जव / पभाव / बल / आधिपतेय्य /	तेज / आनुभाव / थाम / आधिपच्च / जव / पभाव / बल / आधिपतेय्य /
功	功
gōng	功
थाम / आधिपच्च / आनिसंस / आधिपतेय्य / आनुभाव / बल / तेज / पुञ्ज /	थाम / आधिपच्च / आनिसंस / आधिपतेय्य / आनुभाव / बल / तेज / पुञ्ज /
功率	功率
gōng lǜ	功率
आधिपच्च / आनुभाव / आनुभाव / थाम / पभाव / बल / बल / पभाव / थाम / आधिपतेय्य / आधिपतेय्य / आधिपच्च / तेज / तेज /	आधिपच्च / आनुभाव / आनुभाव / थाम / पभाव / बल / बल / पभाव / थाम / आधिपतेय्य / आधिपतेय्य / आधिपच्च / तेज / तेज /
功力	功力
shì lì	功力
जव / आनुभाव / आधिपच्च / थाम / बल / तेज / पभाव / आधिपतेय्य /	जव / आनुभाव / आधिपच्च / थाम / बल / तेज / पभाव / आधिपतेय्य /
動力	動力
dòng lì	動力
आनुभाव / बल / आधिपच्च / आधिपतेय्य / तेज / थाम /	आनुभाव / बल / आधिपच्च / आधिपतेय्य / तेज / थाम /
勢力	勢力
shì lì	勢力
बल / पभाव /	बल / पभाव /
大权	大权
dà quán	大权
तेज / आनुभाव / बल / पभाव / थाम /	तेज / आनुभाव / बल / पभाव / थाम /
大權	大權
dà quán	大權
बल / आधिपतेय्य / आनुभाव / आधिपच्च / थाम / तेज /	बल / आधिपतेय्य / आनुभाव / आधिपच्च / थाम / तेज /

大群	大群
dà qún	大群
चमू / अनीक / धजिनी / बलकाय / बल /	चमू / अनीक / धजिनी / बलकाय / बल /
大軍	大軍
dà jūn	大軍
बलकाय / चमू / बल / अनीक / धजिनी /	बलकाय / चमू / बल / अनीक / धजिनी /
威	威
wēi	威
आनुभाव / थाम / तेज / आधिपच्च / आधिपतेय्य / बल / पभाव /	आनुभाव / थाम / तेज / आधिपच्च / आधिपतेय्य / बल / पभाव /
威力	威力
wēi lì	威力
आधिपतेय्य / पभाव / आधिपच्च / तेज / आनुभाव / थाम / बल /	आधिपतेय्य / पभाव / आधिपच्च / तेज / आनुभाव / थाम / बल /
实力	实力
shí lì	实力
बल / थाम / पभाव / जव /	बल / थाम / पभाव / जव /
羸	羸
mì	mì
थाम / आनुभाव / तेज / बल / आधिपतेय्य / आधिपच्च /	थाम / आनुभाव / तेज / बल / आधिपतेय्य / आधिपच्च /
強國	強國
qiáng guó	強國
आधिपतेय्य / थाम / बल / तेज / आधिपच्च / आनुभाव /	आधिपतेय्य / थाम / बल / तेज / आधिपच्च / आनुभाव /
强权	强权
qiáng quán	强权
बल / आनुभाव / आधिपच्च / तेज / थाम / आधिपतेय्य / पभाव /	बल / आनुभाव / आधिपच्च / तेज / थाम / आधिपतेय्य / पभाव /
斷電	斷電
duàn diàn	斷電
आधिपतेय्य / आधिपच्च / थाम / तेज / बल / आनुभाव /	आधिपतेय्य / आधिपच्च / थाम / तेज / बल / आनुभाव /
权力	权力
quán lì	权力
बल / पभाव / थाम / तेज / आनुभाव /	बल / पभाव / थाम / तेज / आनुभाव /
權力	權力
quán lì	權力
आनुभाव / थाम / आधिपच्च / तेज / आधिपतेय्य / बल /	आनुभाव / थाम / आधिपच्च / तेज / आधिपतेय्य / बल /
武力	武力
wǔ lì	武力
精力	精力
jīng lì	精力
धिति / उद्धान / बल / पग्गाह / पग्गाह / उस्सुक्क /	धिति / उद्धान / बल / पग्गाह / पग्गाह / उस्सुक्क /
能力	能力
néng lì	能力
दक्ख / बल / भब्ब / थाम / कल्ल /	दक्ख / बल / भब्ब / थाम / कल्ल /
要塞	要塞
yào sài	要塞
कोट्टक / कोट्टक / बल / नगर / नगर /	कोट्टक / कोट्टक / बल / नगर / नगर /
軍隊	軍隊
jūn duì	軍隊
बलकाय / धजिनी / चमू / बल / अनीक /	बलकाय / धजिनी / चमू / बल / अनीक /
逼	逼
bī	逼
逼迫	逼迫
bī pò	逼迫

部队	部队
bù duì	部队
चमू / धजिनी / अनीक / बलकाय / बल /	चमू / धजिनी / अनीक / बलकाय / बल /
陸軍	陸軍
lù jūn	陸軍
धजिनी / चमू / अनीक / बलकाय / बल /	धजिनी / चमू / अनीक / बलकाय / बल /
बलकाय	बलकाय
balakāya	बलकाय
军	军
jūn	军
धजिनी / अनीक / बलकाय / बल / चमू /	धजिनी / अनीक / बलकाय / बल / चमू /
军队	军队
jūn duì	军队
बलकाय / बल / अनीक / धजिनी / चमू /	बलकाय / बल / अनीक / धजिनी / चमू /
大群	大群
dà qún	大群
चमू / अनीक / धजिनी / बलकाय / बल /	चमू / अनीक / धजिनी / बलकाय / बल /
大軍	大軍
dà jūn	大軍
बलकाय / चमू / बल / अनीक / धजिनी /	बलकाय / चमू / बल / अनीक / धजिनी /
軍隊	軍隊
jūn duì	軍隊
बलकाय / धजिनी / चमू / बल / अनीक /	बलकाय / धजिनी / चमू / बल / अनीक /
部队	部队
bù duì	部队
चमू / धजिनी / अनीक / बलकाय / बल /	चमू / धजिनी / अनीक / बलकाय / बल /
陸軍	陸軍
lù jūn	陸軍
धजिनी / चमू / अनीक / बलकाय / बल /	धजिनी / चमू / अनीक / बलकाय / बल /

大群	大群
dà qún	大群
चमू / अनीक / धजिनी / बलकाय / बल /	चमू / अनीक / धजिनी / बलकाय / बल /
大軍	大軍
dà jūn	大軍
बलकाय / चमू / बल / अनीक / धजिनी /	बलकाय / चमू / बल / अनीक / धजिनी /
軍隊	軍隊
jūn duì	軍隊
बलकाय / धजिनी / चमू / बल / अनीक /	बलकाय / धजिनी / चमू / बल / अनीक /
部队	部队
bù duì	部队
चमू / धजिनी / अनीक / बलकाय / बल /	चमू / धजिनी / अनीक / बलकाय / बल /
陸軍	陸軍
lù jūn	陸軍
धजिनी / चमू / अनीक / बलकाय / बल /	धजिनी / चमू / अनीक / बलकाय / बल /

बलङ्ग	बलि	बहुतर	बहुल	बहि
balatṭha	bali	bahutara	bahula	bahi
兵	岁入	更	大概	之外
bīng	sui rù	gèng	dà gài	zhī wài
बलत्थ / बलङ्ग / बलङ्ग / भट /	收入	बहतर / उत्तरि / भिय्यो / उत्तरि / परो / भिय्योसो /	पि / बहसो / बह्ल /	बहि / तिरो / बहिद्धा / बाहिर /
兵	shōu rù	更加	時常	以外
bīng	बलि / अय / आय / उदय /	gèng jiā	shí cháng	yǐ wài
बलत्थ / बलङ्ग / बलङ्ग / भट /	收益	भिय्योसो / बहतर / भिय्यो /	बहसो / अभिण्हं / बह्ल /	बाहिर / तिरो / बहिद्धा / बहि /
兵家	shōu yì	更多	豐富	出
bīng jiā	उदय / पत्ति / आय / बलि / अय / आनिसंस / उपभोग /	gèng duō	fēng fù	chū
भट / बलङ्ग / बलङ्ग / बलत्थ /	稅	भिय्योसो / बहतर / भिय्यो /	बहुसो	出動
兵家	shuì	更好	bahuso	chū dòng
bīng jiā	कर / बलि /	gèng hǎo	大概	出去
भट / बलङ्ग / बलङ्ग / बलत्थ /	稅	भिय्योसो / बहतर / भिय्यो /	dà gài	chū qù
卒	shuì	许多	पि / बहसो / बह्ल /	निगम / बहि /
zú	कर / बलि /	xǔ duō	時常	出局
बलङ्ग / भट / बलङ्ग / बलत्थ /	進帳	बह् / अनप्पक / बहतर /	shí cháng	chū jú
卒	jìn zhàng	越來越	बहसो / अभिण्हं / बह्ल /	出於
zú	बली	yuè lái yuè		chū yú
बलङ्ग / भट / बलङ्ग / बलत्थ /	बलि	बहतर / भिय्योसो / भिय्यो /		出門
士兵	balī	越來越多		chū mén
shì bīng	有力的	yuè lái yuè duō		外
भट / बलङ्ग / बलत्थ / बलङ्ग /	yǒu lì de	भिय्यो / बहतर / भिय्योसो /		wài
士兵	बली / थाम /	非常多		बाहिर / बहि / तिरो / बहिद्धा /
shì bīng	बहु	fēi cháng duō		外側
भट / बलङ्ग / बलत्थ / बलङ्ग /	bahu	बह् / अनप्पक / बहतर /		wài cè
小兵	不少	बहुल		बहि / बाहिर / बहिद्धा / तिरो /
xiǎo bīng	bù shǎo	bahala		外出
बलङ्ग / बलत्थ / भट / बलङ्ग /	अनप्पक / बह् /	厚		wài chū
小兵	充分	hòu		बहि / निग्यान / निस्सरण /
xiǎo bīng	chōng fēn	बहल / गहन / घन /		外在的
बलङ्ग / बलत्थ / भट / बलङ्ग /	पुण्ण / बह् / परिपूर /	厚的		wài zài de
軍人	多多	hòu de		बहि / बाहिर /
jūn rén	duō duō	घन / बहल / गहन /		外界
भट / बलङ्ग / बलङ्ग / बलत्थ /	अनप्पक / बह् /	密		wài jiè
軍人	好多	mì		बहि / तिरो / बाहिर / बहिद्धा /
jūn rén	hǎo duō	बहल / घन / गहन /		外表
भट / बलङ्ग / बलङ्ग / बलत्थ /	अनप्पक / बह् /	密集的		wài biǎo
बलत्थ	很多	mì jí de		तिरो / पात्तु / बहि / बहिद्धा /
balatṭha	hěnx duō	बहल / घन /		बाहिर / आंकार /
兵	कुस / भुस / बह् / अनप्पक /	稠		外邊
bīng	許多	chóu		wài biān
बलत्थ / बलङ्ग / बलङ्ग / भट /	xǔ duō	बहल / गहन / घन /		बहि / तिरो / बाहिर / बहिद्धा /
兵家	अनप्पक / अतिविय / बह् /	粗		外部
bīng jiā	諸多	cū		wài bù
भट / बलङ्ग / बलङ्ग / बलत्थ /	zhū duō	कठिन / गम्म / खर / कक्कस /		बाहिर / बहि /
卒	बह् / अनप्पक /	घन / खळ / कक्खळ / बहल /		外部的
zú	许多	गहन / ओळारिक / थूल / निडूर /		wài bù de
बलङ्ग / भट / बलङ्ग / बलत्थ /	xǔ duō	萃		बहि / बाहिर / बहिद्धा /
士兵	बह् / अनप्पक / बहतर /	cuì		外面
shì bīng	非常多	घन / गहण / गहन / बहल /		wài miàn
भट / बलङ्ग / बलत्थ / बलङ्ग /	fēi cháng duō	蒺		तिरो / बहि / बहिद्धा / बाहिर /
小兵	बह् / अनप्पक / बहतर /	wéng		外頭
xiǎo bīng		बहल / गहन / घन /		wài tóu
बलङ्ग / बलत्थ / भट / बलङ्ग /				तिरो / बाहिर / बहि / बहिद्धा /
軍人				对外的
jūn rén				duì wài de
भट / बलङ्ग / बलङ्ग / बलत्थ /				बाहिर / बहि /
				局外的
				jú wài de
				बाहिर / तिरो / बहिद्धा / बहि /

拿出
ná chū
移出
yí chū
窗外
chuāng wài
बहिद्धा / तिरो / बाहिर / बहि /
走出
zǒu chū
跳出
tiào chū
逐出
zhú chū
पट्टिचिनोदन / बहि / नासन / निक्कड्डन /
門外
mén wài
बाहिर / बहि / तिरो / बहिद्धा /
बहिद्धा
bahiddhā
之外
zhī wài
बहि / तिरो / बहिद्धा / बाहिर /
以外
yǐ wài
बाहिर / तिरो / बहिद्धा / बहि /
外
wài
बाहिर / बहि / तिरो / बहिद्धा /
外側
wài cè
बहि / बाहिर / बहिद्धा / तिरो /
外界
wài jiè
बहि / तिरो / बाहिर / बहिद्धा /
外表
wài biǎo
तिरो / पातु / बहि / बहिद्धा /
बाहिर / आंकार /
外邊
wài biān
बहि / तिरो / बाहिर / बहिद्धा /
外部的
wài bù de
बहि / बाहिर / बहिद्धा /
外面
wài miàn
तिरो / बहि / बहिद्धा / बाहिर /
外頭
wài tóu
तिरो / बाहिर / बहि / बहिद्धा /
局外的
jú wài de
बाहिर / तिरो / बहिद्धा / बहि /
窗外
chuāng wài
बहिद्धा / तिरो / बाहिर / बहि /
門外
mén wài
बाहिर / बहि / तिरो / बहिद्धा /

बाधन
bādhana
妨害
fáng hài
捕捉
bǔ zhuō
痛苦
tòng kǔ
अघ / आबाध / बाधन / खेद /
किच्छ / असात / दुक्ख /
陷阱
xiàn jǐng
ओपात / बाधन / पास /
बारस
bārasa
十二
shí èr
द्वादस / बारस /

बाल
bāla
傻
shǎ
दुम्मेध / दन्ध / अन्ध / दुप्पञ्ज /
जळ / बाल /
傻子
shǎ zi
बाल / दुम्मेध / दुप्पञ्ज /
儿
r
बाल / बाल / पुत्त / पुत्त /
儿
ér
बाल / बाल / पुत्त / पुत्त /
儿童
ér tóng
बाल / पुत्त /
兒
r
बाल / पुत्त /
兒童
r tóng
पुत्त / बाल /
呆
dāi
बाल / दन्ध / दुम्मेध / अन्ध /
जळ / ठान / दुप्पञ्ज /
囡
jiān
पुत्त / बाल /
子
zi
पुत्त / बाल /
子女
zi nǚ
पुत्त / बाल / पुत्त /
孛
nú
अपच्च / पुत्त / पजा / पसव /
बाल /
孩
hái
बाल / पुत्त /
孩子
hái zi
पुत्त / बाल /
孺
rú
बाल / पुत्त /
小孩
xiǎo hái
पुत्त / दारक / बाल /
小孩子
xiǎo hái zi
पुत्त / बाल /
幼
yòu
पुत्त / तरुण / बाल /
愚蠢
yú chǔn
बाल्य / दन्ध / बाल /

愚蠢的
yú chǔn de
अन्ध / दन्ध / दुम्मेध / जळ /
बाल / दुप्पञ्ज /
痴
chī
दुम्मेध / जळ / दन्ध / अन्ध /
बाल / दुप्पञ्ज /
童
tóng
दहर / दारक / कुमारक / पुत्त /
कुमार / बाल /
笨
bèn
जळ / दुप्पञ्ज / अन्ध / बाल /
दुम्मेध / दन्ध /
笨的
bèn de
दुम्मेध / दन्ध / जळ / अन्ध /
दुप्पञ्ज / बाल /
笨蛋
bèn dàn
दुप्पञ्ज / दुम्मेध / बाल /
बाल्य
bālyā
小時候
xiǎo shí hou
幼年
yòu nián
幼年时代
yòu nián shí dài
愚蠢
yú chǔn
बाल्य / दन्ध / बाल /
童年
tóng nián
自小
zì xiǎo
自幼
zì yòu
蠢事
chǔn shì

बाला
bāla
丫頭
yā tóu
दारिका / कञ्जा / कुमारी /
कुमारिका / बाला /
女孩
nǚ hái
बाला / कञ्जा / कञ्जा / बाला /
कुमारी / दारिका / दारिका / कुमारी
/ कुमारिका / कुमारिका /
女孩
nǚ hái
बाला / कञ्जा / कञ्जा / बाला /
कुमारी / दारिका / दारिका / कुमारी
/ कुमारिका / कुमारिका /
女孩子
nǚ hái zi
कञ्जा / कुमारी / बाला / दारिका /
कुमारिका /
女郎
nǚ láng
दारिका / कुमारिका / कञ्जा /
कुमारी / बाला /
姑娘
gū niáng
बाला / दारिका / कुमारिका / बाला
/ कुमारी / दारिका / कञ्जा /
कुमारिका / कञ्जा / कुमारी /
姑娘
gū niang
बाला / दारिका / कुमारिका / बाला
/ कुमारी / दारिका / कञ्जा /
कुमारिका / कञ्जा / कुमारी /
小姑娘
xiǎo gū niáng
बाला / कुमारिका / कुमारिका /
कुमारी / कुमारी / बाला / कञ्जा /
कञ्जा / दारिका / दारिका /
小姑娘
xiǎo gū niang
बाला / कुमारिका / कुमारिका /
कुमारी / कुमारी / बाला / कञ्जा /
कञ्जा / दारिका / दारिका /
少女
shǎo nǚ
दारिका / कञ्जा / कुमारी /
कुमारिका / कुमारिका / बाला /
कुमारी / बाला / दारिका / कञ्जा /
少女
shǎo nǚ
दारिका / कञ्जा / कुमारी /
कुमारिका / कुमारिका / बाला /
कुमारी / बाला / दारिका / कञ्जा /
बाव्ह
bāvha
很多的
hěnde duō de
非常地
fēi cháng dì
अतिसय / भिय्योसो / भुस /
भिय्यो / बाव्ह /

बाहु	बाहा	बाहिर	बिन्दु	बिल
bāhu	bāhā	bāhira	bindu	bila
शुभ्र	शुभ्र	अलर	शुभ्र	कुल
shǒu bei	shǒu bei	zhī wài	suǒ shì	kǒng
बाहा / बाहा / भुज / बाहु / बाहु / भुज /	बाहा / बाहा / भुज / बाहु / बाहु / भुज /	बहि / तिरु / बहिद्धा / बाहिर /	शुभ्र	छिद्ध / कुहर / छिग्गल / बिल /
शुभ्र	शुभ्र	अलर	diǎn	कुल
shǒu bì	shǒu bì	yǐ wài	कुल / बिन्दु /	dòng
बाहा / बाहा / भुज / बाहु / बाहु / भुज /	बाहा / बाहा / भुज / बाहु / बाहु / भुज /	बाहिर / तिरु / बहिद्धा / बहि /	बिम्ब	कुप / छिद्ध / कुहर / बिल / गम्बर / छिग्गल /
शुभ्र	शुभ्र	अलर	bimba	कुल
gē bo	bǎ	wài	कुल	dòng kǒu
भुज / बाहु / बाहा /	बाहा / कुल /	बाहिर / बहि / तिरु / बहिद्धा /	òu	कुहर / छिद्ध / बिल / छिग्गल /
शुभ्र	शुभ्र	अलर	पटिमा / बिम्ब / अपि / पटिबिम्ब /	कुल
bì	bǎ shǒu	wài cè	कुल	pò dòng
भुज / बाहा / बाहा / भुज / बाहु / बाहु /	कुल / बाहा /	बहि / बाहिर / बहिद्धा / तिरु /	xiàng	बिल / कुहर / छिग्गल / छिद्ध /
शुभ्र	कुल	अलर	पटिमा / बिम्ब / इव / पटिबिम्ब /	कुल
bei	bǎ bǐng	wài guó de	कुल	xué
भुज / बाहा / बाहा / भुज / बाहु / बाहु /	बाहा / कुल /	अलर	yìn xiàng	बिल / छिग्गल / छिद्ध / छिद्ध /
शुभ्र	शुभ्र	बहि / बाहिर /	बिम्ब / पटिबिम्ब / पटिमा /	बिल / कुहर / छिग्गल / कुहर /
bei bǎng	bǐng	wài jiè	कुल	कुल
बाहु / बाहु / भुज / बाहा / बाहा /	कुल / दण्ड / बाहा /	बहि / तिरु / बाहिर / बहिद्धा /	tú xiàng	बिल / छिग्गल / छिद्ध / छिद्ध /
भुज	कुल	अलर	कुल	बिल / कुहर / छिग्गल / कुहर /
bì bǎng	zhù	wài biǎo	tú piàn	कुल
बाहु / बाहु / भुज / बाहा / बाहा /	कुल / कुपक / बाहा / आलान / आळान / खील / खाणु / थम्भ /	तिरु / पातु / बहि / बहिद्धा /	पटिमा / पटिबिम्ब / चित्त / बिम्ब /	kōng xīn
भुज	कुल	बाहिर / आंकार /	कुल	कुल
huī xià	gē bo	wài biān	tú xiàng	kū long
बाहु / बाहा / भुज /	भुज / बाहु / बाहा /	बहि / तिरु / बाहिर / बहिद्धा /	पटिबिम्ब / बिम्ब / पटिमा /	बिल / कुहर / छिद्ध / छिग्गल /
	शुभ्र	अलर	xíng xiàng	kōu
	bei	wài bù	पटिमा / पटिबिम्ब / बिम्ब /	कुल
	भुज / बाहा / बाहा / भुज / बाहु / बाहु /	बाहिर / बहि /	xíng xiàng	कुल
	शुभ्र	अलर	बिम्ब / पटिमा / पटिबिम्ब /	कुल
	bì bǎng	wài miàn	yǐng xiàng	कुल
	बाहु / बाहु / भुज / बाहा / बाहा /	तिरु / बहि / बहिद्धा / बाहिर /	पटिमा / पटिबिम्ब / बिम्ब /	कुल
	भुज	अलर	xīn xiàng	कुल
	bei bǎng	wài tóu	पटिमा / चित्त / बिम्ब / पटिबिम्ब /	कुल
	बाहु / बाहु / भुज / बाहा / बाहा /	तिरु / बाहिर / बहि / बहिद्धा /	कुल	कुल
	भुज	अलर	xīn xiǎng	कुल
	huī xià	duì wài de	पटिमा / चिन्तन / चित्त /	कुल
	बाहु / बाहा / भुज /	बाहिर / बहि /	पटिबिम्ब / आभोग / बिम्ब /	कुल
		अलर	कुल	कुल
		jú wài de	xiǎng xiàng	कुल
		बाहिर / तिरु / बहिद्धा / बहि /	चित्त / पटिमा / बिम्ब / पटिबिम्ब /	कुल
		कुल	कुल	कुल
		yáng	कुल	कुल
		fān	yìng xiàng	कुल
		कुल	पटिमा / बिम्ब / पटिबिम्ब /	कुल
		chuāng wài	कुल	कुल
		बहिद्धा / तिरु / बाहिर / बहि /	xiāng sì de shì wù	कुल
		कुल	पटिमा / बिम्ब / पटिबिम्ब /	कुल
		mén wài	xiào xiàng	कुल
		बाहिर / बहि / तिरु / बहिद्धा /	पटिबिम्ब / पटिमा / छाया / बिम्ब /	कुल
		कुल	कुल	कुल
		diào xiàng	कुल	कुल
		पटिमा / पटिबिम्ब / बिम्ब /	कुल	कुल

बीभच्च
bībhacca
了不得
le bù dé
भेरव / घोर / घोर / भेरव / बीभच्च /
可怕
kě pà
अतिघोर / भयानक / भयावह / घोर / अतिदारुण / बीभच्च / भेरव / भीसन / भीम /
可怕的
kě pà de
भयावह / भीम / अतिदारुण / घोर / भयानक / भेरव / बीभच्च / भय / अतिघोर / भीसन /
恐怖的
kǒng bù de
भीसन / भयावह / बीभच्च / भयानक / भय / भीम /

बोध
bodha
深知
shēn zhī
आज्ञानन / परिज्ञानन / अधिगम / पञ्चा / बोध / अनुबोध / अवबोध /
知識
zhī shì
पञ्चा / अधिगम / बोध / आज्ञानन / परिज्ञानन / अनुबोध / अवबोध /
知识
zhī shī
अनुबोध / अधिगम / पञ्चा / अवबोध / बोध / परिज्ञानन / आज्ञानन /
識
shì
अवबोध / बोध / परिज्ञानन / अनुबोध / पञ्चा / आज्ञानन / अधिगम /
识
shì
अधिगम / अवबोध / बोध / परिज्ञानन / बोध / पञ्चा / पञ्चा / अनुबोध / परिज्ञानन / अनुबोध / अधिगम / अवबोध / आज्ञानन / आज्ञानन /
识
shì
अधिगम / अवबोध / बोध / परिज्ञानन / बोध / पञ्चा / पञ्चा / अनुबोध / परिज्ञानन / अनुबोध / अधिगम / अवबोध / आज्ञानन / आज्ञानन /

बोन्दि
bondi
体
tǐ
गत्त / कलेबर / बोन्दि / काय / देह / करजकाय /
身
shēn
पाण / काय / करजकाय / जीव / गत्त / कलेबर / देह / चरित / बोन्दि /
身上
shēn shàng
करजकाय / कलेबर / काय / देह / बोन्दि / गत्त /
身体
shēn tǐ
कलेबर / देह / करजकाय / बोन्दि / गत्त / काय /
身子
shēn zi
बोन्दि / काय / कलेबर / गत्त / करजकाय / देह /
身體
shēn tǐ
कलेबर / देह / गत्त / करजकाय / काय / बोन्दि /
體
tǐ
बोन्दि / देह / काय / गत्त / कलेबर / करजकाय /

भू
bhū
土
tǔ
धरणी / जगति / छमा / भूमि / पंसु / भू / पृथुवी /
土壤
tǔ rǎng
भू / पृथुवी / छमा / पंसु / धरणी / भूमि / जगति /
地
dì
पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छमा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पृथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छमा / पृथुवी / जगति / जगति /
地
dì
पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छमा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पृथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छमा / पृथुवी / जगति / जगति /
地球
dì qiú
पृथुवी / पृथुवी / गूळ / गूळ / भूमि / छमा / छमा / भूमि / भू / धरणी / भू / जगति / जगति / धरणी /
地球
dì qiú
पृथुवी / पृथुवी / गूळ / गूळ / भूमि / छमा / छमा / भूमि / भू / धरणी / भू / जगति / जगति / धरणी /
地线
dì xiàn
पृथुवी / धरणी / छमा / भूमि / जगति / भू /
地面
dì miàn
भूमि / पृथुवी / भू / भू / धरणी / भूमि / छमा / जगति / पृथुवी / थल / धरणी / थल / जगति / छमा /
地面
dì miàn
भूमि / पृथुवी / भू / भू / धरणी / भूमि / छमा / जगति / पृथुवी / थल / धरणी / थल / जगति / छमा /
大地
dà dì
धरणी / धरणी / पृथुवी / छमा / पृथुवी / जगति / भू / छमा / भू / भूमि / जगति / भूमि /
大地
dà dì
धरणी / धरणी / पृथुवी / छमा / पृथुवी / जगति / भू / छमा / भू / भूमि / जगति / भूमि /
接地
jiē dì
जगति / भूमि / थल / थल / धरणी / छमा / धरणी / भू / छमा / भूमि / जगति / भू / पृथुवी / पृथुवी /
接地
jiē dì
जगति / भूमि / थल / थल / धरणी / छमा / धरणी / भू / छमा / भूमि / जगति / भू / पृथुवी / पृथुवी /

泥土
ní tǔ
धरणी / पृथुवी / पंसु / जगति / भू / छमा / भूमि /
भेक
bheka
蛙
wā
蛤
há
蛤蟆
há ma
蟾蜍
chán chú
辙叉
zhé chā
青蛙
qīng wā
भुक्करण
bhukkarana
吠
fèi
भुक्करण / तच /
भक्खन
bhakkhana
吃
chī
खादन / असन / भोत्तुं / अनुभवन / भक्खन /
भग
bhaga
財富
cái fù
अत्थ / भग / दब्ब / भाग्य / इस्सरिय / धन / भोग /
財富
cái fù
इस्सरिय / अत्थ / धन / भग / भोग / दब्ब /
运气
yùn qì
運氣
yùn qì
भग्ग
bhagga
壞掉
huài diào
खण्ड / भग्ग /
破
pò
खण्ड / भग्ग /
破碎
pò suì
भग्ग / खण्ड /
碎
suì
भग्ग / खण्ड /

भगिनी
bhagini
妹
mèi
妹妹
mèi mèi
姊
zǐ
姊妹
zǐ mèi
भगिनी / अनुजा /
姐
jiě
姐姐
jiě jiě
小姑
xiǎo gū
弟媳
dì xī

भङ्ग
bhaṅga
分解
fēn jiě
瓦解
wǎ jiě
भिन्दन / भङ्ग /
解散
jiě sàn

भुज	भञ्जन	भत्त	भत्तु	भति
bhuja	bhañjana	bhatta	bhattu	bhati
一手	破壞	膳	丈夫	薪水
yī shǒu	pò huài	shàn	zhàng fū	xīn shuǐ
भुज / पाणि / कर / 伸手	अत्थ / घात / नास / उपच्छेद / भञ्जन / अपचिनन / निग्घातन / पीळन / नासन / खय / नस्सन /	भत्त / भोजन / 膳食	भत्तु / पिय / धव / धव / पति / पिये / भत्तु / पति / कन्त / कन्त /	費
shēn shǒu	भट	shàn shí	丈夫	fèi
भुज / कर / पाणि / 到手	bhāṭa	भत्त / भोजन / 食	zhàng fu	費用
dào shǒu	兵	shí	भत्तु / पिय / धव / धव / पति / पिये / भत्तु / पति / कन्त / कन्त /	fèi yòng
भुज / कर / पाणि / 巴掌	bīng	भिक्षा / घास / भत्त / आमिस / आहार / अन्न / भोत्तु / असित / भोजन / असन /	伉	धुर / भति / परिब्बय / 費
bā zhǎng	bīng jiā	食品	kàng	fèi
भुज / भुज / पाणि / कर / कर / पाणि /	भट / बलडु / बलडु / बलत्थ /	shí pǐn	कन्ता / कन्त / भरिया / भत्तु / धव / कलत्त / पिय / पिया / जाया / पति / जानि /	酬金
巴掌	卒	भिक्षा / आहार / आमिस / भोजन / भत्त / असन / अन्न / असित / घास /	外子	chou jīn
ba zhǎng	zú	食物	wài zi	भति / भति /
भुज / भुज / पाणि / कर / कर / पाणि /	बलडु / भट / बलडु / बलत्थ /	shí wù	कन्त / धव / पति / पिय / भत्तु /	भति / भति /
手	士兵	घास / भोजन / भिक्षा / अण्ण / आहार / अन्न / आमिस / असित / भत्त / असन /	夫	भेद
shǒu	shì bīng	餐	fu	bheda
भुज / कर / पाणि /	भट / बलडु / बलत्थ / बलडु /	cān	भत्तु / मच्च / दिपद / जन / जन / मच्च / पुरिस / धव / पिय / धव / दिपद / कन्त / पिय / पुम /	分裂
手臂	小兵	भत्त / भोत्तु / भोजन /	कन्त / पुरिस / पति / पोस / पति / पुम / पोस / भत्तु /	fēn liè
shǒu bì	xiǎo bīng	飯	夫	भेदन / भेद /
बाहा / बाहा / भुज / बाहु / बाहु / भुज /	बलडु / बलत्थ / भट / बलडु /	fàn	fū	分離
手臂	bù bīng	आहार / असित / असन / घास / अन्न / आमिस / भिक्षा / भत्त / भोजन /	भत्तु / मच्च / दिपद / जन / जन / मच्च / पुरिस / धव / पिय / धव / दिपद / कन्त / पिय / पुम /	fēn lí
shǒu bei	भट / पत्ति /		भत्तु / मच्च / दिपद / जन / जन / मच्च / पुरिस / धव / पिय / धव / दिपद / कन्त / पिय / पुम /	पच्चेक / भेद /
बाहा / बाहा / भुज / बाहु / बाहु / भुज /	警察		婿	भद
手邊	jǐng chá		xù	bhadda
shǒu biān	軍人		पति / कन्त / धव / पिय / भत्तु /	吉兆的
भुज / कर / पाणि /	jūn rén		老公	jí zhào de
手頭	भट / बलडु / बलडु / बलत्थ /		lǎo gōng	भद / मङ्गल / अभिमङ्गल /
shǒu tóu	भणन्त		धव / पति / कन्त / पिय / भत्तु /	भदन्त
कर / पाणि / भुज /	bhaṇanta		भत्ति	bhaddanta
笔迹	來說		bhatti	可尊敬的
bǐ jī	lái shuō		信仰	kě zūn jìng de
कर / पाणि / भुज /	說起		xìn yǎng	भदन्त / भदन्त /
胳膊	shuō qǐ		दिङ्घि / तित्थ / पसाद / भत्ति / आगम /	भेदन
gē bo			信奉	bhedana
भुज / बाह् / बाहा /			xìn fèng	分化
臂			तित्थ / भत्ति / दिङ्घि /	fēn huà
bì			信念	分裂
भुज / बाहा / बाहा / भुज / बाहु / बाह् /			xìn niàn	fēn liè
臂			भत्ति / तित्थ / दिङ्घि / पसाद /	भेदन / भेद /
bei			執著	भदन्त
भुज / बाहा / बाहा / भुज / बाहु / बाह् /			熱愛	bhadanta
臂膀			rè ài	可尊敬的
bì bǎng			पुक्खार / अभिप्पसाद / पसीदन / भत्ति / पियायना /	kě zūn jìng de
बाह् / बाहु / भुज / बाहा / बाहा / भुज /				भदन्त / भदन्त /
臂膀				
bei bǎng				
बाह् / बाहु / भुज / बाहा / बाहा / भुज /				
麾下				
huī xià				
बाह् / बाहा / भुज /				
भुजिस्स				
bhujissa				
自由民				
zì yóu mǐn				

भबब	भूमि
bhabba	bhūmi
勝任	上台
shèng rèn	shàng tái
भबब / पटिबल /	區域
得力	qū yù
dé lì	देस / भूमि / पदेस / आयतन /
पटिबल / भबब / भबब /	土
得力	tǔ
de lì	धरणी / जगति / छमा / भूमि / पंसु / भू / पुथुवी /
पटिबल / भबब / भबब /	土地
有能力の	tǔ dì
yǒu néng lì de	भूमि / अवनि / पंसु / छमा / भूमि / छमा / पंसु / अवनि / थल / थल /
能力	土地
néng lì	tǔ de
दक्ख / बल / भबब / थाम / कल्ल /	भूमि / अवनि / पंसु / छमा / भूमि / छमा / पंसु / अवनि / थल / थल /
能干	土壤
néng gān	tǔ rǎng
पटिबल / पटिबल / भबब / भबब /	भू / पुथुवी / छमा / पंसु / धरणी / भूमि / जगति /
भमु	地
bhamu	dì
眉	पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छमा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पुथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छमा / पुथुवी / जगति / जगति /
méi	地
眉毛	de
méi máo	पदेस / धरणी / पदेस / धरणी / छमा / केदार / भू / थल / भूमि / पद / पद / केदार / थल / पुथुवी / भू / ठान / ठान / भूमि / छमा / पुथुवी / जगति / जगति /
	地球上
	de shàng
	भूमि / थल / छमा /
	地球
	de qiú
	पुथुवी / पुथुवी / गुळ / गुळ / भूमि / छमा / छमा / भूमि / भू / धरणी / भू / जगति / जगति / धरणी /
	地球
	dì qiú
	पुथुवी / पुथुवी / गुळ / गुळ / भूमि / छमा / छमा / भूमि / भू / धरणी / भू / जगति / जगति / धरणी /
	地皮
	de pí
	छमा / थल / थल / भूमि /
	地线
	dì xiàn
	पुथुवी / धरणी / छमा / भूमि / जगति / भू /
	地面
	dì miàn
	भूमि / पुथुवी / भू / भू / धरणी / भूमि / छमा / जगति / पुथुवी / थल / धरणी / थल / जगति / छमा /
	地面
	de miàn
	भूमि / पुथुवी / भू / भू / धरणी / भूमि / छमा / जगति / पुथुवी / थल / धरणी / थल / जगति / छमा /

大地	dhà dì
	धरणी / धरणी / पुथुवी / छमा / पुथुवी / जगति / भू / छमा / भू / भूमि / जगति / भूमि /
大地	dà de
	धरणी / धरणी / पुथुवी / छमा / पुथुवी / जगति / भू / छमा / भू / भूमि / जगति / भूमि /
平面	píng miàn
	तल / भूमि /
接地	jiē de
	जगति / भूमि / थल / थल / धरणी / छमा / धरणी / भू / छमा / भूमि / जगति / भू / पुथुवी / पुथुवी /
接地	jiē dì
	जगति / भूमि / थल / थल / धरणी / छमा / धरणी / भू / छमा / भूमि / जगति / भू / पुथुवी / पुथुवी /
期	qī
	भूमि / कालन्तर /
地	dì
	泥土
	ní tǔ
	धरणी / पुथुवी / पंसु / जगति / भू / छमा / भूमि /
	登台
	dēng tái
	舞台
	wǔ tái
	阶段
	jiē duàn
	階段
	jiē duàn

भय	bhaya
可怕的	kě pà de
	भयावह / भीम / अतिदारुण / घोर / भयानक / भेरव / बीभच्च / भय / अतिघोर / भीसन /
害怕	hài pà
	पटिभय / भय / चकित / भीति /
怕	pà
	तास / भय / पटिभय / आसङ्का / उत्तास /
怖	chù
	पटिभय / भय / उत्तास / भीरुक / तास / आसङ्का /
恐	kǒng
	उत्तास / आसङ्का / भय / पटिभय / तास /
恐怖	kǒng bù
	पटिभय / उत्तास / उत्रास / उत्तसन / भय / तास / आसङ्का /
恐怖的	kǒng bù de
	भीसन / भयावह / बीभच्च / भयानक / भय / भीम /
恐惧	kǒng jù
	भय / तास / आसङ्का / उत्तास / पटिभय /
恐懼	kǒng jù
	तास / उत्तास / भय / पटिभय / आसङ्का /
懼	dàn
	आसङ्का / पटिभय / भीति / भय / उत्तास / तास /
惶恐	huáng kǒng
	तास / उत्तास / आसङ्का / पटिभय / भय /
懼	jù
	तास / आसङ्का / उत्तास / भय / पटिभय /
畏	wèi
	पटिभय / आसङ्का / तास / भय / उत्तास /
畏懼	wèi jù
	उत्तास / भय / पटिभय / तास / आसङ्का /
虞	yú
	पटिभय / तास / आसङ्का / भय / उत्तास /
非常害怕	fēi cháng hài pà

भयानक	bhayānaka
可怕	kě pà
	अतिघोर / भयानक / भयावह / घोर / अतिदारुण / बीभच्च / भेरव / भीसन / भीम /
可怕的	kě pà de
	भयावह / भीम / अतिदारुण / घोर / भयानक / भेरव / बीभच्च / भय / अतिघोर / भीसन /
恐怖的	kǒng bù de
	भीसन / भयावह / बीभच्च / भयानक / भय / भीम /
भयावह	bhayāvaha
可怕	kě pà
	अतिघोर / भयानक / भयावह / घोर / अतिदारुण / बीभच्च / भेरव / भीसन / भीम /
可怕的	kě pà de
	भयावह / भीम / अतिदारुण / घोर / भयानक / भेरव / बीभच्च / भय / अतिघोर / भीसन /
恐怖的	kǒng bù de
	भीसन / भयावह / बीभच्च / भयानक / भय / भीम /
भेरव	bherava
了不得	le bù de
	भेरव / घोर / घोर / भेरव / बीभच्च /
了不得	le bù dé
	भेरव / घोर / घोर / भेरव / बीभच्च /
可怕	kě pà
	अतिघोर / भयानक / भयावह / घोर / अतिदारुण / बीभच्च / भेरव / भीसन / भीम /
可怕的	kě pà de
	भयावह / भीम / अतिदारुण / घोर / भयानक / भेरव / बीभच्च / भय / अतिघोर / भीसन /
भूरि	bhūri
智	zhì
	बु / पञ्जा / भूरि / जाण / अमोह /
智慧	zhì huì
	पञ्जा / बु / भूरि / जाण / अमोह /

भेरि	भरिया	भुस	भा	轻
bheri	bharyiā	bhusa	bhā	qīng
大鼓	伉	外殼	亮光	पज्जोत / निभा / पदीप / पभा / भा / जोति / पभास / अवभास / भानु / दित्ति / आलोक / आभा /
dà gǔ	kàng	wài ké	liàng guāng	
दुन्दुभि / भेरि / 打鼓	कन्ता / कन्त / भरिया / भत्तु / धव / कलत्त / पिया / पिया / जाया / पति / जानि /	常常	भानु / आभा / अवभास / जोति / पभास / पज्जोत / पभा / भा / आलोक / निभा / दित्ति / पदीप /	
dǎ gǔ	太太	भुस / अभिण्हं /	光	
滾筒	tài tài	很多	guāng	
gǔn tǒng	कलत्त / जानि / भरिया / जाया / कन्ता / पिया /	hěn duō	आलोक / दित्ति / भा / पज्जोत / पदीप / पभास / आभा / पभा / जोति / अवभास / भानु / निभा /	
भेरि / दुन्दुभि / 鼓	夫人	कुस / भुस / बह् / अनप्पक /	光線	
gǔ	fū rén	非常地	guāng xiàn	
भेरि / दुन्दुभि /	जानि / कलत्त / भरिया / पिया / कन्ता / जाया /	fēi cháng dì	अवभास / पदीप / निभा / पभास / पज्जोत / पभा / भानु / कर / जोति / आलोक / किरण / दित्ति / भा / आभा /	
	女人	अतिसय / भिय्योसो / भुस / भिय्यो / बाब्ह /	對光	
	nǚ rén	頻繁	duì guāng	
	जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अङ्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना /	pín fán	पज्जोत / जोति / भानु / पदीप / पभा / अवभास / आलोक / दित्ति / निभा / भा / पभास / आभा /	
	女人	भेसज्ज	淡	
	nǚ rén	bhesajja	dàn	
	जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अङ्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना /	治	जोति / निभा / पज्जोत / पभा / भानु / आलोक / भा / अवभास / दित्ति / पभास / पदीप / आभा /	
	女人	治癒	淡淡	
	nǚ rén	治癒	dàn dàn	
	जाया / पिया / कन्ता / पिया / कलत्त / कलत्त / कन्ता / जानि / भरिया / जाया / भरिया / नारी / नारी / जानि / अङ्गना / थी / थी / इत्थि / इत्थि / अङ्गना /	治療	पदीप / जोति / दित्ति / अवभास / आभा / पज्जोत / पभा / पभास / आलोक / भानु / भा / निभा /	
	妇人	治療	清淡	
	fù rén	療	qīng dàn	
	भरिया / जाया / नारी / इत्थि / अङ्गना / कलत्त / थी / कन्ता / पिया / जानि /	liáo	पभास / पज्जोत / पदीप / आलोक / पभा / पभास / निभा / भानु / अवभास / आभा /	
	妻	藥	清	
	qī	yào	qīng dàn	
	अङ्गना / जाया / थी / पिया / भरिया / कलत्त / जानि / नारी / कन्ता / इत्थि /	भेसज्ज / अगद / ओसध /	पभास / पज्जोत / पदीप / आलोक / पभा / दित्ति / जोति / भा / निभा / भानु / अवभास / आभा /	
	妻子	भस्म	灯	
	qī zi	bhasma	dēng	
	पिया / भरिया / जानि / जाया / कन्ता / कलत्त /	灰燼	दित्ति / पदीप / अवभास / पभास / आलोक / पभा / जोति / भा / भानु / पज्जोत / आभा / निभा /	
	娶妻	ह्यारिका / भस्म /	燈	
	qǔ qī	भस्सर	dēng	
	भरिया / जानि / पिया / कलत्त / कन्ता / जाया /	bhassara	पज्जोत / दित्ति / पभा / जोति / भानु / निभा / भा / पदीप / पभास / आभा / अवभास / आलोक / दीप /	
	媳婦	光亮的	燈光	
	xí fù	guāng liàng de	dēng guāng	
	कलत्त / कन्ता / भरिया / पिया / जानि / जाया /	भस्सर / भासुर / ओभासन /	पज्जोत / भानु / आलोक / भा / पभा / अवभास / पभास / आभा / दित्ति / निभा / जोति / पदीप /	
	愛人	明亮的	發光	
	ài rén	míng liàng de	fā guāng	
	जाया / भरिया / पिया / कन्ता / जानि / कलत्त /	जुण्ह / उज्जल / भासुर / भस्सर /	भानु / आभा / पभास / पज्जोत / पभास / अवभास / पदीप / जोति / भा / निभा / आलोक / दित्ति /	
	爱人		輕	
	ài rén		qīng	
	अङ्गना / नारी / जाया / भरिया / थी / जानि / कलत्त / पिया / कन्ता /		दित्ति / पभास / आलोक / पभा / जोति / पदीप / निभा / पज्जोत / भानु / आभा / अवभास / भा /	
	老婆		輕便	
	lǎo pó		qīng biàn	
	जानि / कलत्त / जाया / कन्ता / पिया / भरिया /		पदीप / आभा / दित्ति / पभास / अवभास / निभा / पभा / आलोक / पज्जोत / भानु / भा / जोति /	
	भवति			
	bhavati			
	變得			
	biàn de			

भाग	भाग्य	भातु	भातिक	भानु
bhāga	bhāgya	bhātu	bhātika	bhānu
一部份	財富	兄弟	兄弟	亮光
yī bù fèn	cái fù	xiōng dì	xiōng dì	liàng guāng
अवयव / पटिविस / भाग / अंस / कोद्दास /	अत्थ / भग / दब्ब / भाग्य / इस्सरिय / धन / भोग /	अनुज / भातु / भातिक / आवुसो /	अनुज / भातु / भातिक / आवुसो /	भानु / आभा / अवभास / जोति / पभास / पज्जोत / पभा / भा / आलोक / निभा / दित्ति / पदीप /
一部分	भागिनेय्य	兄或弟	兄或弟	光
yī bù fēn	bhāgineyya	xiōng huò dì	xiōng huò dì	guāng
भाग / कोद्दास / पटिविस /	侄	भानु / भातिक / अनुज / आवुसो /	भानु / भातिक / अनुज / आवुसो /	आलोक / दित्ति / भा / पज्जोत / पदीप / पभास / आभा / पभा / जोति / अवभास / भानु / निभा /
份	zhí	兄長	兄長	光線
fèn	侄子	xiōng zhǎng	xiōng zhǎng	guāng xiàn
भाग / पटिविस / पत्ति / कोद्दास / अंस / अवयव /	zhí zi	भानु / अनुज / आवुसो / भातिक /	भानु / अनुज / आवुसो / भातिक /	अवभास / पदीप / निभा / पभास / पज्जोत / पभा / भानु / कर / जोति / आलोक / किरण / दित्ति / भा / आभा /
共享	外甥	tóng bāo	tóng bāo	周日
gòng xiǎng	wài shēng	भानु / भातिक / आवुसो / अनुज /	भानु / भातिक / आवुसो / अनुज /	zhōu rì
पत्ति / भाग / कोद्दास / पटिविस /	姪	哥	哥	भानु / अक्क / आदिच्च /
共用	zhí	gē	gē	太阳
gòng yòng	甥	भातिक / भातु / अनुज / आवुसो /	भातिक / भातु / अनुज / आवुसो /	tài yáng
पटिविस / पत्ति / कोद्दास / भाग /	shēng	哥哥	哥哥	आदिच्च / भानु / अक्क /
分享	भागी	gē gē	gē gē	太陽
fēn xiǎng	bhāgī	भानु / अनुज / भातिक / आवुसो /	भानु / अनुज / भातिक / आवुसो /	tài yáng
पत्ति / पटिविस / कोद्दास / भाग /	分配者	姐夫	姐夫	दिन / भानु / अक्क / दिवस / आदिच्च /
分担	fēn pèi zhě	jie fu	jie fu	對光
fēn dān	पदातु / भागी /	आवुसो / भातु / अनुज / भातिक /	आवुसो / भातु / अनुज / भातिक /	duì guāng
局部	भागीरथी	弟兄	弟兄	पज्जोत / जोति / भानु / पदीप / पभा / अवभास / आलोक / दित्ति / निभा / भा / पभास / आभा /
jú bù	bhāgīrathī	dì xiōng	dì xiōng	晒
भाग / अवयव / अंस /	恒河	आवुसो / अनुज / भातु / भातिक /	आवुसो / अनुज / भातु / भातिक /	shài
幫派	héng hé	弟弟	弟弟	भानु / अक्क / आदिच्च /
bāng pài		dì dì	dì dì	曬
पक्ख / भाग /		अनुज / आवुसो / भातिक / भातु /	अनुज / आवुसो / भातिक / भातु /	shài
派		社友	社友	अक्क / भानु / आदिच्च /
pài		shè yǒu	shè yǒu	淡
पक्ख / निकाय / भाग /		अनुज / आवुसो / भातिक / भातु /	अनुज / आवुसो / भातिक / भातु /	dàn
派系		老兄	老兄	जोति / निभा / पज्जोत / पभा / भानु / आलोक / भा / अवभास / दित्ति / पभास / पदीप / आभा /
pài xì		lǎo xiōng	lǎo xiōng	清淡
निकाय / पक्ख / भाग /		आवुसो / भातु / अनुज / भातिक /	आवुसो / भातु / अनुज / भातिक /	dàn dàn
股				पदीप / जोति / दित्ति / अवभास / आभा / पज्जोत / पभा / पभास / आलोक / भानु / भा / निभा /
gǔ				清淡
भाग / पत्ति / अवयव / पटिविस / अंस / कोद्दास /				qing dàn
股份				पभास / पज्जोत / पदीप / आलोक / पभा / दित्ति / जोति / भा / निभा / भानु / अवभास / आभा /
gǔ fèn				灯
पटिविस / भाग / पत्ति / कोद्दास /				dēng
股票				दित्ति / पदीप / अवभास / पभास / आलोक / पभा / जोति / भा / भानु / पज्जोत / आभा / निभा /
gǔ piào				燈
पटिविस / पत्ति / कोद्दास / भाग /				dēng
部				पज्जोत / दित्ति / पभा / जोति / भानु / निभा / भा / पदीप / पभास / आभा / अवभास / आलोक / दीप /
bù				燈光
अवयव / भाग / अंस /				dēng guāng
部件				पज्जोत / भानु / आलोक / भा / पभा / अवभास / पभास / आभा / दित्ति / निभा / जोति / पदीप /
bù jiàn				
अवयव / भाग / अंस /				
部份				
bù fèn				
अंस / कोद्दास / अवयव / पटिविस / भाग /				
部分				
bù fēn				
कोद्दास / पत्ति / अवयव / अंस / पटिविस / भाग /				

發光	भाव	भासुर	भित्ति	भिय्यो
fā guāng	bhāva	bhāsura	bhitti	bhiyyo
भानु / आभा / पभास / पज्जोत / पभा / अवभास / पदीप / जोति / भा / निभा / आलोक / दित्ति /	况	光亮的	围墙	多
輕	kuàng	guāng liàng de	wéi qiáng	duō
qīng	dà zì rán	भस्सर / भासुर / ओभासन /	भित्ति / कुड्ड /	भिय्यो / भिय्योसो / अतीव /
दित्ति / पभास / आलोक / पभा / जोति / पदीप / निभा / पज्जोत / भानु / आभा / अवभास / भा /	天性	明亮的	垣	多的
輕便	tiān xìng	míng liàng de	yuán	duō de
qīng biàn	धम्मता / भाव / पकति / धम्म /	जुण्ह / उज्जल / भासुर / भस्सर /	कुड्ड / भित्ति /	भिय्योसो / भिय्यो /
पदीप / आभा / दित्ति / पभास / अवभास / निभा / पभा / आलोक / पज्जोत / भानु / भा / जोति /	性情	भासा	牆	更
輕	xìng qíng	bhāsā	qiáng	gèng
qīng	अधिमुत्ति / धम्म / पकति / धम्मता / भाव /	文	भित्ति / कुड्ड /	बहूतर / उत्तरि / भिय्यो / उत्तरि / परो / भिय्योसो /
पज्जोत / निभा / पदीप / पभा / भा / जोति / पभास / अवभास / भानु / दित्ति / आलोक / आभा /	性格	wén	牆壁	更加
阳	xìng gé	भासा / निरुत्ति /	qiáng bì	gèng jiā
yáng	धम्म / भाव / पकति /	方言	कुड्ड / भित्ति /	भिय्योसो / बहूतर / भिय्यो /
अक्क / आदिच्च / भानु /	性質	fāng yán	壁	更多
陽	xìng zhì	語	bì	gèng duō
yáng	भाव / धम्म / धम्मता / पकति /	yǔ	भित्ति / कुड्ड /	भिय्योसो / बहूतर / भिय्यो /
आदिच्च / भानु / अक्क /	性质	निरुत्ति / भासा /	牆	更多的
भारिक	xìng zhì	語言	qiáng	gèng duō de
bhārika	情況	yǔ yán	कुड्ड / भित्ति /	भिय्योसो / भिय्यो /
慘重	qíng kuàng	भासा / निरुत्ति /	牆上	更大的
cǎn zhòng	भाव / आकार /	語	qiáng shàng	gèng dà de
गरुक / गुरु / गरु / भारिक /	本性	yǔ	भित्ति / कुड्ड /	भिय्योसो / भिय्यो /
沈重	běn xìng	निरुत्ति / भासा /	牆壁	更好
shěn zhòng	भाव / धम्म / पकति / धम्मता /	语言	qiáng bì	gèng hǎo
गुरु / गरुक / भारिक / गरु /	本質	yǔ yán xué	भित्ति / कुड्ड /	भिय्योसो / बहूतर / भिय्यो /
沈重的	běn zhì	भासा / निरुत्ति /	भिन्दन	越來越
shěn zhòng de	धम्म / धम्मता / भाव / पकति /	भिकखक	bhīndana	yuè lái yuè
गुरु / गरु / गरुक / भारिक /	本质	bhikkhaka	瓦解	बहूतर / भिय्योसो / भिय्यो /
沉重	běn zhì	巧	wǎ jiě	越來越多
chén zhòng	धम्मता / धम्म / पकति / भाव /	gài	भिन्दन / भङ्ग /	yuè lái yuè duō
गरुक / गरु / गुरु / भारिक /	條件	कपण / भिकखक /		भिय्यो / बहूतर / भिय्योसो /
笨重	tiáo jiàn	乞丐		非常地
bèn zhòng	况	qǐ gài		fēi cháng dì
गुरु / भारिक / गरु / गरुक /	kuàng	कपण / भिकखक /		अतिसय / भिय्योसो / भुस /
繁重	状态	叫花子		भिय्यो / बाक्क /
fán zhòng	zhuàng tài	jiào huā zǐ		
भारिक / गुरु / गरुक / गरु /	自然	कपण / भिकखक /		
重型	zì rán	भिकखा		
zhòng xíng	भाव / पकति / धम्मता / पाकतिक / धम्म /	bhikkhā		
भारिक / गरु / गुरु / गरुक /	自然界	食		
重的	zì rán jiè	shí		
zhòng de	धम्मता / पकति / धम्म / भाव /	भिकखा / घास / भत्त / आमिस / आहार / अन्न / भोत्तुं / असित / भोजन / असन /		
गरु / भारिय / गरुक / भारिक / गुरु /	भावी	食品		
重重	bhāvī	shí pǐn		
zhòng zhòng	不可避免的	भिकखा / आहार / आमिस / भोजन / भत्त / असन / अन्न / असित / घास /		
गरु / गरु / गरुक / भारिक /	bù kě bì miǎn de	食物		
भारिय	भासन	shí wù		
bhāriya	bhāsana	ghās / bhōjan / bhikkhā / aṇṇa / āhāra / anna / āmisā / asitā / bhatta / asana /		
沉重的	演講	ghās / bhōjan / bhikkhā / aṇṇa / āhāra / anna / āmisā / asitā / bhatta / asana /		
chén zhòng de	yǎn jiǎng	飯		
重的	भासन / उदाहार / अभिलाप / गद /	fàn		
zhòng de	談話	आहार / असित / असन / घास / अन्न / आमिस / भिकखा / भत्त / भोजन /		
गरु / भारिय / गरुक / भारिक / गुरु /	tán huà			
	भासन / आलाप /			

भिय्योसो	भीति	भोग	भोत्तुं	मक्खिका
bhiyyoso	bhīti	bhoga	bhottum	makkhikā
多	害怕	占有	可吃	蒼蠅
duō	hài pà	zhàn yǒu	kě chī	cāng yīng
भिय्यो / भिय्योसो / अतीव / 多的	पटिभय / भय / चकित / भीति / 懼	आयत्त / भोग / 所有權	吃	蠅
duō de	dàn	suǒ yǒu quán	chī	yīng
भिय्योसो / भिय्यो / 更	आसङ्का / पटिभय / भीति / भय / उत्तास / तास /	भोग / आयत्त / धन / 所有物	खादन / असन / भोत्तुं / अनुभवन / भक्खन /	मक्खिका / मक्खिका / 蠅
gèng	भीम	suǒ yǒu wù	吃光	yíng
बह्तर / उत्तरिं / भिय्यो / उत्तरिं / परो / भिय्योसो /	bhīma	आयत्त / भोग / 有道	chī guāng	मक्खिका / मक्खिका / 蠅
更加	可怕	yǒu dào	吃掉	yīng
gèng jiā	kě pà	इस्सरिय / भोग / दब्ब / धन / अत्य /	chī diào	飛
भिय्योसो / बह्तर / भिय्यो / 更多	अतिघोर / भयानक / भयावह / घोर / अतिदारुण / बीभच / भेरव / भीसन / भीम /	इस्सरिय / भोग / दब्ब / धन / अत्य /	chī fàn	fēi
gèng duō	可怕的	財富	吃飽	मक्खिका / उप्पतन / 飛翔
भिय्योसो / बह्तर / भिय्यो / 更多的	ké pà de	cái fù	chī bǎo	fēi xiáng
gèng duō de	kě pà de	अत्य / भग / दब्ब / भाग्य / इस्सरिय / धन / भोग /	啖	fēi
भिय्योसो / भिय्यो / 更大的	भयावह / भीम / अतिदारुण / घोर / भयानक / भेरव / बीभच / भय / अतिघोर / भीसन /	財富	dàn	fēi
gèng dà de	恐怖的	cái fù	喫	fēi xiáng
भिय्योसो / भिय्यो / 更好	kǒng bù de	इस्सरिय / अत्य / धन / भग / भोग / दब्ब /	chī	飛翔
gèng hǎo	भीसन / भयावह / बीभच / भ यानक / भय / भीम /	भोगी	大吃	fēi xiáng
भिय्योसो / बह्तर / भिय्यो / 越來越	भीरु	bhōgī	dà chī	मकुट
yuè lái yuè	bhīru	蛇	茹	makuṭa
भिय्योसो / बह्तर / भिय्यो / 越來越	懦弱的	shé	食	冕
yuè lái yuè duō	nuò ruò de	भोगी / दुजिह्व / आसीविस / उरग / अहि / अलगद्द /	shí	miǎn
भिय्यो / बह्तर / भिय्योसो / 非常地	भीरुक	भोजन	भिक्षा / घास / भत्त / आमिस / आहार / अन्न / भोत्तुं / असित / भोजन / असन /	किरीट / मकुट / 冠
fēi cháng dì	bhīruka	bhōjana	餐	guān
अतिसय / भिय्योसो / भुस / भिय्यो / बाव्ह /	怯懦的	膳	cān	मकुट / किरीट / चूळा / 冠冕
भिसक्क	nuò	shàn	भत्त / भोत्तुं / भोजन /	guān miǎn
bhisakka	懦弱	भत्त / भोजन /	膳食	मकुट / किरीट / 加冕
医师	nuò ruò	shàn shí	shí	jiā miǎn
yī shī	胆小	भत्त / भोजन /	भिक्षा / घास / भत्त / आमिस / आहार / अन्न / भोत्तुं / असित / भोजन / असन /	किरीट / मकुट / 王冠
भिसक्क / तिकिच्छक /	dǎn xiǎo	食品	भिक्षा / घास / भत्त / आमिस / आहार / अन्न / आमिस / असित / घास /	wáng guān
医生	dǎn xiǎo	shí pǐn	食物	किरीट / मकुट /
yī shēng	भीसन	shí wù	ghās / bhōjan / bhikkhā / aṅṅa / āhāra / anna / āmisa / asita / bhōjana / asana /	मकुल
तिकिच्छक / भिसक्क /	bhīsana	ghās / bhōjan / bhikkhā / aṅṅa / āhāra / anna / āmisa / asita / bhōjana / asana /	ghās / भोजन / भिक्षा / अण्ण / आहार / अन्न / आमिस / असित / भत्त / असन /	makula
醫師	可怕	餐	餐	花蕾
yī shī	kě pà	cān	cān	huā lěi
तिकिच्छक / भिसक्क /	अतिघोर / भयानक / भयावह / घोर / अतिदारुण / बीभच / भेरव / भीसन / भीम /	भत्त / भोत्तुं / भोजन /	भत्त / भोत्तुं / भोजन /	मुकुल / जालक / कोरक / मुकुल / 芽
भिसि	可怕的	飯	fàn	yá
bhisi	kě pà de	आहार / असित / असन / घास / अन्न / आमिस / भिक्षा / भत्त / भोजन /	आहार / असित / असन / घास / अन्न / आमिस / भिक्षा / भत्त / भोजन /	मकुल / मुकुल / पवाळ / कोरक / जालक /
墊	भयावह / भीम / अतिदारुण / घोर / भयानक / भेरव / बीभच / भय / अतिघोर / भीसन /	食物	食物	苞
diàn	भीसन / भयावह / बीभच / भ यानक / भय / भीम /	ghās / भोजन / भिक्षा / अण्ण / आहार / अन्न / आमिस / असित / भत्त / असन /	घास / भोजन / भिक्षा / अण्ण / आहार / अन्न / आमिस / असित / भत्त / असन /	bāo
भिसि / चुम्बटक / चुम्बट /	可怕的	餐	餐	कोरक / मुकुल / मुकुल / जालक / 萌芽
墊子	kě pà de	cān	cān	méng yá
diàn zi	भयावह / भीम / अतिदारुण / घोर / भयानक / भेरव / बीभच / भय / अतिघोर / भीसन /	भत्त / भोत्तुं / भोजन /	भत्त / भोत्तुं / भोजन /	मुकुल / जालक / मुकुल / कोरक / 蕾
भिसि / अपस्सय /	恐怖的	飯	fàn	lěi
	kǒng bù de	आहार / असित / असन / घास / अन्न / आमिस / भिक्षा / भत्त / भोजन /	आहार / असित / असन / घास / अन्न / आमिस / भिक्षा / भत्त / भोजन /	जालक / मुकुल / कोरक / मुकुल /
	भीसन / भयावह / बीभच / भ यानक / भय / भीम /			

मुकुल	मुख	臉	मूग	मगग
mukula	mukha	liǎn	mūga	magga
花蕾	入口	臉上	𑂔	修路
huā lěi	rù kǒu	liǎn shàng	yǎ	xiū lù
मुकुल / जालक / कोरक / मकुल / 芽	पवेस / आवेसन / द्वार / मुख / 前方	臉部	मूग / मूग / 𑂔	मगग / अञ्जस / पन्थ / पथ / पज्ज /
yá	qián fāng	liǎn bù	yā	办法
मकुल / मुकुल / पवाळ / कोरक / जालक /	पमुख / मुख / अभिमुख / 前端	臨	मूग / मूग / 𑂔	bàn fǎ
苞	qián duān	𑂔	yǎ	मगग / पथ / पन्थ /
bāo	अभिमुख / मुख / पमुख / 前線	𑂔	𑂔	徑
कोरक / मुकुल / मकुल / जालक / 萌芽	qián xiàn	gēn qián	yǎ ba	jìng
méng yá	मुख / अभिमुख / पमुख / 前线	आनन / मुख / 跟前	𑂔	पन्थ / पज्ज / अञ्जस / पथ / मगग /
मकुल / जालक / मुकुल / कोरक / 蕾	qián xiàn	車頭	yīn	徑
lěi	मुख / अभिमुख / पमुख / 前邊	chē tóu		jìng
जालक / मुकुल / कोरक / मकुल / मकस	qián biān	陣		पन्थ / पथ / अञ्जस / मगग / पज्ज /
makasa	मुख / पमुख / अभिमुख / 前部	zhèn		方法
蚊	qián bù	पमुख / अभिमुख / मुख / 陣		fāng fǎ
wén	धुर / पमुख / अभिमुख / मुख / 前面	zhèn		नय / उपाय / पथ / पकार / नीहार / उपक्कम / उपनिसा / जाय / कम / मगग /
蚊子	qián miàn	zhèn xiàn		路
wén zi	पमुख / अभिमुख / मुख / 口	पमुख / अभिमुख / मुख / 陣線		lù
	kǒu	miàn xiàng		पथ / मगग / पन्थ / अञ्जस / पज्ज /
	मुख / आनन / 嘴	miàn zi		路上
	zuǐ	miàn zǐ		lù shàng
	मुख / आनन / 嘴巴	miàn kǒng		पथ / पन्थ / अञ्जस / पज्ज / मगग /
	zuǐ bā	miàn róng		路径
	मुख / मुख / आनन / आनन / 嘴巴	miàn duì		lù jìng
	zuǐ ba	miàn mù		मगग / अञ्जस / पथ / पज्ज / पन्थ /
	मुख / मुख / आनन / आनन / 嘴裡	miàn lín		路线
	zuǐ li	miàn líng		lù xiàn
	आनन / मुख / 容顏	gāo kǎo		पज्ज / मगग / पन्थ / अञ्जस / पथ /
	róng yán	पवेस / मुख / आवेसन / द्वार / मुख्य		路途
	最初的	मुख्य		lù tú
	zuì chū de	mukhya		पथ / मगग / पज्ज / पन्थ / अञ्जस /
	आवत्थिक / आदि / जेड / धुर / मुख्य / पधान / मुख / पाकतिक / पठम /	最初的		軌
	朝向	zuì chū de		guǐ
	cháo xiàng	आवत्थिक / आदि / जेड / धुर / मुख्य / पधान / मुख / पाकतिक / पठम /		पज्ज / पथ / पन्थ / मगग / अञ्जस /
	正視	最重要的		軌道
	zhèng shì	zuì zhòng yào de		guǐ dào
	正面	मुखर		पज्ज / मगग / अञ्जस / पन्थ / पथ /
	zhèng miàn	mukhara		辦法
	मुख / अभिमुख / पमुख / 滿臉	𑂔		bàn fǎ
	mǎn liǎn	nóng		पन्थ / पथ / मगग /
	當面	多嘴的		途
	dāng miàn	duō zuǐ de		tú
	臉			मगग / पन्थ / अञ्जस / पज्ज / पथ /
	liǎn			途徑

道	मुग्गर	मङ्कु	मङ्गल	मच्च
dào	muggara	mañku	maṅgala	macca
पथ / पन्थ / अञ्जस / मग्ग / पज्ज /	木槌	困惑	儀式	人
道路	mù chuí	kùn huò	yí shì	rén
dào lù	棍棒	मङ्कु / अन्धकार / आकुल /	उत्सव / मङ्गल /	पोस / दिपद / जन / पुम / पोरिस / पुरिस / पुग्गल / मच्च / जन्तु /
मग्ग / पन्थ / अञ्जस / पथ / पज्ज /	गुंन बां	弄得	典禮	会死
馬路	मग्गिग	nòng de	diǎn lǐ	हुई सँ
mǎ lù	maggika	आकुल / मङ्कु /	उत्सव / मङ्गल /	凡人
अञ्जस / मग्ग / पज्ज / पथ / पन्थ /	旅客	弄混	典禮	fán rén
मग्गन	lǚ kè	nòng hùn	diǎn lǐ	夫
maggana	अद्धिक / अद्धिक / मग्गिक / मग्गिक /	मङ्कु / आकुल /	मङ्गल / उत्सव /	夫
尋	旅客	慌	吉兆的	fu
xún	lǚ kè	huāng	jí zhào de	भल्लु / मच्च / दिपद / जन / जन / मच्च / पुरिस / धव / पिय / धव / दिपद / कन्त / पिय / पुम /
मग्गन / गवेसना / अन्वेसना / परियेसना /	अद्धिक / अद्धिक / मग्गिक / मग्गिक /	憤	भद्र / मङ्गल / अभिमङ्गल /	कन्त / पुरिस / पति / पोस / पति / पुम / पोस / भल्लु /
尋	मेघ	kuài	chāng shèng	夫
xún	megha	आकुल / मङ्कु /	इद्धि / मङ्गल /	fū
मग्गन / अन्वेसना / गवेसना / परियेसना /	下雨	汨	泓	भल्लु / मच्च / दिपद / जन / जन / मच्च / पुरिस / धव / पिय / धव / दिपद / कन्त / पिय / पुम /
尋找	xià yǔ	गुं	hóng	कन्त / पुरिस / पति / पोस / पति / पुम / पोस / भल्लु /
xún zhǎo	云	मङ्कु / आकुल / मङ्कु / आकुल /	मङ्गल / इद्धि /	成年男子
मग्गन / अन्वेसना / गवेसना / परियेसना /	yún	汨	禮	chéng nián nán zǐ
尋求	मेघ / अब्भ /	yù	成年男子	जन / पुरिस / मच्च /
xún qiú	雨	紛	禮	曼
परियेसना / गवेसना / अन्वेसना / एसना / मग्गन /	yǔ	fēn	lǐ	màn
搜	雨天	आकुल / मङ्कु /	उत्सव / मङ्गल /	मच्च / पृथुल / पुम / पुरिस / पोस / उरु / जेन / दिपद /
sōu	yǔ tiān	迷糊	繁榮	會死
गवेसना / परियेसना / अन्वेसना / मग्गन /	雲	mí hu	fán róng	हुई सँ
搜尋	yún	आकुल / मङ्कु /	इज्जन / मङ्गल / इद्धि /	男人
sōu xún	अब्भ / मेघ /	迷茫	繁榮	nán rén
अन्वेसना / मग्गन / गवेसना / परियेसना /	search	mí máng	fán róng	पुरिस / दिपद / पुम / जन / मच्च / पोस /
搜查	sōu chá	आकुल / मङ्कु /	मङ्गल / इद्धि /	男子
sōu chá	परियेसना / अन्वेसना / मग्गन / गवेसना /	search	男子漢	nán zǐ
搜索	sōu suǒ	search	nán zǐ hàn	पोस / पुम / पुरिस / दिपद / मच्च / जन /
sōu suǒ	मग्गन / गवेसना / अन्वेसना / परियेसना /	search	男子漢	पुरिस / दिपद / पोस / जन / पुम / मच्च /
搜身	sōu shēn	search	男子漢	男子漢
sōu shēn	मग्गन / गवेसना / अन्वेसना / परियेसना /	search	男子漢	男子漢
查	chá	search	男子漢	男子漢
查閱	chá yuè	search	男子漢	男子漢
查閱	gaveśana / pariyesana / anvesana / maggana /	search	男子漢	男子漢
追尋	suǒ	search	男子漢	男子漢
追尋	zhuī xún	search	男子漢	男子漢
追尋	pariyesana / anvesana / maggana / gaveśana /	search	男子漢	男子漢

मच्चु	मज्जार	मञ्च
maccu	majjāra	mañca
死	猫	上床
sǐ	māo	shàng chuáng
चवन / नमुचि / पेत / नास / कालकिरिया / मच्चु / कालङ्कत / अन्तक /	बिळार / मज्जार / बब्बु / बब्बुक /	床
死亡	猫	chuáng
sǐ wáng	māo	床位
चवन / नास / कालकिरिया / मच्चु / अन्तक / नमुचि /	बिळार / बब्बु / मज्जार / बब्बुक /	chuáng wèi
死地	मज्झ	床鋪
sǐ de	majjha	chuáng pù
नास / कालकिरिया / मच्चु / मच्चु / नमुचि / अन्तक / चवन / चवन /	中央	床鋪
死地	zhōng yāng	chuáng pū
sǐ dì	zhōng yāng de	河床
नास / कालकिरिया / मच्चु / मच्चु / नमुचि / अन्तक / चवन / चवन /	मज्झिम / मज्झ /	hé chuáng
死神	中心	मुञ्चन
sǐ shén	zhōng xīn	muñcana
कालकिरिया / चवन / अन्तक / नास / नमुचि / मच्चु /	央	放出
至死	yāng	fàng chū
zhì sǐ	居中	釋放
कालकिरिया / नमुचि / अन्तक / नास / मच्चु / चवन /	jū zhōng	shì fàng
身亡	腰	परिमुचन / मुञ्चन / ओस्सजन / परिमुत्ति / निब्बान / नित्यान /
shēn wáng	yāo	
कालकिरिया / मच्चु / नास / अन्तक / नमुचि / चवन /	मज्झ / कटि /	
	腰部	
	yāo bù	
	मज्झ / जघन / कटि /	

मच्छ	मज्झिम
maccha	majjhima
渔	中央的
yú	zhōng yāng de
मच्छ / झस /	मज्झिम / मज्झ /
釣	中等
diào	zhōng děng
मच्छ / झस /	中部的
釣	zhōng bù de
diào	媒
झस / मच्छ /	méi
魚	媒介
yú	méi jiè
मच्छ / झस /	媒界
魚類	méi jiè
yú lèi	媒质
मच्छ / झस /	méi zhì
魚	平均的
yú	píng jūn de
झस / मच्छ /	

मज्ज
majja
喝酒
hē jiǔ
酒
jiǔ
酒鬼
jiǔ guǐ

Chinese Pali

一
yī
एक
eka
一 / 一些 / 一體 / 之一 / 同一 / 同样 / 同种的 / 單 / 未知的 / 某一個 / 相同的 /

一下
yī xià
आरब्ध
ārabbha
一下 / 即將 / 大約 / 大约 / 左右 / 快要 / 走進 / 關於 /

一串
yī chuàn
पन्ति
panti
一串 / 串 / 列 / 行 /

一些
yī xiē
एक
eka

一 / 一些 / 一體 / 之一 / 同一 / 同样 / 同种的 / 單 / 未知的 / 某一個 / 相同的 /
एकच्च
ekacca
一些 / 一番 / 些 / 必然 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某一個 / 某些 / 确定 /
एकच्चिय
ekacciya

一些 / 一番 / 些 / 必然 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某一個 / 某些 / 确定 /
कतिपय
katipayā

一些 / 一番 / 些 / 几 / 几个 / 好几 / 好幾 / 幾個 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某些 / 若干 /
一代
yī dài
पजा
pajā

一代 / 世 / 世代 / 代 / 代人 / 子孫 / 孳 / 生成 / 輩 /
一但
yī dàn
चे
ce

一但 / 倘 / 倘若 / 假 / 假使 / 假如 / 假若 / 好象 / 如果 / 就是 / 是否 / 的話 / 若 / 若是 / 要是 /
一再
yī zài
पुन
puna

一再 / 一遍 / 再 / 再一次 / 再度 / 再次 / 又 / 重新 /

一切
yī qiè
असेस
asesa
一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全部 / 全體 / 凡 / 凡是 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /

निखिल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全部 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /

निस्सेस
nissesa
一切 / 全部 / 全部的 / 全體 / 凡 / 凡是 / 囫 / 均 / 完全 / 完全地 / 所有 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /

一切的
yī qiè de
निखिल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全部 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /

一刻
yī kè
खण
khaṇa
一刻 / 分 / 分鐘 / 分钟 / 时刻 / 时机 / 時刻 / 時機 / 會兒 / 机会 / 機會 / 片刻 / 瞬間 / 瞬間 / 關頭 /

一半
yī bàn
अड्ड
addha

一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /

अड्ड
aḍḍha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /

अद्द
addha
一半 / 一半的 / 半 / 半場 / 半年 / 半數 / 半月 / 半生 / 大半 /
उपड्ड
upaḍḍha

一半 / 一半的 / 半 / 半場 / 半年 / 半數 / 半月 / 半生 / 大半 /

一半的
yī bàn de
अड्ड
aḍḍha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /

अड्ड
addha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /

अद्द
addha
一半 / 一半的 / 半 / 半場 / 半年 / 半數 / 半月 / 半生 / 大半 /
उपड्ड
upaḍḍha
一半 / 一半的 / 半 / 半場 / 半年 / 半數 / 半月 / 半生 / 大半 /

一口
yī kǒu
कबल
kabala

一口气
yī kǒu qì
पाण
pāṇa
一口气 / 一口氣 / 世 / 人命 / 人生 / 呼吸 / 命 / 壽命 / 性命 / 息 / 氣息 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 生物 / 身 / 鼻息 / 鼻息 /

一口气
yī kǒu qì
पाण
pāṇa
一口气 / 一口氣 / 世 / 人命 / 人生 / 呼吸 / 命 / 壽命 / 性命 / 息 / 氣息 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 生物 / 身 / 鼻息 / 鼻息 /

一句話
yī jù huà
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 靡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 郵件 / 郵政 / 部位 /

一同
yī tóng
एकज्जं
ekajjhaṃ

一同 / 一塊兒 / 一起 / 一齊 / 全 / 共同 / 到一起 / 在一起 / 相聚 / 結伴 / 齊 / 齐 /
--

一壺
yī hú
उक्खलि
ukkhali

一壺 / 壺 / 壺 / 煲 / 缸 / 罐 / 鍋 / 锅 /

一向
yī xiàng
अभिण्हसो
abhiṇhaso
一向 / 一律 / 从来 / 再三地 / 历来 / 向來 / 始終 / 始终 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /
निबद्धं
nibaddhaṃ
一向 / 一律 / 从来 / 历来 / 向來 / 始終 / 始终 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /

一圈
yī quān
परिवट्ट
parivaṭṭa
一圈 / 匝 / 圆圈 / 圈 / 圈子 / 圓圈 / 圓 / 循环 /

一堆
yī duī
पुञ्ज
puñja
一堆 / 堆 / 桩 / 樁 / 稊 /

一塊兒
yī kuài r
एकज्जं
ekajjhaṃ
一同 / 一塊兒 / 一起 / 一齊 / 全 / 共同 / 到一起 / 在一起 / 相聚 / 結伴 / 齊 / 齐 /

一壺
yī hú
उक्खलि
ukkhali
一壺 / 壺 / 壺 / 煲 / 缸 / 罐 / 鍋 / 锅 /
चाटि
cāṭi
一壺 / 壺 / 壺 / 煲 / 缸 / 罐 / 鍋 / 锅 /

一如
yī rú
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

一定
yī dìng
अञ्जदत्थु
aññadatthu
一定 / 另一方面 /

अद्दा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 的确 / 確 / 確實 /

一
nūn
नूना
nūna
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 的确 / 確 / 確實 /

一家之主
yī jiā zhī zhǔ
अगारिक
agārika
अगारिय
agāriya

一对夫妇
yī duì fū fū
द्वन्द
dvanda
一对夫妇 / 一對 / 叭 /
द्वय
dvaya
一对夫妇 / 一對 / 叭 /

一對
yī duì
द्वन्द
dvanda
一对夫妇 / 一對 / 叭 /
द्वय
dvaya
一对夫妇 / 一對 / 叭 /
द्वि
dvi
一對 / 两个 / 二 / 二級 / 兩 / 兩份 / 兩個 / 兩項 /

一年一次的
yī nián yī cì de
अनुवस्सं
anuvassam
一年一次的 / 每年 / 每年的 /

一度
yī dù
एकदा
ekadā
一度 / 一旦 / 一朝 / 一次 / 同時 / 曾 / 曾經 /

一律
yī lǜ
अभिण्हसो
abhiṇhaso
一向 / 一律 / 从来 / 再三地 / 历来 / 向來 / 始終 / 始终 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /
निबद्धं
nibaddhaṃ
一向 / 一律 / 从来 / 历来 / 向來 / 始終 / 始终 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /

一心
yī xīn
कुटिल
kuṭīla
一心 / 不誠實 / 委 / 屈 / 屈曲 / 彎曲 / 歪 /

一手
yī shǒu
कर
kara
一手 / 伸手 / 光線 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 指甲 / 稅 / 稅 / 笔迹 /
पाणि
pāni
一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 掌 / 掌心 / 棕 / 笔迹 /
भुज
bhuja
一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手臂 / 手臂 / 手邊 / 手頭 / 笔迹 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /

一把
yī bǎ
पसत
pasata
一方
yī fāng
पक्ख
pakkha
一方 / 側 / 信徒 / 側 / 党 / 半邊 / 幫派 / 旁边 / 旁邊 / 派 / 派對 / 派系 / 當事人 / 羽翼 / 翅 / 翅膀 / 翼 / 跛子 / 边 / 黨 /

一族
yī zú
कुटुम्ब
kuṭumba
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 属 / 族 /
कुल
kula
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 宗族 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 家系 / 属 / 族 / 氏族 /

一旦
yī dàn
एकदा
ekadā
一度 / 一旦 / 一朝 / 一次 / 同時 / 曾 / 曾經 /

一朝
yī cháo
एकदा
ekadā
一度 / 一旦 / 一朝 / 一次 / 同時 / 曾 / 曾經 /

一杯
yī bēi
कोसक
kosaka
一杯 / 一杯量 / 杯 / 杯子 / 獎杯 / 盃 / 盃 / 盃 / 茶杯 /

一杯量
yī bēi liàng
कोसक
kosaka
一杯 / 一杯量 / 杯 / 杯子 / 獎杯 / 盃 / 盃 / 盃 / 茶杯 /

一样
yī yàng
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

一次
yī cì
अगग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 首 / 首先 /
आदि
ādi
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 開始 / 首 / 首先 /

一發
yī fā
पहार
pahāra
一發 / 吹 / 打擊 / 攻擊 /
一直到
yī zhí dào
अधि
adhi
一直到 / 上 / 之上 / 在上 / 在上面 /

一碗
yī wǎn
पाति
pāti
一碗 / 保齡球 / 盆子 / 盤子 / 碗 / 鉢 /

一籃
yī lán
पुट
puṭa
一籃 / 兜 / 匚 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 栳 / 孟 / 筐 / 筲 / 籃 / 籠 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पुटक
puṭaka
一籃 / 兜 / 匚 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 栳 / 孟 / 筐 / 筲 / 籃 / 籠 / 籃 / 籃子 / 袋 /

一段
yī duàn
कालन्तर
kālantara
一段 / 句號 / 时期 / 時期 / 期 / 期間 / 期间 / 课时 /

一滴
yī dī
थेव
theva
一滴 / 掉落 / 水滴 / 滴 / 落 / 降 /
पतन
patana
一滴 / 掉落 / 水滴 / 滴 / 落 / 落下 / 降 /

一番
yī fān
एकच्च
ekacca
一些 / 一番 / 些 / 必然 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某一個 / 某些 / 确定 /
एकच्चिय
ekacciya
一些 / 一番 / 些 / 必然 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某一個 / 某些 / 确定 /
कतिपय
katipaya
一些 / 一番 / 些 / 几 / 几个 / 好几 / 好幾 / 幾個 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某些 / 若干 /

一發
yī fā
पहार
pahāra
一發 / 吹 / 打擊 / 攻擊 /

一直到
yī zhí dào
अधि
adhi
一直到 / 上 / 之上 / 在上 / 在上面 /

一碗
yī wǎn
पाति
pāti
一碗 / 保齡球 / 盆子 / 盤子 / 碗 / 鉢 /

一籃
yī lán
पुट
puṭa
一籃 / 兜 / 匚 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 栳 / 孟 / 筐 / 筲 / 籃 / 籠 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पुटक
puṭaka
一籃 / 兜 / 匚 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 栳 / 孟 / 筐 / 筲 / 籃 / 籠 / 籃 / 籃子 / 袋 /

一線
yī xiàn
पालि
pāli
一線 / 一行 / 線 / 線條 / 線路 / 线 / 线路 / 行了 / 行的 /

一遍
yī biàn
पुन
puna
一再 / 一遍 / 再 / 再一次 / 再度 / 再次 / 又 / 重新 /

一群
yī qún
गण
gaṇa
一群 / 人潮 / 人群 / 众 / 擁擠 / 支部 / 眾 / 組 / 群 / 隊 /
देव
deva
一群 / 上帝 / 君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 天 / 天界 / 天空 / 特大 / 王 / 神 / 雲霄 /
निकाय
nikāya
一群 / 团 / 团体 / 團 / 團體 / 宗派 / 小組 / 收集 / 教派 / 派 / 派系 / 組 / 组 / 群 / 群體 / 集團 /

一致
yī zhì
अन्वय
anvaya
一致 / 传统 / 傳統 / 符合 / 過程 /

一致的
yī zhì de
अनुरूप
anurūpa

一般的
yī bān de
अनोदिस्सक
anodissaka

一萬
yī wàn
नहुत
nahuta
一萬 / 万 / 萬 /

一行
yī xíng
पालि
pāli
一線 / 一行 / 線 / 線條 / 線路 / 线 / 线路 / 行了 / 行的 /

一袋
yī dài
पसिब्बक
pasibbaka
一袋 / 囊 / 大袋子 / 手提包 / 提包 / 旅行包 / 旅行包 / 囊 / 洗劫 / 紙袋 / 袋 / 袋子 / 錢包 / 麻布袋 / 麻袋 /

一起
yī qǐ
एकज्झं
ekajjhaṃ
一同 / 一塊兒 / 一起 / 一齊 / 全 / 共同 / 到一起 / 在一起 / 相聚 / 結伴 / 齊 / 齐 /

一遍
yī biàn
पुन
puna
一再 / 一遍 / 再 / 再一次 / 再度 / 再次 / 又 / 重新 /

一部份
yī bù fèn
अवयव
avayava
一部份 / 份 / 員 / 員 / 局部 / 成員 / 會員 / 股 / 肢 / 要素 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
अंस
amśa
一部份 / 份 / 局部 / 擔負 / 股 / 肩 / 肩膀 / 膊 / 膊 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
कोट्टास
koṭṭhāsa
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 股 / 股份 / 股票 / 部份 / 部分 /
पटिविस
paṭivimsa
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 股 / 股份 / 股票 / 部份 / 部分 /

भाग
bhāga
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 分担 / 局部 / 幫派 / 派 / 派系 / 股 / 股份 / 股票 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

一部分
yī bù fēn
कोट्टास
koṭṭhāsa
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 股 / 股份 / 股票 / 部份 / 部分 /
पटिविस
paṭivimsa
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 股 / 股份 / 股票 / 部份 / 部分 /

भाग
bhāga
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 分担 / 局部 / 幫派 / 派 / 派系 / 股 / 股份 / 股票 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

一體
yī tǐ
एक
eka
一 / 一些 / 一體 / 之一 / 同一 / 同样 / 同种的 / 單 / 未知的 / 某一個 / 相同的 /

一齊
yī qí
एकज्झं
ekajjhaṃ
一同 / 一塊兒 / 一起 / 一齊 / 全 / 共同 / 到一起 / 在一起 / 相聚 / 結伴 / 齊 / 齐 /

万
wàn
नहुत
nahuta
一萬 / 万 / 萬 /

万物
wàn wù
असेस
asesa
一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全部 / 全體 / 凡 / 凡是 / 團 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 统统 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
निखिल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全部 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 團 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 统统 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /

丈夫
zhàng fū
कन्त
kanta
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 合意的 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 愉快的 / 老公 /
कन्त
kanta
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 合意的 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 愉快的 / 老公 /
धव
dhava
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 /
धव
dhava
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 /
पति
pati
丈夫 / 丈夫 / 主 / 主人 / 伉 / 回 / 外子 / 大師 / 夫 / 夫 / 好手 / 婿 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 相反 / 統治者 / 老公 / 老爺 / 逆 / 領主 /
पति
pati
丈夫 / 丈夫 / 主 / 主人 / 伉 / 回 / 外子 / 大師 / 夫 / 夫 / 好手 / 婿 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 相反 / 統治者 / 老公 / 老爺 / 逆 / 領主 /
पिय
piya
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 / 親愛的 /
पिय
piya
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 / 親愛的 /
भत्तु
bhattu
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 /
भत्तु
bhattu
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 /

三
sān
ति
ti
三 / 三个的 / 三人 / 三份 / 三個 / 三名 /
三個
sān gè de
ति
ti
三 / 三个的 / 三人 / 三份 / 三個 / 三名 /

三人
sān rén
ति
ti
三 / 三个的 / 三人 / 三份 / 三個 / 三名 /

三份
sān fèn
ति
ti
三 / 三个的 / 三人 / 三份 / 三個 / 三名 /

三個
sān gè
ति
ti
三 / 三个的 / 三人 / 三份 / 三個 / 三名 /

三倍
sān bèi
तिक्खत्तुं
tikkhattum

三十
sān shí
तिसति
timsati
三十 / 卅 /

三名
sān míng
ति
ti
三 / 三个的 / 三人 / 三份 / 三個 / 三名 /

三次
sān cì
ततिय
tatiya
三次 / 三等 / 丙 / 協力 / 第三 / 第三次 /

三等
sān děng
ततिय
tatiya
三次 / 三等 / 丙 / 協力 / 第三 / 第三次 /

上
shàng
अधि
adhi
一直到 / 上 / 之上 / 在上 / 在上面 /
उपरि
upari
上 / 上述 / 上面 / 之上 / 于 / 以上 / 前述 / 在 / 就 / 最高的 /

上升
shàng shēng
उग्गम
uggama
上升 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 崛起 / 攀升 / 漲 / 漲 / 益 / 興起 / 苗 /
उद्दान
uṭṭhāna
上升 / 业 / 來歷 / 出身 / 原点 / 始源 / 工業 / 本源 / 来历 / 根源 / 業 / 活力 / 由来 / 精力 / 能源 / 能量 / 血统 / 行業 / 起源 / 高能 /
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 漲 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 苗 / 获利 / 裨益 /
उदयन
udayana
上升 / 崛起 / 漲 / 漲 / 興起 /
उन्नति
unnati
上升 / 加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 提高 / 海拔 / 益 / 苗 / 超升 /
उप्पाद
uppāda
上升 / 出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 血统 / 誕 / 诞 / 起源 /

上台
shàng tái
भूमि
bhūmi
上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /
上天
shàng tiān
दिव
diva
上天 / 天 / 天堂 / 天意 / 天空 / 极乐 / 蒼天 / 霄 /
नाक
nāka
上天 / 天 / 天堂 / 天意 / 天空 / 极乐 / 蒼天 / 霄 /

上帝
shàng dì
अमर
amara
上帝 / 不朽 / 不朽的 / 不死 / 不死的 / 不滅 / 仙 / 仙 / 仙人 / 仙人 / 神 / 神仙 / 神仙 /
देव
deva
一群 / 上帝 / 君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 天 / 天界 / 天空 / 特大 / 王 / 神 / 雲霄 /
देवत्त
devatta
上帝 / 神 / 神性 /

上床
shàng chuáng
मञ्च
mañca
上床 / 床 / 床位 / 床鋪 / 床铺 / 河床 /
上漆
shàng qī
चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 颜料 /
上端
shàng duān
अग्न
agga
一次 / 上端 / 下场 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告终 / 在先 / 完結 / 完结 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 结束 / 逾 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 首 / 首先 /
कूट
kūṭa
上端 / 冈 / 坎 / 尖峰 / 山脊 / 山脊 / 岡 / 峙 / 峰 / 欺騙 / 突起 / 脊 / 脊 / 謊言 / 頂峰 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 高峰 /
पिट्ठि
pitṭhi
上端 / 后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 尖峰 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 走回 / 退后 / 頂端 / 頂端 /

上色
shàng sè
चित्तता
cittatā
上色 / 彩色 /
上衣
shàng yī
कञ्चुक
kañcuka
上衣 / 外套 / 夹克 / 夾克 / 襦 /

上述
shàng shù
उद्धं
uddham
上述 / 上面 / 以上 / 前述 / 因此 / 在上面 /
उपरि
upari
上 / 上述 / 上面 / 之上 / 于 / 以上 / 前述 / 在 / 就 / 最高的 /
परो
paro
上述 / 上面 / 以上 / 再作 / 前述 / 向上 / 在上面 / 更 / 更远的 / 此外 / 進一步 /

上床
shàng chuáng
मञ्च
mañca
上床 / 床 / 床位 / 床鋪 / 床铺 / 河床 /
上漆
shàng qī
चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 颜料 /

上端
shàng duān
अग्न
agga
一次 / 上端 / 下场 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告终 / 在先 / 完結 / 完结 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 结束 / 逾 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 首 / 首先 /

上面的
shàng miàn de
उत्तर
uttara
上面的 / 北方 / 北方的 / 响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /
उद्ध
uddha
上面的 / 向上的 /

下
xià
अन्तरिक
antarika
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /
अनन्तर
anantara
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /
ओरं
oram
下 / 下面 / 之下 / 在下 / 在下面 /
ओरेन
orena
下 / 下面 / 之下 / 在下 / 在下面 /

下
xià
अन्तरिक
antarika
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /
अनन्तर
anantara
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /
ओरं
oram
下 / 下面 / 之下 / 在下 / 在下面 /
ओरेन
orena
下 / 下面 / 之下 / 在下 / 在下面 /

上色
shàng sè
चित्तता
cittatā
上色 / 彩色 /

上衣
shàng yī
कञ्चुक
kañcuka
上衣 / 外套 / 夹克 / 夾克 / 襦 /

下一个
xià yī gè

अन्तरिक
antarika
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /
अनन्तर
anantara
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /

下一个的
xià yī gè de

अन्तरिक
antarika
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /
अनन्तर
anantara
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /

下一個
xià yī gè

अन्तरिक
antarika
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /
अनन्तर
anantara
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /

下一次
xià yī cì

अन्तरिक
antarika
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /
अनन्तर
anantara
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /

下一步
xià yī bù

अन्तरिक
antarika
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /
अनन्तर
anantara
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /

下一个
xià yī gè

अन्तरिक
antarika
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /
अनन्तर
anantara
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /

下個
xià gè

अन्तरिक
antarika
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /
अनन्तर
anantara
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /

下列
xià liè

अनुग
anuga
下列 / 下列的 / 其次的 /
下列的
xià liè de

अनुग
anuga
下列 / 下列的 / 其次的 /

下場
xià chǎng

अग्ग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 頂点 / 頂端 / 首 / 首先 /

अन्त
anta

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂端 /
अपवग्ग
apavagga
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

अवसान
avasāna

下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
ओसान
osāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

कोटि
koṭi

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 點 /
कोण
koṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陲 / 隅 / 鞠躬 /

निट्टा
niṭṭhā

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

परिनिट्टान
parinīṭṭhāna

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

परियन्त
pariyanta

下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 極限 / 稜 / 極限 / 止境 / 滙 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 終結 / 結束 / 緣 / 邊 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियोसान
pariyosāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

下巴
xià bā

चुबु
cubuka
下巴 / 下巴 / 颌 /
चुबु
cubuka
下巴 / 下巴 / 颌 /

下次
xià cì

अन्तरिक
antarika
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /
अनन्तर
anantara
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /

下水
xià shuǐ

अण्ण
aṇṇa
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 / 食物 /
अम्बु
ambu
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
उदक
udaka
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
ओक
oka
下水 / 住所 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
जल
jala
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
तोय
toya
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
दक
daka
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
नीर
nīra
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /

下注
xià zhù

अब्भुत
abbhuta
下注 / 了不起的 / 奇事 / 奇景 / 奇迹 / 打賭 / 貝特 / 賭 / 賭 /

下流的
xià liú de

दुडुल्ल
duṭṭhulla
下流的 / 劣等的 /

下腹
xià fù

उदर
udara
下腹 / 內部 / 肚 / 肚子 / 肚皮 / 胃 / 腹 / 腹部 / 臙 /
कोट्टु
koṭṭha
下腹 / 肚 / 肚子 / 腹 / 腹部 /

下跌
xià diē

अपचय
apacaya
下跌 / 撤回 / 縮小 /
पात
pāta
下跌 / 坠 / 墮 / 墜 / 墜入 / 墮 / 扔 / 投 / 掉 / 掉下 / 摔 / 摔下 / 摔倒 / 摔倒 / 淪陷 / 落下 / 跌 / 跌下 / 跌倒 / 跌倒 / 跌到 / 跌落 /

下降
xià jiàng

फुसित
phusita
फुसितक
phusitaka
下雨
xià yǔ

मेघ
megha
下雨 / 云 / 雨 / 雨天 / 雲 /

下面
xià miàn

ओरं
oraṃ
下 / 下面 / 之下 / 在下 / 在下面 /
ओरेन
orena
下 / 下面 / 之下 / 在下 / 在下面 /
不
bù

न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒绝 / 无 / 未 / 毋 / 沒 / 沒有 / 没法 / 没 / 沒有 / 沒有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /

不一致的
bù yī zhì de

कम्मास
kammāsa

不了
bù le
न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒絕 / 无 / 未 / 母 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 沒 / 没有 / 沒有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /

不信用的
bù xìn yòng de
उस्सङ्की
ussaṅkī

不公平
bù gōng píng
अयुत्त
ayutta

不利的
bù lì de

पच्चनिक
paccanika
不利的 / 仇人 / 作 / 否定的 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 / 相反的 /
पटिकण्टक
paṭikaṅṭaka
不利的 / 仇人 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 /

不勝
bù shèng
अति
ati
不勝 / 不胜 / 十分 / 大 / 太 / 很 / 狠 / 甚 / 甚 / 都很 / 非常 /

不去
bù qù
न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒絕 / 无 / 未 / 母 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 沒 / 没有 / 沒有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /

不受控制的
bù shòu kòng zhì de
कोधन
kodhana
不受控制的 / 易怒的 /

不變
bù biàn
निच्च
nicca

不可以
bù kě yǐ
न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒絕 / 无 / 未 / 母 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 沒 / 没有 / 沒有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /

不可避免的
bù kě bì miǎn de
भावी
bhāvī

不吉利的
bù jí lì de
अरिद्ध
ariṭṭha
不吉利的 / 烏鴉 / 烏鴉 / 鴉 / 鴉 / अलक्खिक
alakkhika
不吉利的 / 不幸 / 不幸的 / अवमङ्गल
avamaṅgala
不吉利的 / 凶兆 /

不同地
bù tóng dì
नाना
nānā
不同地 / 不同的 / पुथुसो
puthuso

不同的
bù tóng de
नाना
nānā
不同地 / 不同的 /

不啻
bù chī
इव
iva

一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

不善
bù shàn
दुइ
duṭṭha
不善 / 不良 / 不道德的 / 坏的 / 齷 /

不在
bù zài
अभाव
abhāva
不在 / 消失 / 缺乏 / 缺席 /

不在乎
bù zài hū
अज्झुपेक्खन
ajjhupekkhana

不妨
bù fáng
छन्द
chanda
不妨 / 心願 / 必 / 意志 / 意願 / 愿望 / 慾 / 欲 / 祝 / 要 / 這囉 /

不存在
bù cún zài
पटिक्खेप
paṭikkhepa
不存在 / 反对 / 否定 / 异议 / 拒绝 / 異議 /

不安
bù ān
उब्बिज्जना
ubbijjanā
不安 / 激動 /

不安的
bù ān de
अफासु
aphāsu
不安的 / 不自在 /
नित्तेज
nitteja

不尊敬
bù zūn jìng
अनादर
anādara
不尊敬 / 不敬 /

不少
bù shǎo
अनप्पक
anappaka
不少 / 多多 / 好多 / 很多 / 許多 / 諸多 / 许多 / 重要的 / 非常多 /
बहु
bahu
不少 / 充分 / 多多 / 好多 / 很多 / 許多 / 諸多 / 许多 / 非常多 /

不平
bù píng
अनभिरति
anabhirati
不平 / 不滿 /

不幸
bù xìng
अघ
agha
不幸 / 天 / 天界 / 天空 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛楚 / 痛苦 / 罪 / 罪惡 / 罪過 / 苦痛 / 雲霄 /

अन्त्य
anattha
不幸 / 伤害 / 傷害 / 危害 / 壞處 / 害 / 弊 / 损伤 / 损害 / 有害 /
अनय
anaya

अलक्खिक
alakkhika
不吉利的 / 不幸 / 不幸的 /
आपदा
āpadā
उपद्दव
upaddava
不幸 / 危 / 危險 / 危險 / 危難 / 威胁 / 当儿 / 灾 /

不幸的
bù xìng de
अलक्खिक
alakkhika
不吉利的 / 不幸 / 不幸的 /
निस्सिरीक
nissirīka

不快樂
bù kuài lè
दुक्खित
dukkhita
不快樂 / 不高興 / 使痛苦的 / 生病的 / 惹 /

不愉快
bù yú kuài
अप्पिय
appiya
不愉快 / 不愉快的 / 難聞 /
दोमनस्स
domanassa
不愉快 / 憂 /

不愉快的
bù yú kuài de
अनिद्ध
aniṭṭha
अप्पिय
appiya
不愉快 / 不愉快的 / 難聞 /
असुभ
asubha

असात
asāta
不愉快的 / 熬煎 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛苦 / 苦楚 / 苦痛 /
पटिक्कूल
paṭikkūla

不敬
bù jìng

अनादर
anādara
不尊敬 / 不敬 /
अवमञ्जना
avamaññanā
不敬 / 晒 / 忽視 / 輕視 / 輕蔑 / 轻视 / 鄙視 /

不方便
bù fāng biàn
फासुक
phāsuka
不方便 / 便 / 便利 / 宜人 / 愉快 / 方便 /

不明了的
bù míng le de
अविनिब्भोग
avinibbhoga

不是
bù shì
न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒絕 / 无 / 未 / 母 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 沒 / 没有 / 沒有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /

不時
bù shí
अभिण्हं
abhiṅhaṃ
不時 / 常 / 常常 / 往往 / 时常 / 時常 / 每每 / 經常 /

不朽
bù xiǔ
अमर
amara
上帝 / 不朽 / 不朽的 / 不死 / 不死的 / 不滅 / 仙 / 仙 / 仙人 / 仙人 / 神 / 神仙 / 神仙 /

不朽的
bù xiǔ de
अमर
amara
上帝 / 不朽 / 不朽的 / 不死 / 不死的 / 不滅 / 仙 / 仙 / 仙人 / 仙人 / 神 / 神仙 / 神仙 /
ठितिक
ṭhitika
不朽的 / 持久的 /

不死
bù sǐ
अमर
amara
上帝 / 不朽 / 不朽的 / 不死 / 不死的 / 不滅 / 仙 / 仙 / 仙人 / 仙人 / 神 / 神仙 / 神仙 /

不死的
bù sǐ de
अच्युत
accuta
不死的 / 永恒的 /
अमर
amara

上帝 / 不朽 / 不朽的 / 不死 / 不死的 / 不滅 / 仙 / 仙 / 仙人 / 仙人 / 神 / 神仙 / 神仙 /

不毛之地
bù máo zhī dì
इरिन
irina
不毛之地 / 沙漠 / 漠 / 荒地 / 荒地 / 荒漠 /
कन्तार
kantāra
不毛之地 / 旷 / 曠 / 曠野 / 沙漠 / 漠 / 荒漠 / 荒野 /

不注意
bù zhù yì
अस्सवणता
assavaṇatā

不注意的
bù zhù yì de
उम्ममुख
ummukha
निरपेक्ख
nirapekkha
निरपेख
nirapekha

不滅
bù miè
अमर
amara
上帝 / 不朽 / 不朽的 / 不死 / 不死的 / 不滅 / 仙 / 仙 / 仙人 / 仙人 / 神 / 神仙 / 神仙 /

不满
bù mǎn
अनलङ्कत
analaṅkata

不满 / 不滿 / 不滿意 /

不滿意
bù mǎn
अनभिरति
anabhirati
不平 / 不滿 /
अनलङ्कत
analaṅkata
不满 / 不滿 / 不滿意 /

不滿意
bù mǎn yì
अनलङ्कत
analaṅkata
不满 / 不滿 / 不滿意 /

不相等的
bù xiāng děng de
असमान
asamāna

不知
bù zhī
अजानन
ajānana

不知 / 无知 / 無知 /
अज्ञाण
aññāṇa
不知 / 愚昧 / 无知 / 無知 /
अविज्ञा
avijjā

不知 / 无知 / 無知 /
तम
tama
不知 / 幽暗 / 无知 / 無知 / 黑 / 黑暗 /

不确定
bù què dìng
कथङ्कथा
kathamkathā
不确定 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 /

不穩定
bù wěn dìng
कुप्प
kuppa

चञ्चल
cañcala
不穩定 / 移動 /

不管
bù guǎn
निरालय
nirālaya

不老實

不老实
bù lǎo shí
जिंह
jimha
不老實 / 不誠實 / 不诚实 /

不胜
bù shèng
अति
ati
不勝 / 不胜 / 十分 / 大 / 太 / 很 / 狠 / 甚 / 甚 / 都很 / 非常 /

不自在
bù zì zài
अफासु
aphāsu
不安的 / 不自在 /

不自私的
bù zì sī de
अमम
amama
निस्सङ्ग
nissangā

不舒服的
bù shū fú de
गिलान
gilāna
不舒服的 / 患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病人 / 病弱 / 病的 / 瘵 / 尪 /
गिलानक
gilānaka
不舒服的 / 病人 / 病的 /

不良
bù liáng
दुइ
duṭṭha
不善 / 不良 / 不道德的 / 坏的 / 齷 /

不要臉
bù yào liǎn
अहिरिक
ahirika
不要臉 / 無恥 /

不誠實
bù chéng shí
कुटिल
kuṭila
一心 / 不誠實 / 委 / 屈 / 屈曲 / 弯曲 / 歪 /
जिंह
jimha
不老實 / 不誠實 / 不诚实 /

不诚实
bù chéng shí
जिंह
jimha
不老實 / 不誠實 / 不诚实 /

不足的
bù zú de
ऊन
ūna
不足的 / 欠缺的 / 缺 /

不足道
bù zú dào
परित्त
paritta
不足道 / 子 / 小 / 小班 / 小的 / 少的 / 微不足道 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

不過
bù guò
आदु
ādu
不過 / 乃是 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 惟 / 或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 然而 / 还是 / 還是 /

与
yǔ
अपि
api
与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 既使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /
च
ca
与 / 且 / 並 / 並且 / 也 / 以及 / 併 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 和 / 太 / 并 / 并且 / 暨 / 汰 / 而 / 而且 / 與 /

pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /

पि
pī
不過 / 乃是 / 也許 / 也许 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 可能 / 大概 / 恐怕 / 惟 / 或 / 或許 / 或许 / 然 / 然而 / 究竟 /

不道德
bù dào dé
अनाचार
anācāra
कलुस
kalusa
不道德 / 犯 /

不道德的
bù dào dé de
दुइ
duṭṭha
不善 / 不良 / 不道德的 / 坏的 / 齷 /

不重要的
bù zhòng yào de
कपण
kapaṇa
不重要的 / 丐 / 乞丐 / 叫花子 /

不需要
bù xū yào
न
na

不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒絕 / 无 / 未 / 毋 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 沒 / 沒有 / 沒有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /

不願意
bù yuàn yì
अनिच्छन्त
anicchanta
अनिच्छमान
anicchamāna

不高興
bù gāo xìng
दुक्खित
dukkhita
不快樂 / 不高興 / 使痛苦的 / 生病的 / 惹 /

与
yǔ
अपि
api
与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 既使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /
च

ca
与 / 且 / 並 / 並且 / 也 / 以及 / 併 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 和 / 太 / 并 / 并且 / 暨 / 汰 / 而 / 而且 / 與 /
pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /

丐
gài
कपण
kapaṇa
不重要的 / 丐 / 乞丐 / 叫花子 /
भिक्खक
bhikkhaka
丐 / 乞丐 / 叫花子 /

专家
zhuān jiā
कुसल
kusala
专家 / 乖 / 伶 / 伶 / 俐 / 儻 / 善 / 妙 / 德行 / 美德 /

且
qiě
अपि
api
与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 既使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /
च
ca
与 / 且 / 並 / 並且 / 也 / 以及 / 併 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 和 / 太 / 并 / 并且 / 暨 / 汰 / 而 / 而且 / 與 /
pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /

世
shì
चरित
carita
世 / 人命 / 人生 / 個性 / 命 / 品行 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /

जगति
jagati
世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紓 /

जीव
jīva
世 / 人命 / 人生 / 命 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /
पजा
pajā
一代 / 世 / 世代 / 代 / 代人 / 子孫 / 孳 / 生成 / 輩 /
पाण
pāṇa
一口气 / 一口氣 / 世 / 人命 / 人生 / 呼吸 / 命 / 壽命 / 性命 / 息 / 氣息 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 生物 / 身 / 鼻息 / 鼻息 /

世上
shì shàng
जगति
jagati
世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紓 /

世代
shì dài
पजा
pajā
一代 / 世 / 世代 / 代 / 代人 / 子孫 / 孳 / 生成 / 輩 /

世家
shì jiā
कुटुम्ब
kuṭumba
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 属 / 族 /
कुल
kula
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 宗族 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 家系 / 属 / 族 / 氏族 /

世界
shì jiè
जगति
jagati
世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /

世界上
shì jiè shàng
जगति
jagati
世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /

世間
shì jiān
जगति
jagati
世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /

丙
bǐng
ततिय
tatiya
三次 / 三等 / 丙 / 協力 / 第三 / 第三次 /

业
yè
उद्धान
uṭṭhāna
上升 / 业 / 來歷 / 出身 / 原点 / 始源 / 工業 / 本源 / 来历 / 根源 / 業 / 活力 / 由来 / 精力 / 能源 / 能量 / 血统 / 行業 / 起源 / 高能 /

丛林
cóng lín
गहन
gahana
丛林 / 厚 / 厚的 / 叢林 / 密 / 密封的 / 稠 / 粗 / 萃 / 蓊 /
जङ्गल
jaṅgala
丛林 / 叢林 / 沙漠 /

东
dōng
पुब्बा
pubbā
东 / 向东 / 向东的 / 東 / 東邊 / 東部 / 華東 /
पुरत्था
puratthā
东 / 向东 / 向东的 / 東 / 東邊 / 東部 / 華東 /
पुरत्थिम
puratthima
东 / 東區 /

东西
dōng xī
किच्च
kiicca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 責任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

丟棄
diū qì
अवक्कार
avakkāra
丟棄 / 拒 / 拒絕 /
छड्डन
chaḍḍana
丟棄 / 排斥 /
निकखेप
nikkhepa
पटिनिस्सग्ग
paṭinissagga
丟棄 / 拒絕 /

兩
liǎng
उभ
ubha
兩 / 兩者 / 二者 / 俩 / 俩 / 倆 / 兩 / 兩人 / 兩者 / 都 /
उभय
ubhaya
兩 / 兩者 / 二者 / 俩 / 俩 / 倆 / 兩 / 兩人 / 兩者 / 都 /
उभो
ubho
兩 / 兩者 / 二者 / 俩 / 俩 / 倆 / 兩 / 兩人 / 兩者 / 都 /

两个
liǎng gè
द्वि
dvi
一對 / 两个 / 二 / 二級 / 兩 / 兩份 / 兩個 / 兩項 /

兩者
liǎng zhě
उभ
ubha
兩 / 兩者 / 二者 / 俩 / 俩 / 倆 / 兩 / 兩人 / 兩者 / 都 /
उभय
ubhaya
兩 / 兩者 / 二者 / 俩 / 俩 / 倆 / 兩 / 兩人 / 兩者 / 都 /
उभो
ubho
兩 / 兩者 / 二者 / 俩 / 俩 / 倆 / 兩 / 兩人 / 兩者 / 都 /

严
yán
दारुण
dāruṇa
严 / 严重 / 殘酷 / 殘忍 / 殘酷 / 毒 / 粗糙的 / 苛 / 苛刻 /

严重
yán zhòng
दारुण
dāruṇa
严 / 严重 / 殘酷 / 殘忍 / 殘酷 / 毒 / 粗糙的 / 苛 / 苛刻 /

並
bìng
अपि
api
与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 既使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /
च
ca
与 / 且 / 並 / 並且 / 也 / 以及 / 併 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 和 / 太 / 并 / 并且 / 暨 / 汰 / 而 / 而且 / 與 /
पन
pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /

並且
bìng qiě
अपि
api
与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 既使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /
च
ca
与 / 且 / 並 / 並且 / 也 / 以及 / 併 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 和 / 太 / 并 / 并且 / 暨 / 汰 / 而 / 而且 / 與 /
पन
pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /

並非
bìng fēi
न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒绝 / 无 / 未 / 毋 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 沒 / 没有 / 没有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /

个人
gè rén
अज्झत्त
ajjhatta
个人 / 人身 / 個人 / 私人的 /
पुग्गल
puggala
个人 / 人 / 人士 / 個別 / 個體 / 者 /

丫頭
yā tóu
कञ्जा
kaññā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /
कुमारिका
kumārikā
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
कुमारी
kumārī
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /

达里卡
dārīkā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /
बाला
bālā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /

中
zhōng
अन्तो
anto
中 / 在 / 裏 / 裡 / 里 /
उर
ura
中 / 乳 / 乳房 / 吸奶 / 奶子 / 心口 / 怀 / 懷 / 胸 / 胸口 / 胸脯 / 胸膛 / 胸部 /
ओज
oja
中 / 原汁 / 果汁 / 汁 / 汁液 /
पथ
patha
中 / 修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 涓 / 眵 / 彊 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 结束 / 缘 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
पीठ
pīṭha
中 / 位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 / 椅 / 椅子 /

中国
zhōng guó
चीनरट्ट
cīnaratṭha
中国 / 中國 / 中華 / 华 / 瓷器 / 華 /
中國
zhōng guó
चीनरट्ट
cīnaratṭha
中国 / 中國 / 中華 / 华 / 瓷器 / 華 / 少女 / 少女 /

中央
zhōng yāng
मज्झ
majjha
中央 / 中央的 / 中心 / 央 / 居中 / 腰 / 腰部 /

中央的
zhōng yāng de
मज्झ
majjha
中央 / 中央的 / 中心 / 央 / 居中 / 腰 / 腰部 /
मज्झिम
majjhima
中央的 / 中等 / 中部的 / 媒 / 媒介 / 媒界 / 媒质 / 平均的 /

中庭
zhōng tíng
चच्चर
caccara
中庭 / 墀 / 庭 / 庭院 / 院 / 院子 /

中心
zhōng xīn
मज्झ
majjha
中央 / 中央的 / 中心 / 央 / 居中 / 腰 / 腰部 /

中斷

zhōng duàn
निवत्तन
nivattana
中斷 / 折回 / 留下 /

中止

zhōng zhǐ
उक्खेपन
ukkhepana
中止 / 升起 /
उक्खिपन
ukkiphana
中止 / 升起 /
उपच्छेद
upaccheda
中止 / 停止 / 破壞 /
पच्चिज्जन
pacchijjana

中用

zhōng yòng
पटिसेवन
paṭisevana
中用 / 使用 / 跟隨 /

中等

zhōng děng
मज्झिम
majjhima
中央的 / 中等 / 中部的 / 媒 / 媒介 / 媒介 / 媒质 / 平均的 /

中華

zhōng huá
चीनरट्ट
cīnarattḥa
中国 / 中國 / 中華 / 华 / 瓷器 / 華 /

中部的

zhōng bù de
मज्झिम
majjhima
中央的 / 中等 / 中部的 / 媒 / 媒介 / 媒介 / 媒质 / 平均的 /

丰

fēng
पहूत
pahūta
丰 / 丰富的 / 充份 / 充沛 / 沛 / 盎 / 盎然 / 穰 / 裕 /

丰富的

fēng fù de
पहूत
pahūta
丰 / 丰富的 / 充份 / 充沛 / 沛 / 盎 / 盎然 / 穰 / 裕 /

串
chuàn
उद्दान
uddāna
串 / 列出 / 列表 / 单子 / 名单 / 名單 / 束 / 目錄 / 群 / 谱 /
घटा
ghaṭā
थबक
thabaka
पन्ति
panti
一串 / 串 / 列 / 行 /

为什么

wèi shén me
कस्मा
kasmā
为什么 / 为什么 / 为何 / 为何 / 何 / 何以 / 何必 / 何故 / 咋 / 為什麼 / 為何 / 為甚麼 /
कस्मा
kasmā
为什么 / 为什么 / 为何 / 为何 / 何 / 何以 / 何必 / 何故 / 咋 / 為什麼 / 為何 / 為甚麼 /

为何

wèi hé
कस्मा
kasmā
为什么 / 为什么 / 为何 / 为何 / 何 / 何以 / 何必 / 何故 / 咋 / 為什麼 / 為何 / 為甚麼 /
कस्मा
kasmā
为什么 / 为什么 / 为何 / 为何 / 何 / 何以 / 何必 / 何故 / 咋 / 為什麼 / 為何 / 為甚麼 /

主

zhǔ
अधिप
adhipa
主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /
अधिपति
adhipati

主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /
अय्य
ayya

主 / 主人 / 君子 / 大師 / 好手 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 法師 / 紳士 / 統治者 / 老爺 / 領主 /
इस्सर
issara

主 / 主人 / 创造者 / 大師 / 好手 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 統治者 / 老爺 / 造物主 / 領主 /
पति
pati

丈夫 / 丈夫 / 主 / 主人 / 伉 / 回 / 外子 / 大師 / 夫 / 夫 / 好手 / 婿 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 相反 / 統治者 / 老公 / 老爺 / 逆 / 領主 /
--

主人
zhǔ rén
अधिप
adhipa
主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /
अधिपति
adhipati
主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /
अय्य
ayya

主 / 主人 / 君子 / 大師 / 好手 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 法師 / 紳士 / 統治者 / 老爺 / 領主 /
इस्सर

issara
主 / 主人 / 创造者 / 大師 / 好手 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 統治者 / 老爺 / 造物主 / 領主 /
नायक

nāyaka
主人 / 女主人 / 領袖 /

पति
pati
丈夫 / 丈夫 / 主 / 主人 / 伉 / 回 / 外子 / 大師 / 夫 / 夫 / 好手 / 婿 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 相反 / 統治者 / 老公 / 老爺 / 逆 / 領主 /

निलय
nilaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /

主意
zhǔ yì
गाह
gāha
主意 / 念頭 / 思想 / 想法 / 意念 / 意見 / 捕獲 / 構想 / 理念 / 理想 / 表象 / 點子 /

主要地
zhǔ yào dì
पायेन
pāyena
主要地 / 通常 /

主要的
zhǔ yào de
पधान
padhāna
主要的 / 最初的 / 領袖 / 首席 / 魁 /

पमुख
pamukha
主要的 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 本金 / 正面 / 資本 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 首席 / 魁 /
पामोकख

pāmokkha
主要的 / 第一的 / 領袖 / 首席 / 魁 /

主場
zhǔ chǎng
आवास
āvāsa
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
उपस्सय
upassaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
गेह
geha
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
घर

ghara
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निकेत

niketa
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
निकेतन
niketana

主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
निकेतन

निकेताना
niketana
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 /

निलय
nilaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /

主意
zhǔ yì
गाह
gāha
主意 / 念頭 / 思想 / 想法 / 意念 / 意見 / 捕獲 / 構想 / 理念 / 理想 / 表象 / 點子 /

主要地
zhǔ yào dì
पायेन
pāyena
主要地 / 通常 /

主要的
zhǔ yào de
पधान
padhāna
主要的 / 最初的 / 領袖 / 首席 / 魁 /

पमुख
pamukha
主要的 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 本金 / 正面 / 資本 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 首席 / 魁 /
पामोकख

pāmokkha
主要的 / 第一的 / 領袖 / 首席 / 魁 /

主頁
zhǔ yè
आवास
āvāsa
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
उपस्सय
upassaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
गेह
geha
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
घर

ghara
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निकेत

niketa
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
निकेतन

निकेताना
niketana
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /

निकेतन
niketana
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 /

निलय
nilaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /

乃是
nǎi shì
आदु
ādu
不過 / 乃是 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 惟 / 或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 然而 / 还是 / 還是 /
तु
tu

不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 现 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

पन
pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /
पि
pi
不過 / 乃是 / 也許 / 也许 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 可能 / 大概 / 恐怕 / 惟 / 或 / 或許 / 或许 / 然 / 然而 / 究竟 /

之一
zhī yī
एक
eka
一 / 一些 / 一體 / 之一 / 同一 / 同样 / 同种的 / 單 / 未知的 / 某一個 / 相同的 /

之上
zhī shàng
अधि
adhi
一直到 / 上 / 之上 / 在上 / 在上面 /
उपरि
upari
上 / 上述 / 上面 / 之上 / 于 / 以上 / 前述 / 在 / 就 / 最高的 /

之下
zhī xià
ओरं
oram
下 / 下面 / 之下 / 在下 / 在下面 /
ओरेन
orena
下 / 下面 / 之下 / 在下 / 在下面 /

之內
zhī nèi
अब्भन्तर
abbhantara
之內 / 內 / 內側 / 內部 / 內部 / 裡邊 / 裡面 / 裡頭 / 里 /

之前
zhī qián
पुरे
pure
之前 / 從前 / 此前 / 面前 /
पुरतो
purato
之前 / 在前 / 從前 / 此前 / 稅前 / 面前 /

之后
zhī hòu
पच्छा
pacchā
之后 / 后 / 然後 /
परं
param
之后 / 之後 / 后 / 后的 / 後 / 經 / 經過 / 经 / 经过 / 超出 / 超过 /

之外
zhī wài
तिरो
tiro
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 超出 / 超过 / 門外 /
बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /
बहिद्धा
bahiddhā

之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 門外 /
बाहिर
bāhira
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外国的 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 洋 / 番 / 窗外 / 門外 /

之後
zhī hòu
परं
param
之后 / 之後 / 后 / 后的 / 後 / 經 / 經過 / 经 / 经过 / 超出 / 超过 /

之間
zhī jiān
अन्तरे
antare
之間 / 介 / 其中 / 当中 / 當中 / 芸芸 / 間 / 间 /

之間
zhī jiān
अन्तरे
antare
之間 / 介 / 其中 / 当中 / 當中 / 芸芸 / 間 / 间 /

之前
zhī qián
पुरे
pure
之前 / 從前 / 此前 / 面前 /
पुरतो
purato
之前 / 在前 / 從前 / 此前 / 稅前 / 面前 /

之前
zhī qián
पुरे
pure
之前 / 從前 / 此前 / 面前 /
पुरतो
purato
之前 / 在前 / 從前 / 此前 / 稅前 / 面前 /

乌
wū
कण्ह
kaṅḥa
乌 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 恶 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 濛 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪恶 / 邪恶的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 / 黧 /

काळ
kāla
乌 / 冥 / 变黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 濛 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /

तिमिर
timira
乌 / 冥 / 幽暗 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黧 /

तिसर
timisa
乌 / 冥 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黧 /

乌鸦
wū yā
अरिदु
arittḥa
不吉利的 / 乌鸦 / 烏鴉 / 鴉 / 鴉 /
काक
kāka
乌鸦 / 烏鴉 / 鴉 / 鴉 /
धङ्क
dhaṅka
乌鸦 / 烏鴉 / 鴉 / 鴉 /

乍
zhà
अग्ग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 首 / 首先 /

आदि
ādi
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 開始 / 首 / 首先 /
पठम
paṭhama
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先前的 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 起先 / 首 / 首先 /

乐
lè
ताळ
tāla
乐 / 关键 / 樂 / 要害 / 譜 / 譜 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 / 音乐 / 音樂 /

乐器
lè qì
उपकरण
upakaraṇa
乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 必需品 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撑 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

乖
guāi
कल्ल
kalla
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 焦 / 准备 / 妙 / 就緒 / 就緒 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /

कुसल
kusala
专家 / 乖 / 伶 / 伶 / 俐 / 焦 / 善 / 妙 / 德行 / 美德 /

छेक
cheka
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 焦 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聪 / 聪明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /

दक्ख
dakkha
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俏 / 俐 / 焦 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 棒 / 精明 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 / 麻利 /
पटु
paṭu
乖 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 焦 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /

九
jiǔ
नव
nava
九 / 九個 / 新 / 新的 / 新鮮 / 耗 / 鮮 /
九個
jiǔ gè
नव
nava
九 / 九個 / 新 / 新的 / 新鮮 / 耗 / 鮮 /

九十
jiǔ shí
नवुत्ति
navuti

乞丐
qǐ gài
कपण
kapana
不重要的 / 丐 / 乞丐 / 叫花子 /
भिक्खक
bhikkhaka
丐 / 乞丐 / 叫花子 /

也
yě
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

अथो
atho
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

च
ca
与 / 且 / 並 / 並且 / 也 / 以及 / 併 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 和 / 太 / 并 / 并且 / 暨 / 汰 / 而 / 而且 / 與 /

也許
yě xǔ
पि
pì
不過 / 乃是 / 也許 / 也许 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 可能 / 大概 / 恐怕 / 惟 / 或 / 或許 / 或许 / 然 / 然而 / 究竟 /

也許
yě xǔ
पि
pì
不過 / 乃是 / 也許 / 也许 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 可能 / 大概 / 恐怕 / 惟 / 或 / 或許 / 或许 / 然 / 然而 / 究竟 /

书
shū
पोत्थक
potthaka
书 / 书籍 / 冊 / 冊子 / 册 / 書 / 書本 / 本子 / 簿子 / 著作 / 著作 / 預定 /

书籍
shū jí
पोत्थक
potthaka
书 / 书籍 / 冊 / 冊子 / 册 / 書 / 書本 / 本子 / 簿子 / 著作 / 著作 / 預定 /

𑖅
jī
दिब्ब
dibba
𑖅 / 卜 / 卜 / 天上 / 葡 /

乳
rǔ
उर
ura
中 / 乳 / 乳房 / 吸奶 / 奶子 / 心口 / 怀 / 懷 / 胸 / 胸口 / 胸脯 / 胸膛 / 胸部 /
खीर
khīra
乳 / 乳汁 / 吸奶 / 奶 / 牛奶 /
दुद्ध
duddha
乳 / 乳汁 / 奶 / 牛奶 /
पय
paya
乳 / 乳汁 / 奶 / 牛奶 /

乳头
rǔ tóu
चूचुक
cūcuka
乳头 / 乳頭 / 奶嘴 /

乳房
rǔ fáng
उर
ura
中 / 乳 / 乳房 / 吸奶 / 奶子 / 心口 / 怀 / 懷 / 胸 / 胸口 / 胸脯 / 胸膛 / 胸部 /

乳汁
rǔ zhī
खीर
khīra
乳 / 乳汁 / 吸奶 / 奶 / 牛奶 /
दुद्ध
duddha
乳 / 乳汁 / 奶 / 牛奶 /
पय
paya
乳 / 乳汁 / 奶 / 牛奶 /

乳頭
rǔ tóu
चूचुक
cūcuka
乳头 / 乳頭 / 奶嘴 /

乾旱
qián hàn
निदाघ
nidāgha
乾旱 / 夏 / 夏令 / 夏天 / 夏季 / 夏日 / 夏的 / 熱 / 避暑 /

争论
zhēng lùn
कलह
kalaha
争执 / 争端 / 争议 / 争论 / 吵 / 吵架 / 拌嘴 / 爭吵 / 爭執 / 爭論 / 磕 / 糾紛 /

堅
jiān
दृढ
dṛḍha
堅定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 穩 / 精力充沛的 /

了不得
le bù de
घोर
ghora
了不得 / 了不得 / 凶 / 可怕 / 可怕的 / 可怖 /
घोर
ghora
了不得 / 了不得 / 凶 / 可怕 / 可怕的 / 可怖 /
बीभच्च
bībhacca
了不得 / 可怕 / 可怕的 / 恐怖的 /
भैरव
bherava
了不得 / 了不得 / 可怕 / 可怕的 /
भैरव
bherava
了不得 / 了不得 / 可怕 / 可怕的 /

了不起的
le bù qǐ de
अद्भुत
abbhuta
下注 / 了不起的 / 奇事 / 奇景 / 奇迹 / 打賭 / 貝特 / 賭 / 賭 /

予
yǔ
अहं
aham
予 / 余 / 俺 / 吾 / 我 / 朕 / 鄙人 / 餘 /

争执
zhēng zhí
कलह
kalaha
争执 / 争端 / 争议 / 争论 / 吵 / 吵架 / 拌嘴 / 爭吵 / 爭執 / 爭論 / 磕 / 糾紛 /

争端
zhēng duān
कलह
kalaha
争执 / 争端 / 争议 / 争论 / 吵 / 吵架 / 拌嘴 / 爭吵 / 爭執 / 爭論 / 磕 / 糾紛 /

争议
zhēng yì
कलह
kalaha
争执 / 争端 / 争议 / 争论 / 吵 / 吵架 / 拌嘴 / 爭吵 / 爭執 / 爭論 / 磕 / 糾紛 /

堅
jiān
दृढ
dṛḍha
堅定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 穩 / 精力充沛的 /

堅
jiān
दृढ
dṛḍha
堅定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 穩 / 精力充沛的 /

事
shì
कम्म
kamma
事 / 作用 / 做事 / 券 / 動作 / 勞工 / 在職 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 業 / 活兒 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 行动 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
कम्मन्त
kammanta
事 / 事情 / 做事 / 務 / 在職 / 工 / 工作 / 工匠 / 工夫 / 工夫 / 职业 / 職業 / 著作 / 著作 / 起作用 / 辦事 /
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

事业
shì yè
गच्छ
gaccha
事业 / 厂 / 工场 / 廠 / 株 / 栽 / 植 / 植物 /
निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /

事件
shì jiàn
दब्ब
dabba
事件 / 实体 / 實質 / 有道 / 木料 / 木材 / 材 / 材料 / 森林 / 物質 / 物质 / 纺织品 / 財富 / 财富 /
पकरण
pakaraṇa
事件 / 事情 / 場合 / 时机 / 机会 / 肇端 / 近因 /
पवत्ति
pavatti
事件 / 事端 / 入射 / 新聞 / 新闻 / 消息 / 消息 / 發生 / 訊 / 訊 / 音信 /
पसङ्ग
pasaṅga
事件 / 事情 / 傾向 / 場合 / 大事 / 大事件 / 时机 / 机会 / 肇端 / 賽事 / 近因 /

事務所
shì wu suǒ
थिर
thira
事務所 / 公司 / 固 / 堅 / 堅決 / 堅定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 快 / 恆久 / 持久 / 有耐久力 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 耐久的 / 迅 / 迅速 / 速 / 速 /
दळ्ह
dalha
事務所 / 公司 / 固 / 堅 / 堅決 / 堅定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 穩 / 精力充沛的 /

事實
shì shí
अविसंवाद
avisamvāda
तच्छ
taccha
事實 / 实 / 實 / 现实 / 真 / 真实的 / 真實 / 真正 / 真正的 /
तथ
tatha
事實 / 实 / 實 / 现实 / 真 / 真实的 / 真實 / 真正 / 真正的 /
धम्म
dhamma
事實 / 品德 / 大自然 / 天性 / 德 / 德性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 法 / 自然 / 自然界 / 道德 /

事情
shì qíng
कम्मन्त
kammanta
事 / 事情 / 做事 / 務 / 在職 / 工 / 工作 / 工匠 / 工夫 / 工夫 / 职业 / 職業 / 著作 / 著作 / 起作用 / 辦事 /
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
पकरण
pakaraṇa
事件 / 事情 / 場合 / 时机 / 机会 / 肇端 / 近因 /
पञ्ह
pañha
事情 / 問題 / 回答 / 审问 / 提問 / 質問 / 質疑 / 質詢 / 问题 /
पसङ्ग
pasaṅga
事件 / 事情 / 傾向 / 場合 / 大事 / 大事件 / 时机 / 机会 / 肇端 / 賽事 / 近因 /

事業
shì yè
गति
gati
事業 / 去 / 命运 / 命運 / 涯 / 生涯 / 課程 /

事物
shì wù
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

事實
shì shí
अविसंवाद
avisamvāda
तच्छ
taccha
事實 / 实 / 實 / 现实 / 真 / 真实的 / 真實 / 真正 / 真正的 /
तथ
tatha
事實 / 实 / 實 / 现实 / 真 / 真实的 / 真實 / 真正 / 真正的 /
धम्म
dhamma
事實 / 品德 / 大自然 / 天性 / 德 / 德性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 法 / 自然 / 自然界 / 道德 /

事情
shì qíng
कम्मन्त
kammanta
事 / 事情 / 做事 / 務 / 在職 / 工 / 工作 / 工匠 / 工夫 / 工夫 / 职业 / 職業 / 著作 / 著作 / 起作用 / 辦事 /
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
पकरण
pakaraṇa
事件 / 事情 / 場合 / 时机 / 机会 / 肇端 / 近因 /
पञ्ह
pañha
事情 / 問題 / 回答 / 审问 / 提問 / 質問 / 質疑 / 質詢 / 问题 /
पसङ्ग
pasaṅga
事件 / 事情 / 傾向 / 場合 / 大事 / 大事件 / 时机 / 机会 / 肇端 / 賽事 / 近因 /

事業
shì yè
गति
gati
事業 / 去 / 命运 / 命運 / 涯 / 生涯 / 課程 /

事物
shì wù
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

事實
shì shí
अविसंवाद
avisamvāda
तच्छ
taccha
事實 / 实 / 實 / 现实 / 真 / 真实的 / 真實 / 真正 / 真正的 /
तथ
tatha
事實 / 实 / 實 / 现实 / 真 / 真实的 / 真實 / 真正 / 真正的 /
धम्म
dhamma
事實 / 品德 / 大自然 / 天性 / 德 / 德性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 法 / 自然 / 自然界 / 道德 /

事情
shì qíng
कम्मन्त
kammanta
事 / 事情 / 做事 / 務 / 在職 / 工 / 工作 / 工匠 / 工夫 / 工夫 / 职业 / 職業 / 著作 / 著作 / 起作用 / 辦事 /
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
पकरण
pakaraṇa
事件 / 事情 / 場合 / 时机 / 机会 / 肇端 / 近因 /
पञ्ह
pañha
事情 / 問題 / 回答 / 审问 / 提問 / 質問 / 質疑 / 質詢 / 问题 /
पसङ्ग
pasaṅga
事件 / 事情 / 傾向 / 場合 / 大事 / 大事件 / 时机 / 机会 / 肇端 / 賽事 / 近因 /

事業
shì yè
गति
gati
事業 / 去 / 命运 / 命運 / 涯 / 生涯 / 課程 /

事物
shì wù
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

事端
shì duān
पवत्ति
pavatti
事件 / 事端 / 入射 / 新聞 / 新闻 / 消息 / 消息 / 發生 / 訊 / 訊 / 音信 /

二
èr
द्वि
dvi
一對 / 两个 / 二 / 二級 / 兩 / 兩份 / 兩個 / 兩項 /

二等
èr děng
दुतिय
dutiya
二等 / 伯仲叔季 / 秒 / 第二 / 第二次 / 第二的 /

二級
èr jí
द्वि
dvi
一對 / 两个 / 二 / 二級 / 兩 / 兩份 / 兩個 / 兩項 /

二者
èr zhě
उभ
ubha
兩 / 兩者 / 二者 / 俩 / 俩 / 倆 / 兩 / 兩人 / 兩者 / 都 /
उभय
ubhaya
兩 / 兩者 / 二者 / 俩 / 俩 / 倆 / 兩 / 兩人 / 兩者 / 都 /

于
yú
उपरि
upari
上 / 上述 / 上面 / 之上 / 于 / 以上 / 前述 / 在 / 就 / 最高的 /

云
yún
अब्भ
abbha
云 / 天 / 天界 / 天空 / 雲 / 雲霄 /
मेघ
megha
下雨 / 云 / 雨 / 雨天 / 雲 /

互
hù
अञ्जमञ्ज
aññamañña
互 / 互助 / 互相 / 相互 / 相互的 /
अञ्जोञ्ज
aññoñña
互 / 互助 / 互相 / 相互 / 相互的 /

互
hù
अञ्जमञ्ज
aññamañña
互 / 互助 / 互相 / 相互 / 相互的 /
अञ्जोञ्ज
aññoñña
互 / 互助 / 互相 / 相互 / 相互的 /

互助
hù zhù
अञ्जमञ्ज
aññamañña
互 / 互助 / 互相 / 相互 / 相互的 / अञ्जोञ्ज
aññoñña
互 / 互助 / 互相 / 相互 / 相互的 /

互相
hù xiāng
अञ्जमञ्ज
aññamañña
互 / 互助 / 互相 / 相互 / 相互的 / अञ्जोञ्ज
aññoñña
互 / 互助 / 互相 / 相互 / 相互的 /

五
wǔ
पञ्च
pañca
五 / 五個 / 五次 / 五的 / 伍 / 伍 /

五個
wǔ gè
पञ्च
pañca
五 / 五個 / 五次 / 五的 / 伍 / 伍 /

五倍
wǔ bèi
पञ्चविध
pañcavidha

五十
wǔ shí
पण्णासा
pañṇāsā

五星
wǔ xīng
उळ
ulu
五星 / 加上星号 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 / 月亮 /

जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 着火 / 着火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
तारका
tārakā
五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 月亮 /

तारा
tārā
五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
नक्खत्त
nakkhatta
五星 / 加上星号 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 /

五次
wǔ cì
पञ्च
pañca
五 / 五個 / 五次 / 五的 / 伍 / 伍 /
五的
wǔ de
पञ्च
pañca
五 / 五個 / 五次 / 五的 / 伍 / 伍 /

井
jǐng
उदपान
udapāna
井 / 以至 / 嘛 / 囑 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /
ओपान
opāna
井 / 以至 / 嘛 / 囑 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /
कूप
kūpa
井 / 以至 / 嘛 / 囑 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 洞 / 良好 /

亚麻
yà má
उम्मा
ummā
亚麻 / 亞麻 /

些
xiē
एकच्च
ekacca
一些 / 一番 / 些 / 必然 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某一個 / 某些 / 确定 /
एकच्चिय
ekacchiya
一些 / 一番 / 些 / 必然 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某一個 / 某些 / 确定 /
कतिपय
katipaya
一些 / 一番 / 些 / 几 / 几个 / 好几 / 好幾 / 幾個 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某些 / 若干 /

些微地
xiē wēi dì
ईसक
Ṭsaka
些微地 / 寡 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 有點兒 / 有點小 / 短的 / 稍微 /
亞麻
yà má
उम्मा
ummā
亚麻 / 亞麻 /

交往
jiāo wǎng
उपसेवना
upasevanā
交往 / 練習 /

交易
jiāo yì
अवचरण
avacaraṇa
交易 / 職業 / 交替的
jiāo tì de
एकन्तरिक
ekantarika
交椅
jiāo yǐ
पदेस
padesa
交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到位 / 區域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 斑 / 斑點 / 身份 / 部位 /

交談
jiāo tán
अल्लाप
allāpa
आलाप
ālāpa
交談 / 会话 / 單詞 / 圣言 / 字 / 言 / 詞 / 話 / 談話 / 词 /
कतिका
katikā
交談 / 协议 / 協定 / 協議 / 契約 / 契約 / 符合 /
कथन
kathana

交還
jiāo hái
पच्चागमन
paccāgamana
交還 / 回 / 回來 / 回去 / 回歸 / 归 / 歸 / 歸來 / 歸還 / 返 / 返回 / 返航 / 迴 / 退回 / 退还 / 送回 / 重回 / 重返 /

享受
xiǎng shòu
परिभोग
paribhoga
享受 / 使用 / 利用 / 愉快 / 施用 / 用 / 用法 / 用途 / 运用 / 運用 /

亮
liàng
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 鑄 /

亮
liàng
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 鑄 /

亮
liàng
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 鑄 /

亮光
liàng guāng
अवभास
avabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 出現 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

आभा
ābhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
आलोक
āloka
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 着火 / 着火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /

दित्ति
ditti
亮光 / 光 / 光亮 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
निभा
nibhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पज्जोत
pajjota
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पदीप
padīpa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पभा
pabhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पभास
pabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पभा
pabhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पभास
pabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

भा
bhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

भानु
bhānu
亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /

亮相
liàng xiāng
आकार
ākāra
亮相 / 出場 / 境界 / 外表 / 外观 / 外貌 / 容貌 / 情況 / 样子 / 模樣 / 樣子 / 相貌 / 色 / 貌 / 面貌 /

人
rén
जन
jana
人 / 人中 / 人们 / 人們 / 人士 / 人心 / 人民 / 夫 / 夫 / 子民 / 成年男子 / 曼 / 民 / 民眾 / 氓 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 眾人 / 者 / 萌 /

जन्तु
jantu
人 / 生物 /
दिपद
dipada

人 / 夫 / 夫 / 曼 / 男人 / 男子 / 男子漢 /
पुग्गल

पुग्गल
puggala
个人 / 人 / 人士 / 個別 / 個體 / 者 /
पुम
puma
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男的 / 雄 / 雄性 / 雄的 /

पुरिस
purisa
人 / 人士 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男性的 / 男的 / 者 / 雄 / 雄性 / 雄的 /

पोरिस
porisa
पोस
posa
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 男人 / 男子 / 男子漢 /
मच्च
macca
人 / 会死 / 凡人 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 會死 / 男人 / 男子 / 男子漢 /

人世
rén shì
पेत
peta
人世 / 已故的 / 幽灵 / 幽靈 / 死 / 死了 / 死去 / 死寂 / 死的 / 過世 / 鬼 / 鬼魂 /

人中
rén zhōng
जन
jana
人 / 人中 / 人们 / 人們 / 人士 / 人心 / 人民 / 夫 / 夫 / 子民 / 成年男子 / 曼 / 民 / 民眾 / 氓 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 眾人 / 者 / 萌 /

人们
rén men
जन
jana
人 / 人中 / 人们 / 人們 / 人士 / 人心 / 人民 / 夫 / 夫 / 子民 / 成年男子 / 曼 / 民 / 民眾 / 氓 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 眾人 / 者 / 萌 /

人們
rén men
जन
jana
人 / 人中 / 人们 / 人們 / 人士 / 人心 / 人民 / 夫 / 夫 / 子民 / 成年男子 / 曼 / 民 / 民眾 / 氓 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 眾人 / 者 / 萌 /

人命
rén mìng
चरित
carita
世 / 人命 / 人生 / 個性 / 命 / 品行 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /
जीव
jīva
世 / 人命 / 人生 / 命 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /
पाण
pāna
一口气 / 一口氣 / 世 / 人命 / 人生 / 呼吸 / 命 / 壽命 / 性命 / 息 / 氣息 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 生物 / 身 / 鼻息 / 鼻息 /

人品
rén pǐn
पकति
pakati
人品 / 人物 / 品格 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /

人士
rén shì
जन
jana
人 / 人中 / 人们 / 人們 / 人士 / 人心 / 人民 / 夫 / 夫 / 子民 / 成年男子 / 曼 / 民 / 民眾 / 氓 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 眾人 / 者 / 萌 /
पुग्गल
puggala
个人 / 人 / 人士 / 個別 / 個體 / 者 /
पुरिस
purisa
人 / 人士 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男性的 / 男的 / 者 / 雄 / 雄性 / 雄的 /

人心
rén xīn
जन
jana
人 / 人中 / 人们 / 人們 / 人士 / 人心 / 人民 / 夫 / 夫 / 子民 / 成年男子 / 曼 / 民 / 民眾 / 氓 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 眾人 / 者 / 萌 /

人性
rén xìng
अनुपघात
anupaghāta
人性 / 人类 /
अविहिंसा
avihiṃsā
人性 / 人类 /

人民
rén mín
जन
jana
人 / 人中 / 人们 / 人們 / 人士 / 人心 / 人民 / 夫 / 夫 / 子民 / 成年男子 / 曼 / 民 / 民眾 / 氓 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 眾人 / 者 / 萌 /

人渣
rén zhā
फेण
pheṇa
人渣 / 沫 / 泡沫 /

人潮
rén cháo
गण
gaṇa
一群 / 人潮 / 人群 / 众 / 擁擠 / 支部 / 眾 / 組 / 群 / 隊 /

人物
rén wù
पकति
pakati
人品 / 人物 / 品格 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /

人生
rén shēng
चरित
carita
世 / 人命 / 人生 / 個性 / 命 / 品行 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /
जीव
jīva
世 / 人命 / 人生 / 命 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /
पाण
pāṇa
一口气 / 一口氣 / 世 / 人命 / 人生 / 呼吸 / 命 / 壽命 / 性命 / 息 / 氣息 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 生物 / 身 / 鼻息 / 鼻息 /

人类
rén lèi
अनुपघात
anupaghāta
人性 / 人类 /
अविहिंसा
avihiṃsā
人性 / 人类 /

人群
rén qún
गण
gaṇa
一群 / 人潮 / 人群 / 众 / 擁擠 / 支部 / 眾 / 組 / 群 / 隊 /

人身
rén shēn
अज्झत्त
ajjhatta
个人 / 人身 / 個人 / 私人的 /
人造的

rén zào de
कित्तिम
kittima
人間
rén jiān
जगति
jagati
世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /

什么
shén me
कतम
katama
什么 / 何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一个 / 哪位 / 哪個 / 如何 / 孰 / 曷 / 那 / 那 /

仁慈
rén cí
अवेर
avera
仁慈 / 友善的 / 好意 /
कल्याण
kalyāṇa
仁慈 / 德行 / 福利 / 福祉 / 美德 / 迷人的 /
दया
dayā
仁慈 / 同情 / 好意 / 怜悯 / 恤 / 憐憫 /

打
dǎ
एकक
ekaka
打 / 单 / 单一 / 单一的 / 单身的 / 唯 / 唯一 / 孤 / 孤單 / 孤零零 / 独身 / 獨居 / 戟 /

仅
jīn
एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /

仅仅
jīn jīn
एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /
केवल
kevala
仅仅 / 全部 / 全部的 / 只有 / 唯 / 唯一 / 囿 / 孤 / 完全 / 总体 / 惟 / 整 / 整个 / 整個 / 整数 / 整整 / 絕對 / 绝对 / 通通 / 鞋底 /

仆
pū
पेस्सिक
pessika
仆 / 仆人 / 使者 / 信使 / 信差 / 信差 / 僕 / 公务员 / 厮 / 厮 / 用人 /

仆人
pū rén
पेस्सिक
pessika
仆 / 仆人 / 使者 / 信使 / 信差 / 信差 / 僕 / 公务员 / 厮 / 厮 / 用人 /

仇
chóu
आघात
āghāta
仇 / 仇恨 / 怨恨 / 憎恨 / 激怒 / 碰撞 /

仇人
chóu rén
अभिघाती
abhighātī
仇人 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 /
अमित्त
amitta
仇人 / 件 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 /
अरि
ari

仇人 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 /
दिस
disa
仇人 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 /

पच्चत्थिक
paccatthika
仇人 / 件 / 反對 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 /
पच्चनिक
paccanika
不利的 / 仇人 / 件 / 否定的 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 / 相反的 /

पच्चामित्त
paccāmitta
仇人 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 / 魔鬼 /
पटिकण्टक
paṭikaṅṭaka
不利的 / 仇人 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 /

पटिपक्ख
paṭipakkha
仇人 / 件 / 对手 / 對面 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 / 相反的 /

仇恨
chóu hèn
आघात
āghāta
仇 / 仇恨 / 怨恨 / 憎恨 / 激怒 / 碰撞 /

今
jīn
अज्ज
ajja
今 / 今天 / 今日 / 於今 /
अधुना
adhunā
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 最近 / 最近地 / 此刻 / 此時 / 現 / 現在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 / 近來 / 近日 / 近來 /

इदानी
idāni
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 現 / 現在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /
एतरहि
etarahi
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 現 / 現在 / 現在 / 目前 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /

तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 現在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

今天
jīn tiān
अज्ज
ajja
今 / 今天 / 今日 / 於今 /

今日
jīn rì
अज्ज
ajja
今 / 今天 / 今日 / 於今 /

今朝
jīn chāo
अधुना
adhunā
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 最近 / 最近地 / 此刻 / 此時 / 現 / 現在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 / 近來 / 近日 / 近來 /
इदानी
idāni
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 現 / 現在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /
एतरहि
etarahi
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 現 / 現在 / 現在 / 目前 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 則 / 剛才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 現在 / 現在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

介
jiè
अन्तरे
antare
之間 / 介 / 其中 / 当中 / 當中 / 芸芸 / 間 / 間 /

仍
réng
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 則 / 剛才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 現在 / 現在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

从来
cóng lái
अभिन्हसो
abhinhaso
一向 / 一律 / 从来 / 再三地 / 历来 / 向來 / 始終 / 始終 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /
निबद्धं
nibaddham
一向 / 一律 / 从来 / 历来 / 向來 / 始終 / 始終 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /
仔
zǐ
तरुण
taruṇa
仔 / 少 / 年少 / 年紀 / 年輕 / 年輕人 / 年轻 / 年轻的 / 年青 / 幼 / 稚 /

仍然
réng rán
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 則 / 剛才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 現在 / 現在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
पन
pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /

仍舊
réng jiù
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 則 / 剛才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 現在 / 現在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

介
jiè
अन्तरे
antare
之間 / 介 / 其中 / 当中 / 當中 / 芸芸 / 間 / 間 /

仍
réng
तु
tu
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /

从来
cóng lái
अभिन्हसो
abhinhaso
一向 / 一律 / 从来 / 再三地 / 历来 / 向來 / 始終 / 始終 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /
निबद्धं
nibaddham
一向 / 一律 / 从来 / 历来 / 向來 / 始終 / 始終 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /

仔
zǐ
तरुण
taruṇa
仔 / 少 / 年少 / 年紀 / 年輕 / 年輕人 / 年轻 / 年轻的 / 年青 / 幼 / 稚 /

他日
tā rì
अनागत
anāgata
他日 / 前程 / 前途 / 将来 / 將來 / 日后 / 日後 / 未來 / 未來 / 未來的 /
आयति
āyati
他日 / 前程 / 前途 / 将来 / 將來 / 日后 / 日後 / 未來 / 未來 / 未來的 /

仙
xian
अमर
amara
上帝 / 不朽 / 不朽的 / 不死 / 不死的 / 不滅 / 仙 / 仙 / 仙人 / 仙人 / 神 / 神仙 / 神仙 /
अमर
amara
上帝 / 不朽 / 不朽的 / 不死 / 不死的 / 不滅 / 仙 / 仙 / 仙人 / 仙人 / 神 / 神仙 / 神仙 /

仙人
xian rén
अमर
amara
上帝 / 不朽 / 不朽的 / 不死 / 不死的 / 不滅 / 仙 / 仙 / 仙人 / 仙人 / 神 / 神仙 / 神仙 /
अमर
amara
上帝 / 不朽 / 不朽的 / 不死 / 不死的 / 不滅 / 仙 / 仙 / 仙人 / 仙人 / 神 / 神仙 / 神仙 /

全
tóng
एकज्झं
ekajjham
一同 / 一塊兒 / 一起 / 一齊 / 全 / 共同 / 到一起 / 在一起 / 相聚 / 結伴 / 齊 / 齊 /

乞
gē
निब्भय
nibbhaya
乞 / 勇 / 勇敢 / 勇敢的 / 英 /

代
dài
आयु
āyu
代 / 壽命 / 年代 / 年岁 / 年紀 / 年老 / 年齡 / 年齡 / 时代 / 歲數 / 變老 / 齡 /
पजा
pajā
一代 / 世 / 世代 / 代 / 代人 / 子孫 / 孳 / 生成 / 輩 /

代人
dài rén
पजा
pajā
一代 / 世 / 世代 / 代 / 代人 / 子孫 / 孳 / 生成 / 輩 /

代理人
dài lǐ rén
आयुत्तक
āyuttaka
令
lìng
अनुक्कम
anukkama
令 / 命令 / 序 / 序列 / 承 / 排序 / 旨意 / 檄 / 次序 / 秩序 / 程 / 系列 / 訂 / 訂單 / 訂 / 順序 / 順序 /
आनुपुब्बी
ānupubbī
令 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 訂 / 順序 /
चक्क
cakka
令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 轮子 / 轆 / 轆 / 騎車 /

पटिपाटि
paṭipāṭi
令 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 訂 / 順序 /
परियाय
pariyāya
令 / 序 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 訂 / 轉動 / 順序 / 順序 /
令人
lìng rén
निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /

以上
yǐ shàng
उद्धं
uddham
上述 / 上面 / 以上 / 前述 / 因此 / 在上面 /
उपरि
upari
上 / 上述 / 上面 / 之上 / 于 / 以上 / 前述 / 在 / 就 / 最高的 /
परो
paro
上述 / 上面 / 以上 / 再作 / 前述 / 向上 / 在上面 / 更 / 更远的 / 此外 / 進一步 /

以來
yǐ lái
पभुति
pabhuti
以來 / 既然 / 由於 / 自 / 自從 / 自此 /

以及
yǐ jí
अपि
api
与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 既使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /
च
ca
与 / 且 / 並 / 並且 / 也 / 以及 / 併 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 和 / 太 / 并 / 并且 / 暨 / 汰 / 而 / 而且 / 與 /
पन
pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /

以后
yǐ hòu
अपरभागे
aparabhāge

以外
yǐ wài
तिरो
tiro
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 超出 / 超过 / 門外 /
बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /

बहिद्धा
bahiddhā
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 門外 /
बाहिर
bāhira
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外国的 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 洋 / 番 / 窗外 / 門外 /

以往
yǐ wǎng
पुब्बे
pubbe
以往 / 從前 / 過去 /

以為
yǐ wèi
आभोग
ābhoga
以為 / 心思 / 心想 / 思想 / 想法 / 想過 /
चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 顏料 /
चिन्तन
cintana
以為 / 心思 / 心想 / 思想 / 思索 / 思維 / 思緒 / 思维 / 思考 / 思路 / 想法 / 想過 /

以至
yǐ zhì
उदपान
udapāna
井 / 以至 / 嘛 / 嘿 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /
ओपान
opāna
井 / 以至 / 嘛 / 嘿 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /
कूप
kūpa
井 / 以至 / 嘛 / 嘿 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 洞 / 良好 /

以致
yǐ zhì
तथा
tathā
以致 / 因此 / 因而 / 如此 / 所以 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 / 這麼 /

仪
yí
उपकरण
upakaraṇa
乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 必需品 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

件
wǔ
अमित्त
amitta
仇人 / 件 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 /
पच्चत्थिक
paccatthika
仇人 / 件 / 反對 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 /
पच्चनिक
paccanika
不利的 / 仇人 / 件 / 否定的 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 / 相反的 /
पटिपक्ख
paṭipakkhā
仇人 / 件 / 对手 / 對面 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 / 相反的 /

价
jià
अगघ
aggha
价 / 价值 / 价格 / 值 / 價 / 價格 / 價錢 / 成本 / 推崇 / 普赖斯 / 行情 /
价值
jià zhí
अगघ
aggha
价 / 价值 / 价格 / 值 / 價 / 價格 / 價錢 / 成本 / 推崇 / 普赖斯 / 行情 /

价格
jià gé
अगघ
aggha
价 / 价值 / 价格 / 值 / 價 / 價格 / 價錢 / 成本 / 推崇 / 普赖斯 / 行情 /

任
rèn
अधिकार
adhikāra
任 / 任職 / 办事处 / 办公室 / 厅 / 处 / 处 / 廨 / 管理 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 辦公 / 辦公室 /
ठान
ṭhāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廨 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 默 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
धुर
dhura
任 / 任職 / 前部 / 处 / 处 / 接近的 / 最初的 / 最前部 / 职 / 職 / 處 / 費用 / 辦公 / 辦公室 /

पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廨 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 郵政 / 部位 /

任命
rèn mìng
अभिधान
abhidhāna
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
अव्हय

avhaya
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
अव्हान
avhāna
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
आख्या

ākhyā
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
नाम
nāma
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /

任職
rèn zhí
अधिकार
adhikāra
任 / 任職 / 办事处 / 办公室 / 厅 / 处 / 处 / 廨 / 管理 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 辦公 / 辦公室 /

ठान
ṭhāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廨 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 默 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /

धुर
dhura
任 / 任職 / 前部 / 处 / 处 / 接近的 / 最初的 / 最前部 / 职 / 職 / 處 / 費用 / 辦公 / 辦公室 /

份
fèn
अवयव
avayava
一部份 / 份 / 员 / 員 / 局部 / 成員 / 會員 / 股 / 肢 / 要素 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
अंस

aṃsa
一部份 / 份 / 局部 / 擔負 / 股 / 肩 / 肩膀 / 膊 / 膊 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
कोट्टास
koṭṭhāsa
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 股 / 股份 / 股票 / 部份 / 部分 /

पटिविस
paṭivīṃsa
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 股 / 股份 / 股票 / 部份 / 部分 /

पत्ति
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利润 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到来 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /

भाग
bhāga
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 分担 / 局部 / 幫派 / 派 / 派系 / 股 / 股份 / 股票 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

伉
kàng
कन्त
kanta
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 合意的 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 愉快的 / 老公 /
कन्ता
kantā
伉 / 太太 / 夫人 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 婦人 / 婦女 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
कलत्त
kalatta
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /

जानि
jāni
伉 / 剝奪 / 剝夺 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 損失 / 損失 / 爱人 / 老婆 / 茫然 / 败 /
जाया

ज्या
jyā
伉 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
धव

dhava
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 /

पति
pati
丈夫 / 丈夫 / 主 / 主人 / 伉 / 回 / 外子 / 大師 / 夫 / 夫 / 好手 / 婿 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 相反 / 統治者 / 老公 / 老爺 / 逆 / 領主 /

पिय
piya
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 / 親愛的 /

पिया
piyā
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /

भत्तु
bhattu
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 /
भरिया
bhariyā
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /

伍
wǔ
पञ्च
pañca
五 / 五個 / 五次 / 五的 / 伍 / 伍 /
पञ्च
pañca
五 / 五個 / 五次 / 五的 / 伍 / 伍 /

休克
xiū kè
खोभ
khobha
休克 / 惊 / 激動 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震撼 / 驚 / 驚恐 /
चाल
cāla
休克 / 惊 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震驚 / 驚 / 驚恐 /

众
zhòng
गण
gana
一群 / 人潮 / 人群 / 众 / 擁擠 / 支部 / 眾 / 組 / 群 / 隊 /

会死
huì sǐ
मच्च
macca
人 / 会死 / 凡人 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 會死 / 男人 / 男子 / 男子漢 /

会议
huì yì
परिसा
parisā
会议 / 協會 / 集會 /

会话
huì huà
आलाप
ālāpa
交談 / 会话 / 單詞 / 圣言 / 字 / 言 / 詞 / 話 / 談話 / 词 /
कथा
kathā
会话 / 故事 / 演說 / 言語 /

伟
wěi
उरु
uru
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 大號 / 奘 / 奘 / 弘 / 恢 / 曼 / 極大 / 碩 / 莫大 / 甍 /
तुमुल
tumula
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 奘 / 奘 / 弘 / 恢 / 極大 / 盛大的 / 碩 / 莫大 / 甍 /
पुथुल
puthula
伟 / 大 / 大的 / 大號 / 曼 / 碩 /

传奇
chuán qí
अपदान
apadāna
传奇 / 傳奇 / 傳說 /

传统
chuán tǒng
अन्वय
anvaya
一致 / 传统 / 傳統 / 符合 / 過程 / अनुस्सव
anussava
传统 / 傳統 / 慣例 /
इतिहास
itihāsa
传统 / 傳統 / 历史 / 历史学 / 历史的 / 历史记录 / 史 / 来历 / 歷史 / 沿革 /
पवेणी
paveṇī
传统 / 傳統 /
पारम्परिय
pārampariya
传统 / 傳統 /

伤
shāng
पीळन
pīlana
伤 / 伤害 / 损 / 损伤 / 损害 / 損傷 / 損壞 / 損害 / 破壞 /

伤害
shāng hài
अनल्थ
anattha
不幸 / 伤害 / 傷害 / 危害 / 壞處 / 害 / 弊 / 损伤 / 損害 / 有害 /
अहित
ahita
伤害 / 傷害 / 危害 / 壞處 / 害 / 弊 / 损伤 /
पीळन
pīlana
伤 / 伤害 / 损 / 损伤 / 损害 / 損傷 / 損壞 / 損害 / 破壞 /

伯仲叔季
bó zhòng shū jì
दुतिय
dutiya
二等 / 伯仲叔季 / 秒 / 第二 / 第二次 / 第二的 /

估
gū
जज्जर
jajjara
估 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /
जर
jara
估 / 发烧 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 热病 / 熱病 / 發燒 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 / 衰老的 /
पुराण
purāṇa
估 / 先前的 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /
बु
buḍḍha
估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情報 / 情报 / 旄 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 窍 / 精神 / 老 / 老的 / 毫 / 舊 / 舊的 /

估計
gū jì
अग्घापन
agghāpana

仑
cāng
कक्कस
kakkasa
仑 / 粗 / 粗劣 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 糲 / 苛刻 / 草 /
कक्खळ
kakkhaḷa
仑 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 苛刻 / 草 / 辛 / 辛苦 /
कठिन
kāthina
仑 / 使勁 / 僵 / 僵硬 / 僵硬的 / 生硬 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /
खर
khara
仑 / 使勁 / 固 / 尖锐 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 痛苦的 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
खळ
khala
仑 / 卑鄙的人 / 流氓 / 無賴 / 粗 / 粗略的 / 粗糙的 / 糙 / 苛刻 / 草 /
थूल
thūla
仑 / 奘 / 奘 / 油脂 / 粗 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 肥 / 肥肉 / 肥胖 / 胖 / 胖的 / 脂 / 脂肪 / 草 /
निट्टुर
niṭṭhura
仑 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /

伯仲叔季
bó zhòng shū jì
दुतिय
dutiya
二等 / 伯仲叔季 / 秒 / 第二 / 第二次 / 第二的 /

估
gū
जज्जर
jajjara
估 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /
जर
jara
估 / 发烧 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 热病 / 熱病 / 發燒 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 / 衰老的 /
पुराण
purāṇa
估 / 先前的 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /
बु
buḍḍha
估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情報 / 情报 / 旄 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 窍 / 精神 / 老 / 老的 / 毫 / 舊 / 舊的 /

估計
gū jì
अग्घापन
agghāpana

伶
líng
कल्ल
kalla
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 僬 / 准备 / 妙 / 就緒 / 就绪 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /
कल्ल
kalla
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 僬 / 准备 / 妙 / 就緒 / 就绪 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /
कुसल
kusala
专家 / 乖 / 伶 / 伶 / 俐 / 僬 / 善 / 妙 / 德行 / 美德 /

伶
líng
कल्ल
kalla
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 僬 / 准备 / 妙 / 就緒 / 就绪 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /
कुसल
kusala
专家 / 乖 / 伶 / 伶 / 俐 / 僬 / 善 / 妙 / 德行 / 美德 /

伶
líng
कल्ल
kusala
专家 / 乖 / 伶 / 伶 / 俐 / 僬 / 善 / 妙 / 德行 / 美德 /

伶
líng
कल्ल
kusala
专家 / 乖 / 伶 / 伶 / 俐 / 僬 / 善 / 妙 / 德行 / 美德 /

伶
líng
कल्ल
cheka
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /

伶
líng
कल्ल
cheka
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /

伶
líng
कल्ल
dakkha
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俏 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 棒 / 精明 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 / 麻利 /

伶
líng
कल्ल
dakkha
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俏 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 棒 / 精明 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 / 麻利 /

伶
líng
कल्ल
paṭu
乖 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /

伶俐
líng lì
कल्ल
kalla
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 僬 / 准备 / 妙 / 就緒 / 就绪 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /

伶俐
líng lì
कल्ल
cheka
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /

伶俐
líng lì
कल्ल
dakkha
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俏 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 棒 / 精明 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 / 麻利 /

伶俐
líng lì
कल्ल
paṭu
乖 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /

伸展
shēn zhǎn
पसारण
pasāraṇa

伸手
shēn shǒu
कर
kara
一手 / 伸手 / 光線 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 指甲 / 稅 / 稅 / 笔迹 /
पाणि
pāṇi
一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 掌 / 掌心 / 棕 / 笔迹 /

伸
bhuj
bhuja
一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手臂 / 手臂 / 手邊 / 手頭 / 笔迹 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /

伸直
shēn zhí
अजिम्ह
ajimha
伸直 / 正 / 直 / 直的 / 直行 / 直通 /
उजु
uju
伸直 / 垂直的 / 正 / 正直 / 率直 / 率直 / 直 / 直接 / 直的 / 直行 / 直通 / 迪 /
उजुक
ujuka
伸直 / 垂直的 / 正 / 正直 / 率直 / 率直 / 直 / 直的 / 直行 / 直通 /

伺候
sì hòu
उपासन
upāsana
伺候 / 役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 / 訓練 / 训练 / 训练 /

似
shì

इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /
उपम
upama
似 / 似 / 侔 / 同 / 喜欢 / 宛 / 相仿 / 相似的 / 肖 /
उपम
upama
似 / 似 / 侔 / 同 / 喜欢 / 宛 / 相仿 / 相似的 / 肖 /

似的
shì de

इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

佃
diàn

कस्सक
kassaka
佃 / 农夫 / 农民 / 耕者 / 農夫 / 農民 /

但
dàn

आदु
ādu
不過 / 乃是 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 惟 / 或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 然而 / 还是 / 還是 / एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

पन
pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /
पि
pi
不過 / 乃是 / 也許 / 也许 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 可能 / 大概 / 恐怕 / 惟 / 或 / 或許 / 或许 / 然 / 然而 / 究竟 /

但是
dàn shì

अपि
api
与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 即使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /
आदु
ādu
不過 / 乃是 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 惟 / 或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 然而 / 还是 / 還是 / एव

eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
पन

pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /
पि
pi
不過 / 乃是 / 也許 / 也许 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 可能 / 大概 / 恐怕 / 惟 / 或 / 或許 / 或许 / 然 / 然而 / 究竟 /

佈
bù

अम्बर
ambara
佈 / 天 / 天界 / 天空 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 雲霄 /
चेल
cela
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 衣服 /
चोळ
colā
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 /
दुस्स
dussa
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 衣服 /
पट
paṭa
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 衣服 /

位
wèi

अवडान
avatṭhāna
位 / 位置 / 地位 / 地位 / 姿 / 姿勢 / 姿态 / 局面 / 身份 / 身分 / 部位 /
आयतन
āyatana
位 / 位置 / 區域 / 地位 / 地位 / 局面 / 球 / 界 / 身份 / 身分 / 部位 /
आसन
āsana
位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 /
ठान

thāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到任 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 狀 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
निसीदन
nisīdana
位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 /
पद

pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到任 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 腳 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /
पदेस
padesa
交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到任 / 區域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 斑 / 斑點 / 身份 / 部位 /
पीठ

पिठ्ठा
pīṭha
中 / 位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 / 椅 / 椅子 /

位子
wèi zǐ

आसन
āsana
位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 /
ठान
thāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到任 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 狀 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
निसीदन
nisīdana
位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到任 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 腳 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /

पदेस
padesa
交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到任 / 區域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 斑 / 斑點 / 身份 / 部位 /
पीठ
pīṭha
中 / 位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 / 椅 / 椅子 /

位置
wèi zhì
अवडान
avatṭhāna
位 / 位置 / 地位 / 地位 / 姿 / 姿勢 / 姿態 / 局面 / 身份 / 身分 / 部位 /
आयतन
āyatana
位 / 位置 / 區域 / 地位 / 地位 / 局面 / 球 / 界 / 身份 / 身分 / 部位 /
आसन
āsana
位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 /
ठान
ṭhāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到任 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 猷 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
निसीदन
nisīdana
位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到任 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 腳 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /
पदेस
padesa
交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到任 / 區域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 斑 / 斑點 / 身份 / 部位 /
पीठ
pīṭha
中 / 位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 / 椅 / 椅子 /

低
dī
अधम
adhama
低 / 低下 / 低劣的 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 卑劣 / 鄙 / 鄙吝 / 隲 /
अवच
avaca
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
ओरक
oraka
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
छव
chava
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
निकिड्ड
nikiṭṭha
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
निन्नता
ninnatā
低 / 傾向 /
निहीन
nihīna
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 有罪的 / 鄙 / 隲 /
नीच
nīca
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
低下
dī xià
अधम
adhama
低 / 低下 / 低劣的 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 卑劣 / 鄙 / 鄙吝 / 隲 /
अवच
avaca
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
ओरक
oraka
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
छव
chava
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
निकिड्ड
nikiṭṭha
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
निहीन
nihīna
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 有罪的 / 鄙 / 隲 /
नीच
nīca
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /

低劣的
dī liè de
अधम
adhama
低 / 低下 / 低劣的 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 卑劣 / 鄙 / 鄙吝 / 隲 /
低地
dī dì
निन्न
ninna
低地 / 低的 /
低沉
dī chén
अधम
adhama
低 / 低下 / 低劣的 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 卑劣 / 鄙 / 鄙吝 / 隲 /
अवच
avaca
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
ओरक
oraka
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
छव
chava
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
निकिड्ड
nikiṭṭha
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
低級
dī jí
अधम
adhama
低 / 低下 / 低劣的 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 卑劣 / 鄙 / 鄙吝 / 隲 /
अवच
avaca
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
ओरक
oraka
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
छव
chava
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
निकिड्ड
nikiṭṭha
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
निहीन
nihīna
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 有罪的 / 鄙 / 隲 /
नीच
nīca
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /

低的
dī de
अधम
adhama
低 / 低下 / 低劣的 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 卑劣 / 鄙 / 鄙吝 / 隲 /
अवच
avaca
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
ओरक
oraka
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
छव
chava
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
निकिड्ड
nikiṭṭha
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
निन्न
ninna
低地 / 低的 /
निहीन
nihīna
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 有罪的 / 鄙 / 隲 /
नीच
nīca
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
低級
dī jí
अधम
adhama
低 / 低下 / 低劣的 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 卑劣 / 鄙 / 鄙吝 / 隲 /
अवच
avaca
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
ओरक
oraka
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
छव
chava
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
निकिड्ड
nikiṭṭha
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
निहीन
nihīna
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 有罪的 / 鄙 / 隲 /
नीच
nīca
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /

低落
dī luò
अधम
adhama
低 / 低下 / 低劣的 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 卑劣 / 鄙 / 鄙吝 / 隲 /
अवच
avaca
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
ओरक
oraka
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
छव
chava
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
निकिड्ड
nikiṭṭha
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
निहीन
nihīna
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 有罪的 / 鄙 / 隲 /
नीच
nīca
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /

住宅
zhù zhái

अगार
agāra

住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
आवास
āvāsa

主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
उपस्सय
upassaya

主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
उपस्सय
upassaya

主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
गह
gaha

住宅 / 家 / 居 / 屋 / 屋子 / 屋頂 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गेह
geha

主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
घर
ghara

主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निकेत
niketa

主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
निकेतन
niketana

主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निलय
nilaya

主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निवेस
nivesa

住宅 / 住所 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 殖民地 / 殖民地 / 舍 / 舍 / 解决 /
निवास
nivāsa

住宅 / 住所 /

住客
zhù kè

अतिथि
atithi

住客 / 來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 賓 / 探望者 / 旅游者 / 旅游者 / 來賓 / 生人 / 賓 / 陌生人 /

住家
zhù jiā

आवास
āvāsa

主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
उपस्सय
upassaya

主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
गेह
geha

主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
घर
ghara

主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निकेत
niketa

主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
निकेतन
niketana

主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निलय
nilaya

主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /

住所
zhù suǒ

आलय
ālaya

住所 / 需要 /
आवसथ
āvasatha

住所 / 住處 /
आसय
āsaya

住所 / 傾向 /
उपस्सय
upassaya

主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
ओक
oka

下水 / 住所 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
निकेत
niketa

主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
निकेतन
niketana

主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 /
निलय
nilaya

主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /

住處
zhù chù

आवसथ
āvasatha

住所 / 住處 /
佐料
zuǒ liào

आसित्तक
āsittaka

体
tǐ

करजकाय
karajakāya

体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
कलेबर
kalebara

体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
काय
kāya

体 / 堆 / 糞 / 聚集 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
गल्ल
gatta

体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
देह
deha

体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
बोन्दि
bondi

体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /

佔有
zhàn yǒu

परिग्गह
pariggaha

佔有 / 取得 / 取得 /
何
hé

कतम
katama

什么 / 何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 如何 / 孰 / 曷 / 那 / 那 /
कतर
katara

何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 孰 / 那 / 那 /
कस्मा
kasmā

为什么 / 为什么 / 为何 / 为何 / 何 / 何以 / 何必 / 何故 / 咋 / 為什麼 / 為何 / 為甚麼 /

何以
hé yǐ

कस्मा
kasmā

为什么 / 为什么 / 为何 / 为何 / 何 / 何以 / 何必 / 何故 / 咋 / 為什麼 / 為何 / 為甚麼 /
何必
hé bì

कस्मा
kasmā

为什么 / 为什么 / 为何 / 为何 / 何 / 何以 / 何必 / 何故 / 咋 / 為什麼 / 為何 / 為甚麼 /

何故
hé gù

कस्मा
kasmā

为什么 / 为什么 / 为何 / 为何 / 何 / 何以 / 何必 / 何故 / 咋 / 為什麼 / 為何 / 為甚麼 /
余
yú

अहं
aham

予 / 余 / 俺 / 吾 / 我 / 朕 / 鄙人 / 餘 /
佚
yì

अलस
alasa

佚 / 怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶散 / 懶散的 / 懶 / 懶惰 / 閒 /
佛塔
fó tǎ

थूप
thūpa

作假
zuò jiǎ

कुह
kuha

作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
कुहक
kuhaka

作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
कितव
kitava

作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
नेकतिक
nekatika

作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /

作出
zuò chū

कत
kata

作出 / 作成 / 做出 / 做完 / 做成 /
पकत्त
pakata

作出 / 作成 / 做 / 做出 / 做完 / 做成 /
作家
zuò jiā

कत्तु
kattu

作家 / 作者 / 著者 /

何故
hé gù

कस्मा
kasmā

为什么 / 为什么 / 为何 / 为何 / 何 / 何以 / 何必 / 何故 / 咋 / 為什麼 / 為何 / 為甚麼 /
余
yú

अहं
aham

予 / 余 / 俺 / 吾 / 我 / 朕 / 鄙人 / 餘 /

佚
yì

अलस
alasa

佚 / 怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶散 / 懶散的 / 懶 / 懶惰 / 閒 /
佛塔
fó tǎ

थूप
thūpa

作假
zuò jiǎ

कुह
kuha

作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
कुहक
kuhaka

作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
कितव
kitava

作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
नेकतिक
nekatika

作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /

作出
zuò chū

कत
kata

作出 / 作成 / 做出 / 做完 / 做成 /
पकत्त
pakata

作出 / 作成 / 做 / 做出 / 做完 / 做成 /
作家
zuò jiā

कत्तु
kattu

作家 / 作者 / 著者 /

作弊
zuò bì
कुह
kuha
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
कुहक
kuhaka
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
कितव
kitava
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
नेकतिक
nekatika
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /

作成

zuò chéng
कत
kata
作出 / 作成 / 做出 / 做完 / 做成 /
पकत
pakata
作出 / 作成 / 做 / 做出 / 做完 / 做成 /

作文

zuò wén
गन्थ
gantha
作文 / 本文 / 組成 /
गन्थन
ganthana
作文 / 扭轉 / 組成 / 編織 /

作為

zuò wèi
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

作用
zuò yòng
कम्म
kamma
事 / 作用 / 做事 / 券 / 動作 / 勞工 / 在職 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 業 / / 活兒 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 行动 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
किरिय
kiriya
作用 / 券 / 動作 / 性能 / 績 / 績 / 绩 / 行动 / 行動 / 表現 /
चार
cāra
作用 / 動作 / 動議 / 去 / 推移 / 行动 / 行動 / 运动 / 運動 /
निष्फज्जन
nipphajjana
作用 / 做 / 印象 / 影响 / 成就 / 成效 / 成果 / 成績 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निष्फत्ति
nipphatti
作用 / 完成 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निस्सन्द
nissanda
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /
पयोग
payoga
作用 / 努力 / 動作 / 從事 / 行动 / 行動 /
फल
phala
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 果实 / 果實 / 果心 / 水果 / 究竟 / 結果 / 结果 /

作者
zuò zhě
कर्तु
kattu
作家 / 作者 / 著者 /
作響
zuò xiǎng
गद
gada
作響 / 健全 / 呕心 / 嘯 / 声 / 声音 / 恣 / 有聲 / 演講 / 疾 / 疾病 / 病 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鸣 /
घोस
ghosa
作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嚷 / 声 / 声音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鸣 /
धनित
dhanita
作響 / 健全 / 嘯 / 声 / 声音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鸣 /
निन्नाद
ninnāda
作響 / 健全 / 嘯 / 声 / 声音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鸣 /

併
bìng
अपि
api
与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 即使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /
च
ca
与 / 且 / 並 / 並且 / 也 / 以及 / 併 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 和 / 太 / 并 / 并且 / 暨 / 汰 / 而 / 而且 / 與 /
पन
pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /

使勁

shǐ jìn
ककखळ
kakkhala
伧 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 苛刻 / 草 / 辛 / 辛苦 /
कठिन
kāthina
伧 / 使勁 / 僵 / 僵硬 / 僵硬的 / 生硬 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /
खर
khara
伧 / 使勁 / 固 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 痛苦的 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
थद्द
thaddha
使勁 / 僵 / 僵硬 / 強硬 / 強硬 / 強硬的 / 生硬 / 硬 / 硬朗 / 硬殼 / 硬的 / 艱苦 / 辛 / 辛苦 / 難纏 / 韧 /
निद्दुर
nitṭhura
伧 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /

使用
shǐ yòng
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 谛 / 财富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /
अत्थवस
atthavasa
使用 / 利用 / 动机 / 原因 / 因 / 情理 / 故 / 施用 / 理 / 理性 / 理由 / 用 / 用法 / 用途 / 由 / 緣故 / 运用 / 運用 / 道理 /
उपभोग
upabhoga
使用 / 利 / 利润 / 利潤 / 利用 / 可享受的 / 贏 / 收益 / 施用 / 润 / 潤 / 獲利 / 用 / 用法 / 用途 / 盈利 / 获利 / 裨益 / 运用 / 運用 /
निसेवन
nisevana
पटिसेवन
paṭisevana
中用 / 使用 / 跟隨 /
पयोजन
payojana
使用 / 利用 / 從事 / 施用 / 用 / 用法 / 用途 / 运用 / 運用 /
परिभोग
paribhoga
享受 / 使用 / 利用 / 愉快 / 施用 / 用 / 用法 / 用途 / 运用 / 運用 /

使痛苦的

shǐ tòng kǔ de
दुक्खित
dukkhita
不快樂 / 不高興 / 使痛苦的 / 生病的 / 葱 /
使者
shǐ zhě
दूत
dūta
使者 / 信使 / 信差 / 信差 / 特使 /
पेस्सिक
peṣṣika
仆 / 仆人 / 使者 / 信使 / 信差 / 信差 / 僕 / 公务员 / 厮 / 厮 / 用人 /

侄
zhí
भागिनेय्य
bhāgineyya
侄 / 侄子 / 外甥 / 姪 / 甥 /
侄子
zhí zi
भागिनेय्य
bhāgineyya
侄 / 侄子 / 外甥 / 姪 / 甥 /

來

lái
आगम
āgama
來 / 信仰 / 宗教 / 教 / 聖經 /

來來
lái lái
इङ्घ
īṅgha
來歷
lái lì
उद्धान
uṭṭhāna
上升 / 业 / 來歷 / 出身 / 原点 / 始源 / 工業 / 本源 / 来历 / 根源 / 業 / 活力 / 由来 / 精力 / 能源 / 能量 / 血统 / 行業 / 起源 / 高能 /
उपपत्ति
uppatti
來歷 / 再生 / 出身 / 原点 / 始源 / 本源 / 来历 / 根源 / 由来 / 血统 / 起源 /
पभव
pabhava
來歷 / 來源 / 出处 / 出身 / 原点 / 始源 / 开始 / 朔 / 本源 / 来历 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 由来 / 血统 / 起源 /

來源

lái yuán
निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /
पभव
pabhava
來歷 / 來源 / 出处 / 出身 / 原点 / 始源 / 开始 / 朔 / 本源 / 来历 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 由来 / 血统 / 起源 /

來看

lái kàn
उपलद्धि
upaladdhi
來看 / 所屬 / 景 / 景色 / 查看 / 檢視 / 看法 / 眺望 / 瞻 / 見解 / 觀點 / 鑒 / 鑑 / 鑒 /

來說

lái shuō
भणन्त
bhaṇanta
來說 / 說起 /

來賓
lái bīn
अतिथि
atithi
住客／來賓／做客／客／客人／賓／探望者／旅游者／旅行者／來賓／生人／賓／陌生人／
अब्भागत
abbhāgata
來賓／做客／客／客人／賓／來賓／生人／賓／陌生人／
आगन्तुक
āgantuka
來賓／做客／客／客人／賓／來賓／生人／賓／陌生人／
पाहुण
pāhuṇa
來賓／做客／客／客人／賓／來賓／禮物／賓／

例

li
उदाहरण
udāharaṇa
例／例子／实例／样本／榜样／榜樣／模範／比方／為例／範／范／范例／表率／
निदस्सन
nidassana
例／例子／实例／样品／样本／榜样／榜樣／模範／比方／比較／為例／範／范／范例／表率／證據／

例外的

li wài de
आवेणिक
āveṇika
例外的／特別／

例子

li zi
उदाहरण
udāharaṇa
例／例子／实例／样本／榜样／榜樣／模範／比方／為例／範／范／范例／表率／
निदस्सन
nidassana
例／例子／实例／样品／样本／榜样／榜樣／模範／比方／比較／為例／範／范／范例／表率／證據／

侔

móu
उपम
upama
似／似／侔／同／喜欢／宛／相仿／相似的／肖／
पटिभाग
paṭibhāga
侔／均／均衡／相似的／相等／等於／

侗

dòng
अन्धभूत
andhabhūta
侗／控／愚昧／蚩／

供奉
gōng fèng
अपचायन
apacāyana
供奉／尊敬／崇／崇拜／崇敬／拜／敬神／敬重／祭拜／禮拜／
आहुण
āhuṇa
供奉／崇拜／
आहुति
āhuti
供奉／提供／
जुहन
juhana
नमस्सन
namassana
供奉／尊敬／崇／崇拜／崇敬／拜／敬神／祭拜／禮拜／
पूजा
pūjā
供奉／尊敬／

供養
gōng yǎng
अपस्सय
apassaya
供養／墊子／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／枕頭／
अवस्सय
avassaya
供養／助／協助／壁助／幫／幫助／幫忙／幫／幫助／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
आधार
ādhāra
供養／基礎／容器／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／盂／
आलम्ब
ālamba
供養／助／協助／壁助／幫／幫助／幫忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
उपकरण
upakaraṇa
乐器／仪／供養／儀／儀器／具／助／協助／器具／器械／壁助／工具／幫／幫助／幫忙／幫／幫助／幫忙／必需品／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
उपकार
upakāra
供養／助／助手／協助／壁助／好意／幫／幫助／幫忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
उपत्थम्भ
upatthambha
供養／撐／撐腰／撐／支持／支持者／支援／支撐／維持／鼓勵／
उपनिस्सय
upanissaya
供養／基礎／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／
ओलम्ब
olamba
供養／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／
ओलम्बक
olambaka
供養／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／
दीप
dīpa
供養／助／協助／壁助／小島／島／島嶼／島／幫／幫助／幫忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／洲／燈／
निस्सय
nissaya
供養／保护／保護／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／

पगह्
paggaha
供養／努力／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／活力／精力／能源／能量／舉起／贊助／高能／
पग्गाह
paggāha
供養／努力／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／活力／精力／能源／能量／舉起／贊助／高能／
पटिद्दा
paṭiṭṭhā
供養／助／協助／壁助／幫／幫助／幫忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
पटिद्दान
paṭiṭṭhāna
供養／建立／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／

依然

yī rán

तु
tu
不過／乃是／今／今朝／仍／仍然／仍舊／但／但是／依然／便／則／剛才／則／却／卻／只／只是／可是／在眼前／如今／尚／就／屆時／已／当年／当时／当时的／惟／接著／接著／於是／此刻／此時／然／然後／然後／然而／現／現在／現在还是／現在／當年／當時／當時的／眼下／眼前／究竟／立刻／而今／這時／遂／還沒／還沒有／那時／那時候／那麼／
पन
pana
不過／与／且／並／並且／乃是／仍／仍然／仍舊／以及／但／但是／併／依然／兼／却／卻／又／及／及其／只／只是／可是／和／尚／并／并且／惟／暨／然而／现在还是／而／而且／與／還沒／還沒有／那麼／

側

cè
पक्ख
pakkha
一方／側／信徒／側／党／半邊／幫派／旁边／旁邊／派／派對／派系／當事人／羽翼／翅／翅膀／翼／跛子／边／黨／
पस्स
passa
側／側／半邊／旁边／旁邊／边／

侮
wǔ
अक्कोस
akkosa
侮／侮辱／污辱／責備／辱／
आसज्जन
āsajjana
侮／侮辱／污辱／辱／
उपवाद
upavāda
侮／侮辱／咎／怨／挑剔／歸咎／污辱／罪／責備／責怪／辱／
ओमसना
omasanā
侮／侮辱／污辱／責備／辱／
घट्टन
ghaṭṭana
侮／侮辱／污辱／辱／
तिरोक्कार
tirokkāra
侮／侮辱／污辱／辱／

侮辱

wǔ rǔ
अक्कोस
akkosa
侮／侮辱／污辱／責備／辱／
आसज्जन
āsajjana
侮／侮辱／污辱／辱／
उपवाद
upavāda
侮／侮辱／咎／怨／挑剔／歸咎／污辱／罪／責備／責怪／辱／
ओमसना
omasanā
侮／侮辱／污辱／責備／辱／
घट्टन
ghaṭṭana
侮／侮辱／污辱／辱／
तिरोक्कार
tirokkāra
侮／侮辱／污辱／辱／

侵入

qīn rù
निब्बेध
nibbedha
侵入／刺穿／渗透／渗透／
पटिवेध
paṭivedha
侵入／渗透／渗透／理解／

侵襲

qīn xí
अधिपतन
adhipatana
侵襲／出擊／征／抨／攻／攻击／攻打／攻擊／發作／行凶／跳躍／
उपक्कम
upakkama
侵襲／出擊／征／意指／手段／抨／攻／攻击／攻打／攻擊／方式／方法／發作／行凶／

便
biàn
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथो
atho
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
फासुक
phāsuka
不方便 / 便 / 便利 / 宜人 / 愉快 / 方便 /

便利
biàn lì
फासुक
phāsuka
不方便 / 便 / 便利 / 宜人 / 愉快 / 方便 /

便士
biàn shì
काकणिका
kākaṇikā

促使
cù shǐ
निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /

俏
qiào
दक्ख
dakkha
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俏 / 俐 / 焦 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 棒 / 精明 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 / 麻利 /

俐
lì
कल्ल
kalla
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 焦 / 准备 / 妙 / 就緒 / 就緒 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /
कुसल
kusala
专家 / 乖 / 伶 / 伶 / 俐 / 焦 / 善 / 妙 / 德行 / 美德 /
छेक
cheka
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 焦 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /
दक्ख
dakkha
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俏 / 俐 / 焦 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 棒 / 精明 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 / 麻利 /
पटु
paṭu
乖 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 焦 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /

俗人
sú rén
गिही
gihī
पुथु
puthu

保健
bǎo jiàn
आरोग्य
ārogya
保健 / 健康 / 卫生 / 衛生 /

保存
bǎo cún
अनुरक्खन
anurakkhana
保存 / 保护 / 保護 /
पवत्तापन
pavattāpana
保存 / 維持 /
पालन
pālana
保存 / 保护 / 保護 / 政府 /

保安
bǎo ān
पाटिभोग
pāṭibhoga
保安 / 保证金 / 保釋 / 保釋金 / 安全 / 安全性 / 担保 /

保护
bǎo hù
अनुपालन
anupālana
保护 / 保護 /
अनुरक्खन
anurakkhana
保存 / 保护 / 保護 /
अनुरक्खा
anurakkhā
保护 / 保衛 / 保護 /
अभिरक्खन
abhirakkhana
保护 / 保護 /
आरक्खा
ārakkhā
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看守 / 看護 / 關心 / 關照 /
गुत्ति
gutti
保护 / 保護 / 守卫 / 守衛 / 守護 / 把守 / 注意 / 看守 / 衛 / 門衛 /
गोपन
gopana
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 注意 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 關心 / 關照 /

ताण
tāṇa
保护 / 保護 / 皈依 / 避難所 / 避難所 /
तायन
tāyana
保护 / 保護 /

नाथ
nātha
保护 / 保護 /
निस्सय
nissaya
供養 / 保护 / 保護 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /
पटिसरण
paṭisarāṇa
保护 / 保護 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威 ^严 / 尊 ^严 / 尊 ^嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

पालन
pālana
保存 / 保护 / 保護 / 政府 /

保衛
bǎo wèi
अनुरक्खा
anurakkhā
保护 / 保衛 / 保護 /

保護
bǎo hù
अनुपालक
anupālaka
अनुपालन
anupālana
保护 / 保護 /
अनुरक्खन
anurakkhana
保存 / 保护 / 保護 /
अनुरक्खा
anurakkhā
保护 / 保衛 / 保護 /

अभिरक्खन
abhirakkhana
保护 / 保護 /
आरक्खा
ārakkhā
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看守 / 看護 / 關心 / 關照 /
गुत्ति
gutti
保护 / 保護 / 守卫 / 守衛 / 守護 / 把守 / 注意 / 看守 / 衛 / 門衛 /
गोपन
gopana
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 注意 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 關心 / 關照 /

ताण
tāṇa
保护 / 保護 / 皈依 / 避難所 / 避難所 /
तायन
tāyana
保护 / 保護 /
नाथ
nātha
保护 / 保護 /
निस्सय
nissaya
供養 / 保护 / 保護 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /

पटिसरण
paṭisarāṇa
保护 / 保護 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威 ^严 / 尊 ^严 / 尊 ^嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /
पालन
pālana
保存 / 保护 / 保護 / 政府 /

保证金
bǎo zhèng jīn
पाटिभोग
pāṭibhoga
保安 / 保证金 / 保釋 / 保釋金 / 安全 / 安全性 / 担保 /

保釋
bǎo shì
पाटिभोग
pāṭibhoga
保安 / 保证金 / 保釋 / 保釋金 / 安全 / 安全性 / 担保 /

保釋金
bǎo shì jīn
पाटिभोग
pāṭibhoga
保安 / 保证金 / 保釋 / 保釋金 / 安全 / 安全性 / 担保 /

保險
bǎo xiǎn
अभय
abhaya
保險 / 保險箱 / 安 / 安全 / 安全性 / 安全的 / 安危 / 穩妥 /

保險箱
bǎo xiǎn xiāng
अभय
abhaya
保險 / 保險箱 / 安 / 安全 / 安全性 / 安全的 / 安危 / 穩妥 /
खेम
khema
保險箱 / 太平 / 安 / 安全 / 安全地 / 穩妥 /

保齡球
bǎo líng qiú
पाति
pāti
一碗 / 保齡球 / 盆子 / 盤子 / 碗 / 鉢 /

信
xìn
अक्खर
akkhara
信 / 信件 / 函 / 字母 / 音節 /
पण्ण
paṇṇa
信 / 信件 / 函 / 叶 / 字母 / 箔 / 葉 / 葉子 / 页 /
पण्णक
paṇṇaka
信 / 信件 / 函 / 叶 / 字母 / 箔 / 葉 / 葉子 / 页 /

信仰
xìn yǎng
आगम
āgama
來 / 信仰 / 宗教 / 教 / 聖經 /
तित्थ
tittha
信仰 / 信奉 / 信念 /
दिट्ठि
ditṭhi
信仰 / 信奉 / 信念 / 意見 / 理論 /
理论 / 論 / 论 /
पसाद
pasāda
信仰 / 信念 /
भत्ति
bhatti
信仰 / 信奉 / 信念 / 執著 / 熱愛 /

信件
xìn jiàn
अक्खर
akkhara
信 / 信件 / 函 / 字母 / 音節 /
पण्ण
paṇṇa
信 / 信件 / 函 / 叶 / 字母 / 箔 / 葉 /
葉子 / 页 /
पण्णक
paṇṇaka
信 / 信件 / 函 / 叶 / 字母 / 箔 / 葉 /
葉子 / 页 /

信任的
xìn rèn de
निब्बि
nibbicikiccha
信任的 / 厭惡 / 工資 / 疲倦 / 疲勞 /
相似的 /

信使
xìn shǐ
दूत
dūta
使者 / 信使 / 信差 / 信差 / 特使 /
पेस्सिक
pessika
仆 / 仆人 / 使者 / 信使 / 信差 /
信差 / 僕 / 公务员 / 厮 / 厮 / 用人 /

信奉
xìn fèng
तित्थ
tittha
信仰 / 信奉 / 信念 /
दिट्ठि
ditṭhi
信仰 / 信奉 / 信念 / 意見 / 理論 /
理论 / 論 / 论 /
भत्ति
bhatti
信仰 / 信奉 / 信念 / 執著 / 熱愛 /

信封
xìn fēng
पटल
paṭala
信封 / 封套 / 封袋 / 影片 / 片子 /
电影 / 膜 / 膠片 / 蓋子 / 薄膜 /
软片 /
信差
xìn chà
दूत
dūta
使者 / 信使 / 信差 / 信差 / 特使 /
दूत
dūta
使者 / 信使 / 信差 / 信差 / 特使 /
पेस्सिक
pessika
仆 / 仆人 / 使者 / 信使 / 信差 /
信差 / 僕 / 公务员 / 厮 / 厮 / 用人 /
पेस्सिक
pessika
仆 / 仆人 / 使者 / 信使 / 信差 /
信差 / 僕 / 公务员 / 厮 / 厮 / 用人 /

信徒
xìn tú
अनुगामिक
anugāmika
信徒 / 追隨者 /
अनुगामी
anugāmī
信徒 / 追隨者 /
निस्सितक
nissitaka
信徒 / 追隨者 /
पक्ख
pakkha
一方 / 側 / 信徒 / 側 / 党 / 半邊 /
幫派 / 旁边 / 旁邊 / 派 / 派對 /
派系 / 當事人 / 羽翼 / 翅 / 翅膀 /
翼 / 跛子 / 边 / 黨 /

信心
xìn xīn
अभिप्पसाद
abhippasāda
信心 / 熱愛 /
信念
xìn niàn
तित्थ
tittha
信仰 / 信奉 / 信念 /
दिट्ठि
ditṭhi
信仰 / 信奉 / 信念 / 意見 / 理論 /
理论 / 論 / 论 /
पसाद
pasāda
信仰 / 信念 /
भत्ति
bhatti
信仰 / 信奉 / 信念 / 執著 / 熱愛 /

俩
liǎ
उभ
ubha
两 / 两者 / 二者 / 俩 / 俩 / 俩 / 兩 /
兩人 / 兩者 / 都 /
उभ
ubha
两 / 两者 / 二者 / 俩 / 俩 / 俩 / 兩 /
兩人 / 兩者 / 都 /
उभय
ubhaya
两 / 两者 / 二者 / 俩 / 俩 / 俩 / 兩 /
兩人 / 兩者 / 都 /
उभय
ubhaya
两 / 两者 / 二者 / 俩 / 俩 / 俩 / 兩 /
兩人 / 兩者 / 都 /
उभो
ubho
两 / 两者 / 二者 / 俩 / 俩 / 俩 / 兩 /
兩人 / 兩者 / 都 /
उभो
ubho
两 / 两者 / 二者 / 俩 / 俩 / 俩 / 兩 /
兩人 / 兩者 / 都 /

修
xiū
पटिजगगन
paṭijaggana
修 / 修復 / 修理 / 修補 / 关心 /
在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 /
照料 / 照着 / 留心 / 看護 / 管理 /
脩 / 關心 / 關照 /
修復
xiū fù
पटिजगगन
paṭijaggana
修 / 修復 / 修理 / 修補 / 关心 /
在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 /
照料 / 照着 / 留心 / 看護 / 管理 /
脩 / 關心 / 關照 /

修理
xiū lǐ
पटिजगगन
paṭijaggana
修 / 修復 / 修理 / 修補 / 关心 /
在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 /
照料 / 照着 / 留心 / 看護 / 管理 /
脩 / 關心 / 關照 /

修補
xiū bǔ
पटिजगगन
paṭijaggana
修 / 修復 / 修理 / 修補 / 关心 /
在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 /
照料 / 照着 / 留心 / 看護 / 管理 /
脩 / 關心 / 關照 /

俺
ǎn
अहं
ahaṃ
予 / 余 / 俺 / 吾 / 我 / 朕 / 鄙人 / 餘 /

修路
xiū lù
अञ्जस
añjasa
修路 / 小道 / 径 / 徑 / 路 / 路上 /
路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 途 /
途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
पज्ज
pajja
修路 / 径 / 徑 / 詩 / 路 / 路上 /
路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 途 /
途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
पथ
patha
中 / 修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 /
航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 /
路径 / 路線 / 路线 / 路途 / 轨 /
轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 /
道路 / 量 / 馬路 /
पन्थ
pantha
修路 / 办法 / 径 / 徑 / 路 / 路上 /
路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 /
辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 /
馬路 /
मग्ग
magga
修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 路 /
路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 /
轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 /
道路 / 馬路 /

修道院
xiū dào yuàn
आराम
ārāma
修道院 / 僧院 / 娛 / 寺院 / 快感 /
愉快 / 愉悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 /
高兴 /

俱
jù
असेस
asesa
一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 /
全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 /
囫 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 /
总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 /
整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 統統 /
胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
निखिल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 /
全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 /
凡是 / 各 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 /
总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 /
整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 /
每一 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 /
通通 /

俺
ǎn
अहं
ahaṃ
予 / 余 / 俺 / 吾 / 我 / 朕 / 鄙人 / 餘 /

倆
liǎ
उभ
ubha
两 / 两者 / 二者 / 俩 / 俩 / 俩 / 兩 /
兩人 / 兩者 / 都 /
उभय
ubhaya
两 / 两者 / 二者 / 俩 / 俩 / 俩 / 兩 /
兩人 / 兩者 / 都 /
उभो
ubho
两 / 两者 / 二者 / 俩 / 俩 / 俩 / 兩 /
兩人 / 兩者 / 都 /

個人
gè rén
अज्झत्त
ajjhatta
个人 / 人身 / 個人 / 私人的 /

個兒
gè r
आरोह
āroha
個兒 / 海拔 / 身高 / 騎士 / 高低 /
高度 /
उब्बेध
ubbedha
個兒 / 海拔 / 海拔高度 / 直立 /
身高 / 高低 / 高度 /

個別
gè bié
पुग्गल
puggala
个人 / 人 / 人士 / 個別 / 個體 / 者 /

個性
gè xìng
चरित
carita
世 / 人命 / 人生 / 個性 / 命 / 品行 /
壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 /
生活 / 身 /

個體
gè tǐ
पुग्गल
puggala
个人 / 人 / 人士 / 個別 / 個體 / 者 /

倘
tǎng
चे
ce
一但 / 倘 / 倘若 / 假 / 假使 / 假如 /
假若 / 好象 / 如果 / 就是 / 是否 /
的話 / 若 / 若是 / 要是 /

倘若
tǎng ruò
चे
ce
一但 / 倘 / 倘若 / 假 / 假使 / 假如 /
假若 / 好象 / 如果 / 就是 / 是否 /
的話 / 若 / 若是 / 要是 /

候选人
hòu xuǎn rén
आसिसक
āsimsaka

候选人 / 候選人 /

候選人
hou xuǎn rén
आसिसक
āsimsaka
候选人 / 候選人 /

控
kōng
अन्धभूत
andhabhūta
伺 / 控 / 愚昧 / 蚩 /

债
zhài
इण
iṇa
债 / 債 / 債務 /

值
zhí
अग्घ
aggha
价 / 价值 / 价格 / 值 / 價 / 價格 / 價錢 / 成本 / 推崇 / 普赖斯 / 行情 /

值得
zhí dé
आनिसंस
ānisamsa
值得 / 值得 / 利 / 利润 / 利潤 / 功 / 贏 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /

आनिसंस
ānisamsa
值得 / 值得 / 利 / 利润 / 利潤 / 功 / 贏 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
पुञ्ज
puñña

值得 / 值得 / 功 / 正義 /

पुञ्ज
puñña
值得 / 值得 / 功 / 正義 /

值得尊敬的
zhí dé zūn jìng de

आयस्मन्तु
āyasmantu
गरु
garu
值得尊敬的 / 可敬的 / 導師 / 師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /

值得的
zhí dé de
अरह
araha

值班
zhí bān
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

假
jiǎ
चे
ce
一但 / 倘 / 倘若 / 假 / 假使 / 假如 / 假若 / 好象 / 如果 / 就是 / 是否 / 的話 / 若 / 若是 / 要是 /

假使
jiǎ shǐ
चे
ce
一但 / 倘 / 倘若 / 假 / 假使 / 假如 / 假若 / 好象 / 如果 / 就是 / 是否 / 的話 / 若 / 若是 / 要是 /

假如
jiǎ rú
चे
ce
一但 / 倘 / 倘若 / 假 / 假使 / 假如 / 假若 / 好象 / 如果 / 就是 / 是否 / 的話 / 若 / 若是 / 要是 /

假定
jiǎ dìng
परिकप्प
parikappa
假定 / 意圖 /

假若
jiǎ ruò
चे
ce
一但 / 倘 / 倘若 / 假 / 假使 / 假如 / 假若 / 好象 / 如果 / 就是 / 是否 / 的話 / 若 / 若是 / 要是 /

假話
jiǎ huà
अलिक
alika
假話 / 撒謊 / 誑 / 說謊 / 謊 / 謊言 / 謊話 / 说谎 / 谎 / 躺 /

偉
wěi
उरु
uru
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 大號 / 奘 / 奘 / 弘 / 恢 / 曼 / 極大 / 碩 / 莫大 / 觥 /
तुमुल
tumula

伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 奘 / 奘 / 弘 / 恢 / 極大 / 盛大的 / 碩 / 莫大 / 觥 /

偉大
wěi dà
उरु
uru
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 大號 / 奘 / 奘 / 弘 / 恢 / 曼 / 極大 / 碩 / 莫大 / 觥 /
तुमुल
tumula
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 奘 / 奘 / 弘 / 恢 / 極大 / 盛大的 / 碩 / 莫大 / 觥 /

偏見
piān jiàn
अगति
agati
偏見 / 偏見 /

偏見
piān jiàn
अगति
agati
偏見 / 偏見 /

做
zuò
पकत
pakata
作出 / 作成 / 做 / 做出 / 做完 / 做成 /

做事
zuò shì
कम्म
kamma
事 / 作用 / 做事 / 券 / 動作 / 勞工 / 在職 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 業 / 活兒 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 行動 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
कम्मन्त
kammanta

事 / 事情 / 做事 / 務 / 在職 / 工 / 工作 / 工匠 / 工夫 / 工夫 / 职业 / 職業 / 著作 / 著作 / 起作用 / 辦事 /
किच्च
kipca

东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

做出
zuò chū
कत
kata
作出 / 作成 / 做出 / 做完 / 做成 /
पकत
pakata
作出 / 作成 / 做 / 做出 / 做完 / 做成 /

做完
zuò wán
कत
kata
作出 / 作成 / 做出 / 做完 / 做成 /
पकत
pakata
作出 / 作成 / 做 / 做出 / 做完 / 做成 /

做客
zuò kè
अतिथि
atithi
住客 / 來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 探望者 / 旅游者 / 旅游者 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /

अब्भागत
abbhāgata
來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /
आगन्तुक
āgantuka
來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /

पाहुण
pāhuṇa
來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 来宾 / 禮物 / 賓 /

做成
zuò chéng
कत
kata
作出 / 作成 / 做出 / 做完 / 做成 /
पकत
pakata
作出 / 作成 / 做 / 做出 / 做完 / 做成 /

做為
zuò wèi
इव
iva

一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

停放
tíng fàng
उय्यान
uyyāna
停放 / 公园 / 朴 / 樸 /

停止
tíng zhǐ
अवसान
avasāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 道 /

उपच्छेद
upaccheda
中止 / 停止 / 破壞 /
उपरति
uparati
停止 / 抑制 /

ओसान
osāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 終結 / 結束 / 道 /
निरुज्झन
nirujjhana

停留
tíng liú
ठान
thāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廳 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 默 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /

健全
jiàn quán
गद
gada
作響 / 健全 / 呕心 / 嘔 / 声 / 声音 / 恙 / 有聲 / 演講 / 疾 / 疾病 / 病 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

घोस
ghosa
作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嘍 / 声 / 声音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

धनित
dhanita
作響 / 健全 / 嘯 / 声 / 声音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
निन्नाद
ninnāda
作響 / 健全 / 嘯 / 声 / 声音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

健全的
jiàn quán de
कल्ल
kalla
乖 / 俗 / 俗 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 儻 / 准备 / 妙 / 就緒 / 就绪 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聰 / 聪明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /

健康
jiàn kāng
आरोग्य
ārogya
保健 / 健康 / 卫生 / 衛生 / 健康的
jiàn kāng de
अरोग
aroga
कल्ल
kalla
乖 / 伶 / 伶俐 / 伶俐 / 健全的 / 健康的 / 准备 / 妙 / 就緒 / 就緒 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聪 / 聪明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /
निरातङ्क
nirātaṅka
निरोग
niroga
側
cè
पक्ख
pakkha
一方 / 侧 / 信徒 / 侧 / 党 / 半邊 / 幫派 / 旁边 / 旁邊 / 派 / 派對 / 派系 / 當事人 / 羽翼 / 翅 / 翅膀 / 翼 / 跛子 / 边 / 黨 /
पस्स
passa
側 / 側 / 半邊 / 旁边 / 旁邊 / 边 /
偶
ǒu
अपि
api
与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 既使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /
पटिबिम्ब
paṭibimba
偶 / 像 / 副本 / 印像 / 反映 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
पटिमा
paṭimā
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
偶爾
ǒu ěr
अन्तरन्तरा
antarantarā
偶爾 / 有時候 /
偷
tōu
अपहरण
apaharaṇa

傍晚
bàng wǎn
पदोस
padosa
傍晚 / 微明 / 暮 / 污點 / 激怒 / 缺點 / 薄暮 / 黃昏 /
備
bèi
परिक्खार
parikkhāra
備 / 器材 / 必需品 / 装备 / 裝備 / 裝置 / 設備 / 设备 / 配件 /
傲
xiào
निप्फज्जन
nipphajjana
作用 / 傲 / 印象 / 影响 / 成就 / 成效 / 成果 / 成績 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
傲慢
ào màn
अतिमञ्जना
atimaññanā
傲慢 / 晒 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /
उद्धच्च
uddhacca
傲慢 / 分心 /
उन्नळ
unnala
傲慢 / 囂張 / 粗野 / 自大 / 自大的 / 自大的 / 骄 /
傲慢的
ào màn de
गब्बि
gabbita
दप्पित
dappita
傳奇
chuán qí
अपदान
apadāna
传奇 / 傳奇 / 傳說 /
傳統
chuán tǒng
अन्वय
anvaya
一致 / 传统 / 傳統 / 符合 / 過程 /
अनुस्सव
anussava
传统 / 傳統 / 慣例 /
इतिहास
itihāsa
传统 / 傳統 / 历史 / 历史学 / 历史的 / 历史记录 / 史 / 来历 / 歷史 / 沿革 /
पवेणी
paveṇī
传统 / 傳統 /
पारम्परिय
pāraṃpariya
传统 / 傳統 /

傳說
chuán shuō
अपदान
apadāna
传奇 / 傳奇 / 傳說 /
債
zhài
इण
iṇa
债 / 債 / 債務 /
債務
zhài wu
इण
iṇa
债 / 債 / 債務 /
傷害
shāng hài
अनत्थ
anattha
不幸 / 伤害 / 傷害 / 危害 / 壞處 / 害 / 弊 / 损伤 / 損害 / 有害 /
अपकार
apakāra
अहित
ahita
伤害 / 傷害 / 危害 / 壞處 / 害 / 弊 / 损伤 /
दुक्खापन
dukkhāpana
傷疤
shāng bā
आरज्जित
ārañjita
傷疤 / 傷痕 / 疤 / 疤痕 / 痕 / 癩痕 /
傷痕
shāng hén
आरज्जित
ārañjita
傷疤 / 傷痕 / 疤 / 疤痕 / 痕 / 癩痕 /
傻
shǎ
अन्ध
andha
傻 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 盲 / 盲人 / 相親 / 瞎 / 瞎子 / 瞎眼 / 瞽 / 笨 / 笨的 /
जळ
jala
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दन्ध
dandha
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दुप्पञ्ज
duppañña
傻 / 傻子 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
दुम्मेध
dummedha
傻 / 傻子 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
बाल
bāla
傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孥 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
傻事
shǎ shì
जळ
jala
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दन्ध
dandha
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दुप्पञ्ज
duppañña
傻 / 傻子 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
दुम्मेध
dummedha
傻 / 傻子 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
बाल
bāla
傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孥 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /

傾向
qīng xiàng
अधिमुत्ति
adhimutti
傾向 / 執著 / 性情 / 決心 / अनुसय
anusaya
अभिनिवेस
abhivivesa
傾向 / 趨勢 / आसय
āsaya
住所 / 傾向 / नति
nati
निन्न्ता
ninnatā
低 / 傾向 / पब्भार
pabbhāra
पसङ्ग
pasaṅga
事件 / 事情 / 傾向 / 場合 / 大事 / 大事件 / 时机 / 机会 / 肇端 / 賽事 / 近因 /
पाताल
pātāla
傾向 / 深淵 / 深淵 /
僅
jǐn
एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /
僅僅
jǐn jǐn
एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /
傻子
shǎ zi
दुप्पञ्ज
duppañña
傻 / 傻子 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
दुम्मेध
dummedha
傻 / 傻子 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
बाल
bāla
傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孥 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /

像
xiàng
इव
iva
 一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /
पटिबिम्ब
paṭibimba
 偶 / 像 / 副本 / 印像 / 反映 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
पटिमा
paṭimā
 偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
बिम्ब
bimba
 偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /

像是

xiàng shì
इव
iva
 一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

像泥沼的地方

xiàng ní zhǎo de dì fāng
चिक्खल्ल
cikkhalla
 像泥沼的地方 / 坭 / 沼泽 / 沼澤 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 / 泥沼 / 烂泥 /

僕

pú
पेस्सिक
pessika
 仆 / 仆人 / 使者 / 信使 / 信差 / 信差 / 僕 / 公务员 / 厮 / 厮 / 用人 /

僧院
sēng yuàn
आराम
ārāma
 修道院 / 僧院 / 娛 / 寺院 / 快感 / 愉快 / 愉悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 高兴 /

焦
jiāo
कल्ल
kalla
 乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 焦 / 准备 / 妙 / 就緒 / 就緒 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /
कुसल
kusala
 专家 / 乖 / 伶 / 伶 / 俐 / 焦 / 善 / 妙 / 德行 / 美德 /
उेक
cheka
 乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 焦 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 棒 / 精明 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /
दक्ख
dakkha
 乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俏 / 俐 / 焦 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 棒 / 精明 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /
पटु
paṭu
 乖 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 焦 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /

僮
tóng
कुमार
kumāra
 僮 / 好孩子 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
कुमारक
kumāraka
 僮 / 好孩子 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
दहर
dahara
 僮 / 好孩子 / 少年 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
दारक
dāraka
 僮 / 好孩子 / 小孩 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /

僵
jiāng
असिथिल
asithila
 僵 / 僵硬 / 生硬 / 硬 / 硬的 /
उपत्थद्द
upatthaddha
 僵 / 僵硬 / 生硬 / 硬 / 硬的 /
कठिन
kaṭhina
 伧 / 使勁 / 僵 / 僵硬 / 僵硬的 / 生硬 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /
थद्द
thaddha
 使勁 / 僵 / 僵硬 / 強硬 / 強硬 / 強硬的 / 生硬 / 硬 / 硬朗 / 硬殼 / 硬的 / 艱苦 / 辛 / 辛苦 / 難纏 / 韌 /

僵硬
jiāng yìng
असिथिल
asithila
 僵 / 僵硬 / 生硬 / 硬 / 硬的 /
उपत्थद्द
upatthaddha
 僵 / 僵硬 / 生硬 / 硬 / 硬的 /
कठिन
kaṭhina
 伧 / 使勁 / 僵 / 僵硬 / 僵硬的 / 生硬 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /
थद्द
thaddha
 使勁 / 僵 / 僵硬 / 強硬 / 強硬 / 強硬的 / 生硬 / 硬 / 硬朗 / 硬殼 / 硬的 / 艱苦 / 辛 / 辛苦 / 難纏 / 韌 /

僵硬的
jiāng yìng de
कठिन
kaṭhina
 伧 / 使勁 / 僵 / 僵硬 / 僵硬的 / 生硬 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /
價
jià
अग्घ
aggha
 价 / 价值 / 价格 / 值 / 價 / 價格 / 價錢 / 成本 / 推崇 / 普赖斯 / 行情 /

價格
jià gé
अग्घ
aggha
 价 / 价值 / 价格 / 值 / 價 / 價格 / 價錢 / 成本 / 推崇 / 普赖斯 / 行情 /

價錢
jià qián
अग्घ
aggha
 价 / 价值 / 价格 / 值 / 價 / 價格 / 價錢 / 成本 / 推崇 / 普赖斯 / 行情 /

儀
yí
उपकरण
upakarana
 乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 必需品 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

儀器
yí qì
उपकरण
upakarana
 乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 必需品 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

儀式
yí shì
उत्सव
ussava
 儀式 / 典礼 / 典禮 / 礼 / 禮 /
मङ्गल
maṅgala
 儀式 / 典礼 / 典禮 / 吉兆的 / 昌盛 / 泓 / 礼 / 禮 / 繁榮 / 繁榮 /
儲藏室
chǔ cáng shì
कोट्टक
koṭṭhaka
 儲藏室 / 出入口 / 堡垒 / 壁櫥 / 寨 / 岩 / 要塞 / 要塞 /
कोस
kosa
 儲藏室 / 庫房 / 鞞 /

儿
r
पुल्ल
putta
 儿 / 儿 / 儿子 / 儿童 / 兒 / 兒子 / 兒童 / 公子 / 团 / 女婿 / 女婿 / 子 / 子女 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 /
पुल्ल
putta
 儿 / 儿 / 儿子 / 儿童 / 兒 / 兒子 / 兒童 / 公子 / 团 / 女婿 / 女婿 / 子 / 子女 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 /

bal
bāla
 傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
बाल
bāla
 傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /

元
yuán
अग्ग
agga
 一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 首 / 首先 /
आदि
ādi
 一次 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 開始 / 首 / 首先 /

पठम
paṭhama
 一次 / 乍 / 元 / 先 / 先前的 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 起先 / 首 / 首先 /

儿子
ér zi
अत्तज
attaja
 儿子 / 兒子 / 公子 / 女婿 / 女婿 /
अन्नज
atraja
 儿子 / 兒子 / 公子 / 女兒 / 女婿 / 女婿 /
तनुज
tanuja
 儿子 / 兒子 / 公子 / 女婿 / 女婿 / 後代 /
तनय
tanaya
 儿子 / 兒子 / 公子 / 女婿 / 女婿 / 後代 /
तात
tāta
 儿子 / 兒子 / 公公 / 公子 / 天父 / 女婿 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /
पुल्ल
putta
 儿 / 儿 / 儿子 / 儿童 / 兒 / 兒子 / 兒童 / 公子 / 团 / 女婿 / 女婿 / 子 / 子女 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 /

儿童
ér tóng
पुल्ल
putta
 儿 / 儿 / 儿子 / 儿童 / 兒 / 兒子 / 兒童 / 公子 / 团 / 女婿 / 女婿 / 子 / 子女 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 /
बाल
bāla
 傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /

元
yuán
अग्ग
agga
 一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 首 / 首先 /
आदि
ādi
 一次 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 開始 / 首 / 首先 /

पठम
paṭhama
 一次 / 乍 / 元 / 先 / 先前的 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 起先 / 首 / 首先 /

元素
yuán sù
धातु
dhātu
元素 / 因素 / 成份 / 成分 / 要素 / 兄弟
xiōng dì
अनुज
anuja
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /
आवुसो
āvuso
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 朋 / 朋友 / 朋友 / 社友 / 老兄 /
भातु
bhātu
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /
भातिक
bhātika
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /

兄或弟

अनुज
anuja
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /
आवुसो
āvuso
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 朋 / 朋友 / 朋友 / 社友 / 老兄 /
भातु
bhātu
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /
भातिक
bhātika
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /
बहु
bahu
不少 / 充分 / 多多 / 好多 / 很多 / 許多 / 諸多 / 许多 / 非常多 /

充沛
chōng pèi
पहूत
pahūta
丰 / 丰富的 / 充份 / 充沛 / 沛 / 盎 / 盎然 / 穰 / 裕 /

兄長
xiōng zhǎng
अनुज
anuja
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /
आवुसो
āvuso
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 朋 / 朋友 / 朋友 / 社友 / 老兄 /
भातु
bhātu
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /
भातिक
bhātika
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /

充份
chōng fèn
पहूत
pahūta
丰 / 丰富的 / 充份 / 充沛 / 沛 / 盎 / 盎然 / 穰 / 裕 /

充份的
chōng fèn de
पहोनक
pahonaka
充分
chōng fēn
पुण्ण
puṇṇa
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /
परिपूर
paripūra
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /
बहु
bahu
不少 / 充分 / 多多 / 好多 / 很多 / 許多 / 諸多 / 许多 / 非常多 /

充沛
chōng pèi
पहूत
pahūta
丰 / 丰富的 / 充份 / 充沛 / 沛 / 盎 / 盎然 / 穰 / 裕 /

充滿
chōng mǎn
उस्सन्नता
ussannatā
पुण्ण
puṇṇa
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /
परिपूर
paripūra
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /

充足的
chōng zú de
ओळारिक
oḷārika
充足的 / 粗 / 粗劣 / 粗糙 / 粗糙的 / 糲 /

兆
zhào
निमित्त
nimitta
兆 / 兆头 / 先兆 / 前兆 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 徵兆 / 情理 / 故 / 标记 / 理 / 理由 / 由 / 緣故 / 迹象 / 道理 / 預兆 /

兆头
zhào tóu
निमित्त
nimitta
兆 / 兆头 / 先兆 / 前兆 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 徵兆 / 情理 / 故 / 标记 / 理 / 理由 / 由 / 緣故 / 迹象 / 道理 / 預兆 /

先
xiān
अगग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 首 / 首先 /
आदि
ādi
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 開始 / 首 / 首先 /

पठम
paṭhama
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 開始 / 首 / 首先 /

先兆
xiān zhào
निमित्त
nimitta
兆 / 兆头 / 先兆 / 前兆 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 徵兆 / 情理 / 故 / 标记 / 理 / 理由 / 由 / 緣故 / 迹象 / 道理 / 預兆 /

先前的
xiān qián de
पठम
paṭhama
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先前的 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 起先 / 首 / 首先 /
पुब्ब
pubba
先前的 / 物質 / 脈 / 膿 /
पुराण
purāṇa
估 / 先前的 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /
पुरिम
purima

先在
xiān zài
अगग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 首 / 首先 /
आदि
ādi
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 開始 / 首 / 首先 /

पठम
paṭhama
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 開始 / 首 / 首先 /

आदि
ādi
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 開始 / 首 / 首先 /

光
guāng
अवभास
avabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 出現 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
आभा
ābhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
आलोक
āloka
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
जोति
joti

जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 着火 / 着火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /

दिति
ditti
亮光 / 光 / 光亮 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕 / 輕便 / 轻 /

निभा
nibhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पज्जोत
pajjota
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पदीप
padīpa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पभा
pabhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पभास
pabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

भा
bhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

भानु
bhānu
亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /

光亮
guāng liàng
जुति
juti
光亮 / 光輝 /
जलन
jalana
光亮 / 燃燒 /
तपन
tapana
光亮 / 光明 / 出色 / 快活 / 明亮 / 輝 /
दित्ति
ditti
亮光 / 光 / 光亮 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
दिप्पन
dippana
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布賴特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 鑄 /
पकास
pakāsa
光亮 / 解释 / 解釋 / 說明 /

光亮的

guāng liàng de
ओभासन
obhāsana
भस्सर
bhassara
光亮的 / 明亮的 /
भासुर
bhāsura
光亮的 / 明亮的 /

光彩
guāng cǎi
आभा
ābhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
उज्जोत
ujjota
光彩 / 點燃 /
निभा
nibhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पज्जोत
pajjota
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

光明
guāng míng
तपन
tapana
光亮 / 光明 / 出色 / 快活 / 明亮 / 輝 /
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布賴特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 鑄 /

光榮
guāng róng
कित्ति
kitti
光榮 / 名望 / 名气 / 名氣 / 名聲 / 名譽 / 榮 / 榮耀 / 荣 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 霧 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 荣 /

जोति
kirāṇa
光線 / 光輝 /
जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 着火 / 着火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
दित्ति
ditti
亮光 / 光 / 光亮 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

निभा
nibhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पज्जोत
pajjota
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पदीप
padīpa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पभा
pabhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पभास
pabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

भ
bhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

光線
guāng xiàn
अवभास
avabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 出現 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

आभा
ābhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

आलोक
āloka
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

कर
kara

一手 / 伸手 / 光線 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 指甲 / 稅 / 稅 / 笔迹 /
किरण

किरण
kirāṇa
光線 / 光輝 /
जोति

जोति
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 着火 / 着火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /

दित्ति
ditti
亮光 / 光 / 光亮 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

निभा
nibhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पज्जोत
pajjota
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पदीप
padīpa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पभा
pabhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पभास
pabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

भ
bhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

भानु
bhānu
亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /

光芒
guāng máng
आभा
ābhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 着火 / 着火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 霧 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 荣 /

光輝
guāng huī
आभा
ābhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
किरण
kirāṇa
光線 / 光輝 /
जुति
juti
光亮 / 光輝 /
जोति

जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 着火 / 着火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /

तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 霧 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 荣 /

克服
kè fú
अतिवत्त
ativatta
克服 / 能克服 / 超越 /
अभिभवन
abhibhavana
उत्तरण
uttaraṇa
नित्थरण
nittharaṇa
克服 / 完成 / 穿越 /

克服不了的
kè fú bù le de
अयोज्झ
ayojjha
兒
r
पुत्त
putta
儿 / 儿 / 儿子 / 儿童 / 兒 / 兒子 / 兒童 / 公子 / 囡 / 女婿 / 女婿 / 子 / 子女 / 子女 / 孥 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 /
बाल
bāla
傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 囡 / 子 / 子女 / 孥 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /

兒子
r zi
अत्तज
attaja
儿子 / 兒子 / 公子 / 女婿 / 女婿 /
अत्रज
atraja
儿子 / 兒子 / 公子 / 女兒 / 女婿 / 女婿 /
तनुज
tanuja
儿子 / 兒子 / 公子 / 女婿 / 女婿 / 後代 /
तनय
tanaya
儿子 / 兒子 / 公子 / 女婿 / 女婿 / 後代 /
तात
tāta
儿子 / 兒子 / 公公 / 公子 / 天父 / 女婿 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /
पुत्त
putta
儿 / 儿 / 儿子 / 儿童 / 兒 / 兒子 / 兒童 / 公子 / 囡 / 女婿 / 女婿 / 子 / 子女 / 子女 / 孥 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 /

兒童
r tóng
पुत्त
putta
儿 / 儿 / 儿子 / 儿童 / 兒 / 兒子 / 兒童 / 公子 / 囡 / 女婿 / 女婿 / 子 / 子女 / 子女 / 孥 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 /
बाल
bāla
傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 囡 / 子 / 子女 / 孥 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /

兔子
tù zi
पेलक
pelaka
兔子 / 野兔 /

党
dǎng
पक्ख
pakkha
一方 / 侧 / 信徒 / 侧 / 党 / 半邊 / 幫派 / 旁边 / 旁邊 / 派 / 派對 / 派系 / 當事人 / 羽翼 / 翅 / 翅膀 / 翼 / 跛子 / 边 / 黨 /

兜
dōu
पुट
puta
一籃 / 兜 / 口 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 栲 / 盂 / 筐 / 筍 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पुटक
putaka
一籃 / 兜 / 口 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 栲 / 盂 / 筐 / 筍 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /

入口
rù kǒu
आवेसन
āvesana
入口 / 高考 /
द्वार
dvāra
入口 / 大門 / 大门 / 車門 / 門 / 門口 / 门 / 高考 /
पवेश
pavesa
入口 / 存取 / 高考 /
मुख
mukha
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 齊 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

入夜
rù yè
निसा
nisā
入夜 / 夜 / 夜幕 / 夜晚 / 夜游 / 夜行 / 宵 / 宿 / 整夜 / 晚 / 晚上 / 晦 / 每晚 / 黄昏 / 黑夜 /

入射
rù shè
पवत्ति
pavatti
事件 / 事端 / 入射 / 新聞 / 新闻 / 消息 / 消息 / 發生 / 訊 / 讯 / 音信 /

入獄
rù yù
कारा
kāra
入獄 / 囚室 / 圜 / 大牢 / 拘留所 / 牢 / 牢獄 / 犴 / 獄 / 獄 / 班房 / 監獄 / 監 / 監牢 / 監獄 / 監禁 / 關押 /

入睡
rù shuì
निद्रा
niddā
入睡 / 眠 / 睡 / 睡不著 / 睡覺 / 睡覺 / 覺 / 觉 /

內
nèi
अब्भन्तर
abbhantara
之內 / 內 / 內側 / 內部 / 內部 / 裡邊 / 裡面 / 裡頭 / 里 /

內側
nèi cè
अब्भन्तर
abbhantara
之內 / 內 / 內側 / 內部 / 內部 / 裡邊 / 裡面 / 裡頭 / 里 /

內部
nèi bù
अब्भन्तर
abbhantara
之內 / 內 / 內側 / 內部 / 內部 / 裡邊 / 裡面 / 裡頭 / 里 /
उदर
udara
下腹 / 內部 / 肚 / 肚子 / 肚皮 / 胃 / 腹 / 腹部 / 臚 /
कुच्छि
kucchi

全
quán
असेस
asesa
一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 圓 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
निखिल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 圓 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /

全力
quán lì
पुण्ण
puṇṇa
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /
परिपूर
paripūra
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /

全天
quán tiān
अण्ह
aṇha
全天 / 天 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
दिन
dina
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
दिवस
divasa
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 晝 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /

全家
quán jiā
कुटुम्ब
kuṭumba
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 属 / 族 /
कुल
kula
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 宗族 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 家系 / 属 / 族 / 氏族 /

全家人
quán jiā rén
कुटुम्ब
kuṭumba
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 属 / 族 /

कुल
kula
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 宗族 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 家系 / 属 / 族 / 氏族 /

全部
quán bù
अनून
anūna
全部 / 完全 / 完全的 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 通通 /
अनूनक
anūnaka
全部 / 完全 / 完全的 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 通通 /
अनवसेस
anavasesa
全部 / 完 / 完全 / 完全地 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 竣 / 通通 /

असेस
asesa
一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 圓 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
केवल
kevala
仅仅 / 全部 / 全部的 / 只有 / 唯 / 唯一 / 圓 / 孤 / 完全 / 总体 / 惟 / 整 / 整个 / 整個 / 整数 / 整整 / 絕對 / 绝对 / 通通 / 鞋底 /
कसिण
kaśiṇa

कसिण
kaśiṇa
全部 / 全部的 / 圓 / 完全 / 总体 / 整 / 整个 / 整個 / 整数 / 整整 / 通通 /
निखिल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 圓 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
निस्सेस
nissesa
一切 / 全部 / 全部的 / 全體 / 凡 / 凡是 / 圓 / 均 / 完全 / 完全地 / 所有 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 胥 / 芸芸 / 通通 /

全部的
quán bù de
असेस
asesa
一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 圓 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
केवल
kevala
仅仅 / 全部 / 全部的 / 只有 / 唯 / 唯一 / 圓 / 孤 / 完全 / 总体 / 惟 / 整 / 整个 / 整個 / 整数 / 整整 / 絕對 / 绝对 / 通通 / 鞋底 /
कसिण
kaśiṇa
全部 / 全部的 / 圓 / 完全 / 总体 / 整 / 整个 / 整個 / 整数 / 整整 / 通通 /
निखिल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 圓 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
निस्सेस
nissesa
一切 / 全部 / 全部的 / 全體 / 凡 / 凡是 / 圓 / 均 / 完全 / 完全地 / 所有 / 整 / 整个 / 整個 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 胥 / 芸芸 / 通通 /

全部
quán dōu
असेस
asesa
一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 圓 / 均 / 完全 / 完全地 / 所有 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
निखिल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 圓 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /

全體
quán tǐ
असेस
asesa
一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
निखिल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
निस्सेस
nissesa
一切 / 全部 / 全部的 / 全體 / 凡 / 凡是 / 囫 / 均 / 完全 / 完全地 / 所有 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 胥 / 芸芸 / 通通 /

兩
liǎng
उभ
ubha
两 / 两者 / 二者 / 俩 / 俩 / 倆 / 兩 / 兩人 / 兩者 / 都 /
उभय
ubhaya
两 / 两者 / 二者 / 俩 / 俩 / 倆 / 兩 / 兩人 / 兩者 / 都 /
उभो
ubho
两 / 两者 / 二者 / 俩 / 俩 / 倆 / 兩 / 兩人 / 兩者 / 都 /
द्वि
dvi
一對 / 两个 / 二 / 二級 / 兩 / 兩份 / 兩個 / 兩項 /

兩人
liǎng rén
उभ
ubha
两 / 两者 / 二者 / 俩 / 俩 / 倆 / 兩 / 兩人 / 兩者 / 都 /
उभय
ubhaya
两 / 两者 / 二者 / 俩 / 俩 / 倆 / 兩 / 兩人 / 兩者 / 都 /
उभो
ubho
两 / 两者 / 二者 / 俩 / 俩 / 倆 / 兩 / 兩人 / 兩者 / 都 /

兩份
liǎng fèn
द्वि
dvi
一對 / 两个 / 二 / 二級 / 兩 / 兩份 / 兩個 / 兩項 /

兩個
liǎng gè
द्वि
dvi
一對 / 两个 / 二 / 二級 / 兩 / 兩份 / 兩個 / 兩項 /

兩倍
liǎng bèi
उभतो
ubhato
兩者
liǎng zhě
उभ
ubha
两 / 两者 / 二者 / 俩 / 俩 / 倆 / 兩 / 兩人 / 兩者 / 都 /
उभय
ubhaya
两 / 两者 / 二者 / 俩 / 俩 / 倆 / 兩 / 兩人 / 兩者 / 都 /
उभो
ubho
两 / 两者 / 二者 / 俩 / 俩 / 倆 / 兩 / 兩人 / 兩者 / 都 /

兩項
liǎng xiàng
द्वि
dvi
一對 / 两个 / 二 / 二級 / 兩 / 兩份 / 兩個 / 兩項 /

八
bā
अट्ठ
aṭṭha
八 / 八個 / 八的 / 捌 /
八個
bā gè
अट्ठ
aṭṭha
八 / 八個 / 八的 / 捌 /

八的
bā de
अट्ठ
aṭṭha
八 / 八個 / 八的 / 捌 /

公公
gōng gōng
जनक
janaka
公公 / 天父 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /
तात
tāta
儿子 / 兒子 / 公公 / 公子 / 天父 / 女婿 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

公务员
gōng wù yuán
पेस्सिक
pessika
仆 / 仆人 / 使者 / 信使 / 信差 / 信差 / 僕 / 公务员 / 厮 / 厮 / 用人 /
द्वि
dvi
一對 / 两个 / 二 / 二級 / 兩 / 兩份 / 兩個 / 兩項 /

公司
gōng sī
थिर
thira
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 快 / 恒久 / 持久 / 有耐久力 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 耐久的 / 迅 / 迅速 / 速 / 遽 /
दल्ह
dalha
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 穩 / 精力充沛的 /

公告
gōng gào
आरोचना
ārocanā
公告 / 告示 /
ऋत्ति
ñatti
公告 / 告示 / 宣言 / 聲明 /
जापन
ñāpana
公告 / 告示 / 通告 / 通知 /
निवेदन
nivedana
公告 / 呈報 / 告示 / 報告 / 報案 / 情報 / 舉報 /
पञ्जापन
paññāpana
公告 / 安排 /
पवेदन
pavedana
公告 / 告示 /

公园
gōng yuán
उय्यान
uyyāna
停放 / 公园 / 朴 / 樸 /

公子
gōng zi
अत्तज
attaja
儿子 / 兒子 / 公子 / 女婿 / 女婿 /
अत्रज
atraja
儿子 / 兒子 / 公子 / 女兒 / 女婿 / 女婿 /
तनुज
tanuja
儿子 / 兒子 / 公子 / 女婿 / 女婿 / 後代 /
तनय
tanaya
儿子 / 兒子 / 公子 / 女婿 / 女婿 / 後代 /
तात
tāta
儿子 / 兒子 / 公公 / 公子 / 天父 / 女婿 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /
पुत्त
putta
儿 / 儿 / 儿子 / 儿童 / 兒 / 兒子 / 兒童 / 公子 / 团 / 女婿 / 女婿 / 子 / 子女 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 /

公民
gōng mín
नागर
nāgara
公民 / 市民 /
公牛
gōng niú
गो
go
公牛 / 家畜 / 牛 /
गोण
goṇa
पुङ्गव
puṅgava
公羊
gōng yáng
उरब्भ
urabbha

六
liù
छ
cha
六 / 六個 /
六個
liù gè
छ
cha
六 / 六個 /

共享
gòng xiǎng
कोट्टास
koṭṭhāsa
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 股 / 股份 / 股票 / 部份 / 部分 /
पटिविस
paṭivimsa
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 股 / 股份 / 股票 / 部份 / 部分 /
पत्ति
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利润 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到来 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /
भाग
bhāga
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 分担 / 局部 / 幫派 / 派 / 派系 / 股 / 股份 / 股票 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

共同
gòng tóng
एकज्झं
ekajjhaṃ
一同 / 一塊兒 / 一起 / 一齊 / 全 / 共同 / 到一起 / 在一起 / 相聚 / 結伴 / 齊 / 齊 /

共用
gòng yòng
कोट्टास
koṭṭhāsa
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 股 / 股份 / 股票 / 部份 / 部分 /
पटिविस
paṭivimsa
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 股 / 股份 / 股票 / 部份 / 部分 /
पत्ति
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利润 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到来 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /
भाग
bhāga
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 分担 / 局部 / 幫派 / 派 / 派系 / 股 / 股份 / 股票 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

关心
guān xīn
आरक्खा
ārakkhā
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看守 / 看護 / 關心 / 關照 /
गोपन
gopana
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 注意 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 關心 / 關照 /
पटिजग्गन
paṭijaggana
修 / 修復 / 修理 / 修補 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 管理 / 脩 / 關心 / 關照 /
परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威^严 / 尊^严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

关键
guān jiàn
अपापुरण
apāpuraṇa
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
अवापुरण
avāpuraṇa
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
कुञ्चिका
kuñcikā
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
ताळ
tāla
乐 / 关键 / 樂 / 要害 / 譜 / 谱 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 / 音乐 / 音樂 /

兴
xīng
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 漲 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 漲 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /

兴致
xīng zhì
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 漲 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /

兴趣
xīng qù
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 漲 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 漲 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /

兵
bīng
बलढ्
balatṭha
兵 / 兵 / 兵家 / 兵家 / 卒 / 卒 / 士兵 / 士兵 / 小兵 / 小兵 / 軍人 / 軍人 /
बलढ्
balatṭha
兵 / 兵 / 兵家 / 兵家 / 卒 / 卒 / 士兵 / 士兵 / 小兵 / 小兵 / 軍人 / 軍人 /
बलत्थ
balatṭha
兵 / 兵家 / 卒 / 士兵 / 小兵 / 軍人 / 軍人 /
भट
bhaṭa
兵 / 兵家 / 卒 / 士兵 / 小兵 / 步兵 / 警察 / 軍人 /

兵器
bīng qì
आयुध
āyudha
兵器 / 利器 / 械 / 武器 /
आवुध
āvudha
兵器 / 利器 / 械 / 武器 /

兵家
bīng jiā
बलढ्
balatṭha
兵 / 兵 / 兵家 / 兵家 / 卒 / 卒 / 士兵 / 士兵 / 小兵 / 小兵 / 軍人 / 軍人 /
बलढ्
balatṭha
兵 / 兵 / 兵家 / 兵家 / 卒 / 卒 / 士兵 / 士兵 / 小兵 / 小兵 / 軍人 / 軍人 /

बलत्थ
balatṭha
兵 / 兵家 / 卒 / 士兵 / 小兵 / 軍人 / 軍人 /
भट
bhaṭa
兵 / 兵家 / 卒 / 士兵 / 小兵 / 步兵 / 警察 / 軍人 /

其
qí
एत
eta
其 / 彼 / 該 / 该 / 这个 / 这个 / 這 / 那 / 那 / 那个 / 那個 / 那天 /
एवरूप
evarūpa
其 / 如此 / 这样 /
तादिस
tādisa
其 / 如此 / 这样 /
तादिसक
tādisaka
其 / 如此 / 这样 /

其中
qí zhōng
अन्तरे
antare
之間 / 介 / 其中 / 当中 / 當中 / 芸芸 / 間 / 间 /

其他
qí tā
अञ्ज
añña
其他 / 其他人 / 其他的 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 別 / 别的 / 另 / 另一 / 另外 / 另外一个 / 另外的 / 警 /
इतर
itara
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 別 / 别的 / 另 / 另外 / 警 /
पर
para
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 別 / 别人 / 别的 / 另 / 另一個 / 另外 / 警 / 陌生人 /

其他人
qí tā rén
अञ्ज
añña
其他 / 其他人 / 其他的 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 別 / 别的 / 另 / 另一 / 另外 / 另外一个 / 另外的 / 警 /
इतर
itara
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 別 / 别的 / 另 / 另外 / 警 /
पर
para
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 別 / 别人 / 别的 / 另 / 另一個 / 另外 / 警 / 陌生人 /

其他的
qí tā de
अञ्ज
añña
其他 / 其他人 / 其他的 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 別 / 别的 / 另 / 另一 / 另外 / 另外一个 / 另外的 / 警 /
अपर
apara
其他的 / 另 / 另一 / 另外一个 / 另外的 / 然後 / 西 / 西 / 西域 / 西方的 / 西洋 / 西洋 /

其它
qí tā
अञ्ज
añña
其他 / 其他人 / 其他的 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 別 / 别的 / 另 / 另一 / 另外 / 另外一个 / 另外的 / 警 /
इतर
itara
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 別 / 别的 / 另 / 另外 / 警 /
पर
para
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 別 / 别人 / 别的 / 另 / 另一個 / 另外 / 警 / 陌生人 /

其它的
qí tā de
अञ्ज
añña
其他 / 其他人 / 其他的 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 別 / 别的 / 另 / 另一 / 另外 / 另外一个 / 另外的 / 警 /
इतर
itara
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 別 / 别的 / 另 / 另外 / 警 /
पर
para
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 別 / 别人 / 别的 / 另 / 另一個 / 另外 / 警 / 陌生人 /

其次
qí cì
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथो
atho
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

其次的
qí cì de
अनुग
anuga
下列 / 下列的 / 其次的 /

具
jù
उपकरण
upakaraṇa
乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 必需品 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

典礼
diǎn lǐ
उत्सव
ussava
儀式 / 典礼 / 典禮 / 礼 / 禮 /
मङ्गल
maṅgala
儀式 / 典礼 / 典禮 / 吉兆的 / 昌盛 / 泓 / 礼 / 禮 / 繁榮 / 繁荣 /
典禮
diǎn lǐ
उत्सव
ussava
儀式 / 典礼 / 典禮 / 礼 / 禮 /
मङ्गल
maṅgala
儀式 / 典礼 / 典禮 / 吉兆的 / 昌盛 / 泓 / 礼 / 禮 / 繁榮 / 繁荣 /

兼
jiān
अपि
api
与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 既使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /
च
ca
与 / 且 / 並 / 並且 / 也 / 以及 / 併 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 和 / 太 / 并 / 并且 / 暨 / 汰 / 而 / 而且 / 與 /
पन
pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /

兽
shòu
तिरच्छान
tiracchāna
兽 / 动物 / 动物性 / 動物 / 獸 / 畜牲 / 畜生 / 野兽 /
पसु
pasu
兽 / 动物 / 獸 / 畜牲 / 畜生 / 野兽 /

内部
nèi bù
अब्धन्तर
abbhantara
之內 / 內 / 內側 / 內部 / 內部 / 裡邊 / 裡面 / 裡頭 / 里 /
岡
gāng
कूट
kūṭa
上端 / 岡 / 坎 / 尖峰 / 山脊 / 山脊 / 岡 / 峙 / 峰 / 欺騙 / 突起 / 脊 / 脊 / 謊言 / 頂峰 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 高峰 /

冊
cè
पोत्थक
potṭhaka
书 / 书籍 / 冊 / 冊子 / 册 / 書 / 書本 / 本子 / 簿子 / 著作 / 著作 / 預定 /

冊子
cè zi
पोत्थक
potṭhaka
书 / 书籍 / 冊 / 冊子 / 册 / 書 / 書本 / 本子 / 簿子 / 著作 / 著作 / 預定 /

册
cè
पोत्थक
potṭhaka
书 / 书籍 / 冊 / 冊子 / 册 / 書 / 書本 / 本子 / 簿子 / 著作 / 著作 / 預定 /

再
zài
पुन
puna
一再 / 一遍 / 再 / 再一次 / 再度 / 再次 / 又 / 重新 /

再一次

पुन
puna
一再 / 一遍 / 再 / 再一次 / 再度 / 再次 / 又 / 重新 /

再三地

अभिपहसो
abhiṇhaso
一向 / 一律 / 从来 / 再三地 / 历来 / 向来 / 始终 / 始终 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /

再作

उत्तरि
uttari
再作 / 另外 / 更 / 更远的 / 此外 / 而且 / 進一步 / 附加的 /
उत्तरिं
uttariṃ
再作 / 另外 / 更 / 更远的 / 此外 / 而且 / 進一步 / 附加的 /
परो
paro
上述 / 上面 / 以上 / 再作 / 前述 / 向上 / 在上面 / 更 / 更远的 / 此外 / 進一步 /

再度

पुन
puna
一再 / 一遍 / 再 / 再一次 / 再度 / 再次 / 又 / 重新 /

再次

पुन
puna
一再 / 一遍 / 再 / 再一次 / 再度 / 再次 / 又 / 重新 /

再生

उपपत्ति
upapatti
再生 / 生 /
उपपत्ति
uppatti
來歷 / 再生 / 出身 / 原点 / 始源 / 本源 / 来历 / 根源 / 由来 / 血统 / 起源 /
जाति
jāti
再生 / 出生 / 出身 / 国 / 国家 / 民族 / 生下 / 生出 / 种族 / 種族 / 誕 / 诞 / 賽跑 / 賽馬 /
निब्वत्तन
nibbattana
再生 / 出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 /

冒
mào
परिस्सय
parissaya
冒 / 危 / 危险 / 危險物 / 危險 / 危險性 / 威胁 / 当儿 / 險 / 險 / 風險 / 风险 / 麻煩 /

冒煙

धूम
dhūma
冒煙 / 吸煙 / 火 / 烟 / 煙 / 煙霧 / 熏 / 爇 / 菸 /

冒犯

पधंस
padhaṃsa
冒犯 / 違反 / 違規 /

冕

किरीट
kirīṭa
冕 / 冠 / 冠冕 / 加冕 / 王冠 / 王权 /
मकुट
makuṭa
冕 / 冠 / 冠冕 / 加冕 / 王冠 /

冗长的

दीघ
dīgha
冗长的 / 多头 / 悠久 / 莘 / 长 / 长的 /

军

अनीक
aṇīka
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /
चम्
camū
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /
धजिनी
dhajinī
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /

बल
bala
军 / 军队 / 幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 勢力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /
बलकाय
balakāya
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /

军队
jūn duì
अनीक
aṇīka
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /
चम्
camū
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /
धजिनी
dhajinī
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /
बल
bala
军 / 军队 / 幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 勢力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /
बलकाय
balakāya
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /

农夫

कस्सक
kassaka
佃 / 农夫 / 农民 / 耕者 / 農夫 / 農民 /

农民

कस्सक
kassaka
佃 / 农夫 / 农民 / 耕者 / 農夫 / 農民 /

冠

किरीट
kirīṭa
冕 / 冠 / 冠冕 / 加冕 / 王冠 / 王权 /
चूळा
cūḷā
मकुट
makuṭa
冕 / 冠 / 冠冕 / 加冕 / 王冠 /

冠冕

किरीट
kirīṭa
冕 / 冠 / 冠冕 / 加冕 / 王冠 / 王权 /
मकुट
makuṭa
冕 / 冠 / 冠冕 / 加冕 / 王冠 /

冢
zhǒng
उरु
uru
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 大號 / 裝 / 裝 / 弘 / 恢 / 曼 / 極大 / 硕 / 莫大 / 觥 /
तुमुल
tumula
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 裝 / 裝 / 弘 / 恢 / 極大 / 盛大的 / 硕 / 莫大 / 觥 /

冥

अनुत्तान
anuttāna
冥 / 暗的 / 根深 / 模糊的 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 渊 / 湛 / 窈 / 罩 / 遂 /
कण्ह
kaṇha
乌 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 恶 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 溜 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪恶 / 邪恶的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
काळ
kāḷa
乌 / 冥 / 变黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 溜 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奥的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 渊 / 湛 / 窈 / 罩 / 遂 / 邈 /
गाध
gādha
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深度 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 渊 / 湛 / 窈 / 罩 / 遂 /
तिमिर
timira
乌 / 冥 / 幽暗 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
तिमिस
timisa
乌 / 冥 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /

冰雹

करका
karakā
冰雹 / 雹 / 雹子 /

冥想

झान
jhāna
冥想 / 打坐 / 沈思 / 沉思 / 默念 /

幕
mì
आधिपच्च
ādhipacca
幕 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 控制 / 斷電 / 權力 / 统治 /
आधिपतेय्य
ādhipateyya
幕 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 權力 /
आनुभाव
ānubhāva
幕 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 /

तेज

तेजा
光榮 / 光芒 / 光輝 / 幕 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 荣 /

शाम

thāma
幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 实力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /

पभाव

पabhāva
幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 强 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /

बल

बला
军 / 军队 / 幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 勢力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

冰雹

करका
karakā
冰雹 / 雹 / 雹子 /

决心

जुए खिन
अधिद्धान
adhittāna
决心 / 決心 / 決議 /
अधिमोक्ख
adhimokkha
决心 / 決心 /
धिति
dhiti
决心 / 勇气 / 勇氣 / 有勇氣 / 活力 / 精力 / 胆量 / 能源 / 能量 / 膽子 / 膽量 / 高能 /
पणिधान
paṇidhāna
决心 / 決心 /

况
kuàng
भाव
bhāva
况 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 情况 / 本性 / 本質 / 本质 / 條件 / 况 / 状态 / 自然 / 自然界 /

冷却
lěng què
नब्बापन
nabbāpana
冷却 / 冷卻 / 消失 /
निब्बान
nibbāna
冷却 / 冷卻 / 釋放 /

冷卻
lěng què
नब्बापन
nabbāpana
冷却 / 冷卻 / 消失 /
निब्बान
nibbāna
冷却 / 冷卻 / 釋放 /

冷靜
lěng jìng
अनिच्छा
anicchā

准备
zhǔn bèi
कल्ल
kalla
乖 / 伶 / 伶俐 / 伶俐 / 健全的 / 健康的 / 僮 / 准备 / 妙 / 就緒 / 就绪 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聪 / 聪明 / 聪明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /

准许
zhǔn xǔ
ओकास
okāsa
准许 / 机会 / 機會 / 空地 / 空地 / 空間 / 許可 /

几
jǐ
कतिपय
katipaya
一些 / 一番 / 些 / 几 / 几个 / 好几 / 好幾 / 幾個 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某些 / 若干 /

几个
jǐ gè
कतिपय
katipaya
一些 / 一番 / 些 / 几 / 几个 / 好几 / 好幾 / 幾個 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某些 / 若干 /

几乎
jī hū
उपन्तिक
upantika
几乎 / 差不多 / 差不多 / 迄 / 近 / 近乎 / 近乎 / 鄰近 / 靠近 /

凡
fán
असेस
asesa
一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全部 / 全體 / 凡 / 凡是 / 圓 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /

निखिल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全部 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 圓 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
निस्सेस
nissesa
一切 / 全部 / 全部的 / 全體 / 凡 / 凡是 / 圓 / 均 / 完全 / 完全地 / 所有 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 胥 / 芸芸 / 通通 /

凡人
fán rén
मच्च
macca
人 / 会死 / 凡人 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 會死 / 男人 / 男子 / 男子漢 /

凡是
fán shì
असेस
asesa
一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全部 / 全體 / 凡 / 凡是 / 圓 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
निखिल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全部 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 圓 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /

निखिल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全部 / 全體 / 凡 / 凡是 / 圓 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
निस्सेस
nissesa
一切 / 全部 / 全部的 / 全體 / 凡 / 凡是 / 圓 / 均 / 完全 / 完全地 / 所有 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 胥 / 芸芸 / 通通 /

凶
xiōng
अतिघोर
atighora
凶 / 可怕 / 可怕的 / 可怖 /
घोर
ghora
了不得 / 了不得 / 凶 / 可怕 / 可怕的 / 可怖 /

凶兆
xiōng zhào
अवमङ्गल
avamaṅgala
不吉利的 / 凶兆 /

出
chū
बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /

出任
chū rèn
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

出入口
chū rù kǒu
कोट्टक
koṭṭhaka
儲藏室 / 出入口 / 堡垒 / 壁櫥 / 寨 / 砦 / 要塞 / 要塞 /
गोपुर
gopura

出動
chū dòng
बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /

出
chū
निग्गम
niggama
出去 / 結果 / 離開 /
बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /

出名
chū míng de
पाकट
pākāṭa
出品
चुधु पिन्
पचारक
pacāraka
出品 / 出版者 / 发行人 /

出現
chū xiàn
अवभास
avabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 出現 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

出場
chū chǎng
आकार
ākāra
亮相 / 出場 / 境界 / 外表 / 外观 / 外貌 / 容貌 / 情况 / 样子 / 模樣 / 樣子 / 相貌 / 色 / 貌 / 面貌 /

出处
chū chǔ
निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /
पभव
pabhava
來歷 / 來源 / 出处 / 出身 / 原点 / 始源 / 开始 / 朔 / 本源 / 来历 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 由来 / 血统 / 起源 /

出局
chū jú
बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /

出擊
chū jī
अधिपतन
adhipatana
侵襲 / 出擊 / 征 / 抨 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 發作 / 行凶 / 跳躍 /
उपक्कम
upakkama
侵襲 / 出擊 / 征 / 意指 / 手段 / 抨 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 方式 / 方法 / 發作 / 行凶 /

出於
chū yú
बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /

出版者
chū bǎn zhě
पचारक
pacāraka
出品 / 出版者 / 发行人 /

出現
chū xiàn
अवभास
avabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 出現 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

出生
chū shēng
उप्पज्जन
uppajjana
出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 /
उप्पाद
uppāda
上升 / 出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 血统 / 誕 / 诞 / 起源 /
जाति
jāti

再生 / 出生 / 出身 / 国 / 国家 / 民族 / 生下 / 生出 / 种族 / 種族 / 誕 / 诞 / 賽跑 / 賽馬 /
जायन

jāyana
出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 /
निब्बत्तन
nibbattana
再生 / 出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 /
पजायन
pajāyana
出生 / 出身 / 存在 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 /

出發
chū fā
निय्यान
niyyāna
出發 / 外出 / 放松 / 救出 / 釋放 /

出色
chū sè
तपन
tapana
光亮 / 光明 / 出色 / 快活 / 明亮 / 輝 /

出身
chū shēn
उद्गन
uṭṭhāna
上升 / 业 / 來歷 / 出身 / 原点 / 始源 / 工業 / 本源 / 来历 / 根源 / 業 / 活力 / 由来 / 精力 / 能源 / 能量 / 血统 / 行業 / 起源 / 高能 /
उप्पज्जन
uppajjana
出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 /
उप्पत्ति
uppatti
來歷 / 再生 / 出身 / 原点 / 始源 / 本源 / 来历 / 根源 / 由来 / 血统 / 起源 /
उप्पाद
uppāda
上升 / 出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 血统 / 誕 / 诞 / 起源 /
जाति
jāti
再生 / 出生 / 出身 / 国 / 国家 / 民族 / 生下 / 生出 / 种族 / 種族 / 誕 / 诞 / 賽跑 / 賽馬 /
जायन
jāyana
出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 /
निब्बत्तन
nibbattana
再生 / 出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 /
पजायन
pajāyana
出生 / 出身 / 存在 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 /
पभव
pabhava
來歷 / 來源 / 出处 / 出身 / 原点 / 始源 / 开始 / 朔 / 本源 / 来历 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 由来 / 血统 / 起源 /

出門
chū mén
बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /

函
hán
अकखर
akkhara
信 / 信件 / 函 / 字母 / 音節 /
पण्ण
paṇṇa
信 / 信件 / 函 / 叶 / 字母 / 箔 / 葉 / 菓子 / 页 /
पण्णक
paṇṇaka
信 / 信件 / 函 / 叶 / 字母 / 箔 / 葉 / 菓子 / 页 /

刃
rèn
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 涓 / 眇 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 終結 / 結束 / 緣 / 邊 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

分
fēn
खण
khaṇa
一刻 / 分 / 分鐘 / 分钟 / 时刻 / 时机 / 時刻 / 時機 / 會兒 / 机会 / 機會 / 片刻 / 瞬間 / 瞬間 / 關頭 /

分享
fēn xiǎng
कोट्टास
koṭṭhāsa
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 股 / 股份 / 股票 / 部份 / 部分 /
पटिविंस
paṭivimsa
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 股 / 股份 / 股票 / 部份 / 部分 /
पत्ति
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利潤 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到来 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /
भाग
bhāga
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 分担 / 局部 / 幫派 / 派 / 派系 / 股 / 股份 / 股票 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

分化
fēn huà
भेदन
bhedana
分化 / 分裂 /

分发
fēn fā
ओनोजन
onojana
分发 / 分布状态 / 分發 / 分配 /
分布状态
fēn bù zhuàng tài

ओनोजन
onojana
分发 / 分布状态 / 分發 / 分配 /
分開
fēn kāi
पच्चेक
pacceka
分开 / 分開 / 分離 / 各自的 /

分心
fēn xīn
उद्धच
uddhacca
傲慢 / 分心 /

分担
fēn dān
भाग
bhāga
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 分担 / 局部 / 幫派 / 派 / 派系 / 股 / 股份 / 股票 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

分發
fēn fā
ओनोजन
onojana
分发 / 分布状态 / 分發 / 分配 /

分裂
fēn liè
भेद
bheda
分裂 / 分離 /
भेदन
bhedana
分化 / 分裂 /

分解
fēn jiě
भङ्ग
bhaṅga
分解 / 瓦解 / 解散 /

分配
fēn pèi
ओनोजन
onojana
分发 / 分布状态 / 分發 / 分配 /

分配者
fēn pèi zhě
पदानु
padānu
भागो
bhāgī

分鐘
fēn zhōng
खण
khaṇa
一刻 / 分 / 分鐘 / 分钟 / 时刻 / 时机 / 時刻 / 時機 / 會兒 / 机会 / 機會 / 片刻 / 瞬間 / 瞬間 / 關頭 /

分钟
fēn zhōng
खण
khaṇa
一刻 / 分 / 分鐘 / 分钟 / 时刻 / 时机 / 時刻 / 時機 / 會兒 / 机会 / 機會 / 片刻 / 瞬間 / 瞬間 / 關頭 /

分開
fēn kāi
पच्चेक
pacceka
分开 / 分開 / 分離 / 各自的 /

分離
fēn lí
पच्चेक
pacceka
分开 / 分開 / 分離 / 各自的 /
भेद
bheda
分裂 / 分離 /

切除
qiè chú
उच्चार
ubbhāra
切除 / 撤退 /
पहान
pahāna
切除 / 避免 /

刊登
kān dēng
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 靡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 腳 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 郵件 / 郵政 / 部位 /

刑
xíng
दण्ड
danḍa
刑 / 刑罰 / 处罰 / 懲罰 / 懲罰 / 柄 / 梗 / 罰金 / 莖 / 蒂 /

刑事
xíng shì
अपराधी
aparādhi
刑事 / 犯罪的 / 罪犯 /

刑罰
xíng fá
दण्ड
danḍa
刑 / 刑罰 / 处罰 / 懲罰 / 懲罰 / 柄 / 梗 / 罰金 / 莖 / 蒂 /

列
liè
पन्ति
panti
一串 / 串 / 列 / 行 /

列出
liè chū
उद्दान
uddāna
串 / 列出 / 列表 / 单子 / 名单 / 名單 / 束 / 目錄 / 群 / 譜 /
列表
liè biǎo
उद्दान
uddāna
串 / 列出 / 列表 / 单子 / 名单 / 名單 / 束 / 目錄 / 群 / 譜 /

则
zé
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथो
atho
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 現在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

剛才
gāng cái
अधुना
adhunā
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 最近 / 最近地 / 此刻 / 此時 / 現 / 现在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 / 而今 / 近來 / 近日 / 近來 /

इदानी
idāni
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 現 / 现在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /

एतरहि
etarahi
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 現 / 现在 / 現在 / 目前 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /
तु
tu

不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 現在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

刚过去的
gāng guò qù de
पच्छिम
pacchima
刚过去的 / 往西 / 往西 / 最低的 / 最后 / 最后的 / 最後的 / 最新 / 最近的 / 最遲 / 西 / 西 / 西域 / 西方的 / 西洋 / 西洋 /

創造者
chuàng zào zhě
इस्सर
issara
主 / 主人 / 創造者 / 大師 / 好手 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 統治者 / 老爺 / 造物主 / 領主 /
कमलासन
kamalāsana
創造者 / 造物主 /
ब्रह्म
brahma
創造者 / 梵 / 造物主 /

判定

判斷
pàn dīng
अकखदस्स
akkhadassa
判定 / 判斷 / 推事 / 法官 / 裁判 /
判斷
pàn duàn
अकखदस्स
akkhadassa
判定 / 判斷 / 推事 / 法官 / 裁判 /

別
bié
अञ्ज
añña
其他 / 其他人 / 其他的 / 其它 / 其它的 / 別 / 別的 / 別 / 別的 / 另 / 另一 / 另外 / 另外一个 / 另外的 / 另一个 /
इतर
itara
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 別的 / 別 / 別的 / 另 / 另外 / 另一个 / 另外的 / 另一个 /
पर
para
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 別的 / 別 / 別人 / 別的 / 另 / 另一個 / 另外 / 另一个 / 另外的 /

別的
bié de
अञ्ज
añña
其他 / 其他人 / 其他的 / 其它 / 其它的 / 別 / 別的 / 別 / 別的 / 另 / 另一 / 另外 / 另外一个 / 另外的 / 另一个 /
इतर
itara
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 別的 / 別 / 別人 / 別的 / 另 / 另外 / 另一个 / 另外的 / 另一个 /
पर
para
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 別的 / 別 / 別人 / 別的 / 另 / 另一個 / 另外 / 另一个 / 另外的 /

別處
bié chù
अञ्जत्र
aññatra

利
lì
आनिसंस
ānisamsa
值得 / 值得 / 利 / 利潤 / 利潤 / 功 / 贏 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
आय
āya
利 / 利潤 / 利潤 / 贏 / 定期收入 / 成果 / 收 / 收入 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
उपभोग
upabhoga
使用 / 利 / 利潤 / 利潤 / 利用 / 可享受的 / 贏 / 收益 / 施用 / 潤 / 潤 / 獲利 / 用 / 用法 / 用途 / 盈利 / 获利 / 裨益 / 运用 / 運用 /
पत्ति
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利潤 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到來 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /

利器
lì qì
आयुध
āyudha
兵器 / 利器 / 械 / 武器 /
आवुध
āvudha
兵器 / 利器 / 械 / 武器 /

利害
lì hài
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 涨 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /

利害关系
lì hài guān xì
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 涨 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /

利息
lì xī
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 涨 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 涨 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /

利潤
lì rùn
आनिसंस
ānisamsa
值得 / 值得 / 利 / 利潤 / 利潤 / 功 / 贏 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
आय
āya
利 / 利潤 / 利潤 / 贏 / 定期收入 / 成果 / 收 / 收入 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
उपभोग
upabhoga
使用 / 利 / 利潤 / 利潤 / 利用 / 可享受的 / 贏 / 收益 / 施用 / 潤 / 潤 / 獲利 / 用 / 用法 / 用途 / 盈利 / 获利 / 裨益 / 运用 / 運用 /
पत्ति
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利潤 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到來 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /

利潤
lì rùn
आनिसंस
ānisamsa
值得 / 值得 / 利 / 利潤 / 利潤 / 功 / 贏 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
आय
āya
利 / 利潤 / 利潤 / 贏 / 定期收入 / 成果 / 收 / 收入 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
उपभोग
upabhoga
使用 / 利 / 利潤 / 利潤 / 利用 / 可享受的 / 贏 / 收益 / 施用 / 潤 / 潤 / 獲利 / 用 / 用法 / 用途 / 盈利 / 获利 / 裨益 / 运用 / 運用 /

利害
lì rùn
आनिसंस
ānisamsa
值得 / 值得 / 利 / 利潤 / 利潤 / 功 / 贏 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
आय
āya
利 / 利潤 / 利潤 / 贏 / 定期收入 / 成果 / 收 / 收入 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
उपभोग
upabhoga
使用 / 利 / 利潤 / 利潤 / 利用 / 可享受的 / 贏 / 收益 / 施用 / 潤 / 潤 / 獲利 / 用 / 用法 / 用途 / 盈利 / 获利 / 裨益 / 运用 / 運用 /
पत्ति
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利潤 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到來 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /

利害
lì rùn
आनिसंस
ānisamsa
值得 / 值得 / 利 / 利潤 / 利潤 / 功 / 贏 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
आय
āya
利 / 利潤 / 利潤 / 贏 / 定期收入 / 成果 / 收 / 收入 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
उपभोग
upabhoga
使用 / 利 / 利潤 / 利潤 / 利用 / 可享受的 / 贏 / 收益 / 施用 / 潤 / 潤 / 獲利 / 用 / 用法 / 用途 / 盈利 / 获利 / 裨益 / 运用 / 運用 /
पत्ति
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利潤 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到來 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /

利用
lì yòng
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 谛 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /
अत्थवस
atthavasa
使用 / 利用 / 动机 / 原因 / 因 / 情理 / 故 / 施用 / 理 / 理性 / 理由 / 用 / 用法 / 用途 / 由 / 緣故 / 运用 / 運用 / 道理 /
उपभोग
upabhoga
使用 / 利 / 利潤 / 利潤 / 利用 / 可享受的 / 贏 / 收益 / 施用 / 潤 / 潤 / 獲利 / 用 / 用法 / 用途 / 盈利 / 获利 / 裨益 / 运用 / 運用 /
पयोजन
payojana
使用 / 利用 / 從事 / 施用 / 用 / 用法 / 用途 / 运用 / 運用 /
परिभोग
paribhoga
享受 / 使用 / 利用 / 愉快 / 施用 / 用 / 用法 / 用途 / 运用 / 運用 /

利益
lì yì
आमिस
āmisa
利益 / 材 / 材料 / 材質 / 物质 / 物质的 / 素材 / 肉 / 肉體 / 血肉 / 誘餌 / 诱惑 / 食 / 食品 / 食物 / 餌 / 饭 / 饵 /
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 涨 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /
उपकप्पन
upakappana

別
bié
अञ्ज
añña
其他 / 其他人 / 其他的 / 其它 / 其它的 / 別 / 別的 / 別 / 別的 / 另 / 另一 / 另外 / 另外一个 / 另外的 / 另一个 /
इतर
itara
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 別的 / 別 / 別人 / 別的 / 另 / 另外 / 另一个 / 另外的 / 另一个 /
पर
para
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 別的 / 別 / 別人 / 別的 / 另 / 另一個 / 另外 / 另一个 / 另外的 /

別人
bié rén
पर
para
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 別的 / 別 / 別人 / 別的 / 另 / 另一個 / 另外 / 另一个 / 另外的 /

別的
bié de
अञ्ज
añña
其他 / 其他人 / 其他的 / 其它 / 其它的 / 別 / 別的 / 別 / 別人 / 別的 / 另 / 另一 / 另外 / 另外一个 / 另外的 / 另一个 /
इतर
itara
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 別的 / 別 / 別人 / 別的 / 另 / 另外 / 另一个 / 另外的 / 另一个 /
पर
para
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 別的 / 別 / 別人 / 別的 / 另 / 另一個 / 另外 / 另一个 / 另外的 /

刮掉
guā diào
अपलिखन
apalikhana
到一起
dào yī qǐ
एकज्झं
ekajjham
一同 / 一塊兒 / 一起 / 一齊 / 全 / 共同 / 到一起 / 在一起 / 相聚 / 結伴 / 齊 / 齐 /

到任
dào rèn
अनुपपत्ति
anuppatti
到任 / 到來 / 到來 / 抵达 / 抵達 /
अब्भागमन
abbhāgamana
到任 / 到來 / 到來 / 抵达 / 抵達 /
आगमन
āgamana
到任 / 到來 / 到來 / 抵达 / 抵達 / 接近的 /
पत्ति
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利潤 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到來 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /

到位
dào wèi
ठान
ṭhāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 靡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 款 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 靡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /
पदेस
padesa
交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到位 / 區域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 斑 / 斑點 / 身份 / 部位 /

到來
dào lái
अनुपपत्ति
anuppatti
到任 / 到來 / 到来 / 抵达 / 抵達 /
अब्भागमन
abbhāgamana
到任 / 到來 / 到来 / 抵达 / 抵達 /
आगमन
āgamana
到任 / 到來 / 到来 / 抵达 / 抵達 / 接近的 /
पत्ति
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利潤 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到来 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /

到手
dào shǒu
कर
kara
一手 / 伸手 / 光線 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 指甲 / 稅 / 稅 / 笔迹 /
पाणि
pāṇi
一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 掌 / 掌心 / 棕 / 笔迹 /
भुज
bhuja
一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手臂 / 手臂 / 手邊 / 手頭 / 笔迹 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /

到期
dào qī
परिपाक
paripāka
到期 / 成熟 /
到來
dào lái
अनुपपत्ति
anuppatti
到任 / 到來 / 到来 / 抵达 / 抵達 /
अब्भागमन
abbhāgamana
到任 / 到來 / 到来 / 抵达 / 抵達 /
आगमन
āgamana
到任 / 到來 / 到来 / 抵达 / 抵達 / 接近的 /
पत्ति
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利潤 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到来 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /

到達
dào dá
पत्तुं
pattum
到達 / 抵 / 獲得 / 达 / 達 / 達到 /
制
zhì
जाय
ñāya
制 / 制度 / 方法 / 模式 / 系統 / 系統 / 製 / 順序 / 體制 / 體系 /
制度
zhì dù
जाय
ñāya
制 / 制度 / 方法 / 模式 / 系統 / 系統 / 製 / 順序 / 體制 / 體系 /
制裁

zhì cái
अनुज्ञा
anuññā
制裁 / 同意 / 批准 / 支援 / 裁 / 許可 / 認可 /
刷
shuā
कोच्छ
koccha
刷 / 刷子 / 毛刷 /
刷子
shuā zi
कोच्छ
koccha
刷 / 刷子 / 毛刷 /

brush
刷 / 刷子 / 毛刷 /

券
quàn
कम्म
kamma
事 / 作用 / 做事 / 券 / 動作 / 勞工 / 在職 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 業 / 活兒 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 行動 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
किच्य
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
किरिय
kiriya
作用 / 券 / 動作 / 性能 / 績 / 績 / 绩 / 行动 / 行動 / 表現 /

刺
cì
नित्तुदन
nittudana
刺探
cì tàn
अवचरक
avacaraka
刺探 / 密探 / 特務 / 狙 / 耳目 / 諜 / 諜 / 間諜 / 間諜 /

刺棒
cì bàng
पतोद
patoda
刺棒 / 棒 / 駕駛 /
पाचन
pācana
पाजन
pājana
刺棒 / 駕駛 /

刺激
cì jī
अनुबल
anubala
刺激 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 激勵 /
उब्बेग
ubbega
कुतूहल
kutūhala
कोतूहल
kotūhala
刺激 / 好奇心 /
刺穿
cì chuān
निब्बेध
nibbedha
侵入 / 刺穿 / 滲透 / 滲透 /

刺骨的
cì gǔ de
तिप्प
tippa
刺骨的 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 急性 / 犀利 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
तिब्ब
tibba
剃刀
tì dāo
खुर
khura
剃刀 / 蹄 /

則
zé
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथो
atho
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 則 / 剛才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

削皮
xuē pí
तच
taca
削皮 / 剝 / 剥 / 吠 / 壳 / 壳 / 树皮 / 犬吠 / 皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 肌膚 / 肤 /
前兆
qián zhào
निमित्त
nimitta
兆 / 兆头 / 先兆 / 前兆 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 徵兆 / 情理 / 故 / 标记 / 理 / 理由 / 由 / 緣故 / 迹象 / 道理 / 預兆 /

前台
qián tái
पटिग्गह्न
paṭiggahaṇa
前台 / 接受 / 接待 /

前方
qián fāng
अभिमुख
abhimukha
前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前邊 / 前部 / 前面 / 向 / 正面 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 /
पमुख
pamukha
主要的 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 本金 / 正面 / 资本 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 首席 / 魁 /
मुख
mukha
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 鶯 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

前程
qián chéng
अनागत
anāgata
他日 / 前程 / 前途 / 将来 / 將來 / 日后 / 日後 / 未來 / 未来 / 未来的 /
आयति
āyati
他日 / 前程 / 前途 / 将来 / 將來 / 日后 / 日後 / 未來 / 未来 / 未来的 /

前端
qián duān
अभिमुख
abhimukha
前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前邊 / 前部 / 前面 / 向 / 正面 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 /
पमुख
pamukha
主要的 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 本金 / 正面 / 资本 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 首席 / 魁 /
मुख
mukha
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 鶯 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

前線
qián xiàn
अभिमुख
abhimukha
前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 向 / 正面 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 /
पमुख
pamukha
主要的 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 本金 / 正面 / 资本 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 首席 / 魁 /
मुख
mukha
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 觜 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

前线
qián xiàn
अभिमुख
abhimukha
前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 向 / 正面 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 /
पमुख
pamukha
主要的 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 本金 / 正面 / 资本 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 首席 / 魁 /
मुख
mukha
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 觜 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

前述
qián shù
उद्दं
uddhaṃ
上述 / 上面 / 以上 / 前述 / 因此 / 在上面 /
उपरि
upari
上 / 上述 / 上面 / 之上 / 于 / 以上 / 前述 / 在 / 就 / 最高的 /
परो
paro
上述 / 上面 / 以上 / 再作 / 前述 / 向上 / 在上面 / 更 / 更远的 / 此外 / 進一步 /

前途
qián tú
अनागत
anāgata
他日 / 前程 / 前途 / 将来 / 將來 / 日后 / 日後 / 未來 / 未来 / 未来的 /
आयति
āyati
他日 / 前程 / 前途 / 将来 / 將來 / 日后 / 日後 / 未來 / 未来 / 未来的 /

前進
qián jìn
पवत्तन
pavattana
前進 / 執行 / 存在 / 存在物 / 实存 / 生存 /
前邊
qián biān
अभिमुख
abhimukha
前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 向 / 正面 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 /
पमुख
pamukha
主要的 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 本金 / 正面 / 资本 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 首席 / 魁 /
मुख
mukha
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 觜 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

मुख
mukha
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 觜 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /
前部
qián bù
अभिमुख
abhimukha
前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 向 / 正面 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 /
धुर
dhura
任 / 任職 / 前部 / 处 / 处 / 接近的 / 最初的 / 最前部 / 职 / 職 / 處 / 費用 / 辦公 / 辦公室 /
पमुख
pamukha
主要的 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 本金 / 正面 / 资本 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 首席 / 魁 /
मुख
mukha
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 觜 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

剥
bō
तच
taca
削皮 / 剥 / 剥 / 吠 / 壳 / 壳 / 树皮 / 犬吠 / 皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 肌膚 / 肤 /
剝奪
bō duó
जानि
jāni
伉 / 剝奪 / 剥夺 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 损失 / 損失 / 爱人 / 老婆 / 茫然 / 败 /
剥
bō
तच
taca
削皮 / 剥 / 剥 / 吠 / 壳 / 壳 / 树皮 / 犬吠 / 皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 肌膚 / 肤 /
剥夺
bō duó
जानि
jāni
伉 / 剝奪 / 剥夺 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 损失 / 損失 / 爱人 / 老婆 / 茫然 / 败 /

剪
jiǎn
कत्तरि
kattari
剪 / 剪刀 / 剪子 / 翦 /
कत्तरिका
kattarikā
剪 / 剪刀 / 剪子 / 翦 /
पिप्फल
pipphala
剪 / 剪刀 / 剪子 / 翦 /
पिप्फलक
pipphalaka
剪 / 剪刀 / 剪子 / 翦 /

前面
qián miàn
अभिमुख
abhimukha
前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 向 / 正面 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 /
पमुख
pamukha
主要的 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 本金 / 正面 / 资本 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 首席 / 魁 /
मुख
mukha
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 觜 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

剝
bō
तच
taca
削皮 / 剥 / 剥 / 吠 / 壳 / 壳 / 树皮 / 犬吠 / 皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 肌膚 / 肤 /
剝奪
bō duó
जानि
jāni
伉 / 剝奪 / 剥夺 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 损失 / 損失 / 爱人 / 老婆 / 茫然 / 败 /

剥
bō
तच
taca
削皮 / 剥 / 剥 / 吠 / 壳 / 壳 / 树皮 / 犬吠 / 皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 肌膚 / 肤 /
剥夺
bō duó
जानि
jāni
伉 / 剝奪 / 剥夺 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 损失 / 損失 / 爱人 / 老婆 / 茫然 / 败 /

剪
jiǎn
कत्तरि
kattari
剪 / 剪刀 / 剪子 / 翦 /
कत्तरिका
kattarikā
剪 / 剪刀 / 剪子 / 翦 /
पिप्फल
pipphala
剪 / 剪刀 / 剪子 / 翦 /
पिप्फलक
pipphalaka
剪 / 剪刀 / 剪子 / 翦 /

剪刀
jiǎn dāo
कत्तरि
kattari
剪 / 剪刀 / 剪子 / 翦 /
कत्तरिका
kattarikā
剪 / 剪刀 / 剪子 / 翦 /
पिप्फल
pipphala
剪 / 剪刀 / 剪子 / 翦 /
पिप्फलक
pipphalaka
剪 / 剪刀 / 剪子 / 翦 /

剪子
jiǎn zi
कत्तरि
kattari
剪 / 剪刀 / 剪子 / 翦 /
कत्तरिका
kattarikā
剪 / 剪刀 / 剪子 / 翦 /
पिप्फल
pipphala
剪 / 剪刀 / 剪子 / 翦 /
पिप्फलक
pipphalaka
剪 / 剪刀 / 剪子 / 翦 /

副本
fù běn
पटिबिम्ब
paṭibimba
偶 / 像 / 副本 / 印像 / 反映 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /

力
lì
आधिपच्च
ādhipacca
冪 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 冪 / 強國 / 强权 / 控制 / 斷電 / 權力 / 统治 /
आधिपतेय्य
ādhipateyya
冪 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 冪 / 強國 / 强权 / 斷電 / 權力 /
आनुभाव
ānubhāva
冪 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 冪 / 強國 / 强权 / 斷電 / 權力 / 权力 / 權力 /
जव
java
力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 势力 / 实力 / 快慢 / 速 / 速力 / 速度 / 速率 / 飛車 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 冪 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 冪 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 荣 /
शाम
thāma
冪 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 实力 / 冪 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /
पभाव
pabhāva
冪 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 强 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /
बल
bala
军 / 军队 / 冪 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 势力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 冪 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

力气
lì qì

जव
java
力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 势力 / 实力 / 快慢 / 速 / 速力 / 速度 / 速率 / 飛車 /
थाम
thāma
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /
पभाव
pabhāva
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 强 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /
बल
bala
军 / 军队 / 幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

力氣
lì qì

जव
java
力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 势力 / 实力 / 快慢 / 速 / 速力 / 速度 / 速率 / 飛車 /
थाम
thāma
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /
पभाव
pabhāva
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 强 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /
बल
bala
军 / 军队 / 幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /
दोष
quàn gào
अनुसिद्धि
anusit̥ṭhi
劝告 / 諮詢 / 忠告 / 警告 /
उपदेस
upadesa
劝告 / 諮詢 / 忠告 / 指令 / 指示 /
उपदिसन
upadisana
劝告 / 諮詢 / 忠告 /
ओवाद
ovāda
劝告 / 諮詢 / 忠告 / 指令 / 指示 /

力量
lì liàng

आधिपच्च
ādhipacca
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 控制 / 斷電 / 權力 / 统治 /
आधिपतेय्य
ādhipateyya
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 權力 /
आनुभाव
ānubhāva
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 權力 /
जव
java
力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 势力 / 实力 / 快慢 / 速 / 速力 / 速度 / 速率 / 飛車 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 榮 /
थाम
thāma
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /
पभाव
pabhāva
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 强 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /
बल
bala
军 / 军队 / 幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

劝告
quàn gào
अनुसिद्धि
anusit̥ṭhi
劝告 / 諮詢 / 忠告 / 警告 /
उपदेस
upadesa
劝告 / 諮詢 / 忠告 / 指令 / 指示 /
उपदिसन
upadisana
劝告 / 諮詢 / 忠告 /
ओवाद
ovāda
劝告 / 諮詢 / 忠告 / 指令 / 指示 /

办事处
bàn shì chǔ

अधिकार
adhikāra
任 / 任職 / 办事处 / 办公室 / 厅 / 处 / 处 / 廨 / 管理 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 辦公 / 辦公室 /
办公室
bàn gōng shì

अधिकार
adhikāra
任 / 任職 / 办事处 / 办公室 / 厅 / 处 / 处 / 廨 / 管理 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 辦公 / 辦公室 /
ठान
ṭhāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到到 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廨 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 歎 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到到 / 办公室 / 动机 / 原因 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廨 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /

办法
bàn fǎ

पथ
patha
中 / 修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /
पन्थ
pantha
修路 / 办法 / 径 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
मग्ग
magga
修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /

मग्ग
magga
修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /

功
gōng

आधिपच्च
ādhipacca
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 控制 / 斷電 / 權力 / 统治 /
आधिपतेय्य
ādhipateyya
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 權力 /
आनुभाव
ānubhāva
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 權力 /
आनिसंस
ānisamsa
值得 / 值得 / 利 / 利润 / 利潤 / 功 / 贏 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 榮 /
थाम
thāma
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /
पुञ्ज
puñña
值得 / 值得 / 功 / 正義 /
बल
bala
军 / 军队 / 幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

功夫
gōng fū

कला
kalā
功夫 / 美术 / 艺术 / 藝術 /

功率
gōng lǜ

आधिपच्च
ādhipacca
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 控制 / 斷電 / 權力 / 统治 /
आधिपच्च
ādhipacca
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 控制 / 斷電 / 權力 / 统治 /
आधिपतेय्य
ādhipateyya
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 權力 /
आधिपतेय्य
ādhipateyya
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 權力 /
आनुभाव
ānubhāva
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 權力 /
आनुभाव
ānubhāva
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 榮 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 榮 /
थाम
thāma
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /
थाम
thāma
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /
पभाव
pabhāva
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 强 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /
पभाव
pabhāva
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 强 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /

बल
bala
 军 / 军队 / 冪 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 勢力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 冪 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /
बल
bala
 军 / 军队 / 冪 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 勢力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 冪 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

功能

गङ्ग नंग

किच्य
kipca
 东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

加上星号

जिां शंंग खिं हॉ

उळ
uḷu
 五星 / 加上星号 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
जोति
joti
 五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /

तारका
tārakā
 五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
तारा
tārā
 五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
नक्खत्त
nakkhatta
 五星 / 加上星号 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 /

加價
jiā jià
 अभि्वड्ढन
abhivaḍḍhana
 加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 生長 / 益 / 茁 /
उगम
uggama
 上升 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 增長 / 崛起 / 攀升 / 漲 / 漲 / 益 / 興起 / 茁 /
उदय
udaya
 上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 漲 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /

उन्नति
unnati
 上升 / 加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 提高 / 海拔 / 益 / 茁 / 超升 /
उपब्रूहन
upabrūhana
 加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 擴大 / 益 / 茁 /
पवड्ढन
pavaḍḍhana
 加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 益 / 茁 / 長大 /
फातिकम्म
phātikamma
 加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 复原 / 复职 / 恢复 / 恢復 / 益 / 茁 /

加冕
jiā miǎn
 किरीट
kirīṭa
 冕 / 冠 / 冠冕 / 加冕 / 王冠 / 王权 /
मकुट
makuṭa
 冕 / 冠 / 冠冕 / 加冕 / 王冠 /

加糖
jiā táng
 गुळ
gula
 加糖 / 地球 / 地球 / 方糖 / 球 / 糖 / 糖蜜 /
劣等的
liè děng dě
 ओम
oma
 ओमक
omaka
 दुडुल्ल
duṭṭhulla
 下流的 / 劣等的 /

加大
jiā dà
 अभि्वड्ढन
abhivaḍḍhana
 加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 生長 / 益 / 茁 /
उगम
uggama
 上升 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 增長 / 崛起 / 攀升 / 漲 / 漲 / 益 / 興起 / 茁 /
उदय
udaya
 上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 漲 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /

उन्नति
unnati
 上升 / 加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 提高 / 海拔 / 益 / 茁 / 超升 /
उपब्रूहन
upabrūhana
 加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 擴大 / 益 / 茁 /
पवड्ढन
pavaḍḍhana
 加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 益 / 茁 / 長大 /
फातिकम्म
phātikamma
 加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 复原 / 复职 / 恢复 / 恢復 / 益 / 茁 /

加熱
jiā rè
 उण्ह
uṇha
 加熱 / 惹火 / 暑 / 火爆 / 火辣 / 燙 / 热 / 热气 / 热的 / 熱 / 熱氣 / 燙 / 辣 /
加糖
jiā táng
 गुळ
gula
 加糖 / 地球 / 地球 / 方糖 / 球 / 糖 / 糖蜜 /

劣等的
liè děng dě
 ओम
oma
 ओमक
omaka
 दुडुल्ल
duṭṭhulla
 下流的 / 劣等的 /

动机
dòng jī
 अत्थवस
atthavasa
 使用 / 利用 / 动机 / 原因 / 因 / 情理 / 故 / 施用 / 理 / 理性 / 理由 / 用 / 用法 / 用途 / 由 / 緣故 / 运用 / 運用 / 道理 /
अपदेस
apadesa
 动机 / 原因 / 因 / 声明 / 声明书 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 聲明 / 說法 / 说法 / 道理 / 陈述 / 陳述 /
कारण
kāraṇa
 动机 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 道理 /
ठान
thāna
 任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到 ^レ 位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 狀 / 理 / 理性 / 理由 / 環 ^レ 境 / 由 / 留 / 留下 / 緣 ^レ 故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗 ^レ 留 / 道理 / 部位 /
पद
pada
 一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到 ^レ 位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣 ^レ 故 / 署 / 職 / 職位 / 腳 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 郵件 / 郵政 / 部位 /

动物
dòng wù
 तिरच्छान
tiracchāna
 兽 / 动物 / 动物性 / 動物 / 獸 / 畜性 / 畜生 / 野兽 /
पसु
pasu
 兽 / 动物 / 獸 / 畜性 / 畜生 / 野兽 /
动物性
dòng wù xìng
 तिरच्छान
tiracchāna
 兽 / 动物 / 动物性 / 動物 / 獸 / 畜性 / 畜生 / 野兽 /

तिरच्छान
tiracchāna
 兽 / 动物 / 动物性 / 動物 / 獸 / 畜性 / 畜生 / 野兽 /

助
zhù
 अनुग्गण्हन
anuggaṇhana
 助 / 協助 / 壁助 / 好意 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
अनुबल
anubala
 刺激 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 激励 /
अवलम्बन
avalambana
 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
अवस्सय
avassaya
 供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
आलम्ब
ālamba
 供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
उपकरण
upakaraṇa
 乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 必需 ^レ 品 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
उपकार
upakāra
 供養 / 助 / 助手 / 協助 / 壁助 / 好意 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /
दीप
dīpa
 供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 小島 / 島 / 島嶼 / 島 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /
पटिसरण
paṭisarāṇa
 保护 / 保護 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
पतिट्ठा
patitṭhā
 供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

助手
zhù shǒu
 उपकार
upakāra
 供養 / 助 / 助手 / 協助 / 壁助 / 好意 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

努力
nǚ lì
आतप
ātappa
आयूहन
āyūhana
उग्घटित
ugghaṭita
उस्सहन
ussahana
努力 / 盡力 /
उस्साह
ussāha
पग्गह
paggaha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /
पग्गाह
paggāha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /
पयोग
payoga
作用 / 努力 / 動作 / 從事 / 行動 / 行動 /
परिस्सम
parissama
努力 / 疲倦 / 疲勞 / 疲勞 /

劲

jìn
पभाव
pabhāva
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 强 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /
पभाव
pabhāva
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 强 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /

势力
shì lì
आधिपच्च
ādhipacca
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 控制 / 斷電 / 權力 / 统治 /
आधिपतेय्य
ādhipateyya
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 權力 /
आनुभाव
ānubhāva
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 /
जव
java
力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 势力 / 实力 / 快慢 / 速 / 速度 / 速率 / 飛車 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 榮 /
थाम
thāma
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /
पभाव
pabhāva
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 强 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /
बल
bala
军 / 军队 / 幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 强 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /

勁

jìn
पभाव
pabhāva
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 强 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /

勇

yǒng
निब्भय
nibbhaya
仵 / 勇 / 勇敢 / 勇敢的 / 英 /

勇敢

yǒng gǎn
निब्भय
nibbhaya
仵 / 勇 / 勇敢 / 勇敢的 / 英 /

勇敢的
yǒng gǎn de
निब्भय
nibbhaya
仵 / 勇 / 勇敢 / 勇敢的 / 英 /
पग्गह
pagabbha
勇氣
yǒng qì
धिति
dhiti
决心 / 勇气 / 勇氣 / 有勇氣 / 活力 / 精力 / 胆量 / 能源 / 能量 / 膽子 / 膽量 / 高能 /
勇氣
yǒng qì
धिति
dhiti
决心 / 勇气 / 勇氣 / 有勇氣 / 活力 / 精力 / 胆量 / 能源 / 能量 / 膽子 / 膽量 / 高能 /

動作

dòng zuò
इञ्जन
iñjana
動作 / 動議 / 動靜 / 手足 / 运动 / 運動 /
कम्म
kamma
事 / 作用 / 做事 / 券 / 動作 / 勞工 / 在職 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 業 / 活兒 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 行動 / 起作用 / 辦事 / 飯碗 /
किरिय
kiriya
作用 / 券 / 動作 / 性能 / 績 / 績 / 績 / 行动 / 行動 / 表現 /
चार
cāra
作用 / 動作 / 動議 / 去 / 推移 / 行动 / 行動 / 运动 / 運動 /
पयोग
payoga
作用 / 努力 / 動作 / 從事 / 行动 / 行動 /

動力
dòng lì
आधिपच्च
ādhipacca
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 控制 / 斷電 / 權力 / 统治 /
आधिपतेय्य
ādhipateyya
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 權力 /
आनुभाव
ānubhāva
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 榮 /
शाम
thāma
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /
बल
bala
军 / 军队 / 幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

動物

dòng wù
तिरच्छान
tiracchāna
兽 / 动物 / 动物性 / 動物 / 獸 / 畜性 / 畜生 / 野獸 /

動議

dòng yì
इञ्जन
iñjana
動作 / 動議 / 動靜 / 手足 / 运动 / 運動 /
एजा
ejā
動議 / 渴望 / 渴求 / 运动 / 運動 /
चार
cāra
作用 / 動作 / 動議 / 去 / 推移 / 行动 / 行動 / 运动 / 運動 /
फन्दन
phandana
動議 / 激動 / 运动 / 運動 /

動靜

dòng jìng
इञ्जन
iñjana
動作 / 動議 / 動靜 / 手足 / 运动 / 運動 /

務
wù
कम्मन्त
kammanta
事 / 事情 / 做事 / 務 / 在職 / 工 / 工作 / 工匠 / 工夫 / 工夫 / 职业 / 職業 / 著作 / 著作 / 起作用 / 辦事 /
勝
shèng
जय
jaya
勝 / 勝利 / 好勝 / 戰勝 / 捷 / 胜 / 胜利 /
勝任
shèng rèn
पटिबल
paṭibala
勝任 / 得力 / 能干 / 能干 /
भब्ब
bhabba
勝任 / 得力 / 得力 / 有能力的 / 能力 / 能干 / 能干 /

勝利

shèng lì
जय
jaya
勝 / 勝利 / 好勝 / 戰勝 / 捷 / 胜 / 胜利 /

勝利者

shèng lì zhě
जिन
jina
勝利者 / 征服者 /

勞工

láo gōng
कम्म
kamma
事 / 作用 / 做事 / 券 / 動作 / 勞工 / 在職 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 業 / 活兒 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 行動 / 起作用 / 辦事 / 飯碗 /

勢力

shì lì
पभाव
pabhāva
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 强 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /
बल
bala
军 / 军队 / 幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 强 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /
चार
cāra
作用 / 動作 / 動議 / 去 / 推移 / 行动 / 行動 / 运动 / 運動 /
फन्दन
phandana
動議 / 渴望 / 渴求 / 运动 / 運動 /

勺

sháo
कटच्छु
kaṭacchu
勺 / 勺子 / 匙 / 匙 / 汤匙 /
दब्बी
dabbī
勺 / 勺子 / 匙 / 匙 / 杓子 / 汤匙 /

勺子
sháo zi
कटछु
kaṭacchu
勺 / 勺子 / 匙 / 匙 / 汤匙 /
दब्बी
dabbī
勺 / 勺子 / 匙 / 匙 / 杓子 / 汤匙 /
包含
bāo hán
अपिधान
apīdhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 遮 / 遮 / 遮 / 遮 / 遮 /
छदन
chadana
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋顶 / 屋顶 / 幌子 / 房顶 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 遮 / 遮 / 遮 /
पचत्थरण
paccattharaṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 床单 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 遮 / 遮 / 遮 /
पचछाद
pacchāda
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 遮 / 遮 / 遮 /
पापुरण
pāpuraṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 遮 / 遮 / 遮 /
पिधान
pidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 遮 / 遮 / 遮 /
包括一切的
bāo kuò yī qiè de

包含的
bāo hán de
निरवसेस
niravasesa

अच्छ
accha
包涵 / 承受 / 承擔 / 清澈的 / 熊 / 熊市 / 狗熊 / 結 / 结 /
इस्स
issa
包涵 / 承受 / 承擔 / 熊 / 熊市 / 狗熊 / 結 / 结 /
पच्चाहार
paccāhāra
包涵 / 原諒 / 寬恕 / 歉 / 歉意 / 致歉 / 道歉 /

包庇
bāo bì
अपिधान
apīdhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 遮 / 遮 / 遮 /
खेट
kheta
包庇 / 屏蔽 / 盾 / 盾牌 /
खेटक
khetaḱa
包庇 / 屏蔽 / 盾 / 盾牌 /
छदन
chadana
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋顶 / 屋顶 / 幌子 / 房顶 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 遮 / 遮 / 遮 /
पचत्थरण
paccattharaṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 床单 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 遮 / 遮 / 遮 /
पचछाद
pacchāda
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 遮 / 遮 / 遮 /
पापुरण
pāpuraṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 遮 / 遮 / 遮 /
पिधान
pidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 遮 / 遮 / 遮 /
包括一切的
bāo kuò yī qiè de

निप्पदेस
nippadesa

包涵
bāo hán
अच्छ
accha
包涵 / 承受 / 承擔 / 清澈的 / 熊 / 熊市 / 狗熊 / 結 / 结 /
इस्स
issa
包涵 / 承受 / 承擔 / 熊 / 熊市 / 狗熊 / 結 / 结 /
पच्चाहार
paccāhāra
包涵 / 原諒 / 寬恕 / 歉 / 歉意 / 致歉 / 道歉 /

包罗
bāo luó
अपिधान
apīdhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 遮 / 遮 / 遮 /
छदन
chadana
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋顶 / 屋顶 / 幌子 / 房顶 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 遮 / 遮 / 遮 /
पचत्थरण
paccattharaṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 床单 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 遮 / 遮 / 遮 /
पचछाद
pacchāda
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 遮 / 遮 / 遮 /
पापुरण
pāpuraṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 遮 / 遮 / 遮 /
पिधान
pidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 遮 / 遮 / 遮 /

匆匆的
cōng cōng de
अनिसम्मकारी
anisammakāri
匆忙地
cōng máng dì
तुरित
turita
匆忙地 / 徇 / 很快地 / 快 / 快的 / 快速 / 快速的 / 斋 / 迅 / 迅速 / 迅速地 / 迅速的 / 速 / 速 / 飞快 /
七
bī
पोत्थनिका
potthanikā
七 / 七首 / 短剑 /
七首
bī shǒu
पोत्थनिका
potthanikā
七 / 七首 / 短剑 /

北方
bēi fāng
उत्तर
uttara
上面的 / 北方 / 北方的 / 响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /

北方的
bēi fāng de
उत्तर
uttara
上面的 / 北方 / 北方的 / 响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /

北方的
bēi fāng de
उत्तर
uttara
上面的 / 北方 / 北方的 / 响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /
匙
shi
कटछु
kaṭacchu
勺 / 勺子 / 匙 / 匙 / 汤匙 /
कटछु
kaṭacchu
勺 / 勺子 / 匙 / 匙 / 汤匙 /
दब्बी
dabbī
勺 / 勺子 / 匙 / 匙 / 杓子 / 汤匙 /
दब्बी
dabbī
勺 / 勺子 / 匙 / 匙 / 杓子 / 汤匙 /

匚
fāng
पुट
puṭa
一籃 / 兜 / 匚 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 棖 / 孟 / 筐 / 筭 / 籃 / 籠 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पुटक
puṭaka
一籃 / 兜 / 匚 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 棖 / 孟 / 筐 / 筭 / 籃 / 籠 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पिटक
piṭaka
一籃 / 匚 / 吊籃 / 棖 / 筐 / 筭 / 籃 / 籠 / 籃 / 籃子 /

匝
zā
परिवट्ट
parivaṭṭa
一圈 / 匝 / 圆圈 / 圈 / 圈子 / 圆圈 / 圈 / 循环 /
匣子
xiá zi
चङ्गोटक
caṅgaṭaka
匣子 / 小木盒 / 小箱 / 手箱 /

匹配
pǐ pèi
पटिपुग्गल
paṭipuggala
匹配 / 夥伴 /
医师
yī shī
तिकिच्छक
tīkicchaka
医师 / 医生 / 博士 / 大 / 大夫 / 大夫 / 醫師 /
भिसक्क
bhisakka
医师 / 医生 / 醫師 /

匹配
pǐ pèi
पटिपुग्गल
paṭipuggala
匹配 / 夥伴 /

医帅
yī shī
तिकिच्छक
tīkicchaka
医师 / 医生 / 博士 / 大 / 大夫 / 大夫 / 醫師 /
भिसक्क
bhisakka
医师 / 医生 / 醫師 /

區
qū
खन्ध
khandha
區 / 大批 / 彌撒 / 形成 /

區域
qū yù
आयतन
āyatana
位 / 位置 / 區域 / 地位 / 地位 / 局面 / 球 / 界 / 身份 / 身分 / 部位 /
देस
desa
區域 / 国 / 国家 / 國 / 國家 / 國度 / 地域 / 地域 / 我國 / 江山 / 治國 / 鄉村 /
पदेस
padesa
交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到位 / 區域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 班 / 斑點 / 身份 / 部位 /
भूमि
bhūmi
上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /

医生
yī shēng
तिकिच्छक
tīkicchaka
医师 / 医生 / 博士 / 大 / 大夫 / 大夫 / 醫師 /
भिसक्क
bhisakka
医师 / 医生 / 醫師 /

區
qū
खन्ध
khandha
區 / 大批 / 彌撒 / 形成 /

區域
qū yù
आयतन
āyatana
位 / 位置 / 區域 / 地位 / 地位 / 局面 / 球 / 界 / 身份 / 身分 / 部位 /
देस
desa
區域 / 国 / 国家 / 國 / 國家 / 國度 / 地域 / 地域 / 我國 / 江山 / 治國 / 鄉村 /
पदेस
padesa
交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到位 / 區域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 班 / 斑點 / 身份 / 部位 /
भूमि
bhūmi
上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /

पदेस
padesa
交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到位 / 區域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 班 / 斑點 / 身份 / 部位 /
भूमि
bhūmi
上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /

十
shí
दस
dasa
十 / 十位 /
十三

श्री सान
shí sān
तेरस
terasa
तेळस
telasa

十二
shí èr
द्वादस
dvādasa
बारस
bārasa

十五
shí wǔ
पण्णरस
pannarasa
十五 / 十五 / 十五個 / 十五個 /
पण्णरस
paṇṇarasa
十五 / 十五 / 十五個 / 十五個 /

十五個
shí wǔ gè
पण्णरस
pannarasa
十五 / 十五 / 十五個 / 十五個 / पण्णरस
paṇṇarasa
十五 / 十五 / 十五個 / 十五個 /

十位
shí wèi
दस
dasa
十 / 十位 /

十八
shí bā
अट्ठारस
aṭṭhārasa

十分
shí fēn
अति
ati
不勝 / 不勝 / 十分 / 大 / 太 / 很 / 狠 / 甚 / 甚 / 都很 / 非常 /

十四
shí sì
चुद्दस
cuddasa
十四 / 十四個 /

十四個
shí sì gè
चुद्दस
cuddasa
十四 / 十四個 /

十足
shí zú
पुण्ण
puṇṇa
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 滿的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 飽 /

परिपूर
paripūra
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 滿的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 飽 /

千金
qiān jīn
तनुजा
tanujā
千金 / 女儿 / 女兒 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 /

दुहितु
duhitu
千金 / 女儿 / 女兒 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 /
धीतु
dhītu
千金 / 女儿 / 女兒 / 女婿 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 /

卅
sà
तिंसति
tiṃsati
三十 / 卅 /

升起
shēng qǐ

उक्खेपन
ukkhepana
中止 / 升起 /
उक्खिपन
ukkhipana
中止 / 升起 /

उगम
uggama
上升 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 崛起 / 攀升 / 漲 / 漲 / 益 / 興起 / 茁 /

उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 漲 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /

उप्पतन
uppatana
升起 / 跳躍 / 飛 /
उप्पादन
uppādana
升起 / 製造 /
उस्सापन
ussāpana

升高
shēng gāo
अब्भुन्नत
abbhunnata
升高 / 崇 / 昂 / 臬 / 潼 / 馱 / 高 / 高位 / 高昂 / 高水平 / 高的 /

午前
wǔ qián
पुब्बण्ह
pubbaṅha

午夜
wǔ yè
अड्ढरत्त
aḍḍharatta
午夜 / 半夜 / 夜半 /
निसीथ
nisītha
午夜 / 半夜 / 夜半 /

धीतु
dhītu
千金 / 女儿 / 女兒 / 女婿 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 /

半
bàn
अड्ढ
aḍḍha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /
अड्ढ
addha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /
अद्ध
addha
一半 / 一半的 / 半 / 半場 / 半年 / 半數 / 半月 / 半生 / 大半 /
उपड्ढ
upaḍḍha
一半 / 一半的 / 半 / 半場 / 半年 / 半數 / 半月 / 半生 / 大半 /

半場
bàn chǎng
अड्ढ
aḍḍha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /

अड्ढ
addha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /
अद्ध
addha
一半 / 一半的 / 半 / 半場 / 半年 / 半數 / 半月 / 半生 / 大半 /
उपड्ढ
upaḍḍha
一半 / 一半的 / 半 / 半場 / 半年 / 半數 / 半月 / 半生 / 大半 /

半夜
bàn yè
अड्ढरत्त
aḍḍharatta
午夜 / 半夜 / 夜半 /
निसीथ
nisītha
午夜 / 半夜 / 夜半 /

半年
bàn nián
अड्ढ
aḍḍha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /
अड्ढ
addha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /
अद्ध
addha
一半 / 一半的 / 半 / 半場 / 半年 / 半數 / 半月 / 半生 / 大半 /
उपड्ढ
upaḍḍha
一半 / 一半的 / 半 / 半場 / 半年 / 半數 / 半月 / 半生 / 大半 /

半數
bàn shù
अड्ढ
addha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /
अड्ढ
aḍḍha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /

अड्ढ
addha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /
अद्ध
addha
一半 / 一半的 / 半 / 半場 / 半年 / 半數 / 半月 / 半生 / 大半 /
उपड्ढ
upaḍḍha
一半 / 一半的 / 半 / 半場 / 半年 / 半數 / 半月 / 半生 / 大半 /

半月
bàn yuè
अड्ढ
aḍḍha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /
अड्ढ
addha

अड्ढ
addha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /

अद्ध
addha
一半 / 一半的 / 半 / 半場 / 半年 / 半數 / 半月 / 半生 / 大半 /
उपड्ढ
upaḍḍha
一半 / 一半的 / 半 / 半場 / 半年 / 半數 / 半月 / 半生 / 大半 /

半生
bàn shēng
अड्ढ
aḍḍha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /
अड्ढ
addha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /

अड्ढ
addha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /
अद्ध
addha
一半 / 一半的 / 半 / 半場 / 半年 / 半數 / 半月 / 半生 / 大半 /
उपड्ढ
upaḍḍha
一半 / 一半的 / 半 / 半場 / 半年 / 半數 / 半月 / 半生 / 大半 /

半邊
bàn biān
पक्ख
pakkha
一方 / 側 / 信徒 / 側 / 党 / 半邊 / 幫派 / 旁边 / 旁邊 / 派 / 派對 / 派系 / 當事人 / 羽翼 / 翅 / 翅膀 / 翼 / 跛子 / 边 / 黨 /
पस्स
passa
側 / 側 / 半邊 / 旁边 / 旁邊 / 边 /

华
huá
चीनरड्ड
cīnarattḥa
中国 / 中國 / 中華 / 华 / 瓷器 / 華 /

协议
xié yì
एकत्त
ekatta
协议 / 協定 / 協議 / 契約 / 寂寞 / 符合 /
कतिका
katikā
交談 / 协议 / 協定 / 協議 / 契約 / 契約 / 符合 /

卑
bēi
अधम
adhama
低 / 低下 / 低劣的 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 卑劣 / 鄙 / 鄙吝 / 隲 /
अवच
avaca
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
ओरक
oraka
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
छव
chava
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
निकिट्ठ
nikitt̥ṭha
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
निहीन
nihīna
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 有罪的 / 鄙 / 隲 /
नीच
nīca
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /

卑劣
bēi liè

अधम
adhama
低 / 低下 / 低劣的 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 卑劣 / 鄙 / 鄙吝 / 隲 /
卑鄙
bēi bǐ
जम्म
jamma
卑鄙 / 可鄙 / 可鄙的 / 粗俗的 /
卑鄙的
bēi bǐ de
उज्जातब्ब
uññātabba
卑鄙的 / 可鄙的 /
कातर
kātara
गारय्ह
gārayha
जेगुच्छ
jeguccha

卑鄙的人
bēi bǐ de rén
खळ
khala
伧 / 卑鄙的人 / 流氓 / 無賴 / 粗 / 粗略的 / 粗糙的 / 糙 / 苛刻 / 草 /

卑下
bēi xià
अधम
adhama
低 / 低下 / 低劣的 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 卑劣 / 鄙 / 鄙吝 / 隲 /
अवच
avaca
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
ओरक
oraka
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
छव
chava
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
निकिट्ठ
nikitt̥ṭha
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /
निहीन
nihīna
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 有罪的 / 鄙 / 隲 /
नीच
nīca
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隲 /

卑劣
bēi liè
अधम
adhama
低 / 低下 / 低劣的 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 卑劣 / 鄙 / 鄙吝 / 隲 /
卑鄙
bēi bǐ
जम्म
jamma
卑鄙 / 可鄙 / 可鄙的 / 粗俗的 /
卑鄙的
bēi bǐ de

उज्जातब्ब
uññātabba
卑鄙的 / 可鄙的 /
कातर
kātara
गारय्ह
gārayha
जेगुच्छ
jeguccha

卑鄙的人
bēi bǐ de rén
खळ
khala
伧 / 卑鄙的人 / 流氓 / 無賴 / 粗 / 粗略的 / 粗糙的 / 糙 / 苛刻 / 草 /

卒
zú
बलट्ट
balatṭha
兵 / 兵 / 兵家 / 兵家 / 卒 / 卒 / 士兵 / 士兵 / 小兵 / 小兵 / 軍人 / 軍人 /
बलट्ट
balattha
兵 / 兵 / 兵家 / 兵家 / 卒 / 卒 / 士兵 / 士兵 / 小兵 / 小兵 / 軍人 / 軍人 /
बलत्थ
balattha
兵 / 兵家 / 卒 / 士兵 / 小兵 / 軍人 /
भट
bhaṭa
兵 / 兵家 / 卒 / 士兵 / 小兵 / 步兵 / 警察 / 軍人 /

協力
xié lì
ततिय
tatiya
三次 / 三等 / 丙 / 協力 / 第三 / 第三次 /

उपकरण
upakaraṇa
乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 必需品 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撑 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
उपकार
upakāra
供養 / 助 / 助手 / 協助 / 壁助 / 好意 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撑 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

दीप
dīpa
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 小島 / 島 / 島嶼 / 島 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撑 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /

पटिसरण
paṭisarana
保护 / 保護 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撑 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
पतिट्टा
patitt̥ṭhā
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撑 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

協定
xié dìng
एकत्त
ekatta
协议 / 協定 / 協議 / 契約 / 寂寞 / 符合 /
कतिका
katikā
交談 / 协议 / 協定 / 協議 / 契約 / 契約 / 符合 /

協助
xié zhù
अनुग्गण्हन
anuggaṇhana
助 / 協助 / 壁助 / 好意 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
अनुबल
anubala
刺激 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 激励 /
अवलम्बन
avalambana
助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
अवस्सय
avassaya
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撑 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
आलम्ब
ālamba
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撑 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
उपकरण
upakaraṇa
乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 必需品 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撑 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

उपकार
upakāra
供養 / 助 / 助手 / 協助 / 壁助 / 好意 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撑 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
दीप
dīpa
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 小島 / 島 / 島嶼 / 島 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撑 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /

पटिसरण
paṭisarana
保护 / 保護 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撑 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
पतिट्टा
patitt̥ṭhā
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撑 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

協定
xié dìng
एकत्त
ekatta
协议 / 協定 / 協議 / 契約 / 寂寞 / 符合 /
कतिका
katikā
交談 / 协议 / 協定 / 協議 / 契約 / 契約 / 符合 /

協會
xié huì
परिसा
parisā
会议 / 協會 / 集會 /
協議
xié yì
एकत्त
ekatta
协议 / 協定 / 協議 / 契約 / 寂寞 / 符合 /
कतिका
katikā
交談 / 协议 / 協定 / 協議 / 契約 / 契約 / 符合 /

单
dān
एकक
ekaka
仃 / 单 / 单一 / 单一的 / 单身的 / 唯 / 唯一 / 孤 / 孤單 / 孤零零 / 独身 / 獨居 / 彙 /

单一
dān yī
एकक
ekaka
仃 / 单 / 单一 / 单一的 / 单身的 / 唯 / 唯一 / 孤 / 孤單 / 孤零零 / 独身 / 獨居 / 彙 /

单一的
dān yī de
एकक
ekaka
仃 / 单 / 单一 / 单一的 / 单身的 / 唯 / 唯一 / 孤 / 孤單 / 孤零零 / 独身 / 獨居 / 彙 /

单子的
dān zi
उद्दान
uddāna
串 / 列出 / 列表 / 单子 / 名单 / 名單 / 束 / 目錄 / 群 / 谱 /

单身的
dān shēn de
एकक
ekaka
仃 / 单 / 单一 / 单一的 / 单身的 / 唯 / 唯一 / 孤 / 孤單 / 孤零零 / 独身 / 獨居 / 彙 /

南方
nán fāng
दक्खिण
dakkhina
南方 / 南方的 /

南方的
nán fāng de
दक्खिण
dakkhina
南方 / 南方的 /

南瓜
nán guā
तिपुस
tipusa

博士
bó shì
तिकिचछक
tikicchaka
医师 / 医生 / 博士 / 大 / 大夫 / 大夫 / 醫師 /

卜
bo
दिव्ब
dibba
乩 / 卜 / 卜 / 天上 / 蔔 /
दिव्ब
dibba
乩 / 卜 / 卜 / 天上 / 蔔 /

占有
zhàn yǒu
आयत्त
āyatta
占有 / 所有权 / 所有物 / 持有 /
भोग
bhoga
占有 / 所有权 / 所有物 / 有道 / 財富 / 财富 /

卫生
wèi shēng
आरोग्य
ārogya
保健 / 健康 / 卫生 / 衛生 /

印像
yìn xiàng
पट्टिबिम्ब
paṭṭibimba
偶 / 像 / 副本 / 印像 / 反映 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
पटिमा
paṭimā
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
बिम्ब
bimba
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /

印子
yìn zi
अङ्क
aṅka
印子 / 标 / 標 / 標記 / 特徵 / 痕 / 記號 / 馬克 / 马克 /

印象
yìn xiàng
निप्फज्जन
nipphajjana
作用 / 做 / 印象 / 影响 / 成就 / 成效 / 成果 / 成績 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /

危
wēi
अन्तराय
antarāya
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 当儿 / 障碍 / 障礙 /
ईघ
īgha
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 当儿 /
उपद्दव
upaddava
不幸 / 危 / 危險 / 危險 / 危難 / 威胁 / 当儿 / 灾 /
उपसग्ग
upasagga
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 字首 / 当儿 /

परिपन्थ
paripantha
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 当儿 / 障碍 / 障礙 /
परिस्सय
parissaya
冒 / 危 / 危險 / 危險物 / 危險 / 危險性 / 威胁 / 当儿 / 险 / 險 / 風險 / 风险 / 麻煩 /

危害
wēi hài
अनत्थ
anattha
不幸 / 伤害 / 傷害 / 危害 / 壞處 / 害 / 弊 / 损伤 / 損害 / 有害 /
अहित
ahita
伤害 / 傷害 / 危害 / 壞處 / 害 / 弊 / 损伤 /

危险
wēi xiǎn
अन्तराय
antarāya
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 当儿 / 障碍 / 障礙 /
ईघ
īgha
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 当儿 /
उपद्दव
upaddava
不幸 / 危 / 危險 / 危險 / 危難 / 威胁 / 当儿 / 灾 /
उपसग्ग
upasagga
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 字首 / 当儿 /
परिपन्थ
paripantha
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 当儿 / 障碍 / 障礙 /
परिस्सय
parissaya
冒 / 危 / 危險 / 危險物 / 危險 / 危險性 / 威胁 / 当儿 / 险 / 險 / 風險 / 风险 / 麻煩 /

危險物
wēi xiǎn wù
परिस्सय
parissaya
冒 / 危 / 危險 / 危險物 / 危險 / 危險性 / 威胁 / 当儿 / 险 / 險 / 風險 / 风险 / 麻煩 /

危險
wēi xiǎn
अन्तराय
antarāya
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 当儿 / 障碍 / 障礙 /
ईघ
īgha
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 当儿 /
उपद्दव
upaddava
不幸 / 危 / 危險 / 危險 / 危難 / 威胁 / 当儿 / 灾 /
उपसग्ग
upasagga
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 字首 / 当儿 /
परिपन्थ
paripantha
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 当儿 / 障碍 / 障礙 /
परिस्सय
parissaya
冒 / 危 / 危險 / 危險物 / 危險 / 危險性 / 威胁 / 当儿 / 险 / 險 / 風險 / 风险 / 麻煩 /

危險性
wēi xiǎn xìng
परिस्सय
parissaya
冒 / 危 / 危險 / 危險物 / 危險 / 危險性 / 威胁 / 当儿 / 险 / 險 / 風險 / 风险 / 麻煩 /

危難
wēi nán
उपद्दव
upaddava
不幸 / 危 / 危險 / 危險 / 危難 / 威胁 / 当儿 / 灾 /

即將
jí jiāng
आरब्भ
ārabbha
一下 / 即將 / 大約 / 大约 / 左右 / 快要 / 走進 / 關於 /

却
què
आदु
ādu
不過 / 乃是 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 惟 / 或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 然而 / 还是 / 還是 /

途
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 剛才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
पन
pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /

पि
pì
不過 / 乃是 / 也許 / 也许 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 可能 / 大概 / 恐怕 / 惟 / 或 / 或許 / 或许 / 然 / 然而 / 究竟 /

卵
luǎn
अण्डक
aṅḍaka
卵 / 卵子 / 卵细胞 / 蛋 / 鸡蛋 /

卵子
luǎn zi
अण्डक
aṅḍaka
卵 / 卵子 / 卵细胞 / 蛋 / 鸡蛋 /

卵细胞
luǎn xì bāo
अण्डक
aṅḍaka
卵 / 卵子 / 卵细胞 / 蛋 / 鸡蛋 /

卷
juǎn
अज्झाय
ajjhāya
卷 / 章 / 篇 / 篇章 /
चुम्बट
cumbaṭa
卷 / 墊 / 线圈 /
चुम्बटक
cumbaṭaka
卷 / 墊 / 线圈 /

卻
què
आदु
ādu
不過 / 乃是 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 惟 / 或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 然而 / 还是 / 還是 /

途
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 剛才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
पन
pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /

पि
pì
不過 / 乃是 / 也許 / 也许 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 可能 / 大概 / 恐怕 / 惟 / 或 / 或許 / 或许 / 然 / 然而 / 究竟 /

厂
chǎng
गच्छ
gaccha
事业 / 厂 / 工场 / 廠 / 株 / 栽 / 植 / 植物 /

厅
tīng
अधिकार
adhikāra
任 / 任職 / 办事处 / 办公室 / 厅 / 处 / 处 / 廨 / 管理 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 辦公 / 辦公室 /

历史
lì shǐ
इतिहास
itihāsa
传统 / 傳統 / 历史 / 历史学 / 历史的 / 历史记录 / 史 / 来历 / 歷史 / 沿革 /

历史学
lì shǐ xué
इतिहास
itihāsa
传统 / 傳統 / 历史 / 历史学 / 历史的 / 历史记录 / 史 / 来历 / 歷史 / 沿革 /

历史的
lì shǐ de
इतिहास
itihāsa
传统 / 傳統 / 历史 / 历史学 / 历史的 / 历史记录 / 史 / 来历 / 歷史 / 沿革 /

历史记录
lì shǐ jì lù
इतिहास
itihāsa
 <div>传统 / 傳統 / 历史 / 历史学 / 历史的 / 历史记录 / 史 / 来历 / 歷史 / 沿革 /</div>

原
yuán
आवत्थिक
āvattthika
 <div>原 / 原件 / 原來 / 原先 / 原創 / 原始 / 原始的 / 原文 / 原有 / 原本 / 原来 / 原著 / 原貌 / 最初的 /</div>
原件
yuán jiàn
आवत्थिक
āvattthika
 <div>原 / 原件 / 原來 / 原先 / 原創 / 原始 / 原始的 / 原文 / 原有 / 原本 / 原来 / 原著 / 原貌 / 最初的 /</div>
原來
yuán lái
आवत्थिक
āvattthika
 <div>原 / 原件 / 原來 / 原先 / 原創 / 原始 / 原始的 / 原文 / 原有 / 原本 / 原来 / 原著 / 原貌 / 最初的 /</div>

压迫
yā pò
उपपीडन
uppīlana
 <div>压迫 / 壓迫 /</div>

厌倦
yàn juàn
तन्दित
tandita
 <div>厌倦 / 厌烦 / 疲倦的 / 疲劳 / 疲劳的 /</div>

厌烦
yàn fán
तन्दित
tandita
 <div>厌倦 / 厌烦 / 疲倦的 / 疲劳 / 疲劳的 /</div>

厚
hòu
गहन
gahana
 <div>丛林 / 厚 / 厚的 / 叢林 / 密 / 密封的 / 稠 / 粗 / 萃 / 蔘 /</div>
घन
ghana
 <div>厚 / 厚的 / 固 / 密 / 密集的 / 捶 / 棍棒 / 槌 / 稠 / 粗 / 結實 / 萃 / 蔘 / 錘子 / 锤 /</div>
बहल
bahala
 <div>厚 / 厚的 / 密 / 密集的 / 稠 / 粗 / 萃 / 蔘 /</div>

厚的
hòu de
गहन
gahana
 <div>丛林 / 厚 / 厚的 / 叢林 / 密 / 密封的 / 稠 / 粗 / 萃 / 蔘 /</div>
घन
ghana
 <div>厚 / 厚的 / 固 / 密 / 密集的 / 捶 / 棍棒 / 槌 / 稠 / 粗 / 結實 / 萃 / 蔘 / 錘子 / 锤 /</div>
बहल
bahala
 <div>厚 / 厚的 / 密 / 密集的 / 稠 / 粗 / 萃 / 蔘 /</div>

原因
yuán yīn
अत्थवस
atthavasa
 <div>使用 / 利用 / 动机 / 原因 / 因 / 情理 / 故 / 施用 / 理 / 理性 / 理由 / 用 / 用法 / 用途 / 由 / 緣故 / 运用 / 運用 / 道理 /</div>
अपदेस
apadesa
 <div>动机 / 原因 / 因 / 声明 / 声明书 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 聲明 / 說法 / 说法 / 道理 / 陈述 / 陳述 /</div>
कारण
kāraṇa
 <div>动机 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 道理 /</div>
जनन
janana
ठान
thāna
 <div>任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 靡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 默 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /</div>
निदान
nidāna
 <div>事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /</div>
निमित्त
nimitta
 <div>兆 / 兆头 / 先兆 / 前兆 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 徵兆 / 情理 / 故 / 标记 / 理 / 理由 / 由 / 緣故 / 迹象 / 道理 / 預兆 /</div>
पद
pada
 <div>一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 靡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /</div>

原始
yuán shǐ
अगग
agga
 <div>一次 / 上端 / 下场 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告终 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 首 / 首先 /</div>
आदि
ādi
 <div>一次 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 開始 / 首 / 首先 /</div>

आवत्थिक
āvattthika
 <div>原 / 原件 / 原來 / 原先 / 原創 / 原始 / 原始的 / 原文 / 原有 / 原本 / 原来 / 原著 / 原貌 / 最初的 /</div>
पठम
paṭhama
 <div>一次 / 乍 / 元 / 先 / 先前的 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 起先 / 首 / 首先 /</div>

原始的
yuán shǐ de
आवत्थिक
āvattthika
 <div>原 / 原件 / 原來 / 原先 / 原創 / 原始 / 原始的 / 原文 / 原有 / 原本 / 原来 / 原著 / 原貌 / 最初的 /</div>

原文
yuán wén
आवत्थिक
āvattthika
 <div>原 / 原件 / 原來 / 原先 / 原創 / 原始 / 原始的 / 原文 / 原有 / 原本 / 原来 / 原著 / 原貌 / 最初的 /</div>

原有
yuán yǒu
आवत्थिक
āvattthika
 <div>原 / 原件 / 原來 / 原先 / 原創 / 原始 / 原始的 / 原文 / 原有 / 原本 / 原来 / 原著 / 原貌 / 最初的 /</div>
原本
yuán běn
आवत्थिक
āvattthika
 <div>原 / 原件 / 原來 / 原先 / 原創 / 原始 / 原始的 / 原文 / 原有 / 原本 / 原来 / 原著 / 原貌 / 最初的 /</div>

原来
yuán lái
आवत्थिक
āvattthika
 <div>原 / 原件 / 原來 / 原先 / 原創 / 原始 / 原始的 / 原文 / 原有 / 原本 / 原来 / 原著 / 原貌 / 最初的 /</div>
原汁
yuán zhī
ओज
oja
 <div>中 / 原汁 / 果汁 / 汁 / 汁液 /</div>

原
yuán
आवत्थिक
āvattthika
 <div>原 / 原件 / 原來 / 原先 / 原創 / 原始 / 原始的 / 原文 / 原有 / 原本 / 原来 / 原著 / 原貌 / 最初的 /</div>
原来
yuán lái
आवत्थिक
āvattthika
 <div>原 / 原件 / 原來 / 原先 / 原創 / 原始 / 原始的 / 原文 / 原有 / 原本 / 原来 / 原著 / 原貌 / 最初的 /</div>
壓迫
yā pò
उपपीडन
uppīlana
 <div>压迫 / 壓迫 /</div>

厭倦
yàn juàn
तन्दित
tandita
 <div>厌倦 / 厌烦 / 疲倦的 / 疲劳 / 疲劳的 /</div>
厌烦
yàn fán
तन्दित
tandita
 <div>厌倦 / 厌烦 / 疲倦的 / 疲劳 / 疲劳的 /</div>

厚
hòu
गहन
gahana
 <div>丛林 / 厚 / 厚的 / 叢林 / 密 / 密封的 / 稠 / 粗 / 萃 / 蔘 /</div>
घन
ghana
 <div>厚 / 厚的 / 固 / 密 / 密集的 / 捶 / 棍棒 / 槌 / 稠 / 粗 / 結實 / 萃 / 蔘 / 錘子 / 锤 /</div>
बहल
bahala
 <div>厚 / 厚的 / 密 / 密集的 / 稠 / 粗 / 萃 / 蔘 /</div>

厚的
hòu de
गहन
gahana
 <div>丛林 / 厚 / 厚的 / 叢林 / 密 / 密封的 / 稠 / 粗 / 萃 / 蔘 /</div>
घन
ghana
 <div>厚 / 厚的 / 固 / 密 / 密集的 / 捶 / 棍棒 / 槌 / 稠 / 粗 / 結實 / 萃 / 蔘 / 錘子 / 锤 /</div>
बहल
bahala
 <div>厚 / 厚的 / 密 / 密集的 / 稠 / 粗 / 萃 / 蔘 /</div>

历史
lì shǐ jì lù
इतिहास
itihāsa
 <div>传统 / 傳統 / 历史 / 历史学 / 历史的 / 历史记录 / 史 / 来历 / 歷史 / 沿革 /</div>

原点
yuán diǎn
उद्गन
uṭṭhāna
 <div>上升 / 业 / 來歷 / 出身 / 原点 / 始源 / 工業 / 本源 / 来历 / 根源 / 業 / 活力 / 由来 / 精力 / 能源 / 能量 / 血统 / 行業 / 起源 / 高能 /</div>
उप्पत्ति
uppatti
 <div>來歷 / 再生 / 出身 / 原点 / 始源 / 本源 / 来历 / 根源 / 由来 / 血统 / 起源 /</div>
पभव
pabhava
 <div>來歷 / 來源 / 出处 / 出身 / 原点 / 始源 / 开始 / 朔 / 本源 / 来历 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 由来 / 血统 / 起源 /</div>

原著
yuán zhe
आवत्थिक
āvattthika
 <div>原 / 原件 / 原來 / 原先 / 原創 / 原始 / 原始的 / 原文 / 原有 / 原本 / 原来 / 原著 / 原貌 / 最初的 /</div>
原諒
yuán liàng
पच्चाहार
paccāhāra
 <div>包涵 / 原諒 / 寬恕 / 歉 / 歉意 / 致歉 / 道歉 /</div>

原貌
yuán mào
आवत्थिक
āvattthika
 <div>原 / 原件 / 原來 / 原先 / 原創 / 原始 / 原始的 / 原文 / 原有 / 原本 / 原来 / 原著 / 原貌 / 最初的 /</div>
厭惡
yàn è
अनालय
anālaya
अरति
arati
जिगुच्छन
jigucchana
 <div>厭惡 / 憎惡 /</div>
निब्बि
nibbidā
 <div>信任的 / 厭惡 / 工資 / 疲倦 / 疲勞 / 相似的 /</div>
पटिघ
paṭigha
 <div>厭惡 / 激怒 / 碰撞 /</div>
पटिघात
paṭighāta
 <div>厭惡 / 碰撞 /</div>

厮
sī
पेस्सिक
pessika
 <div>仆 / 仆人 / 使者 / 信使 / 信差 / 信差 / 僕 / 公务员 / 厮 / 厮 / 用人 /</div>

去
qù
गति
gati
事業 / 去 / 命运 / 命運 / 涯 / 生涯 / 課程 /
गमन
gamana
去 / 導致 / 征程 / 征途 / 散步 / 旅游 / 旅遊 / 旅程 / 旅程 / 旅行 / 旅行 / 旅途 / 程 / 追逐 /
चार
cāra
作用 / 動作 / 動議 / 去 / 推移 / 行动 / 行動 / 运动 / 運動 /

去處
qù chù
ठान
thāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到任 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 款 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
पद
pada

一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到任 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /
पदेस
padesa

交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到任 / 區域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 斑 / 斑點 / 身份 / 部位 /
--

又
yòu
अपि
api
与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 既使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /
च
ca
与 / 且 / 並 / 並且 / 也 / 以及 / 併 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 和 / 太 / 并 / 并且 / 暨 / 汰 / 而 / 而且 / 與 /
पन
pana

不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /
पदेस
padesa
交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到任 / 區域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 斑 / 斑點 / 身份 / 部位 /

又
yòu
अपि
api
与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 既使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /
च
ca
与 / 且 / 並 / 並且 / 也 / 以及 / 併 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 和 / 太 / 并 / 并且 / 暨 / 汰 / 而 / 而且 / 與 /
पन
pana

不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /
पुन
puna

一再 / 一遍 / 再 / 再一次 / 再度 / 再次 / 又 / 重新 /
--

及
jí
अपि
api
与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 既使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /
च
ca
与 / 且 / 並 / 並且 / 也 / 以及 / 併 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 和 / 太 / 并 / 并且 / 暨 / 汰 / 而 / 而且 / 與 /
पन
pana

不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /
及其
jí qí
अपि
api
与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 既使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /
च
ca
与 / 且 / 並 / 並且 / 也 / 以及 / 併 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 和 / 太 / 并 / 并且 / 暨 / 汰 / 而 / 而且 / 與 /
पन
pana

不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /
友善的
yǒu shàn de
अवेर
avera

仁慈 / 友善的 / 好意 /
友誼
you yì
अनुनय
anunaya

反对
fǎn duì
पटिकखेप
paṭikkhepa
不存在 / 反对 / 否定 / 异议 / 拒绝 / 異議 /
反射
fǎn shè

反射 / 反思 / 反省 / 檢討 /
पचचवेक्खन
paccavekkhana
反射 / 反思 / 反省 / 檢討 /
反射
fǎn shè

पचचवेक्खन
paccavekkhana
反射 / 反思 / 反省 / 檢討 /

反射 / 反思 / 反省 / 檢討 /
पचचवेक्खन
paccavekkhana
反射 / 反思 / 反省 / 檢討 /

反射 / 反思 / 反省 / 檢討 /
पचचवेक्खन
paccavekkhana
反射 / 反思 / 反省 / 檢討 /

反射鏡
fǎn shè jìng
आदास
ādāsa
反射鏡 / 鏡 / 鏡子 / 鏡 / 鏡子 /
दप्पण
dappaṇa
反射鏡 / 鏡 / 鏡子 / 鏡 / 鏡子 /

反對
fǎn duì
पचत्थिक
paccatthika
仇人 / 忤 / 反對 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 /

反思
fǎn sī
पचचवेक्खन
paccavekkhana
反射 / 反思 / 反省 / 檢討 /

反映
fǎn yǐng
पटिबिम्ब
paṭibimba
偶 / 像 / 副本 / 印像 / 反映 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
परिवितक्क
parivitakka

反省
fǎn shěng
पचचवेक्खन
paccavekkhana
反射 / 反思 / 反省 / 檢討 /

发展
fā zhǎn
परिणाम
pariṇāma
发展 / 变 / 变化 / 变更 / 开发 / 成熟 / 改 / 改變 / 更改 / 消化 / 變 / 變動 / 變化 / 變更 / 轉變 / 转变 /
发烧

發燒
fā shāo
जर
jara
估 / 发烧 / 古 / 古老 / 年老的 / 年近 / 旧 / 旧的 / 热病 / 熱病 / 發燒 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 / 衰老的 /

发行人
fā xíng rén
पचारक
pacāraka
出品 / 出版者 / 发行人 /
发送

发送 / 派遣 / 特派 / 遣 /
फहिणन
pahiṇana
发送 / 派遣 / 特派 / 遣 /

发音
fā yīn
उच्चारण
uccāraṇa
发音 / 發音 / 读音 /
取名

取名
qǔ míng
अभिधान
abhidhāna
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
अव्हय
avhaya

任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
अव्हान
avhāna
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
आख्या

आख्या
ākhyā
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
नाम
nāma
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /

取得
qǔ dé
पटिलाभ
paṭilābha
परिग्गह
pariggaha
佔有 / 取得 / 取得 /
परिग्गह
pariggaha
佔有 / 取得 / 取得 /

取締
qǔ dī
निसेध
nisedha
取締 / 抑制 / 班固 / 禁 / 禁令 / 禁止 / 防范 / 預防 / 預防 /

受刑
shòu xíng
आतापन
ātāpana
受刑 / 折磨 / 拷問 / 拷打 / 禁欲 / 酷刑 /
कारणा
kāraṇā
受刑 / 折磨 / 拷問 / 拷打 / 酷刑 /

受雇
shòu gù
उपयोग
upayoga
受雇 / 應用 / 申請 / 申請書 / 連接 / 雇用 /

变
biàn
परिणाम
pariṇāma
发展 / 变 / 变化 / 变更 / 开发 / 成熟 / 改 / 改變 / 更改 / 消化 / 變 / 變動 / 變化 / 變更 / 轉變 / 转变 /

变化
biàn huà
परिणाम
pariṇāma
发展 / 变 / 变化 / 变更 / 开发 / 成熟 / 改 / 改變 / 更改 / 消化 / 變 / 變動 / 變化 / 變更 / 轉變 / 转变 /

變更
biàn gèng
परिणाम
pariṇāma
发展 / 变 / 变化 / 变更 / 开发 / 成熟 / 改 / 改變 / 更改 / 消化 / 變 / 變動 / 變化 / 變更 / 轉變 / 转变 /

变黑
biàn hēi
कण्ह
kaṇha
乌 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 淄 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
काळ
kāḷa

乌 / 冥 / 变黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 淄 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
काळक
kāḷaka
变黑 / 污点 / 污點 / 淄 / 玄 / 皂 / 黎 / 黑 / 黑的 / 黑色 / 黝 /

叛徒
pàn tú
आखु
ākhu
叛徒 / 告密者 / 捕鼠 / 老鼠 / 耗子 / 鼠 / 鼯 /
उन्दुर

undura
叛徒 / 告密者 / 捕鼠 / 老鼠 / 鼠 /
उन्दूर
undūra
叛徒 / 告密者 / 捕鼠 / 老鼠 / 鼠 /

叛逆
pàn nì
दुब्भन
dubbhana

叛逆的
pàn nì de
दुब्भक
dubbhaka

叢林
cóng lín

गहन
gahana
丛林 / 厚 / 厚的 / 叢林 / 密 / 密封的 / 稠 / 粗 / 萃 / 蕊 /
जङ्गल
jaṅgala
丛林 / 叢林 / 沙漠 /

口
kǒu

आनन
ānana
口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 嘴 / 面 /
मुख
mukha
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 嘴 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

口味
kǒu wèi

अस्साद
assāda
口味 / 味 / 味兒 / 味道 / 品味 / 品嘗 / 品嘗 / 咯 / 嚼 / 嘗 / 嘗 / 愉快 / 有味道 / 滋味 / 滿足 / 趣味 /

口岸
kǒu àn

पट्टन
paṭṭana
口岸 / 埠 / 左舷的 / 港口 / 端口 / 避难所 /

口水
kǒu shuǐ

एला
elā
口水 / 唾 / 唾液 / 涎 /
एळा
eḷā
口水 / 唾 / 唾液 / 涎 /
खेळ
khela
口水 / 唾 / 唾液 / 涎 /

口渴
kǒu kě

तण्हा
taṅhā
口渴 / 愛 / 欲望 / 渴望 / 渴求 /
तसिना
tasinā
口渴 / 渴望 / 渴求 /
पिपासा
pipāsā
口渴 / 渴望 /

口舌
kǒu shé

जिव्हा
jivhā
口舌 / 舌 / 舌头 / 舌頭 / 语言 /

口袋
kǒu dai

पुट
puṭa
一籃 / 兜 / 口 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 棹 / 盂 / 筐 / 筍 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पुटक
puṭaka
一籃 / 兜 / 口 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 棹 / 盂 / 筐 / 筍 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /

古
gǔ

जज्जर
jajjara
估 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /
जर
jara
估 / 发烧 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 热病 / 熱病 / 發燒 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 / 衰老的 /
पुराण
purāṇa
估 / 先前的 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /
बु
buḍḍha
估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情报 / 情报 / 旄 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 穹 / 精神 / 老 / 老的 / 耄 / 舊 / 舊的 /

古老
gǔ lǎo

जज्जर
jajjara
估 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /
जर
jara
估 / 发烧 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 热病 / 熱病 / 發燒 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 / 衰老的 /
पुराण
purāṇa
估 / 先前的 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /
बु
buḍḍha
估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情报 / 情报 / 旄 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 穹 / 精神 / 老 / 老的 / 耄 / 舊 / 舊的 /

句號
jù hào

कालन्तर
kālantara
一段 / 句號 / 时期 / 時期 / 期 / 期間 / 期间 / 课时 /

句號
jù hào

कालन्तर
kālantara
一段 / 句號 / 时期 / 時期 / 期 / 期間 / 期间 / 课时 /

句號
jù hào

कालन्तर
kālantara
一段 / 句號 / 时期 / 時期 / 期 / 期間 / 期间 / 课时 /

另
lìng

अञ्ज
añña
其他 / 其他人 / 其他的 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 别 / 别的 / 另 / 另一 / 另外 / 另外一个 / 另外的 / 警 /
अपर
apara
其他的 / 另 / 另一 / 另外一个 / 另外的 / 然後 / 西 / 西 / 西域 / 西方的 / 西洋 / 西洋 /
इतर
itara
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 别 / 别的 / 另 / 另外 / 警 /
उत्तरि
uttari
再作 / 另外 / 更 / 更远的 / 此外 / 而且 / 進一步 / 附加的 /
उत्तरि
uttarim
再作 / 另外 / 更 / 更远的 / 此外 / 而且 / 進一步 / 附加的 /
पर
para
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 别 / 别人 / 别的 / 另 / 另一個 / 另外 / 陌生人 /

另一
lìng yī

अञ्ज
añña
其他 / 其他人 / 其他的 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 别 / 别的 / 另 / 另一 / 另外 / 另外一个 / 另外的 / 警 /
अपर
apara
其他的 / 另 / 另一 / 另外一个 / 另外的 / 然後 / 西 / 西 / 西域 / 西方的 / 西洋 / 西洋 /

另一個
lìng yī gè

पर
para
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 别 / 别人 / 别的 / 另 / 另一個 / 另外 / 警 / 陌生人 /

另一方面
lìng yī fāng miàn

अञ्जदत्थु
aññadatthu
一定 / 另一方面 /

另外
lìng wài

अञ्ज
añña
其他 / 其他人 / 其他的 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 别 / 别的 / 另 / 另一 / 另外 / 另外一个 / 另外的 / 警 /
इतर
itara
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 别 / 别的 / 另 / 另外 / 警 /
उत्तरि
uttari
再作 / 另外 / 更 / 更远的 / 此外 / 而且 / 進一步 / 附加的 /
उत्तरि
uttarim
再作 / 另外 / 更 / 更远的 / 此外 / 而且 / 進一步 / 附加的 /
पर
para
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 别 / 别人 / 别的 / 另 / 另一個 / 另外 / 警 / 陌生人 /

另外一个
lìng wài yī gè

अञ्ज
añña
其他 / 其他人 / 其他的 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 别 / 别的 / 另 / 另一 / 另外 / 另外一个 / 另外的 / 警 /
अपर
apara
其他的 / 另 / 另一 / 另外一个 / 另外的 / 然後 / 西 / 西 / 西域 / 西方的 / 西洋 / 西洋 /

另外的
lìng wài de

अञ्ज
añña
其他 / 其他人 / 其他的 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 别 / 别的 / 另 / 另一 / 另外 / 另外一个 / 另外的 / 警 /
अपर
apara
其他的 / 另 / 另一 / 另外一个 / 另外的 / 然後 / 西 / 西 / 西域 / 西方的 / 西洋 / 西洋 /

只
zhǐ

आदु
ādu
不過 / 乃是 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 惟 / 或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 然而 / 还是 / 還是 /
एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /

只
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 現在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

pan
pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /

pi
pi
不過 / 乃是 / 也許 / 也许 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 可能 / 大概 / 恐怕 / 惟 / 或 / 或許 / 或许 / 然 / 然而 / 究竟 /

只是
zhǐ shì
आदु
ādu
不過 / 乃是 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 惟 / 或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 然而 / 还是 / 還是 / एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
पन
pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /
पि
pi
不過 / 乃是 / 也許 / 也许 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 可能 / 大概 / 恐怕 / 惟 / 或 / 或許 / 或许 / 然 / 然而 / 究竟 /

只有
zhǐ yǒu
एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /
केवल
kevala
仅仅 / 全部 / 全部的 / 只有 / 唯 / 唯一 / 圆 / 孤 / 完全 / 总体 / 惟 / 整 / 整个 / 整個 / 整数 / 整整 / 絕對 / 绝对 / 通通 / 鞋底 /

叫喊
jiào hǎn
उन्नाद
unnāda
叫喊 / 呼喊 / 喊 / 喊叫 / 嚷 / 大叫 / 大喊 /
घोस
ghosa
作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嚷 / 声 / 声音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

叫花子
jiào huā zi
कपण
kapaṇa
不重要的 / 丐 / 乞丐 / 叫花子 / भिक्खक
bhikkhaka
丐 / 乞丐 / 叫花子 /
叭
ba
द्वन्द
dvanda
一对夫妇 / 一對 / 叭 /
द्वय
dvaya
一对夫妇 / 一對 / 叭 /

可不是
kě bù shì
न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒绝 / 无 / 未 / 毋 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 沒 / 没有 / 没有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /
可享受的
kě xiǎng shòu de
उपभोग
upabhoga
使用 / 利 / 利润 / 利潤 / 利用 / 可享受的 / 贏 / 收益 / 施用 / 潤 / 潤 / 獲利 / 用 / 用法 / 用途 / 盈利 / 获利 / 裨益 / 运用 / 運用 /
可以喝的
kě yǐ hē de
पेय्य
peyya

可口的
kě kǒu de
पणीत
paṇīta
可吃
kě chī
भोत्तुं
bhottuṃ
可吃 / 吃 / 吃光 / 吃掉 / 吃飯 / 吃飽 / 啖 / 喫 / 大吃 / 茹 / 食 / 餐 /

可尊敬的
kě zūn jìng de
भदन्त
bhaddanta
भदन्त
bhadanta

可怕
kě pà
अतिघोर
atighora
凶 / 可怕 / 可怕的 / 可怖 / अतिदारुण
atidāruṇa
可怕 / 可怕的 /
घोर
ghora
了不得 / 了不得 / 凶 / 可怕 / 可怕的 / 可怖 /
बीभच्च
bībhacca
了不得 / 可怕 / 可怕的 / 恐怖的 / भयानक
bhayānaka
可怕 / 可怕的 / 恐怖的 / भयावह
bhayāvaha
可怕 / 可怕的 / 恐怖的 / भेरव
bherava
了不得 / 了不得 / 可怕 / 可怕的 / भीम
bhīma
可怕 / 可怕的 / 恐怖的 / भीसन
bhīsana
可怕 / 可怕的 / 恐怖的 /

可以喝的
kě yǐ hē de
पेय्य
peyya
可口的
kě kǒu de
पणीत
paṇīta
可吃
kě chī
भोत्तुं
bhottuṃ
可吃 / 吃 / 吃光 / 吃掉 / 吃飯 / 吃飽 / 啖 / 喫 / 大吃 / 茹 / 食 / 餐 /

可接受的
kě jiē shòu de
आदेय्य
ādeyya
可敬的
kě jìng de
गरु
garu
值得尊敬的 / 可敬的 / 導師 / 師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /

可怕的
kě pà de
अतिघोर
atighora
凶 / 可怕 / 可怕的 / 可怖 / अतिदारुण
atidāruṇa
可怕 / 可怕的 /
घोर
ghora
了不得 / 了不得 / 凶 / 可怕 / 可怕的 / 可怖 /
बीभच्च
bībhacca
了不得 / 可怕 / 可怕的 / 恐怖的 / भय
bhaya
可怕的 / 害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐怖的 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 / 非常害怕 / भयानक
bhayānaka
可怕 / 可怕的 / 恐怖的 / भयावह
bhayāvaha
可怕 / 可怕的 / 恐怖的 / भेरव
bherava
了不得 / 了不得 / 可怕 / 可怕的 / भीम
bhīma
可怕 / 可怕的 / 恐怖的 / भीसन
bhīsana
可怕 / 可怕的 / 恐怖的 /

可怖
kě bù
अतिघोर
atighora
凶 / 可怕 / 可怕的 / 可怖 / घोर
ghora
了不得 / 了不得 / 凶 / 可怕 / 可怕的 / 可怖 /
可接受的
kě jiē shòu de
आदेय्य
ādeyya
可敬的

可敬的
kě jìng de
गरु
garu
值得尊敬的 / 可敬的 / 導師 / 師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /

可是
kě shì
अपि
api
与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 即使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /
आदु
ādu
不過 / 乃是 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 惟 / 或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 然而 / 还是 / 還是 / एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /

तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
पन
pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /
पि
pi

pi
不過 / 乃是 / 也許 / 也许 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 可能 / 大概 / 恐怕 / 惟 / 或 / 或許 / 或许 / 然 / 然而 / 究竟 /

可疑的
kě yí de
द्वेज्झ
dvejḥha
可疑的 / 怀疑 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 矛盾 / 置疑 /

可知
kě zhī
दस्सेति
dasseti
可能
kě néng
पि
pi
不過 / 乃是 / 也許 / 也许 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 可能 / 大概 / 恐怕 / 惟 / 或 / 或許 / 或许 / 然 / 然而 / 究竟 /

可鄙
kě bǐ
जम्म
jamma
卑鄙 / 可鄙 / 可鄙的 / 粗俗的 /

可鄙的
kě bǐ de
उज्जातब्ब
uññātabba
卑鄙的 / 可鄙的 /
जम्म
jamma
卑鄙 / 可鄙 / 可鄙的 / 粗俗的 /

可靠
kě kào
थेत
theta
可靠 / 可靠的 /

可靠的
kě kào de
थेत
theta
可靠 / 可靠的 /
पच्चयिक
paccayika

史
shǐ
इतिहास
itihāsa
传统 / 傳統 / 历史 / 历史学 / 历史的 / 历史记录 / 史 / 来历 / 歷史 / 沿革 /

右邊
yòu biān
अपसव्य
apasavya

叶
yè
दल
dala
叶 / 瓣 / 箔 / 花瓣 / 葉 / 葉子 / 页 /
पट्ट
patta
叶 / 平板 / 床单 / 片 / 箔 / 繡帶 / 綳帶 / 羽毛 / 葉 / 葉子 / 薄片 / 页 /
पण्ण
paṇṇa
信 / 信件 / 函 / 叶 / 字母 / 箔 / 葉 / 葉子 / 页 /
पण्णक
paṇṇaka
信 / 信件 / 函 / 叶 / 字母 / 箔 / 葉 / 葉子 / 页 /
पत्त
patta
叶 / 床单 / 毛片 / 片 / 箔 / 羽 / 羽毛 / 翅膀 / 葉 / 葉子 / 页 /
पलास

palāsa
叶 / 箔 / 葉 / 葉子 / 页 /
叶脉
yè mài
धमनि
dhamani
叶脉 / 血管 / 静脉 / 靜脈 /

号
hào
गणना
gaṇanā
号 / 号码 / 多寡 / 数 / 数字 / 數 / 數目 / 算术 / 算術 / 編號 / 编号 / 號 / 號碼 / 計算 /

号码
hào mǎ
गणना
gaṇanā
号 / 号码 / 多寡 / 数 / 数字 / 數 / 數目 / 算术 / 算術 / 編號 / 编号 / 號 / 號碼 / 計算 /

司令
sī ling
नियामक
niyāmaka
司令 / 司令官 / 指挥官 / 指揮官 / 總司令 / 船長 /

司令官
sī ling guān
नियामक
niyāmaka
司令 / 司令官 / 指挥官 / 指揮官 / 總司令 / 船長 /

吃
chī
अनुभवन
anubhavana
असन
asana
吃 / 矢 / 箭 / 食 / 食品 / 食物 / 飯 /
खादन
khādana
भक्खन
bhakkhana
भोत्तुं
bhottum
可吃 / 吃 / 吃光 / 吃掉 / 吃飯 / 吃飽 / 啖 / 喫 / 大吃 / 茹 / 食 / 餐 /

吃光
chī guāng
भोत्तुं
bhottum
可吃 / 吃 / 吃光 / 吃掉 / 吃飯 / 吃飽 / 啖 / 喫 / 大吃 / 茹 / 食 / 餐 /
吃力
chī lì
किच्छ
kickha
吃力 / 困难 / 困難 / 屯 / 為難 / 痛苦 / 痛苦的 / 艰 / 艱難 / 蹇 / 难 / 難 / 難以 / 難度 /

吃掉
chī diào
भोत्तुं
bhottum
可吃 / 吃 / 吃光 / 吃掉 / 吃飯 / 吃飽 / 啖 / 喫 / 大吃 / 茹 / 食 / 餐 /
吃的人
chī de rén
अदक
adaka

吃醋
chī cù
इस्सा
issā
吃醋 / 妒忌 / 嫉妒 / 忌妒 / 羨慕 / 羨慕 /
उसूयना
usūyanā
吃醋 / 妒忌 / 嫉妒 / 忌妒 / 羨慕 / 羨慕 /
उसूया
usūyā
吃醋 / 妒忌 / 嫉妒 / 忌妒 / 羨慕 / 羨慕 /

吃飯
chī fàn
भोत्तुं
bhottum
可吃 / 吃 / 吃光 / 吃掉 / 吃飯 / 吃飽 / 啖 / 喫 / 大吃 / 茹 / 食 / 餐 /

吃飽
chī bǎo
भोत्तुं
bhottum
可吃 / 吃 / 吃光 / 吃掉 / 吃飯 / 吃飽 / 啖 / 喫 / 大吃 / 茹 / 食 / 餐 /

各
gè
एकेक
ekeka
各 / 各個 / 各自 / 每 / 每一 / 每个 / 每個 / 每次 /
एकमेक
ekameka
各 / 各個 / 各自 / 每 / 每一 / 每个 / 每個 / 每次 /
निखिल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 個 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 统统 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /

各個
gè gè
एकेक
ekeka
各 / 各個 / 各自 / 每 / 每一 / 每个 / 每個 / 每次 /
एकमेक
ekameka
各 / 各個 / 各自 / 每 / 每一 / 每个 / 每個 / 每次 /

各自
gè zì
एकेक
ekeka
各 / 各個 / 各自 / 每 / 每一 / 每个 / 每個 / 每次 /
एकमेक
ekameka
各 / 各個 / 各自 / 每 / 每一 / 每个 / 每個 / 每次 /

各自的
gè zì de
पच्चेक
pacceka
分开 / 分開 / 分離 / 各自的 /
吆
yāo
घोस
ghosa
作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嚷 / 声 / 声音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鸣 /

合意的
hé yì de
अभिराम
abhirāma
合意的 / 愉快的 /
कन्त
kanta
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 合意的 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 愉快的 / 老公 /

合法的
hé fǎ de
ओरस
orasa

吉兆的
jí zhào de
अभिमङ्गल
abhimaṅgala
भद्द
bhadda
मङ्गल
maṅgala
儀式 / 典礼 / 典禮 / 吉兆的 / 昌盛 / 泓 / 礼 / 禮 / 繁榮 / 繁荣 /

吊
diào
ओलम्बन
olambana

吊籃
diào lán
पुट
puṭa
一籃 / 兜 / 匭 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 梘 / 盂 / 筐 / 筭 / 籃 / 籠 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पुटक
puṭaka
一籃 / 兜 / 匭 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 梘 / 盂 / 筐 / 筭 / 籃 / 籠 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पिटक
piṭaka
一籃 / 匭 / 吊籃 / 梘 / 筐 / 筭 / 籃 / 籠 / 籃 / 籃子 /

同
tóng
उपम
upama
似 / 似 / 侔 / 同 / 喜欢 / 宛 / 相仿 / 相似的 / 肖 /

同一
tóng yī
एक
eka
一 / 一些 / 一體 / 之一 / 同一 / 同样 / 同种的 / 單 / 未知的 / 某一個 / 相同的 /

同事
tóng shì
अमच्च
amacca
同事 / 同僚 /
同住者
tóng zhù zhě
नेवासिक
nevāsika
同住者 / 居住者 / 居民 / 駐 /

同僚
tóng liáo
अमच्च
amacca
同事 / 同僚 /

同情
tóng qíng
अनुकम्पन
anukampana
同情 / 怜悯 / 惻 / 愍 / 慈悲 / 憐 /

करुणा
karuṇā
同情 / 怜悯 / 惻 / 愍 / 慈悲 / 憐 / 憐憫 /
कारुञ्ज
kāruñña
同情 / 怜悯 /
दया
dayā
仁慈 / 同情 / 好意 / 怜悯 / 恤 / 憐憫 /

同意
tóng yì
अनुज्जा
anuñña
制裁 / 同意 / 批准 / 支援 / 裁 / 許可 / 認可 /

अनुमति
anumati
同意 / 許可 /
अपलोकन
apalokana
同意 / 許可 /
पटिञ्जा
paṭiñña
同意 / 有希望 / 答應 / 約定 / 許 / 許可 / 許諾 / 諾 / 諾言 /

同時
tóng shí
एकदा
ekadā
一度 / 一旦 / 一朝 / 一次 / 同時 / 曾 / 曾經 /

同样	名	名字	名称	名義
tóng yàng	míng	míng zì	míng chēng	míng yì
एक	अभिधान	अभिधान	अभिधान	अभिधान
eka	abhidhāna	abhidhāna	abhidhāna	abhidhāna
一 / 一些 / 一體 / 之一 / 同一 / 同样 / 同种的 / 單 / 未知的 / 某一個 / 相同的 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
同样地	अव्हय	अव्हय	अव्हय	अव्हय
tóng yàng dì	avhaya	avhaya	avhaya	avhaya
इव	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
iva	अव्हान	अव्हान	अव्हान	अव्हान
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /	avhāna	avhāna	avhāna	avhāna
	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
同种的	आख्या	आख्या	आख्या	आख्या
tóng zhǒng de	ākhyā	ākhyā	ākhyā	ākhyā
एक	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
eka	नाम	नाम	नाम	नाम
一 / 一些 / 一體 / 之一 / 同一 / 同样 / 同种的 / 單 / 未知的 / 某一個 / 相同的 /	nāma	nāma	nāma	nāma
	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
同胞	名义	名望	名稱	名聲
tóng bāo	míng yì	míng wàng	míng chēng	míng shēng
अनुज	अभिधान	कित्ति	अभिधान	कित्ति
anuja	abhidhāna	kitti	abhidhāna	kitti
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	光榮 / 名望 / 名气 / 名氣 / 名聲 / 名譽 / 榮 / 榮耀 / 榮 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	光榮 / 名望 / 名气 / 名氣 / 名聲 / 名譽 / 榮 / 榮耀 / 榮 /
आवुसो	अव्हय	名气	अव्हय	名譽
āvuso	avhaya	míng qì	avhaya	míng yù
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 朋 / 朋友 / 朋友 / 社友 / 老兄 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	कित्ति	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	कित्ति
भातु	अव्हान	名氣	अव्हान	名聲
bhātu	avhāna	míng qì	avhāna	míng shēng
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	कित्ति	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	光榮 / 名望 / 名气 / 名氣 / 名聲 / 名譽 / 榮 / 榮耀 / 榮 /
भातिक	नाम	名聲	आख्या	名詞
bhātika	nāma	míng qì	आख्या	míng cí
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	कित्ति	आख्या	अभिधान
	अव्हय	kitti	ākhyā	abhidhāna
	avhaya	光榮 / 名望 / 名气 / 名氣 / 名聲 / 名譽 / 榮 / 榮耀 / 榮 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
	avhāna	名聲	नाम	अव्हय
	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	कित्ति	nāma	avhaya
	नाम	kitti	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
	nāma	光榮 / 名望 / 名气 / 名氣 / 名聲 / 名譽 / 榮 / 榮耀 / 榮 /	avhāna	avhāna
	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	名聲	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /	任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
名單	名單	名單	名單	名單
míng dān	míng dān	míng dān	míng dān	míng dān
उद्दान	उद्दान	उद्दान	उद्दान	उद्दान
uddāna	uddāna	uddāna	uddāna	uddāna
串 / 列出 / 列表 / 单子 / 名單 / 名單 / 束 / 目錄 / 群 / 譜 /	串 / 列出 / 列表 / 单子 / 名單 / 名單 / 束 / 目錄 / 群 / 譜 /	串 / 列出 / 列表 / 单子 / 名單 / 名單 / 束 / 目錄 / 群 / 譜 /	串 / 列出 / 列表 / 单子 / 名單 / 名單 / 束 / 目錄 / 群 / 譜 /	串 / 列出 / 列表 / 单子 / 名單 / 名單 / 束 / 目錄 / 群 / 譜 /
名單	名單	名單	名單	名單
míng dān	míng dān	míng dān	míng dān	míng dān
उद्दान	उद्दान	उद्दान	उद्दान	उद्दान
uddāna	uddāna	uddāna	uddāna	uddāna
串 / 列出 / 列表 / 单子 / 名單 / 名單 / 束 / 目錄 / 群 / 譜 /	串 / 列出 / 列表 / 单子 / 名單 / 名單 / 束 / 目錄 / 群 / 譜 /	串 / 列出 / 列表 / 单子 / 名單 / 名單 / 束 / 目錄 / 群 / 譜 /	串 / 列出 / 列表 / 单子 / 名單 / 名單 / 束 / 目錄 / 群 / 譜 /	串 / 列出 / 列表 / 单子 / 名單 / 名單 / 束 / 目錄 / 群 / 譜 /

后
hòu
पच्छा
pacchā
之后 / 后 / 然後 /
परं
param
之后 / 之後 / 后 / 后的 / 後 / 經 / 經過 / 经 / 经过 / 超出 / 超过 /

后座
hòu zuò
आसन
āsana
位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 /
निसीदन
nisīdana
位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 /
पीठ
pīṭha
中 / 位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 / 椅 / 椅子 /

后的
hòu de
परं
param
之后 / 之後 / 后 / 后的 / 後 / 經 / 經過 / 经 / 经过 / 超出 / 超过 /

后面
hòu miàn
पिठ्ठ
piṭṭha
后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 表面 / 走回 / 退后 / 面 / 麵 /
पिट्ठि
piṭṭhi
上端 / 后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 尖峰 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 走回 / 退后 / 頂端 / 頂端 /

向
xiàng
अभिमुख
abhimukha
前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 向 / 正面 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 /

向上
xiàng shàng
परो
paro
上述 / 上面 / 以上 / 再作 / 前述 / 向上 / 在上面 / 更 / 更远的 / 此外 / 進一步 /

向上的
xiàng shàng de
उद्ध
uddha
上面的 / 向上的 /

向东
xiàng dōng
पुब्बा
pubbā
东 / 向东 / 向东的 / 東 / 東邊 / 東部 / 華東 /
पुरत्था
puratthā
东 / 向东 / 向东的 / 東 / 東邊 / 東部 / 華東 /

向东的
xiàng dōng de
पुब्बा
pubbā
东 / 向东 / 向东的 / 東 / 東邊 / 東部 / 華東 /
पुरत्था
puratthā
东 / 向东 / 向东的 / 東 / 東邊 / 東部 / 華東 /

向來
xiàng lái
अभिण्हसो
abhiṅhaso
一向 / 一律 / 从来 / 再三地 / 历来 / 向來 / 始終 / 始终 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /
निबद्धं
nibaddhaṃ
一向 / 一律 / 从来 / 历来 / 向來 / 始終 / 始终 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /

向后
xiàng hòu
पिठ्ठ
piṭṭha
后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 表面 / 走回 / 退后 / 面 / 麵 /
पिट्ठि
piṭṭhi
上端 / 后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 尖峰 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 走回 / 退后 / 頂端 / 頂端 /

向西的
xiàng xī de
अपाचीन
apācīna

君主
jūn zhǔ
अधिप
adhipa
主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /
अधिपति
adhipati
主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /

君子
jūn zǐ
अय्य
ayya
主 / 主人 / 君子 / 大師 / 好手 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 法師 / 紳士 / 統治者 / 老爺 / 領主 /

君王
jūn wáng
इन्द्र
inda
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 / 統治者 /
जनाधिप
janādhipa
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 /
जनिन्द
janinda
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 /

देव
deva
一群 / 上帝 / 君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 天 / 天界 / 天空 / 特大 / 王 / 神 / 雲霄 /
पत्थिव
patthiva
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 /

吞
tūn
अज्झोहरण
ajjhoharaṇa
अज्झोहार
ajjhohāra
गिलन
gilana

吠
fèi
तच
taca
削皮 / 剥 / 剥 / 吠 / 壳 / 壳 / 树皮 / 犬吠 / 皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 肌膚 / 肤 /
भुक्करण
bhukkaraṇa

否
fǒu
न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒绝 / 无 / 未 / 毋 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 沒 / 没有 / 没有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /

否定
fǒu dìng
न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒绝 / 无 / 未 / 毋 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 沒 / 没有 / 没有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /
पटिकखेप
paṭikkhepa
不存在 / 反对 / 否定 / 异议 / 拒绝 / 異議 /

否定的
fǒu dìng de
पच्चनिक
paccanika
不利的 / 仇人 / 忤 / 否定的 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 / 相反的 /

含义
hán yì
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 谛 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /

含意
hán yì
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 谛 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /

含義
hán yì
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 谛 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /

吭
kēng
कण्ठ
kaṅṭha
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈部 /
कण्ठ

kaṅṭha
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈部 /
गल
gala
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈部 /
गल
gala
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈部 /

吵
chǎo
कलह
kalaha
争执 / 争端 / 争议 / 争论 / 吵 / 吵架 / 拌嘴 / 爭吵 / 爭執 / 爭論 / 碴 / 糾紛 /

吵架
chǎo jià
कलह
kalaha
争执 / 争端 / 争议 / 争论 / 吵 / 吵架 / 拌嘴 / 爭吵 / 爭執 / 爭論 / 碴 / 糾紛 /

吸
xī
कइदन
kaḍḍhana
吸 / 拉 /

吸入
xī rù
अस्सास
assāsa
吸入 / 安慰 / 慰 / 慰藉 / 舒服 / 舒适 /

आण
āṇa
吸入 / 呼吸 / 呼吸的 /
आन
āna
吸入 / 呼吸 / 呼吸的 /

吸奶
xī nǎi
उर
ura
中 / 乳 / 乳房 / 吸奶 / 奶子 / 心口 / 怀 / 懷 / 胸 / 胸口 / 胸脯 / 胸膛 / 胸部 /
खीर
khīra
乳 / 乳汁 / 吸奶 / 奶 / 牛奶 /

吸毒
xi dú

अगद
agada
吸毒 / 戒毒 / 毒品 / 药 / 药物 / 药 / 藥 / 藥品 / 藥物 / 醫藥 /
吸煙
xi yān

धूम
dhūma
冒煙 / 吸煙 / 火 / 烟 / 煙 / 煙霧 / 熏 / 燻 / 菸 /

吸管
xi guǎn

पलाल
palāla
吸管 / 稻草 / 草 /

吸血鬼
xi xuè guǐ

जलूका
jalūkā
吸血鬼 / 水蛭 / 蛭 /

吹
chuī

पहार
pahāra
一發 / 吹 / 打擊 / 攻擊 /

吾
wú

अहं
ahaṃ
予 / 余 / 俺 / 吾 / 我 / 朕 / 鄙人 / 餘 /
मे
me
吾 / 我 / 我的 /

呆
dāi

अन्ध
andha
傻 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 盲 / 盲人 / 相親 / 瞎 / 瞎子 / 瞎眼 / 瞽 / 笨 / 笨的 /
जळ
jala
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
ठान
thāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 靡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 狀 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
दन्ध
dandha
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /

दुप्पञ्ज
duppañña

傻 / 傻子 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
दुम्मेध
dummedha

傻 / 傻子 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
बाल
bāla

傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /

呈報
chéng bào

निवेदन
nivedana
公告 / 呈報 / 告示 / 報告 / 報案 / 情報 / 舉報 /

告密者
gào mì zhě

आखु
ākhu
叛徒 / 告密者 / 捕鼠 / 老鼠 / 耗子 / 鼠 / 鼯 /
उन्दुर
undura
叛徒 / 告密者 / 捕鼠 / 老鼠 / 鼠 /
उन्दूर
undūra
叛徒 / 告密者 / 捕鼠 / 老鼠 / 鼠 /

告示
gào shì

आरोचना
ārocanā
公告 / 告示 /
जल्लि
ñatti
公告 / 告示 / 宣言 / 聲明 /
जापन
ñāpana
公告 / 告示 / 通告 / 通知 /
निवेदन
nivedana
公告 / 呈報 / 告示 / 報告 / 報案 / 情報 / 舉報 /
पञ्जाण
paññāṇa
告示 / 表徵 /
पवेदन
pavedana
公告 / 告示 /

अवसान
avasāna

下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
ओसान
osāna

下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

कोटि
koṭi

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 點 /
कोण
koṇa

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /

निट्ठा
niṭṭhā

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

परिनिट्ठान
pariniṭṭhāna

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

告終
gào zhōng

अगग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 首 / 首先 /
अन्त
anta
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂端 /
अपवगग
apavagga
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

अवसान
avasāna

परियन्त
pariyanta

下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 極限 / 棧 / 極限 / 止境 / 滙 / 眇 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 結束 / 缘 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियोसान
pariyosāna

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

呕吐
ǒu xīn

गद
gada
作響 / 健全 / 呕吐 / 嘔 / 声 / 声音 / 恙 / 有聲 / 演講 / 疾 / 疾病 / 病 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鸣 /
गेलञ्ज
gelañña
呕心 / 恙 / 疾 / 疾病 / 病 /

員
yuán

अवयव
avayava
一部份 / 份 / 員 / 員 / 局部 / 成員 / 會員 / 股 / 肢 / 要素 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

周圍
zhōu wéi

अभितो
abhito
周日
zhōu rì

अक्क
akka
周日 / 太阳 / 太陽 / 晒 / 曬 / 阳 / 陽 /

आदिच्च
ādicca

周日 / 太阳 / 太陽 / 晒 / 曬 / 阳 / 陽 /
भानु
bhānu

亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /

周期
zhōu qī

चक्क
cakka
令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 轮子 / 轆 / 轆 / 騎車 /

味
wèi

अस्साद
assāda
口味 / 味 / 味兒 / 味道 / 品味 / 品尝 / 品尝 / 啗 / 啜 / 嘗 / 尝 / 愉快 / 有味道 / 滋味 / 滿足 / 趣味 /

परियन्त
pariyanta

下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 極限 / 棧 / 極限 / 止境 / 滙 / 眇 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 結束 / 缘 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियोसान
pariyosāna

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

呕吐
ǒu xīn

गद
gada
作響 / 健全 / 呕吐 / 嘔 / 声 / 声音 / 恙 / 有聲 / 演講 / 疾 / 疾病 / 病 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鸣 /
गेलञ्ज
gelañña
呕心 / 恙 / 疾 / 疾病 / 病 /

員
yuán

अवयव
avayava
一部份 / 份 / 員 / 員 / 局部 / 成員 / 會員 / 股 / 肢 / 要素 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

周圍
zhōu wéi

अभितो
abhito
周日
zhōu rì

अक्क
akka
周日 / 太阳 / 太陽 / 晒 / 曬 / 阳 / 陽 /

आदिच्च
ādicca

周日 / 太阳 / 太陽 / 晒 / 曬 / 阳 / 陽 /
भानु
bhānu

亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /

周期
zhōu qī

चक्क
cakka
令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 轮子 / 轆 / 轆 / 騎車 /

味
wèi

अस्साद
assāda
口味 / 味 / 味兒 / 味道 / 品味 / 品尝 / 品尝 / 啗 / 啜 / 嘗 / 尝 / 愉快 / 有味道 / 滋味 / 滿足 / 趣味 /

味兒
wèi r

अस्साद
assāda
口味 / 味 / 味兒 / 味道 / 品味 / 品尝 / 品尝 / 啗 / 啖 / 嘗 / 尝 / 愉快 / 有味道 / 滋味 / 滿足 / 趣味 /

味道
wèi dào

अस्साद
assāda
口味 / 味 / 味兒 / 味道 / 品味 / 品尝 / 品尝 / 啗 / 啖 / 嘗 / 尝 / 愉快 / 有味道 / 滋味 / 滿足 / 趣味 /
गन्ध
gandha
味道 / 嗅觉 / 气味 / 氣味 / 熏 / 香 / 香水 / 香油 /

呻吟
shēn yín

नित्यहुनन
nitthunana
呻吟 / 哀悼 /

呼叫
hū jiào

आमन्तन
āmantana
呼叫 / 稱呼 / 邀請 /

呼吸
hū xī

आण
āṇa
吸入 / 呼吸 / 呼吸的 /
आन
āna
吸入 / 呼吸 / 呼吸的 /
आपाण
āpāṇa
呼吸 / 呼吸的 /
पाण
pāṇa
一口气 / 一口氣 / 世 / 人命 / 人生 / 呼吸 / 命 / 壽命 / 性命 / 息 / 氣息 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 生物 / 身 / 鼻息 / 鼻息 /
पाणन
pāṇana
呼吸 / 呼吸的 /

呼吸的
hū xī de

आण
āṇa
吸入 / 呼吸 / 呼吸的 /
आन
āna
吸入 / 呼吸 / 呼吸的 /
आपाण
āpāṇa
呼吸 / 呼吸的 /
पाणन
pāṇana
呼吸 / 呼吸的 /

呼喊
hū hǎn

उन्नाद
unnāda
叫喊 / 呼喊 / 喊 / 喊叫 / 嚷 / 大叫 / 大喊 /
घोस
ghosa
作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嚷 / 声 / 声音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鸣 /

呼氣
hū qì

पस्सास
passāsa

命
mìng

चरित
carita
世 / 人命 / 人生 / 個性 / 命 / 品行 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /
जीव
jīva
世 / 人命 / 人生 / 命 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /
नियति
niyati
命 / 命运 / 命運 / 天命 / 宿命 /
पाण
pāṇa
一口气 / 一口氣 / 世 / 人命 / 人生 / 呼吸 / 命 / 壽命 / 性命 / 息 / 氣息 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 生物 / 身 / 鼻息 / 鼻息 /

命令
mìng lìng

अनुक्कम
anukkama
令 / 命令 / 序 / 序列 / 承 / 排序 / 旨意 / 檄 / 次序 / 秩序 / 程 / 系列 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 / 順序 /
कम
kama
一步 / 命令 / 序 / 措施 / 方式 / 方法 / 模式 / 步 / 步子 / 步驟 / 狀態 / 脚步 / 舉止 / 训令 / 進程 / 陔 / 順序 / 順序 /
कारापन
kārāpana

चक्क
cakka
令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 轮子 / 轆 / 轆 / 騎車 /
नियोजन
niyojana

命名
mìng míng

अभिधान
abhidhāna
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
अव्हय
avhaya
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
अव्हान
avhāna
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
आख्या
ākhyā
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
नाम
nāma
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /

命運
mìng yùn

गति
gati
事業 / 去 / 命运 / 命運 / 涯 / 生涯 / 課程 /
नियति
niyati
命 / 命运 / 命運 / 天命 / 宿命 /

命運
mìng yùn

गति
gati
事業 / 去 / 命运 / 命運 / 涯 / 生涯 / 課程 /
नियति
niyati
命 / 命运 / 命運 / 天命 / 宿命 /

咋
zǎ

कस्मा
kasmā
为什么 / 为什么 / 为何 / 为何 / 何 / 何以 / 何必 / 何故 / 咋 / 為什麼 / 為何 / 為甚麼 /

घोस
ghosa
作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嚷 / 声 / 声音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鸣 /

和
hé

अपि
api
与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 既使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /
च
ca
与 / 且 / 並 / 並且 / 也 / 以及 / 併 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 和 / 太 / 并 / 并且 / 暨 / 汰 / 而 / 而且 / 與 /
पन
pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /

和平
hé píng

निब्वुति
nibbuti
和平 / 和約 / 安 /
和平的
hé píng de

अरण
araṇa

和約
hé yuē

निब्वुति
nibbuti
和平 / 和約 / 安 /

和風
hé fēng

अनिल
anila
和風 / 天空 / 風 / 風大 / 风 /
पवन
pavana
和風 / 風 / 風大 / 风 /

咎
jiù

अवण्ण
avaṇṇa
咎 / 怨 / 歸咎 / 罪 / 責備 / 責怪 /
उपवाद
upavāda
侮 / 侮辱 / 咎 / 怨 / 挑剔 / 歸咎 / 污辱 / 罪 / 責備 / 責怪 / 辱 /
निग्गह
niggaha
咎 / 怨 / 歸咎 / 罪 / 責備 / 責怪 / 過失 /

咙
lóng

कण्ठ
kaṅṭha
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /
गल
gala
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /

咨詢
zī xún

अनुसिद्धि
anusitṭhi
劝告 / 咨詢 / 忠告 / 警告 /
उपदेस
upadesa
劝告 / 咨詢 / 忠告 / 指令 / 指示 /
उपदिसन
upadisana
劝告 / 咨詢 / 忠告 /
ओवाद
ovāda
劝告 / 咨詢 / 忠告 / 指令 / 指示 /

咽
yān

कण्ठ
kaṅṭha
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /
कण्ठ

kaṅṭha
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /

गल
gala
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /

गल
gala
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /

咽喉
yàn hóu
कण्ठ
kaṅṭha
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈部 /
कण्ठ
kaṅṭha
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈部 /
गल
gala
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈部 /
गल
gala
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈部 /

哀悼
āi dào
नित्यहुनन
nitthunana
呻吟 / 哀悼 /

品味
pǐn wèi
अस्साद
assāda
口味 / 味 / 味兒 / 味道 / 品味 / 品嘗 / 品尝 / 啗 / 嚼 / 嘗 / 尝 / 愉快 / 有味道 / 滋味 / 滿足 / 趣味 /

品嘗
pǐn cháng
अस्साद
assāda
口味 / 味 / 味兒 / 味道 / 品味 / 品嘗 / 品尝 / 啗 / 嚼 / 嘗 / 尝 / 愉快 / 有味道 / 滋味 / 滿足 / 趣味 /

品尝
pǐn cháng
अस्साद
assāda
口味 / 味 / 味兒 / 味道 / 品味 / 品嘗 / 品尝 / 啗 / 嚼 / 嘗 / 尝 / 愉快 / 有味道 / 滋味 / 滿足 / 趣味 /

品德
pǐn dé
धम्म
dhamma
事實 / 品德 / 大自然 / 天性 / 德 / 德性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 法 / 自然 / 自然界 / 道德 /

品格
pǐn gé
पकति
pakati
人品 / 人物 / 品格 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /

品行
pǐn xíng
चरित
carita
世 / 人命 / 人生 / 個性 / 命 / 品行 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /
चारित्त
cāritta
品行 / 練習 / 習慣 / 行 / 行为 /

品質
pǐn zhì
अङ्ग
aṅga
品質 / 品质 / 成分 / 肢 / 質 / 質量 / 质 / 质量 /
गुण
guṇa
品質 / 品质 / 質 / 質量 / 质 / 质量 /

品质
pǐn zhì
अङ्ग
aṅga
品質 / 品质 / 成分 / 肢 / 質 / 質量 / 质 / 质量 /
गुण
guṇa
品質 / 品质 / 質 / 質量 / 质 / 质量 /

晒
shài
अतिमञ्जना
atimaññana
傲慢 / 晒 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /
अवजानन
avajānana
晒 / 蔑視 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /
अवञ्जा
avaññā
晒 / 失禮 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /
अवमञ्जना
avamaññanā
不敬 / 晒 / 忽視 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /

响应
xiǎng yīng
उत्तर
uttara
上面的 / 北方 / 北方的 / 响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /
पटिवचन
paṭivacana
响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /

哑
yǎ
मूग
mūga
哑 / 哑 / 啞 / 啞巴 / 暗 /
मूग
mūga
哑 / 哑 / 啞 / 啞巴 / 暗 /

啞
huā
आराव
ārāva
啞 / 噏 / 噏 / 噪 / 噪声 / 噪音 /

啞
nóng
मुखर
mukhara
啞 / 多嘴的 /

員
yuán
अवयव
avayava
一部份 / 份 / 員 / 員 / 局部 / 成員 / 會員 / 股 / 肢 / 要素 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

哥
gē
अनुज
anuja
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /

哥哥
gē gē
अनुज
anuja
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /
आवुसो
āvuso
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 朋 / 朋友 / 朋友 / 社友 / 老兄 /
भातु
bhātu
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /
भालिक
bhātika
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /

哪一个
nǎ yī gè
कतम
katama
什么 / 何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 如何 / 孰 / 曷 / 那 / 那 /
कतर
katara
何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 孰 / 那 / 那 /

哪一個
nǎ yī gè
कतम
katama
什么 / 何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 如何 / 孰 / 曷 / 那 / 那 /
कतर
katara
何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 孰 / 那 / 那 /

哥哥
gē gē
अनुज
anuja
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /
आवुसो
āvuso
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 朋 / 朋友 / 朋友 / 社友 / 老兄 /

भालु
bhātu
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /
भालिक
bhātika
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /

哪

哪
nǎ
कतम
katama
什么 / 何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 如何 / 孰 / 曷 / 那 / 那 /
कतर
katara
何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 孰 / 那 / 那 /

哪一
nǎ yī
कतम
katama
什么 / 何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 如何 / 孰 / 曷 / 那 / 那 /
कतर
katara
何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 孰 / 那 / 那 /

哪一个
nǎ yī gè
कतम
katama
什么 / 何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 如何 / 孰 / 曷 / 那 / 那 /
कतर
katara
何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 孰 / 那 / 那 /

哪一個
nǎ yī gè
कतम
katama
什么 / 何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 如何 / 孰 / 曷 / 那 / 那 /
कतर
katara
何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 孰 / 那 / 那 /

哪一個
nǎ yī gè
कतम
katama
什么 / 何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 如何 / 孰 / 曷 / 那 / 那 /
कतर
katara
何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 孰 / 那 / 那 /

哪位
nǎ wèi
कतम
katama
什么 / 何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 如何 / 孰 / 曷 / 那 / 那 /
कतर
katara
何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 孰 / 那 / 那 /

哪個
nǎ gè
कतम
katama
什么 / 何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 如何 / 孰 / 曷 / 那 / 那 /
कतर
katara
何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 孰 / 那 / 那 /

哭
kū
आदेव
ādeva
आरोदना
ārodanā
哭 / 哭泣 / 啼 /
कन्दन
kandana
कन्दित
kandita

哭泣
kū qì
आरोदना
ārodanā
哭 / 哭泣 / 啼 /

哲
zhé
पण्डित
paṇḍita
哲 / 明智 / 智者 / 聰 / 英明 /

唇
chún
अधर
adhara
唇 / 唇管 / 嘴唇 /
ओठ
oṭṭha
唇 / 唇管 / 嘴唇 / 駝 / 駱駝 / 駝 / 駝 / 駱駝 /

唇管
chún guǎn
अधर
adhara
唇 / 唇管 / 嘴唇 /
ओठ
oṭṭha
唇 / 唇管 / 嘴唇 / 駝 / 駱駝 / 駝 / 駝 / 駱駝 /

唯
wéi
आम
āma
唯 / 是 / 是的 / 未成熟的 / 沒錯 / 没错 / 生的 /
एकक
ekaka
仃 / 单 / 单一 / 单一的 / 单身的 / 唯 / 唯一 / 孤 / 孤單 / 孤零零 / 独身 / 獨居 / 茛 /
एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /
एवं
evam̐
唯 / 因此 / 因而 / 如此 / 是 / 是的 / 沒錯 / 没错 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 /
केवल
kevala
仅仅 / 全部 / 全部的 / 只有 / 唯 / 唯一 / 囫 / 孤 / 完全 / 总体 / 惟 / 整 / 整个 / 整個 / 整数 / 整整 / 絕對 / 绝对 / 通通 / 鞋底 /

唯一
wéi yī
एकक
ekaka
仃 / 单 / 单一 / 单一的 / 单身的 / 唯 / 唯一 / 孤 / 孤單 / 孤零零 / 独身 / 獨居 / 茛 /
एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /
केवल
kevala
仅仅 / 全部 / 全部的 / 只有 / 唯 / 唯一 / 囫 / 孤 / 完全 / 总体 / 惟 / 整 / 整个 / 整個 / 整数 / 整整 / 絕對 / 绝对 / 通通 / 鞋底 /

唱歌
chàng gē
गान
gāna
唱歌 / 嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌唱 / 歌曲 / 歌曲 / 歌聲 / 頌 /
गायन
gāyana
唱歌 / 歌唱 / 歌聲 /
गीत
gīta
唱歌 / 嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌唱 / 歌曲 / 歌曲 / 歌聲 / 頌 /

唾
tuò
एला
elā
口水 / 唾 / 唾液 / 涎 /
एळा
elā
口水 / 唾 / 唾液 / 涎 /
खेळ
khela
口水 / 唾 / 唾液 / 涎 /
唾液
tuò yè
एला
elā
口水 / 唾 / 唾液 / 涎 /
एळा
elā
口水 / 唾 / 唾液 / 涎 /
खेळ
khela
口水 / 唾 / 唾液 / 涎 /

商場
shāng chǎng
आपण
āpaṇa
商場 / 市 / 市场 / 市場 / 市集 / 肆 / 销售 / 集市 /
問題
wèn tí
पुच्छा
pucchā
पन्ह
paṅha
事情 / 問題 / 回答 / 审问 / 提問 / 質問 / 質疑 / 質詢 / 问题 /
परिपुच्छा
paripucchā

啖
dàn
भोत्तुं
bhottum̐
可吃 / 吃 / 吃光 / 吃掉 / 吃飯 / 吃飽 / 啖 / 喫 / 大吃 / 茹 / 食 / 餐 /
啗
dàn
अस्साद
assāda
口味 / 味 / 味兒 / 味道 / 品味 / 品嘗 / 品尝 / 啗 / 嚼 / 嘗 / 尝 / 愉快 / 有味道 / 滋味 / 滿足 / 趣味 /
噉
chuò
अस्साद
assāda
口味 / 味 / 味兒 / 味道 / 品味 / 品嘗 / 品尝 / 啗 / 嚼 / 嘗 / 尝 / 愉快 / 有味道 / 滋味 / 滿足 / 趣味 /

啞
yǎ
मूग
mūga
哑 / 啞 / 啞 / 啞巴 / 暗 /
啞巴
yǎ ba
मूग
mūga
哑 / 啞 / 啞 / 啞巴 / 暗 /
啼
tí
आरोदना
ārodanā
哭 / 哭泣 / 啼 /
善
shàn
कुसल
kusala
专家 / 乖 / 伶 / 伶 / 俐 / 焦 / 善 / 妙 / 德行 / 美德 /

喉
hóu
कण्ठ
kaṅṭha
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /
गल
gala
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /

喉咙
hóu lóng
कण्ठ
kaṅṭha
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /
गल
gala
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /

喉嚨
hóu lóng
कण्ठ
kaṅṭha
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /
गल
gala
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /

喉头
hóu tóu
कण्ठ
kaṅṭha
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /
गल
gala
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /

喊
hǎn
उन्नाद
unnāda
叫喊 / 呼喊 / 喊 / 喊叫 / 嚷 / 大叫 / 大喊 /
घोस
ghosa
作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嚷 / 声 / 声音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 吗 /

喊叫
hǎn jiào
उन्नाद
unnāda
叫喊 / 呼喊 / 喊 / 喊叫 / 嚷 / 大叫 / 大喊 /
घोस
ghosa
作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嚷 / 声 / 声音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 吗 /

暗
yīn
मूग
mūga
哑 / 啞 / 啞 / 啞巴 / 暗 /

喜好
xǐ hǎo
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

喜悅
xǐ yuè
आनन्द
ānanda
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
तुष्टि
tutṭhi
喜悅 / 喜悦 / 娛 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 高兴 /
तुस्सना
tussanā
喜悅 / 喜悦 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
नन्दि
nandi
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 渴望 / 渴求 / 禧 / 禧 /
पमोद
pamoda
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 禧 /
पामुज्ज
pāmujja
喜悅 / 喜悦 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
पामोज्ज
pāmojja
喜悅 / 喜悦 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
पीणन
pīṇana
पीति
pīti
喜悅 / 喜悦 / 情緒 / 情趣 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /

喜悦	
xǐ yuè	
आनन्द	
ānanda	
喜悦 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /	
तुडि	
tutṭhi	
喜悅 / 喜悦 / 娛 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 高兴 /	
तुस्सना	
tussanā	
喜悅 / 喜悦 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /	
नन्दि	
nandi	
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 渴望 / 渴求 / 禧 / 禧 /	
पमोद	
pamoda	
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 禧 /	
पामुज्ज	
pāmuḥja	
喜悅 / 喜悦 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /	
पामोज्ज	
pāmoḥja	
喜悅 / 喜悦 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /	
पीति	
pīti	
喜悅 / 喜悦 / 情緒 / 情趣 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /	
喜欢	
xǐ huān	
इव	
iva	
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /	
उपम	
upama	
似 / 似 / 侔 / 同 / 喜欢 / 宛 / 相仿 / 相似的 / 肖 /	

喜歡	
xǐ huan	
इव	
iva	
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /	

喝	
hē	
पान	
pāna	
喝 / 喝了 / 好喝 / 水 / 糖漿 / 糖漿 / 飲 / 饮 / 饮料 /	
पिवन	
pivana	

喝了	
hē le	
पान	
pāna	
喝 / 喝了 / 好喝 / 水 / 糖漿 / 糖漿 / 飲 / 饮 / 饮料 /	
喝彩	
hē cǎi	
उक्कुट्टि	
ukkuṭṭhi	
喝彩 / 歡呼 /	
喝酒	
hē jiǔ	
मज्ज	
majja	
喝酒 / 酒 / 酒鬼 /	
喧	
xuān	
आराव	
ārāva	
哗 / 喧 / 喧 / 噪 / 噪声 / 噪音 /	
आराव	
ārāva	
哗 / 喧 / 喧 / 噪 / 噪声 / 噪音 /	

喫	
chī	
भोत्तुं	
bhottum	
可吃 / 吃 / 吃光 / 吃掉 / 吃飯 / 吃飽 / 啖 / 喫 / 大吃 / 茹 / 食 / 餐 /	
單	
dān	
एक	
eka	
一 / 一些 / 一體 / 之一 / 同一 / 同样 / 同种的 / 單 / 未知的 / 某一個 / 相同的 /	

單詞	
dān cí	
आलाप	
ālāpa	
交談 / 会话 / 單詞 / 圣言 / 字 / 言 / 詞 / 話 / 談話 / 词 /	

喷灯	
pēn dēng	
उक्का	
ukkā	
喷灯 / 流星 / 火把 / 火炬 / 炬 / 燭 / 隕石 / 隕星 /	

嗅到	
xiù dào	
घाण	
ghāṇa	
嗅到 / 嗅覺 / 鼻 / 鼻子 /	
नय्यहु	
natthu	
嗅到 / 嗅覺 / 鼻 / 鼻子 /	
नासा	
nāsā	
嗅到 / 嗅覺 / 鼻 / 鼻子 /	
नासिका	
nāsikā	
嗅到 / 嗅覺 / 鼻 / 鼻子 /	

嗅覺	
xiù jué	
घाण	
ghāṇa	
嗅到 / 嗅覺 / 鼻 / 鼻子 /	
नय्यहु	
natthu	
嗅到 / 嗅覺 / 鼻 / 鼻子 /	
नासा	
nāsā	
嗅到 / 嗅覺 / 鼻 / 鼻子 /	
नासिका	
nāsikā	
嗅到 / 嗅覺 / 鼻 / 鼻子 /	

嗅觉	
xiù jué	
गन्ध	
gandha	
味道 / 嗅觉 / 气味 / 氣味 / 熏 / 香 / 香水 / 香油 /	

噪	
sǎng	
कण्ठ	
kaṅṭha	
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 噪 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /	
गल	
gala	
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 噪 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /	

嗓子	
sǎng zi	
कण्ठ	
kaṅṭha	
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 噪 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /	
गल	
gala	
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 噪 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /	

嘔吐	
ōu tǔ	
छट्टिका	
chaddikā	

嘗	
cháng	
अस्साद	
assāda	
口味 / 味 / 味兒 / 味道 / 品味 / 品尝 / 品尝 / 啗 / 啜 / 嘗 / 尝 / 愉快 / 有味道 / 滋味 / 滿足 / 趣味 /	
嘗試	
cháng shì	
आरम्भ	
ārambha	
嘗試 / 開始 /	

嘛	
ma	
उदपान	
udapāna	
井 / 以至 / 嘛 / 嘿 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /	
ओपान	
opāna	
井 / 以至 / 嘛 / 嘿 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /	
कूप	
kūpa	
井 / 以至 / 嘛 / 嘿 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 洞 / 良好 /	

囁	
zhǔ	
उदपान	
udapāna	
井 / 以至 / 嘛 / 嘿 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /	
ओपान	
opāna	
井 / 以至 / 嘛 / 嘿 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /	
कूप	
kūpa	
井 / 以至 / 嘛 / 嘿 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 洞 / 良好 /	

嘲弄	
cháo nòng	
परिहास	
parihāsa	
嘲弄 / 笑 /	

嘴	
zuǐ	
आनन	
ānana	
口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 觜 / 面 /	
मुख	
mukha	
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 觜 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /	

嘴唇	
zuǐ chún	
अधर	
adhara	
唇 / 唇管 / 嘴唇 /	
ओट्टु	
oṭṭha	
唇 / 唇管 / 嘴唇 / 駝 / 駱駝 / 駝 / 駝 / 駱駝 /	

嘴巴	
zuǐ ba	
आनन	
ānana	
口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 觜 / 面 /	
आनन	
ānana	
口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 觜 / 面 /	
मुख	
mukha	
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 觜 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /	
मुख	
mukha	
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 觜 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /	

嘴裡	
zuǐ li	
आनन	
ānana	
口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 觜 / 面 /	
मुख	
mukha	
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 觜 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /	

器具	
qì jù	
उपकरण	
upakaraṇa	
乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 必需品 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	

器材	
qì cái	
परिक्खार	
parikkhāra	
備 / 器材 / 必需品 / 装备 / 裝備 / 裝置 / 設備 / 设备 / 配件 /	

器械	
qì xiè	
उपकरण	
upakaraṇa	
乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 必需品 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	

噪
zào
आराव
ārāva

噪声

zào shēng
आराव
ārāva
噪 / 喧 / 喧 / 噪 / 噪声 / 噪音 /

噪音
zào yīn
आराव
ārāva
噪 / 喧 / 喧 / 噪 / 噪声 / 噪音 /

噴射
pēn shè
उग्गार
uggāra
噴射 / 打嗝 /

嘯
hāo
गद
gada
作響 / 健全 / 呕心 / 嘯 / 声 / 声音 / 恙 / 有聲 / 演講 / 疾 / 疾病 / 病 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
घोस
ghosa

作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嚷 / 声 / 声音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
धनित
dhanita

作響 / 健全 / 嘯 / 声 / 声音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
निन्नाद
ninnāda
作響 / 健全 / 嘯 / 声 / 声音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

囂
rǎng
उन्नाद
unnāda
叫喊 / 呼喊 / 喊 / 喊叫 / 嚷 / 大叫 / 大喊 /
घोस
ghosa
作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嚷 / 声 / 声音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

驕張
xiāo zhāng
उन्नढ
unnala
傲慢 / 驕張 / 粗野 / 自大 / 自大的 / 自大的 / 骄 /

囊
náng
पसिब्बक
pasibbaka
一袋 / 囊 / 大袋子 / 手提包 / 提包 / 旅行包 / 旅行包 / 囊 / 洗劫 / 紙袋 / 袋 / 袋子 / 錢包 / 麻布袋 / 麻袋 /

囚室
qiú shì
कारा
kāra
入獄 / 囚室 / 囹 / 大牢 / 拘留所 / 牢 / 牢獄 / 犴 / 獄 / 獄 / 班房 / 監獄 / 監 / 監牢 / 監獄 / 監禁 / 關押 /
चारक
cārika
囚室 / 囹 / 牢 / 牢獄 / 獄 / 獄 / 監獄 / 監 / 監牢 / 監獄 /

四
sì
चतु
catu
四 / 四个的 / 四個 / 四次 /

四个的
sì gè de
चतु
catu
四 / 四个的 / 四個 / 四次 /

四個
sì gè
चतु
catu
四 / 四个的 / 四個 / 四次 /

四次
sì cì
चतु
catu
四 / 四个的 / 四個 / 四次 /

四重的
sì zhòng de
चतुब्बि
catubbidha

囡
jiān
पुत्त
putta
儿 / 儿 / 儿子 / 儿童 / 兒 / 兒子 / 兒童 / 公子 / 囡 / 女婿 / 女婿 / 子 / 子女 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 /
बाल
bāla
傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 囡 / 子 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /

回
huí
पच्चागमन
paccāgamana
交還 / 回 / 回來 / 回去 / 回歸 / 归 / 歸 / 歸來 / 歸還 / 返 / 返回 / 返航 / 迴 / 退回 / 退还 / 送回 / 重回 / 重返 /

पति
pati
丈夫 / 丈夫 / 主 / 主人 / 伉 / 回 / 外子 / 大師 / 夫 / 夫 / 好手 / 婿 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 相反 / 統治者 / 老公 / 老爺 / 逆 / 領主 /
पिट्ठ
piṭṭha
后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 表面 / 走回 / 退后 / 面 / 麵 /
पिट्ठि
piṭṭhi
上端 / 后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 尖峰 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 走回 / 退后 / 頂端 / 頂端 /

回來
huí lái
पच्चागमन
paccāgamana
交還 / 回 / 回來 / 回去 / 回歸 / 归 / 歸 / 歸來 / 歸還 / 返 / 返回 / 返航 / 迴 / 退回 / 退还 / 送回 / 重回 / 重返 /

回信
huí xìn
उत्तर
uttara
上面的 / 北方 / 北方的 / 响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /
पटिवचन
paṭivacana
响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /

回去
huí qù
पच्चागमन
paccāgamana
交還 / 回 / 回來 / 回去 / 回歸 / 归 / 歸 / 歸來 / 歸還 / 返 / 返回 / 返航 / 迴 / 退回 / 退还 / 送回 / 重回 / 重返 /

回國
huí guó
आवास
āvāsa
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
उपस्सय
upassaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
गेह
geha
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
घर
ghara
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निकेत
niketa
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
निकेतन
niketana
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निलय
nilaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /

回復
huí fù
उत्तर
uttara
上面的 / 北方 / 北方的 / 响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /
पटिवचन
paṭivacana
响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /

回忆
huí yì
अनुस्सति
anussati
回忆 / 回憶 / 記性 / 記憶 / 記憶力 / 记忆 / 追忆 / 追思 /
अनुस्सरण
anussaraṇa
回忆 / 回想 / 記性 / 記憶 / 記憶力 / 记忆 / 追忆 / 追思 /

回想
huí xiǎng
अनुस्सरण
anussaraṇa
回忆 / 回想 / 記性 / 記憶 / 記憶力 / 记忆 / 追忆 / 追思 /
अभिजानन
abhijānana
回想 / 回憶 / 承認 / 記憶 /

回憶
huí yì
अनुस्सति
anussati
回忆 / 回憶 / 記性 / 記憶 / 記憶力 / 记忆 / 追忆 / 追思 /
अभिजानन
abhijānana
回想 / 回憶 / 承認 / 記憶 /

回歸
huí guī
पच्चागमन
paccāgamana
交還 / 回 / 回來 / 回去 / 回歸 / 归 / 歸 / 歸來 / 歸還 / 返 / 返回 / 返航 / 迴 / 退回 / 退还 / 送回 / 重回 / 重返 /

回答
huí dá
उत्तर
uttara
上面的 / 北方 / 北方的 / 响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /
पञ्ह
pañha
事情 / 問題 / 回答 / 审问 / 提問 / 質問 / 質疑 / 質詢 / 问题 /

पटिवचन
paṭivacana
响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /

回覆
huí fù
उत्तर
uttara
上面的 / 北方 / 北方的 / 响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /
पटिवचन
paṭivacana
响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /

回話
huí huà
उत्तर
uttara
上面的 / 北方 / 北方的 / 响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /
पटिवचन
paṭivacana
响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /

回頭
huí tóu
पिठु
piṭṭha
后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 表面 / 走回 / 退后 / 面 / 麵 /
पिठ्ठि
piṭṭhi
上端 / 后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 尖峰 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 走回 / 退后 / 頂端 / 顶端 /

因

yīn
अत्थवस
atthavasa
使用 / 利用 / 动机 / 原因 / 因 / 情理 / 故 / 施用 / 理 / 理性 / 理由 / 用 / 用法 / 用途 / 由 / 緣故 / 运用 / 運用 / 道理 /

अपदेस
apadesa
动机 / 原因 / 因 / 声明 / 声明书 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 聲明 / 說法 / 说法 / 道理 / 陈述 / 陳述 /

कारण
kāraṇa
动机 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 道理 /

ठान
ṭhāna

任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 默 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /

निमित्त
nimitta
兆 / 兆头 / 先兆 / 前兆 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 徵兆 / 情理 / 故 / 标记 / 理 / 理由 / 由 / 緣故 / 迹象 / 道理 / 預兆 /
पटिच्च
paṭicca
因 / 關於 /

पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 郵件 / 邮政 / 部位 /

पटिच्च
paṭicca
因 / 關於 /

पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 郵件 / 邮政 / 部位 /

因此
yīn cǐ

अतो
ato
因此 / 所以 / 故 /
इत्थं
itthaṃ

因此 / 因而 / 如此 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 /

इति
iti
因此 / 因而 / 如此 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 /

इतो
ito

उद्धं
uddhaṃ
上述 / 上面 / 以上 / 前述 / 因此 / 在上面 /

एवं
evaṃ
唯 / 因此 / 因而 / 如此 / 是 / 是的 / 沒錯 / 没错 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 /

ततो
tato
因此 / 所以 / 故 / 自從 /

तथा
tathā

以致 / 因此 / 因而 / 如此 / 所以 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 / 這麼 /

तस्मा
tasmā
因此 / 所以 / 故 /

因素
yīn sù

उपनिसा
upanisā
因素 / 方法 / 相似 /
कारण
kāraṇa
动机 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 道理 /

ठान
ṭhāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 默 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
धातु
dhātu
元素 / 因素 / 成份 / 成分 / 要素 /

निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /

निमित्त
nimitta
兆 / 兆头 / 先兆 / 前兆 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 徵兆 / 情理 / 故 / 标记 / 理 / 理由 / 由 / 緣故 / 迹象 / 道理 / 預兆 /

पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 郵件 / 邮政 / 部位 /

पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 郵件 / 邮政 / 部位 /

因而

yīn ér
इत्थं
itthaṃ
因此 / 因而 / 如此 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 /
इति
iti

因此 / 因而 / 如此 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 /

एवं
evaṃ
唯 / 因此 / 因而 / 如此 / 是 / 是的 / 沒錯 / 没错 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 /

तथा
tathā
以致 / 因此 / 因而 / 如此 / 所以 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 / 這麼 /

团
tuán
निकाय
nikāya
一群 / 团 / 团体 / 團 / 團體 / 宗派 / 小組 / 收集 / 教派 / 派 / 派系 / 組 / 组 / 群 / 群體 / 集團 /

团体
tuán tǐ
निकाय
nikāya
一群 / 团 / 团体 / 團 / 團體 / 宗派 / 小組 / 收集 / 教派 / 派 / 派系 / 組 / 组 / 群 / 群體 / 集團 /

團
hú

असेस
asesa
一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 團 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /

केवल
kevala
仅仅 / 全部 / 全部的 / 只有 / 唯 / 唯一 / 團 / 孤 / 完全 / 总体 / 性 / 整 / 整个 / 整個 / 整数 / 整整 / 絕對 / 绝对 / 通通 / 鞋底 /

कसिण
kaṣiṇa
全部 / 全部的 / 團 / 完全 / 总体 / 整 / 整个 / 整個 / 整数 / 整整 / 通通 /

निखिल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 團 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /

निस्सेस
nissesa
一切 / 全部 / 全部的 / 全體 / 凡 / 凡是 / 團 / 均 / 完全 / 完全地 / 所有 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 胥 / 芸芸 / 通通 /

困惑
kùn huò

अन्धकार
andhakāra
困惑 / 迷亂 / 黑 / 黑暗 /
आकुल
ākula
困惑 / 困惑的 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 纷 / 迷糊 / 迷茫 /

मङ्कु
maṅku
困惑 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 纷 / 迷糊 / 迷茫 /

困惑的
kùn huò de
आकुल
ākula
困惑 / 困惑的 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 纷 / 迷糊 / 迷茫 /
आकुलीभूत
ākulībhūta

困难

kùn nán
कसिर
kasira
困难 / 困難 / 悲慘 / 蹇 / 難度 / 麻煩 /
किच्छ
kiच्cha
吃力 / 困难 / 困難 / 屯 / 為難 / 痛苦 / 痛苦的 / 艱 / 艱難 / 蹇 / 难 / 難 / 難以 / 難度 /

困難
kùn nán
कसिर
kasira
困难 / 困難 / 悲慘 / 蹇 / 難度 / 麻煩 /
किच्छ
kiच्cha
吃力 / 困难 / 困難 / 屯 / 為難 / 痛苦 / 痛苦的 / 艱 / 艱難 / 蹇 / 难 / 難 / 難以 / 難度 /

围墙
wéi qiáng
कुइड
kuḍḍa
围墙 / 垣 / 牆 / 牆壁 / 壁 / 牆 / 牆上 / 牆壁 /
भित्ति
bhitti
围墙 / 垣 / 牆 / 牆壁 / 壁 / 牆 / 牆上 / 牆壁 /

困
líng
कारा
kārā
入獄 / 囚室 / 囹 / 大牢 / 拘留所 / 牢 / 牢獄 / 犴 / 獄 / 獄 / 班房 / 监狱 / 監 / 監牢 / 監獄 / 監禁 / 關押 /
चारक
cāraḳa
囚室 / 囹 / 牢 / 牢獄 / 獄 / 獄 / 监狱 / 監 / 監牢 / 監獄 /

固
gù
एकघन
ekaghana
固 / 結實 / खर
khara
尙 / 使勁 / 固 / 尖銳 / 尖銳 / 尖銳的 / 急劇 / 犀利 / 痛苦的 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / 銳 / 鋒利 / 銳 /
घन
ghana
厚 / 厚的 / 固 / 密 / 密集的 / 捶 / 棍棒 / 槌 / 稠 / 粗 / 結實 / 萃 / 蕪 / 錘子 / 錘 /
थिर
thira
事務所 / 公司 / 固 / 堅 / 堅決 / 堅定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 快 / 恆久 / 持久 / 有耐久力 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 耐久的 / 迅 / 迅速 / 速 / 遽 /
दव्ह
dalha
事務所 / 公司 / 固 / 堅 / 堅決 / 堅定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 穩 / 精力充沛的 /

固定

gù dìng
नियमन
niyamana
固定 / 定义 / 定義 /

固定的

gù dìng de
अकम्पिय
akampiya
असंहारिम
asaṃhārima
अहारिय
ahāriya
थावर
thāvara
固定的 / 堅固 / 持久的 /

固有的

gù yǒu de
अनुसायिक
anusāyika
固有的 / 慢性 / 慢性病 / 慢性的 /

国

guó
जनपद
janapada
国 / 国家 / 國 / 國家 / 國度 / 我國 / 江山 / 治國 / 鄉村 /
जाति
jāti
再生 / 出生 / 出身 / 国 / 国家 / 民族 / 生下 / 生出 / 种族 / 種族 / 誕 / 诞 / 賽跑 / 賽馬 /
देस
desa
區域 / 国 / 国家 / 國 / 國家 / 國度 / 地域 / 地域 / 我國 / 江山 / 治國 / 鄉村 /

国家
guó jiā
जनपद
janapada
国 / 国家 / 國 / 國家 / 國度 / 我國 / 江山 / 治國 / 鄉村 /
जाति
jāti
再生 / 出生 / 出身 / 国 / 国家 / 民族 / 生下 / 生出 / 种族 / 種族 / 誕 / 诞 / 賽跑 / 賽馬 /
देस
desa
區域 / 国 / 国家 / 國 / 國家 / 國度 / 地域 / 地域 / 我國 / 江山 / 治國 / 鄉村 /

国王

guó wáng
इन्द
inda
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 / 統治者 /
जनाधिप
janādhipa
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 /
जनिन्द
janinda
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 /
देव
deva
一群 / 上帝 / 君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 天 / 天界 / 天空 / 特大 / 王 / 神 / 雲霄 /
दिसम्पति
disampati
国王 / 皇 /
पत्थिव
patthiva
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 /

图像
tú xiàng
पटिबिम्ब
paṭibimba
偶 / 像 / 副本 / 印像 / 反映 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 颜料 /
पटिमा
paṭimā
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 颜料 /
बिम्ब
bimba
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 颜料 /

國
guó
जनपद
janapada
国 / 国家 / 國 / 國家 / 國度 / 我國 / 江山 / 治國 / 鄉村 /
देस
desa
區域 / 国 / 国家 / 國 / 國家 / 國度 / 地域 / 地域 / 我國 / 江山 / 治國 / 鄉村 /
國土
guó tǔ
थल
thala
國土 / 土地 / 土地 / 地 / 地 / 地上 / 地皮 / 地皮 / 地面 / 地面 / 接地 / 接地 / 陆 / 陆地 / 陸 / 陸地 /

图片
tú piàn
चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 颜料 /
पटिबिम्ब
paṭibimba
偶 / 像 / 副本 / 印像 / 反映 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 颜料 /
पटिमा
paṭimā
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 颜料 /
बिम्ब
bimba
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 颜料 /

圆圈

yuán quān
परिवट्ट
parivaṭṭa
一圈 / 匝 / 圆圈 / 圈 / 圈子 / 圓圈 / 圓 / 循环 /
圈
quān
परिवट्ट
parivaṭṭa
一圈 / 匝 / 圆圈 / 圈 / 圈子 / 圓圈 / 圓 / 循环 /

圈子

quān zi
परिवट्ट
parivaṭṭa
一圈 / 匝 / 圆圈 / 圈 / 圈子 / 圓圈 / 圓 / 循环 /

國

guó
जनपद
janapada
国 / 国家 / 國 / 國家 / 國度 / 我國 / 江山 / 治國 / 鄉村 /
देस
desa
區域 / 国 / 国家 / 國 / 國家 / 國度 / 地域 / 地域 / 我國 / 江山 / 治國 / 鄉村 /
國土
guó tǔ
थल
thala
國土 / 土地 / 土地 / 地 / 地 / 地上 / 地皮 / 地皮 / 地面 / 地面 / 接地 / 接地 / 陆 / 陆地 / 陸 / 陸地 /

國家
guó jiā
जनपद
janapada
国 / 国家 / 國 / 國家 / 國度 / 我國 / 江山 / 治國 / 鄉村 /
देस
desa
區域 / 国 / 国家 / 國 / 國家 / 國度 / 地域 / 地域 / 我國 / 江山 / 治國 / 鄉村 /

國度

guó dù
जनपद
janapada
国 / 国家 / 國 / 國家 / 國度 / 我國 / 江山 / 治國 / 鄉村 /
देस
desa
區域 / 国 / 国家 / 國 / 國家 / 國度 / 地域 / 地域 / 我國 / 江山 / 治國 / 鄉村 /

國王

guó wáng
इन्द
inda
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 / 統治者 /
जनाधिप
janādhipa
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 /
जनिन्द
janinda
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 /
देव
deva
一群 / 上帝 / 君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 天 / 天界 / 天空 / 特大 / 王 / 神 / 雲霄 /
पत्थिव
patthiva
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 /

圓圈

yuán quān
परिवट्ट
parivaṭṭa
一圈 / 匝 / 圆圈 / 圈 / 圈子 / 圓圈 / 圓 / 循环 /

圖像
tú xiàng
पटिबिम्ब
paṭibimba
偶 / 像 / 副本 / 印像 / 反映 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
पटिमा
paṭimā
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
बिम्ब
bimba
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /

圖片

tú piàn
चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 颜料 /

圖畫

tú huà
चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 颜料 /
團
tuán
निकाय
nikāya
一群 / 团 / 团体 / 團 / 團體 / 宗派 / 小組 / 收集 / 教派 / 派 / 派系 / 組 / 组 / 群 / 群體 / 集團 /

團體

tuán tǐ
निकाय
nikāya
一群 / 团 / 团体 / 團 / 團體 / 宗派 / 小組 / 收集 / 教派 / 派 / 派系 / 組 / 组 / 群 / 群體 / 集團 /

團

yuán
परिवट्ट
parivaṭṭa
一圈 / 匝 / 圆圈 / 圈 / 圈子 / 圓圈 / 圓 / 循环 /

土
tǔ
छमा
chamā
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
जगति
jagati
世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紓 /
धरणी
dharanī
土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
पुथुवी
puthuvī
土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
पंसु
pamsu
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 土质 / 岔 / 埃 / 塵 / 尘 / 沙塵 / 泥土 / 灰塵 / 灰尘 /
भू
bhū
土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
भूमि
bhūmi
上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /

土地
tǔ de
अवनि
avani
土地 / 土地 /
अवनि
avani
土地 / 土地 /
छमा
chamā
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
छमा
chamā
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
थल
thala
國土 / 土地 / 土地 / 地 / 地 / 地上 / 地皮 / 地皮 / 地面 / 地面 / 接地 / 接地 / 陆 / 陆地 / 陸 / 陸地 /
थल
thala
國土 / 土地 / 土地 / 地 / 地 / 地上 / 地皮 / 地皮 / 地面 / 地面 / 接地 / 接地 / 陆 / 陆地 / 陸 / 陸地 /
पंसु
pamsu
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 土质 / 岔 / 埃 / 塵 / 尘 / 沙塵 / 泥土 / 灰塵 / 灰尘 /
पंसु
pamsu
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 土质 / 岔 / 埃 / 塵 / 尘 / 沙塵 / 泥土 / 灰塵 / 灰尘 /
भूमि
bhūmi
上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /
भूमि
bhūmi
上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /

土壤
tǔ rǎng
छमा
chamā
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
जगति
jagati
世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紓 /
धरणी
dharanī
土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
पुथुवी
puthuvī
土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
पंसु
pamsu
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 土质 / 岔 / 埃 / 塵 / 尘 / 沙塵 / 泥土 / 灰塵 / 灰尘 /
भू
bhū
土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
भूमि
bhūmi
上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /
土质
tǔ zhì
पंसु
pamsu
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 土质 / 岔 / 埃 / 塵 / 尘 / 沙塵 / 泥土 / 灰塵 / 灰尘 /
圣言

शंख
shèng yán
आलाप
ālāpa
交談 / 会话 / 單詞 / 圣言 / 字 / 言 / 詞 / 話 / 談話 / 词 /
在
zài
अन्तो
anto
中 / 在 / 裏 / 裡 / 里 /
उपरि
upari
上 / 上述 / 上面 / 之上 / 于 / 以上 / 前述 / 在 / 就 / 最高的 /

在一起
zài yī qǐ
एकज्झं
ekajjham
一同 / 一塊兒 / 一起 / 一齊 / 全 / 共同 / 到一起 / 在一起 / 相聚 / 結伴 / 齊 / 齐 /
在上
zài shàng
अधि
adhi
一直到 / 上 / 之上 / 在上 / 在上面 /
在上面
zài shàng miàn
अधि
adhi
一直到 / 上 / 之上 / 在上 / 在上面 /
उद्धं
uddham
上述 / 上面 / 以上 / 前述 / 因此 / 在上面 /
परो
paro
上述 / 上面 / 以上 / 再作 / 前述 / 向上 / 在上面 / 更 / 更远的 / 此外 / 進一步 /

在下
zài xià
ओरं
oram
下 / 下面 / 之下 / 在下 / 在下面 /
ओरेन
orena
下 / 下面 / 之下 / 在下 / 在下面 /
在下面
zài xià miàn
ओरं
oram
下 / 下面 / 之下 / 在下 / 在下面 /
ओरेन
orena
下 / 下面 / 之下 / 在下 / 在下面 /

在乎
zài hū
आरक्खा
ārakkhā
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看守 / 看護 / 關心 / 關照 /
आरक्खा
ārakkhā
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看守 / 看護 / 關心 / 關照 /
गोपन
gopana
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 注意 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 關心 / 關照 /
गोपन
gopana
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 注意 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 關心 / 關照 /
पटिजगन
patijaggana
修 / 修復 / 修理 / 修補 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 管理 / 脩 / 關心 / 關照 /
पटिजगन
patijaggana
修 / 修復 / 修理 / 修補 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 管理 / 脩 / 關心 / 關照 /
परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威严 / 尊 ^严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /
परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威严 / 尊 ^严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

在先
zài xiān
अग्ग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 頂点 / 頂端 / 首 / 首先 /
आदि
ādi
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 開始 / 首 / 首先 /
पठम
paṭhama
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先前的 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 起先 / 首 / 首先 /

^[1] 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /

在前
zài qián
पुरतो
purato
之前 / 在前 / 從前 / 此前 / 稅前 / 面前 /

在前面

zài qián miàn

पातु
pātu
在前面 / 外表 / 顯示 /

在家

zài jiā

आवास
āvāsa
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
उपस्सय
upassaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /

गेह
geha
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
घर
ghara
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /

निकेत
niketa
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /

निकेतन
niketana
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 故鄉 / 老家 /

निलय
nilaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /

निलय
nilaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /

在座
zài zuò
अत्र
atra
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /

इध
idha
在座 / 在這裡 / 此世 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /

इह
iha
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /

एत्तो
etto
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
एत्थ
ettha
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /

在意

आरक्खा
ārakkhā
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看守 / 看護 / 關心 / 關照 /

गोपन
gopana
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 注意 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 關心 / 關照 /

पटिजग्गन
paṭijaggana
修 / 修復 / 修理 / 修補 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 管理 / 脩 / 關心 / 關照 /

परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威严 / 尊严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威严 / 尊严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

在某處

zài mǒu chù

कत्थचि
katthaci
在某處 / 某处 / 某處 /

在眼前
zài yǎn qián
अधुना
adhunā
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 最近 / 最近地 / 此刻 / 此時 / 現 / 現在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 / 近來 / 近日 / 近來 /

इदानि
idāni
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 現 / 現在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /

एतरहि
etarahi
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 現 / 現在 / 現在 / 目前 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /

तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 則 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 現在 / 現在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 則 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 現在 / 現在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 則 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 現在 / 現在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

在職

कम्म
kamma
事 / 作用 / 做事 / 券 / 動作 / 勞工 / 在職 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 業 / 活兒 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 行動 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

कम्मन्त
kammanta
事 / 事情 / 做事 / 務 / 在職 / 工 / 工作 / 工匠 / 工夫 / 工夫 / 职业 / 職業 / 著作 / 著作 / 起作用 / 辦事 /

किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

在這裡
zài zhè li
अत्र
atra
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /

इध
idha
在座 / 在這裡 / 此世 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /

इह
iha
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /

एत्तो
etto
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /

एत्थ
ettha
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /

地
de
केदार
kedāra
地 / 地 / 场 / 場 / 實地 / 田 / 田地 / 田野 / 畝 / 耕地 / 野外 / 領域 / 領域 /

केदार
kedāra
地 / 地 / 场 / 場 / 實地 / 田 / 田地 / 田野 / 畝 / 耕地 / 野外 / 領域 / 領域 /

छमा
chamā
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /

छमा
chamā
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /

छमा
chamā
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /

जगति
jagati
世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /

जगति
jagati
世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /

जगति
jagati
世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /

जगति
jagati
世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /

थल
thala
國土 / 土地 / 土地 / 地 / 地 / 地上 / 地皮 / 地皮 / 地面 / 地面 / 接地 / 接地 / 陆 / 陆地 / 陸 / 陸地 /

थल
thala
國土 / 土地 / 土地 / 地 / 地 / 地上 / 地皮 / 地皮 / 地面 / 地面 / 接地 / 接地 / 陆 / 陆地 / 陸 / 陸地 /

धरणी
dharanī
土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /

地球
de qiú

गुळ
gūla

加糖 / 地球 / 地球 / 方糖 / 球 / 糖 / 糖蜜 /
गुळ
gūla

加糖 / 地球 / 地球 / 方糖 / 球 / 糖 / 糖蜜 /
छमा
chamā

土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
छमा
chamā

土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
जगति
jagati

世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /
जगति
jagati

世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /
धरणी
dharanī

土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
धरणी
dharanī

土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
पुथुवी
puṭhuvī

土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
पुथुवी
puṭhuvī

土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
भू
bhū

土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
भू
bhū

土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
भूमि
bhūmi

上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /

भूमि
bhūmi

上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /
地皮
de pí

छमा
chamā

土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
थल
thala

國土 / 土地 / 土地 / 地 / 地 / 地上 / 地皮 / 地皮 / 地面 / 地面 / 接地 / 接地 / 陆 / 陆地 / 陸 / 陸地 /
थल
thala

國土 / 土地 / 土地 / 地 / 地 / 地上 / 地皮 / 地皮 / 地面 / 地面 / 接地 / 接地 / 陆 / 陆地 / 陸 / 陸地 /
भूमि
bhūmi

上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /

地线
dì xiàn

छमा
chamā

土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
जगति
jagati

世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /
धरणी
dharanī

土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
पुथुवी
puṭhuvī

土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
भू
bhū

土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
भूमि
bhūmi

上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /

地道
de dào

उम्मगग
ummagga

地道 / 地道 / 隧 / 隧道 /
उम्मगग
ummagga

地道 / 地道 / 隧 / 隧道 /

地面
de miàn

छमा
chamā

土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
जगति
jagati

世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /
जगति
jagati

世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /
थल
thala

國土 / 土地 / 土地 / 地 / 地 / 地上 / 地皮 / 地皮 / 地面 / 地面 / 接地 / 接地 / 陆 / 陆地 / 陸 / 陸地 /
थल
thala

國土 / 土地 / 土地 / 地 / 地 / 地上 / 地皮 / 地皮 / 地面 / 地面 / 接地 / 接地 / 陆 / 陆地 / 陸 / 陸地 /

थल
thala

國土 / 土地 / 土地 / 地 / 地 / 地上 / 地皮 / 地皮 / 地面 / 地面 / 接地 / 接地 / 陆 / 陆地 / 陸 / 陸地 /
धरणी
dharanī

土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
धरणी
dharanī

土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
पुथुवी
puṭhuvī

土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
पुथुवी
puṭhuvī

土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
भू
bhū

土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
भू
bhū

土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
भूमि
bhūmi

土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /

भूमि
bhūmi

上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /
भूमि
bhūmi

上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /

地點
de diǎn

पदेस
padesa

交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到位 / 區域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 斑 / 斑點 / 身份 / 部位 /
场
chǎng

केदार
kedāra

地 / 地 / 场 / 場 / 實地 / 田 / 田地 / 田野 / 畝 / 耕地 / 野外 / 領域 / 領域 /

圻
qí

अवधि
avadhi

圻 / 垓 / 埏 / 境 / 徼 / 极限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
ओधि
odhi

圻 / 垓 / 埏 / 局限 / 徼 / 极限 / 極限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिच्छेद
pariccheda

圻 / 垓 / 埏 / 境 / 度量 / 徼 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /

均
jūn
असेस
asesa
一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全部 / 全體 / 凡 / 凡是 / 圀 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 统统 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
निखिल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全部 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 圀 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 统统 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
निस्सेस
nissesa
一切 / 全部 / 全部的 / 全體 / 凡 / 凡是 / 圀 / 均 / 完全 / 完全地 / 所有 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 胥 / 芸芸 / 通通 /
पटिभाग
paṭibhāga
侓 / 均 / 均衡 / 相似的 / 相等 / 等於 /

均衡
jūn héng
पटिभाग
paṭibhāga
侓 / 均 / 均衡 / 相似的 / 相等 / 等於 /

空
bèn
धूलि
dhūli
空 / 埃 / 塵 / 尘 / 沙塵 / 灰塵 / 灰尘 /
पंसु
pamsu
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 土质 / 空 / 埃 / 塵 / 尘 / 沙塵 / 泥土 / 灰塵 / 灰尘 /

坎
kǎn
कूट
kūṭa
上端 / 冈 / 坎 / 尖峰 / 山脊 / 山脊 / 岡 / 峙 / 峰 / 欺騙 / 突起 / 脊 / 脊 / 謊言 / 頂峰 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 高峰 /

坏的
huài de
दुइ
duṭṭha
不善 / 不良 / 不道德的 / 坏的 / 齷 /

坑
kēng
कासु
kāsu
坑 / 礦坑 /

坚
jiān
थिर
thira
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 快 / 恆久 / 持久 / 有耐久力 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 耐久的 / 迅 / 迅速 / 速 / 遽 /
दळ्ह
dalḥa
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 穩 / 精力充沛的 /

坚决
jiān jué
थिर
thira
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 快 / 恆久 / 持久 / 有耐久力 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 耐久的 / 迅 / 迅速 / 速 / 遽 /
दळ्ह
dalḥa
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 穩 / 精力充沛的 /

堅定
jiān dìng
थिर
thira
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 快 / 恆久 / 持久 / 有耐久力 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 耐久的 / 迅 / 迅速 / 速 / 遽 /
दळ्ह
dalḥa
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 穩 / 精力充沛的 /

坠
zhui
पात
pāta
下跌 / 坠 / 墮 / 墜 / 墜入 / 墮 / 扔 / 投 / 掉 / 掉下 / 摔 / 摔下 / 摔倒 / 摔倒 / 淪陷 / 落下 / 跌 / 跌下 / 跌倒 / 跌倒 / 跌到 / 跌落 /

坭
ní
कदम
kaddama
坭 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 /
कलल
kalala
坭 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 / 泥沼 /
चिकखल्ल
cikkhalla
像泥沼的地方 / 坭 / 沼泽 / 沼泽 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 / 泥沼 / 烂泥 /
पङ्क
paṅka
坭 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 / 泥沼 /

垂直的
chuí zhí de
उजु
uju
伸直 / 垂直的 / 正 / 正直 / 率直 / 率直 / 直 / 直接 / 直的 / 直行 / 直通 / 迪 /
उजुक
ujuka
伸直 / 垂直的 / 正 / 正直 / 率直 / 率直 / 直 / 直的 / 直行 / 直通 /

垃圾
lā jī
उक्लाप
uklāpa
垃圾 / 垢 / 废物 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 /
कचवर
kacavara
垃圾 / 废物 / 残余物 /
कसम्बु
kasambu
垃圾 / 废物 /

垒
lěi
पाद
pāda
垒 / 基 / 基地 / 基础 / 基礎 / 壘 / 尺 / 底 / 底座 / 根據地 / 根本 / 胯 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 腿 / 英尺 / 足 / 足部 /

垓
gāi
अवधि
avadhi
圻 / 垓 / 垓 / 境 / 微 / 极限 / 界限 / 眇 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
ओधि
odhi
圻 / 垓 / 垓 / 局限 / 微 / 极限 / 極限 / 界限 / 眇 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिच्छेद
pariccheda
圻 / 垓 / 垓 / 境 / 度量 / 微 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 眇 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /

垢
gòu
असुचि
asuci
垢 / 大便 / 屎 / 排泄物 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 / 精液 / 糞 /
उक्लाप
uklāpa
垃圾 / 垢 / 废物 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 /
कालुसिय
kālusiya
垢 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 / 陰暗 /
जल्लिका
jallikā
垢 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 /

垣
yuán
कुइड
kuḍḍa
围墙 / 垣 / 墙 / 墙壁 / 壁 / 牆 / 牆上 / 牆壁 /
भित्ति
bhitti
围墙 / 垣 / 墙 / 墙壁 / 壁 / 牆 / 牆上 / 牆壁 /

埃
āi
धूलि
dhūli
空 / 埃 / 塵 / 尘 / 沙塵 / 灰塵 / 灰尘 /
पंसु
pamsu
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 土质 / 空 / 埃 / 塵 / 尘 / 沙塵 / 泥土 / 灰塵 / 灰尘 /

城
chéng
नगर
nagara
城 / 城區 / 城堡 / 城市 / 城裡 / 城鎮 / 城镇 / 小鎮 / 市 / 市府 / 市立 / 要塞 / 要塞 / 進城 / 都市 / 都會 / 鎮 / 镇 /

城區
chéng qū
नगर
nagara
城 / 城區 / 城堡 / 城市 / 城裡 / 城鎮 / 城镇 / 小鎮 / 市 / 市府 / 市立 / 要塞 / 要塞 / 進城 / 都市 / 都會 / 鎮 / 镇 /

城堡
chéng bǎo
उद्दाप
uddāpa
दुग्ग
dugga
नगर
nagara
城 / 城區 / 城堡 / 城市 / 城裡 / 城鎮 / 城镇 / 小鎮 / 市 / 市府 / 市立 / 要塞 / 要塞 / 進城 / 都市 / 都會 / 鎮 / 镇 /

城市
chéng shì
नगर
nagara
城 / 城區 / 城堡 / 城市 / 城裡 / 城鎮 / 城镇 / 小鎮 / 市 / 市府 / 市立 / 要塞 / 要塞 / 進城 / 都市 / 都會 / 鎮 / 镇 /

城裡
chéng lǐ
नगर
nagara
城 / 城區 / 城堡 / 城市 / 城裡 / 城鎮 / 城镇 / 小鎮 / 市 / 市府 / 市立 / 要塞 / 要塞 / 進城 / 都市 / 都會 / 鎮 / 镇 /

城鎮
chéng zhèn
नगर
nagara
城 / 城區 / 城堡 / 城市 / 城裡 / 城鎮 / 城镇 / 小鎮 / 市 / 市府 / 市立 / 要塞 / 要塞 / 進城 / 都市 / 都會 / 鎮 / 镇 /

城镇
chéng zhèn
नगर
nagara
城 / 城區 / 城堡 / 城市 / 城裡 / 城鎮 / 城镇 / 小鎮 / 市 / 市府 / 市立 / 要塞 / 要塞 / 進城 / 都市 / 都會 / 鎮 / 镇 /

垓
shān
अवधि
avadhi
圻 / 垓 / 垓 / 境 / 微 / 极限 / 界限 / 眇 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /

ओधि
odhi
圻 / 垓 / 垓 / 局限 / 微 / 极限 / 極限 / 界限 / 眇 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिच्छेद
pariccheda
圻 / 垓 / 垓 / 境 / 度量 / 微 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 眇 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /

埠
bù
पट्टन
paṭṭana
口岸 / 埠 / 左舷的 / 港口 / 端口 / 避难所 /

執著
zhí zhe
अधिमुत्ति
adhimutti
傾向 / 執著 / 性情 / 決心 /
भत्ति
bhatti
信仰 / 信奉 / 信念 / 執著 / 熱愛 /

執行
zhí xíng
अनुचरण
anucarana
執行 / 練習 /
पवत्तन
pavattana
前進 / 執行 / 存在 / 存在物 / 实存 / 生存 /

基
jī
पाद
pāda
垒 / 基 / 基地 / 基础 / 基礎 / 壘 / 尺 / 底 / 底座 / 根據地 / 根本 / 胯 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 腿 / 英尺 / 足 / 足部 /

基地
jī de
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /
पाद
pāda
垒 / 基 / 基地 / 基础 / 基礎 / 壘 / 尺 / 底 / 底座 / 根據地 / 根本 / 胯 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 腿 / 英尺 / 足 / 足部 /

基础
jī chǔ
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /
पाद
pāda
垒 / 基 / 基地 / 基础 / 基礎 / 壘 / 尺 / 底 / 底座 / 根據地 / 根本 / 胯 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 腿 / 英尺 / 足 / 足部 /

基礎
jī chǔ
आधार
ādhāra
供養 / 基礎 / 容器 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 孟 /
उपनिस्सय
upanissaya
供養 / 基礎 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /
तल
tala
基礎 / 平面 /
पाद
pāda
垒 / 基 / 基地 / 基础 / 基礎 / 壘 / 尺 / 底 / 底座 / 根據地 / 根本 / 胯 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 腿 / 英尺 / 足 / 足部 /

堅
jiān
थिर
thira
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 快 / 恆久 / 持久 / 有耐久力 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 耐久的 / 迅 / 迅速 / 速 / 遽 /
दल्ह
dalha
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 穩 / 精力充沛的 /

堅固
jiān gù
थावर
thāvāra
固定的 / 堅固 / 持久的 /
थिर
thira
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 快 / 恆久 / 持久 / 有耐久力 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 耐久的 / 迅 / 迅速 / 速 / 遽 /
दल्ह
dalha
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 穩 / 精力充沛的 /

堅定
jiān dìng
थिर
thira
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 快 / 恆久 / 持久 / 有耐久力 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 耐久的 / 迅 / 迅速 / 速 / 遽 /
दल्ह
dalha
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 穩 / 精力充沛的 /
堆
duī
काय
kāya
体 / 堆 / 積 / 聚集 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
चिति
citi
堆 / 積 /
पूग
pūga
堆 / 積 /
पुञ्ज
puñja
一堆 / 堆 / 桩 / 椿 / 積 /

堆积
duī jī
उच्चय
uccaya
堆积 / 累積 /

墮
duò
पात
pāta
下跌 / 坠 / 墮 / 墜 / 墜入 / 墮 / 扔 / 投 / 掉 / 掉下 / 摔 / 摔下 / 摔倒 / 摔倒 / 淪陷 / 落下 / 跌 / 跌下 / 跌倒 / 跌倒 / 跌到 / 跌落 /
堡垒
bǎo lěi
कोट्टक
koṭṭhaka
儲藏室 / 出入口 / 堡垒 / 壁櫥 / 寨 / 砦 / 要塞 / 要塞 /
堤防
dī fáng
आलि
āli
कूल
kūla
堤防 / 河岸 /

報告
bào gào
निवेदन
nivedana
公告 / 呈報 / 告示 / 報告 / 報案 / 情報 / 舉報 /
報案
bào àn
निवेदन
nivedana
公告 / 呈報 / 告示 / 報告 / 報案 / 情報 / 舉報 /

場
chǎng
केदार
kedāra
地 / 地 / 场 / 場 / 實地 / 田 / 田地 / 田野 / 畝 / 耕地 / 野外 / 領域 / 領域 /

場合
chǎng hé
पकरण
pakaraṇa
事件 / 事情 / 場合 / 时机 / 机会 / 肇端 / 近因 /
पसङ्ग
pasaṅga
事件 / 事情 / 傾向 / 場合 / 大事 / 大事件 / 时机 / 机会 / 肇端 / 賽事 / 近因 /

墀
chí
चच्चर
caccara
中庭 / 墀 / 庭 / 庭院 / 院 / 院子 /

場所
chǎng suǒ
ठान
thāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 默 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /
पदेस
padesa
交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到位 / 區域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 斑 / 斑點 / 身份 / 部位 /

塗
tú
उपलेप
upalepa
塵
chén
धूलि
dhūli
尘 / 埃 / 塵 / 尘 / 沙塵 / 灰塵 / 灰尘 /
पंसु
pamsu
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 土质 / 尘 / 埃 / 塵 / 尘 / 沙塵 / 泥土 / 灰塵 / 灰尘 /

墀
chí
चच्चर
caccara
中庭 / 墀 / 庭 / 庭院 / 院 / 院子 /

牆
qiáng
कुइड
kuǐdà
围墙 / 垣 / 墙 / 牆壁 / 壁 / 牆 / 牆上 / 牆壁 /
भित्ति
bhitti
围墙 / 垣 / 墙 / 牆壁 / 壁 / 牆 / 牆上 / 牆壁 /

境
jìng
अवधि
avadhi
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 徼 / 极限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिच्छेद
pariccheda
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 度量 / 徼 / 措施 / 极限 / 测 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告终 / 境 / 完結 / 完结 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 涸 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 终 / 终结 / 結束 / 缘 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 迨 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

境界
jìng jiè
आकार
ākāra
亮相 / 出場 / 境界 / 外表 / 外观 / 外貌 / 容貌 / 情況 / 样子 / 模樣 / 樣子 / 相貌 / 色 / 貌 / 面貌 /

墊
diàn
चुम्बट
cumbaṭa
卷 / 墊 / 线圈 /
चुम्बटक
cumbaṭaka
卷 / 墊 / 线圈 /
भिसि
bhisi
墊 / 墊子 /
墊子
diàn zi
अपस्सय
apassaya
供養 / 墊子 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 枕頭 /
भिसि
bhisi
墊 / 墊子 /

牆
qiáng
कुइड
kuǐdà
围墙 / 垣 / 墙 / 牆壁 / 壁 / 牆 / 牆上 / 牆壁 /
भित्ति
bhitti
围墙 / 垣 / 墙 / 牆壁 / 壁 / 牆 / 牆上 / 牆壁 /

增添
zēng tiān
अभिवद्धन
abhivaḍḍhana
加價／加大／增／增加／增多／ 增強／增殖／增添／增長／生長／ 益／茁／
उगम
uggama
上升／加價／加大／升起／增／ 增加／增多／增強／增殖／增添／ 增長／崛起／攀升／漲／漲／益／ 興起／茁／
उदय
udaya
上升／兴／兴／兴致／兴趣／兴趣 ／利害／利害关系／利息／利息／ 利益／加價／加大／升起／增／ 增加／增多／增強／增殖／增添／ 增長／贏／定期收入／崛起／息／ 息／成果／攀升／收／收入／收益 ／漲／漲／生長／盈利／益／興／ 興起／興趣／茁／获利／裨益／
उन्नति
unnati
上升／加價／加大／增／增加／ 增多／增強／增殖／增添／增長／ 提高／海拔／益／茁／超升／
उपब्रूहन
upabrūhana
加價／加大／增／增加／增多／ 增強／增殖／增添／增長／擴大／ 益／茁／
पवड्ढन
pavaḍḍhana
加價／加大／增／增加／增多／ 增強／增殖／增添／增長／益／茁 ／長大／
फातिकम्म
phātikamma
加價／加大／增／增加／增多／ 增強／增殖／增添／增長／复原／ 复职／恢复／恢復／益／茁／

增益
zēng yì
अत्थ
attha
使用／利用／含义／含意／含義／ 增益／宗旨／客观／寓意／必要／ 必需品／意／意思／意義／施用／ 有必要／有道／物／物件／用／ 用法／用途／目标／破壞／福利／ 福祉／缺乏／裨益／要有／要求／ 諦／財富／财富／运用／運用／需 ／需要／

增長
zēng zhǎng
अभिवद्धन
abhivaḍḍhana
加價／加大／增／增加／增多／ 增強／增殖／增添／增長／生長／ 益／茁／
उगम
uggama
上升／加價／加大／升起／增／ 增加／增多／增強／增殖／增添／ 增長／崛起／攀升／漲／漲／益／ 興起／茁／
उदय
udaya
上升／兴／兴／兴致／兴趣／兴趣 ／利害／利害关系／利息／利息／ 利益／加價／加大／升起／增／ 增加／增多／增強／增殖／增添／ 增長／贏／定期收入／崛起／息／ 息／成果／攀升／收／收入／收益 ／漲／漲／生長／盈利／益／興／ 興起／興趣／茁／获利／裨益／
उन्नति
unnati
上升／加價／加大／增／增加／ 增多／增強／增殖／增添／增長／ 提高／海拔／益／茁／超升／
उपब्रूहन
upabrūhana
加價／加大／增／增加／增多／ 增強／增殖／增添／增長／擴大／ 益／茁／
पवड्ढन
pavaḍḍhana
加價／加大／增／增加／增多／ 增強／增殖／增添／增長／益／茁 ／長大／
फातिकम्म
phātikamma
加價／加大／增／增加／增多／ 增強／增殖／增添／增長／复原／ 复职／恢复／恢復／益／茁／

墮
duò
पात
pāta
下跌／墜／墮／墜／墜入／墮／扔 ／岛屿／島／帮／帮助／帮忙／幫 ／幫助／帮忙／扶／扶助／撐／撐腰 ／撐／支持／支援／支撐／救助／ 救命／救援／有助／洲／燈／
पटिसरण
paṭisarāṇa
保护／保護／助／協助／壁助／帮 ／帮助／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶 ／扶助／救助／救命／救援／有助／
पतिट्ठा
patiṭṭhā
供養／助／協助／壁助／帮／帮助 ／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶／扶助 ／撐／撐腰／撐／支持／支援／ 支撐／救助／救命／救援／有助／
壁櫺
bì chù
कोट्टक
koṭṭhaka
儲藏室／出入口／堡垒／壁櫺／寨 ／砦／要塞／要塞／
壓迫
yā pò
उपपीळन
uppiḷana
压迫／壓迫／

壁助
bì zhù
अनुगणहन
anuggaṇhana
助／協助／壁助／好意／帮／帮助 ／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶／扶助 ／救助／救命／救援／有助／
अनुबल
anubala
刺激／助／協助／壁助／帮／帮助 ／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶／扶助 ／救助／救命／救援／有助／激励／
अवलम्बन
avalambana
助／協助／壁助／帮／帮助／帮忙 ／幫／幫助／帮忙／扶／扶助／救助 ／救命／救援／有助／
अवस्सय
avassaya
供養／助／協助／壁助／帮／帮助 ／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶／扶助 ／撐／撐腰／撐／支持／支援／ 支撐／救助／救命／救援／有助／
आलम्ब
ālamba
供養／助／協助／壁助／帮／帮助 ／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶／扶助 ／撐／撐腰／撐／支持／支援／ 支撐／救助／救命／救援／有助／
उपकरण
upakaraṇa
乐器／仪／供養／儀／儀器／具／ 助／協助／器具／器械／壁助／ 工具／帮／帮助／帮忙／幫／幫助 ／帮忙／必需品／扶／扶助／撐／ 撐腰／撐／支持／支援／支撐／ 救助／救命／救援／有助／
उपकार
upakāra
供養／助／助手／協助／壁助／ 好意／帮／帮助／帮忙／幫／幫助 ／帮忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐 ／支持／支援／支撐／救助／救命 ／救援／有助／
दीप
dīpa
供養／助／協助／壁助／小島／島 ／岛屿／島／帮／帮助／帮忙／幫 ／幫助／帮忙／扶／扶助／撐／撐腰 ／撐／支持／支援／支撐／救助／ 救命／救援／有助／洲／燈／
पटिसरण
paṭisarāṇa
保护／保護／助／協助／壁助／帮 ／帮助／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶 ／扶助／救助／救命／救援／有助／
पतिट्ठा
patiṭṭhā
供養／助／協助／壁助／帮／帮助 ／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶／扶助 ／撐／撐腰／撐／支持／支援／ 支撐／救助／救命／救援／有助／
壁櫺
bì chù
कोट्टक
koṭṭhaka
儲藏室／出入口／堡垒／壁櫺／寨 ／砦／要塞／要塞／

壓迫
yā pò
उपपीळन
uppiḷana
压迫／壓迫／

壘
lěi
पाद
pāda
垒／基／基地／基础／基礎／壘／ 尺／底／底座／根據地／根本／胯 ／脚／腳／腳踏／腿／英尺／足／ 足部／
壞掉
huài diào
खण्ड
khaṇḍa
壞掉／破／破碎／碎／
भग
bhagga
壞掉／破／破碎／碎／
壞處
huài chù
अन्त्थ
anatta
不幸／伤害／傷害／危害／壞處／ 害／弊／损伤／損害／有害／
अहित
ahita
伤害／傷害／危害／壞處／害／弊 ／损伤／

士兵
shì bīng
बलदु
balattha
兵／兵／兵家／兵家／卒／卒／ 士兵／士兵／小兵／小兵／軍人／ 軍人／
बलदु
balatṭha
兵／兵／兵家／兵家／卒／卒／ 士兵／士兵／小兵／小兵／軍人／ 軍人／
बलत्थ
balattha
兵／兵家／卒／士兵／小兵／軍人／
भट
bhaṭa
兵／兵家／卒／士兵／小兵／步兵 ／警察／軍人／

声
shēng
गद
gada
作響／健全／呕心／嘔／声／声音 ／恚／有聲／演講／疾／疾病／病 ／聲／聲音／聲響／聽起來／音／ 音效／音響／響聲／鳴／鳴／
घोस
ghosa
作響／健全／叫喊／吆／呼喊／咋 ／喊／喊叫／嘔／嘔／声／声音／ 大叫／大喊／有聲／聲／聲音／ 聲響／聽起來／音／音效／音響 ／響聲／鳴／鳴／
धनित
dhanita
作響／健全／嘔／声／声音／有聲 ／聲／聲音／聲響／聽起來／音／ 音效／音響／響聲／鳴／鳴／
निन्नाद
ninnāda
作響／健全／嘔／声／声音／有聲 ／聲／聲音／聲響／聽起來／音／ 音效／音響／響聲／鳴／鳴／
声明
shēng míng
अपदेस
apadesa
动机／原因／因／声明／声明书／ 情理／故／理／理性／理由／由／ 緣故／聲明／說法／说法／道理 ／陈述／陳述／
声明书
shēng míng shū
अपदेस
apadesa
动机／原因／因／声明／声明书／ 情理／故／理／理性／理由／由／ 緣故／聲明／說法／说法／道理 ／陈述／陳述／

声音
shēng yīn
गद
gada
作響／健全／呕心／嘔／声／声音 ／恚／有聲／演講／疾／疾病／病 ／聲／聲音／聲響／聽起來／音／ 音效／音響／響聲／鳴／鳴／
घोस
ghosa
作響／健全／叫喊／吆／呼喊／咋 ／喊／喊叫／嘔／嘔／声／声音／ 大叫／大喊／有聲／聲／聲音／ 聲響／聽起來／音／音效／音響 ／響聲／鳴／鳴／
धनित
dhanita
作響／健全／嘔／声／声音／有聲 ／聲／聲音／聲響／聽起來／音／ 音效／音響／響聲／鳴／鳴／
निन्नाद
ninnāda
作響／健全／嘔／声／声音／有聲 ／聲／聲音／聲響／聽起來／音／ 音效／音響／響聲／鳴／鳴／

聲
shēng
गद
gada
作響／健全／呕心／嘔／声／声音 ／恚／有聲／演講／疾／疾病／病 ／聲／聲音／聲響／聽起來／音／ 音效／音響／響聲／鳴／鳴／

壳
ké

तच
taca
削皮 / 剥 / 剥 / 吠 / 壳 / 壳 / 树皮 / 犬吠 / 皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 肌膚 / 肤 /
तच
taca
削皮 / 剥 / 剥 / 吠 / 壳 / 壳 / 树皮 / 犬吠 / 皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 肌膚 / 肤 /

壺
hú

उक्खलि
ukkhali
一壺 / 壺 / 壺 / 煲 / 缸 / 罐 / 鍋 / 锅 /
चाटि
cāṭi
一壺 / 壺 / 壺 / 煲 / 缸 / 罐 / 鍋 / 锅 /

壺
hú

उक्खलि
ukkhali
一壺 / 壺 / 壺 / 煲 / 缸 / 罐 / 鍋 / 锅 /
चाटि
cāṭi
一壺 / 壺 / 壺 / 煲 / 缸 / 罐 / 鍋 / 锅 /

壽命
shòu mìng

आयु
āyu
代 / 壽命 / 年代 / 年岁 / 年纪 / 年老 / 年齡 / 年齡 / 时代 / 歲數 / 變老 / 齡 /
चरित
carita
世 / 人命 / 人生 / 個性 / 命 / 品行 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /
जीव
jīva
世 / 人命 / 人生 / 命 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /
पाण
pāṇa
一口气 / 一口氣 / 世 / 人命 / 人生 / 呼吸 / 命 / 壽命 / 性命 / 息 / 氣息 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 生物 / 身 / 鼻息 / 鼻息 /

处
chù

अधिकार
adhikāra
任 / 任職 / 办事处 / 办公室 / 厅 / 处 / 处 / 廨 / 管理 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 辦公 / 辦公室 /

अधिकार
adhikāra
任 / 任職 / 办事处 / 办公室 / 厅 / 处 / 处 / 廨 / 管理 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 辦公 / 辦公室 /
ठान
ṭhāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廨 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 狀 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
ठान
ṭhāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廨 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 狀 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /

धुर
dhura
任 / 任職 / 前部 / 处 / 处 / 接近的 / 最初的 / 最前部 / 职 / 職 / 處 / 費用 / 辦公 / 辦公室 /
धुर
dhura
任 / 任職 / 前部 / 处 / 处 / 接近的 / 最初的 / 最前部 / 职 / 職 / 處 / 費用 / 辦公 / 辦公室 /

处女
chù nǚ

कुमारिका
kumārikā
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
कुमारिका
kumārikā
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
कुमारी
kumārī
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
कुमारी
kumārī
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /

处罚
chǔ fá

दण्ड
daṇḍa
刑 / 刑罰 / 处罚 / 惩罚 / 懲罰 / 柄 / 梗 / 罚金 / 荖 / 蒂 /

复原
fù yuán

फातिकम्म
phāṭikamma
加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 复原 / 复职 / 恢复 / 恢復 / 益 / 茁 /

复职
fù zhí

फातिकम्म
phāṭikamma
加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 复原 / 复职 / 恢复 / 恢復 / 益 / 茁 /

夏
xià

निदाघ
nidāgha
乾旱 / 夏 / 夏令 / 夏天 / 夏季 / 夏日 / 夏的 / 熱 / 避暑 /

夏令
xià lìng

निदाघ
nidāgha
乾旱 / 夏 / 夏令 / 夏天 / 夏季 / 夏日 / 夏的 / 熱 / 避暑 /

夏天
xià tiān

निदाघ
nidāgha
乾旱 / 夏 / 夏令 / 夏天 / 夏季 / 夏日 / 夏的 / 熱 / 避暑 /

夏季
xià jì

निदाघ
nidāgha
乾旱 / 夏 / 夏令 / 夏天 / 夏季 / 夏日 / 夏的 / 熱 / 避暑 /

夏日
xià rì

निदाघ
nidāgha
乾旱 / 夏 / 夏令 / 夏天 / 夏季 / 夏日 / 夏的 / 熱 / 避暑 /

夏的
xià de

निदाघ
nidāgha
乾旱 / 夏 / 夏令 / 夏天 / 夏季 / 夏日 / 夏的 / 熱 / 避暑 /

复原
fù yuán

फातिकम्म
phāṭikamma
加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 复原 / 复职 / 恢复 / 恢復 / 益 / 茁 /

外
wài

तिरो
tiro
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 超出 / 超过 / 門外 /

बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /
बहिद्धा
bahiddhā
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 門外 /

बाहिर
bāhira
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外国的 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 洋 / 番 / 窗外 / 門外 /

外側
wài cè

तिरो
tiro
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 超出 / 超过 / 門外 /

बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /
बहिद्धा
bahiddhā
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 門外 /

बाहिर
bāhira
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外国的 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 洋 / 番 / 窗外 / 門外 /

外出
wài chū

निय्यान
niyyāna
出發 / 外出 / 放松 / 救出 / 釋放 /

निस्सरण
nissaraṇa
外出 / 逃脫 / 離開 /
बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /

外国的
wài guó de

बाहिर
bāhira
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外国的 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 洋 / 番 / 窗外 / 門外 /

外在的
wài zài de

बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /
बाहिर
bāhira
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外国的 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 洋 / 番 / 窗外 / 門外 /

外套
wài tàò

कञ्चुक
kañcuka
上衣 / 外套 / 夾克 / 夾克 / 襦 /

外子
wài zi

कन्त
kanta
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 合意的 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 愉快的 / 老公 /
धव
dhava
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 /

पति
pati
丈夫 / 丈夫 / 主 / 主人 / 伉 / 回 / 外子 / 大師 / 夫 / 夫 / 好手 / 婿 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 相反 / 統治者 / 老公 / 老爺 / 逆 / 領主 /
पिय
piya
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 / 親愛的 /

भत्तु
bhattu
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 /

外殼
wài ké

भुस
bhusa
外殼 / 常常 / 很多 / 非常地 / 頻繁 /

外甥
wài shēng

भागिनेय्य
bhāgineyya
侄 / 侄子 / 外甥 / 姪 / 甥 /

外界
wài jiè
तिरो
tiro
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 超出 / 超过 / 門外 /
बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /
बहिद्धा
bahiddhā
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 門外 /
बाहिर
bāhira
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外国的 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 洋 / 番 / 窗外 / 門外 /

外皮
wài pí
छवि
chavi
外皮 / 皮 / 皮膚 /

外耳
wài ěr
कण्ण
kaṇṇa
外耳 / 楞 / 耳 / 耳朵 / 耳朵 / 街角 / 角 / 角度 / 角落 / 转角 / 陬 / 隅 /

外表
wài biǎo
आकार
ākāra
亮相 / 出場 / 境界 / 外表 / 外观 / 外貌 / 容貌 / 情况 / 样子 / 模樣 / 樣子 / 相貌 / 色 / 貌 / 面貌 /
तिरो
tiro
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 超出 / 超过 / 門外 /
पातु
pātu
在前面 / 外表 / 顯示 /
बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /
बहिद्धा
bahiddhā
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 門外 /
बाहिर
bāhira
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外国的 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 洋 / 番 / 窗外 / 門外 /

外遇
wài yù
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 責任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
外邊
wài biān
तिरो
tiro
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 超出 / 超过 / 門外 /
बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /
बहिद्धा
bahiddhā
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 洋 / 番 / 窗外 / 門外 /
बाहिर
bāhira
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外国的 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 洋 / 番 / 窗外 / 門外 /

外觀
wài guān
आकार
ākāra
亮相 / 出場 / 境界 / 外表 / 外观 / 外貌 / 容貌 / 情况 / 样子 / 模樣 / 樣子 / 相貌 / 色 / 貌 / 面貌 /
外貌
wài mào
आकार
ākāra
亮相 / 出場 / 境界 / 外表 / 外观 / 外貌 / 容貌 / 情况 / 样子 / 模樣 / 樣子 / 相貌 / 色 / 貌 / 面貌 /

外遇
wài yù
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 責任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

外部的
wài bù de
बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /
बहिद्धा
bahiddhā
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 門外 /
बाहिर
bāhira
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外国的 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 洋 / 番 / 窗外 / 門外 /
外面
wài miàn
तिरो
tiro
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 超出 / 超过 / 門外 /
बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /
बहिद्धा
bahiddhā
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 門外 /
बाहिर
bāhira
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外国的 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 洋 / 番 / 窗外 / 門外 /

外頭
wài tóu
तिरो
tiro
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 超出 / 超过 / 門外 /
बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /
बहिद्धा
bahiddhā
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 門外 /
बाहिर
bāhira
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外国的 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 洋 / 番 / 窗外 / 門外 /

多
duō
अतीव
atīva
多 / 非常 /
भिय्यो
bhiyyo
多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /
भिय्योसो
bhiyyoso
多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /

多嘴的
duō zuǐ de
मुखर
mukhara
啾 / 多嘴的 /
多多
duō duō
अनप्पक
anappaka
不少 / 多多 / 好多 / 很多 / 許多 / 諸多 / 许多 / 重要的 / 非常多 /
बहु
bahu
不少 / 充分 / 多多 / 好多 / 很多 / 許多 / 諸多 / 许多 / 非常多 /

多头
duō tóu
दीघ
dīgha
冗长的 / 多头 / 悠久 / 華 / 长 / 长的 /
多寡
duō guǎ
गणना
gaṇanā
号 / 号码 / 多寡 / 数 / 数字 / 數 / 數目 / 算术 / 算術 / 編號 / 编号 / 號 / 號碼 / 計算 /

多情
duō qíng
चण्ड
caṇḍa
多情 / 悍 / 暴力 / 暴烈 /

多的
duō de
भिय्यो
bhiyyo
多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /
भिय्योसो
bhiyyoso
多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /
बाहिर
bāhira
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外国的 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 洋 / 番 / 窗外 / 門外 /

多高
duō gāo
उच्च
ucca
多高 / 崇 / 昂 / 果 / 潼 / 馱 / 高 / 高位 / 高大 / 高昂 / 高水平 / 高的 /
夜
yè
निसा
nisā
入夜 / 夜 / 夜幕 / 夜晚 / 夜游 / 夜行 / 宵 / 宿 / 整夜 / 晚 / 晚上 / 晦 / 每晚 / 黄昏 / 黑夜 /
夜半

多嘴的
duō zuǐ de
मुखर
mukhara
啾 / 多嘴的 /
多多
duō duō
अनप्पक
anappaka
不少 / 多多 / 好多 / 很多 / 許多 / 諸多 / 许多 / 重要的 / 非常多 /
बहु
bahu
不少 / 充分 / 多多 / 好多 / 很多 / 許多 / 諸多 / 许多 / 非常多 /

夜幕
yè mù
निसा
nisā
入夜 / 夜 / 夜幕 / 夜晚 / 夜游 / 夜行 / 宵 / 宿 / 整夜 / 晚 / 晚上 / 晦 / 每晚 / 黄昏 / 黑夜 /
夜晚

夜游
yè yóu
निसा
nisā
入夜 / 夜 / 夜幕 / 夜晚 / 夜游 / 夜行 / 宵 / 宿 / 整夜 / 晚 / 晚上 / 晦 / 每晚 / 黄昏 / 黑夜 /

夜行
yè xíng
निसा
nisā
入夜 / 夜 / 夜幕 / 夜晚 / 夜游 / 夜行 / 宵 / 宿 / 整夜 / 晚 / 晚上 / 晦 / 每晚 / 黄昏 / 黑夜 /

夥
huǒ
उरु
uru
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 大號 / 葵 / 葵 / 弘 / 恢 / 曼 / 極大 / 硕 / 莫大 / 觥 /
तुमुल
tumula
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 葵 / 葵 / 弘 / 恢 / 極大 / 盛大的 / 硕 / 莫大 / 觥 /

夥
huǒ
उरु
uru
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 大號 / 葵 / 葵 / 弘 / 恢 / 曼 / 極大 / 硕 / 莫大 / 觥 /
तुमुल
tumula
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 葵 / 葵 / 弘 / 恢 / 極大 / 盛大的 / 硕 / 莫大 / 觥 /

夥伴
huǒ bàn
पटिपुग्गल
paṭipuggala
 匹配 / 夥伴 /
大
dà
अति
ati
不勝 / 不胜 / 十分 / 大 / 太 / 很 / 狠 / 甚 / 甚 / 都很 / 非常 /
उरु
uru
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 大號 / 奘 / 奘 / 弘 / 恢 / 曼 / 極大 / 碩 / 莫大 / 觥 /
तुमुल
tumula
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 大號 / 奘 / 奘 / 弘 / 恢 / 極大 / 盛大的 / 碩 / 莫大 / 觥 /
तिकिच्छक
tikicchaka
医师 / 医生 / 博士 / 大 / 大夫 / 大夫 / 醫師 /
पुथुल
puṭhula
伟 / 大 / 大的 / 大號 / 曼 / 碩 /

大事
dà shì
पसङ्ग
pasaṅga
事件 / 事情 / 傾向 / 場合 / 大事 / 大事件 / 时机 / 机会 / 肇端 / 賽事 / 近因 /

大事件
dà shì jiàn
पसङ्ग
pasaṅga
事件 / 事情 / 傾向 / 場合 / 大事 / 大事件 / 时机 / 机会 / 肇端 / 賽事 / 近因 /

大便
dà biàn
असुचि
asuci
垢 / 大便 / 屎 / 排泄物 / 污 / 污垢 / 泥 / 糞 / 精液 / 糞 /
उक्कार
ukkāra
大便 / 排泄物 / 糞 /
उच्चार
uccāra
大便 / 屎 / 排泄物 /
करीस
karīsa
大便 / 排泄物 / 糞 /
गूथ
gūṭha
大便 / 排泄物 / 糞 /

大半
dà bàn
अड्ड
addha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /
अड्ड
aḍḍha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /
अद्द
addha
一半 / 一半的 / 半 / 半場 / 半年 / 半數 / 半月 / 半生 / 大半 /
उपड्ड
upaḍḍha
一半 / 一半的 / 半 / 半場 / 半年 / 半數 / 半月 / 半生 / 大半 /

大酒杯
dà kǒu bēi
थालक
thālaka
大酒杯 / 烧杯 /

大叫
dà jiào
उन्नाद
unnāda
叫喊 / 呼喊 / 喊 / 喊叫 / 嚷 / 大叫 / 大喊 /
घोस
ghosa
作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嚷 / 声 / 声音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

大吃
dà chī
भोत्तुं
bhottum
可吃 / 吃 / 吃光 / 吃掉 / 吃飯 / 吃飽 / 啖 / 喫 / 大吃 / 茹 / 食 / 餐 /

大君主
dà jūn zhǔ
अभिभू
abhibhū
大君主 / 征服者 /

大喊
dà hǎn
उन्नाद
unnāda
叫喊 / 呼喊 / 喊 / 喊叫 / 嚷 / 大叫 / 大喊 /
घोस
ghosa
作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嚷 / 声 / 声音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

大地
dà de
छमा
chamā
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
छमा
chamā
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /

जगति
jagati
世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /

जगति
jagati
世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /

धरणी
dharanī
土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /

धरणी
dharanī
土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /

पुथुवी
puṭhuvī
土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
पुथुवी
puṭhuvī
土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /

भू
bhū
土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
भूमि
bhūmi
上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /

भूमि
bhūmi
上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /

भूमि
bhūmi
上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /

大城市
dà chéng shì
ठानीय
thānīya
大城市 / 大都市 / 都 / 都市 / 首都 /

大夫
dà fu
तिकिच्छक
tikicchaka
医师 / 医生 / 博士 / 大 / 大夫 / 大夫 / 醫師 /
तिकिच्छक
tikicchaka
医师 / 医生 / 博士 / 大 / 大夫 / 大夫 / 醫師 /

大家
dà jiā
असेस
asesa
一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
निखिल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /

大家庭
dà jiā tíng
कुटुम्ब
kuṭumba
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 属 / 族 /
कुल
kula
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 宗族 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 家系 / 属 / 族 / 氏族 /

大小
dà xiǎo
पमाण
pamāṇa
大小 / 尺寸 / 度量 / 措施 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 量度 /
परिमाण
parimāṇa
大小 / 局限 / 幅度 / 度量 / 措施 / 极限 / 極限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 边际 / 量 / 量度 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

大師
dà shī
अधिप
adhīpa
主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /
अधिपति
adhīpati
主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /
अय्य
ayya
主 / 主人 / 君子 / 大師 / 好手 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 法師 / 紳士 / 統治者 / 老爺 / 領主 /

इस्सर
issara
主 / 主人 / 创造者 / 大師 / 好手 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 統治者 / 老爺 / 造物主 / 領主 /
पति
pati
丈夫 / 丈夫 / 主 / 主人 / 伉 / 回 / 外子 / 大師 / 夫 / 夫 / 好手 / 婿 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 相反 / 統治者 / 老公 / 老爺 / 逆 / 領主 /

大批
dà pī
खन्ध
khandha
區 / 大批 / 彌撒 / 形成 /

大拇指
dà mu zhǐ
अङ्गुठु
aṅguṭṭha
大拇指 / 巨擘 / 拇 / 拇 / 拇指 / 拇指 / 擘 /

大权
dà quán
आनुभाव
ānubhāva
幕 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 幕 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 榮 /
थाम
thāma
幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 实力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /
पभाव
pabhāva
幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 强 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /
बल
bala
军 / 军队 / 幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 勢力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

大概
dà gài
पि
pi
不過 / 乃是 / 也許 / 也许 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 可能 / 大概 / 恐怕 / 惟 / 或 / 或許 / 或许 / 然 / 然而 / 究竟 /
बहुल
bahula
大概 / 時常 / 豐富 /
बहुसो
bahuso
大概 / 時常 /

大權
dà quán
आधिपच्य
ādhipacca
幕 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 控制 / 斷電 / 權力 / 统治 /
आधिपतेय्य
ādhipateyya
幕 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 權力 /
आनुभाव
ānubhāva
幕 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 幕 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 榮 /
थाम
thāma
幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 实力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /
बल
bala
军 / 军队 / 幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 勢力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

大款
dà kuǎn
अड्ड
aḍḍha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /
大水
dà shuǐ
ओघ
ogha
大水 / 水災 / 泽 / 洪 / 洪水 / 流 / 涌流 / 淹 /

大洋
dà yáng
अण्णव
aṇṇava
大洋 / 大海 / 海洋 / 瀚 / 瀛 /
जलधि
jaladhi
大洋 / 大海 / 海洋 / 瀚 / 瀛 /
जलनिधि
jalanidhi
大洋 / 大海 / 海洋 / 瀚 / 瀛 /

大海
dà hǎi
अण्णव
aṇṇava
大洋 / 大海 / 海洋 / 瀚 / 瀛 /
उदधि
udadhi
जलधि
jaladhi
大洋 / 大海 / 海洋 / 瀚 / 瀛 /
जलनिधि
jalanidhi
大洋 / 大海 / 海洋 / 瀚 / 瀛 /

大火
dà huǒ
अग्गि
aggi
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /
अनल
anala
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /
गिनि
gini
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /
जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /

大牌
dà pái
उरु
uru
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 大號 / 裝 / 裝 / 弘 / 恢 / 曼 / 極大 / 硕 / 莫大 / 觥 /
तुमुल
tumula
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 裝 / 裝 / 弘 / 恢 / 極大 / 盛大的 / 硕 / 莫大 / 觥 /

大牢
dà láo
कारा
kāra
入獄 / 囚室 / 囹 / 大牢 / 拘留所 / 牢 / 牢獄 / 犴 / 獄 / 獄 / 班房 / 监狱 / 監 / 監牢 / 監獄 / 監禁 / 關押 /

大王
dà wáng
इन्द्र
inda
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 / 統治者 /
जनाधिप
janādhipa
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 /
जनिन्द
janinda
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 /
देव
deva
一群 / 上帝 / 君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 天 / 天界 / 天空 / 特大 / 王 / 神 / 雲霄 /
पत्थिव
patthiva
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 /

大的
dà de
उरु
uru
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 大號 / 裝 / 裝 / 弘 / 恢 / 曼 / 極大 / 硕 / 莫大 / 觥 /
तुमुल
tumula
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 裝 / 裝 / 弘 / 恢 / 極大 / 盛大的 / 硕 / 莫大 / 觥 /
पुथुल
puthula
伟 / 大 / 大的 / 大號 / 曼 / 硕 /

大約
dà yuē
आरब्भ
ārabbha
一下 / 即將 / 大約 / 大约 / 左右 / 快要 / 走進 / 關於 /

大約
dà yuē
आरब्भ
ārabbha
一下 / 即將 / 大約 / 大约 / 左右 / 快要 / 走進 / 關於 /

大群
dà qún
अनीक
anīka
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /
चम्
camū
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /
धजिनी
dhajinī
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /
बल
bala
军 / 军队 / 幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /
बलकाय
balakāya
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /

大腿
dà tuǐ
ऊरु
ūru
大腿 / 大腿骨 / 胯 / 腿 /
大腿骨
dà tuǐ gú
ऊरु
ūru
大腿 / 大腿骨 / 胯 / 腿 /

大膽
dà dǎn
पागब्भिय
pāgabbhiya

大自然
dà zì rán
धम्म
dhamma
事實 / 品德 / 大自然 / 天性 / 德 / 德性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 法 / 自然 / 自然界 / 道德 /
धम्मता
dhammatā
大自然 / 天性 / 性情 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /
पकति
pakati
人品 / 人物 / 品格 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /
भाव
bhāva
况 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 情况 / 本性 / 本質 / 本质 / 條件 / 况 / 状态 / 自然 / 自然界 /

大號
dà hào
उरु
uru
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 大號 / 英 / 英 / 弘 / 恢 / 曼 / 極大 / 碩 / 莫大 / 航 /
पुथुल
puthula
伟 / 大 / 大的 / 大號 / 曼 / 碩 /

大袋子
dà dài zi
पसिबबक
pasibbaka
一袋 / 囊 / 大袋子 / 手提包 / 提包 / 旅行包 / 旅行包 / 囊 / 洗劫 / 紙袋 / 袋 / 袋子 / 錢包 / 麻布袋 / 麻袋 /

大象
dà xiàng
इभ
ibha
大象 / 象 /
कुञ्जर
kuñjara
大象 / 象 /
कणेरु
kaṇeru
大象 / 象 /
करी
karī
大象 / 象 /
गज
gaja
大象 / 象 /
दिवप
dvipa
大象 / 象 /
नाग
nāga
大象 / 象 /

大軍
dà jūn
अनीक
anīka
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /
चम्
camū
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /
धजिनी
dhajinī
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /
बल
bala
军 / 军队 / 霧 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 勢力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 稟 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /
बलकाय
balakāya
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /

大都市
dà dōu shì
ठानीय
thāniya
大城市 / 大都市 / 都 / 都市 / 首都 /
大門
dà mén
द्वार
dvāra
入口 / 大門 / 大门 / 車門 / 門 / 門口 / 门 / 高考 /
大門
dà mén
द्वार
dvāra
入口 / 大門 / 大门 / 車門 / 門 / 門口 / 门 / 高考 /

大鼓
dà gǔ
दुन्दुभि
dundubhi
大鼓 / 滾筒 / 鼓 /
भेरि
bheri
大鼓 / 打鼓 / 滾筒 / 鼓 /

天
tiān
अघ
agha
不幸 / 天 / 天界 / 天空 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛楚 / 痛苦 / 罪 / 罪惡 / 罪過 / 苦痛 / 雲霄 /
अण्ह
anha
全天 / 天 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
अन्तळिक्ख
antaḷikkha
天 / 天界 / 天空 / 雲霄 /
अब्भ
abbha
云 / 天 / 天界 / 天空 / 雲 / 雲霄 /
अम्बर
ambara
佈 / 天 / 天界 / 天空 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 雲霄 /
आकास
ākāsa
天 / 天界 / 天空 / 空地 / 空地 / 空白 / 空間 / 空間 / 雲霄 /
ख
kha
天 / 天界 / 天空 / 雲霄 /
देव
deva
一群 / 上帝 / 君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 天 / 天界 / 天空 / 特大 / 王 / 神 / 雲霄 /
दिन
dina
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
दिव
diva
上天 / 天 / 天堂 / 天意 / 天空 / 极乐 / 蒼天 / 霄 /
दिवस
divasa
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
नाक
nāka
上天 / 天 / 天堂 / 天意 / 天空 / 极乐 / 蒼天 / 霄 /

天上
tiān shàng
दिब्व
dibba
乩 / 卜 / 卜 / 天上 / 蔔 /

天下
tiān xià
जगति
jagati
世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /

天命
tiān mìng
नियति
niyati
命 / 命运 / 命運 / 天命 / 宿命 /
天地
tiān de
जगति
jagati
世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /

天堂
tiān táng
दिव
diva
上天 / 天 / 天堂 / 天意 / 天空 / 极乐 / 蒼天 / 霄 /
नाक
nāka
上天 / 天 / 天堂 / 天意 / 天空 / 极乐 / 蒼天 / 霄 /

天平
tiān píng
तुला
tulā
天平 / 平衡 / 椽 / 秤 /

天性
tiān xìng
धम्म
dhamma
事實 / 品德 / 大自然 / 天性 / 德 / 德性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 法 / 自然 / 自然界 / 道德 /
धम्मता
dhammatā
大自然 / 天性 / 性情 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /
पकति
pakati
人品 / 人物 / 品格 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /

भाव
bhāva
况 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 情况 / 本性 / 本質 / 本质 / 條件 / 况 / 状态 / 自然 / 自然界 /

天意
tiān yì
दिव
diva
上天 / 天 / 天堂 / 天意 / 天空 / 极乐 / 蒼天 / 霄 /
नाक
nāka
上天 / 天 / 天堂 / 天意 / 天空 / 极乐 / 蒼天 / 霄 /

天才
tiān cái
उपहार
upahāra
天才 / 礼物 / 禮物 / 賜 / 贈送 / 賜 / 賜 /
उपायन
upāyana
天才 / 礼物 / 禮物 / 賜 / 贈送 / 賜 / 賜 /
चाग
cāga
天才 / 慷慨 / 礼物 / 禮物 / 賜 / 贈送 / 賜 / 賜 /

天气
tiān qì
उतु
utu
天气 / 天氣 / 季 / 季節 / 季节 / 時節 / 气候 / 氣候 /

天氣
tiān qì
उतु
utu
天气 / 天氣 / 季 / 季節 / 季节 / 時節 / 气候 / 氣候 /

天然
tiān rán
पाकतिक
pākatika
天然 / 最初的 / 自然 / 自然的 /

天父
tiān fù
जनक
janaka
公公 / 天父 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /
तात
tāta
儿子 / 兒子 / 公公 / 公子 / 天父 / 女婿 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

天界
tiān jiè
अघ
agha
不幸 / 天 / 天界 / 天空 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛楚 / 痛苦 / 罪 / 罪惡 / 罪過 / 苦痛 / 雲霄 /
अन्तळिक्ख
antalikkha
天 / 天界 / 天空 / 雲霄 /
अब्भ
abbha
云 / 天 / 天界 / 天空 / 雲 / 雲霄 /
अम्बर
ambara
佈 / 天 / 天界 / 天空 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 雲霄 /
आकास
ākāsa
天 / 天界 / 天空 / 空地 / 空地 / 空白 / 空間 / 空間 / 雲霄 /
ख
kha
天 / 天界 / 天空 / 雲霄 /
देव
deva
一群 / 上帝 / 君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 天 / 天界 / 天空 / 特大 / 王 / 神 / 雲霄 /

天空
tiān kōng
अघ
agha
不幸 / 天 / 天界 / 天空 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛楚 / 痛苦 / 罪 / 罪惡 / 罪過 / 苦痛 / 雲霄 /
अन्तळिक्ख
antalikkha
天 / 天界 / 天空 / 雲霄 /
अनिल
anila
和風 / 天空 / 風 / 風大 / 风 /
अब्भ
abbha
云 / 天 / 天界 / 天空 / 雲 / 雲霄 /
अम्बर
ambara
佈 / 天 / 天界 / 天空 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 雲霄 /
आकास
ākāsa
天 / 天界 / 天空 / 空地 / 空地 / 空白 / 空間 / 空間 / 雲霄 /
ख
kha
天 / 天界 / 天空 / 雲霄 /
तारका
tārakā
五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
तारा
tārā
五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
देव
deva
一群 / 上帝 / 君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 天 / 天界 / 天空 / 特大 / 王 / 神 / 雲霄 /
दिव
diva
上天 / 天 / 天堂 / 天意 / 天空 / 极乐 / 蒼天 / 霄 /
नाक
nāka
上天 / 天 / 天堂 / 天意 / 天空 / 极乐 / 蒼天 / 霄 /

太

तै
tài
अति
ati
不勝 / 不勝 / 十分 / 大 / 太 / 很 / 狠 / 甚 / 甚 / 都很 / 非常 /
च
ca
与 / 且 / 並 / 並且 / 也 / 以及 / 併 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 和 / 太 / 并 / 并且 / 暨 / 汰 / 而 / 而且 / 與 /

太多

तैदुओ
tài duō
अतिबाह्हं
atibāḥḥam
अधिमत्त
adhimatta
太多 / 過度 / 非常的 /

太太
tài tài
कन्ता
kantā
伉 / 太太 / 夫人 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娘 / 娶妻 / 婦人 / 婦女 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
कलत्त
kalatta
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
जानि
jāni
伉 / 剝奪 / 剝奪 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 損失 / 損失 / 爱人 / 老婆 / 茫然 / 败 /
जाया
jāyā
伉 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
पिया
piyā
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
भरिया
bhariyā
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /

太平

तैपिंग
tài píng
खेम
khema
保險箱 / 太平 / 安 / 安全 / 安全地 / 穩妥 /
太監
tài jiān
पण्डक
paṇḍaka
太監 / 宦官 /

太阳

तैयांग
tài yáng
अक्क
akka
周日 / 太阳 / 太陽 / 晒 / 曬 / 阳 / 陽 /
आदिच्च
ādicca
周日 / 太阳 / 太陽 / 晒 / 曬 / 阳 / 陽 /
भानु
bhānu
亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /

太陽
tài yáng
अक्क
akka
周日 / 太阳 / 太陽 / 晒 / 曬 / 阳 / 陽 /
आदिच्च
ādicca
周日 / 太阳 / 太陽 / 晒 / 曬 / 阳 / 陽 /
दिन
dina
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
दिवस
divasa
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
भानु
bhānu
亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /

夫
fu
कन्त
kanta
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 合意的 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 愉快的 / 老公 /
कन्त
kanta
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 合意的 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 愉快的 / 老公 /
जन
jana
人 / 人中 / 人们 / 人們 / 人士 / 人心 / 人民 / 夫 / 夫 / 子民 / 成年男子 / 曼 / 民 / 民眾 / 氓 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 眾人 / 者 / 萌 /
जन
jana
人 / 人中 / 人们 / 人們 / 人士 / 人心 / 人民 / 夫 / 夫 / 子民 / 成年男子 / 曼 / 民 / 民眾 / 氓 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 眾人 / 者 / 萌 /
दिपद
dipada
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 男人 / 男子 / 男子漢 /
दिपद
dipada
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 男人 / 男子 / 男子漢 /
धव
dhava
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 /
धव
dhava
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 /
पति
pati
丈夫 / 丈夫 / 主 / 主人 / 伉 / 回 / 外子 / 大師 / 夫 / 夫 / 好手 / 婿 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 相反 / 統治者 / 老公 / 老爺 / 逆 / 領主 /
पति
pati
丈夫 / 丈夫 / 主 / 主人 / 伉 / 回 / 外子 / 大師 / 夫 / 夫 / 好手 / 婿 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 相反 / 統治者 / 老公 / 老爺 / 逆 / 領主 /
पुम
puma
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男的 / 雄 / 雄性 / 雄的 /
पुम
puma
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男的 / 雄 / 雄性 / 雄的 /
पुरिस
purisa
人 / 人士 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男性的 / 男的 / 者 / 雄 / 雄性 / 雄的 /

पुरिस
purisa
人 / 人士 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男性的 / 男的 / 者 / 雄 / 雄性 / 雄的 /
पिय
piya
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 / 親愛的 /
पिय
piya
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 / 親愛的 /
पोस
posā
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 男人 / 男子 / 男子漢 /
पोस
posā
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 男人 / 男子 / 男子漢 /
भत्तु
bhattu
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 /
भत्तु
bhattu
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 /
मच्च
macca
人 / 会死 / 凡人 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 會死 / 男人 / 男子 / 男子漢 /
मच्च
macca
人 / 会死 / 凡人 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 會死 / 男人 / 男子 / 男子漢 /

夫人
fū rén
कन्ता
kantā
伉 / 太太 / 夫人 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 損失 / 媳婦 / 愛人 / 愛人 / 老婆 /
कलत्त
kalatta
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 愛人 / 老婆 /
जानि
jāni
伉 / 剝奪 / 剝奪 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 損失 / 損失 / 愛人 / 老婆 / 茫然 / 敗 /
जाया
jāyā
伉 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 愛人 / 老婆 /
पिया
piyā
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 愛人 / 老婆 /
भरिया
bhariyā
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 愛人 / 老婆 /

夫妻
fū qī
जानि
jāni
伉 / 剝奪 / 剝奪 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 損失 / 損失 / 愛人 / 老婆 / 茫然 / 敗 /
जाया
jāyā
伉 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 愛人 / 老婆 /

央
yāng
मज्झ
majjha
中央 / 中央的 / 中心 / 央 / 居中 / 腰 / 腰部 /

夾克
kañcuka
上衣 / 外套 / 夾克 / 夾克 / 襦 /
夾克
jiā kè
कञ्चुक
kañcuka
上衣 / 外套 / 夾克 / 夾克 / 襦 /

奇事
qí shì
अब्भुत
abbhuta
下注 / 了不起的 / 奇事 / 奇景 / 奇迹 / 打賭 / 貝特 / 賭 / 賭 /

失火
shī huǒ
अग्नि
aggi
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /
अनल
anala
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /
गिति
gini
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /
जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
पावक
pāvaka
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /

失禮
shī lǐ
अवज्ञा
avaññā
晒 / 失禮 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /

头脑
tóu nǎo
बु
buddhi
估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情報 / 情报 / 旄 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 窍 / 精神 / 老 / 老的 / 毫 / 舊 / 舊的 /

契据
qì jù
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

契約
qì yuē
कतिक
katikā
交談 / 协议 / 協定 / 協議 / 契約 / 契約 / 符合 /

奇事
qí shì
अब्भुत
abbhuta
下注 / 了不起的 / 奇事 / 奇景 / 奇迹 / 打賭 / 貝特 / 賭 / 賭 /

奇妙
qí miào
अच्छरिय
acchariya
奇妙 / 奇妙的 / 驚奇 /
奇妙的
qí miào de
अच्छरिय
acchariya
奇妙 / 奇妙的 / 驚奇 /
奇景
qí jǐng
अब्भुत
abbhuta
下注 / 了不起的 / 奇事 / 奇景 / 奇迹 / 打賭 / 貝特 / 賭 / 賭 /

奇迹
qí jī
अब्भुत
abbhuta
下注 / 了不起的 / 奇事 / 奇景 / 奇迹 / 打賭 / 貝特 / 賭 / 賭 /

奏
zòu
खिड़डा
khidḍā
奏 / 娛樂 / 嬉 / 戏 / 戲 / 打球 / 扮 / 抹 / 游戏 / 演 / 玩 / 玩兒 / 玩弄 / 玩耍 / 耍 / 踢球 /

契
qì
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

契据
qì jù
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

契約
qì yuē
कतिक
katikā
交談 / 协议 / 協定 / 協議 / 契約 / 契約 / 符合 /

契約
qì yuē
एकत्त
ekatta
协议 / 協定 / 協議 / 契約 / 寂寞 / 符合 /
कतिक
katikā
交談 / 协议 / 協定 / 協議 / 契約 / 契約 / 符合 /

奔跑
bēn pǎo
जवन
javana
奔跑 / 敏捷 / 迅速的 /
धावन
dhāvana

套
tào
अत्थरण
attharaṇa
套 / 床單 / 罩 /
अपिधान
apidhāna

包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
छदन
chadana

包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋頂 / 屋頂 / 幌子 / 房頂 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पच्चत्थरण
paccattharaṇa

包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 床單 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पच्छाद
pacchāda

包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पापुरण
pāpuraṇa

包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 毛毯 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पिधान
pidhāna

包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

套子
tào zi
अपिधान
apidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖上 / 盖子上 / 蔽 / 覆 / 覆盖 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
छदन
chadana
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋顶 / 幌子 / 房顶 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖上 / 盖子上 / 蔽 / 覆 / 覆盖 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पच्चत्थरण
paccattharaṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 床单 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖上 / 盖子上 / 蔽 / 覆 / 覆盖 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पच्छाद
pacchāda
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖上 / 盖子上 / 蔽 / 覆 / 覆盖 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पापुरण
pāpuraṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 毛毯 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖上 / 盖子上 / 蔽 / 覆 / 覆盖 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पिधान
pidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖上 / 盖子上 / 蔽 / 覆 / 覆盖 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

奘
zhuǎng
उरु
uru
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 大號 / 奘 / 奘 / 弘 / 恢 / 曼 / 極大 / 碩 / 莫大 / 觥 /
उरु
uru
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 大號 / 奘 / 奘 / 弘 / 恢 / 曼 / 極大 / 碩 / 莫大 / 觥 /
तुमुल
tumula
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 奘 / 奘 / 弘 / 恢 / 極大 / 盛大的 / 碩 / 莫大 / 觥 /
तुमुल
tumula
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 奘 / 奘 / 弘 / 恢 / 極大 / 盛大的 / 碩 / 莫大 / 觥 /
थूल
thūla
伧 / 奘 / 奘 / 油脂 / 粗 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 肥 / 肥肉 / 肥胖 / 胖 / 胖的 / 脂 / 脂肪 / 草 /
थूल
thūla
伧 / 奘 / 奘 / 油脂 / 粗 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 肥 / 肥肉 / 肥胖 / 胖 / 胖的 / 脂 / 脂肪 / 草 /

奥兰治
ào lán zhì
जम्बीर
jambīra
奥兰治 / 桔子 / 桔子 / 橘 / 橘子 / 橘色 / 橘色的 / 橙 / 橙子 / 橙色 / 橘色的 /
女
nǚ
अङ्गना
aṅganā
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 妇人 / 婦女 / 爱人 /
इत्थि
itthi
女 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女性 / 女性 / 女的 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 娘 / 妇人 / 婦女 /
इत्थि
itthi
女 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女性 / 女性 / 女的 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 娘 / 妇人 / 婦女 /
कन्ता
kantā
伉 / 太太 / 夫人 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娘 / 娶妻 / 妇人 / 婦女 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
शी
thī
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 妇人 / 婦女 / 爱人 /
नारी
nārī
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 妇人 / 婦女 / 爱人 /
女主人
nǚ zhǔ rén

अय्या
ayyā
女主人 / 女士 / 情人 / 情妇 / 淑女 / 淑女 / 贵妇人 /
नायक
nāyaka
主人 / 女主人 / 領袖 /

女人
nǚ rén
अङ्गना
aṅganā
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 妇人 / 婦女 / 爱人 /
अङ्गना
aṅganā
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 妇人 / 婦女 / 爱人 /
इत्थि
itthi
女 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女性 / 女性 / 女的 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 娘 / 妇人 / 婦女 /
इत्थि
itthi
女 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女性 / 女性 / 女的 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 娘 / 妇人 / 婦女 /
कन्ता
kantā
伉 / 太太 / 夫人 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娘 / 娶妻 / 妇人 / 婦女 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
कन्ता
kantā
伉 / 太太 / 夫人 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娘 / 娶妻 / 妇人 / 婦女 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
कलत्त
kalatta
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
कलत्त
kalatta
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
जानि
jāni
伉 / 剝奪 / 剝夺 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 损失 / 損失 / 爱人 / 老婆 / 茫然 / 败 /
जानि
jāni
伉 / 剝奪 / 剝夺 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 损失 / 損失 / 爱人 / 老婆 / 茫然 / 败 /
जाया
jāyā
伉 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
जाया
jāyā
伉 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
शी
thī
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 妇人 / 婦女 / 爱人 /

शी
thī
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 妇人 / 婦女 / 爱人 /
नारी
nārī
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 妇人 / 婦女 / 爱人 /
नारी
nārī
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 妇人 / 婦女 / 爱人 /
पिया
piyā
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
पिया
piyā
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
भरिया
bhariyā
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
भरिया
bhariyā
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /

女儿
nǚ ér
तनुजा
tanujā
千金 / 女儿 / 女兒 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 /
दुहितु
duhitu
千金 / 女儿 / 女兒 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 /
धीतु
dhītu
千金 / 女儿 / 女兒 / 女婿 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 /

女兒
nǚ r
अत्रज
atraja
儿子 / 兒子 / 公子 / 女兒 / 女婿 / 女婿 /
तनुजा
tanujā
千金 / 女儿 / 女兒 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 /
दुहितु
duhitu
千金 / 女儿 / 女兒 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 /
धीतु
dhītu
千金 / 女儿 / 女兒 / 女婿 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 /

女士
nǚ shì
अय्या
ayyā
女主人 / 女士 / 情人 / 情妇 / 淑女 / 淑女 / 贵妇人 /

女婿
nǚ xù
अत्तज
attaja
儿子 / 兒子 / 公子 / 女婿 / 女婿 /
अत्तज
attaja
儿子 / 兒子 / 公子 / 女婿 / 女婿 /
अत्रज
atraja
儿子 / 兒子 / 公子 / 女兒 / 女婿 / 女婿 /
अत्रज
atraja
儿子 / 兒子 / 公子 / 女兒 / 女婿 / 女婿 /
तनुज
tanuja
儿子 / 兒子 / 公子 / 女婿 / 女婿 / 後代 /
तनुज
tanuja
儿子 / 兒子 / 公子 / 女婿 / 女婿 / 後代 /
तनय
tanaya
儿子 / 兒子 / 公子 / 女婿 / 女婿 / 後代 /
तनय
tanaya
儿子 / 兒子 / 公子 / 女婿 / 女婿 / 後代 /
तात
tāta
儿子 / 兒子 / 公公 / 公子 / 天父 / 女婿 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /
धीतु
dhītu
千金 / 女儿 / 女兒 / 女婿 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 /

पुत्त
putta
儿 / 儿 / 儿子 / 儿童 / 兒 / 兒子 / 兒童 / 公子 / 困 / 女婿 / 女婿 / 子 / 子女 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 /
पुत्त
putta
儿 / 儿 / 儿子 / 儿童 / 兒 / 兒子 / 兒童 / 公子 / 困 / 女婿 / 女婿 / 子 / 子女 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 /

女子
nǚ zi

अङ्गना
aṅganā
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 妇人 / 婦女 / 爱人 /
अङ्गना
aṅganā
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 妇人 / 婦女 / 爱人 /
इत्थि
itthi
女 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女性 / 女性 / 女的 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 娘 / 妇人 / 婦女 /
इत्थि
itthi
女 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女性 / 女性 / 女的 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 娘 / 妇人 / 婦女 /
कन्ता
kantā
伉 / 太太 / 夫人 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娘 / 娶妻 / 妇人 / 婦女 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
कन्ता
kantā
伉 / 太太 / 夫人 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娘 / 娶妻 / 妇人 / 婦女 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
थी
thī
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 妇人 / 婦女 / 爱人 /
थी
thī
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 妇人 / 婦女 / 爱人 /
नारी
nārī
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 妇人 / 婦女 / 爱人 /
नारी
nārī
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 妇人 / 婦女 / 爱人 /

女孩
nǚ hái

कञ्जा
kaññā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /
कञ्जा
kaññā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /
कुमारिका
kumārikā
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
कुमारिका
kumārikā
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
कुमारिका
kumārikā
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
कुमारी
kumārī
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
कुमारी
kumārī
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
कुमारी
kumārī
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /
दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /
दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /
बाला
bālā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /
बाला
bālā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /

女孩儿

nǚ hái ér

तनुजा
tanujā
千金 / 女儿 / 女兒 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 /
दुहितु
duhitu
千金 / 女儿 / 女兒 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 /
धीतु
dhītu
千金 / 女儿 / 女兒 / 女婿 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 /

女孩子
nǚ hái zi

कञ्जा
kaññā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /
कुमारिका
kumārikā
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
कुमारी
kumārī
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /
बाला
bālā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /

女性

nǚ xìng

इत्थि
itthi
女 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女性 / 女性 / 女的 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 娘 / 妇人 / 婦女 /
इत्थि
itthi
女 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女性 / 女性 / 女的 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 娘 / 妇人 / 婦女 /

女施主

nǚ shī zhǔ

उपकारिका
upakārikā
女施主 / 扶壁 /

女歌手

nǚ gē shǒu

गायक
gāyaka
女歌手 / 女歌手 / 歌唱家 / 歌手 /
गायक
gāyaka
女歌手 / 女歌手 / 歌唱家 / 歌手 /

女的
nǚ de

अङ्गना
aṅganā
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 妇人 / 婦女 / 爱人 /
इत्थि
itthi
女 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女性 / 女性 / 女的 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 娘 / 妇人 / 婦女 /
इत्थि
itthi
女 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女性 / 女性 / 女的 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 娘 / 妇人 / 婦女 /
कन्ता
kantā
伉 / 太太 / 夫人 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娘 / 娶妻 / 妇人 / 婦女 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
थी
thī
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 妇人 / 婦女 / 爱人 /
नारी
nārī
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 妇人 / 婦女 / 爱人 /

女神

nǚ shén

अच्छरा
accharā
देवी
devī
女神 / 女神 / 皇后 /
देवी
devī
女神 / 女神 / 皇后 /

女郎
nǚ láng

कञ्जा
kaññā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /
कुमारिका
kumārikā
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
कुमारी
kumārī
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /
बाला
bālā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /

奶

nǎi

खीर
khīra
乳 / 乳汁 / 吸奶 / 奶 / 牛奶 /
दुद्ध
duddha
乳 / 乳汁 / 奶 / 牛奶 /
पय
paya
乳 / 乳汁 / 奶 / 牛奶 /

奶嘴

nǎi zuǐ

चूचुक
cūcuka
乳头 / 乳頭 / 奶嘴 /

奶奶

nǎi nǎi

अय्यका
ayyakā
奶奶 / 婆 / 祖母 /
अय्यिका
ayyikā
奶奶 / 婆 / 祖母 /

奶子

nǎi zi

उर
ura
中 / 乳 / 乳房 / 吸奶 / 奶子 / 心口 / 怀 / 懷 / 胸 / 胸口 / 胸脯 / 胸膛 / 胸部 /

奶瓶

nǎi píng

नाळिका
nāḷikā
奶瓶 / 瓶 / 瓶子 / 管 / 管子 / 酒瓶 /

奸
jiān
कण्ह
kaṇha
烏 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 恶 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 隕 / 濫 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /

好
hǎo
उदपान
udapāna
井 / 以至 / 嘛 / 囁 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /
ओपान
opāna
井 / 以至 / 嘛 / 囁 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /
कूप
kūpa
井 / 以至 / 嘛 / 囁 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 洞 / 良好 /

好了
hǎo le
उदपान
udapāna
井 / 以至 / 嘛 / 囁 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /
ओपान
opāna
井 / 以至 / 嘛 / 囁 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /
कूप
kūpa
井 / 以至 / 嘛 / 囁 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 洞 / 良好 /

好像
hǎo xiàng
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

好几
hǎo jǐ
कतिपय
katipayā
一些 / 一番 / 些 / 几 / 几个 / 好几 / 好幾 / 幾個 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某些 / 若干 /

好勝
hǎo shèng
जय
jaya
勝 / 勝利 / 好勝 / 戰勝 / 捷 / 胜 / 胜利 /

好啊
hǎo a
उदपान
udapāna
井 / 以至 / 嘛 / 囁 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /
ओपान
opāna
井 / 以至 / 嘛 / 囁 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /
कूप
kūpa
井 / 以至 / 嘛 / 囁 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 洞 / 良好 /

好喝
hǎo hē
पान
pāna
喝 / 喝了 / 好喝 / 水 / 糖浆 / 糖浆 / 飲 / 饮 / 饮料 /

好多
hǎo duō
अनप्पक
anappaka
不少 / 多多 / 好多 / 很多 / 許多 / 諸多 / 许多 / 重要的 / 非常多 /
बहु
bahu
不少 / 充分 / 多多 / 好多 / 很多 / 許多 / 諸多 / 许多 / 非常多 /

好奇心
hǎo qí xīn
कोतूहल
kotūhala
刺激 / 好奇心 /

好孩子
hǎo hái zi
कुमार
kumāra
僮 / 好孩子 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
कुमारक
kumāraka
僮 / 好孩子 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
दहर
dahara
僮 / 好孩子 / 少年 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /

好幾
hǎo jǐ
दारक
dāra ka
僮 / 好孩子 / 小孩 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /

好幾
hǎo jǐ
कतिपय
katipayā
一些 / 一番 / 些 / 几 / 几个 / 好几 / 好幾 / 幾個 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某些 / 若干 /

好意
hǎo yì
अनुग्गण्हन
anuggaṇhana
助 / 協助 / 壁助 / 好意 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
अवेर
avera
仁慈 / 友善的 / 好意 /
उपकार
upakāra
供養 / 助 / 助手 / 協助 / 壁助 / 好意 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
दया
dayā
仁慈 / 同情 / 好意 / 怜悯 / 恤 / 憐憫 /

好手
hǎo shǒu
अधिप
adhipa
主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /
अधिपति
adhipati
主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /
अय्य
ayya
主 / 主人 / 君子 / 大師 / 好手 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 法師 / 紳士 / 統治者 / 老爺 / 領主 /

इस्सर
issara
主 / 主人 / 创造者 / 大師 / 好手 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 統治者 / 老爺 / 造物主 / 領主 /
पति
pati
丈夫 / 丈夫 / 主 / 主人 / 伉 / 回 / 外子 / 大師 / 夫 / 夫 / 好手 / 婿 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 相反 / 統治者 / 老公 / 老爺 / 逆 / 領主 /

好比
hǎo bǐ
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

好玩
hǎo wán
कीळा
kīlā
好玩 / 玩 / 球 /
दव
dava
好玩 / 娱乐 / 運動 /

好色的
hǎo sè de
अवस्सुत
avassuta
कामुक
kāmuka

好象
hǎo xiàng
चे
ce
一但 / 倘 / 倘若 / 假 / 假使 / 假如 / 假若 / 好象 / 如果 / 就是 / 是否 / 的話 / 若 / 若是 / 要是 /

如
rú
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

如今
rú jīn
अधुना
adhunā
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 最近 / 最近地 / 此刻 / 此時 / 现 / 现在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 / 而今 / 近來 / 近日 / 近来 /
इदानि
idāni
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 现 / 现在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /
एतरहि
etarahi
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 现 / 现在 / 現在 / 目前 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /

तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 现 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

如何
rú hé
कतम
katama
什么 / 何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 如何 / 孰 / 曷 / 那 / 那 /

如同
rú tóng
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

如果
rú guō
चे
ce
一但 / 倘 / 倘若 / 假 / 假使 / 假如 / 假若 / 好象 / 如果 / 就是 / 是否 / 的話 / 若 / 若是 / 要是 /

如此
rú cǐ
इत्थं
ittham
因此 / 因而 / 如此 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 /
इति
iti
因此 / 因而 / 如此 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 /

एवं
evam
唯 / 因此 / 因而 / 如此 / 是 / 是的 / 沒錯 / 沒錯 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 /
एवरूप
evarūpa
其 / 如此 / 这样 /
तथा
tathā
以致 / 因此 / 因而 / 如此 / 所以 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 / 這麼 /
तादिस
tādisa
其 / 如此 / 这样 /
तादिसक
tādisaka
其 / 如此 / 这样 /

如火
rú huǒ
अग्नि
aggi
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 着火 / 着火 / 起火 / 開火 /
अनल
anala
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 着火 / 着火 / 起火 / 開火 /
गिनि
gini
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 着火 / 着火 / 起火 / 開火 /
जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 着火 / 着火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
पावक
pāvaka
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 着火 / 着火 / 起火 / 開火 /

妄想

wàng xiǎng
पपञ्च
papañca
妄想 / 妨礙 / 幻想 / 障礙 / 障礙 /

妇

fù
अङ्गना
aṅganā
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 婦人 / 婦女 / 爱人 /
इत्थि
itthi
女 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女性 / 女性 / 女的 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 娘 / 婦人 / 婦女 /
कन्ता
kantā
伉 / 太太 / 夫人 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
थी
thī
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 婦人 / 婦女 / 爱人 /
नारी
nārī
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 婦人 / 婦女 / 爱人 /

妇人
fù rén
अङ्गना
aṅganā
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 婦人 / 婦女 / 爱人 /
इत्थि
itthi
女 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女性 / 女性 / 女的 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 娘 / 婦人 / 婦女 /
कन्ता
kantā
伉 / 太太 / 夫人 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娘 / 娶妻 / 婦人 / 婦女 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
कलत्त
kalatta
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
जानि
jāni
伉 / 剝奪 / 剝夺 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 损失 / 損失 / 爱人 / 老婆 / 茫然 / 败 /
जाया
jāyā
伉 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /

姪女
jì nǚ
अभिसारिका
abhisārikā
姪女 / 姪女 /
अभिसारिका
abhisārikā
姪女 / 姪女 /
गणिका
gaṇikā
姪女 / 姪女 /
गणिका
gaṇikā
姪女 / 姪女 /
妙
miào
कल्ल
kalla
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 焦 / 准备 / 妙 / 就緒 / 就緒 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /
कुसल
kusala
专家 / 乖 / 伶 / 伶 / 俐 / 焦 / 善 / 妙 / 德行 / 美德 /
छेक
cheka
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 焦 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 聰明 / 高明 /
दक्ख
dakkha
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俏 / 俐 / 焦 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 棒 / 精明 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 / 麻利 /
पटु
paṭu
乖 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 焦 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /

妊娠
rèn shēn
गहणी
gahaṇī
妊娠 / 懷孕 / 消化 /

妒忌
dù jì
इस्सा
issā
吃醋 / 妒忌 / 嫉妒 / 忌妒 / 羨慕 / 羨慕 /
उसूयना
usūyanā
吃醋 / 妒忌 / 嫉妒 / 忌妒 / 羨慕 / 羨慕 /
उसूया
usūyā
吃醋 / 妒忌 / 嫉妒 / 忌妒 / 羨慕 / 羨慕 /

妓女
jì nǚ
अभिसारिका
abhisārikā
妓女 / 妓女 /
अभिसारिका
abhisārikā
妓女 / 妓女 /
गणिका
gaṇikā
妓女 / 妓女 /
गणिका
gaṇikā
妓女 / 妓女 /

妙
miào
कल्ल
kalla
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 焦 / 准备 / 妙 / 就緒 / 就緒 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /
कुसल
kusala
专家 / 乖 / 伶 / 伶 / 俐 / 焦 / 善 / 妙 / 德行 / 美德 /
छेक
cheka
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 焦 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 聰明 / 高明 /
दक्ख
dakkha
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俏 / 俐 / 焦 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 棒 / 精明 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 / 麻利 /
पटु
paṭu
乖 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 焦 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /

妨害
fáng hài
बाधन
bādhana
妨害 / 捕捉 / 痛苦 / 陷阱 /

妨害者
fáng hài zhě
अवरोधक
avarodhaka

妨礙
fáng ài
पपञ्च
papañca
妄想 / 妨礙 / 幻想 / 障礙 / 障礙 /
妹
mèi
भगिनी
bhaginī
妹 / 妹妹 / 姊 / 姊妹 / 姐 / 姐姐 / 小姑 / 弟媳 /

妹妹
mèi mèi
भगिनी
bhaginī
妹 / 妹妹 / 姊 / 姊妹 / 姐 / 姐姐 / 小姑 / 弟媳 /

妻
qī
अङ्गना
aṅganā
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 婦人 / 婦女 / 爱人 /
इत्थि
itthi
女 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女性 / 女性 / 女的 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 娘 / 婦人 / 婦女 /
कन्ता
kantā
伉 / 太太 / 夫人 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娘 / 娶妻 / 婦人 / 婦女 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
कलत्त
kalatta
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
जानि
jāni
伉 / 剝奪 / 剝夺 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 损失 / 損失 / 爱人 / 老婆 / 茫然 / 败 /
जाया
jāyā
伉 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
थी
thī
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 婦人 / 婦女 / 爱人 /
नारी
nārī
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 婦人 / 婦女 / 爱人 /
पिया
piyā
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
भरिया
bhariyā
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /

妻子
qī zi
कन्ता
kantā
伉 / 太太 / 夫人 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娘 / 娶妻 / 婦人 / 婦女 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
कलत्त
kalatta
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
जानि
jāni
伉 / 剝奪 / 剝奪 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 損失 / 損失 / 爱人 / 老婆 / 茫然 / 败 /
जाया
jāyā
伉 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
पिया
piyā
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
भरिया
bhariyā
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /

姊
zǐ
भगिनी
bhaginī
妹 / 妹妹 / 姊 / 姊妹 / 姐 / 姐姐 / 小姑 / 弟媳 /

姊妹
zǐ mèi
अनुजा
anujā
भगिनी
bhaginī
妹 / 妹妹 / 姊 / 姊妹 / 姐 / 姐姐 / 小姑 / 弟媳 /

始源
shǐ yuán
उद्गन
uṭṭhāna
上升 / 业 / 來歷 / 出身 / 原点 / 始源 / 工業 / 本源 / 来历 / 根源 / 業 / 活力 / 由来 / 精力 / 能源 / 能量 / 血统 / 行業 / 起源 / 高能 /
उप्पत्ति
uppatti
來歷 / 再生 / 出身 / 原点 / 始源 / 本源 / 来历 / 根源 / 由来 / 血统 / 起源 /
पभव
pabhava
來歷 / 來源 / 出处 / 出身 / 原点 / 始源 / 开始 / 朔 / 本源 / 来历 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 由来 / 血统 / 起源 /

始終
shǐ zhōng
अभिण्हसो
abhiṅhaso
一向 / 一律 / 从来 / 再三地 / 历来 / 向來 / 始終 / 始終 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /
निबद्धं
nibaddham
一向 / 一律 / 从来 / 历来 / 向來 / 始終 / 始終 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /

始終
shǐ zhōng
अभिण्हसो
abhiṅhaso
一向 / 一律 / 从来 / 再三地 / 历来 / 向來 / 始終 / 始終 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /
निबद्धं
nibaddham
一向 / 一律 / 从来 / 历来 / 向來 / 始終 / 始終 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /

姐
jie
भगिनी
bhaginī
妹 / 妹妹 / 姊 / 姊妹 / 姐 / 姐姐 / 小姑 / 弟媳 /

姐夫
jie fu
अनुज
anuja
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /
आवुसो
āvuso
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 朋 / 朋友 / 朋友 / 社友 / 老兄 /
भातु
bhātu
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /
भातिक
bhātika
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /

姐姐
jie jie
भगिनी
bhaginī
妹 / 妹妹 / 姊 / 姊妹 / 姐 / 姐姐 / 小姑 / 弟媳 /

姑娘
gū niang
कञ्जा
kaññā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /
कञ्जा
kaññā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /

कुमारिका
kumārikā
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
कुमारिका
kumārikā
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /

कुमारी
kumārī
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
कुमारी
kumārī
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /

दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /
दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /

बाला
bālā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /
बाला
bālā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /

बाला
bālā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /

姓名
xìng míng
अभिधान
abhidhāna
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
अव्हय
avhaya
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
अव्हान
avhāna
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
आख्या
ākhyā
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
नाम
nāma
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /

委
wēi
कुटिल
kuṭīla
一心 / 不誠實 / 委 / 屈 / 屈曲 / 彎曲 / 歪 /

姦
jiān
कण्ह
kaṅha
烏 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 恶 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 瞞 / 溜 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
姪
zhí
भागिनेय्य
bhāgineyya
侄 / 侄子 / 外甥 / 姪 / 甥 /

姻
yīn
परिणय
pariṇaya
姻 / 婚 / 婚事 / 婚姻 / 婚嫁 / 婚礼 / 成親 /

姿
zī
अवद्धान
avatṭhāna
位 / 位置 / 地位 / 地位 / 姿 / 姿勢 / 姿态 / 局面 / 身份 / 身分 / 部位 /
इरियाना
iriyānā
姿 / 姿勢 / 姿态 / 舉止 /
इरिया
iriyā
姿 / 姿勢 / 姿态 / 舉止 /

姿勢
zī shì
अवद्धान
avatṭhāna
位 / 位置 / 地位 / 地位 / 姿 / 姿勢 / 姿态 / 局面 / 身份 / 身分 / 部位 /
इङ्गित
īngita
इरियाना
iriyānā
姿 / 姿勢 / 姿态 / 舉止 /
इरिया
iriyā
姿 / 姿勢 / 姿态 / 舉止 /

姿
zī tài
अवद्धान
avatṭhāna
位 / 位置 / 地位 / 地位 / 姿 / 姿勢 / 姿态 / 局面 / 身份 / 身分 / 部位 /
इरियाना
iriyānā
姿 / 姿勢 / 姿态 / 舉止 /
इरिया
iriyā
姿 / 姿勢 / 姿态 / 舉止 /

威
wēi
आधिपच्च
ādhipacca
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 控制 / 斷電 / 權力 / 统治 /
आधिपतेय्य
ādhipateyya
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 權力 /
आनुभाव
ānubhāva
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 榮 /
थाम
thāma
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /
पभाव
pabhāva
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

威严

wēi yán
परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威严 / 尊严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

威力
wēi lì
आधिपच्च
ādhipacca
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 控制 / 斷電 / 權力 / 统治 /
आधिपतेय्य
ādhipateyya
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 權力 /
आनुभाव
ānubhāva
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 榮 /
थाम
thāma
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /
पभाव
pabhāva
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

威力
wēi lì
आधिपच्च
ādhipacca
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 控制 / 斷電 / 權力 / 统治 /
आधिपतेय्य
ādhipateyya
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 權力 /
आनुभाव
ānubhāva
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 榮 /
थाम
thāma
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /
पभाव
pabhāva
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

威胁
wēi xié
अन्तराय
antarāya
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 当儿 / 障碍 / 障礙 /
ईघ
īgha
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 当儿 /
उपद्व
upaddava
不幸 / 危 / 危险 / 危險 / 危難 / 威胁 / 当儿 / 灾 /
उपसगग
upasagga
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 字首 / 当儿 /
परिपन्थ
paripantha
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 当儿 / 障碍 / 障礙 /
परिस्सय
parissaya
冒 / 危 / 危险 / 危险物 / 危險 / 危險性 / 威胁 / 当儿 / 险 / 險 / 風險 / 风险 / 麻煩 /

威脅

wēi xié
तज्जना
tajjanā
娃娃
wá wá
धीतलिका
dhīṭalikā
娃娃 / 洋娃娃 / 玩偶 /

娘
niang
अङ्गना
aṅganā
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 婦人 / 婦女 / 爱人 /
अम्बा
ambā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 /
अम्मा
ammā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 /
इत्थि
itthi
女 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女性 / 女性 / 女的 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 娘 / 婦人 / 婦女 /
इत्थि
itthi
女 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女性 / 女性 / 女的 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 娘 / 婦人 / 婦女 /
कन्ता
kantā
伉 / 太太 / 夫人 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娘 / 娶妻 / 婦人 / 婦女 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
जनेत्ती
janettī
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 /
जननी
jananī
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 /
जनिका
janikā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 /
शी
thī
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 婦人 / 婦女 / 爱人 /
नारी
nārī
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 婦人 / 婦女 / 爱人 /

娛樂
yú lè
खिड्डा
khīḍḍā
奏 / 娛樂 / 嬉 / 戏 / 戲 / 打球 / 扮 / 抹 / 游戏 / 演 / 玩 / 玩兒 / 玩弄 / 玩耍 / 耍 / 踢球 /

媿
miǎn
इदु
iṭṭha
媿 / 宜人的 / 愉快 / 愉快的 /

娛
yú
आराम
ārāma
修道院 / 僧院 / 娛 / 寺院 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 高兴 /
काम
kāma
娛 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 高兴 /
तुट्ठि
tutṭhi
喜悅 / 喜悅 / 娛 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 高兴 /

娛樂
yú lè
दव
dava
好玩 / 娱乐 / 運動 /

娶妻
qǔ qī
कन्ता
kantā
伉 / 太太 / 夫人 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娘 / 娶妻 / 婦人 / 婦女 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
कलत्त
kalatta
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
जानि
jāni
伉 / 剝奪 / 剝夺 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 损失 / 損失 / 爱人 / 老婆 / 茫然 / 败 /
जाया
jāyā
伉 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
पिया
piyā
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /

भरिया
bhariyā
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /

婆
pó
अय्यका
ayyakā
奶奶 / 婆 / 祖母 /
अय्यिका
ayyikā
奶奶 / 婆 / 祖母 /

婆婆	
pó pó	
अम्बा	
ambā	
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / अम्मा	
ammā	
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जनेल्ली	
janettī	
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जननी	
jananī	
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जनिका	
janikā	
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 /	

婚	
hūn	
परिणय	
pariṇaya	
姻 / 婚 / 婚事 / 婚姻 / 婚嫁 / 婚礼 / 成親 /	

婚事	
hūn shì	
आवाह	
āvāha	
婚事 / 婚姻 / 婚宴 / 婚礼 / 婚禮 / परिणय	
pariṇaya	
姻 / 婚 / 婚事 / 婚姻 / 婚嫁 / 婚礼 / 成親 /	

婚嫁	
hūn jià	
परिणय	
pariṇaya	
姻 / 婚 / 婚事 / 婚姻 / 婚嫁 / 婚礼 / 成親 /	

婚宴	
hūn yàn	
आवाह	
āvāha	
婚事 / 婚姻 / 婚宴 / 婚礼 / 婚禮 / परिणय	

婚礼	
hūn lǐ	
आवाह	
āvāha	
婚事 / 婚姻 / 婚宴 / 婚礼 / 婚禮 / परिणय	
pariṇaya	
姻 / 婚 / 婚事 / 婚姻 / 婚嫁 / 婚礼 / 成親 /	

婚禮	
hūn lǐ	
आवाह	
āvāha	
婚事 / 婚姻 / 婚宴 / 婚礼 / 婚禮 / 婦人	
fù rén	
अङ्गना	
aṅganā	
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 婦人 / 婦女 / 爱人 / इत्थि	
itthi	
女 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女性 / 女性 / 女的 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 娘 / 婦人 / 婦女 / कन्ता	
kantā	
伉 / 太太 / 夫人 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娘 / 娶妻 / 婦人 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 / 𣇣	
thī	

婦女	
fù nǚ	
अङ्गना	
aṅganā	
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 婦人 / 婦女 / 爱人 / इत्थि	
itthi	
女 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女性 / 女性 / 女的 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 娘 / 婦人 / 婦女 / कन्ता	
kantā	

媒	
méi	
मज्झिम	
majjhima	
中央的 / 中等 / 中部的 / 媒 / 媒介 / 媒界 / 媒质 / 平均的 / 媒介	
méi jiè	
मज्झिम	
majjhima	
中央的 / 中等 / 中部的 / 媒 / 媒介 / 媒界 / 媒质 / 平均的 / 媒	
méi zhì	
मज्झिम	
majjhima	
中央的 / 中等 / 中部的 / 媒 / 媒介 / 媒界 / 媒质 / 平均的 / 媳	
xí	
तनुजा	
tanujā	
千金 / 女儿 / 女兒 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 / दुहितु	
duhitu	
千金 / 女儿 / 女兒 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 / धीतु	
dhītu	
千金 / 女儿 / 女兒 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 /	

婆	
lán	
कदरिय	
kadariya	
婆 / 小氣 / 貪婪的 /	

婿	
xù	
कन्त	
kanta	
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 合意的 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 愉快的 / 老公 / धव	
dhava	
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 / पति	
pati	
丈夫 / 丈夫 / 主 / 主人 / 伉 / 回 / 外子 / 大師 / 夫 / 夫 / 好手 / 婿 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 相反 / 統治者 / 老公 / 老爺 / 逆 / 領主 / पिय	
piya	
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 / 親愛的 / भत्तु	
bhattu	
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 /	

媒	
méi	
मज्झिम	
majjhima	
中央的 / 中等 / 中部的 / 媒 / 媒介 / 媒界 / 媒质 / 平均的 / 媒介	

媒介	
méi jiè	
मज्झिम	
majjhima	
中央的 / 中等 / 中部的 / 媒 / 媒介 / 媒界 / 媒质 / 平均的 / 媒界	
méi jiè	
मज्झिम	
majjhima	
中央的 / 中等 / 中部的 / 媒 / 媒介 / 媒界 / 媒质 / 平均的 / 媒质	

媒质	
méi zhì	
मज्झिम	
majjhima	
中央的 / 中等 / 中部的 / 媒 / 媒介 / 媒界 / 媒质 / 平均的 / 媳	

媳	
xí	
तनुजा	
tanujā	
千金 / 女儿 / 女兒 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 / दुहितु	
duhitu	
千金 / 女儿 / 女兒 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 / धीतु	
dhītu	
千金 / 女儿 / 女兒 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 /	

媳婦	
xí fù	
कन्ता	
kantā	
伉 / 太太 / 夫人 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娘 / 娶妻 / 婦人 / 婦女 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 / कलत्त	
kalatta	
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 / जानि	
jāni	
伉 / 剝奪 / 剝奪 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 损失 / 損失 / 爱人 / 老婆 / 茫然 / 败 / जाया	
jāyā	
伉 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 / पिया	
piyā	
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 / भरिया	
bhariyā	
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 / 嫉妒	

嫉妒	
jí dù	
इस्सा	
issā	
吃醋 / 妒忌 / 嫉妒 / 忌妒 / 羨慕 / 羨慕 / उसूयना	
usūyanā	
吃醋 / 妒忌 / 嫉妒 / 忌妒 / 羨慕 / 羨慕 / उसूया	
usūyā	
吃醋 / 妒忌 / 嫉妒 / 忌妒 / 羨慕 / 羨慕 / 嫉妒的	

嫉妒的	
jí dù de	
इस्सुकी	
issukī	
उसूयक	
usūyaka	

嬉	
xī	
खिड़डा	
khiddā	
奏 / 娛樂 / 嬉 / 戏 / 戲 / 打球 / 扮 / 抹 / 游戏 / 演 / 玩 / 玩兒 / 玩弄 / 玩耍 / 耍 / 踢球 /	

贏	
yíng	
आनिसंस	
ānisamsa	
值得 / 值得 / 利 / 利润 / 利潤 / 功 / 贏 / 收益 / 润 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 / आय	
āya	
利 / 利润 / 利潤 / 贏 / 定期收入 / 成果 / 收 / 收入 / 收益 / 润 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 / उदय	
udaya	
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 涨 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 / उपभोग	
upabhoga	
使用 / 利 / 利润 / 利潤 / 利用 / 可享受的 / 贏 / 收益 / 施用 / 润 / 潤 / 獲利 / 用 / 用法 / 用途 / 盈利 / 获利 / 裨益 / 运用 / 運用 / पुण्ण	
puṇṇa	
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 飽 / पत्ति	
patti	
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利润 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到来 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 润 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 / परिपूर	
paripūra	
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 飽 / 子	

子	
zi	
पुत्त	
putta	
儿 / 儿 / 儿子 / 儿童 / 兒 / 兒子 / 兒童 / 公子 / 团 / 女婿 / 女婿 / 子 / 子女 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 / बाल	
bāla	
傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /	

子女
zi nǚ
पुत्त
putta
儿 / 儿 / 儿子 / 儿童 / 兒 / 兒子 / 兒童 / 公子 / 团 / 女婿 / 女婿 / 子 / 子女 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 /
पुत्त
putta
儿 / 儿 / 儿子 / 儿童 / 兒 / 兒子 / 兒童 / 公子 / 团 / 女婿 / 女婿 / 子 / 子女 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 /
बाल
bāla
傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /

子孫
zi sūn
अपच्च
apacca
子孫 / 孳 / 後代 /
पजा
pajā
一代 / 世 / 世代 / 代 / 代人 / 子孫 / 孳 / 生成 / 輩 /
पसव
pasava
子孫 / 孳 / 提出 / 流出 /

子宮
zi gōng
गब्भ
gabbha
गब्भासय
gabbhāsaya
子宮 / 子宮 /

子宮
zi gōng
गब्भासय
gabbhāsaya
子宮 / 子宮 /

子民
zi mín
जन
jana
人 / 人中 / 人们 / 人們 / 人士 / 人心 / 人民 / 夫 / 夫 / 子民 / 成年男子 / 曼 / 民 / 民眾 / 氓 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 眾人 / 者 / 萌 /

子音
zi yīn
ब्यञ्जन
byañjana
子音 / 辅音 / 音节 /

子
jié
अप्प
appa
子 / 小 / 小班 / 小的 / 少 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
अप्पक
appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
खुद्द
khudda
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
चुल्ल
culla
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 未成年人 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

子孫
zi sūn
थोक
thoka
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
परित्त
paritta
不足道 / 子 / 小 / 小班 / 小的 / 少的 / 微不足道 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

孔
kǒng
कुहर
kuhara
孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 窟窿 / 阱 /
छिग्गल
chiggala
孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 窟窿 / 阱 /
छिद्द
chidda
孔 / 有洞的 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 穿孔的 / 窟窿 / 缺點 / 裂縫 / 過失 / 阱 /

孔雀
kǒng què
कलापी
kalāpī
孔雀 / 孔雀座 /
孔雀座
kǒng què zuò
कलापी
kalāpī
孔雀 / 孔雀座 /

字
zi
आलाप
ālāpa
交談 / 会话 / 單詞 / 圣言 / 字 / 言 / 詞 / 話 / 談話 / 词 /

字母
zi mǔ
अक्खर
akkhara
信 / 信件 / 函 / 字母 / 音節 /
पण्ण
paṇṇa
信 / 信件 / 函 / 叶 / 字母 / 箔 / 葉 / 葉子 / 页 /
पण्णक
paṇṇaka
信 / 信件 / 函 / 叶 / 字母 / 箔 / 葉 / 葉子 / 页 /

字首
zi shǒu
उपसग्ग
upasagga
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 字首 / 当儿 /
存取
cún qǔ
ओतार
otāra
存取 / 機會 / 通路 / 過失 / 降落 /
पवेस
pavesa
入口 / 存取 / 高考 /

存在
cún zài
अत्थिता
atthitā
存在 / 存在物 / 实存 / 生存 /
पजायन
pajāyana
出生 / 出身 / 存在 / 生下 / 生出 / 誕 / 誕 /
पवत्तन
pavattana
前進 / 執行 / 存在 / 存在物 / 实存 / 生存 /

存在物
cún zài wù
अत्थिता
atthitā
存在 / 存在物 / 实存 / 生存 /
पवत्तन
pavattana
前進 / 執行 / 存在 / 存在物 / 实存 / 生存 /

存有
cún yǒu
तत्थ
tattha
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तत्र
tatra
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तहं
tahaṃ
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तहिं
tahiṃ
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /

季
jì
उत्तु
utu
天气 / 天氣 / 季 / 季節 / 季节 / 時節 / 气候 / 氣候 /
季節
jì jié
उत्तु
utu
天气 / 天氣 / 季 / 季節 / 季节 / 時節 / 气候 / 氣候 /

季节
jì jié
उत्तु
utu
天气 / 天氣 / 季 / 季節 / 季节 / 時節 / 气候 / 氣候 /
孤
gū
एकक
ekaka
仃 / 单 / 单一 / 单一的 / 单身的 / 唯 / 唯一 / 孤 / 孤單 / 孤零零 / 独身 / 獨居 / 幺 /
केवल
kevala
仅仅 / 全部 / 全部的 / 只有 / 唯 / 唯一 / 囿 / 孤 / 完全 / 总体 / 惟 / 整 / 整个 / 整個 / 整数 / 整整 / 絕對 / 绝对 / 通通 / 鞋底 /

孤儿
gū ér
अमातापित्तिक
amātāpitika
孤儿 / 孤兒 /
孤兒
gū r
अमातापित्तिक
amātāpitika
孤儿 / 孤兒 /

孤單
gū dān
एकक
ekaka
仃 / 单 / 单一 / 单一的 / 单身的 / 唯 / 唯一 / 孤 / 孤單 / 孤零零 / 独身 / 獨居 / 幺 /

孤獨
gū dú
पविवित्त
pavivitta
孤零零
gū líng líng
एकक
ekaka
仃 / 单 / 单一 / 单一的 / 单身的 / 唯 / 唯一 / 孤 / 孤單 / 孤零零 / 独身 / 獨居 / 幺 /

孳
nú
अपच्च
apacca
子孫 / 孳 / 後代 /
पजा
pajā
一代 / 世 / 世代 / 代 / 代人 / 子孫 / 孳 / 生成 / 輩 /
पुत्त
putta
儿 / 儿 / 儿子 / 儿童 / 兒 / 兒子 / 兒童 / 公子 / 团 / 女婿 / 女婿 / 子 / 子女 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 /
पसव
pasava
子孫 / 孳 / 提出 / 流出 /
बाल
bāla
傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /

学
xué
उग्गह
uggaha
学 / 學習 / 研 / 研究 /

孩
hái
पुत्त
putta
儿 / 儿 / 儿子 / 儿童 / 兒 / 兒子 / 兒童 / 公子 / 团 / 女婿 / 女婿 / 子 / 子女 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 /
बाल
bāla
傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /

孩子
hái zi
पुत्त
putta
儿 / 儿 / 儿子 / 儿童 / 兒 / 兒子 / 兒童 / 公子 / 团 / 女婿 / 女婿 / 子 / 子女 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 /
बाल
bāla
傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /

孰
shú
कतम
katama
什么 / 何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 如何 / 孰 / 曷 / 那 / 那 /
कतर
katara
何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 孰 / 那 / 那 /

孱
chán
अबल
abala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /
दुब्बल
dubbala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 昏 / 昏倒 / 昏倒 / 暈倒 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /

學生
xué shēng
अन्तेवासिक
antevāsika
學生 / 隨從 /
अन्तेवारी
antevāśī
學生 / 隨從 /

學習
xué xí
उग्गण्हन
uggaṇhana
學習 / 研究 /
उग्गह
uggaha
学 / 學習 / 研 / 研究 /
जत्त
ñatta
परियापुणन
pariyāpuṇana

孺
rú
पुत्त
putta
儿 / 儿 / 儿子 / 儿童 / 兒 / 兒子 / 兒童 / 公子 / 囡 / 女婿 / 女婿 / 子 / 子女 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 /
बाल
bāla
傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 囡 / 子 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /

孽
niè
अकुसल
akusala
孽 / 罪 / 罪惡 / 罪過 /
कण्ह
kaṇha
乌 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 淄 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
दुरित
durita
पाप
pāpa
孽 / 惡 / 罪 / 邪惡 /

宇宙
yǔ zhòu
जगति
jagati
世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /

守卫
shǒu wèi
आरक्खक
ārakkhaka
守卫 / 守衛 / 守護 / 巡夜者 / 把守 / 看守 / 看守人 / 衛 / 門衛 /
गुत्ति
gutti
保护 / 保護 / 守卫 / 守衛 / 守護 / 把守 / 注意 / 看守 / 衛 / 門衛 /

守衛
shǒu wèi
आरक्खक
ārakkhaka
守卫 / 守衛 / 守護 / 巡夜者 / 把守 / 看守 / 看守人 / 衛 / 門衛 /
गुत्ति
gutti
保护 / 保護 / 守卫 / 守衛 / 守護 / 把守 / 注意 / 看守 / 衛 / 門衛 /

守護
shǒu hù
आरक्खक
ārakkhaka
守卫 / 守衛 / 守護 / 巡夜者 / 把守 / 看守 / 看守人 / 衛 / 門衛 /
गुत्ति
gutti
保护 / 保護 / 守卫 / 守衛 / 守護 / 把守 / 注意 / 看守 / 衛 / 門衛 /
परिरक्खन
parirakkhana

安
ān
अभय
abhaya
保險 / 保險箱 / 安 / 安全 / 安全性 / 安全的 / 安危 / 穩妥 /
खेम
khema
保險箱 / 太平 / 安 / 安全 / 安全地 / 穩妥 /
निब्बुति
nibbuti
和平 / 和約 / 安 /

安全
ān quán
अभय
abhaya
保險 / 保險箱 / 安 / 安全 / 安全性 / 安全的 / 安危 / 穩妥 /
खेम
khema
保險箱 / 太平 / 安 / 安全 / 安全地 / 穩妥 /
पाटिभोग
pāṭibhoga
保安 / 保证金 / 保釋 / 保釋金 / 安全 / 安全性 / 担保 /

安全地
ān quán dì
खेम
khema
保險箱 / 太平 / 安 / 安全 / 安全地 / 穩妥 /

安全性
ān quán xìng
अभय
abhaya
保險 / 保險箱 / 安 / 安全 / 安全性 / 安全的 / 安危 / 穩妥 /
पाटिभोग
pāṭibhoga
保安 / 保证金 / 保釋 / 保釋金 / 安全 / 安全性 / 担保 /

安全的
ān quán de
अभय
abhaya
保險 / 保險箱 / 安 / 安全 / 安全性 / 安全的 / 安危 / 穩妥 /

安危
ān wēi
अभय
abhaya
保險 / 保險箱 / 安 / 安全 / 安全性 / 安全的 / 安危 / 穩妥 /

安好
ān hǎo
उदपान
udapāna
井 / 以至 / 嘛 / 嘱 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /
ओपान
opāna
井 / 以至 / 嘛 / 嘱 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /
कूप
kūpa
井 / 以至 / 嘛 / 嘱 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 洞 / 良好 /

安心的
ān xīn de
निरुपद्व
nirupaddava

安慰
ān wèi
अस्सास
assāsa
吸入 / 安慰 / 慰 / 慰藉 / 舒服 / 舒适 /
फासु
phāsū
安慰 / 安逸 / 容易 / 容易的 / 愉快的 / 慰 / 慰藉 / 方便的 / 易 / 舒服 / 舒服的 / 舒适 /

安排
ān pái
अज्झासय
ajjhāsaya
安排 / 意圖 /
पकप्पना
pakappanā
安排 / 計劃 /
पञ्ञापन
paññāpana
公告 / 安排 /
परिकम्म
parikamma

安放
ān fàng
ठान
ṭhāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到任 / 到任 / 到任 / 到任 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 靡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 默 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /

पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到任 / 到任 / 到任 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 場所 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 靡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 腳 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 郵件 / 郵政 / 部位 /

पदेस
padesa
交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到任 / 區域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 斑 / 斑點 / 身份 / 部位 /

安置
ān zhì
ठपन
ṭhapanā
अण
ān yíng
खन्धावार
khandhāvāra
安营 / 營 / 砦 / 营 / 陣營 / 集中營 / 露營 /

安逸
ān yì
फासु
phāsū
安慰 / 安逸 / 容易 / 容易的 / 愉快的 / 慰 / 慰藉 / 方便的 / 易 / 舒服 / 舒服的 / 舒适 /

完
wán
अनवसेस
anavasesa
全部 / 完 / 完全 / 完全地 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 竣 / 通通 /

完全

wán quán

अनून
anūna

全部 / 完全 / 完全的 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 通通 /

अनूनक
anūnaka

全部 / 完全 / 完全的 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 通通 /

अनवसेस
anavasesa

全部 / 完 / 完全 / 完全地 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 竣 / 通通 /

असेस
asesa

一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 圜 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /

केवल
kevala

仅仅 / 全部 / 全部的 / 只有 / 唯 / 唯一 / 圜 / 孤 / 完全 / 总体 / 惟 / 整 / 整个 / 整個 / 整数 / 整整 / 絕對 / 绝对 / 通通 / 鞋底 /

कसिण
kasiṇa

全部 / 全部的 / 圜 / 完全 / 总体 / 整 / 整个 / 整個 / 整数 / 整整 / 通通 /

निखिल
nikhila

一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 圜 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /

निस्सेस
nissesa

一切 / 全部 / 全部的 / 全體 / 凡 / 凡是 / 圜 / 均 / 完全 / 完全地 / 所有 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 胥 / 芸芸 / 通通 /

पुण्ण
puṇṇa

充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /

परिपूर
paripūra

充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /

完全地

wán quán dì

अनवसेस
anavasesa

全部 / 完 / 完全 / 完全地 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 竣 / 通通 /

असेस
asesa

一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 圜 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /

निस्सेस
nissesa

一切 / 全部 / 全部的 / 全體 / 凡 / 凡是 / 圜 / 均 / 完全 / 完全地 / 所有 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 胥 / 芸芸 / 通通 /

完全的
wán quán de

अनून
anūna

全部 / 完全 / 完全的 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 通通 /

अनूनक
anūnaka

全部 / 完全 / 完全的 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 通通 /

अनवय
anavaya

完善
wán shàn

अनून
anūna

全部 / 完全 / 完全的 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 通通 /

अनूनक
anūnaka

全部 / 完全 / 完全的 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 通通 /

अनवसेस
anavasesa

全部 / 完 / 完全 / 完全地 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 竣 / 通通 /

完工
wán gōng

निद्दान
niṭṭhāna

完工 / 完成 / 結束 /
परिपूरि
pāripūri

完工 / 完成 /

完成

wán chéng

अनून
anūna

全部 / 完全 / 完全的 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 通通 /

अनूनक
anūnaka

全部 / 完全 / 完全的 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 通通 /

अनवसेस
anavasesa

全部 / 完 / 完全 / 完全地 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 竣 / 通通 /

निद्दान
niṭṭhāna

完工 / 完成 / 結束 /
नित्थरण
nittharaṇa

克服 / 完成 / 穿越 /
निष्फत्ति
nipphatti

作用 / 完成 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 結果 /

पुण्ण
puṇṇa

充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /

पूर
pūra

परिपूर
paripūra

充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /

पारमिता
pāramitā

完成 / 完美 /
पारमी
pāramī

完成 / 完美 /
परिपूरि
pāripūri

完工 / 完成 /

完整

wán zhěng

अनून
anūna

全部 / 完全 / 完全的 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 通通 /

अनूनक
anūnaka

全部 / 完全 / 完全的 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 通通 /

अनवसेस
anavasesa

全部 / 完 / 完全 / 完全地 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 竣 / 通通 /

पुण्ण
puṇṇa

充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /

परिपूर
paripūra

充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /

完畢
wán bì

अनून
anūna

全部 / 完全 / 完全的 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 通通 /

अनूनक
anūnaka

全部 / 完全 / 完全的 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 通通 /

अनवसेस
anavasesa

全部 / 完 / 完全 / 完全地 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 竣 / 通通 /

पुण्ण
puṇṇa

充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /

परिपूर
paripūra

充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /

完結

wán jié

अग्ग
agga

一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 頂点 / 頂端 / 首 / 首先 /

अन्त
anta

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂端 /

अपवग्ग
apavagga

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

अवसान
avasāna

下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

ओसान
osāna

下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

कोटि
koṭi

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 點 /

कोण
koṇa

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /

निद्दा
niṭṭhā

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

परिनिद्दान
pariniṭṭhāna

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 極限 / 稜 / 極限 / 止境 / 溜 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 終結 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियोसान
pariyosāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 終結 / 結束 / 道 /

完结
wán jié
अग्ग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 首 / 首先 /
अन्त
anta
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂端 /
अपवग्ग
apavagga
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
अवसान
avasāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
ओसान
osāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 終結 / 結束 / 道 /
कोटि
koṭi
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 點 /
कोण
koṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /
निट्ठा
niṭṭhā
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 終結 / 結束 / 道 /
परिनिट्ठान
pariniṭṭhāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 極限 / 稜 / 極限 / 止境 / 溜 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 終結 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियोसान
pariyosāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 終結 / 結束 / 道 /
完美
wán měi
निट्ठा
niṭṭhā
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
पारमिता
pāramitā
完成 / 完美 /
पारमी
pāramī
完成 / 完美 /

完美的
wán měi de
अक्खत
akkhata
अनेळ
anela
अनेळक
anelaka
निदोस
niddosa
宗
zōng
कुटुम्ब
kuṭumba
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 属 / 族 /
कुल
kula
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 宗族 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 家系 / 属 / 族 / 氏族 /
宗教
zōng jiào
आगम
āgama
來 / 信仰 / 宗教 / 教 / 聖經 /

宗族
zōng zú
कुल
kula
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 宗族 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 家系 / 属 / 族 / 氏族 /
गोत्त
gotta
宗族 / 族 / 氏族 / 祖先 / 祖宗 / 血统 /
जातिक
jātika
宗族 / 族 / 氏族 / 民族 /

宗旨
zōng zhǐ
अत्य
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 諦 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /
चेत
ceta
宗旨 / 心意 / 意向 / 意图 / 意圖 / 旨趣 / 用心 / 用意 / 目的 /
宗派
zōng pài
निकाय
nikāya
一群 / 团 / 团体 / 團 / 團體 / 宗派 / 小組 / 收集 / 教派 / 派 / 派系 / 組 / 组 / 群 / 群體 / 集團 /
定义
ding yi
नियमन
niyamana
固定 / 定义 / 定義 /
परिच्छिन्दन
paricchindana
定义 / 定義 /

定位
ding wèi
पदेस
padesa
交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到位 / 區域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 斑 / 斑點 / 身份 / 部位 /

定局
dìng jú
ओसान
osāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 終結 / 結束 / 道 /
निगमन
nigamana
定局 / 結論 / 解释 / 解釋 / 說明 /
निट्ठा
niṭṭhā
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
परियोसान
pariyosāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 終結 / 結束 / 道 /

定律
dìng lǜ
नीति
nīti
定律 / 定律 / 律 / 律 / 法 / 法則 / 法學 / 法律 / 規律 /
नीति
nīti
定律 / 定律 / 律 / 律 / 法 / 法則 / 法學 / 法律 / 規律 /

定期收入
dìng qī shōu rù
अय
aya
定期收入 / 收 / 收入 / 收益 / 熨 / 熨斗 / 鐵 / 鐵頭 / 铁 /
आय
āya
利 / 利润 / 利潤 / 贏 / 定期收入 / 成果 / 收 / 收入 / 收益 / 润 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 涨 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /

定然
dìng rán
अद्दा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
नून्
nūna
一定 / 定然 / 实在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

定義
ding yi
नियमन
niyamana
固定 / 定义 / 定義 / परिच्छिन्दन
paricchindana
定义 / 定義 /

宛
wǎn
उपम
upama
似 / 似 / 侔 / 同 / 喜欢 / 宛 / 相仿 / 相似的 / 肖 /

宛如
wǎn rú
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

宜人
yi rén
फासुक
phāsuka
不方便 / 便 / 便利 / 宜人 / 愉快 / 方便 /

宜人的
yí rén de
इष्ट
it̥ṭha
媿 / 宜人的 / 愉快 / 愉快的 /

实
shí
तच्छ
taccha
事實 / 实 / 實 / 现实 / 真 / 真实的 / 真實 / 真正 / 真正的 /
तथ
tatha
事實 / 实 / 實 / 现实 / 真 / 真实的 / 真實 / 真正 / 真正的 /

实体
shí tǐ
दब्ब
dabba
事件 / 实体 / 實質 / 有道 / 木料 / 木材 / 材 / 材料 / 森林 / 物質 / 物质 / 纺织品 / 財富 / 财富 /

实例
shí lì
उदाहरण
udāharaṇa
例 / 例子 / 实例 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模范 / 比方 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 /
निदस्सन
nidassana
例 / 例子 / 实例 / 样品 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模范 / 比方 / 比較 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 / 證據 /

实力
shí lì
जव
java
力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 势力 / 实力 / 快慢 / 速 / 速度 / 速率 / 飛車 /

थाम
thāma
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /
पभाव
pabhāva
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 勁 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 强 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /
बल
bala
军 / 军队 / 幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 势力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

实在
shí zài
अद्द
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
किर
kira

实在 / 實在 / 果然 / 果真 / 洵 / 當真 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 /
खलु
khalu
实在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
खो
kho
实在 / 實在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 當真的 / 的確 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
नून
nūna
一定 / 定然 / 实在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

实存
shí cún
अत्थिता
atthitā
存在 / 存在物 / 实存 / 生存 /
पवत्तन
pavattana
前進 / 執行 / 存在 / 存在物 / 实存 / 生存 /

审问
shěn wèn
पन्ह
pañha
事情 / 問題 / 回答 / 审问 / 提問 / 質問 / 質疑 / 質詢 / 问题 /

客
kè
अतिथि
atithi
住客 / 來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 探望者 / 旅游者 / 旅游者 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /
अब्भागत
abbhāgata
來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /
आगन्तुक
āgantuka
來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /
पाहुण
pāhuṇa
來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 来宾 / 禮物 / 賓 /

客人
kè rén
अतिथि
atithi
住客 / 來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 探望者 / 旅游者 / 旅游者 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /
अब्भागत
abbhāgata
來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /
आगन्तुक
āgantuka
來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /
पाहुण
pāhuṇa
來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 来宾 / 禮物 / 賓 /

客观
kè guān
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 諦 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /

宣告
xuān gào
अनुसावन
anusāvana
पकासन
pakāsana

宣言
xuān yán
उगघोस
ugghosa
ऋत्ति
ñatti
公告 / 告示 / 宣言 / 聲明 /

宣誓
xuān shì
अभिसपन
abhisapana
宣誓 / 盟 / 詛咒 / 誓 / 誓言 / 起誓 /
宦官
huàn guān
पण्डक
paṇḍaka
太監 / 宦官 /

宰
zǎi
गोघातक
goghātaka
宰 / 屠夫 / 屠夫 /

害
hài
अन्त्थ
anattha
不幸 / 伤害 / 傷害 / 危害 / 壞處 / 害 / 弊 / 损伤 / 損害 / 有害 /
अहित
ahita
伤害 / 傷害 / 危害 / 壞處 / 害 / 弊 / 损伤 /

害怕
hài pà
चकित
cakita
पटिभय
paṭibhaya
害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
भय
bhaya
可怕的 / 害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐怖的 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 非常害怕 /
भीति
bhīti
害怕 / 憚 /

宵
xiāo
निसा
nisā
入夜 / 夜 / 夜幕 / 夜晚 / 夜游 / 夜行 / 宵 / 宿 / 整夜 / 晚 / 晚上 / 晦 / 每晚 / 黄昏 / 黑夜 /

家
jiā
आवास
āvāsa
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
उपरस्सय
upassaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
कुटुम्ब
kuṭumba
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 属 / 族 /

कुल
kula
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 宗族 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 家系 / 属 / 族 / 氏族 /

家
jiā
आवास
āvāsa
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
उपरस्सय
upassaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
कुटुम्ब
kuṭumba
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 属 / 族 /

कुल
kula
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 宗族 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 属 / 族 / 氏族 /
गह
gaha
住宅 / 家 / 居 / 屋 / 屋子 / 屋頂 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गेह
geha
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /

कुल
kula
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 宗族 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 家系 / 属 / 族 / 氏族 /
गह
gaha
住宅 / 家 / 居 / 屋 / 屋子 / 屋頂 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

अन्त्थ
anattha
不幸 / 伤害 / 傷害 / 危害 / 壞處 / 害 / 弊 / 损伤 / 損害 / 有害 /
अहित
ahita
伤害 / 傷害 / 危害 / 壞處 / 害 / 弊 / 损伤 /
害怕
hài pà
चकित
cakita
पटिभय
paṭibhaya
害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
भय
bhaya
可怕的 / 害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐怖的 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 非常害怕 /
भीति
bhīti
害怕 / 憚 /

आवास
āvāsa
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
उपरस्सय
upassaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
कुटुम्ब
kuṭumba
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 属 / 族 /

कुल
kula
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 宗族 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 家系 / 属 / 族 / 氏族 /
निकेत
niketa
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
निकेतन
niketana
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 故鄉 / 老家 /

निलय
nilaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家园 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /

家人
jiā rén
कुटुम्ब
kuṭumba
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 属 / 族 /
कुल
kula
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 宗族 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 家系 / 属 / 族 / 氏族 /

家园
jiā yuán

आवास
āvāsa

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /</div>
उपस्सय
upassaya

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /</div>
गेह
geha

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /</div>
घर
ghara

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /</div>
निकेत
niketa

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /</div>
निकेतन
niketana

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 故鄉 / 老家 /</div>
निलय
nilaya

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /</div>

家園
jiā yuán

आवास
āvāsa

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /</div>
उपस्सय
upassaya

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /</div>
गेह
geha

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /</div>
घर
ghara

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /</div>
निकेत
niketa

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /</div>
निकेतन
niketana

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 故鄉 / 老家 /</div>
निलय
nilaya

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /</div>

家庭
jiā tíng

आवास
āvāsa

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /</div>
उपस्सय
upassaya

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /</div>
कुटुम्ब
kuṭumba

 <div>一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 屬 / 族 /</div>
कुल
kula

 <div>一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 宗族 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 家系 / 屬 / 族 / 氏族 /</div>
निकेत
niketa

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /</div>
निकेतन
niketana

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 故鄉 / 老家 /</div>
निलय
nilaya

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /</div>
家族
jiā zú

कुटुम्ब
kuṭumba

 <div>一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 屬 / 族 /</div>
कुल
kula

 <div>一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 宗族 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 家系 / 屬 / 族 / 氏族 /</div>
家畜
jiā chù

गावो
gāvo

 <div>家畜 / 牛 /</div>
गो
go

 <div>公牛 / 家畜 / 牛 /</div>

家眷
jiā juàn

कुटुम्ब
kuṭumba

 <div>一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 屬 / 族 /</div>
कुल
kula

 <div>一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 宗族 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 家系 / 屬 / 族 / 氏族 /</div>
家系
jiā xì

कुल
kula

 <div>一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 宗族 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 家系 / 屬 / 族 / 氏族 /</div>
家裡
jiā li

आवास
āvāsa

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /</div>
उपस्सय
upassaya

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /</div>
गेह
geha

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /</div>
घर
ghara

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /</div>
ghara

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /</div>
निकेत
niketa

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /</div>
निकेतन
niketana

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 故鄉 / 老家 /</div>
निलय
nilaya

 <div>主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /</div>

容器
róng qì

आधान
ādihāna

आधार
ādihāra

 <div>供養 / 基礎 / 容器 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 孟 /</div>
उपधारण
upadhāraṇa

कटाह
kaṭāha

पुट
puṭa

 <div>一籃 / 兜 / 匚 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 梲 / 孟 / 筐 / 筭 / 籃 / 簍 / 籃 / 籃子 / 袋 /</div>
पुटक
puṭaka

 <div>一籃 / 兜 / 匚 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 梲 / 孟 / 筐 / 筭 / 籃 / 簍 / 籃 / 籃子 / 袋 /</div>
पेळा
peḷā

 <div>容器 / 孟 / 盒子 /</div>
容忍
róng rěn

खमन
khamana

 <div>容忍 / 忍受 / 忍耐 / 耐心 / 耐性 /</div>
容易
róng yì

फासु
phāsu

 <div>安慰 / 安逸 / 容易 / 容易的 / 愉快的 / 慰 / 慰藉 / 方便的 / 易 / 舒服 / 舒服的 / 舒适 /</div>
容易的
róng yì de

फासु
phāsu

 <div>安慰 / 安逸 / 容易 / 容易的 / 愉快的 / 慰 / 慰藉 / 方便的 / 易 / 舒服 / 舒服的 / 舒适 /</div>
容貌
róng mào

आकार
ākāra

 <div>亮相 / 出場 / 境界 / 外表 / 外觀 / 外貌 / 容貌 / 情況 / 樣子 / 模樣 / 樣子 / 相貌 / 色 / 貌 / 面貌 /</div>
容顏
róng yán

मुख
mukha

 <div>入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前綫 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 著 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /</div>

宽容
kuān róng
खन्ति
khanti
宽容 / 宽恕 / 希望 / 忍耐 / 特赦 / 耐力 / 耐心 / 耐性 / 赦免 / 饶恕 /

宽恕
kuān shù
खन्ति
khanti
宽容 / 宽恕 / 希望 / 忍耐 / 特赦 / 耐力 / 耐心 / 耐性 / 赦免 / 饶恕 /
पच्चाहार
paccāhāra
包涵 / 原谅 / 宽恕 / 歉 / 歉意 / 致歉 / 道歉 /

宾
bīn
अतिथि
atithi
住客 / 來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 探望者 / 旅游者 / 旅游者 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /
अब्भागत
abbhāgata
來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /
आगन्तुक
āgantuka
來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /
पाहुण
pāhuṇa
來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 来宾 / 禮物 / 賓 /

宿
sù
निसा
nisā
入夜 / 夜 / 夜幕 / 夜晚 / 夜游 / 夜行 / 宵 / 宿 / 整夜 / 晚 / 晚上 / 晦 / 每晚 / 黄昏 / 黑夜 /

宿命
sù mìng
नियति
niyati
命 / 命运 / 命運 / 天命 / 宿命 /

寂寞
jì mò
एकत्त
ekatta
协议 / 協定 / 協議 / 契约 / 寂寞 / 符合 /
एकीभाव
ekībhāva

寂靜
jì jìng
तुण्हीभाव
tunḥībhāva
寂靜 / 沈默 / 沈默 / 沉默 /

密探
mì tàn
अवचरक
avacaraka
刺探 / 密探 / 特務 / 狙 / 耳目 / 諜 / 諜 / 間諜 / 间谍 /

寄予
jì yǔ
ठान
ṭhāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 款 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /
पदेस
padesa
交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到位 / 區域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 斑 / 斑點 / 身份 / 部位 /

寄件人
jì jiàn rén
पेसक
pesaka
寄件人 / 寄信人 /
寄信人
jì xìn rén
पेसक
pesaka
寄件人 / 寄信人 /

密
mì
गहन
gahana
丛林 / 厚 / 厚的 / 叢林 / 密 / 密封的 / 稠 / 粗 / 萃 / 蔘 /
घन
ghana
厚 / 厚的 / 固 / 密 / 密集的 / 捶 / 棍棒 / 槌 / 稠 / 粗 / 結實 / 萃 / 蔘 / 錘子 / 錘 /
बहल
bahala
厚 / 厚的 / 密 / 密集的 / 稠 / 粗 / 萃 / 蔘 /

密封的
mì fēng de
गहन
gahana
丛林 / 厚 / 厚的 / 叢林 / 密 / 密封的 / 稠 / 粗 / 萃 / 蔘 /

密探
mì tàn
अवचरक
avacaraka
刺探 / 密探 / 特務 / 狙 / 耳目 / 諜 / 諜 / 間諜 / 间谍 /

密集的
mì jí de
घन
ghana
厚 / 厚的 / 固 / 密 / 密集的 / 捶 / 棍棒 / 槌 / 稠 / 粗 / 結實 / 萃 / 蔘 / 錘子 / 錘 /
बहल
bahala
厚 / 厚的 / 密 / 密集的 / 稠 / 粗 / 萃 / 蔘 /

富人
fù rén
अड्ड
aḍḍha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /

富有
fù yǒu
अड्ड
aḍḍha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /

富有的
fù yǒu de
अड्ड
aḍḍha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /
फ़ीत
pḥīta

富裕
fù yù
अड्ड
aḍḍha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /

富裕的
fù yù de
अड्ड
aḍḍha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /

富足
fù zú
अतिसय
atisaya
富足 / 非常地 /

寓意
yù yì
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 諦 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /

寓言
yù yán
उपमा
upamā
寓言 / 比較 / 直喻 /

寡
guǎ
अप्पक
appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 苳 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
ईसक
tsaka
些微地 / 寡 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 有點兒 / 有點小 / 短的 / 稍微 /

寥
liáo
तुच्छ
tuccha
寥 / 楞 / 榻 / 清空 / 空 / 空心 / 空格 / 空洞 / 空瓶 / 空白 / 空的 / 空著 / 孔 /

實
shí
तच्छ
taccha
事實 / 实 / 實 / 现实 / 真 / 真实的 / 真實 / 真正 / 真正的 /
तथ
tatha
事實 / 实 / 實 / 现实 / 真 / 真实的 / 真實 / 真正 / 真正的 /

實力
shí lì
पभाव
pabhāva
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 强 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /

實在
shí zài
अद्दा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
किर
kira
实在 / 實在 / 果然 / 果真 / 洵 / 當真 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 /
खो
kho
实在 / 實在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 當真 / 的確 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

實地
shí de
केदार
kedāra
地 / 地 / 场 / 場 / 實地 / 田 / 田地 / 田野 / 畝 / 耕地 / 野外 / 領域 / 領域 /

實質
shí zhì
दब्ब
dabba
事件 / 实体 / 實質 / 有道 / 木料 / 木材 / 材 / 材料 / 森林 / 物質 / 物质 / 纺织品 / 財富 / 财富 /

實際上
shí jì shàng
अद्दा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
खलु
khalu
实在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
खो
kho
实在 / 實在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 當真 / 的確 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

實
shí
तच्छ
taccha
事實 / 实 / 實 / 现实 / 真 / 真实的 / 真實 / 真正 / 真正的 /
तथ
tatha
事實 / 实 / 實 / 现实 / 真 / 真实的 / 真實 / 真正 / 真正的 /

寧靜
níng jìng
पस्सद्धि
passaddhi
寧靜 / 平靜 /

寨
zhài
कोट्टक
koṭṭhaka
儲藏室 / 出入口 / 堡垒 / 壁櫥 / 寨 / 砦 / 要塞 / 要塞 /

審判
shěn pàn
अभियुञ्जन
abhiyuñjana
審判 / 遵守 / 对外的
duì wài de
बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 / बाहिर
bāhira
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外國的 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 洋 / 番 / 窗外 / 門外 /

對手
duì shǒu
अमित्त
amitta
仇人 / 忤 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 / पच्चत्थिक
paccatthika
仇人 / 忤 / 反對 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 / पच्चनिक
paccanika
不利的 / 仇人 / 忤 / 否定的 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 / 相反的 / पच्चामित्त
paccāmitta
仇人 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 / 魔鬼 / पटिपक्ख
paṭipakkha
仇人 / 忤 / 对手 / 對面 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 / 相反的 /

寺院
sì yuàn
आराम
ārama
修道院 / 僧院 / 娛 / 寺院 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 高兴 /

尋
xún
अन्वेसना
anvesanā
尋 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 調查 / 追尋 / गवेसन
gavesana
尋 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 / परियेसना
pariyesanā
尋 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 / मगगन
maggana
尋 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /

封套
fēng tàò
पटल
paṭala
信封 / 封套 / 封袋 / 影片 / 片子 / 电影 / 膜 / 膠片 / 蓋子 / 薄膜 / 軟片 /

封皮
fēng pí
अपिधान
apidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 / छदन
chadana
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋頂 / 屋顶 / 幌子 / 房頂 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 / पच्चत्थरण
paccattharaṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 床單 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

पच्छाद
pacchāda
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 / पापुरण
pāpuraṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 毛毯 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 / पिधान
pidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

封袋
fēng dài
पटल
paṭala
信封 / 封套 / 封袋 / 影片 / 片子 / 电影 / 膜 / 膠片 / 蓋子 / 薄膜 / 軟片 /
射手
shè shǒu
इस्सत्थ
issattha
इस्सास
issāsa
射手 / 弓 / 船首 / 躬 / 鞠躬 /

将来
jiāng lái
अनागत
anāgata
他日 / 前程 / 前途 / 将来 / 將來 / 日后 / 日後 / 未來 / 未来 / 未来的 / आयति
āyati
他日 / 前程 / 前途 / 将来 / 將來 / 日后 / 日後 / 未來 / 未来 / 未来的 /

將來
jiāng lái
अनागत
anāgata
他日 / 前程 / 前途 / 将来 / 將來 / 日后 / 日後 / 未來 / 未来 / 未来的 /
आयति
āyati
他日 / 前程 / 前途 / 将来 / 將來 / 日后 / 日後 / 未來 / 未来 / 未来的 /

尊严
zūn yán
परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威严 ^严 / 尊 ^严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

尊嚴
zūn yán
परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威严 ^严 / 尊 ^严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

尊敬
zūn jìng
अचचना
accanā
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 祭品 / 翊 / 荣誉 / अपचायन
apacāyana
供奉 / 尊敬 / 崇 / 崇拜 / 崇敬 / 拜 / 敬神 / 敬重 / 祭拜 / 禮拜 / गारव
gārava
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 翊 / चित्तीकार
cittikāra
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 翊 / 考慮 / नमक्कार
namakkāra
नमस्सन
namassana
供奉 / 尊敬 / 崇 / 崇拜 / 崇敬 / 拜 / 敬神 / 祭拜 / 禮拜 / पच्चुद्धान
paccuṭṭhāna
尊敬 / 崇敬 / पूजा
pūjā
供奉 / 尊敬 / पटिपूजना
paṭipūjanā
尊敬 / 崇敬 / 敬意 / 荣誉 / पुरेक्खार
purekkhāra
尊敬 / 熱愛 / 荣誉 /

尊重
zūn zhòng
अचचना
accanā
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 祭品 / 翊 / 荣誉 / गारव
gārava
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 翊 / चित्तीकार
cittikāra
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 翊 / 考慮 /

अचचना
accanā
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 祭品 / 翊 / 荣誉 / गारव
gārava
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 翊 / चित्तीकार
cittikāra
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 翊 / 考慮 /

尋
xún
अन्वेसना
anvesanā
尋 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 調查 / 追尋 / गवेसन
gavesana
尋 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 / परियेसना
pariyesanā
尋 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 / मगगन
maggana
尋 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /

尋找
xún zhǎo
अन्वेसना
anvesanā
尋 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 調查 / 追尋 / गवेसन
gavesana
尋 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 / परियेसना
pariyesanā
尋 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 / मगगन
maggana
尋 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /

尋求
xún qiú
अन्वेसना
anvesanā
尋 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 調查 / 追尋 / एसना
esanā
尋求 / 渴望 / गवेसन
gavesana
尋 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 / परियेसना
pariyesanā
尋 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 / मगगन
maggana
尋 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /

對光
duì guāng
अवभास
avabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 出現 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
आभा
abhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
आलोक
āloka
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恒星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 着火 / 着火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
दित्ति
ditti
亮光 / 光 / 光亮 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
निभा
nibhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पज्जोत
pajjota
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पदीप
padīpa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पभा
pabhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पभास
pabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
भा
bhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
भानु
bhānu
亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /

對面
duì miàn
पटिपक्ख
paṭipakkha
仇人 / 件 / 对手 / 對面 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 / 相反的 /
導師
dǎo shī
गरु
garu
值得尊敬的 / 可敬的 / 導師 / 師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /

導致
dǎo zhì
गमन
gamana
去 / 導致 / 征程 / 征途 / 散步 / 旅游 / 旅游 / 旅程 / 旅程 / 旅行 / 旅行 / 旅途 / 程 / 追逐 /
निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源头 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /

小
xiǎo
अप्प
appa
子 / 小 / 小班 / 小的 / 少 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
खुद्द
khudda
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
चुल्ल
culla
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 未成年人 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
थोक
thoka
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
परित्त
paritta
不足道 / 子 / 小 / 小班 / 小的 / 少的 / 微不足道 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

小便
xiǎo biàn
पस्साव
passāva
小便 / 尿 / 溺 /

小偷
xiǎo tōu
चोर
cora
小偷 / 強盜 / 盜 / 盜 / 盜賊 / 竊賊 / 賊 / 賊 /
तक्कर
takkara
小偷 / 盜 / 盜 / 竊賊 / 賊 / 賊 /
थेन
thena
小偷 / 盜 / 盜 / 竊賊 / 賊 / 賊 /
थेनक
thenaka
小偷 / 盜 / 盜 / 竊賊 / 賊 / 賊 /

小兵
xiǎo bīng
बलदु
balatṭha
兵 / 兵 / 兵家 / 兵家 / 卒 / 卒 / 士兵 / 士兵 / 小兵 / 小兵 / 軍人 / 軍人 /
बलदु
balatṭha
兵 / 兵 / 兵家 / 兵家 / 卒 / 卒 / 士兵 / 士兵 / 小兵 / 小兵 / 軍人 / 軍人 /
बलत्थ
balatṭha
兵 / 兵家 / 卒 / 士兵 / 小兵 / 軍人 / 警察 / 軍人 /
भट
bhaṭa
兵 / 兵家 / 卒 / 士兵 / 小兵 / 步兵 / 警察 / 軍人 /

小型的
xiǎo xíng de
अप्पक
appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

小塔
xiǎo tǎ
निर्यूह
niyyūha
小塔 / 高峰 /
小姑
xiǎo gū
भगिनी
bhaginī
妹 / 妹妹 / 姊 / 姊妹 / 姐 / 姐姐 / 小姑 / 弟媳 /

小姑娘
xiǎo gū niáng
कञ्जा
kaññā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /
कञ्जा
kaññā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /
कुमारिका
kumārikā
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
कुमारिका
kumārikā
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /

कुमारी
kumārī
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
कुमारी
kumārī
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
कुमारी
kumārī
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /

दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /
दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /
बाला
bālā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /

बाला
bālā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /

小孩
xiǎo hái
दारक
dāraka
僮 / 好孩子 / 小孩 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
पुत्त
putta
儿 / 儿 / 儿子 / 儿童 / 兒 / 兒子 / 兒童 / 公子 / 团 / 女婿 / 女婿 / 子 / 子女 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 /
बाल
bāla
傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 / 笨蛋 / 笨的 / 笨的 /

小孩子
xiǎo hái zi
पुत्त
putta
儿 / 儿 / 儿子 / 儿童 / 兒 / 兒子 / 兒童 / 公子 / 团 / 女婿 / 女婿 / 子 / 子女 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 /
बाल
bāla
傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 / 笨蛋 / 笨的 / 笨的 /

小屋
xiǎo wū
कुटि
kuṭi
कुटिका
kuṭikā

小島
xiǎo dǎo
दीप
dīpa
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 小島 / 島 / 島嶼 / 島 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /

小康
xiǎo kāng
उदपान
udapāna
井 / 以至 / 嘛 / 嘿 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /
ओपान
opāna
井 / 以至 / 嘛 / 嘿 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /
कूप
kūpa
井 / 以至 / 嘛 / 嘿 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 洞 / 良好 /

小心的
xiǎo xīn de
अप्पमत्त
appamatta
小心的 / 微小的 / 注意的 / 警醒的 /

小時候
xiǎo shí hou
बाल्य
bālyā
小時候 / 幼年 / 幼年时代 / 愚蠢 / 童年 / 自小 / 自幼 / 蠢事 /

小木盒
xiǎo mù hé
चङ्गोटक
caṅḡoṭaka
匣子 / 小木盒 / 小箱 / 手箱 /

小氣
xiǎo qì
कदरिय
kadariya
婪 / 小氣 / 貪婪的 /

小河
xiǎo hé
कुन्नदी
kunnadī

小班
xiǎo bān
अप्प
appa
子 / 小 / 小班 / 小的 / 少 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
अप्पक
appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
खुद्द
khudda
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

अप्पक
appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
खुद्द
khudda
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

चुल्ल
culla
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 未成年人 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
थोक
thoka
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
परित्त
paritta
不足道 / 子 / 小 / 小班 / 小的 / 少的 / 微不足道 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

अप्पक
appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
खुद्द
khudda
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
चुल्ल
culla
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 未成年人 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
थोक
thoka
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
परित्त
paritta
不足道 / 子 / 小 / 小班 / 小的 / 少的 / 微不足道 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

小的
xiǎo de
अप्प
appa
子 / 小 / 小班 / 小的 / 少 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
अप्पक
appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
खुद्द
khudda
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

चुल्ल
culla
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 未成年人 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
थोक
thoka
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
परित्त
paritta
不足道 / 子 / 小 / 小班 / 小的 / 少的 / 微不足道 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

小石
xiǎo shí
अस्मा
asmā
小石 / 核 / 石 / 石頭 /
उपल
upala
小石 / 石 / 石頭 /
पासाण
pāsāṇa
小石 / 岩 / 岩石 / 巖 / 晃動 / 核 / 石 / 石板 / 石頭 / 磐 / 磐石 /

小箱
xiǎo xiāng
चङ्गोटक
caṅḡoṭaka
匣子 / 小木盒 / 小箱 / 手箱 /

小組
xiǎo zǔ
निकाय
nikāya
一群 / 团 / 团体 / 團 / 團體 / 宗派 / 小組 / 收集 / 教派 / 派 / 派系 / 組 / 组 / 群 / 群體 / 集團 /

小船
xiǎo chuán
तरणी
taraṇī
小船 / 小艇 / 舟 / 航 / 舶 / 船 /
दोणि
doṇi
小船 / 小艇 / 舟 / 航 / 舶 /
दोणिका
doṇikā
小船 / 小艇 / 舟 / 航 / 舶 /
नावा
nāvā
小船 / 小艇 / 渡口 / 港口 / 舟 / 航 / 舶 / 船 /

小艇
xiǎo tǐng
तरणी
taraṇī
小船 / 小艇 / 舟 / 航 / 舶 / 船 /
दोणि
doṇi
小船 / 小艇 / 舟 / 航 / 舶 /

दोणिका
doṇikā
小船 / 小艇 / 舟 / 航 / 舶 /
नावा
nāvā
小船 / 小艇 / 渡口 / 港口 / 舟 / 航 / 舶 / 船 /

小袋
xiǎo dài
ओवट्टिका
ovattikā

小道
xiǎo dào
अञ्जस
añjasa
修路 / 小道 / 径 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /

小鎮
xiǎo zhèn
नगर
nagara
城 / 城區 / 城堡 / 城市 / 城裡 / 城鎮 / 城鎮 / 小鎮 / 市 / 市府 / 市立 / 要塞 / 要塞 / 進城 / 都市 / 都會 / 鎮 / 镇 /

小黃瓜
xiǎo huáng guā
इन्दवारुणि
indavāruṇi
小黃瓜 / 黃瓜 / 黃瓜 /
एळालुक
eḷāluka
小黃瓜 / 黃瓜 / 黃瓜 /

少
shǎo
अप्प
appa
子 / 小 / 小班 / 小的 / 少 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
अप्पक
appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
ईसक
Isaka
些微地 / 寡 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 有點兒 / 有點小 / 短的 / 稍微 /

तरुण
taruṇa
仔 / 少 / 年少 / 年紀 / 年輕 / 年輕人 / 年轻 / 年轻的 / 年青 / 幼 / 稚 /

कुमारिका
kumārikā
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
कुमारिका
kumārikā
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /

कुमारी
kumārī
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
कुमारी
kumārī
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /

दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /

दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /

दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /

दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /

बाला
bāla
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /

बाला
bāla
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /

少女
shǎo nǚ
कञ्जा
kaññā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /
कञ्जा
kaññā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /

कुमारिका
kumārikā
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
कुमारिका
kumārikā
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /

कुमारी
kumārī
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /

कुमारी
kumārī
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
कुमारी
kumārī
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /

कुमारी
kumārī
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
कुमारी
kumārī
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /

दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /

दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /

दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
दारिका
dārikā
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /

बाला
bāla
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /

बाला
bāla
丫頭 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 /

少年
shǎo nián
कुमार
kumāra
儻 / 好孩子 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
कुमारक
kumāraka
儻 / 好孩子 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
कोमार
komāra
少年 / 年轻的 /
दहर
dahara
儻 / 好孩子 / 少年 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
दारक
dāraka
儻 / 好孩子 / 小孩 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /

少数的
shǎo shù de
अप्पक
appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 褻 /
ईसक
Īsaka
些微地 / 寡 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 有點兒 / 有點小 / 短的 / 稍微 /

少的
shǎo de
अप्प
appa
子 / 小 / 小班 / 小的 / 少 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 褻 /
अप्पक
appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 褻 /
ईसक
Īsaka
些微地 / 寡 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 有點兒 / 有點小 / 短的 / 稍微 /
परित्त
paritta
不足道 / 子 / 小 / 小班 / 小的 / 少的 / 微不足道 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 褻 /

少量
shǎo liàng
अप्प
appa
子 / 小 / 小班 / 小的 / 少 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 褻 /
अप्पक
appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 褻 /
ईसक
Īsaka
些微地 / 寡 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 有點兒 / 有點小 / 短的 / 稍微 /

尖塔
jiān tā
थूपिका
thūpikā
尖塔 / 高峰 /

尖峰
jiān fēng
अग्ग
agga
一次 / 上端 / 下场 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告终 / 在先 / 完结 / 完结 / 尖峰 / 底 / 抢先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 结束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 首 / 首先 /
कूट
kūṭa
上端 / 冈 / 坎 / 尖峰 / 山脊 / 山脊 / 岡 / 峙 / 峰 / 欺騙 / 突起 / 脊 / 脊 / 謊言 / 頂峰 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 高峰 /
पिट्ठि
pitṭhi
上端 / 后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 尖峰 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 走回 / 退后 / 頂端 / 頂端 /

尖牙
jiān yá
दन्त
danta
尖牙 / 牙 / 牙齒 / 牙齿 / 觿 / 芳 / 齒 / 齿 /

尖的
jiān de
तिखिण
tikhīṇa

尖锐
jiān ruì
कटुक
kaṭuka
尖锐 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 激烈 / 犀利的 / 痛苦的 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
खर
khara
伧 / 使勁 / 固 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 痛苦的 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
तिण्ह
tīṇha
尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
तिप्प
tippa
刺骨的 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 急性 / 犀利 / 銳 / 鋒利 / 锐 /

尖锐
jiān ruì
कटुक
kaṭuka
尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 激烈 / 犀利 / 痛苦的 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
खर
khara
伧 / 使勁 / 固 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 痛苦的 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
तिण्ह
tīṇha
尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
तिप्प
tippa
刺骨的 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 急性 / 犀利 / 銳 / 鋒利 / 锐 /

尖锐的
jiān ruì de
कटुक
kaṭuka
尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 激烈 / 犀利 / 痛苦的 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
खर
khara
伧 / 使勁 / 固 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 痛苦的 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
तिण्ह
tīṇha
尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
तिप्प
tippa
刺骨的 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 急性 / 犀利 / 銳 / 鋒利 / 锐 /

尘
chén
धूलि
dhūli
尘 / 埃 / 塵 / 尘 / 沙塵 / 灰塵 / 灰尘 /
पंसु
pamsu
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 土质 / 尘 / 埃 / 塵 / 尘 / 沙塵 / 泥土 / 灰塵 / 灰尘 /

尚
shàng
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 现 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
पन
pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /

尝
cháng
अस्साद
assāda
口味 / 味 / 味兒 / 味道 / 品味 / 品嘗 / 品尝 / 啗 / 嚼 / 嘗 / 尝 / 愉快 / 有味道 / 滋味 / 滿足 / 趣味 /

就
jiù
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथो
atho
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
उपरि
upari
上 / 上述 / 上面 / 之上 / 于 / 以上 / 前述 / 在 / 就 / 最高的 /
तु
tu

不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 现 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

就是
jiù shì
चे
ce
一但 / 倘 / 倘若 / 假 / 假使 / 假如 / 假若 / 好象 / 如果 / 就是 / 是否 / 的話 / 若 / 若是 / 要是 /
就緒
jiù xù
कल्ल
kalla
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 儻 / 准备 / 妙 / 就緒 / 就緒 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /

就绪
jiù xù
कल्ल
kalla
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 儻 / 准备 / 妙 / 就緒 / 就緒 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /

就象
jiù xiàng
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

尺
chǐ
अधिप
adhipa
主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /
अधिपति
adhipati
主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /
ईस
Īsa
尺 / 标尺 / 直尺 / 統治者 / 统治者 /
चरण
carāṇa
尺 / 步行 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 英尺 / 足 / 足部 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 靡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /
पाद
pāda
垒 / 基 / 基地 / 基础 / 基礎 / 壘 / 尺 / 底 / 底座 / 根據地 / 根本 / 胯 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 腿 / 英尺 / 足 / 足部 /

尺寸

chǐ cùn
पमाण
pamāṇa
大小 / 尺寸 / 度量 / 措施 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 量度 /

尾
wěi
नङ्गुडु
naṅguṭṭha
尾 / 尾巴 / 尾巴 / 尾部 / 盯梢 /
पुच्छ
puccha
尾 / 尾巴 / 尾巴 / 尾部 / 盯梢 /

尾巴
wěi bā
नङ्गुडु
naṅguṭṭha
尾 / 尾巴 / 尾巴 / 尾部 / 盯梢 /
नङ्गुडु
naṅguṭṭha
尾 / 尾巴 / 尾巴 / 尾部 / 盯梢 /
पुच्छ
puccha
尾 / 尾巴 / 尾巴 / 尾部 / 盯梢 /
पुच्छ
puccha
尾 / 尾巴 / 尾巴 / 尾部 / 盯梢 /

尾部
wěi bù
नङ्गुडु
naṅguṭṭha
尾 / 尾巴 / 尾巴 / 尾部 / 盯梢 /
पुच्छ
puccha
尾 / 尾巴 / 尾巴 / 尾部 / 盯梢 /
尾隨
wěi suí
कुक्कुर
kukkura
尾隨 / 犬 / 犬类 / 狗 / 狗一樣 / 狗肉 / 賽狗 /

尿
niào
पस्साव
passāva
小便 / 尿 / 溺 /

局外的
jú wài de
तिरो
tiro
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 超出 / 超过 / 門外 /
बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /
बहिद्धा
bahiddhā
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 門外 /

局部
jú bù
अवयव
avayava
一部份 / 份 / 员 / 員 / 局部 / 成員 / 會員 / 股 / 肢 / 要素 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
अंस
aṃsa
一部份 / 份 / 局部 / 擔負 / 股 / 肩 / 肩膀 / 膊 / 膊 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
भाग
bhāga
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 分担 / 局部 / 幫派 / 派 / 派系 / 股 / 股份 / 股票 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

局限
jú xiàn
ओधि
odhi
圻 / 垓 / 埏 / 局限 / 徼 / 极限 / 極限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिमाण
parimāṇa
大小 / 局限 / 幅度 / 度量 / 措施 / 极限 / 極限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 边际 / 量 / 量度 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告终 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 涓 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 结束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

局面
jú miàn
अवद्धान
avaṭṭhāna
位 / 位置 / 地位 / 地位 / 姿 / 姿勢 / 姿态 / 局面 / 身份 / 身分 / 部位 /
आयतन
āyatana
位 / 位置 / 區域 / 地位 / 地位 / 局面 / 球 / 界 / 身份 / 身分 / 部位 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 靡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /

屁股
pì gǔ
आनिसद
ānisada
屁股 / 臀部 /
जघन
jaḡhana
屁股 / 腰部 / 臀部 /
पावळ
pāvaḷa
屁股 / 臀部 /

居
jū
गह
gaha
住宅 / 家 / 居 / 屋 / 屋子 / 屋頂 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
居中
jū zhōng
मज्झ
majjha
中央 / 中央的 / 中心 / 央 / 居中 / 腰 / 腰部 /

居住者
jū zhù zhě
नेवासिक
nevāsika
同住者 / 居住者 / 居民 / 駐 /
居家
jū jiā
आवास
āvāsa
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
उपस्सय
upassaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
गेह
geha
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
घर
ghara
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निकेत
niketa
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
निकेतन
niketana
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 房子 / 房子 / 房屋 / 故鄉 / 老家 /
निलय
nilaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /

屈
qū
कुटिल
kuṭīla
一心 / 不誠實 / 委 / 屈 / 屈曲 / 彎曲 / 歪 /
屈曲
qū qū
कुटिल
kuṭīla
一心 / 不誠實 / 委 / 屈 / 屈曲 / 彎曲 / 歪 /

居民
jū mín
नेवासिक
nevāsika
同住者 / 居住者 / 居民 / 駐 /

屆時
jiè shí
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथो
atho
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

屈
qū
कुटिल
kuṭīla
一心 / 不誠實 / 委 / 屈 / 屈曲 / 彎曲 / 歪 /
屈曲
qū qū
कुटिल
kuṭīla
一心 / 不誠實 / 委 / 屈 / 屈曲 / 彎曲 / 歪 /

屋
wū
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गह
gaha
住宅 / 家 / 居 / 屋 / 屋子 / 屋頂 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गेह
geha
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
घर
ghara
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निलय
nilaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निवेश
nivesa
住宅 / 住所 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 殖民地 / 殖民地 / 舍 / 舍 / 解決 /

屋子
wū zi
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गह
gaha
住宅 / 家 / 居 / 屋 / 屋子 / 屋頂 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गेह
geha
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
घर
ghara
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निकेतन
niketana
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निलय
nilaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निवेश
nivesa
住宅 / 住所 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 殖民地 / 殖民地 / 舍 / 舍 / 解決 /

屋頂
wū dǐng
गह
gaha
住宅 / 家 / 居 / 屋 / 屋子 / 屋頂 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
छदन
chadana
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋頂 / 屋頂 / 幌子 / 房頂 / 摺 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

屋顶
wū dǐng
छदन
chadana
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋頂 / 屋頂 / 幌子 / 房頂 / 摺 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

屎
shǐ
असुचि
asuci
垢 / 大便 / 屎 / 排泄物 / 污 / 污垢 / 泥 / 糝 / 精液 / 糞 /
उच्चार
uccāra
大便 / 屎 / 排泄物 /
屏
píng
आवरण
āvaraṇa
屏 / 屏幕 / 屏風 / 棒 / 銀幕 / 關閉 / 障礙 /
屏幕
píng mù
आवरण
āvaraṇa
屏 / 屏幕 / 屏風 / 棒 / 銀幕 / 關閉 / 障礙 /

屏蔽
píng bì
खेट
khēṭa
包庇 / 屏蔽 / 盾 / 盾牌 /
खेटक
khēṭaka
包庇 / 屏蔽 / 盾 / 盾牌 /

屏風
píng fēng
आवरण
āvaraṇa
屏 / 屏幕 / 屏風 / 棒 / 銀幕 / 關閉 / 障礙 /
属
shǔ
कुटुम्ब
kuṭumba
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 属 / 族 /
कुल
kula
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 宗族 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 家系 / 属 / 族 / 氏族 /

属性
shǔ xìng
धन
dhana
地產 / 属性 / 所有权 / 有道 / 財富 / 財產 / 財富 /
屠夫
tú fū
गोघातक
goghātaka
宰 / 屠夫 / 屠夫 /
गोघातक
goghātaka
宰 / 屠夫 / 屠夫 /

屠殺
tú shā
घात
ghāta
屠殺 / 殺害 / 破壞 /
屯
tún
किच्छ
kiçcha
吃力 / 困难 / 困難 / 屯 / 為難 / 痛苦 / 痛苦的 / 艱 / 艱難 / 蹇 / 难 / 難 / 難以 / 難度 /
गाम
gāma
屯 / 庄 / 村 / 村子 / 村庄 / 莊 /

山
shān
अदि
addi
山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /
गिरि
giri
山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /
नग
naga
山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /
पब्तत
pabbata
山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /

山地
shān de
अदि
addi
山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /
अदि
addi
山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /
गिरि
giri
山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /
नग
naga
山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /
नग
naga
山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /
पब्तत
pabbata
山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /
पब्तत
pabbata
山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /

山洞
shān dòng
गबभर
gabbhara
山洞 / 洞 / 洞穴 / 洞穴 / 窟 /

山羊
shān yáng
अज
aja
山羊 / 山羊座 / 色鬼 /
山羊座
shān yáng zuò
अज
aja
山羊 / 山羊座 / 色鬼 /
山脊
shān jí
कूट
kūṭa
上端 / 冈 / 坎 / 尖峰 / 山脊 / 山脊 / 岡 / 峙 / 峰 / 欺騙 / 突起 / 脊 / 脊 / 謊言 / 頂峰 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 高峰 /
कूट
kūṭa
上端 / 冈 / 坎 / 尖峰 / 山脊 / 山脊 / 岡 / 峙 / 峰 / 欺騙 / 突起 / 脊 / 脊 / 謊言 / 頂峰 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 高峰 /

山路
shān lù
अदि
addi
山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /
गिरि
giri
山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /
नग
naga
山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /
पब्तत
pabbata
山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /
岁入
suì rù
बलि
bali
岁入 / 收入 / 收益 / 稅 / 稅 / 進帳 /

島
dǎo
दीप
dīpa
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 小島 / 島 / 島嶼 / 島 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /

岛屿
dǎo yǔ
दीप
dīpa
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 小島 / 島 / 島嶼 / 島 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /

岡
gāng
कूट
kūṭa
上端 / 冈 / 坎 / 尖峰 / 山脊 / 山脊 / 岡 / 峙 / 峰 / 欺騙 / 突起 / 脊 / 脊 / 謊言 / 頂峰 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 高峰 /

岩
yán
पासाण
pāsāṇa
小石 / 岩 / 岩石 / 巖 / 晃動 / 核 / 石 / 石板 / 石頭 / 磐 / 磐石 /

岩石
yán shí
पासाण
pāsāṇa
小石 / 岩 / 岩石 / 巖 / 晃動 / 核 / 石 / 石板 / 石頭 / 磐 / 磐石 /

岳
yuè
अद्दि
addi
山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /
गिरि
giri
山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /
नग
naga
山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /
पब्बत
pabbata
山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /

岳母
yuè mǔ
अम्बा
ambā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 /
अम्मा
ammā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 /
जनेत्ती
janettī
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 /
जननी
jananī
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 /
जनिका
janikā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 /

岳父
yuè fù
जनक
janaka
公公 / 天父 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /
तात
tāta
儿子 / 兒子 / 公公 / 公子 / 天父 / 女婿 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

岸
àn
तीर
tīra
岸 / 河岸 / 海岸 / 滨 /

岸然
àn rán
गरुक
garuka
岸然 / 惨重 / 沉重 / 沈重的 / 沉重 / 窳 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重大 / 重的 / 重要 / 重要的 / 重重 /

峙
zhì
कूट
kūṭa
上端 / 冈 / 坎 / 尖峰 / 山脊 / 山脊 / 岡 / 峙 / 峰 / 欺騙 / 突起 / 脊 / 脊 / 謊言 / 頂峰 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 高峰 /

峨
é
उळार
uļāra
峨 / 崧 / 嵩 / 杰出 / 矗 / 穹 / 隗 / 高尚 / 高的 / 高貴 /

峰
fēng
कूट
kūṭa
上端 / 冈 / 坎 / 尖峰 / 山脊 / 山脊 / 岡 / 峙 / 峰 / 欺騙 / 突起 / 脊 / 脊 / 謊言 / 頂峰 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 高峰 /

島
dǎo
दीप
dīpa
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 小島 / 島 / 島嶼 / 島 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /

峡谷
xiá gǔ
कुञ्ज
kuñja

崇
chóng
अपचायन
apacāyana
供奉 / 尊敬 / 崇 / 崇拜 / 崇敬 / 拜 / 敬神 / 敬重 / 祭拜 / 禮拜 /

अब्धुन्नत
abbhunnata
升高 / 崇 / 昂 / 杲 / 潼 / 馗 / 高 / 高位 / 高昂 / 高水平 / 高的 /
उच्च
ucca
多高 / 崇 / 昂 / 杲 / 潼 / 馗 / 高 / 高位 / 高大 / 高昂 / 高水平 / 高的 /

तुङ्ग
tuṅga
崇 / 昂 / 杲 / 潼 / 馗 / 高 / 高位 / 高昂 / 高水平 / 高的 /
नमस्सन
namassana
供奉 / 尊敬 / 崇 / 崇拜 / 崇敬 / 拜 / 敬神 / 祭拜 / 禮拜 /

崇拜
chóng bài
अपचायन
apacāyana
供奉 / 尊敬 / 崇 / 崇拜 / 崇敬 / 拜 / 敬神 / 敬重 / 祭拜 / 禮拜 /
आहुण
āhuṇa
供奉 / 崇拜 /
नमस्सन
namassana
供奉 / 尊敬 / 崇 / 崇拜 / 崇敬 / 拜 / 敬神 / 祭拜 / 禮拜 /

पणाम
paṇāma
崇拜 / 鞠躬 /
पणिपात
pañipāta

峽谷
xiá gǔ
कुञ्ज
kuñja

崇敬
chóng jìng
अच्चना
accanā
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 祭品 / 翊 / 荣誉 /

अपचायन
apacāyana
供奉 / 尊敬 / 崇 / 崇拜 / 崇敬 / 拜 / 敬神 / 敬重 / 祭拜 / 禮拜 /
गारव
gārava
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 翊 /
चित्तीकार
cittīkāra
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 翊 / 考慮 /

नमस्सन
namassana
供奉 / 尊敬 / 崇 / 崇拜 / 崇敬 / 拜 / 敬神 / 祭拜 / 禮拜 /
पच्चुद्दान
paccuṭṭhāna
尊敬 / 崇敬 /
पटिपूजना
paṭipūjanā
尊敬 / 崇敬 / 敬意 / 荣誉 /

崖
yá
पपात
papāta

崗位
gǎng wèi
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 靡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /

崛起
jué qǐ
उगम
uggama
上升 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 崛起 / 攀升 / 涨 / 漲 / 益 / 興起 / 茁 /

उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 涨 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /
उदयन
udayana
上升 / 崛起 / 涨 / 漲 / 興起 /

崧
sōng
उळार
uļāra
峨 / 崧 / 嵩 / 杰出 / 矗 / 穹 / 隗 / 高尚 / 高的 / 高貴 /

崩潰
bēng kuì
पलुज्जन
palujjana

嵩
sōng
उळार
uļāra
峨 / 崧 / 嵩 / 杰出 / 矗 / 穹 / 隗 / 高尚 / 高的 / 高貴 /

गान
gāna
唱歌 / 嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌唱 / 歌曲 / 歌曲 / 歌聲 / 頌 /
गीत
gīta
唱歌 / 嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌唱 / 歌曲 / 歌曲 / 歌聲 / 頌 /

गीतिका
gītikā
嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌曲 / 歌曲 / 頌 /

嶽
yuè
अद्दि
addi

山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /
गिरि
giri
山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /
नग
naga
山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /
पब्बत
pabbata
山 / 山地 / 山地 / 山路 / 岳 / 嶽 /

巖
yán
पासाण
pāsāṇa
小石 / 岩 / 岩石 / 巖 / 晃動 / 核 / 石 / 石板 / 石頭 / 磐 / 磐石 /

川
chuān
आपगा
āpagā
川 / 水系 / 江 / 河 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 /
गङ्गा
gaṅgā
川 / 水系 / 江 / 河 / 河口 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 / 流 /
नदी
nadī
川 / 水系 / 江 / 河 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 /

巡夜者
xún yè zhě
आरक्षक
ārakkhaka
守卫 / 守衛 / 守護 / 巡夜者 / 把守 / 看守 / 看守人 / 衛 / 門衛 /
गोपक
gopaka
巡夜者 / 看守人 /

巢

चौ
cháo
कुलावक
kulāvaka
巢 / 窩 / 窠 / 窩 / 蔴 / 鳥巢 /
निड्ड
niḍḍa
巢 / 窩 / 窠 / 窩 / 蔴 / 鳥巢 /

工

गोंग
gōng
कम्म
kamma
事 / 作用 / 做事 / 券 / 動作 / 勞工 / 在職 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 業 / 活兒 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 行動 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
कम्मन्त
kammanta
事 / 事情 / 做事 / 務 / 在職 / 工 / 工作 / 工匠 / 工夫 / 工夫 / 职业 / 職業 / 著作 / 著作 / 起作用 / 辦事 /
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

工作

गोंग जुओ
gōng zuò
कम्म
kamma
事 / 作用 / 做事 / 券 / 動作 / 勞工 / 在職 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 業 / 活兒 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 行動 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
कम्मन्त
kammanta
事 / 事情 / 做事 / 務 / 在職 / 工 / 工作 / 工匠 / 工夫 / 工夫 / 职业 / 職業 / 著作 / 著作 / 起作用 / 辦事 /
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

工具
gōng jù
उपकरण
upakaraṇa
乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 必需品 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
工匠
गोंग जिअंग
gōng jiàng
कम्मन्त
kammanta
事 / 事情 / 做事 / 務 / 在職 / 工 / 工作 / 工匠 / 工夫 / 工夫 / 职业 / 職業 / 著作 / 著作 / 起作用 / 辦事 /
工场
गोंग चंग
gōng chǎng
गच्छ
gaccha
事业 / 厂 / 工场 / 廠 / 株 / 栽 / 植 / 植物 /

工夫

गोंग फु
gōng fu
कम्म
kamma
事 / 作用 / 做事 / 券 / 動作 / 勞工 / 在職 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 業 / 活兒 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 行動 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
कम्मन्त
kammanta
事 / 事情 / 做事 / 務 / 在職 / 工 / 工作 / 工匠 / 工夫 / 工夫 / 职业 / 職業 / 著作 / 著作 / 起作用 / 辦事 /
कम्म
kamma
事 / 作用 / 做事 / 券 / 動作 / 勞工 / 在職 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 業 / 活兒 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 行動 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
कम्मन्त
kammanta
事 / 事情 / 做事 / 務 / 在職 / 工 / 工作 / 工匠 / 工夫 / 工夫 / 职业 / 職業 / 著作 / 著作 / 起作用 / 辦事 /
कम्मन्त
kammanta
事 / 事情 / 做事 / 務 / 在職 / 工 / 工作 / 工匠 / 工夫 / 工夫 / 职业 / 職業 / 著作 / 著作 / 起作用 / 辦事 /
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

工業
gōng yè
उद्दान
uṭṭhāna
上升 / 业 / 來歷 / 出身 / 原点 / 始源 / 工業 / 本源 / 来历 / 根源 / 業 / 活力 / 由来 / 精力 / 能源 / 能量 / 血统 / 行業 / 起源 / 高能 /
工資
गोंग जी
गिब्बि
nibbisa
信任的 / 厭惡 / 工資 / 疲倦 / 疲勞 / 相似的 /

左右

जुओ युओ
zuǒ yòu
आरब्ध
ārabbha
一下 / 即將 / 大約 / 大约 / 左右 / 快要 / 走進 / 關於 /
左舷的
जुओ खान दे
pḍḍan
paṭṭana
口岸 / 埠 / 左舷的 / 港口 / 端口 / 避难所 /
巧妙
qiao miao
कल्ल
kalla
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 僬 / 准备 / 妙 / 就绪 / 就绪 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聪 / 聪明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /
छेक
cheka
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙的 / 聪 / 聪明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /
दक्ख
dakkha
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俏 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 棒 / 精明 / 聪 / 聪明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 / 麻利 /
पटु
paṭu
乖 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聪 / 聪明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /

巨

巨
jù
अतिमहन्त
atimahanta
巨 / 巨大 / 巨大的 / 庞 / 庞大 / 庞大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 / 過大 / 鉅 / 龐 / 龐大 /
巨人
जु रेन
jù rén
दानव
dānava
巨人般的
जु रेन बान दे
ब्रहन्त
brahanta
巨人般的 / 巨大 / 巨大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 /

कल्ल
kalla
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 僬 / 准备 / 妙 / 就绪 / 就绪 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聪 / 聪明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /
छेक
cheka
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聪 / 聪明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /
दक्ख
dakkha
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俏 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 棒 / 精明 / 聪 / 聪明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 / 麻利 /
पटु
paṭu
乖 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聪 / 聪明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /

巨大
jù dà
अतिमहन्त
atimahanta
巨 / 巨大 / 巨大的 / 庞 / 庞大 / 庞大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 / 過大 / 鉅 / 龐 / 龐大 /
ब्रहन्त
brahanta
巨人般的 / 巨大 / 巨大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 /

巨大的
jù dà de
अतिमहन्त
atimahanta
巨 / 巨大 / 巨大的 / 庞 / 庞大 / 庞大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 / 過大 / 鉅 / 龐 / 龐大 /
ब्रहन्त
brahanta
巨人般的 / 巨大 / 巨大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 /

巧妙的
qiǎo miào de
कल्ल
kalla
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 僬 / 准备 / 妙 / 就绪 / 就绪 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聪 / 聪明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /
छेक
cheka
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聪 / 聪明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /
दक्ख
dakkha
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俏 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 棒 / 精明 / 聪 / 聪明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 / 麻利 /
पटु
paṭu
乖 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聪 / 聪明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /

巨
jù
अतिमहन्त
atimahanta
巨 / 巨大 / 巨大的 / 庞 / 庞大 / 庞大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 / 過大 / 鉅 / 龐 / 龐大 /
巨人
जु रेन
jù rén
दानव
dānava
巨人般的
जु रेन बान दे
ब्रहन्त
brahanta
巨人般的 / 巨大 / 巨大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 /

巨大
jù dà
अतिमहन्त
atimahanta
巨 / 巨大 / 巨大的 / 庞 / 庞大 / 庞大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 / 過大 / 鉅 / 龐 / 龐大 /
ब्रहन्त
brahanta
巨人般的 / 巨大 / 巨大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 /

巨大的
jù dà de
अतिमहन्त
atimahanta
巨 / 巨大 / 巨大的 / 庞 / 庞大 / 庞大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 / 過大 / 鉅 / 龐 / 龐大 /
ब्रहन्त
brahanta
巨人般的 / 巨大 / 巨大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 /

巨大的
jù dà de
अतिमहन्त
atimahanta
巨 / 巨大 / 巨大的 / 庞 / 庞大 / 庞大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 / 過大 / 鉅 / 龐 / 龐大 /
ब्रहन्त
brahanta
巨人般的 / 巨大 / 巨大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 /

巨擘
jù bò
अङ्गुठु
aṅguttḥa
大拇指 / 巨擘 / 拇 / 拇 / 拇指 / 拇指 / 擘 /

巨浪

जु लंग
jù làng
कल्लोल
kallola
差不多
चा हु दुओ
उपन्तिक
upantika
几乎 / 差不多 / 差不多 / 沆 / 近 / 近乎 / 近乎 / 鄰近 / 靠近 /
उपन्तिक
upantika
几乎 / 差不多 / 差不多 / 沆 / 近 / 近乎 / 近乎 / 鄰近 / 靠近 /

已

यी
yǐ
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथो
atho
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

已故的

यी गु दे
yǐ gù de
पेत
peta
人世 / 已故的 / 幽灵 / 幽靈 / 死 / 死了 / 死去 / 死寂 / 死的 / 過世 / 鬼 / 鬼魂 /

巴掌
bā zhǎng
कर
kara
一手 / 伸手 / 光線 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 指甲 / 稅 / 稅 / 笔迹 /
कर
kara
一手 / 伸手 / 光線 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 指甲 / 稅 / 稅 / 笔迹 /
पाणि
pāṇi
一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 掌 / 掌心 / 棕 / 笔迹 /
पाणि
pāṇi
一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手臂 / 手臂 / 手邊 / 手頭 / 笔迹 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /
भुज
bhuja
一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手臂 / 手臂 / 手邊 / 手頭 / 笔迹 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /

巾
jīn
पुंछनी
puñchanī
巾 / 手巾 / 毛巾 /

市
shì
आपण
āpaṇa
商場 / 市 / 市场 / 市場 / 市集 / 肆 / 销售 / 集市 /
नगर
nagara
城 / 城區 / 城堡 / 城市 / 城裡 / 城鎮 / 城镇 / 小鎮 / 市 / 市府 / 市立 / 要塞 / 要塞 / 進城 / 都市 / 都會 / 鎮 / 镇 /

市场
shì chǎng
आपण
āpaṇa
商場 / 市 / 市场 / 市場 / 市集 / 肆 / 销售 / 集市 /

市場
shì chǎng
आपण
āpaṇa
商場 / 市 / 市场 / 市場 / 市集 / 肆 / 销售 / 集市 /

市府
shì fǔ
नगर
nagara
城 / 城區 / 城堡 / 城市 / 城裡 / 城鎮 / 城镇 / 小鎮 / 市 / 市府 / 市立 / 要塞 / 要塞 / 進城 / 都市 / 都會 / 鎮 / 镇 /

市民
shì mǐn
नागर
nāgara
公民 / 市民 /

市立
shì lì
नगर
nagara
城 / 城區 / 城堡 / 城市 / 城裡 / 城鎮 / 城镇 / 小鎮 / 市 / 市府 / 市立 / 要塞 / 要塞 / 進城 / 都市 / 都會 / 鎮 / 镇 /

市集
shì jí
आपण
āpaṇa
商場 / 市 / 市场 / 市場 / 市集 / 肆 / 销售 / 集市 /

布
bù
अम्बर
ambara
佈 / 天 / 天界 / 天空 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 雲霄 /
चेल
cela
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 衣服 /
चोळ
coḷa
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 /
चोळक
coḷaka
दुस्स
dussa
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 衣服 /
पट
paṭa
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 衣服 /

布帛菽粟
bù bó shū sù
अम्बर
ambara
佈 / 天 / 天界 / 天空 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 雲霄 /
चेल
cela
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 衣服 /
चोळ
coḷa
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 /
दुस्स
dussa
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 衣服 /
पट
paṭa
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 衣服 /

布料
bù liào
अम्बर
ambara
佈 / 天 / 天界 / 天空 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 雲霄 /
अंसु
aṃsu
चेल
cela
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 衣服 /
चोळ
coḷa
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 /
चोळक
coḷaka
दुस्स
dussa
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 衣服 /
पट
paṭa
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 衣服 /

布朗
bù lǎng
तम्ब
tamba
布朗 / 成褐色 / 棕色 / 茶色 / 褐 / 褐色 / 銅 / 銅板 / 铜 /
पिङ्गल
piṅgala
布朗 / 成褐色 / 棕色 / 茶色 / 褐 / 褐色 /

布赖特
bù lài tè
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 鐳 /

师傅
shī fu
अधिप
adhipa
主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /
अधिपति
adhipati
主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /
अय्य
ayya
主 / 主人 / 君子 / 大師 / 好手 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 法師 / 紳士 / 統治者 / 老爺 / 領主 /
इस्सर
issara
主 / 主人 / 创造者 / 大師 / 好手 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 統治者 / 老爺 / 造物主 / 領主 /
पति
pati
丈夫 / 丈夫 / 主 / 主人 / 伉 / 回 / 外子 / 大師 / 夫 / 夫 / 好手 / 婿 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 相反 / 統治者 / 老公 / 老爺 / 逆 / 領主 /

希
xī
अपेक्खन
apekkhana
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /
अभिकइखन
abhikañkhana
希 / 希望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 渴望 /
अभिकइिखत
abhikañkhita
希 / 希望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 渴望 /
आसा
āsā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
आसिसना
āsimsanā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /

希望
xī wàng
अपेक्खन
apekkhana
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /
अभिकइखन
abhikañkhana
希 / 希望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 渴望 /
अभिकइिखत
abhikañkhita
希 / 希望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 渴望 /
अभिरुचि
abhiruci
希望 / 渴望 /
अभिलासा
abhilāsā
希望 / 愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
आसा
āsā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
आसिसना
āsimsanā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
इच्छन
icchana
希望 / 愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
खन्ति
khanti
宽容 / 宽恕 / 希望 / 忍耐 / 特赦 / 耐力 / 耐心 / 耐性 / 赦免 / 饒恕 /

帜
zhì
केतु
ketu
帜 / 幡 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 旗幟 /
धज
dhaja
帜 / 幡 / 徽 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 符 / 符號 / 象征 / 象徵 /
पताका
patākā
帜 / 幡 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 旗幟 /

師傅
shī fu
अधिप
adhipa
主／主人／君主／大師／好手／尺／師傅／師傅／師父／标尺／法師／直尺／統治者／統治者／老爺／領主／
अधिपति
adhipati
主／主人／君主／大師／好手／尺／師傅／師傅／師父／标尺／法師／直尺／統治者／統治者／老爺／領主／
अय्य
ayya
主／主人／君子／大師／好手／師傅／師傅／師父／法師／紳士／統治者／老爺／領主／
इस्सर
issara
主／主人／創造者／大師／好手／師傅／師傅／師父／所有者／業主／法師／物主／統治者／老爺／造物主／領主／
पति
pati
丈夫／丈夫／主／主人／伉／回／外子／大師／夫／夫／好手／婿／師傅／師傅／師父／所有者／業主／法師／物主／相反／統治者／老公／老爺／逆／領主／

師父
shī fu
अधिप
adhipa
主／主人／君主／大師／好手／尺／師傅／師傅／師父／标尺／法師／直尺／統治者／統治者／老爺／領主／
अधिपति
adhipati
主／主人／君主／大師／好手／尺／師傅／師傅／師父／标尺／法師／直尺／統治者／統治者／老爺／領主／
अय्य
ayya
主／主人／君子／大師／好手／師傅／師傅／師父／法師／紳士／統治者／老爺／領主／
इस्सर
issara
主／主人／創造者／大師／好手／師傅／師傅／師父／所有者／業主／法師／物主／統治者／老爺／造物主／領主／
पति
pati
丈夫／丈夫／主／主人／伉／回／外子／大師／夫／夫／好手／婿／師傅／師傅／師父／所有者／業主／法師／物主／相反／統治者／老公／老爺／逆／領主／

師資
shī zī
अज्झायक
ajjhāyaka
師資／教師／老师／老師／
आचेर
ācera
師資／教師／老师／老師／
आचरिय
ācariya
師資／教師／老／老师／老師／
गरु
garu
值得尊敬的／可敬的／導師／師資／慘重／教師／沈重／沈重的／沉重／笨重／繁重／老师／老師／重型／重的／重重／
गुरु
guru
師資／慘重／教師／沈重／沈重的／沉重／笨重／繁重／老师／老師／重型／重的／重重／

席
xí
आसन
āsana
位／位子／位置／后座／席／座／座位／座椅／
ठान
thāna
任／任職／位／位子／位置／停留／到位／办公室／动机／原因／去處／呆／因／因素／地／地／地位／地位／地方／地点／場所／处／处／安放／寄予／席／廡／引起／待／情理／所／故／款／理／理性／理由／環境／由／留／留下／緣故／署／职／職／處／衙／身份／辦公／辦公室／逗留／道理／部位／
निसीदन
niśīdana
位／位子／位置／后座／席／座／座位／座椅／
पद
pada
一句話／任／位／位子／位置／刊登／到位／办公室／动机／原因／去處／因／因素／地／地／地位／地位／地方／地方／地点／基地／基地／基础／場所／安放／寄予／尺／局面／崗位／席／底／廡／引起／情理／所／故／根本／理／理性／理由／由／緣故／署／職／職位／脚／腳／腳步／腳踏／英尺／衙／足／足部／身份／身分／道理／郵件／郵政／部位／
पदेस
padesa
交椅／位／位子／位置／到位／區域／去處／地／地／地位／地位／地方／地方／地点／地點／場所／安放／定位／寄予／席／所／所在地／所在地／斑／斑點／身份／部位／
पीठ
pīṭha
中／位／位子／位置／后座／席／座／座位／座椅／椅／椅子／

帮
bāng
अनुग्गणहन
anuggaṇhana
助／協助／壁助／好意／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／救助／救命／救援／有助／
अनुबल
anubala
刺激／助／協助／壁助／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／救助／救命／救援／有助／激励／
अवलम्बन
avalambana
助／協助／壁助／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／救助／救命／救援／有助／
अवस्सय
avassaya
供養／助／協助／壁助／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
आलम्ब

आलम्ब
ālamba
供養／助／協助／壁助／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
उपकरण
upakaraṇa
乐器／仪／供養／儀／儀器／具／助／協助／器具／器械／壁助／工具／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／帮忙／必需品／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
उपकार
upakāra
供養／助／助手／協助／壁助／好意／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
दीप
dīpa
供養／助／協助／壁助／小島／島／島嶼／島／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／洲／燈／
पटिसरण
paṭisarāṇa
保护／保護／助／協助／壁助／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶／扶助／撐／撐腰／扶／扶助／救助／救命／救援／有助／
पतिट्ठा
patitṭhā
供養／助／協助／壁助／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／

帮助
bāng zhù
अनुग्गणहन
anuggaṇhana
助／協助／壁助／好意／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／救助／救命／救援／有助／
अनुबल
anubala
刺激／助／協助／壁助／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／救助／救命／救援／有助／激励／
अवलम्बन
avalambana
助／協助／壁助／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／救助／救命／救援／有助／
अवस्सय
avassaya
供養／助／協助／壁助／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
आलम्ब

आलम्ब
ālamba
供養／助／協助／壁助／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
उपकरण
upakaraṇa
乐器／仪／供養／儀／儀器／具／助／協助／器具／器械／壁助／工具／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／帮忙／必需品／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
उपकार
upakāra
供養／助／助手／協助／壁助／好意／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
दीप
dīpa
供養／助／協助／壁助／小島／島／島嶼／島／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／洲／燈／
पटिसरण
paṭisarāṇa
保护／保護／助／協助／壁助／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶／扶助／撐／撐腰／扶／扶助／救助／救命／救援／有助／
पतिट्ठा
patitṭhā
供養／助／協助／壁助／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／

帮忙
bāng máng
अनुग्गणहन
anuggaṇhana
助／協助／壁助／好意／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／救助／救命／救援／有助／
अनुबल
anubala
刺激／助／協助／壁助／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／救助／救命／救援／有助／激励／
अवलम्बन
avalambana
助／協助／壁助／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／救助／救命／救援／有助／
अवस्सय
avassaya
供養／助／協助／壁助／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
आलम्ब
ālamba
供養／助／協助／壁助／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
उपकरण
upakaraṇa
乐器／仪／供養／儀／儀器／具／助／協助／器具／器械／壁助／工具／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／帮忙／必需品／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
उपकार
upakāra
供養／助／助手／協助／壁助／好意／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
दीप
dīpa
供養／助／協助／壁助／小島／島／島嶼／島／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／洲／燈／
पटिसरण
paṭisarāṇa
保护／保護／助／協助／壁助／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶／扶助／撐／撐腰／扶／扶助／救助／救命／救援／有助／
पतिट्ठा
patitṭhā
供養／助／協助／壁助／帮／帮助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／

帶回
dài huí
पिठ्ठ
piṭṭha
后面／向后／回／回頭／帶回／手背／拿回／椅背／背影／背部／背面／表面／走回／退后／面／麵／
पिट्ठि
piṭṭhi
上端／后面／向后／回／回頭／尖峰／帶回／手背／拿回／椅背／背影／背部／背面／走回／退后／頂端／頂端／

常
cháng
अभिपहं
abhiṇham
不時／常／常常／往往／时常／時常／每每／經常／
अभिपहसो
abhiṇhaso
一向／一律／从来／再三地／历来／向來／始終／始終／常／從來／总是／永／總／總是／總能／老是／
निबद्धं
nibaddham
一向／一律／从来／历来／向來／始終／始終／常／從來／总是／永／總是／總能／老是／

常任

चंग रें
धुव
dhuva
常任／常设的／恒／永久／永久的／

常常

चंग चंग
अभिपहं
abhiṇham
不時／常／常常／往往／时常／時常／每每／經常／
भुस
bhusa
外殼／常常／很多／非常地／頻繁／

常设的

चंग शें दे
धुव
dhuva
常任／常设的／恒／永久／永久的／

幕
mì
आधिपच्च
āधिpacca
幕／力／力量／功／功率／功率／势力／動力／大權／威／威力／幕／強國／強权／控制／斷電／權力／统治／
आधिपतेय्य
ādhipateyya
幕／力／力量／功／功率／功率／势力／動力／大權／威／威力／幕／強國／強权／斷電／權力／
आनुभाव
ānubhāva
幕／力／力量／功／功率／功率／势力／動力／大权／大權／威／威力／幕／強國／強权／斷電／权力／權力／
तेज
teja
光榮／光芒／光輝／幕／力／力量／功／功率／功率／势力／動力／大权／大權／威／威力／幕／強國／強权／斷電／权力／榮／榮耀／權力／熱／榮／
थाम
thāma
幕／力／力气／力氣／力量／功／功率／功率／势力／動力／大权／大權／威／威力／实力／幕／強國／強权／斷電／有力的／权力／權力／活力／能力／
बल
bala
军／军队／幕／力／力气／力氣／力量／功／功率／功率／势力／動力／勢力／大权／大權／大群／大軍／威／威力／实力／幕／強國／強权／斷電／权力／權力／武力／精力／能力／要塞／軍隊／逼／逼迫／部队／陸軍／

幅度

फु दुु
परिमाण
parimāṇa
大小／局限／幅度／度量／措施／极限／極限／測／測量／測／測量／衡／衡量／边际／量／量度／限／限制／限定／限度／

幌子
huǎng zi
अपिधान
apidhāna
包含／包庇／包罗／套／套子／封皮／幌子／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／盖／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／
छदन
chadana
包含／包庇／包罗／套／套子／封皮／屋頂／屋顶／幌子／房頂／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／盖／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／
पच्चत्थरण
paccattharaṇa
包含／包庇／包罗／套／套子／封皮／幌子／床單／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／盖／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／
पच्छाद
pacchāda
包含／包庇／包罗／套／套子／封皮／幌子／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／盖／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／
पापुरण
pāpuraṇa
包含／包庇／包罗／套／套子／封皮／幌子／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／毛毯／盖／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／
पिधान
pidhāna
包含／包庇／包罗／套／套子／封皮／幌子／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／盖／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／

幡

fān
केतु
ketu
帜／幡／旂／旌／旗／旗子／旗帜／旗幟／
धज
dhaja
帜／幡／徽／旂／旌／旗／旗子／旗帜／符／符號／象征／象徽／
पताका
patākā
帜／幡／旂／旌／旗／旗子／旗帜／旗幟／

幫
bāng
अनुगणहन
anuggaṇhana
助／協助／壁助／好意／幫／幫助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／救助／救命／救援／有助／
अनुबल
anubala
刺激／助／協助／壁助／幫／幫助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／救助／救命／救援／有助／激励／
अवलम्बन
avalambana
助／協助／壁助／幫／幫助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／救助／救命／救援／有助／激励／
अवस्सय
avassaya
供養／助／協助／壁助／幫／幫助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
आलम्ब
ālamba
供養／助／協助／壁助／幫／幫助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
उपकरण
upakaraṇa
乐器／仪／供養／儀／儀器／具／助／協助／器具／器械／壁助／工具／幫／幫助／帮忙／幫／幫助／帮忙／必需品／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
उपकार
upakāra
供養／助／助手／協助／壁助／好意／幫／幫助／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
दीप
dīpa
供養／助／協助／壁助／小島／島／島嶼／島／幫／幫助／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／洲／燈／
पटिसरण
paṭisarāṇa
保护／保護／助／協助／壁助／幫／幫助／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶／扶助／救助／救命／救援／有助／
पतिट्ठा
patitṭhā
供養／助／協助／壁助／幫／幫助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／

幫助
bāng zhù
अनुगणहन
anuggaṇhana
助／協助／壁助／好意／幫／幫助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／救助／救命／救援／有助／
अनुबल
anubala
刺激／助／協助／壁助／幫／幫助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／救助／救命／救援／有助／激励／
अवलम्बन
avalambana
助／協助／壁助／幫／幫助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／救助／救命／救援／有助／激励／
अवस्सय
avassaya
供養／助／協助／壁助／幫／幫助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
आलम्ब
ālamba
供養／助／協助／壁助／幫／幫助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
उपकरण
upakaraṇa
乐器／仪／供養／儀／儀器／具／助／協助／器具／器械／壁助／工具／幫／幫助／帮忙／幫／幫助／帮忙／必需品／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
उपकार
upakāra
供養／助／助手／協助／壁助／好意／幫／幫助／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／
दीप
dīpa
供養／助／協助／壁助／小島／島／島嶼／島／幫／幫助／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／洲／燈／
पटिसरण
paṭisarāṇa
保护／保護／助／協助／壁助／幫／幫助／帮忙／幫／幫助／帮忙／扶／扶助／救助／救命／救援／有助／
पतिट्ठा
patitṭhā
供養／助／協助／壁助／幫／幫助／帮忙／幫／幫助／幫忙／扶／扶助／撐／撐腰／撐／支持／支援／支撐／救助／救命／救援／有助／

幫忙
bāng máng
अनुगमहन
anuggaṇhana
助 / 協助 / 壁助 / 好意 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
अनुबल
anubala
刺激 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 激励 /
अवलम्बन
avalambana
助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
अवस्सय
avassaya
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
आलम्ब
ālamba
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
उपकरण
upakaraṇa
乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 必需品 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
उपकार
upakāra
供養 / 助 / 助手 / 協助 / 壁助 / 好意 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
दीप
dīpa
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 小島 / 島 / 島嶼 / 島 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /
पटिसरण
paṭisarāṇa
保护 / 保護 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
पतिट्ठा
patitṭhā
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

幫派
bāng pài
पक्ख
pakkha
一方 / 侧 / 信徒 / 側 / 党 / 半邊 / 幫派 / 旁边 / 旁邊 / 派 / 派對 / 派系 / 當事人 / 羽翼 / 翅 / 翅膀 / 翼 / 跛子 / 边 / 黨 /
भाग
bhāga
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 分担 / 局部 / 幫派 / 派 / 派系 / 股 / 股份 / 股票 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

平均的
píng jūn de
मज्झिम
majjhima
中央的 / 中等 / 中部的 / 媒 / 媒介 / 媒介 / 媒质 / 平均的 /
平板
píng bǎn
पट्ट
paṭṭa
叶 / 平板 / 床单 / 片 / 箔 / 繃帶 / 绷带 / 羽毛 / 葉 / 葉子 / 薄片 / 页 /
पट्टक
paṭṭaka
平板 / 薄片 /

平衡
píng héng
तुला
tulā
天平 / 平衡 / 椽 / 秤 /
平铺
píng pū
इडका
iṭṭhaka
平铺 / 瓦片 / 瓷砖 /
इड्डिका
iṭṭhikā
平铺 / 瓦片 / 瓷砖 /

平靜
píng jìng
अविक्खेप
avikkhepa
पस्सद्धि
passaddhi
寧靜 / 平靜 /
पस्सम्भना
passambhanā

平面
píng miàn
तल
tala
基礎 / 平面 /
भूमि
bhūmi
上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /

年代
nián dài
आयु
āyu
代 / 壽命 / 年代 / 年岁 / 年纪 / 年老 / 年齡 / 年齡 / 时代 / 歲數 / 變老 / 齡 /
年少
nián shǎo
तरुण
taruṇa
仔 / 少 / 年少 / 年紀 / 年輕 / 年輕人 / 年轻 / 年轻的 / 年青 / 幼 / 稚 /

年岁
nián suì
आयु
āyu
代 / 壽命 / 年代 / 年岁 / 年纪 / 年老 / 年齡 / 年齡 / 时代 / 歲數 / 變老 / 齡 /

年紀
nián jì
तरुण
taruṇa
仔 / 少 / 年少 / 年紀 / 年輕 / 年輕人 / 年轻 / 年轻的 / 年青 / 幼 / 稚 /

年纪
nián jì
आयु
āyu
代 / 壽命 / 年代 / 年岁 / 年纪 / 年老 / 年齡 / 年齡 / 时代 / 歲數 / 變老 / 齡 /

年老
nián lǎo
आयु
āyu
代 / 壽命 / 年代 / 年岁 / 年纪 / 年老 / 年齡 / 年齡 / 时代 / 歲數 / 變老 / 齡 /
बु
buḍḍha

估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情報 / 情报 / 旄 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 穹 / 精神 / 老 / 老的 / 耄 / 舊 / 舊的 /
--

taruṇa
仔 / 少 / 年少 / 年紀 / 年輕 / 年輕人 / 年轻 / 年轻的 / 年青 / 幼 / 稚 /

估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情報 / 情报 / 旄 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 穹 / 精神 / 老 / 老的 / 耄 / 舊 / 舊的 /
--

年老的
nián lǎo de
जज्जर
jajjara
估 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /
जर
jara
估 / 发烧 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 热病 / 熱病 / 發燒 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 / 衰老的 /
पुराण
purāṇa
估 / 先前的 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /

बु
buḍḍha
估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情報 / 情报 / 旄 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 穹 / 精神 / 老 / 老的 / 耄 / 舊 / 舊的 /

年輕
nián qīng
तरुण
taruṇa
仔 / 少 / 年少 / 年紀 / 年輕 / 年輕人 / 年轻 / 年轻的 / 年青 / 幼 / 稚 /

年輕人
nián qīng rén
तरुण
taruṇa
仔 / 少 / 年少 / 年紀 / 年輕 / 年輕人 / 年轻 / 年轻的 / 年青 / 幼 / 稚 /

年轻
nián qīng
तरुण
taruṇa
仔 / 少 / 年少 / 年紀 / 年輕 / 年輕人 / 年轻 / 年轻的 / 年青 / 幼 / 稚 /

年轻的
nián qīng de
कोमार
komāra
少年 / 年轻的 /
तरुण
taruṇa
仔 / 少 / 年少 / 年紀 / 年輕 / 年輕人 / 年轻 / 年轻的 / 年青 / 幼 / 稚 /

估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情報 / 情报 / 旄 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 穹 / 精神 / 老 / 老的 / 耄 / 舊 / 舊的 /
--

年迈
nián mài
जज्जर
jajjara
估 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /
जर
jara
估 / 发烧 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 热病 / 熱病 / 發燒 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 / 衰老的 /
पुराण
purāṇa
估 / 先前的 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /

बु
buḍḍha
估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情報 / 情报 / 旄 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 穹 / 精神 / 老 / 老的 / 耄 / 舊 / 舊的 /

年青
nián qīng
तरुण
taruṇa
仔 / 少 / 年少 / 年紀 / 年輕 / 年輕人 / 年轻 / 年轻的 / 年青 / 幼 / 稚 /

年青人
nián qīng rén
कुमार
kumāra
僮 / 好孩子 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
कुमारक
kumāraka
僮 / 好孩子 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /

कुमारक
kumāraka
僮 / 好孩子 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
दारक
dāraka
僮 / 好孩子 / 小孩 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /

年齡
nián líng
आयु
āyu
代 / 壽命 / 年代 / 年岁 / 年纪 / 年老 / 年齡 / 年齡 / 时代 / 歲數 / 變老 / 齡 /

年齡
nián líng
आयु
āyu
代 / 壽命 / 年代 / 年岁 / 年纪 / 年老 / 年齡 / 年齡 / 时代 / 歲數 / 變老 / 齡 /

并	幼年
bìng	yòu nián
अपि	बाल्य
api	bālyā
与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 既使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /	小時候 / 幼年 / 幼年时代 / 愚蠢 / 童年 / 自小 / 自幼 / 蠢事 /
च	幼年时代
ca	yòu nián shí dài
与 / 且 / 並 / 並且 / 也 / 以及 / 併 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 和 / 太 / 并 / 并且 / 暨 / 汰 / 而 / 而且 / 與 /	बाल्य
पन	bālyā
pana	小時候 / 幼年 / 幼年时代 / 愚蠢 / 童年 / 自小 / 自幼 / 蠢事 /
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /	幼苗

并且	यौ मीओ
bìng qiě	अङ्कुर
अपि	अङ्कुरा
api	अङ्कुरा
与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 既使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /	幽暗
च	yōu àn
ca	तम
与 / 且 / 並 / 並且 / 也 / 以及 / 併 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 和 / 太 / 并 / 并且 / 暨 / 汰 / 而 / 而且 / 與 /	tama
पन	不知 / 幽暗 / 无知 / 無知 / 黑 / 黑暗 /
pana	तिमिर
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /	timira
幻想	烏 / 冥 / 幽暗 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 曠 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /

幻想	यौ लिंग
huàn xiǎng	पेत
पपञ्च	peta
papañca	人世 / 已故的 / 幽灵 / 幽靈 / 死 / 死了 / 死去 / 死寂 / 死的 / 過世 / 鬼 / 鬼魂 /
妄想 / 妨礙 / 幻想 / 障礙 / 障礙 /	幽靈

幼	यौ लिंग
yòu	आसव
तरुण	āsava
taruṇa	पेत
仔 / 少 / 年少 / 年紀 / 年輕 / 年輕人 / 年轻 / 年轻的 / 年青 / 幼 / 稚 /	peta
पुल्ल	人世 / 已故的 / 幽灵 / 幽靈 / 死 / 死了 / 死去 / 死寂 / 死的 / 過世 / 鬼 / 鬼魂 /
putta	幾個
儿 / 儿 / 儿子 / 儿童 / 兒 / 兒子 / 兒童 / 公子 / 囡 / 女婿 / 女婿 / 子 / 子女 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 /	jǐ gè
बाल	कतिपय
bāla	katipaya
傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 囡 / 子 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /	一些 / 一番 / 些 / 几 / 几个 / 好几 / 好幾 / 幾個 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某些 / 若干 /

庇佑	zhuāng
bì yòu	गाम
आसी	gāma
āsi	屯 / 庄 / 村 / 村子 / 村庄 / 莊 /
庇護	庇佑 / 恩惠 / 祚 / 祝福 / 福 / 福氣 /

bì hù	परित्ताण
parittāṇa	parittāṇa

床	chuáng
chuáng	मञ्च
mañca	mañca
上床 / 床 / 床位 / 床鋪 / 床铺 / 河床 /	上床 / 床 / 床位 / 床鋪 / 床铺 / 河床 /
床位	床單
chuáng wèi	chuáng dān
mañca	अत्थरण
mañca	attharaṇa
上床 / 床 / 床位 / 床鋪 / 床铺 / 河床 /	套 / 床單 / 罩 /

床單	पच्चत्थरण
chuáng dān	पच्चत्थरण
अत्थरण	पच्चत्थरण
attharaṇa	पच्चत्थरण
套 / 床單 / 罩 /	पच्चत्थरण
पच्चत्थरण	पच्चत्थरण
पच्चत्थरण	पच्चत्थरण
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 床單 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /	पट्ट
पट्ट	पट्ट
पट्ट	पट्ट
叶 / 平板 / 床單 / 片 / 箔 / 繃帶 / 绷帶 / 羽毛 / 葉 / 葉子 / 薄片 / 页 /	पट्ट
पल्ल	पट्ट
पट्ट	पट्ट
叶 / 床單 / 毛片 / 片 / 箔 / 羽 / 羽毛 / 翅膀 / 葉 / 葉子 / 页 /	पट्ट

床鋪	chuáng pù
chuáng pù	मञ्च
mañca	mañca
上床 / 床 / 床位 / 床鋪 / 床铺 / 河床 /	上床 / 床 / 床位 / 床鋪 / 床铺 / 河床 /
床鋪	床鋪
chuáng pū	chuáng pū
मञ्च	मञ्च
mañca	mañca
上床 / 床 / 床位 / 床鋪 / 床铺 / 河床 /	上床 / 床 / 床位 / 床鋪 / 床铺 / 河床 /

序	खु
xù	अनुक्कम
अनुक्कम	anukkama
anukkama	令 / 命令 / 序 / 序列 / 承 / 排序 / 旨意 / 檄 / 次序 / 秩序 / 程 / 系列 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 / 順序 /
कम	कम
kama	कम
一步 / 命令 / 序 / 措施 / 方式 / 方法 / 模式 / 步 / 步子 / 步驟 / 狀態 / 脚步 / 舉止 / 训令 / 進程 / 陔 / 順序 / 順序 /	परियाय
परियाय	परियाय
परियाय	परियाय
令 / 序 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 轉動 / 順序 / 順序 /	令 / 序 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 轉動 / 順序 / 順序 /

序列	खु लिे
xù liè	अनुक्कम
अनुक्कम	anukkama
令 / 命令 / 序 / 序列 / 承 / 排序 / 旨意 / 檄 / 次序 / 秩序 / 程 / 系列 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 / 順序 /	令 / 命令 / 序 / 序列 / 承 / 排序 / 旨意 / 檄 / 次序 / 秩序 / 程 / 系列 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 / 順序 /

底	द्वि
dǐ	अगग
अगग	अगग
agga	अगग
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 首 / 首先 /	अगग
अन्त	अन्त
अन्त	अन्त
anta	अन्त
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂端 /	अन्त
अपवगग	अपवगग
अपवगग	अपवगग
apavagga	अपवगग
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /	अपवगग
अवसान	अवसान
अवसान	अवसान
avasāna	अवसान
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /	अवसान
ओसान	ओसान
ओसान	ओसान
osāna	ओसान
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /	ओसान

कोटि	कोटि
कोटि	कोटि
koṭi	कोटि
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 道 / 點 /	कोटि
कोण	कोण
कोण	कोण
koṇa	कोण
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 點 /	कोण
निट्टा	निट्टा
निट्टा	निट्टा
niṭṭhā	निट्टा
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /	निट्टा

पद	पद
पद	पद
pada	पद
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到任 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 脚步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /	पद

परिनिष्ठान
pariniṭṭhāna
 下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 道 /
परियन्त
pariyanta
 下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棱 / 極限 / 止境 / 涓 / 眇 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 終結 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियोसान
pariyosāna
 下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 終結 / 結束 / 道 /
पाद
pāda
 垒 / 基 / 基地 / 基础 / 基礎 / 壘 / 尺 / 底 / 底座 / 根據地 / 根本 / 胯 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 腿 / 英尺 / 足 / 足部 /

底座
dī zuò

पाद
pāda
 垒 / 基 / 基地 / 基础 / 基礎 / 壘 / 尺 / 底 / 底座 / 根據地 / 根本 / 胯 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 腿 / 英尺 / 足 / 足部 /

店主
diàn zhǔ

आपणिक
āpaṇika
 店主 / 零售商 /
पापणिक
pāpaṇika

庞
páng

अतिमहन्त
atimahanta
 巨 / 巨大 / 巨大的 / 庞 / 庞大 / 庞大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 / 過大 / 鉅 / 龐 / 龐大 /

庞天
páng dà

अतिमहन्त
atimahanta
 巨 / 巨大 / 巨大的 / 庞 / 庞大 / 庞大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 / 過大 / 鉅 / 龐 / 龐大 /

庞大的
páng dà de

अतिमहन्त
atimahanta
 巨 / 巨大 / 巨大的 / 庞 / 庞大 / 庞大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 / 過大 / 鉅 / 龐 / 龐大 /

废物
fèi wù

उक्लाप
uklāpa
 垃圾 / 垢 / 废物 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 /
कचवर
kacavara
 垃圾 / 废物 / 残余物 /
कसम्बु
kasambu
 垃圾 / 废物 /

度量
dù liàng

पमाण
pamāṇa
 大小 / 尺寸 / 度量 / 措施 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 量度 /
परिच्छेद
pariccheda
 圻 / 垓 / 垤 / 境 / 度量 / 微 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 眇 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिमाण
parimāṇa
 大小 / 局限 / 幅度 / 度量 / 措施 / 极限 / 極限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 边际 / 量 / 量度 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

座
zuò

आसन
āsana
 位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 /
निसीदन
nisīdana
 位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 /
पीठ
pīṭha
 中 / 位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 / 椅 / 椅子 /

座位
zuò wèi

आसन
āsana
 位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 /
निसीदन
nisīdana
 位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 /
पीठ
pīṭha
 中 / 位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 / 椅 / 椅子 /

座椅
zuò yǐ

आसन
āsana
 位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 /
निसीदन
nisīdana
 位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 /
पीठ
pīṭha
 中 / 位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 / 椅 / 椅子 /

庫房
kù fáng

कोस
kosa
 儲藏室 / 庫房 / 鞘 /
庭
tíng

चच्चर
caccara
 中庭 / 埗 / 庭 / 庭院 / 院 / 院子 /

庭院
tíng yuàn

चच्चर
caccara
 中庭 / 埗 / 庭 / 庭院 / 院 / 院子 /

廨
sī

पेस्सिक
pessika
 仆 / 仆人 / 使者 / 信使 / 信差 / 信差 / 僕 / 公务员 / 厮 / 廨 / 用人 /

廠
chǎng

गच्छ
gaccha
 事业 / 厂 / 工场 / 廠 / 株 / 栽 / 植 / 植物 /

廢物
fèi wù

खय
khaya
 廢物 / 浪費 / 浪费 / 白費 / 破壞 / 終結 / 虛度 / 衰退 /
परिक्खय
parikkhaya
 廢物 / 枯竭 / 浪費 / 浪费 / 白費 / 腐朽 / 虛度 /

廢話
fèi huà

पलाप
palāpa
 廢話 / 胡扯 /

廣大
guǎng dà

अतिमहन्त
atimahanta
 巨 / 巨大 / 巨大的 / 庞 / 庞大 / 庞大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 / 過大 / 鉅 / 龐 / 龐大 /
ब्रहन्त
brahanta
 巨人般的 / 巨大 / 巨大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 /

廨
xiè

अधिकार
adhikāra
 任 / 任職 / 办事处 / 办公室 / 厅 / 处 / 处 / 廨 / 管理 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 辦公 / 辦公室 /
ठान
thāna
 任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廨 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 默 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /

पद
pada

一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廨 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /

延
yán

पमज्जना
pamajjanā
 延 / 延迟 / 延遲 / 拖延 / 挨 / 耽 / 耽擱 / 耽擱 / 耽誤 /
延迟
yán chí

पमज्जना
pamajjanā
 延 / 延迟 / 延遲 / 拖延 / 挨 / 耽 / 耽擱 / 耽擱 / 耽誤 /

延遲
yán chí

पमज्जना
pamajjanā
 延 / 延迟 / 延遲 / 拖延 / 挨 / 耽 / 耽擱 / 耽擱 / 耽誤 /

建立
jiàn lì

उक्कुज्ज
ukkujja
 建立 / 朝上的 /
पतिष्ठान
patiṭṭhāna
 供養 / 建立 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /

建立者
jiàn lì zhě

पतिष्ठपेतु
patiṭṭhāpetu

开发
kāi fā

परिणाम
pariṇāma
 发展 / 变 / 变化 / 变更 / 开发 / 成熟 / 改 / 改變 / 更改 / 消化 / 變 / 變動 / 變化 / 變更 / 轉變 / 转变 /
开始
kāi shǐ

पभव
pabhava
 來歷 / 來源 / 出处 / 出身 / 原点 / 始源 / 开始 / 朔 / 本源 / 来历 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 由来 / 血统 / 起源 /

开火
kāi huǒ

अग्गि
aggi
 大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 着火 / 着火 / 起火 / 開火 /
अनल
anala
 大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 着火 / 着火 / 起火 / 開火 /

जोति
joti

पमज्जना
pamajjanā
 五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 着火 / 着火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /

पावक
pāvaka

पमज्जना
pamajjanā
 大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 着火 / 着火 / 起火 / 開火 /

建立者
jiàn lì zhě

पतिष्ठपेतु
patiṭṭhāpetu

开发
kāi fā

परिणाम
pariṇāma
 发展 / 变 / 变化 / 变更 / 开发 / 成熟 / 改 / 改變 / 更改 / 消化 / 變 / 變動 / 變化 / 變更 / 轉變 / 转变 /

开始
kāi shǐ

पभव
pabhava
 來歷 / 來源 / 出处 / 出身 / 原点 / 始源 / 开始 / 朔 / 本源 / 来历 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 由来 / 血统 / 起源 /

开火
kāi huǒ

अग्गि
aggi
 大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 着火 / 着火 / 起火 / 開火 /
अनल
anala
 大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 着火 / 着火 / 起火 / 開火 /

गिनि
gini

पमज्जना
pamajjanā
 五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 着火 / 着火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /

जोति
joti

पमज्जना
pamajjanā
 五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 着火 / 着火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /

异议
yì yì

पटिक्खेप
paṭikkhepa
 不存在 / 反对 / 否定 / 异议 / 拒绝 / 異議 /

弄好
nòng hǎo

कल्ल
kalla
 乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 僬 / 准备 / 妙 / 就緒 / 就緒 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /

弄得
nòng de
आकुल
ākula
困惑 / 困惑的 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 紛 / 迷糊 / 迷茫 /
मङ्कु
mañku
困惑 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 紛 / 迷糊 / 迷茫 /

弄混
nòng hùn
आकुल
ākula
困惑 / 困惑的 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 紛 / 迷糊 / 迷茫 /
मङ्कु
mañku
困惑 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 紛 / 迷糊 / 迷茫 /

弊
bì
अनत्थ
anattha
不幸 / 伤害 / 傷害 / 危害 / 壞處 / 害 / 弊 / 损伤 / 損害 / 有害 /
अहित
ahita
伤害 / 傷害 / 危害 / 壞處 / 害 / 弊 / 损伤 /

弊病
bì bìng
आतङ्क
ātañka
弊病 / 恙 / 疾 / 疾病 / 病 / 病症 / 病的 / 症 /
आबाध
ābādha
弊病 / 疾 / 疾病 / 病 / 病症 / 病的 / 症 / 痛苦 /

弑父
shì fù
पञ्चानन्तरिय
pañcānantariya

弓
gōng
इस्सास
issāsa
射手 / 弓 / 船首 / 躬 / 鞠躬 /
कोण
koṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 结束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 迳 / 阨 / 隅 / 鞠躬 /
चाप
cāpa
弓 / 船首 / 躬 / 鞠躬 /
धनु
dhanu
弓 / 船首 / 躬 / 鞠躬 /

引誘
yīn yòu
पलोभन
palobhana
引起
yīn qǐ
कारण
kāraṇa
动机 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 道理 /
ठान
thāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到任 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 默 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 /
部位 /
निदान

निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /
निमित्त
nimitta
兆 / 兆头 / 先兆 / 前兆 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 徵兆 / 情理 / 故 / 标记 / 理 / 理由 / 由 / 緣故 / 迹象 / 道理 / 預兆 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到任 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 郵件 / 郵政 / 部位 /

弗
fú
न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒绝 / 无 / 未 / 毋 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 没 / 没有 / 沒有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /

弘
hóng
उरु
uru
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 大號 / 裝 / 裝 / 弘 / 恢 / 曼 / 極大 / 碩 / 莫大 / 航 /
तुमुल
tumula
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 裝 / 裝 / 弘 / 恢 / 極大 / 盛大的 / 碩 / 莫大 / 航 /

弟兄
dì xiōng
अनुज
anuja
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /
आवुसो
āvuso
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 朋 / 朋友 / 朋友 / 社友 / 老兄 /
भ्रातु
bhātu
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /
भतिक
bhātika
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /

弟媳
dì xí
भगिनी
bhaginī
妹 / 妹妹 / 姊 / 姊妹 / 姐 / 姐姐 / 小姑 / 弟媳 /

弟弟
dì dì
अनुज
anuja
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /
आवुसो
āvuso
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 朋 / 朋友 / 朋友 / 社友 / 老兄 /
भ्रातु
bhātu
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /
भतिक
bhātika
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /

弯曲
wān qū
कुटिल
kuṭīla
一心 / 不誠實 / 委 / 屈 / 屈曲 / 彎曲 / 歪 /

弱
ruò
अबल
abala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /
दुब्बल
dubbala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 昏 / 昏倒 / 昏倒 / 暈倒 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /

弱
ruò
अबल
abala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /
दुब्बल
dubbala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 昏 / 昏倒 / 昏倒 / 暈倒 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /

弱
ruò
अबल
abala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /
दुब्बल
dubbala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 昏 / 昏倒 / 昏倒 / 暈倒 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /

弱的
ruò de
अबल
abala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /
दुब्बल
dubbala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 昏 / 昏倒 / 昏倒 / 暈倒 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /

強
qiáng
पभाव
pabhāva
冪 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 勁 / 勁 / 勢力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 強 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /

強國
qiáng guó
आधिपच्च
āधिpacca
冪 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 冪 / 強國 / 强权 / 控制 / 斷電 / 權力 / 統治 /
आधिपतेय्य
ādhipateyya
冪 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 冪 / 強國 / 强权 / 斷電 / 權力 /

आनुभाव
ānubhāva
冪 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 冪 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 斷電 / 权力 / 權力 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 冪 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 冪 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 榮 /

शाम
thāma
冪 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 冪 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 活力 / 能力 /

बल
bala
军 / 军队 / 冪 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 勢 / 力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 冪 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

強盜
qiáng dào
चोर
cora
小偷 / 強盜 / 盜 / 盜 / 盜賊 / 竊賊 / 賊 / 賊 /
दस्सु
dassu
強盜 / 盜賊 /

強硬
qiáng yìng
थद
thaddha
使勁 / 僵 / 僵硬 / 強硬 / 強硬 / 強硬的 / 生硬 / 硬 / 硬朗 / 硬殼 / 硬的 / 艱苦 / 辛 / 辛苦 / 難纏 / 韧 /

彈簧
dàn huáng
उच्चिद
ubbhida
彈簧 / 彈簧 / 春 / 春天 / 春季 / 泉 / 泉水 / 源 /

強
qiáng
पभाव
pabhāva
冪 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 勁 / 勁 / 勢力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 強 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /

強度
qiáng dù
पभाव
pabhāva
冪 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 勁 / 勁 / 勢力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 強 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /

强权
qiáng quán
आधिपच्च
ādhipacca
幕 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 控制 / 斷電 / 權力 / 統治 /
आधिपतेय्य
ādhipateyya
幕 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 權力 /
आनुभाव
ānubhāva
幕 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 權力 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 幕 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 榮 /
थाम
thāma
幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /
पभाव
pabhāva
幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 强 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /
बल
bala
军 / 军队 / 幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 勢力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

强硬
qiáng yìng
थद्द
thaddha
使勁 / 僵 / 僵硬 / 強硬 / 強硬 / 强硬的 / 生硬 / 硬 / 硬朗 / 硬殼 / 硬的 / 艱苦 / 辛 / 辛苦 / 難纏 / 韧 /

强硬的
qiáng yìng de
थद्द
thaddha
使勁 / 僵 / 僵硬 / 強硬 / 強硬 / 强硬的 / 生硬 / 硬 / 硬朗 / 硬殼 / 硬的 / 艱苦 / 辛 / 辛苦 / 難纏 / 韧 /

强权
qiáng quán
आधिपच्च
ādhipacca
幕 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 控制 / 斷電 / 權力 / 統治 /
आधिपतेय्य
ādhipateyya
幕 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 權力 /
आनुभाव
ānubhāva
幕 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 權力 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 幕 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 榮 /
थाम
thāma
幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /
पभाव
pabhāva
幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 强 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /
बल
bala
军 / 军队 / 幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 勢力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

强权
qiáng quán
आधिपच्च
ādhipacca
幕 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 控制 / 斷電 / 權力 / 統治 /
आधिपतेय्य
ādhipateyya
幕 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 權力 /
आनुभाव
ānubhāva
幕 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 權力 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 幕 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 榮 /
थाम
thāma
幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /
पभाव
pabhāva
幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 强 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /
बल
bala
军 / 军队 / 幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 勢力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

譬
biè
अञ्ज
añña
其他 / 其他人 / 其他的 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 別 / 别的 / 另 / 另一 / 另外 / 另外一个 / 另外的 / 譬 /
इतर
itara
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 別 / 别的 / 另 / 另外 / 譬 /
पर
para
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 别的 / 別 / 别人 / 别的 / 另 / 另一個 / 另外 / 譬 / 陌生人 /

彈簧
dàn huáng
उब्भिद
ubbhida
彈簧 / 彈簧 / 春 / 春天 / 春季 / 泉 / 泉水 / 源 /

彊
qiáng
पभाव
pabhāva
幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 强 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /
彌撒
mí sā
खन्ध
khandha
區 / 大批 / 彌撒 / 形成 /

归
guī
पच्चागमन
paccāgamana
交還 / 回 / 回來 / 回去 / 回歸 / 归 / 歸 / 歸來 / 歸還 / 返 / 返回 / 返航 / 迴 / 退回 / 退还 / 送回 / 重回 / 重返 /

当中
dāng zhōng
अन्तरे
antare
之間 / 介 / 其中 / 当中 / 當中 / 芸芸 / 間 / 间 /

当作
dāng zuò
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

当儿
dāng ér
अन्तराय
antarāya
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 当儿 / 障碍 / 障礙 /
ईघ
īgha
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 当儿 /
उपद्दव
upaddava
不幸 / 危 / 危險 / 危險 / 危難 / 威胁 / 当儿 / 灾 /
उपसगग
upasagga
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 字首 / 当儿 /
परिपन्थ
paripantha
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 当儿 / 障碍 / 障礙 /
परिस्सय
parissaya
冒 / 危 / 危險 / 危险物 / 危險 / 危險性 / 威胁 / 当儿 / 險 / 險 / 風險 / 风险 / 麻煩 /

当年
dāng nián
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथो
atho
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 現時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

当
dāng
अन्तरे
antare
之間 / 介 / 其中 / 当中 / 當中 / 芸芸 / 間 / 间 /

当作
dāng zuò
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

当时
dāng shí
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथो
atho
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 現時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

当时的
dāng shí de
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथो
atho
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 現時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

当然
dāng rán
अद्दा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
नून
nūna
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

当然
dāng rán
अद्दा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
नून
nūna
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

当然可以
dāng rán kě yǐ
अद्दा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
नून
nūna
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

形像
xíng xiàng
पटिबिम्ब
paṭibimba
偶 / 像 / 副本 / 印像 / 反映 / 圖像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
पटिमा
paṭimā
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
बिम्ब
bimba
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /

形成
xíng chéng
ओक्कन्ति
okkanti
खन्ध
khandha
區 / 大批 / 彌撒 / 形成 /

形象
xíng xiàng
पटिबिम्ब
paṭibimba
偶 / 像 / 副本 / 印像 / 反映 / 圖像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
पटिमा
paṭimā
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
बिम्ब
bimba
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /

彩色
cǎi sè
चित्तता
cittatā
上色 / 彩色 /

影
yǐng
छाया
chāyā
影 / 影子 / 暗影 / 肖像 / 荫 / 阴影 / 陰影 /

影像
yǐng xiàng
पटिबिम्ब
paṭibimba
偶 / 像 / 副本 / 印像 / 反映 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
पटिमा
paṭimā
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
बिम्ब
bimba
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /

影响
yǐng xiǎng
निष्पब्ज्जन
nippahjjana
作用 / 做 / 印象 / 影响 / 成就 / 成效 / 成果 / 成績 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /

影子
yǐng zi
छाया
chāyā
影 / 影子 / 暗影 / 肖像 / 荫 / 阴影 / 陰影 /

影片
yǐng piàn
पटल
paṭala
信封 / 封套 / 封袋 / 影片 / 片子 / 电影 / 膜 / 膠片 / 蓋子 / 薄膜 / 软片 /

往往
wǎng wǎng
अभिण्हं
abhiṇhaṃ
不時 / 常 / 常常 / 往往 / 时常 / 時常 / 每每 / 經常 /

役
yì
उपद्दान
upaṭṭhāna
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 理解 / 等候 / 等候 / 維修 / 認識 / 諒解 / 认识 / 认识 / 體諒 /
उपासन
upāsana
伺候 / 役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 / 訓練 / 训练 /
कार
kāra
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 /
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
पेसन
pesana
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 / 資訊 /
पारिचरिया
pāricariyā
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 等候 / 等候 / 維修 /

彼
bǐ
एत
eta
其 / 彼 / 該 / 该 / 这个 / 这个 / 這 / 那 / 那 / 那个 / 那個 / 那天 /

往
wǎng
अतीत
atīta
往 / 往事 / 昔 / 昔 / 过去 / 過去 /
往事
wǎng shì
अतीत
atīta
往 / 往事 / 昔 / 昔 / 过去 / 過去 /

往往
wǎng wǎng
अभिण्हं
abhiṇhaṃ
不時 / 常 / 常常 / 往往 / 时常 / 時常 / 每每 / 經常 /

往西
wǎng xī
पच्छिम
pacchima
刚过去的 / 往西 / 往西 / 最低的 / 最后 / 最后的 / 最後的 / 最新 / 最近的 / 最遲 / 西 / 西 / 西域 / 西方的 / 西洋 / 西洋 /
पच्छिम
pacchima
刚过去的 / 往西 / 往西 / 最低的 / 最后 / 最后的 / 最後的 / 最新 / 最近的 / 最遲 / 西 / 西 / 西域 / 西方的 / 西洋 / 西洋 /
पतीचि
patīci
往西 / 往西 / 朝西 / 西 / 西 / 西區 / 西方 / 西方 / 西部 / 西部 / 西面 / 西面 /
पतीचि
patīci
往西 / 往西 / 朝西 / 西 / 西 / 西區 / 西方 / 西方 / 西部 / 西部 / 西面 / 西面 /

征
zhēng
अधिपतन
adhipatana
侵襲 / 出擊 / 征 / 抨 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 發作 / 行凶 / 跳躍 /
उपक्कम
upakkama
侵襲 / 出擊 / 征 / 意指 / 手段 / 抨 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 方式 / 方法 / 發作 / 行凶 /

征服
zhēng fú
अभिमद्दन
abhimaddana
दम
dama
征服 / 抑制 / 控制 / 馴服 /
दमथ
damatha
征服 / 抑制 / 控制 /
निम्मद्दन
nimmaddana
征服 / 鎮壓 /

征服者
zhēng fú zhě
अभिभू
abhibhū
大君主 / 征服者 /
जिन
jina
勝利者 / 征服者 /

征程
zhēng chéng
गमन
gamana
去 / 導致 / 征程 / 征途 / 散步 / 旅游 / 旅游 / 旅程 / 旅程 / 旅行 / 旅行 / 旅途 / 程 / 追逐 /
चारिका
cārikā
征程 / 征途 / 旅游 / 旅程 / 旅程 / 旅行 / 旅行 / 旅途 / 程 /

征途
zhēng tú
गमन
gamana
去 / 導致 / 征程 / 征途 / 散步 / 旅游 / 旅游 / 旅程 / 旅程 / 旅行 / 旅行 / 旅途 / 程 / 追逐 /
चारिका
cārikā
征程 / 征途 / 旅游 / 旅程 / 旅程 / 旅行 / 旅行 / 旅途 / 程 /

徑
jìng
अञ्जस
añjasa
修路 / 小道 / 徑 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路途 / 轨 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
पज्ज
pajja
修路 / 徑 / 徑 / 詩 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路途 / 轨 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
पथ
patha
中 / 修路 / 办法 / 徑 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /
पन्थ
pantha
修路 / 办法 / 徑 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
मग्ग
magga
修路 / 办法 / 徑 / 徑 / 方法 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /

待
dài
ठान
ṭhāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 靡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 默 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /

徇
xùn
खिप्प
khippa
徇 / 很快地 / 快 / 快的 / 快速 / 速 /
तुरित
turita
匆忙地 / 徇 / 很快地 / 快 / 快的 / 快速 / 快速的 / 齣 / 迅 / 迅速 / 迅速地 / 迅速的 / 速 / 遽 / 飛快 /

很
hěn
अति
ati
不勝 / 不勝 / 十分 / 大 / 太 / 很 / 狠 / 甚 / 甚 / 都很 / 非常 /

很多
hěn duō
अनप्पक
anappaka
不少 / 多多 / 好多 / 很多 / 許多 / 諸多 / 许多 / 重要的 / 非常多 /
कुस
kusa
बहु
bahu
不少 / 充分 / 多多 / 好多 / 很多 / 許多 / 諸多 / 许多 / 非常多 /
भुस
bhusa
外殼 / 常常 / 很多 / 非常地 / 頻繁 /

很多的
hěn duō de
बाळ्ह
bālha
很多的 / 非常地 /

很好
hěn hǎo
उदपान
udapāna
井 / 以至 / 嘛 / 嘿 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /

ओपान
opāna
井 / 以至 / 嘛 / 嘿 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /
कूप
kūpa
井 / 以至 / 嘛 / 嘿 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 洞 / 良好 /

很少的
hěn shǎo de
अप्प
appa
子 / 小 / 小班 / 小的 / 少 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
अप्पक

appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
इत्तर
ittara
很少的 / 摘要 / 短命的 /
ईसक
īsaka
些微地 / 寡 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 有點兒 / 有點小 / 短的 / 稍微 /

很快
hěn kuài
अविलम्बितं
avilambitaṃ
很快 / 很快地 / 赶快 / 趕快 / 迅速地 /
आसु
āsu
很快 / 很快地 / 赶快 / 趕快 / 迅速地 /
खिप्पं
khippaṃ
很快 / 很快地 / 赶快 / 趕快 / 迅速地 /
तुवटं
tuvaṭaṃ
很快 / 很快地 / 赶快 / 趕快 / 迅速地 /

很快地
hěn kuài dì
अविलम्बितं
avilambitaṃ
很快 / 很快地 / 赶快 / 趕快 / 迅速地 /
आसु
āsu
很快 / 很快地 / 赶快 / 趕快 / 迅速地 /
खिप्प
khippa
徇 / 很快地 / 快 / 快的 / 快速 / 速 /
खिप्पं
khippaṃ
很快 / 很快地 / 赶快 / 趕快 / 迅速地 /
तुरित
turita
匆忙地 / 徇 / 很快地 / 快 / 快的 / 快速 / 快速的 / 斋 / 迅 / 迅速 / 迅速地 / 迅速的 / 速 / 遽 / 飞快 /
तुवटं
tuvaṭaṃ
很快 / 很快地 / 赶快 / 趕快 / 迅速地 /

律
lù
नीति
nīti
定律 / 定律 / 律 / 律 / 法 / 法則 / 法學 / 法律 / 規律 /
नीति
nīti
定律 / 定律 / 律 / 律 / 法 / 法則 / 法學 / 法律 / 規律 /

後
hòu
परं
paraṃ
之后 / 之後 / 后 / 后的 / 後 / 經 / 經過 / 经 / 经过 / 超出 / 超过 /

後代
hòu dài
अपच्य
apacca
子孫 / 孳 / 後代 /
तनुज
tanuja
儿子 / 兒子 / 公子 / 女婿 / 女婿 / 後代 /
तनय
tanaya
儿子 / 兒子 / 公子 / 女婿 / 女婿 / 後代 /

徑
jìng
अञ्जस
añjasa
修路 / 小道 / 径 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
पज्ज
pajja
修路 / 径 / 徑 / 詩 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
पथ
patha
中 / 修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /
पन्थ
pantha
修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
मगग
magga
修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /

徒
tú
एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /

徒然
tú rán
निरत्थ
nirattha
निरत्थक
niratthaka
徒然 / 徒然的 /

徒然的
tú rán de
अफल
aphala
निष्फल
nippphala
निरत्थक
niratthaka
徒然 / 徒然的 /

得力
de lì
पटिबल
paṭibala
勝任 / 得力 / 能干 / 能干 /
भब्व
bhabba
勝任 / 得力 / 得力 / 有能力的 / 能力 / 能干 / 能干 /
भब्व
bhabba
勝任 / 得力 / 得力 / 有能力的 / 能力 / 能干 / 能干 /

從事
cóng shì
पयोग
payoga
作用 / 努力 / 動作 / 從事 / 行动 / 行動 /
पयोजन
payojana
使用 / 利用 / 從事 / 施用 / 用 / 用法 / 用途 / 运用 / 運用 /

從來
cóng lái
अभिण्हसो
abhiñhaso
一向 / 一律 / 从来 / 再三地 / 历来 / 向來 / 始終 / 始終 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /
निबद्धं
nibaddhaṃ
一向 / 一律 / 从来 / 历来 / 向來 / 始終 / 始終 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /

從前
cóng qián
पुब्बे
pubbe
以往 / 從前 / 過去 /
पुरे
pure
之前 / 從前 / 此前 / 面前 /
पुरतो
purato
之前 / 在前 / 從前 / 此前 / 稅前 / 面前 /
पुरा
purā

循环
xún huán
चक्क
cakka
令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 轮子 / 轆 / 轆 / 騎車 /
परिवट्ट
parivaṭṭa
一圈 / 匝 / 圆圈 / 圈 / 圈子 / 圓圈 / 圓 / 循环 /

循環
xún huán
चक्क
cakka
令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 轮子 / 轆 / 轆 / 騎車 /

微不足道
wēi bù zú dào
परित्त
paritta
不足道 / 子 / 小 / 小班 / 小的 / 少的 / 微不足道 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

微小
wēi xiǎo
अप्प
appa
子 / 小 / 小班 / 小的 / 少 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
अप्पक
appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

खुद्द
khudda
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
चुल्ल
culla
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 未成年 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

थोक
thoka
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
परित्त
paritta
不足道 / 子 / 小 / 小班 / 小的 / 少的 / 微不足道 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

微小的
wēi xiǎo de
अप्पमत्त
appamatta
小心的 / 微小的 / 注意的 / 警醒的 /

微弱
wēi ruò
अबल
abala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虚弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /
दुब्बल
dubbala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 昏 / 昏倒 / 昏倒 / 暈倒 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虚弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /

微弱的
wēi ruò de
अबल
abala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虚弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /
दुब्बल
dubbala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 昏 / 昏倒 / 昏倒 / 暈倒 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虚弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /

微明
wēi míng
पदोस
padosa
傍晚 / 微明 / 暮 / 污點 / 激怒 / 缺點 / 薄暮 / 黄昏 /

微兆
zhǐ zhào
निमित्त
nimitta
兆 / 兆头 / 先兆 / 前兆 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 微兆 / 情理 / 故 / 标记 / 理 / 理由 / 由 / 緣故 / 迹象 / 道理 / 預兆 /

德
dé
धम्म
dhamma
事實 / 品德 / 大自然 / 天性 / 德 / 德性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性質 / 本性 / 本質 / 本质 / 法 / 自然 / 自然界 / 道德 /

德性
dé xìng
धम्म
dhamma
事實 / 品德 / 大自然 / 天性 / 德 / 德性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性質 / 本性 / 本質 / 本质 / 法 / 自然 / 自然界 / 道德 /

德行
dé xíng
कल्याण
kalyāṇa
仁慈 / 德行 / 福利 / 福祉 / 美德 / 迷人的 /
कुसल
kusala
专家 / 乖 / 伶 / 伶 / 俐 / 儻 / 善 / 妙 / 德行 / 美德 /

徽
jiào
अवधि
avadhi
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 徼 / 极限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
ओधि
odhi
圻 / 垓 / 埏 / 局限 / 徼 / 极限 / 極限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिच्छेद
pariccheda
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 度量 / 徼 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /

徽
huī
धज
dhaja
帜 / 幡 / 徼 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 符 / 符號 / 象征 / 象徵 /

心
xīn
चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 顏料 /

心像
xīn xiàng
चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 顏料 /
पटिबिम्ब
paṭibimba
偶 / 像 / 副本 / 印像 / 反映 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
पटिमा
paṭimā
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
बिम्ब
bimba
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /

心意
xīn yì
चेत
ceta
宗旨 / 心意 / 意向 / 意图 / 意圖 / 旨趣 / 用心 / 用意 / 目的 /

心口
xīn kǒu
उर
ura
中 / 乳 / 乳房 / 吸奶 / 奶子 / 心口 / 怀 / 懷 / 胸 / 胸口 / 胸脯 / 胸膛 / 胸部 /

心思
xīn sī
आभोग
ābhoga
以為 / 心思 / 心想 / 思想 / 想法 / 想過 /
चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 顏料 /
चिन्तन
cintana
以為 / 心思 / 心想 / 思想 / 思索 / 思維 / 思緒 / 思维 / 思考 / 思路 / 想法 / 想過 /

心想
xīn xiǎng
आभोग
ābhoga
以為 / 心思 / 心想 / 思想 / 想法 / 想過 /
चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 顏料 /
चिन्तन
cintana
以為 / 心思 / 心想 / 思想 / 思索 / 思維 / 思緒 / 思维 / 思考 / 思路 / 想法 / 想過 /
पटिबिम्ब
paṭibimba
偶 / 像 / 副本 / 印像 / 反映 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
पटिमा
paṭimā
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
बिम्ब
bimba
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /

心理的
xīn lǐ de
चेतसिक
cetasika
心理的 / 智力的 /
心理願
xīn yuàn
छन्द
chanda
不妨 / 心願 / 必 / 意志 / 意願 / 愿望 / 慾 / 欲 / 祝 / 要 / 遺囑 /

必
bì
छन्द
chanda
不妨 / 心願 / 必 / 意志 / 意願 / 愿望 / 慾 / 欲 / 祝 / 要 / 遺囑 /

必定
bì dìng
अद्ध
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
नून
nūna
一定 / 定然 / 实在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

必然
bì rán
एकच्च
ekacca
一些 / 一番 / 些 / 必然 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某一個 / 某些 / 确定 /
एकच्चिय
ekacciya
一些 / 一番 / 些 / 必然 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某一個 / 某些 / 确定 /

必要
bì yào
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 諦 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /
必需品
bì xū pǐn
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 諦 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /

必需
bì xū
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 諦 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /

必需
bì xū
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 諦 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /
उपकरण
upakaraṇa
乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 必需品 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
परिक्खार
parikkhāra
備 / 器材 / 必需品 / 装备 / 裝備 / 裝置 / 設備 / 设备 / 配件 /

必
bì
इस्सा
issā
吃醋 / 妒忌 / 嫉妒 / 忌妒 / 羨慕 / 羨慕 /
उसूयना
usūyanā
吃醋 / 妒忌 / 嫉妒 / 忌妒 / 羨慕 / 羨慕 /
उसूया
usūyā
吃醋 / 妒忌 / 嫉妒 / 忌妒 / 羨慕 / 羨慕 /

忍受
rěn shòu
खमन
khamana
容忍 / 忍受 / 忍耐 / 耐心 / 耐性 /
忍耐
rěn nài
अधिवासना
adhivāsanā
忍耐 / 耐心 /
खन्ति
khanti
宽容 / 宽恕 / 希望 / 忍耐 / 特赦 / 耐力 / 耐心 / 耐性 / 赦免 / 饒恕 /
खमन
khamana
容忍 / 忍受 / 忍耐 / 耐心 / 耐性 /
तितिक्खा
titikkhā

忠告
zhōng gào
अनुसिद्धि
anusitṭhi
劝告 / 咨詢 / 忠告 / 警告 /
उपदेस
upadesa
劝告 / 咨詢 / 忠告 / 指令 / 指示 /
उपदिसन
upadisana
劝告 / 咨詢 / 忠告 /
ओवाद
ovāda
劝告 / 咨詢 / 忠告 / 指令 / 指示 /

忧
yōu
कुक्कुच्च
kukkucca
忧 / 患 / 愁 / 憂 / 憂慮 / 懊悔 / 担心 / 操心 / 擔心 / 擔憂 /

忌妒
jì dù
इस्सा
issā
吃醋 / 妒忌 / 嫉妒 / 忌妒 / 羨慕 / 羨慕 /
उसूयना
usūyanā
吃醋 / 妒忌 / 嫉妒 / 忌妒 / 羨慕 / 羨慕 /
उसूया
usūyā
吃醋 / 妒忌 / 嫉妒 / 忌妒 / 羨慕 / 羨慕 /

忍受
rěn shòu
खमन
khamana
容忍 / 忍受 / 忍耐 / 耐心 / 耐性 /
忍耐
rěn nài

अधिवासना
adhivāsanā
忍耐 / 耐心 /
खन्ति
khanti
宽容 / 宽恕 / 希望 / 忍耐 / 特赦 / 耐力 / 耐心 / 耐性 / 赦免 / 饒恕 /
खमन
khamana
容忍 / 忍受 / 忍耐 / 耐心 / 耐性 /
तितिक्खा
titikkhā

忠告
zhōng gào
अनुसिद्धि
anusitṭhi
劝告 / 咨詢 / 忠告 / 警告 /
उपदेस
upadesa
劝告 / 咨詢 / 忠告 / 指令 / 指示 /
उपदिसन
upadisana
劝告 / 咨詢 / 忠告 /
ओवाद
ovāda
劝告 / 咨詢 / 忠告 / 指令 / 指示 /

忧
yōu
कुक्कुच्च
kukkucca
忧 / 患 / 愁 / 憂 / 憂慮 / 懊悔 / 担心 / 操心 / 擔心 / 擔憂 /

快
kuài
खिप्प
hippa
徇 / 很快地 / 快 / 快的 / 快速 / 速 /
तुरित
turita
匆忙地 / 徇 / 很快地 / 快 / 快的 / 快速 / 快速的 / 齋 / 迅 / 迅速 / 迅速地 / 迅速的 / 速 / 遽 / 飛快 /
थिर
thira
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 快 / 恆久 / 持久 / 有耐久力 / 牢 / 牢固 / 硬 / 馨 / 持久的 / 迅 / 迅速 / 速 / 遽 /

快乐的
kuài lè de
अत्तमन
attamana
快乐的 / 愉快 / 高兴的 / 高興 /

快感
kuài gǎn
आराम
ārāma
修道院 / 僧院 / 娱 / 寺院 / 快感 / 愉快 / 愉悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 高兴 /
काम
kāma
娱 / 快感 / 愉快 / 愉悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 高兴 /
तुट्ठि
tutṭhi
喜悅 / 喜悦 / 娱 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 高兴 /

快慢
kuài màn
जव
java
力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 势力 / 实力 / 快慢 / 速 / 速力 / 速度 / 速率 / 飛車 /

快活
kuài huó
तपन
tapana
光亮 / 光明 / 出色 / 快活 / 明亮 / 辉 /

快的
kuài de
खिप्प
hippa
徇 / 很快地 / 快 / 快的 / 快速 / 速 /
तुरित
turita
匆忙地 / 徇 / 很快地 / 快 / 快的 / 快速 / 快速的 / 齋 / 迅 / 迅速 / 迅速地 / 迅速的 / 速 / 遽 / 飛快 /

快要
kuài yào
आरब्भ
ārabbha
一下 / 即將 / 大約 / 大约 / 左右 / 快要 / 走進 / 關於 /

快
kuài
खिप्प
hippa
徇 / 很快地 / 快 / 快的 / 快速 / 速 /
तुरित
turita
匆忙地 / 徇 / 很快地 / 快 / 快的 / 快速 / 快速的 / 齋 / 迅 / 迅速 / 迅速地 / 迅速的 / 速 / 遽 / 飛快 /
थिर
thira
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 快 / 恆久 / 持久 / 有耐久力 / 牢 / 牢固 / 硬 / 馨 / 持久的 / 迅 / 迅速 / 速 / 遽 /

快乐的
kuài lè de
अत्तमन
attamana
快乐的 / 愉快 / 高兴的 / 高興 /

快感
kuài gǎn
आराम
ārāma
修道院 / 僧院 / 娱 / 寺院 / 快感 / 愉快 / 愉悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 高兴 /
काम
kāma
娱 / 快感 / 愉快 / 愉悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 高兴 /
तुट्ठि
tutṭhi
喜悅 / 喜悦 / 娱 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 高兴 /

快慢
kuài màn
जव
java
力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 势力 / 实力 / 快慢 / 速 / 速力 / 速度 / 速率 / 飛車 /

快活
kuài huó
तपन
tapana
光亮 / 光明 / 出色 / 快活 / 明亮 / 辉 /

快的
kuài de
खिप्प
hippa
徇 / 很快地 / 快 / 快的 / 快速 / 速 /
तुरित
turita
匆忙地 / 徇 / 很快地 / 快 / 快的 / 快速 / 快速的 / 齋 / 迅 / 迅速 / 迅速地 / 迅速的 / 速 / 遽 / 飛快 /

快要
kuài yào
आरब्भ
ārabbha
一下 / 即將 / 大約 / 大约 / 左右 / 快要 / 走進 / 關於 /

快速
kuài sù
खिप्प
kippa
徇 / 很快地 / 快 / 快的 / 快速 / 速 /
तुरित
turita
匆忙地 / 徇 / 很快地 / 快 / 快的 / 快速 / 快速的 / 斋 / 迅 / 迅速 / 迅速地 / 迅速的 / 速 / 遽 / 飞快 /

快速的
kuài sù de
तुरित
turita
匆忙地 / 徇 / 很快地 / 快 / 快的 / 快速 / 快速的 / 斋 / 迅 / 迅速 / 迅速地 / 迅速的 / 速 / 遽 / 飞快 /

念頭
niàn tóu
गाह
gāha
主意 / 念頭 / 思想 / 想法 / 意念 / 意見 / 捕獲 / 構想 / 理念 / 理想 / 表象 / 點子 /

忽視
hū shì
अवमञ्जना
avamaññanā
不敬 / 晒 / 忽視 / 輕視 / 輕蔑 / 轻视 / 鄙視 /

忿怒
fèn nù
अभिसज्जन
abhisajjana
कुप्पन
kuppana
忿怒 / 激動 /
कोध
kodha
忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 愆 / 愤 / 愤怒 / 憤怒 / 毛病 / 瑕 / 耆 / 破綻 / 缺點 / 缺陷 / 缺點 / 腐敗 / 責備 / 蹉 / 過失 /
दुस्सन
dussana
忿怒 / 犯罪 /
दोस
dosa
忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 愆 / 愤 / 愤怒 / 憤怒 / 毛病 / 瑕 / 耆 / 破綻 / 缺點 / 缺陷 / 缺點 / 腐敗 / 責備 / 蹉 / 過失 /

怀
huái
उर
ura
中 / 乳 / 乳房 / 吸奶 / 奶子 / 心口 / 怀 / 懷 / 胸 / 胸口 / 胸脯 / 胸膛 / 胸部 /

怀疑
huái yí
आसङ्का
āsāṅkā
怀疑 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /
द्वेज्झ
dvejja
可疑的 / 怀疑 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 矛盾 / 置疑 /
द्वेव्हक
dvelhaka
怀疑 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 /

怒
nù
कोध
kodha
忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 愤 / 愤怒 / 憤怒 /
दोस
dosa
忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 愆 / 愤 / 愤怒 / 憤怒 / 毛病 / 瑕 / 耆 / 破綻 / 缺點 / 缺陷 / 缺點 / 腐敗 / 責備 / 蹉 / 過失 /
पकोप
pakopa
怒 / 怒火 / 佛 / 愤 / 愤怒 / 憤怒 / 激動 / 激怒 /

怒火
nù huǒ
कोध
kodha
忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 愤 / 愤怒 / 憤怒 /
दोस
dosa
忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 愆 / 愤 / 愤怒 / 憤怒 / 毛病 / 瑕 / 耆 / 破綻 / 缺點 / 缺陷 / 缺點 / 腐敗 / 責備 / 蹉 / 過失 /
पकोप
pakopa
怒 / 怒火 / 佛 / 愤 / 愤怒 / 憤怒 / 激動 / 激怒 /

怀
huái
उर
ura
中 / 乳 / 乳房 / 吸奶 / 奶子 / 心口 / 怀 / 懷 / 胸 / 胸口 / 胸脯 / 胸膛 / 胸部 /

怀疑
huái yí
आसङ्का
āsāṅkā
怀疑 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /
द्वेज्झ
dvejja
可疑的 / 怀疑 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 矛盾 / 置疑 /
द्वेव्हक
dvelhaka
怀疑 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 /

怒
nù
कोध
kodha
忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 愤 / 愤怒 / 憤怒 /
दोस
dosa
忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 愆 / 愤 / 愤怒 / 憤怒 / 毛病 / 瑕 / 耆 / 破綻 / 缺點 / 缺陷 / 缺點 / 腐敗 / 責備 / 蹉 / 過失 /
पकोप
pakopa
怒 / 怒火 / 佛 / 愤 / 愤怒 / 憤怒 / 激動 / 激怒 /

怕
pà
आसङ्का
āsāṅkā
怀疑 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /
उत्तास
uttāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
तास
tāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 發抖 / 虞 /

पटिभय
paṭibhaya
害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
भय
bhaya
可怕的 / 害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐怖的 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 / 非常害怕 /

怜悯
lián mǐn

अनुकम्पन
anukampana
同情 / 怜悯 / 憫 / 愍 / 慈悲 / 憐 /
करुणा
karuṇā
同情 / 怜悯 / 憫 / 愍 / 慈悲 / 憐 / 憐憫 /
कारुञ्ज
kāruñña
同情 / 怜悯 /
दया
dayā
仁慈 / 同情 / 好意 / 怜悯 / 恤 / 憐憫 /

思想
sī xiǎng
आभोग
ābhoga
以為 / 心思 / 心想 / 思想 / 想法 / 想過 /
गाह
gāha
主意 / 念頭 / 思想 / 想法 / 意念 / 意見 / 捕獲 / 構想 / 理念 / 理想 / 表象 / 點子 /

चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 顏料 /

चिन्तन
cintana
以為 / 心思 / 心想 / 思想 / 思索 / 思維 / 思緒 / 思維 / 思考 / 思路 / 想法 / 想過 /

思索
sī suǒ
चिन्तन
cintana
以為 / 心思 / 心想 / 思想 / 思索 / 思維 / 思緒 / 思維 / 思考 / 思路 / 想法 / 想過 /

思維
sī wéi
चिन्तन
cintana
以為 / 心思 / 心想 / 思想 / 思索 / 思維 / 思緒 / 思維 / 思考 / 思路 / 想法 / 想過 /

思緒
sī xù
चिन्तन
cintana
以為 / 心思 / 心想 / 思想 / 思索 / 思維 / 思緒 / 思維 / 思考 / 思路 / 想法 / 想過 /

思维
sī wéi
चिन्तन
cintana
以為 / 心思 / 心想 / 思想 / 思索 / 思維 / 思緒 / 思維 / 思考 / 思路 / 想法 / 想過 /

思考
sī kǎo
कप्पन
kappana
चिन्तन
cintana
以為 / 心思 / 心想 / 思想 / 思索 / 思維 / 思緒 / 思維 / 思考 / 思路 / 想法 / 想過 /

तक्कन
takkana
思考 / 推理 /

思路
sī lù
चिन्तन
cintana
以為 / 心思 / 心想 / 思想 / 思索 / 思維 / 思緒 / 思維 / 思考 / 思路 / 想法 / 想過 /

怠
dài
अलस
alasa
佚 / 怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶散 / 懶散的 / 懶 / 懶惰 / 閒 /
कुसीत
kusīta
怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶 / 懶惰 /

怠
dài
अलस
alasa
佚 / 怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶散 / 懶散的 / 懶 / 懶惰 / 閒 /
कुसीत
kusīta
怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶 / 懶惰 /

怠
dài
अलस
alasa
佚 / 怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶散 / 懶散的 / 懶 / 懶惰 / 閒 /

怠惰
dài duò
आलस्य
ālasya
आलसिय
ālasiya
कोसज्ज
kosajja
तन्दी
tanḍī
怠惰 / 疲倦 / 疲勞 /

急劇
jí jù
कटुक
katuka
尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 激烈 / 犀利 / 痛苦的 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
खर
khara
伧 / 使勁 / 固 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 痛苦的 / 銳 / 鋒利 / 锐 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / 銳 / 鋒利 / 锐 /

तिप्प
tiṭṭha
尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 銳 / 鋒利 / 锐 /

तिप्प
tiṭṭha
尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
तिप्प
tippa
刺骨的 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 急性 / 犀利 / 銳 / 鋒利 / 锐 /

急性
jí xìng
तिप्प
tippa
刺骨的 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 急性 / 犀利 / 銳 / 鋒利 / 锐 /

性命
xìng mìng
चरित
carita
世 / 人命 / 人生 / 個性 / 命 / 品行 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /
जीव
jīva
世 / 人命 / 人生 / 命 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /

पाण
pāṇa
一口气 / 一口氣 / 世 / 人命 / 人生 / 呼吸 / 命 / 壽命 / 性命 / 息 / 氣息 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 生物 / 身 / 鼻息 / 鼻息 /

怠
dài
अलस
alasa
佚 / 怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶散 / 懶散的 / 懶 / 懶惰 / 閒 /
कुसीत
kusīta
怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶 / 懶惰 /

性情
xìng qíng
अधिमुक्ति
adhimutti
傾向 / 執著 / 性情 / 決心 /
धम्म
dhamma
事實 / 品德 / 大自然 / 天性 / 德 / 德性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性質 / 本性 / 本質 / 本质 / 法 / 自然 / 自然界 / 道德 /
धम्मता
dhammatā
大自然 / 天性 / 性情 / 性質 / 性質 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /
पकति
pakati
人品 / 人物 / 品格 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性質 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /
भाव
bhāva
況 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性質 / 情況 / 本性 / 本質 / 本质 / 條件 / 況 / 状态 / 自然 / 自然界 /

性愛
xìng ài
पियायना
piyāyanā
性愛 / 恋 / 恋爱 / 情 / 愛 / 愛上 / 愛情 / 慈愛 / 戀 / 戀愛 / 摯愛 / 春 / 深愛 / 熱愛 / 爱 / 爱的 / 鐘情 /

性格
xìng gé
धम्म
dhamma
事實 / 品德 / 大自然 / 天性 / 德 / 德性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性質 / 本性 / 本質 / 本质 / 法 / 自然 / 自然界 / 道德 /
पकति
pakati
人品 / 人物 / 品格 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性質 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /
भाव
bhāva
況 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性質 / 情況 / 本性 / 本質 / 本质 / 條件 / 況 / 状态 / 自然 / 自然界 /

性能
xìng néng
किरिया
kiriya
作用 / 券 / 動作 / 性能 / 績 / 績 / 績 / 行动 / 行動 / 表現 /

性質
xìng zhì
धम्म
dhamma
事實 / 品德 / 大自然 / 天性 / 德 / 德性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性質 / 本性 / 本質 / 本质 / 法 / 自然 / 自然界 / 道德 /
धम्मता
dhammatā
大自然 / 天性 / 性情 / 性質 / 性質 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /
पकति
pakati
人品 / 人物 / 品格 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性質 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /
भाव
bhāva
況 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性質 / 情況 / 本性 / 本質 / 本质 / 條件 / 況 / 状态 / 自然 / 自然界 /

性质
xìng zhì
धम्म
dhamma
事實 / 品德 / 大自然 / 天性 / 德 / 德性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性質 / 本性 / 本質 / 本质 / 法 / 自然 / 自然界 / 道德 /
धम्मता
dhammatā
大自然 / 天性 / 性情 / 性質 / 性質 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /
पकति
pakati
人品 / 人物 / 品格 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性質 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /
भाव
bhāva
況 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性質 / 情況 / 本性 / 本質 / 本质 / 條件 / 況 / 状态 / 自然 / 自然界 /

怨
yuàn
अवण्ण
avaṇṇa
咎 / 怨 / 歸咎 / 罪 / 責備 / 責怪 /
उपवाद
upavāda
侮 / 侮辱 / 咎 / 怨 / 挑剔 / 歸咎 / 污辱 / 罪 / 責備 / 責怪 / 辱 /
निग्गह
niggaha
咎 / 怨 / 歸咎 / 罪 / 責備 / 責怪 / 過失 /

怨恨
yuàn hèn
आघात
āghāta
仇 / 仇恨 / 怨恨 / 憎恨 / 激怒 / 碰撞 /

佛
fú
कोध
kodha
忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 愤 / 愤怒 / 憤怒 /
दोस
dosa
忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 愆 / 愤 / 愤怒 / 憤怒 / 毛病 / 瑕 / 耆 / 破綻 / 缺点 / 缺陷 / 缺點 / 腐敗 / 責備 / 蹉 / 過失 /
पकोप
pakopa
怒 / 怒火 / 佛 / 愤 / 愤怒 / 憤怒 / 激動 / 激怒 /

怯懦的
qiè nuò de
भीरुक
bhīruka
怯懦的 / 忱 / 懦 / 懦弱 / 胆小 / 膽小 /

忱
chū
आसङ्का
āsaṅkā
怀疑 / 怕 / 忱 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /
उत्तास
uttāsa
怕 / 忱 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
तास
tāsa
怕 / 忱 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 發抖 / 虞 /
पटिभय
paṭibhaya
害怕 / 怕 / 忱 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
भय
bhaya
可怕的 / 害怕 / 怕 / 忱 / 恐 / 恐怖 / 恐怖的 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 / 非常害怕 /
भीरुक
bhīruka
怯懦的 / 忱 / 懦 / 懦弱 / 胆小 / 膽小 /

总体
zǒng tǐ
असेस
asesa
一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
केवल
kevala
仅仅 / 全部 / 全部的 / 只有 / 唯 / 唯一 / 囫 / 孤 / 完全 / 总体 / 惟 / 整 / 整个 / 整個 / 整数 / 整整 / 絕對 / 绝对 / 通通 / 鞋底 /
कसिण
kaṣiṇa
全部 / 全部的 / 囫 / 完全 / 总体 / 整 / 整个 / 整個 / 整数 / 整整 / 通通 /
निखिल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /

总是
zǒng shì
अभिण्हसो
abhiṇhaso
一向 / 一律 / 从来 / 再三地 / 历来 / 向來 / 始終 / 始终 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /
निबद्धं
nibaddhaṃ
一向 / 一律 / 从来 / 历来 / 向來 / 始終 / 始终 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /

恒久
héng jiǔ
थिर
thira
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 快 / 恒久 / 持久 / 有耐久力 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 持久的 / 迅 / 迅速 / 速 / 遽 /

恆星
héng xīng
उळ
uḷu
五星 / 加上星号 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
तारका
tārakā
五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
तारा
tāra
五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
नक्खत्त
nakkhatta
五星 / 加上星号 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 /

恋爱
liàn
पियायना
piyāyanā
性愛 / 恋 / 恋爱 / 情 / 愛 / 愛上 / 愛情 / 慈愛 / 戀 / 戀愛 / 摯愛 / 春 / 深愛 / 熱愛 / 爱 / 爱的 / 鐘情 /

恋爱
liàn ài
पेम
pema
恋爱 / 感情 / 春 / 爱 /
पियायना
piyāyanā
性愛 / 恋 / 恋爱 / 情 / 愛 / 愛上 / 愛情 / 慈愛 / 戀 / 戀愛 / 摯愛 / 春 / 深愛 / 熱愛 / 爱 / 爱的 / 鐘情 /

恐
kǒng
आसङ्का
āsāṅkā
怀疑 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /
उत्तास
uttāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
तास
tāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 發抖 / 虞 /
पटिभय
paṭibhaya
害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
भय
bhaya
可怕的 / 害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐怖的 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 / 非常害怕 /
恐怕
kǒng pà
पि
pi
不過 / 乃是 / 也許 / 也许 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 可能 / 大概 / 恐怕 / 惟 / 或 / 或許 / 或许 / 然 / 然而 / 究竟 /

恐怖
kǒng bù
आसङ्का
āsāṅkā
怀疑 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /
उत्तसन
uttasana
恐怖 / 驚慌 /
उत्तास
uttāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
उत्रास
utrāsa
तास
tāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 發抖 / 虞 /
पटिभय
paṭibhaya
害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
भय
bhaya
可怕的 / 害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐怖的 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 / 非常害怕 /

恐怖的
kǒng bù de
बीभच्च
bībhacca
了不得 / 可怕 / 可怕的 / 恐怖的 / भय
bhaya
可怕的 / 害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐怖的 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 / 非常害怕 /
भयानक
bhayānaka
可怕 / 可怕的 / 恐怖的 /
भयावह
bhayāvaha
可怕 / 可怕的 / 恐怖的 /
भीम
bhīma
可怕 / 可怕的 / 恐怖的 /
भीसन
bhīsana
可怕 / 可怕的 / 恐怖的 /

恐惧
kǒng jù
आसङ्का
āsāṅkā
怀疑 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /
उत्तास
uttāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
तास
tāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 發抖 / 虞 /
पटिभय
paṭibhaya
害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
भय
bhaya
可怕的 / 害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐怖的 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 / 非常害怕 /

可怕
kǒng pà
आसङ्का
āsāṅkā
怀疑 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /
उत्तास
uttāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
तास
tāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 發抖 / 虞 /
पटिभय
paṭibhaya
害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
भय
bhaya
可怕的 / 害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐怖的 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 / 非常害怕 /

恐懼
kǒng jù
आसङ्का
āsāṅkā
怀疑 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /
उत्तास
uttāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
तास
tāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 發抖 / 虞 /
पटिभय
paṭibhaya
害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
भय
bhaya
可怕的 / 害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐怖的 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 / 非常害怕 /

恒
héng
धुव
dhuva
常任 / 常设的 / 恒 / 永久 / 永久的 /
恒河
héng hé
भागिरथी
bhāgīrathī

恙
yàng
आतङ्क
ātaṅka
弊病 / 恙 / 疾 / 疾病 / 病 / 病症 / 病的 / 症 /
आमय
āmaya
恙 / 疾病 / 病 / 病症 / 症 /
गद
gada
作響 / 健全 / 呕心 / 嘯 / 声 / 声音 / 恙 / 有聲 / 演講 / 疾 / 疾病 / 病 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
गेलञ्ज
gelañña
呕心 / 恙 / 疾 / 疾病 / 病 /

恢
huī
उरु
uru
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 大號 / 裝 / 裝 / 弘 / 恢 / 曼 / 極大 / 硕 / 莫大 / 觥 /
तुमुल
tumula
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 裝 / 裝 / 弘 / 恢 / 極大 / 盛大的 / 硕 / 莫大 / 觥 /

恢复
huī fù
फातिकम्म
phātikamma
加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 増殖 / 增添 / 增長 / 复原 / 复职 / 恢复 / 恢復 / 益 / 茁 /
恢復
huī fù
फातिकम्म
phātikamma
加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 増殖 / 增添 / 增長 / 复原 / 复职 / 恢复 / 恢復 / 益 / 茁 /

恤
xù
दया
dayā
仁慈 / 同情 / 好意 / 怜悯 / 恤 / 憐憫 /
耻辱
chǐ rǔ
अयस
ayasa
耻辱 / 耻 / 辱 /

恩人
ēn rén
उपकारी
upakārī
恩惠
ēn huì
आसी
āsī
庇佑 / 恩惠 / 祚 / 祝福 / 福 / 福氣 /

息
xī
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 増殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 涨 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 増殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 涨 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /

पाण
pāṇa
一口气 / 一口氣 / 世 / 人命 / 人生 / 呼吸 / 命 / 壽命 / 性命 / 息 / 氣息 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 生物 / 身 / 鼻息 / 鼻息 /

恶
è
कण्ह
kaṅha
乌 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 恶 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 滯 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黠 /

悍
hàn
चण्ड
caṇḍa
多情 / 悍 / 暴力 / 暴烈 /
悠久
yōu jiǔ
दीघ
dīgha
冗长的 / 多头 / 悠久 / 莘 / 长 / 长的 /

患
huàn
कुक्कुच
kukkucca
忧 / 患 / 愁 / 憂 / 憂慮 / 懊悔 / 担心 / 操心 / 擔心 / 擔憂 /

患病
huàn bìng
आतुर
ātura
患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病弱 / 瘁 / 尪 /
आबाधिक
ābādhika
患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病人 / 病弱 / 瘁 / 尪 /
गिलान
gilāna
不舒服的 / 患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病人 / 病弱 / 病的 / 瘁 / 尪 /

患者
huàn zhě
अधिवासक
adhivāsaka
患者 / 持久的 / 病人 / 病患 / 耐心 /

憫
mǐn
अनुकम्पन
anukampana
同情 / 怜悯 / 憫 / 愍 / 慈悲 / 憐 /
करुणा
karuṇā
同情 / 怜悯 / 憫 / 愍 / 慈悲 / 憐 / 憐憫 /

悲慘
bēi cǎn
कसिर
kasira
困难 / 困難 / 悲慘 / 蹇 / 難度 / 麻煩 /

悲泣
bēi qì
परिदेव
parideva

情
qíng
पियायना
piyāyānā
性愛 / 恋 / 恋爱 / 情 / 愛 / 愛上 / 愛情 / 慈愛 / 戀 / 戀愛 / 摯愛 / 春 / 深愛 / 熱愛 / 爱 / 爱的 / 鍾情 /

情人
qíng rén
अय्या
ayyā
女主人 / 女士 / 情人 / 情妇 / 淑女 / 淑女 / 贵妇人 /

情報
qíng bào
निवेदन
nivedana
公告 / 呈報 / 告示 / 報告 / 報案 / 情報 / 舉報 /
पटिभाग
paṭibhāṇa
情報 / 情报 / 敏捷 / 智力 / 理智 / 窍 /
बु
buddhi
估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情報 / 情报 / 旒 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 窍 / 精神 / 老 / 老的 / 耄 / 舊 / 舊的 /

情夫
qíng fū
जार
jāra

情妇
qíng fù
अय्या
ayyā
女主人 / 女士 / 情人 / 情妇 / 淑女 / 淑女 / 贵妇人 /

情报
qíng bào
पटिभाग
paṭibhāṇa
情報 / 情报 / 敏捷 / 智力 / 理智 / 窍 /
बु
buddhi
估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情報 / 情报 / 旒 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 窍 / 精神 / 老 / 老的 / 耄 / 舊 / 舊的 /

情况
qíng kuàng
आकार
ākāra
亮相 / 出場 / 境界 / 外表 / 外观 / 外貌 / 容貌 / 情況 / 样子 / 模樣 / 樣子 / 相貌 / 色 / 貌 / 面貌 /
भाव
bhāva
况 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 情况 / 本性 / 本質 / 本质 / 條件 / 況 / 状态 / 自然 / 自然界 /

情理
qíng lǐ
अत्थवस
atthavasa
使用 / 利用 / 动机 / 原因 / 因 / 情理 / 故 / 施用 / 理 / 理性 / 理由 / 用 / 用法 / 用途 / 由 / 緣故 / 运用 / 運用 / 道理 /
अपदेश
apadesa
动机 / 原因 / 因 / 声明 / 说明书 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 聲明 / 說法 / 说法 / 道理 / 陈述 / 陳述 /
कारण
kāraṇa
动机 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 道理 /
ठान
ṭhāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 狀 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /

情趣
qíng qù
पीति
pīti
喜悅 / 喜悦 / 情緒 / 情趣 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /

情趣
qíng qù
पीति
pīti
喜悅 / 喜悦 / 情緒 / 情趣 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /

惊
jīng
खोभ
khobha
休克 / 惊 / 激動 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震驚 / 驚 / 驚恐 /
चाल
cāla
休克 / 惊 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震驚 / 驚 / 驚恐 /

惟
wéi
आदु
ādū
不過 / 乃是 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 惟 / 或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 然而 / 还是 / 還是 /
एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /
केवल
kevala
仅仅 / 全部 / 全部的 / 只有 / 唯 / 唯一 / 圆 / 孤 / 完全 / 总体 / 惟 / 整 / 整个 / 整個 / 整数 / 整整 / 絕對 / 绝对 / 通通 / 鞋底 /
तु
tu

不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 现 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
पन
pana

不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /
पि
pi

惟一
wéi yī
एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /

惟一
wéi yī
एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /

惟一
wéi yī
एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /

惡
è
कण्ह
kaṇha
乌 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 恶 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 濫 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
पाप
pāpa
孽 / 惡 / 罪 / 邪惡 /

惡意
è yì
उपनयहना
upanayhanā
उपनाह
upanāha
ब्यापाद
byāpāda

惡棍
è gùn
धुत्त
dhutta
धुत्तक
dhuttaka

惩罚
chéng fá
दण्ड
daṇḍa
刑 / 刑罰 / 处罰 / 懲罰 / 懲罰 / 柄 / 梗 / 罰金 / 荖 / 蒂 /

憚
dàn
आसङ्का
āsaṅkā
怀疑 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /
उत्तास
uttāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /

तास
tāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 發抖 / 虞 /
पटिभय
paṭibhaya

害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
भय
bhaya

可怕的 / 害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐怖的 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 / 非常害怕 /
भीति
bhīti
害怕 / 憚 /

惰
duò
अलस
alasa
佚 / 怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶散 / 懶散的 / 懶 / 懶惰 / 閒 /
कुसीत
kusīta
怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶 / 懶惰 /

想
xiǎng
इच्छ
iccha
想 / 渴望 /
कप्प
kappa
想 / 相似 / 相似 /
तक्क
takka
想 / 逻 / 逻辑 / 邏輯 /

想像
xiǎng xiàng
चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 颜料 /

पटिबिम्ब
paṭibimba
偶 / 像 / 副本 / 印像 / 反映 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /

पटिमा
paṭimā
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 / 雕像 /
बिम्ब
bimba
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 / 雕像 /

想法
xiǎng fǎ
आभोग
ābhoga
以為 / 心思 / 心想 / 思想 / 想法 / 想過 / 心 /
गाह
gāha
主意 / 念頭 / 思想 / 想法 / 意念 / 意見 / 捕獲 / 構想 / 理念 / 理想 / 表象 / 點子 /

चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 颜料 /
चिन्तन

cintana
以為 / 心思 / 心想 / 思想 / 思索 / 思維 / 思緒 / 思维 / 思考 / 思路 / 想法 / 想過 /

想象
xiǎng xiàng
चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 顏料 /

想過
xiǎng guò
आभोग
abhoga
以為 / 心思 / 心想 / 思想 / 想法 / 想過 /
चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 顏料 /
चिन्तन

चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 顏料 /
चिन्तन
cintana
以為 / 心思 / 心想 / 思想 / 思索 / 思維 / 思緒 / 思維 / 思考 / 思路 / 想法 / 想過 /

惶
huáng
दर
dara
惶 / 焦急 / 焦慮 / 焦慮 /
दरथ
daratha
惶 / 焦急 / 焦慮 / 焦慮 /

惶恐
huáng kǒng
आसङ्का
āsaṅkā
怀疑 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 慚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /
उत्तास
uttāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 慚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
तास

tāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 慚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 發抖 / 虞 /
पटिभय
paṭibhaya
害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 慚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
भय
bhaya
可怕的 / 害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐怖的 / 恐惧 / 恐懼 / 慚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 / 非常害怕 /

惹火
rě huǒ
उण्ह
uṇha
加热 / 惹火 / 暑 / 火爆 / 火辣 / 烫 / 热 / 热气 / 热的 / 熱 / 熱氣 / 燙 / 辣 /

愁
chóu
कुक्कुच्य
kukkucca
忧 / 患 / 愁 / 憂 / 憂慮 / 懊悔 / 担心 / 操心 / 擔心 / 擔憂 /

愆
qiān
दोस
dosa
忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 愆 / 愤 / 愤怒 / 憤怒 / 毛病 / 瑕 / 眚 / 破綻 / 缺点 / 缺陷 / 缺點 / 腐敗 / 責備 / 蹉 / 過失 /

愉快
yú kuài
अत्तमन
attamana
快乐的 / 愉快 / 高兴的 / 高興 /
अस्साद
assāda
口味 / 味 / 味兒 / 味道 / 品味 / 品尝 / 品尝 / 啗 / 啜 / 嘗 / 尝 / 愉快 / 有味道 / 滋味 / 滿足 / 趣味 /

आराम
ārāma
修道院 / 僧院 / 娛 / 寺院 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 高兴 /
काम
kāma
娛 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 高兴 /
इद्द
iṭṭha
婉 / 宜人的 / 愉快 / 愉快的 /

काम
kāma
娛 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 高兴 /

तुडि
tutṭhi
喜悅 / 喜悦 / 娛 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 高兴 /
परिभोग
paribhoga
享受 / 使用 / 利用 / 愉快 / 施用 / 用 / 用法 / 用途 / 运用 / 運用 /
फासुक

phāsuka
不方便 / 便 / 便利 / 宜人 / 愉快 / 方便 /

愉快的
yú kuài de
अनुकूल
anukūla
愉快的 / 殷勤 /
अभिराम

abhirāma
合意的 / 愉快的 /
इद्द
iṭṭha
婉 / 宜人的 / 愉快 / 愉快的 /
कन्त
kanta
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 合意的 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 愉快的 / 老公 /
फासु
phāsu
安慰 / 安逸 / 容易 / 容易的 / 愉快的 / 慰 / 慰藉 / 方便的 / 易 / 舒服 / 舒服的 / 舒适 /

愉悅
yú yuè
आराम
ārāma
修道院 / 僧院 / 娛 / 寺院 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 高兴 /
काम
kāma
娛 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 高兴 /
तुडि
tutṭhi
喜悅 / 喜悦 / 娛 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 高兴 /

慈
mǐn
अनुकम्पन
anukampana
同情 / 怜悯 / 憫 / 愍 / 慈悲 / 憐 /
करुणा
karuṇā
同情 / 怜悯 / 憫 / 愍 / 慈悲 / 憐 / 憐憫 /

意
yì
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 谛 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /

意向
yì xiàng
चेत
ceta
宗旨 / 心意 / 意向 / 意图 / 意圖 / 旨趣 / 用心 / 用意 / 目的 /

意图
yì tú
चेत
ceta
宗旨 / 心意 / 意向 / 意图 / 意圖 / 旨趣 / 用心 / 用意 / 目的 /

意圖
yì tú
अज्झासय
ajjhāsaya
安排 / 意圖 /
अधिप्पाय
adhippāya
चेत
ceta
宗旨 / 心意 / 意向 / 意图 / 意圖 / 旨趣 / 用心 / 用意 / 目的 /
चेतना
cetanā
परिकप्प
parikappa
假定 / 意圖 /

意志
yì zhì
छन्द
chanda
不妨 / 心願 / 必 / 意志 / 意願 / 愿望 / 慾 / 欲 / 祝 / 要 / 遺囑 /
意念
yì niàn
ग़ाह
gāha
主意 / 念頭 / 思想 / 想法 / 意念 / 意見 / 捕獲 / 構想 / 理念 / 理想 / 表象 / 點子 /

意思
yì sī
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 谛 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /

意指
yì zhǐ
उपक्कम
upakkama
侵襲 / 出擊 / 征 / 意指 / 手段 / 抨 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 方式 / 方法 / 發作 / 行凶 /
意義

yì yì
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 谛 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /
अभिधेय्य
abhidheyya

意見
yì jiàn
गाह
gāha
主意 / 念頭 / 思想 / 想法 / 意念 / 意見 / 捕獲 / 構想 / 理念 / 理想 / 表象 / 點子 /
दिट्ठि
ditṭhi
信仰 / 信奉 / 信念 / 意見 / 理論 / 理论 / 論 / 论 /

意願
yì yuàn
छन्द
chanda
不妨 / 心願 / 必 / 意志 / 意願 / 愿望 / 慾 / 欲 / 祝 / 要 / 遺囑 /

愚
yú
जळ
jala
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 惰 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दन्ध
dandha
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 惰 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /

愚昧
yú mèi
अञ्जाण
aññāṇa
不知 / 愚昧 / 无知 / 無知 /
अन्धभूत
andhabhūta
侗 / 忡 / 愚昧 / 崕 /

愚笨
yú bèn
जळ
jala
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 惰 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दन्ध
dandha
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 惰 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /

愚蠢
yú chǔn
दन्ध
dandha
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
बाल
bāla
傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
बाल्य
bālya
小时候 / 幼年 / 幼年时代 / 愚蠢 / 童年 / 自小 / 自幼 / 蠢事 /

愚蠢的
yú chǔn de
अन्ध
andha
傻 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 盲 / 盲人 / 相親 / 瞎 / 瞎子 / 瞎眼 / 瞽 / 笨 / 笨的 /
जळ
jala
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दन्ध
dandha
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दुप्पञ्च
duppañña
傻 / 傻子 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
दुम्मेध
dummedha
傻 / 傻子 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
बाल
bāla
傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孳 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /

愛
ài
तण्हा
taṅhā
口渴 / 愛 / 欲望 / 渴望 / 渴求 /
पियायना
piyāyanā
性愛 / 恋 / 恋爱 / 情 / 愛 / 愛上 / 愛情 / 慈愛 / 戀 / 戀愛 / 摯愛 / 春 / 深愛 / 熱愛 / 爱 / 爱的 / 鐘情 /

愛上
ài shàng
पियायना
piyāyanā
性愛 / 恋 / 恋爱 / 情 / 愛 / 愛上 / 愛情 / 慈愛 / 戀 / 戀愛 / 摯愛 / 春 / 深愛 / 熱愛 / 爱 / 爱的 / 鐘情 /

愛人
ài rén
कन्ता
kantā
伉 / 太太 / 夫人 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娘 / 娶妻 / 婦人 / 婦女 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
कलत्त
kalatta
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
जानि
jāni
伉 / 剝奪 / 剝夺 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 / 损失 / 損失 / 爱人 / 老婆 / 茫然 / 败 /
जाया
jāyā
伉 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
भरिया
bhariyā
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /

愛情
ài qíng
पियायना
piyāyanā
性愛 / 恋 / 恋爱 / 情 / 愛 / 愛上 / 愛情 / 慈愛 / 戀 / 戀愛 / 摯愛 / 春 / 深愛 / 熱愛 / 爱 / 爱的 / 鐘情 /
感情
gǎn qíng
पेम
pema
恋爱 / 感情 / 春 / 爱 /

愣
lèng
तुच्छ
tuccha
寥 / 愣 / 榻 / 清空 / 空 / 空心 / 空格 / 空洞 / 空瓶 / 空白 / 空的 / 空著 / 扎 /

愤
fèn
कोध
kodha
忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 愤 / 愤怒 / 愤怒 /
दोस
dosa
忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 愆 / 愤 / 愤怒 / 愤怒 / 毛病 / 瑕 / 膏 / 破綻 / 缺点 / 缺陷 / 缺點 / 腐敗 / 責備 / 蹉 / 過失 /
पकोप
pakopa
怒 / 怒火 / 佛 / 愤 / 愤怒 / 愤怒 / 激動 / 激怒 /

愤怒
fèn nù
कोध
kodha
忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 愤 / 愤怒 / 愤怒 /
दोस
dosa
忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 愆 / 愤 / 愤怒 / 愤怒 / 毛病 / 瑕 / 膏 / 破綻 / 缺点 / 缺陷 / 缺點 / 腐敗 / 責備 / 蹉 / 過失 /
पकोप
pakopa
怒 / 怒火 / 佛 / 愤 / 愤怒 / 愤怒 / 激動 / 激怒 /

愿
yuàn
कल्ल
kalla
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 僦 / 准备 / 妙 / 就绪 / 就绪 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /
愿望
yuàn wàng
अपेक्खन
apekkhana
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /
अभिलासा
abhilāsā
希望 / 愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
आसा
āsā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
आसिंसना
āsimsanā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /

इच्छन
icchana
希望 / 愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
इच्छा
icchā
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
छन्द
chanda
不妨 / 心願 / 必 / 意志 / 意願 / 愿望 / 慾 / 欲 / 祝 / 要 / 這囉 /
जालिनी
jālīnī
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 渴求 / 要求 / 願望 /
निकामना
nikāmanā
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /
पिहायना
pihāyanā
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /

慈善
cí shàn
दान
dāna
慈悲
cí bēi
अनुकम्पन
anukampana
同情 / 怜悯 / 悯 / 愍 / 慈悲 / 憐 /
करुणा
karuṇā
同情 / 怜悯 / 悯 / 愍 / 慈悲 / 憐 / 憐憫 /

慈悲的
cí bēi de
अनुकम्पक
anukampaka
अनुकम्पी
anukampī
慈愛
cí ài
पियायना
piyāyanā
性愛 / 恋 / 恋爱 / 情 / 愛 / 愛上 / 愛情 / 慈愛 / 戀 / 戀愛 / 摯愛 / 春 / 深愛 / 熱愛 / 爱 / 爱的 / 鐘情 /

慌
huāng
आकुल
ākula
困惑 / 困惑的 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 泪 / 泪 / 纷 / 迷糊 / 迷茫 /
मड्कु
maṅku
困惑 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 泪 / 泪 / 纷 / 迷糊 / 迷茫 /

惨重
cǎn zhòng
गरु
garu
值得尊敬的 / 可敬的 / 導師 / 師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /
गुरु
guru
師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /
गरुक
garuka
岸然 / 惨重 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 窳 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重大 / 重的 / 重要 / 重要的 / 重重 /

भारिक
bhārika
惨重 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重的 / 重重 /

慢
màn
जळ
jala
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दन्ध
dandha
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /

慢性
màn xìng
अनुसायिक
anusāyika
固有的 / 慢性 / 慢性病 / 慢性的 /
慢性病

màn xìng bìng
अनुसायिक
anusāyika
固有的 / 慢性 / 慢性病 / 慢性的 /
慢性的

màn xìng de
अनुसायिक
anusāyika
固有的 / 慢性 / 慢性病 / 慢性的 /
慢慢地

màn màn dì
जळ
jala
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दन्ध
dandha
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
慢的

màn de
जळ
jala
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दन्ध
dandha
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
慣例

guàn lì
अनुस्सव
anusava
传统 / 傳統 / 慣例 /

慰
wèi
अस्सास
assāsa
吸入 / 安慰 / 慰 / 慰藉 / 舒服 / 舒适 /
फासु
phāsu
安慰 / 安逸 / 容易 / 容易的 / 愉快的 / 慰 / 慰藉 / 方便的 / 易 / 舒服 / 舒服的 / 舒适 /

慰藉
wèi jiè
अस्सास
assāsa
吸入 / 安慰 / 慰 / 慰藉 / 舒服 / 舒适 /
फासु
phāsu
安慰 / 安逸 / 容易 / 容易的 / 愉快的 / 慰 / 慰藉 / 方便的 / 易 / 舒服 / 舒服的 / 舒适 /

慷慨
kāng kǎi
चाग
cāga
天才 / 慷慨 / 礼物 / 禮物 / 賜 / 贈送 / 賜 / 賜 /

愆
yù
छन्द
chanda
不妨 / 心願 / 必 / 意志 / 意願 / 愿望 / 愆 / 欲 / 祝 / 要 / 遺囑 /

憂
yōu
कुक्कुच्य
kukkucca
忧 / 患 / 愁 / 憂 / 憂慮 / 懊悔 / 担心 / 操心 / 擔心 / 擔憂 /
दोमनस्स
domanassa
不愉快 / 憂 /

憂慮
yōu lǜ
कुक्कुच्य
kukkucca
忧 / 患 / 愁 / 憂 / 憂慮 / 懊悔 / 担心 / 操心 / 擔心 / 擔憂 /

憎恨
zēng hèn
आघात
āghāta
仇 / 仇恨 / 怨恨 / 憎恨 / 激怒 / 碰撞 /

憎惡
zēng è
जिगुच्छन
jigucchana
厭惡 / 憎惡 /

憐
lián
अनुकम्पन
anukampana
同情 / 怜悯 / 憐 / 愍 / 慈悲 / 憐 / करुणा
karuṇā
同情 / 怜悯 / 憐 / 愍 / 慈悲 / 憐 / 憐憫 /

憐憫
lián mǐn
करुणा
karuṇā
同情 / 怜悯 / 憐 / 愍 / 慈悲 / 憐 / 憐憫 /
दया
dayā
仁慈 / 同情 / 好意 / 怜悯 / 恤 / 憐憫 /

憤
kui
आकुल
ākula
困惑 / 困惑的 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 紛 / 迷糊 / 迷茫 /
मङ्कु
maṅku
困惑 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 紛 / 迷糊 / 迷茫 /

憔悴的
qiáo cuì de
किस
kisa
憔悴的 / 衰弱的 /

憤怒
fèn nù
कोध
kodha
忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 憤 / 憤怒 / 憤怒 /
दोस
dosa
忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 愆 / 憤 / 憤怒 / 憤怒 / 毛病 / 瑕 / 膏 / 破綻 / 缺點 / 缺點 / 缺點 / 腐敗 / 責備 / 蹉 / 過失 /

懇求
kěn qiú
अभियाचन
abhiyācana
懇求 / 求 / 要 / 要求 / 要求物 / 請求 / 請求 /
懈怠
xiè dài
पमाद
pamāda
懈怠 / 疏忽 /

懇求
kěn qiú
अभियाचन
abhiyācana
懇求 / 求 / 要 / 要求 / 要求物 / 請求 / 請求 /
懈怠
xiè dài
पमाद
pamāda
懈怠 / 疏忽 /

懇求
kěn qiú
अभियाचन
abhiyācana
懇求 / 求 / 要 / 要求 / 要求物 / 請求 / 請求 /
懈怠
xiè dài
पमाद
pamāda
懈怠 / 疏忽 /

應用
yīng yòng
अभिनिरोपन
abhiniropana
應用 / 施用 / 申請 / 申請書 / 運用 /
आयाचना
āyācanā
應用 / 求 / 申請 / 申請書 / 請求 / 請求 /
उपयोग
upayoga
受雇 / 應用 / 申請 / 申請書 / 連接 / 雇用 /

懊悔
ào huǐ
अनुताप
anutāpa
उपताप
upatāpa
懊悔 / 麻煩 /
कुक्कुच्य
kukkucca
忧 / 患 / 愁 / 憂 / 憂慮 / 懊悔 / 担心 / 操心 / 擔心 / 擔憂 /

懶
lǎn
अलस
alasa
佚 / 怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶散 / 懶散的 / 懶 / 懶惰 / 閒 /
कुसीत
kusīta
怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶 / 懶惰 /

懶惰
lǎn duò
अलस
alasa
佚 / 怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶散 / 懶散的 / 懶 / 懶惰 / 閒 /
कुसीत
kusīta
怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶 / 懶惰 /

懶惰的
lǎn duò de
अलस
alasa
佚 / 怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶散 / 懶散的 / 懶 / 懶惰 / 閒 /
कुसीत
kusīta
怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶 / 懶惰 /

懶散
lǎn sàn
अलस
alasa
佚 / 怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶散 / 懶散的 / 懶 / 懶惰 / 閒 /

懶散的
lǎn sàn de
अलस
alasa
佚 / 怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶散 / 懶散的 / 懶 / 懶惰 / 閒 /

懦
nuò
भीरुक
bhīruka
怯懦的 / 怵 / 懦 / 懦弱 / 胆小 / 膽小 /

懦弱
nuò ruò
भीरुक
bhīruka
怯懦的 / 怵 / 懦 / 懦弱 / 胆小 / 膽小 /

懦弱的
nuò ruò de
भीरु
bhīru

懲罰
chéng fá
दण्ड
daṇḍa
刑 / 刑罰 / 处罚 / 惩罚 / 懲罰 / 柄 / 梗 / 罚金 / 莖 / 蒂 /

惰
měng
जळ
jaḷa
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 惰 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दन्ध
dandha
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 惰 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /

懶
lǎn
अलस
alasa
佚 / 怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶散 / 懶散的 / 懶 / 懶惰 / 閒 /

懶
lǎn
अलस
alasa
佚 / 怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶散 / 懶散的 / 懶 / 懶惰 / 閒 /
कुसीत
kusīta
怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶 / 懶惰 /

戀
liàn
पियायना
piyāyana
性愛 / 恋 / 恋爱 / 情 / 愛 / 愛上 / 愛情 / 慈愛 / 戀 / 戀愛 / 摯愛 / 春 / 深愛 / 熱愛 / 爱 / 爱的 / 鍾情 /

戀
liàn
पियायना
piyāyana
性愛 / 恋 / 恋爱 / 情 / 愛 / 愛上 / 愛情 / 慈愛 / 戀 / 戀愛 / 摯愛 / 春 / 深愛 / 熱愛 / 爱 / 爱的 / 鍾情 /

懷
huái
उर
ura
中 / 乳 / 乳房 / 吸奶 / 奶子 / 心口 / 怀 / 懷 / 胸 / 胸口 / 胸脯 / 胸膛 / 胸部 /

懷孕
huái yùn
गहणी
gahaṇī
妊娠 / 懷孕 / 消化 /

懷疑
huái yí
आसङ्का
āsaṅkā
怀疑 / 怕 / 怵 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /

परिसङ्का
parisaṅkā
परिसप्पना
parisappanā
懷疑 / 猶豫 / 發抖 /

懼
jù
आसङ्का
āsaṅkā
怀疑 / 怕 / 怵 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /

懼
jù
आसङ्का
āsaṅkā
怀疑 / 怕 / 怵 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /

懼
jù
आसङ्का
āsaṅkā
怀疑 / 怕 / 怵 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /

懼
jù
आसङ्का
āsaṅkā
怀疑 / 怕 / 怵 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /

懼
jù
आसङ्का
āsaṅkā
怀疑 / 怕 / 怵 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /

懼
jù
आसङ्का
āsaṅkā
怀疑 / 怕 / 怵 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /

戏
xi
खिड़डा
khīḍḍā
奏 / 娛樂 / 嬉 / 戏 / 戲 / 打球 / 扮 / 抹 / 游戏 / 演 / 玩 / 玩兒 / 玩弄 / 玩耍 / 耍 / 踢球 /

成
chéng
अनवसेस
anavasesa
全部 / 完 / 完全 / 完全地 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 竣 / 通通 /

成份
chéng fèn
धातु
dhātu
元素 / 因素 / 成份 / 成分 / 要素 /

成分
chéng fēn
अङ्ग
aṅga
品質 / 品质 / 成分 / 肢 / 質 / 質量 / 质 / 质量 /
धातु
dhātu
元素 / 因素 / 成份 / 成分 / 要素 /

成功
chéng gōng
इज्जन
ijjhana
成功 / 繁榮 /

成員
chéng yuán
अवयव
avayava
一部份 / 份 / 员 / 員 / 局部 / 成員 / 會員 / 股 / 肢 / 要素 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

成套
chéng tào
अनून
anūna
全部 / 完全 / 完全的 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 通通 /

अनूनक
anūnaka
全部 / 完全 / 完全的 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 通通 /
अनवसेस
anavasesa
全部 / 完 / 完全 / 完全地 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 竣 / 通通 /

पुण्ण
puṅṇa
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 飽 /
परिपूर
paripūra
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 飽 /

成就
chéng jiù
अभिनिष्पत्ति
abhinipphatti
आराधना
ārādhanā
成就 / 邀請 /
कुसलता
kusalatā
निष्फज्जन
nipphajjana
作用 / 做 / 印象 / 影响 / 成就 / 成效 / 成果 / 成績 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निष्पादन
nippḥādana
成就 / 製造 /

成年男子
chéng nián nán zī
जन
jana
人 / 人中 / 人们 / 人們 / 人士 / 人心 / 人民 / 夫 / 夫 / 子民 / 成年男子 / 曼 / 民 / 民眾 / 氓 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 鄙人 / 者 / 萌 /
पुरिस
purisa
人 / 人士 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男性的 / 男的 / 者 / 雄 / 雄性 / 雄的 /
मच्च
macca
人 / 会死 / 凡人 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 會死 / 男人 / 男子 / 男子漢 /

成效
chéng xiào
अभिसन्द
abhisanda
成效 / 成果 / 效果 / 果 / 流出 / 究竟 / 結果 / 结果 /

अभिसन्दन
abhisandana
成效 / 成果 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निष्फज्जन
nipphajjana
作用 / 做 / 印象 / 影响 / 成就 / 成效 / 成果 / 成績 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /

निष्पत्ति
nipphatti
作用 / 完成 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /

निस्सन्द
nissanda
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /
फल
phala
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 果实 / 果實 / 果心 / 水果 / 究竟 / 結果 / 结果 /

成本
chéng běn
अग्घ
aggha
价 / 价值 / 价格 / 值 / 價 / 價格 / 價錢 / 成本 / 推崇 / 普賴斯 / 行情 /

फल
phala
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 果实 / 果實 / 果心 / 水果 / 究竟 / 結果 / 结果 /

成熟
chéng shú
परिणाम
pariṇāma
发展 / 变 / 变化 / 变更 / 开发 / 成熟 / 改 / 改變 / 更改 / 消化 / 變 / 變動 / 變化 / 變更 / 轉變 / 转变 /
परिपाक
paripāka
到期 / 成熟 /
परिपाचन
paripācana
पाक
pāka

成熟的
chéng shú de
पलित
palita

成果
chéng guǒ
अभिसन्द
abhisanda
成效 / 成果 / 效果 / 果 / 流出 / 究竟 / 結果 / 结果 /

अभिसन्दन
abhisandana
成效 / 成果 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
आय
āya
利 / 利润 / 利潤 / 贏 / 定期收入 / 成果 / 收 / 收入 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /

उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 漲 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /

निष्फज्जन
nipphajjana
作用 / 做 / 印象 / 影响 / 成就 / 成效 / 成果 / 成績 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निष्पत्ति
nipphatti
作用 / 完成 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /

निस्सन्द
nissanda
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /
फल
phala
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 果实 / 果實 / 果心 / 水果 / 究竟 / 結果 / 结果 /

我的
chéng shú
परिणाम
pariṇāma
发展 / 变 / 变化 / 变更 / 开发 / 成熟 / 改 / 改變 / 更改 / 消化 / 變 / 變動 / 變化 / 變更 / 轉變 / 转变 /
परिपाक
paripāka
到期 / 成熟 /
परिपाचन
paripācana
पाक
pāka

成熟的
chéng shú de
पलित
palita

成績
chéng jī
निष्फज्जन
nipphajjana
作用 / 做 / 印象 / 影响 / 成就 / 成效 / 成果 / 成績 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /

成褐色
chéng hè sè
तम्ब
tamba
布朗 / 成褐色 / 棕色 / 茶色 / 褐 / 褐色 / 銅 / 銅板 / 铜 /
पिङ्गल
piṅgala
布朗 / 成褐色 / 棕色 / 茶色 / 褐 / 褐色 /

成親
chéng qīn
परिणय
pariṇaya
姻 / 婚 / 婚事 / 婚姻 / 婚嫁 / 婚礼 / 成親 /

我
wǒ
अहं
ahaṃ
予 / 余 / 俺 / 吾 / 我 / 朕 / 鄙人 / 餘 /
मे
me
吾 / 我 / 我的 /

我國
wǒ guó
जनपद
janapada
国 / 国家 / 國 / 國家 / 國度 / 我國 / 江山 / 治國 / 鄉村 /
देस
desa
區域 / 国 / 国家 / 國 / 國家 / 國度 / 地域 / 地域 / 我國 / 江山 / 治國 / 鄉村 /

我的
wǒ de
आकर
ākara
我的 / 矿 / 矿山 / 礦 / 雷 /
मे
me
吾 / 我 / 我的 /

戒毒
jiè dú
अग्द
agada
吸毒 / 戒毒 / 毒品 / 药 / 药物 / 药 / 藥 / 藥品 / 藥物 / 醫藥 /

或
huò
आदु
ādu
不過 / 乃是 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 惟 / 或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 然而 / 还是 / 還是 /
उद
uda
或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 还是 / 還是 /
पि
pi
不過 / 乃是 / 也許 / 也许 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 可能 / 大概 / 恐怕 / 惟 / 或 / 或許 / 或许 / 然 / 然而 / 究竟 /

或是
huò shì
आदु
ādu
不過 / 乃是 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 惟 / 或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 然而 / 还是 / 還是 /
उद
uda
或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 还是 / 還是 /

或者
huò zhě
आदु
ādu
不過 / 乃是 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 惟 / 或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 然而 / 还是 / 還是 /
उद
uda
或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 还是 / 還是 /

或許
huò xǔ
पि
pi
不過 / 乃是 / 也許 / 也许 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 可能 / 大概 / 恐怕 / 惟 / 或 / 或許 / 或许 / 然 / 然而 / 究竟 /
उध
huò xǔ
पि
pi
不過 / 乃是 / 也許 / 也许 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 可能 / 大概 / 恐怕 / 惟 / 或 / 或許 / 或许 / 然 / 然而 / 究竟 /

戚
qi
बन्धव
bandhava
戚 / 戚 / 親戚 /
बन्धव
bandhava
戚 / 戚 / 親戚 /

戰勝
zhàn shèng
जय
jaya
勝 / 勝利 / 好勝 / 戰勝 / 捷 / 胜 / 胜利 /
खिड़डा
khīḍḍā
奏 / 娛樂 / 嬉 / 戏 / 戲 / 打球 / 扮 / 抹 / 游戏 / 演 / 玩 / 玩兒 / 玩弄 / 玩耍 / 耍 / 踢球 /

房
fáng
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गह
gaha
住宅 / 家 / 居 / 屋 / 屋子 / 屋頂 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गेह
geha
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निकेतन
niketana
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
घर
ghara
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निलय
nilaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निवेश
nivesa
住宅 / 住所 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 殖民地 / 殖民地 / 舍 / 舍 / 解决 /

戰勝
zhàn shèng
जय
jaya
勝 / 勝利 / 好勝 / 戰勝 / 捷 / 胜 / 胜利 /
खिड़डा
khīḍḍā
奏 / 娛樂 / 嬉 / 戏 / 戲 / 打球 / 扮 / 抹 / 游戏 / 演 / 玩 / 玩兒 / 玩弄 / 玩耍 / 耍 / 踢球 /
फ़ांग
fáng
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गह
gaha
住宅 / 家 / 居 / 屋 / 屋子 / 屋頂 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गेह
geha
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निकेतन
niketana
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निलय
nilaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निवेश
nivesa
住宅 / 住所 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 殖民地 / 殖民地 / 舍 / 舍 / 解决 /

或
huò
आदु
ādu
不過 / 乃是 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 惟 / 或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 然而 / 还是 / 還是 /
उद
uda
或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 还是 / 還是 /
पि
pi
不過 / 乃是 / 也許 / 也许 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 可能 / 大概 / 恐怕 / 惟 / 或 / 或許 / 或许 / 然 / 然而 / 究竟 /

房子
fáng zi
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गह
gaha
住宅 / 家 / 居 / 屋 / 屋子 / 屋頂 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गेह
geha
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
घर
ghara
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निकेतन
niketana
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निलय
nilaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निवेश
nivesa
住宅 / 住所 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 殖民地 / 殖民地 / 舍 / 舍 / 解决 /

房屋
fáng wū
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गह
gaha
住宅 / 家 / 居 / 屋 / 屋子 / 屋頂 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गेह
geha
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
घर
ghara
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निकेतन
niketana
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निलय
nilaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निवेश
nivesa
住宅 / 住所 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 殖民地 / 殖民地 / 舍 / 舍 / 解决 /

房頂
fáng dǐng
छदन
chadana
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋頂 / 屋頂 / 幌子 / 房頂 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

所
suǒ
ठान
ṭhāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 靡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 默 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 靡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 腳 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 郵件 / 郵政 / 部位 /
पदेस
padesa
交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到位 / 區域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 斑 / 斑點 / 身份 / 部位 /

或是
huò shì
आदु
ādu
不過 / 乃是 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 惟 / 或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 然而 / 还是 / 還是 /
उद
uda
或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 还是 / 還是 /
फ़ांग
fáng
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गह
gaha
住宅 / 家 / 居 / 屋 / 屋子 / 屋頂 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गेह
geha
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
घर
ghara
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निकेतन
niketana
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निलय
nilaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निवेश
nivesa
住宅 / 住所 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 殖民地 / 殖民地 / 舍 / 舍 / 解决 /

房頂
fáng dǐng
छदन
chadana
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋頂 / 屋頂 / 幌子 / 房頂 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

所
suǒ
ठान
ṭhāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 靡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 默 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 靡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 腳 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 郵件 / 郵政 / 部位 /
पदेस
padesa
交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到位 / 區域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 斑 / 斑點 / 身份 / 部位 /

所以
suǒ yǐ
अतो
ato
因此 / 所以 / 故 /
ततो
tato
因此 / 所以 / 故 / 自從 /
तथा
tathā
以致 / 因此 / 因而 / 如此 / 所以 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 / 這麼 /
तस्मा
tasmā
因此 / 所以 / 故 /

所在地
suǒ zài dì
पदेस
padesa
交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到位 / 區域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 斑 / 斑點 / 身份 / 部位 /
पदेस
padesa
交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到位 / 區域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 斑 / 斑點 / 身份 / 部位 /

所屬
suǒ shǔ
उपलद्धि
upaladdhi
 <div>來看 / 所屬 / 景 / 景色 / 查看 / 檢視 / 看法 / 眺望 / 瞻 / 見解 / 觀點 / 鑒 / 鑑 / 鑒 /</div>

所有
suǒ yǒu
असेस
asesa
 <div>一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全部 / 全體 / 凡 / 凡是 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /</div>
निखिल
nikhila
 <div>一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全部 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /</div>
निस्सेस
nissesa
 <div>一切 / 全部 / 全部的 / 全體 / 凡 / 凡是 / 囫 / 均 / 完全 / 完全地 / 所有 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 胥 / 芸芸 / 通通 /</div>

所有权
suǒ yǒu quán
आयत्त
āyatta
 <div>占有 / 所有权 / 所有物 / 持有 /</div>
धन
dhana
 <div>地产 / 屬性 / 所有权 / 有道 / 財富 / 财产 / 财富 /</div>
भोग
bhoga
 <div>占有 / 所有权 / 所有物 / 有道 / 財富 / 财富 /</div>

所有权人
suǒ yǒu quán rén
धारेतु
dhāretu
 <div>所有权人 / 所有者 / 持有人 /</div>

所有物
suǒ yǒu wù
आयत्त
āyatta
 <div>占有 / 所有权 / 所有物 / 持有 /</div>
भोग
bhoga
 <div>占有 / 所有权 / 所有物 / 有道 / 財富 / 财富 /</div>

所有物
suǒ yǒu wù
आयत्त
āyatta
 <div>占有 / 所有权 / 所有物 / 持有 /</div>
भोग
bhoga
 <div>占有 / 所有权 / 所有物 / 有道 / 財富 / 财富 /</div>

所有物
suǒ yǒu wù
आयत्त
āyatta
 <div>占有 / 所有权 / 所有物 / 持有 /</div>
भोग
bhoga
 <div>占有 / 所有权 / 所有物 / 有道 / 財富 / 财富 /</div>

所有物
suǒ yǒu wù
आयत्त
āyatta
 <div>占有 / 所有权 / 所有物 / 持有 /</div>
भोग
bhoga
 <div>占有 / 所有权 / 所有物 / 有道 / 財富 / 财富 /</div>

所有的
suǒ yǒu de
असेस
asesa
 <div>一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全部 / 全體 / 凡 / 凡是 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /</div>
निखिल
nikhila
 <div>一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全部 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /</div>

所有者
suǒ yǒu zhě
इस्सर
issara
 <div>主 / 主人 / 创造者 / 大師 / 好手 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 統治者 / 老爺 / 造物主 / 領主 /</div>
धारेतु
dhāretu
 <div>所有权人 / 所有者 / 持有人 /</div>
पति
pati
 <div>丈夫 / 丈夫 / 主 / 主人 / 伉 / 回 / 外子 / 大師 / 夫 / 夫 / 好手 / 孀 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 相反 / 統治者 / 老公 / 老爺 / 逆 / 領主 /</div>

手
shǒu
कर
kara
 <div>一手 / 伸手 / 光線 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 指甲 / 稅 / 稅 / 笔迹 /</div>
पाणि
pāṇi
 <div>一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 掌 / 掌心 / 棕 / 笔迹 /</div>
भुज
bhuja
 <div>一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手臂 / 手臂 / 手邊 / 手頭 / 笔迹 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /</div>

手巾
shǒu jīn
पुंछनी
puñchanī
 <div>巾 / 手巾 / 毛巾 /</div>

手指
shǒu zhǐ
अङ्गुलि
aṅguli
 <div>手指 / 手指头 / 指 / 指頭 / 腳趾 /</div>

手指头
shǒu zhǐ tóu
अङ्गुलि
aṅguli
 <div>手指 / 手指头 / 指 / 指頭 / 腳趾 /</div>

手掌
shǒu zhǎng
कर
kara
 <div>一手 / 伸手 / 光線 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 指甲 / 稅 / 稅 / 笔迹 /</div>
पाणि
pāṇi
 <div>一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 掌 / 掌心 / 棕 / 笔迹 /</div>
手提包
shǒu tí bāo
पसिब्वक
pasibbaka
 <div>一袋 / 囊 / 大袋子 / 手提包 / 提包 / 旅行包 / 旅行包 / 囊 / 洗劫 / 紙袋 / 袋 / 袋子 / 錢包 / 麻布袋 / 麻袋 /</div>

手术
shǒu shù
किच्च
kipcca
 <div>东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /</div>

手段
shǒu duàn
उपक्कम
upakkama
 <div>侵襲 / 出擊 / 征 / 意指 / 手段 / 抨 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 方式 / 方法 / 發作 / 行凶 /</div>
उपाय
upāya
 <div>手段 / 方法 /</div>

手箱
shǒu xiāng
चङ्गोटक
caṅgoṭaka
 <div>匣子 / 小木盒 / 小箱 / 手箱 /</div>

手肘
shǒu zhǒu
कप्पर
kappara
 <div>手肘 / 肘 /</div>

手背
shǒu bèi
पिट्ठ
pitṭha
 <div>后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 表面 / 走回 / 退后 / 面 / 麵 /</div>
पिट्ठि
pitṭhi
 <div>上端 / 后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 尖峰 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 走回 / 退后 / 頂端 / 頂端 /</div>

手腕
shǒu wàn
करभ
karabha
 <div>手腕 / 腕 / 駝 / 駱駝 / 驼 / 驼 / 骆驼 /</div>

手臂
shǒu bei
बाहु
bāhu
 <div>手臂 / 手臂 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /</div>
बाहु
bāhu
 <div>手臂 / 手臂 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /</div>
बाहा
bāhā
 <div>手臂 / 手臂 / 把 / 把手 / 把柄 / 柄 / 柱 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /</div>
बाहा
bāhā
 <div>手臂 / 手臂 / 把 / 把手 / 把柄 / 柄 / 柱 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /</div>

भुज
bhuja
 <div>一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手臂 / 手臂 / 手邊 / 手頭 / 笔迹 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /</div>
भुज
bhuja
 <div>一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手臂 / 手臂 / 手邊 / 手頭 / 笔迹 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /</div>
भुज
bhuja
 <div>一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手臂 / 手臂 / 手邊 / 手頭 / 笔迹 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /</div>

手足
shǒu zú
इञ्जन
iñjana
 <div>動作 / 動議 / 動靜 / 手足 / 运动 / 運動 /</div>

手邊
shǒu biān
कर
kara
 <div>一手 / 伸手 / 光線 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 指甲 / 稅 / 稅 / 笔迹 /</div>
पाणि
pāṇi
 <div>一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 掌 / 掌心 / 棕 / 笔迹 /</div>
भुज
bhuja
 <div>一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手臂 / 手臂 / 手邊 / 手頭 / 笔迹 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /</div>

手鐲
shǒu zhuó
कङ्कण
kaṅkaṇa
 <div>手鐲 / 手镯 / 镯 /</div>
कटक
kaṭaka
 <div>手鐲 / 手镯 / 镯 /</div>

手鐲
shǒu zhuó
कङ्कण
kaṅkaṇa
 <div>手鐲 / 手镯 / 镯 /</div>
कटक
kaṭaka
 <div>手鐲 / 手镯 / 镯 /</div>

手頭
shǒu tóu
कर
kara
 <div>一手 / 伸手 / 光線 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 手頭 / 指甲 / 稅 / 稅 / 笔迹 /</div>
पाणि
pāṇi
 <div>一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 掌 / 掌心 / 棕 / 笔迹 /</div>
भुज
bhuja
 <div>一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手臂 / 手臂 / 手邊 / 手頭 / 笔迹 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /</div>

才
cái
एव
eva
 <div>仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /</div>

打
dǎ
अन्वाहत
anvāhata
उप्पोठन
uppoṭhana
ताळन
tālana
打 / 敲 /
पहरण
paharaṇa
पोठन
poṭhana

打嗝
dǎ gé
उग्गार
uggāra
噴射 / 打嗝 /
उदेक
uddeka
उद्रेक
udreka

打坐
dǎ zuò
झान
jhāna
冥想 / 打坐 / 沈思 / 沉思 / 默念 /

打扮
dǎ ban
निवासन
nivāsana
打扮 / 打扮 / 服 / 服装 / 服裝 / 洋裝 / 穿戴 / 衣服 / 衣物 / 衣裳 /
निवासन
nivāsana
打扮 / 打扮 / 服 / 服装 / 服裝 / 洋裝 / 穿戴 / 衣服 / 衣物 / 衣裳 /

打擊
dǎ jī
पहार
pahāra
一發 / 吹 / 打擊 / 攻擊 /

打球
dǎ qiú
खिड़डा
khīḍḍā
奏 / 娛樂 / 嬉 / 戏 / 戲 / 打球 / 扮 / 抹 / 游戏 / 演 / 玩 / 玩兒 / 玩弄 / 玩耍 / 耍 / 踢球 /

打理
dǎ lǐ
आरक्खा
ārakkhā
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看守 / 看護 / 關心 / 關照 /
गोपन
gopana
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 注意 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 關心 / 關照 /
पटिजगगन
paṭijaggana
修 / 修復 / 修理 / 修補 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 管理 / 脩 / 關心 / 關照 /
परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威 ^严 / 尊 ^严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

打瞌睡
dǎ kē shuì
पचलायिका
pacalāyikā

打算
dǎ suàn
नय
naya
打算 / 方式 / 方案 / 方法 / 模式 / 策 / 策劃 / 舉止 / 計劃 / 計畫 / 计划 / 順序 /

打賭
dǎ dǔ
अब्भुत
abbhuta
下注 / 了不起的 / 奇事 / 奇景 / 奇迹 / 打賭 / 貝特 / 賭 / 賭 /

打鼓
dǎ gǔ
भेरि
bheri
大鼓 / 打鼓 / 滾筒 / 鼓 /

扔
rēng
पात
pāta
下跌 / 坠 / 墮 / 墜 / 墜入 / 墮 / 扔 / 投 / 掉 / 掉下 / 摔 / 摔下 / 摔倒 / 摔倒 / 淪陷 / 落下 / 跌 / 跌下 / 跌倒 / 跌倒 / 跌到 / 跌落 /

扭轉
niǔ zhuǎn
गन्थन
ganthana
作文 / 扭轉 / 組成 / 編織 /

扮
ban
खिड़डा
khīḍḍā
奏 / 娛樂 / 嬉 / 戏 / 戲 / 打球 / 扮 / 抹 / 游戏 / 演 / 玩 / 玩兒 / 玩弄 / 玩耍 / 耍 / 踢球 /

扮演者
bàn yǎn zhě
नच्चक
naccaka
扮演者 / 扮演者 / 演員 / 演員 / 舞者 /
नच्चक
naccaka
扮演者 / 扮演者 / 演員 / 演員 / 舞者 /

扶
fú
अनुग्गणहन
anuggaṇhana
助 / 協助 / 壁助 / 好意 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

अनुबल
anubala
刺激 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 激励 /
अवलम्बन
avalambana

助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
अवस्सय
avassaya
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
आलम्ब
ālamba

供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
उपकरण
upakaraṇa
乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

उपकार
upakāra
供養 / 助 / 助手 / 協助 / 壁助 / 好意 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
दीप
dīpa
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 小島 / 島 / 島嶼 / 島 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /

पटिसरण
paṭisarāṇa
保护 / 保護 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /
पटिद्दा
paṭiḍḍā

पतिट्ठा
paṭiṭṭhā
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

扶壁
fú bì
उपकारिका
upakārikā
女施主 / 扶壁 /
批准
pī zhǔn
अनुञ्जा
anuñña
制裁 / 同意 / 批准 / 支援 / 裁 / 許可 / 認可 /

扶助
fú zhù
अनुग्गणहन
anuggaṇhana
助 / 協助 / 壁助 / 好意 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

अनुबल
anubala
刺激 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 激励 /
अवलम्बन
avalambana

助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
अवस्सय
avassaya
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
आलम्ब
ālamba

供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
उपकरण
upakaraṇa
乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

उपकार
upakāra
供養 / 助 / 助手 / 協助 / 壁助 / 好意 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
दीप
dīpa
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 小島 / 島 / 島嶼 / 島 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /

पटिसरण
paṭisarāṇa
保护 / 保護 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /
पटिद्दा
paṭiḍḍā

पतिट्ठा
paṭiṭṭhā
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

扶壁
fú bì
उपकारिका
upakārikā
女施主 / 扶壁 /
批准
pī zhǔn
अनुञ्जा
anuñña
制裁 / 同意 / 批准 / 支援 / 裁 / 許可 / 認可 /

承
chéng
अनुक्कम
anukkama
令 / 命令 / 序 / 序列 / 承 / 排序 / 旨意 / 檄 / 次序 / 秩序 / 程 / 系列 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 / 順序 /

आनुपुब्बी
ānupubbī
令 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 /
पटिपाटि
paṭipāṭi
令 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 /
परियाय
pariyāya
令 / 序 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 轉動 / 順序 / 順序 /

承受
chéng shòu
अच्छ
accha
包涵 / 承受 / 承擔 / 清澈的 / 熊 / 熊市 / 狗熊 / 結 / 结 /
इस्स
issa
包涵 / 承受 / 承擔 / 熊 / 熊市 / 狗熊 / 結 / 结 /

承擔
chéng dān
अच्छ
accha
包涵 / 承受 / 承擔 / 清澈的 / 熊 / 熊市 / 狗熊 / 結 / 结 /
इस्स
issa
包涵 / 承受 / 承擔 / 熊 / 熊市 / 狗熊 / 結 / 结 /

承認
chéng rèn
अभिजानन
abhijānana
回想 / 回憶 / 承認 / 記憶 /

承諾
chéng nuò
उपगमन
upagamana
承諾 / 接近 /

技術
jì shù
चातुरिय
cāturiya
技術 / 精明 /
नेपुञ्ज
nepuñña

把
bǎ
जट
jaṭa
把 / 把手 / 把柄 / 柄 /
बाहा
bāhā
手臂 / 手臂 / 把 / 把手 / 把柄 / 柄 / 柱 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /

把守
bǎ shǒu
आरक्खक
ārakkhaka
守卫 / 守衛 / 守護 / 巡夜者 / 把守 / 看守 / 看守人 / 衛 / 門衛 /
गुत्ति
gutti
保护 / 保護 / 守卫 / 守衛 / 守護 / 把守 / 注意 / 看守 / 衛 / 門衛 /

把手
bǎ shǒu
जट
jaṭa
把 / 把手 / 把柄 / 柄 /
बाहा
bāhā
手臂 / 手臂 / 把 / 把手 / 把柄 / 柄 / 柱 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /

把握
bǎ wò
गहण
gahaṇa
把握 / 抓 / 拿 / 獲得 / 萃 /

把柄
bǎ bǐng
जट
jaṭa
把 / 把手 / 把柄 / 柄 /
बाहा
bāhā
手臂 / 手臂 / 把 / 把手 / 把柄 / 柄 / 柱 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /

抑制
yì zhì
उपरति
uparati
停止 / 抑制 /
दम
dama
征服 / 抑制 / 控制 / 馴服 /
दमथ
damatha
征服 / 抑制 / 控制 /
निसेध
nisedha
取締 / 抑制 / 班固 / 禁 / 禁令 / 禁止 / 防范 / 預防 / 預防 /

抑或
yì huò
आदु
ādu
不過 / 乃是 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 惟 / 或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 然而 / 还是 / 還是 /
उद
uda
或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 还是 / 還是 /

抓
zhuā
गहण
gahaṇa
把握 / 抓 / 拿 / 獲得 / 萃 /
抓的
zhuā de
उपादान
upādāna
抓的 / 燃料 / 燃油 / 附件 /

投
tóu
खेप
khepa
投 / 投擲 /
पात
pāta
下跌 / 坠 / 墮 / 墜 / 墜入 / 墮 / 扔 / 投 / 掉 / 掉下 / 摔 / 摔下 / 摔倒 / 摔倒 / 淪陷 / 落下 / 跌 / 跌下 / 跌倒 / 跌倒 / 跌到 / 跌落 /
पास
pāsa
投 / 羅網 / 陷阱 /

投擲
tóu zhì
खेप
khepa
投 / 投擲 /
投票
tóu piào
छन्दक
chandaka

抗議
kàng yì
पटिक्कोसना
paṭikkosana
抗議 / 抗议 /
抗议
kàng yì
पटिक्कोसना
paṭikkosana
抗議 / 抗议 /

折回
zhé huí
निवत्तन
nivattana
中斷 / 折回 / 留下 /

折磨
zhé mó
आतापन
ātāpana
受刑 / 折磨 / 拷問 / 拷打 / 禁欲 / 酷刑 /
कारणा
kāraṇā
受刑 / 折磨 / 拷問 / 拷打 / 酷刑 /

护士
hù shì
आपादिका
āpādikā
护士 / 護士 / 護理 /
उपद्दाक
upaṭṭhāka
护士 / 護士 / 護理 /
धाती
dhātī
护士 / 護士 / 護理 /
पोसिका
posikā
护士 / 護士 / 護理 /

摔
pēng
अधिपतन
adhipatana
侵襲 / 出擊 / 征 / 摔 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 方式 / 方法 / 發作 / 行凶 /
उपक्कम
upakkama
侵襲 / 出擊 / 征 / 意指 / 手段 / 摔 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 方式 / 方法 / 發作 / 行凶 /

抱怨
bào yuàn
उज्झान
ujjhāna

抱負
bào fù
अभिनीहार
abhinihāra

抵
dī
पत्तुं
pattum
到達 / 抵 / 獲得 / 达 / 達 / 達到 /

担心
dān xīn
कुक्कुच
kukkucca
忧 / 患 / 愁 / 憂 / 憂慮 / 懊悔 / 担心 / 操心 / 擔心 / 擔憂 /

拇
mu
अङ्गुइ
aṅguṭṭha
大拇指 / 巨擘 / 拇 / 拇 / 拇指 / 拇指 / 擘 /
अङ्गुइ
aṅguṭṭha
大拇指 / 巨擘 / 拇 / 拇 / 拇指 / 拇指 / 擘 /

抵达
dī dá
अनुपपत्ति
anuppatti
到任 / 到來 / 到来 / 抵达 / 抵達 /
अब्भागमन
abbhāgamaṇa
到任 / 到來 / 到来 / 抵达 / 抵達 /
आगमन
āgamaṇa
到任 / 到來 / 到来 / 抵达 / 抵達 / 接近的 /
पत्ति
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利润 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到来 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /

抵達
dī dá
अनुपपत्ति
anuppatti
到任 / 到來 / 到来 / 抵达 / 抵達 /
अब्भागमन
abbhāgamaṇa
到任 / 到來 / 到来 / 抵达 / 抵達 /
आगमन
āgamaṇa
到任 / 到來 / 到来 / 抵达 / 抵達 / 接近的 /
पत्ति
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利润 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到来 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /

抹
mǒ
खिड़डा
khiḍḍā
奏 / 娛樂 / 嬉 / 戏 / 戲 / 打球 / 扮 / 抹 / 游戏 / 演 / 玩 / 玩兒 / 玩弄 / 玩耍 / 耍 / 踢球 /

担保
dān bǎo
पाटिभोग
pāṭibhoga
保安 / 保证金 / 保釋 / 保釋金 / 安全 / 安全性 / 担保 /

担心
dān xīn
कुक्कुच
kukkucca
忧 / 患 / 愁 / 憂 / 憂慮 / 懊悔 / 担心 / 操心 / 擔心 / 擔憂 /

拇
mu
अङ्गुइ
aṅguṭṭha
大拇指 / 巨擘 / 拇 / 拇 / 拇指 / 拇指 / 擘 /
अङ्गुइ
aṅguṭṭha
大拇指 / 巨擘 / 拇 / 拇 / 拇指 / 拇指 / 擘 /

拇指
mǔ zhǐ
अङ्गुइ
aṅguṭṭha
大拇指 / 巨擘 / 拇 / 拇 / 拇指 / 拇指 / 擘 /
अङ्गुइ
aṅguṭṭha
大拇指 / 巨擘 / 拇 / 拇 / 拇指 / 拇指 / 擘 /

拉
lā
कइढन
kaḍḍhana
吸 / 拉 /
拌嘴
bàn zuǐ
कलह
kalaha
争执 / 争端 / 争议 / 争论 / 吵 / 吵架 / 拌嘴 / 爭吵 / 爭執 / 爭論 / 碴 / 糾紛 /

拒
jù
अवक्कार
avakkāra
丟棄 / 拒 / 拒絕 /
कसट
kaṣaṭa
拒 / 拒絕 / 渣滓 /

拒絕
jù jué
अवक्कार
avakkāra
丟棄 / 拒 / 拒絕 /
कसट
kaṣaṭa
拒 / 拒絕 / 渣滓 /
पच्चक्खान
paccakkhāna
पटिनिस्सग्ग
paṭinissagga
丟棄 / 拒絕 /

拒绝
jù jué
न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒絕 / 无 / 未 / 毋 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 没 / 没有 / 沒有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /
पटिक्खेप
paṭikkhepa
不存在 / 反对 / 否定 / 异议 / 拒绝 / 異議 /

拖延
tuō yán
पमज्जना
pamajjanā
延 / 延迟 / 延遲 / 拖延 / 挨 / 耽 / 耽擱 / 耽擱 / 耽誤 /
परिकइढन
parikaḍḍhana

拘留所
jū liú suǒ
कारा
kāra
入獄 / 囚室 / 囹 / 大牢 / 拘留所 / 牢 / 牢獄 / 犴 / 獄 / 班房 / 監獄 / 監 / 監牢 / 監獄 / 監禁 / 關押 /

招待
zhāo dài
उपदान
upaṭṭhāna
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 理解 / 等候 / 等候 / 維修 / 認識 / 諒解 / 认识 / 认识 / 體諒 /
उपासन
upāsana
伺候 / 役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 / 訓練 / 训练 / 训练 /
कार
kāra
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 /
किचच
kicka
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
पेसन
pesana
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 / 資訊 /
पारिचरिया
pāricariyā
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 等候 / 等候 / 維修 /

拜
bài
अपचायन
apacāyana
供奉 / 尊敬 / 崇 / 崇拜 / 崇敬 / 拜 / 敬神 / 敬重 / 祭拜 / 禮拜 /
नमस्सन
namassana
供奉 / 尊敬 / 崇 / 崇拜 / 崇敬 / 拜 / 敬神 / 祭拜 / 禮拜 /

拷問
kǎo wèn
आतापन
ātāpana
受刑 / 折磨 / 拷問 / 拷打 / 禁欲 / 酷刑 /
कारणा
kāraṇā
受刑 / 折磨 / 拷問 / 拷打 / 酷刑 /
拷打
kǎo dǎ
आतापन
ātāpana
受刑 / 折磨 / 拷問 / 拷打 / 禁欲 / 酷刑 /
कारणा
kāraṇā
受刑 / 折磨 / 拷問 / 拷打 / 酷刑 /

拿
ná
गहण
gahaṇa
把握 / 抓 / 拿 / 獲得 / 萃 /
拿出
ná chū
बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /
拿回
ná huí
पिट्ठ
pitṭha
后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 表面 / 走回 / 退后 / 面 / 麵 /
पिट्ठि
pitṭhi
上端 / 后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 尖峰 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 走回 / 退后 / 頂端 / 顶端 /

持久
chí jiǔ
धिर
thira
事務所 / 公司 / 固 / 堅 / 堅決 / 堅定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 快 / 恆久 / 持久 / 有耐久力 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 耐久的 / 迅 / 迅速 / 速 / 遽 /
持久的
chí jiǔ de
अधिवासक
adhivāsaka
患者 / 持久的 / 病人 / 病患 / 耐心 /
ठायी
thāyī
持久的 / 直立的 /
ठितिक
ṭhitika
不朽的 / 持久的 /
थावर
thāvara
固定的 / 堅固 / 持久的 /

持有
chí yǒu
आयत्त
āyatta
占有 / 所有权 / 所有物 / 持有 /
持有人
chí yǒu rén
धारेतु
dhāretu
所有权人 / 所有者 / 持有人 /

指
zhǐ
अङ्गुलि
aṅguli
手指 / 手指头 / 指 / 指頭 / 腳趾 /

指令
zhǐ lìng
अज्ञापन
ajjhāpana
指令 / 指示 / 教 /
उपदेस
upadesa
劝告 / 咨詢 / 忠告 / 指令 / 指示 /
ओवाद
ovāda
劝告 / 咨詢 / 忠告 / 指令 / 指示 /
चक्क
cakka
令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 轮子 / 轆 / 轆 / 騎車 /
指出
zhǐ chū
कोटि
koṭi
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 結束 / 道 / 點 /

指名
zhǐ míng
अभिधान
abhidhāna
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
अव्हय
avhaya
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
अव्हान
avhāna
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
आख्या
ākhyā
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /
नाम
nāma
任命 / 取名 / 名 / 名义 / 名字 / 名称 / 名稱 / 名義 / 名词 / 命名 / 姓名 / 指名 /

指定
zhǐ dìng
अधिवचन
adhivacana
指揮官
zhǐ huī guān
नियामक
niyāmaka
司令 / 司令官 / 指揮官 / 指揮官 / 總司令 / 船長 /

指令
zhǐ lìng
अञ्चापन
abbhācikkhana
指控 / 控告 / 罪名 / 罪狀 /
चोदना
codanā
指控 / 控告 / 罪名 / 罪狀 /
指揮
zhǐ huī
चक्क
cakka
令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 轮子 / 轆 / 轆 / 騎車 /
指揮官
zhǐ huī guān
नियामक
niyāmaka
司令 / 司令官 / 指揮官 / 指揮官 / 總司令 / 船長 /

指令
zhǐ lìng
अधिवचन
adhivacana
指揮官
zhǐ huī guān
नियामक
niyāmaka
司令 / 司令官 / 指揮官 / 指揮官 / 總司令 / 船長 /

指令
zhǐ lìng
अञ्चापन
abbhācikkhana
指控 / 控告 / 罪名 / 罪狀 /
चोदना
codanā
指控 / 控告 / 罪名 / 罪狀 /
指揮
zhǐ huī
चक्क
cakka
令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 轮子 / 轆 / 轆 / 騎車 /
指揮官
zhǐ huī guān
नियामक
niyāmaka
司令 / 司令官 / 指揮官 / 指揮官 / 總司令 / 船長 /

指控
zhǐ kòng
अञ्चापन
abbhācikkhana
指控 / 控告 / 罪名 / 罪狀 /
चोदना
codanā
指控 / 控告 / 罪名 / 罪狀 /
指揮
zhǐ huī
चक्क
cakka
令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 轮子 / 轆 / 轆 / 騎車 /
指揮官
zhǐ huī guān
नियामक
niyāmaka
司令 / 司令官 / 指揮官 / 指揮官 / 總司令 / 船長 /

指望
zhǐ wàng
अपेक्खन
apekkhana
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /
अभिकइखन
abhikaṅkhana
希 / 希望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 渴望 /
अभिकइख्त
abhikaṅkhita
希 / 希望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 渴望 /
आसा
āsā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
आसिसना
āsimsanā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /

指望
zhǐ wàng
अपेक्खन
apekkhana
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /
अभिकइखन
abhikaṅkhana
希 / 希望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 渴望 /
अभिकइख्त
abhikaṅkhita
希 / 希望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 渴望 /
आसा
āsā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
आसिसना
āsimsanā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /

指甲
zhǐ jiǎ
कर
kara
一手 / 伸手 / 光線 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 指甲 / 稅 / 稅 / 笔迹 /
नख
nakha
指甲 / 指甲剪 / 爪 / 爪 / 釘 / 釘子 / 釘 /
指甲剪
zhǐ jiǎ jiǎn
नख
nakha
指甲 / 指甲剪 / 爪 / 爪 / 釘 / 釘子 / 釘 /

指示
zhǐ shì
अज्ञापन
ajjhāpana
指令 / 指示 / 教 /
उदेस
uddesa
指示 / 提出 /
उपदेस
upadesa
劝告 / 咨詢 / 忠告 / 指令 / 指示 /
ओवाद
ovāda
劝告 / 咨詢 / 忠告 / 指令 / 指示 /

指責
zhǐ zé
उपारम्भ
upārambha
指責 / 譴責 / 谴责 / 责难 /
指頭
zhǐ tóu
अङ्गुलि
aṅguli
手指 / 手指头 / 指 / 指頭 / 腳趾 /

挑剔
tiào tī
उपवाद
upavāda
侮 / 侮辱 / 咎 / 怨 / 挑剔 / 歸咎 / 污辱 / 罪 / 責備 / 責怪 / 辱 /
挥
huī
चक्क
cakka
令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 轮子 / 轆 / 轆 / 騎車 /

挨
āi
पमज्जना
pamajjanā
延 / 延迟 / 延遲 / 拖延 / 挨 / 耽 / 耽擱 / 耽擱 / 耽誤 /
挽救
wǎn jiù
उल्लुम्पन
ullumpana

捂
wǔ
अपिधान
apidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 覆 / 覆盖 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
छदन
chadana
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋顶 / 屋顶 / 幌子 / 房顶 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 覆 / 覆盖 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पच्चत्थरण
paccattharaṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 床单 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 覆 / 覆盖 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पच्छाद
pacchāda
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 覆 / 覆盖 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पापुरण
pāpuraṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 毛毯 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 覆 / 覆盖 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पिधान
pidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩护 / 掩饰 / 盖 / 罩 / 盖 / 盖 / 盖 / 盖 / 遮 / 覆 / 覆盖 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

捆
kūn
कण्णिका
kaṇṇikā
捆 / 束 /
कलाप
kalāpa
捆 / 束 / 管束 / 箭袋 /

捌
bā
अट्ठ
aṭṭha
八 / 八个 / 八的 / 捌 /

捕捉
bǔ zhuō
बाधन
bādhana
妨害 / 捕捉 / 痛苦 / 陷阱 /

捕獲
bǔ huò
गाह
gāha
主意 / 念頭 / 思想 / 想法 / 意念 / 意見 / 捕獲 / 構想 / 理念 / 理想 / 表象 / 點子 /

捕鼠
bǔ shǔ
आखु
ākhu
叛徒 / 告密者 / 捕鼠 / 老鼠 / 耗子 / 鼠 / 鼯 /
उन्दुर
undura
叛徒 / 告密者 / 捕鼠 / 老鼠 / 鼠 /
उन्दूर
undūra
叛徒 / 告密者 / 捕鼠 / 老鼠 / 鼠 /

损
sǔn
पीळन
pīlana
伤 / 伤害 / 损 / 损伤 / 损害 / 損傷 / 損壞 / 損害 / 破壞 /

损伤
sǔn shāng
अनत्थ
anattha
不幸 / 伤害 / 傷害 / 危害 / 壞處 / 害 / 弊 / 损伤 / 損害 / 有害 /
अहित
ahita
伤害 / 傷害 / 危害 / 壞處 / 害 / 弊 / 损伤 /
पीळन
pīlana
伤 / 伤害 / 损 / 损伤 / 损害 / 損傷 / 損壞 / 損害 / 破壞 /

损失
sǔn shī
अपाय
apāya
地狱 / 地獄 / 损失 / 損失 / 茫然 / 败 / 過失 /
अलाभ
alābha
损失 / 損失 / 茫然 / 败 /
जानि
jāni
仇 / 剝奪 / 剝夺 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 损失 / 損失 / 爱人 / 老婆 / 茫然 / 败 /
नस्सन
nassana
损失 / 損失 / 破壞 / 茫然 / 败 /
परिहानि
parihāni
损失 / 損失 / 毀滅 / 減少 / 茫然 / 败 /

损害
sǔn hài
अनत्थ
anattha
不幸 / 伤害 / 傷害 / 危害 / 壞處 / 害 / 弊 / 损伤 / 損害 / 有害 /
पीळन
pīlana
伤 / 伤害 / 损 / 损伤 / 损害 / 損傷 / 損壞 / 損害 / 破壞 /

捨
shě
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गह
gaha
住宅 / 家 / 居 / 屋 / 屋子 / 屋顶 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गेह
geha
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
घर
ghara
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निलय
nilaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निवेश
nivesa
住宅 / 住所 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 殖民地 / 殖民地 / 舍 / 舍 / 解决 /

捶
chuí
घन
ghana
厚 / 厚的 / 固 / 密 / 密集的 / 捶 / 棍棒 / 槌 / 稠 / 粗 / 結實 / 萃 / 莚 / 錘子 / 锤 /
捷
jié
जय
jaya
勝 / 勝利 / 好勝 / 戰勝 / 捷 / 胜 / 胜利 /
授予
shòu yǔ
पदान
padāna

掉
diào
पात
pāta
下跌 / 坠 / 墮 / 墜 / 墜入 / 墮 / 扔 / 投 / 掉 / 掉下 / 摔 / 摔下 / 摔倒 / 摔倒 / 淪陷 / 落下 / 跌 / 跌下 / 跌倒 / 跌倒 / 跌到 / 跌落 /
掉下
diào xià
पात
pāta
下跌 / 坠 / 墮 / 墜 / 墜入 / 墮 / 扔 / 投 / 掉 / 掉下 / 摔 / 摔下 / 摔倒 / 摔倒 / 淪陷 / 落下 / 跌 / 跌下 / 跌倒 / 跌倒 / 跌到 / 跌落 /

掉
diào
पात
pāta
下跌 / 坠 / 墮 / 墜 / 墜入 / 墮 / 扔 / 投 / 掉 / 掉下 / 摔 / 摔下 / 摔倒 / 摔倒 / 淪陷 / 落下 / 跌 / 跌下 / 跌倒 / 跌倒 / 跌到 / 跌落 /

掉落
diào luò
थेव
theva
一滴 / 掉落 / 水滴 / 滴 / 落 / 降 /
पतन
patana
一滴 / 掉落 / 水滴 / 滴 / 落 / 落下 / 降 /
掌
zhǎng
पाणि
pāni
一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 掌 / 掌心 / 棕 / 笔迹 /

掌心
zhǎng xīn
पाणि
pāni
一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 掌 / 掌心 / 棕 / 笔迹 /

排
pái
आवली
āvalī
排 / 線 /

排出物
pái chū wù
निदमन
niddhamana

排列
pái liè
अवत्थरण
avattharaṇa
排列 / 擊敗 /

排序
pái xù
अनुक्कम
anukkama
令 / 命令 / 序 / 序列 / 承 / 排序 / 旨意 / 檄 / 次序 / 秩序 / 程 / 系列 / 訂 / 訂單 / 訂 / 順序 / 順序 /

排斥
pái chì
छड्डन
chaḍḍana
丟棄 / 排斥 /

排泄物
pái xiè wù
असुचि
asuci
垢 / 大便 / 屎 / 排泄物 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 / 精液 / 糞 /
उक्कार
ukkāra
大便 / 排泄物 / 糞 /
उच्चार
uccāra
大便 / 屎 / 排泄物 /
करीस
karīsa
大便 / 排泄物 / 糞 /
गूथ
gūtha
大便 / 排泄物 / 糞 /

掠奪
è duó
निल्लोप
nillopa

探望者
tàn wàng zhě
अतिथि
atithi
住客 / 來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 賓 / 探望者 / 旅游者 / 旅行者 / 來賓 / 生人 / 賓 / 陌生人 /

接下來
jiē xià lái
अन्तरिक
antarika

下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /
अनन्तर
anantara
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /

接受
jiē shòu
पटिग्गणहन
paṭigganḥana
前台 / 接受 / 接待 /

接受者
jiē shòu zhě
पटिग्गहेतु
paṭiggahetu

接地
jiē dì

छमा
chamā

土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
छमा
chamā

土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
जगति
jagati

世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /
जगति
jagati

世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /
थल
thala

國土 / 土地 / 土地 / 地 / 地 / 地上 / 地皮 / 地皮 / 地面 / 地面 / 接地 / 接地 / 陆 / 陆地 / 陸 / 陸地 /
थल
thala

國土 / 土地 / 土地 / 地 / 地 / 地上 / 地皮 / 地皮 / 地面 / 地面 / 接地 / 接地 / 陆 / 陆地 / 陸 / 陸地 /
धरणी
dharanī

土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
धरणी
dharanī

土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
पुथुवी
puthuvī

土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
पुथुवी
puthuvī

土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
भू
bhū

土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
भू
bhū

土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /

भूमि
bhūmi

上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /
भूमि
bhūmi

上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /

接待
jiē dài

पटिग्गणहन
paṭiggaṇhana

前台 / 接受 / 接待 /

接著
jiē zhù

अथ
atha

也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथ
atha

也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथो
atho

也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

अथ
atha

也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथो
atho

也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

अथो
atho

也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
तु
tu

不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 剛才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

अथो
atho

也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
तु
tu

不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 剛才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

तु
tu

不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 剛才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

तु
tu

不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 剛才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

तु
tu

不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 剛才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

接觸
jiē chù

अभिघात
abhighāta

接觸 / 殺害 / 碰撞 /
फस्स
phassa

接觸 / 联络 /
फोढुब्ब
phoṭṭhabba

接觸 / 触摸 /

接近
jiē jìn

उपक्कमन
upakkamana

接近 / 攻擊 / 近似 / 近似 / 迫近 / 途徑 / 進場 / 逼近 /
उपगमन
upagamana

承諾 / 接近 /

接近的
jiē jìn de

अविदूर
avidūra

接近的 / 附近 /
आगमन
āgamana

到任 / 到來 / 到来 / 抵达 / 抵達 / 接近的 /
आसन्न
āsanna

接近的 / 鄰近 /

उपकट्ट
upakaṭṭha

接近的 / 沏 / 近 / 近乎 / 近乎 / 靠近 /
उपनायिक
upanāyika

任 / 任職 / 前部 / 处 / 处 / 接近的 / 最初的 / 最前部 / 职 / 職 / 處 / 費用 / 辦公 / 辦公室 /
निकट
nikaṭa

निकट्ट
nikaṭṭha

अविदूर
avidūra

接近的 / 附近 /
आगमन
āgamana

到任 / 到來 / 到来 / 抵达 / 抵達 / 接近的 /
आसन्न
āsanna

接近的 / 鄰近 /

उपकट्ट
upakaṭṭha

接近的 / 沏 / 近 / 近乎 / 近乎 / 靠近 /
उपनायिक
upanāyika

任 / 任職 / 前部 / 处 / 处 / 接近的 / 最初的 / 最前部 / 职 / 職 / 處 / 費用 / 辦公 / 辦公室 /

धुर
dhura

任 / 任職 / 前部 / 处 / 处 / 接近的 / 最初的 / 最前部 / 职 / 職 / 處 / 費用 / 辦公 / 辦公室 /
निकट
nikaṭa

निकट्ट
nikaṭṭha

निकट
nikaṭa

निकट्ट
nikaṭṭha

निकट
nikaṭa

निकट्ट
nikaṭṭha

निकट
nikaṭa

निकट्ट
nikaṭṭha

控制
kòng zhì

आधिपच्च
ādhipacca

幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 控制 / 斷電 / 權力 / 统治 /

इस्सरिय
issariya

控制 / 有道 / 權威 / 統治 / 统治 / 財富 / 财富 /

दम
dama

征服 / 抑制 / 控制 / 馴服 /
दमथ
damatha

征服 / 抑制 / 控制 /

控告
kòng gào

अब्भाचिकखन
abbhācikkhana

指控 / 控告 / 罪名 / 罪狀 /
चोदना
codanā

指控 / 控告 / 罪名 / 罪狀 /

推事
tuī shì

अक्खदस्स
akkhadassa

判定 / 判斷 / 推事 / 法官 / 裁判 /

推崇
tuī chóng

अग्घ
aggha

价 / 价值 / 价格 / 值 / 價 / 價格 / 價錢 / 成本 / 推崇 / 普赖斯 / 行情 /

推理
tuī lǐ

तक्कन
takkana

思考 / 推理 /

推移
tuī yí

चार
cāra

作用 / 動作 / 動議 / 去 / 推移 / 行动 / 行動 / 运动 / 運動 /

掩
yǎn

अपिधान
apidhāna

包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

छदन
chadana

包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋頂 / 屋顶 / 幌子 / 房頂 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

पच्चत्तरण
paccattharaṇa

包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 床單 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

पच्छाद
pacchāda

包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

पापुरण
pāpuraṇa

包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 毛毯 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

पिधान
pidhāna

包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

पिधान
pidhāna

包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

पिधान
pidhāna

包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

पिधान
pidhāna

包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

掩蓋
yǎn gài
अपिधान
apidhāna
包含／包庇／包羅／套／套子／封皮／幌子／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／蓋／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／
छदन
chadana
包含／包庇／包羅／套／套子／封皮／屋頂／屋頂／幌子／房頂／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／蓋／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／
पच्चत्थरण
paccattharaṇa
包含／包庇／包羅／套／套子／封皮／幌子／床單／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／蓋／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／
पच्छाद
pacchāda
包含／包庇／包羅／套／套子／封皮／幌子／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／蓋／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／
पापुरण
pāpuraṇa
包含／包庇／包羅／套／套子／封皮／幌子／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／毛毯／蓋／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／
पिधान
pidhāna
包含／包庇／包羅／套／套子／封皮／幌子／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／蓋／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／

掩護
yǎn hù
अपिधान
apidhāna
包含／包庇／包羅／套／套子／封皮／幌子／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／蓋／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／
छदन
chadana
包含／包庇／包羅／套／套子／封皮／屋頂／屋頂／幌子／房頂／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／蓋／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／
पच्चत्थरण
paccattharaṇa
包含／包庇／包羅／套／套子／封皮／幌子／床單／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／蓋／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／
पच्छाद
pacchāda
包含／包庇／包羅／套／套子／封皮／幌子／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／蓋／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／
पापुरण
pāpuraṇa
包含／包庇／包羅／套／套子／封皮／幌子／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／毛毯／蓋／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／
पिधान
pidhāna
包含／包庇／包羅／套／套子／封皮／幌子／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／蓋／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／

掩飾
yǎn shì
अपिधान
apidhāna
包含／包庇／包羅／套／套子／封皮／幌子／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／蓋／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／
छदन
chadana
包含／包庇／包羅／套／套子／封皮／屋頂／屋頂／幌子／房頂／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／蓋／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／
पच्चत्थरण
paccattharaṇa
包含／包庇／包羅／套／套子／封皮／幌子／床單／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／蓋／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／
पच्छाद
pacchāda
包含／包庇／包羅／套／套子／封皮／幌子／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／蓋／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／
पापुरण
pāpuraṇa
包含／包庇／包羅／套／套子／封皮／幌子／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／毛毯／蓋／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／
पिधान
pidhāna
包含／包庇／包羅／套／套子／封皮／幌子／捂／掩／掩蓋／掩護／掩飾／蓋／罩／蓋／蓋上／蓋子／蔽／覆／覆蓋／遮／遮住／遮掩／

措施
cuò shī
कम
kama
一步／命令／序／措施／方式／方法／模式／步／步子／步驟／狀態／脚步／舉止／訓令／進程／陔／順序／順序／
पमाण
pamāṇa
大小／尺寸／度量／措施／測／測量／測／測量／衡／衡量／量度／
परिच्छेद
pariccheda
圻／垓／垓／境／度量／徼／措施／极限／測／測量／測／測量／界限／眇／疆／疆界／衡／衡量／边际／邊界／量度／际／限制／限定／限度／
परिमाण
parimāṇa
大小／局限／幅度／度量／措施／极限／極限／測／測量／測／測量／衡／衡量／边际／量／量度／限／限制／限定／限度／

描寫
miáo xiě
निद्देस
niddesa
描寫／描述／解釋／

描述
miáo shù
निद्देस
niddesa
描寫／描述／解釋／
提供
tí gōng
अभिहार
abhihāra
आहुति
āhuti
供奉／提供／
提出
tí chū
उद्देस
uddesa
指示／提出／
पसव
pasava
子孫／孳／提出／流出／
提包
tí bāo
पसिब्बक
pasibbaka
一袋／囊／大袋子／手提包／提包／旅行包／旅行包／囊／洗劫／紙袋／袋／袋子／錢包／麻布袋／麻袋／
提問
tí wèn
पन्ह
pañha
事情／問題／回答／审问／提問／質問／質疑／質詢／问题／
提高
tí gāo
उन्नति
unnati
上升／加價／加大／增／增加／增多／增強／增殖／增添／增長／提高／海拔／益／茁／超升／
उन्नम
unnama
插入
chā rù
ओदहन
odahana
揮
huī
चक्क
cakka
令／周期／命令／循环／循環／指令／指揮／揮／揮／毗／自行车／輪子／轮子／轆／轆／騎車／
揮動
huī dòng
तरङ्ग
taraṅga
揮動／水波／波／波浪／浪／浪头／浪潮／

損傷
sǔn shāng
पीळन
pīlana
伤／伤害／损／损伤／損害／損傷／損壞／損害／破壞／
損壞
sǔn huài
पीळन
pīlana
伤／伤害／损／损伤／損害／損傷／損壞／損害／破壞／
損失
sǔn shī
अपाय
apāya
地獄／地獄／損失／損失／茫然／败／過失／
अलाभ
alābha
損失／損失／茫然／败／
जानि
jāni
伉／剝奪／剝奪／太太／夫人／夫妻／女人／女人／妇人／妻／妻子／娶妻／媳婦／愛人／損失／損失／爱人／老婆／茫然／败／
नस्सन
nassana
損失／損失／破壞／茫然／败／
परिहानि
parihāni
損失／損失／毀滅／減少／茫然／败／
損害
sǔn hài
पीळन
pīlana
伤／伤害／损／损伤／損害／損傷／損壞／損害／破壞／
搔
sāo
उल्लिखन
ullikhana
搜
sōu
अन्वेसना
anvesanā
寻／尋／尋找／尋求／搜／搜尋／搜查／搜索／搜身／查／查閱／索／調查／追尋／
गवेसन
gavesana
寻／尋／尋找／尋求／搜／搜尋／搜查／搜索／搜身／查／查閱／索／追尋／
परियेसना
pariyesanā
寻／尋／尋找／尋求／搜／搜尋／搜查／搜索／搜身／查／查閱／索／追尋／
मग्गन
maggana
寻／尋／尋找／尋求／搜／搜尋／搜查／搜索／搜身／查／查閱／索／追尋／

搜尋
sōu xún

अन्वेसना
anvesanā
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 調查 / 追尋 /
गवेसन
gavesana
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /
परियेसना
pariyesanā
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /
मगगन
maggana
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /

搜查
sōu chá

अन्वेसना
anvesanā
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 調查 / 追尋 /
गवेसन
gavesana
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /
परियेसना
pariyesanā
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /
मगगन
maggana
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /

搜索
sōu suǒ

अन्वेसना
anvesanā
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 調查 / 追尋 /
गवेसन
gavesana
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /
परियेसना
pariyesanā
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /
मगगन
maggana
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /

搜索者
sōu suǒ zhě

अन्वेसक
anvesaka
एसी
esī
搜身
sōu shēn

अन्वेसना
anvesanā
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 調查 / 追尋 /
गवेसन
gavesana
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /
परियेसना
pariyesanā
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /

搶先
qiǎng xiān

अगग
agga
一次 / 上端 / 下场 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 结束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 首 / 首先 /
आदि
ādi

摸黑
mō hēi

कण्ह
kaṇha
乌 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 恶 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 溜 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 / 黠 /
काळ
kāḷa
乌 / 冥 / 变黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 溜 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黠 /
तिमिर
timira
乌 / 冥 / 幽暗 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黠 /
तिमिस
timisa
乌 / 冥 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黠 /

摔
shuāi

पात
pāta
下跌 / 坠 / 墮 / 墜 / 墜入 / 墮 / 扔 / 投 / 掉 / 掉下 / 摔 / 摔下 / 摔倒 / 摔倒 / 淪陷 / 落下 / 跌 / 跌下 / 跌倒 / 跌倒 / 跌到 / 跌落 /

摔下
shuāi xià

पात
pāta
下跌 / 坠 / 墮 / 墜 / 墜入 / 墮 / 扔 / 投 / 掉 / 掉下 / 摔 / 摔下 / 摔倒 / 摔倒 / 淪陷 / 落下 / 跌 / 跌下 / 跌倒 / 跌倒 / 跌到 / 跌落 /

摔倒
shuāi dào

पात
pāta
下跌 / 坠 / 墮 / 墜 / 墜入 / 墮 / 扔 / 投 / 掉 / 掉下 / 摔 / 摔下 / 摔倒 / 摔倒 / 淪陷 / 落下 / 跌 / 跌下 / 跌倒 / 跌倒 / 跌到 / 跌落 /
पात
pāta
下跌 / 坠 / 墮 / 墜 / 墜入 / 墮 / 扔 / 投 / 掉 / 掉下 / 摔 / 摔下 / 摔倒 / 摔倒 / 淪陷 / 落下 / 跌 / 跌下 / 跌倒 / 跌倒 / 跌到 / 跌落 /

摘要
zhāi yào

इत्तर
ittara
很少的 / 摘要 / 短命的 /
摩擦
mó cā

आमसन
āmasana
निघंस
nighamsa

摯愛
zhì ài

पियायना
piyāyanā
性愛 / 恋 / 恋爱 / 情 / 愛 / 愛上 / 愛情 / 慈愛 / 戀 / 戀愛 / 摯愛 / 春 / 深愛 / 熱愛 / 爱 / 爱的 / 鐘情 /

摸黑
mō hēi

कण्ह
kaṇha
乌 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 恶 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 溜 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黠 /
काळ
kāḷa
乌 / 冥 / 变黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 溜 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黠 /
तिमिर
timira
乌 / 冥 / 幽暗 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黠 /
तिमिस
timisa
乌 / 冥 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黠 /

撐
chēng

अपस्सय
apassaya
供養 / 墊子 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 枕頭 /
अवस्सय
avassaya
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
आधार
ādhāra
供養 / 基礎 / 容器 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 孟 /
आलम्ब
ālamba
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
आलम्बन
ālambana
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /
उपकरण
upakarana

उपकरण
upakarana
乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 必需品 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
उपकार
upakāra
供養 / 助 / 助手 / 協助 / 壁助 / 好意 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
उपत्थम्भ
upatthambha
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支持者 / 支援 / 支撐 / 維持 / 鼓勵 /

उपनिस्सय
upanissaya
供養 / 基礎 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /
ओलम्ब
olamba
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /
ओलम्बक
olambaka
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /
दीप
dīpa
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 小島 / 島 / 島嶼 / 島 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /
निस्सय
nissaya
供養 / 保护 / 保護 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /

पग्गह
paggaha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /
पग्गाह
paggāha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /
पतिट्ठा
patiṭṭhā
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
पतिट्ठान
patiṭṭhāna
供養 / 建立 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /

撐腰
chēng yāo
अपस्सय
apassaya
供養 / 墊子 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 枕頭 /
अवस्सय
avassaya
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
आधार
ādhāra
供養 / 基礎 / 容器 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 盂 /
आलम्ब
ālamba
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
आलम्बन
ālambana
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /
उपकरण
upakaraṇa
乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 必需品 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
उपकार
upakāra
供養 / 助 / 助手 / 協助 / 壁助 / 好意 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
उपत्थम्भ
upatthambha
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支持者 / 支援 / 支撐 / 維持 / 鼓勵 /
उपनिस्सय
upanissaya
供養 / 基礎 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /
ओलम्ब
olamba
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /
ओलम्बक
olambaka
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /
दीप
dīpa
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 小島 / 島 / 島嶼 / 島 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /
निस्सय
nissaya
供養 / 保护 / 保護 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /

पग्गह
paggaha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /
पग्गाह
paggāha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /
पतिट्ठा
patiṭṭhā
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
पतिट्ठान
patiṭṭhāna
供養 / 建立 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /

撐
chēng
अपस्सय
apassaya
供養 / 墊子 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 枕頭 /
अवस्सय
avassaya
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
आधार
ādhāra
供養 / 基礎 / 容器 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 盂 /
आलम्ब
ālamba
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

पग्गह
paggaha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /
पग्गाह
paggāha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /
पतिट्ठा
patiṭṭhā
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
पतिट्ठान
patiṭṭhāna
供養 / 建立 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /

操心
cāo xīn
कुक्कुच
kukkucca
忧 / 患 / 愁 / 憂 / 憂慮 / 懊悔 / 担心 / 操心 / 擔心 / 擔憂 /
操行
cāo xíng
चरिया
cariyā
पटिपत्ति
paṭipatti
操行 / 練習 /
擔心
dān xīn
कुक्कुच
kukkucca
忧 / 患 / 愁 / 憂 / 憂慮 / 懊悔 / 担心 / 操心 / 擔心 / 擔憂 /
擔憂
dān yōu
कुक्कुच
kukkucca
忧 / 患 / 愁 / 憂 / 憂慮 / 懊悔 / 担心 / 操心 / 擔心 / 擔憂 /

擔負
dān fù
अंस
amsa
一部份 / 份 / 局部 / 擔負 / 股 / 肩 / 肩膀 / 膊 / 膊 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
擘
bò
अङ्गुट्टु
aṅguṭṭha
大拇指 / 巨擘 / 拇 / 拇 / 拇指 / 拇指 / 擘 /

擠奶
jǐ nǎi
दुहन
duhana
擲骰子
zhì tóu zi
अक्ख
akkha
擲骰子 / 骰 / 骰子 /

擴大
kuò dà
उपब्रूहन
upabrūhana
加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 擴大 / 益 / 茁 /
कलि
kali
擊敗 / 罪 / 罪惡 / 罪過 /
擋住
dǎng zhù
निवारण
nivāraṇa
擋住 / 防范 / 預防 / 預防 /

支撐的木柱，支撐著屋頂。

支撐的木柱，支撐著屋頂。

支撐的木柱，支撐著屋頂。

支撐的木柱，支撐著屋頂。

攀升
pān shēng

उग्गम
uggama
上升 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 崛起 / 攀升 / 漲 / 漲 / 益 / 興起 / 茁 /
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 漲 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /

攀登
pān dēng

आरोहन
ārohana
攀登 / 登上 / 登高 /

攜帶
xié dài

नयन
nayana
攜帶 / 目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼病 / 眼睛 / 眼睛 / 睛 / 睛 /

攪拌
jiǎo bàn

चोपन
copana

支持
zhī chí

अपस्सय
apassaya
供養 / 墊子 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 枕頭 /
अवस्सय
avassaya
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
आधार
ādhāra
供養 / 基礎 / 容器 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 盂 /
आलम्ब
ālamba
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
आलम्बन
ālambana
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /

उपकरण
upakaraṇa
乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 必需品 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
उपकार
upakāra
供養 / 助 / 助手 / 協助 / 壁助 / 好意 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
उपत्थम्भ
upatthambha
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支持者 / 支援 / 支撐 / 維持 / 鼓勵 /

उपनिस्सय
upanissaya
供養 / 基礎 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /
ओलम्ब
olamba
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /
ओलम्बक
olambaka
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /

दीप
dīpa
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 小島 / 島 / 島嶼 / 島 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /
निस्सय
nissaya
供養 / 保护 / 保護 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /

पग्गह
paggaha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /
पग्गाह
paggāha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /
पतिट्ठा
patiṭṭhā
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
पतिट्ठान
patiṭṭhāna
供養 / 建立 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /

支持者
zhī chí zhě

उपत्थम्भ
upatthambha
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支持者 / 支援 / 支撐 / 維持 / 鼓勵 /

支援
zhī yuán

अनुज्जा
anuññā
制裁 / 同意 / 批准 / 支援 / 裁 / 許可 / 認可 /
अपस्सय
apassaya
供養 / 墊子 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 枕頭 /
अवस्सय
avassaya
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
आधार
ādhāra
供養 / 基礎 / 容器 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 盂 /
आलम्ब
ālamba
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
आलम्बन
ālambana
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /

उपकरण
upakaraṇa
乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 必需品 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
उपकार
upakāra
供養 / 助 / 助手 / 協助 / 壁助 / 好意 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
उपत्थम्भ
upatthambha
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支持者 / 支援 / 支撐 / 維持 / 鼓勵 /

उपनिस्सय
upanissaya
供養 / 基礎 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /
ओलम्ब
olamba
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /
ओलम्बक
olambaka
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /

दीप
dīpa
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 小島 / 島 / 島嶼 / 島 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /
निस्सय
nissaya
供養 / 保护 / 保護 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /

पग्गह
paggaha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /
पग्गाह
paggāha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /
पतिट्ठा
patiṭṭhā
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
पतिट्ठान
patiṭṭhāna
供養 / 建立 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /

支撐
zhī chēng
अपस्सय
apassaya
供養 / 墊子 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 枕頭 /
अवस्सय
avassaya
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
आधार
ādhāra
供養 / 基礎 / 容器 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 孟 /
आलम्ब
ālamba
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
आलम्बन
ālambana
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /
उपकरण
upakaraṇa
乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 必需品 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
उपकार
upakāra
供養 / 助 / 助手 / 協助 / 壁助 / 好意 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
उपत्थम्भ
upatthambha
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支持者 / 支援 / 支撐 / 維持 / 鼓勵 /
उपनिस्सय
upanissaya
供養 / 基礎 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /
ओलम्ब
olamba
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /
ओलम्बक
olambaka
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /
दीप
dīpa
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 小島 / 島 / 島嶼 / 島 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /
निस्सय
nissaya
供養 / 保护 / 保護 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /

पग्गह
paggaha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /
पग्गाह
paggāha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /
पटिट्ठ
paṭiṭṭhā
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
पटिट्ठान
paṭiṭṭhāna
供養 / 建立 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 /

支柱
zhī zhù
थम्भ
thambha
支柱 / 柱 / 柱子 / 柱状物 / 樁 /
支部
zhī bù
गण
gaṇa
一群 / 人潮 / 人群 / 众 / 擁擠 / 支部 / 扃 / 組 / 群 / 隊 /

收
shōu
अय
aya
定期收入 / 收 / 收入 / 收益 / 熨 / 熨斗 / 鐵 / 鐵頭 / 铁 /
आय
āya
利 / 利润 / 利潤 / 贏 / 定期收入 / 成果 / 收 / 收入 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 漲 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /

收入
shōu rù
अय
aya
定期收入 / 收 / 收入 / 收益 / 熨 / 熨斗 / 鐵 / 鐵頭 / 铁 /
आय
āya
利 / 利润 / 利潤 / 贏 / 定期收入 / 成果 / 收 / 收入 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 漲 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /
बलि
bali
岁入 / 收入 / 收益 / 稅 / 稅 / 進帳 /

收容
shōu róng
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गह
gaha
住宅 / 家 / 居 / 屋 / 屋子 / 屋頂 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गेह
geha
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
घर
ghara
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निलय
nilaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निवेश
nivesa
住宅 / 住所 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 殖民地 / 殖民地 / 舍 / 舍 / 解決 /

收益
shōu yì
अय
aya
定期收入 / 收 / 收入 / 收益 / 熨 / 熨斗 / 鐵 / 鐵頭 / 铁 /
आनिसंस
ānisaṃsa
值得 / 值得 / 利 / 利润 / 利潤 / 功 / 贏 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
आय
āya
利 / 利润 / 利潤 / 贏 / 定期收入 / 成果 / 收 / 收入 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 漲 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /

उपभोग
upabhoga
使用 / 利 / 利润 / 利潤 / 利用 / 可享受的 / 贏 / 收益 / 施用 / 潤 / 潤 / 獲利 / 用 / 用法 / 用途 / 盈利 / 获利 / 裨益 / 运用 / 運用 /
पल्लि
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利润 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到来 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /
बलि
bali
岁入 / 收入 / 收益 / 稅 / 稅 / 進帳 /

收集
shōu jí
निकाय
nikāya
一群 / 团 / 团体 / 團 / 團體 / 宗派 / 小組 / 收集 / 教派 / 派 / 派系 / 組 / 组 / 群 / 群體 / 集團 /

改
gǎi
परिणाम
pariṇāma
发展 / 变 / 变化 / 变更 / 开发 / 成熟 / 改 / 改變 / 更改 / 消化 / 變 / 變動 / 變化 / 變更 / 轉變 / 转变 /

改變
gǎi biàn
परिणाम
pariṇāma
发展 / 变 / 变化 / 变更 / 开发 / 成熟 / 改 / 改變 / 更改 / 消化 / 變 / 變動 / 變化 / 變更 / 轉變 / 转变 /

放鬆
fàng sōng
निर्यान
niyyāna
出發 / 外出 / 放松 / 救出 / 釋放 /

攻
gōng
अधिपतन
adhipatana
侵襲 / 出擊 / 征 / 抨 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 發作 / 行凶 / 跳躍 /
उपक्कम
upakkama
侵襲 / 出擊 / 征 / 意指 / 手段 / 抨 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 方式 / 方法 / 發作 / 行凶 /

攻击
gōng jī
अधिपतन
adhipatana
侵襲 / 出擊 / 征 / 抨 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 發作 / 行凶 / 跳躍 /
उपक्कम
upakkama
侵襲 / 出擊 / 征 / 意指 / 手段 / 抨 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 方式 / 方法 / 發作 / 行凶 /

攻打
gōng dǎ
अधिपतन
adhipatana
侵襲 / 出擊 / 征 / 抨 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 發作 / 行凶 / 跳躍 /
उपक्कम
upakkama
侵襲 / 出擊 / 征 / 意指 / 手段 / 抨 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 方式 / 方法 / 發作 / 行凶 /

攻擊
gōng jī
अधिपतन
adhipatana
侵襲 / 出擊 / 征 / 抨 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 發作 / 行凶 / 跳躍 /
उपक्कम
upakkama
侵襲 / 出擊 / 征 / 意指 / 手段 / 抨 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 方式 / 方法 / 發作 / 行凶 /

उपक्कमन
upakkamana
接近 / 攻擊 / 近似 / 近似 / 迫近 / 途徑 / 進場 / 逼近 /
पहार
pahāra
一發 / 吹 / 打擊 / 攻擊 /

放低
fàng dī
ओरोपन
oropana
放出
fàng chū
मुञ्चन
muñcana
放出 / 釋放 /

放鬆
fàng sōng
निर्यान
niyyāna
出發 / 外出 / 放松 / 救出 / 釋放 /

放逐
fàng zhú
पब्बाजन
pabbājana
放逐 / 流亡 / 流刑 / 流放 / 被放逐者 / 驱逐 /

政府
zhèng fǔ
पालन
pālana
保存 / 保护 / 保護 / 政府 /

故
gù
अत्थवस
atthavasa
使用 / 利用 / 动机 / 原因 / 因 / 情理 / 故 / 施用 / 理 / 理性 / 理由 / 用 / 用法 / 用途 / 由 / 緣故 / 运用 / 運用 / 道理 /

अतो
ato
因此 / 所以 / 故 /
अपदेस
apadesa
动机 / 原因 / 因 / 声明 / 声明书 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 聲明 / 說法 / 说法 / 道理 / 陈述 / 陳述 /

कारण
kāraṇa
动机 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 道理 /
ठान
ṭhāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到 / 到 / 到 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 狀 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /

ततो
tato
因此 / 所以 / 故 / 自從 /
तस्मा
tasmā
因此 / 所以 / 故 /
निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 緣 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /

निमित्त
nimitta
兆 / 兆头 / 先兆 / 前兆 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 徵兆 / 情理 / 故 / 标记 / 理 / 理由 / 由 / 緣故 / 迹象 / 道理 / 預兆 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到 / 到 / 到 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 郵件 / 郵政 / 部位 /

故事
gù shi
कथा
kathā
会话 / 故事 / 演說 / 言語 /

故鄉
gù xiāng
आवास
āvāsa
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
उपस्सय
upassaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
गेह
geha
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /

घर
ghara
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निकेत
niketa
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 故鄉 / 老家 /
निकेतन
niketana
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /

निलय
nilaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家園 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
故障
gù zhàng
पळिबोध
paḷibodha
故障 / 障礙 /

效
xiào
निष्फज्जन
nipphajjana
作用 / 傲 / 印象 / 影响 / 成就 / 成效 / 成果 / 成績 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निष्फत्ति
nipphatti
作用 / 完成 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /
निससन्द
nissanda
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /

फल
phala
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /

效力
xiào lì
इद्धि
iddhi
效力 / 昌盛 / 泓 / 繁榮 / 繁榮 / 繁榮 /
效應
xiào yīng
निष्फज्जन
nipphajjana
作用 / 傲 / 印象 / 影响 / 成就 / 成效 / 成果 / 成績 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निष्फत्ति
nipphatti
作用 / 完成 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /
निससन्द
nissanda
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /

निष्फज्जन
nipphajjana
作用 / 傲 / 印象 / 影响 / 成就 / 成效 / 成果 / 成績 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निष्फत्ति
nipphatti
作用 / 完成 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /
निससन्द
nissanda
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /

फल
phala
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /

निष्फज्जन
nipphajjana
作用 / 傲 / 印象 / 影响 / 成就 / 成效 / 成果 / 成績 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निष्फत्ति
nipphatti
作用 / 完成 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /
निससन्द
nissanda
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /

फल
phala
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /

निष्फज्जन
nipphajjana
作用 / 傲 / 印象 / 影响 / 成就 / 成效 / 成果 / 成績 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निष्फत्ति
nipphatti
作用 / 完成 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /
निससन्द
nissanda
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /

फल
phala
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /

故
dī
अभिघाती
abhigāṭī
仇人 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 /
अमित्त
amitta
仇人 / 件 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 /
अरि
ari
仇人 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 /
दिस
disa
仇人 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 /

पच्चत्थिक
paccatthika
仇人 / 件 / 反對 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 /
पच्चनिक
paccanika
不利的 / 仇人 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 / 相反的 /
पच्चामित्त
paccāmitta
仇人 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 / 魔鬼 /
पटिकण्टक
paṭikaṅṭaka
不利的 / 仇人 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 /
पटिपक्ख
paṭipakkha
仇人 / 件 / 对手 / 對面 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 / 相反的 /

अभिसन्द
abhisanda
成效 / 成果 / 效果 / 果 / 流出 / 究竟 / 結果 / 结果 /
अभिसन्दन
abhisandana
成效 / 成果 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निष्फज्जन
nipphajjana
作用 / 傲 / 印象 / 影响 / 成就 / 成效 / 成果 / 成績 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निष्फत्ति
nipphatti
作用 / 完成 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निससन्द
nissanda
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /

फल
phala
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /

निष्फज्जन
nipphajjana
作用 / 傲 / 印象 / 影响 / 成就 / 成效 / 成果 / 成績 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निष्फत्ति
nipphatti
作用 / 完成 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /
निससन्द
nissanda
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /

फल
phala
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /

निष्फज्जन
nipphajjana
作用 / 傲 / 印象 / 影响 / 成就 / 成效 / 成果 / 成績 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निष्फत्ति
nipphatti
作用 / 完成 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /
निससन्द
nissanda
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /

फल
phala
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /

निष्फज्जन
nipphajjana
作用 / 傲 / 印象 / 影响 / 成就 / 成效 / 成果 / 成績 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निष्फत्ति
nipphatti
作用 / 完成 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /
निससन्द
nissanda
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /

फल
phala
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /

निष्फज्जन
nipphajjana
作用 / 傲 / 印象 / 影响 / 成就 / 成效 / 成果 / 成績 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निष्फत्ति
nipphatti
作用 / 完成 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /
निससन्द
nissanda
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /

फल
phala
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /

敌人	
dí rén	
अभिघाती	
abhighātī	
仇人 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敵軍 /	
अमिस्त	
amitta	
仇人 / 忤 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敵軍 /	
अरि	
ari	
仇人 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敵軍 /	
दिस	
disa	
仇人 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敵軍 /	
पच्चत्थिक	
paccatthika	
仇人 / 忤 / 反对 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敵軍 /	
पच्चनिक	
paccanika	
不利的 / 仇人 / 忤 / 否定的 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敵軍 / 相反的 /	
पच्चामित्त	
paccāmitta	
仇人 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敵軍 / 魔鬼 /	
पटिकण्टक	
paṭikaṅṭaka	
不利的 / 仇人 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敵軍 /	
पटिपक्ख	
paṭipakkha	
仇人 / 忤 / 对手 / 對面 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敵軍 / 相反的 /	
敏捷	
mǎn jié	
जवन	
javana	
奔跑 / 敏捷 / 迅速的 /	
पटिभाण	
paṭibhāṇa	
情報 / 情报 / 敏捷 / 智力 / 理智 / 窍 /	
救世主	
jiù shì zhǔ	
तारेतु	
tāretu	
救世主 / 救星 /	
救出	
jiù chū	
निय्यान	
niyyāna	
出發 / 外出 / 放松 / 救出 / 釋放 /	

救助	
jiù zhù	
अनुग्गणहन	
anuggaṇhana	
助 / 協助 / 壁助 / 好意 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	
अनुबल	
anubala	
刺激 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 激励 /	
अवलम्बन	
avalambana	
助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	
अवस्सय	
avassaya	
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	
आलम्ब	
ālamba	
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	
उपकरण	
upakaraṇa	
乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 必需品 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	
उपकार	
upakāra	
供養 / 助 / 助手 / 協助 / 壁助 / 好意 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	
दीप	
dīpa	
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 小島 / 島 / 岛屿 / 島 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /	
पटिसरण	
paṭisarāṇa	
保护 / 保護 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	
पतिट्ठा	
patitṭhā	
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	

救命	
jiù mìng	
अनुग्गणहन	
anuggaṇhana	
助 / 協助 / 壁助 / 好意 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	
अनुबल	
anubala	
刺激 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 激励 /	
अवलम्बन	
avalambana	
助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	
अवस्सय	
avassaya	
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	
आलम्ब	
ālamba	
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	
उपकरण	
upakaraṇa	
乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 必需品 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	
उपकार	
upakāra	
供養 / 助 / 助手 / 協助 / 壁助 / 好意 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	
दीप	
dīpa	
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 小島 / 島 / 岛屿 / 島 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /	
पटिसरण	
paṭisarāṇa	
保护 / 保護 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	
पतिट्ठा	
patitṭhā	
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	

救援	
jiù yuán	
अनुग्गणहन	
anuggaṇhana	
助 / 協助 / 壁助 / 好意 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	
अनुबल	
anubala	
刺激 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 激励 /	
अवलम्बन	
avalambana	
助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	
अवस्सय	
avassaya	
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	
आलम्ब	
ālamba	
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	
उपकरण	
upakaraṇa	
乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 必需品 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	
उपकार	
upakāra	
供養 / 助 / 助手 / 協助 / 壁助 / 好意 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	
दीप	
dīpa	
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 小島 / 島 / 岛屿 / 島 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /	
पटिसरण	
paṭisarāṇa	
保护 / 保護 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	
पतिट्ठा	
patitṭhā	
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /	
救星	
jiù xīng	
तारेतु	
tāretu	
救世主 / 救星 /	

教	
jiào	
अज्झापन	
ajjhāpana	
指令 / 指示 / 教 /	
आगम	
āgama	
來 / 信仰 / 宗教 / 教 / 聖經 /	
教師	
jiào shī	
अज्झायक	
ajjhāyaka	
師資 / 教師 / 老师 / 老師 /	
आचेर	
ācera	
師資 / 教師 / 老师 / 老師 /	
आचरिय	
ācariya	
師資 / 教師 / 老 / 老师 / 老師 /	
गरु	
garu	
值得尊敬的 / 可敬的 / 導師 / 師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /	
गुरु	
guru	
師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /	
教派	
jiào pài	
निकाय	
nikāya	
一群 / 团 / 团体 / 團 / 團體 / 宗派 / 小組 / 收集 / 教派 / 派 / 派系 / 組 / 组 / 群 / 群體 / 集團 /	
散步	
sàn bù	
गमन	
gamana	
去 / 導致 / 征程 / 征途 / 散步 / 旅游 / 旅游 / 旅程 / 旅程 / 旅行 / 旅行 / 旅途 / 程 / 追逐 /	
敬	
jìng	
अच्चना	
accanā	
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 祭品 / 翊 / 荣誉 /	
गारव	
gārava	
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 翊 /	
चित्तीकार	
cittīkāra	
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 翊 / 考慮 /	
敬意	
jìng yì	
पटिपूजना	
paṭipūjanā	
尊敬 / 崇敬 / 敬意 / 荣誉 /	

敵	敵人	敵方	敵軍	齋
dí	dí rén	dí fāng	dí jūn	zhāi
अभिघाती	अभिघाती	अभिघाती	अभिघाती	तुरित
abhighātī	abhighātī	abhighātī	abhighātī	turita
仇人 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	仇人 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	仇人 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	仇人 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	匆忙地 / 徇 / 很快地 / 快 / 快的 / 快速 / 快速的 / 斋 / 迅 / 迅速 / 迅速地 / 迅速的 / 速 / 遽 / 飞快 /
अमित्त	अमित्त	अमित्त	अमित्त	斑
amitta	amitta	amitta	amitta	bān
仇人 / 忤 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	仇人 / 忤 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	仇人 / 忤 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	仇人 / 忤 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	पदेस
अरि	अरि	अरि	अरि	padesa
ari	ari	ari	ari	交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到位 / 区域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 斑 / 斑點 / 身份 / 部位 /
仇人 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	仇人 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	仇人 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	仇人 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	斑點
दिस	दिस	दिस	दिस	bān diǎn
disa	disa	disa	disa	पदेस
仇人 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	仇人 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	仇人 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	仇人 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	padesa
पच्चत्थिक	पच्चत्थिक	पच्चत्थिक	पच्चत्थिक	交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到位 / 区域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 斑 / 斑點 / 身份 / 部位 /
paccatthika	paccatthika	paccatthika	paccatthika	料理
仇人 / 忤 / 反對 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	仇人 / 忤 / 反對 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	仇人 / 忤 / 反對 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	仇人 / 忤 / 反對 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	liào lǐ
पच्चनिक	पच्चनिक	पच्चनिक	पच्चनिक	आरक्खा
paccanika	paccanika	paccanika	paccanika	ārakkhā
不利的 / 仇人 / 忤 / 否定的 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 / 相反的 /	不利的 / 仇人 / 忤 / 否定的 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 / 相反的 /	不利的 / 仇人 / 忤 / 否定的 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 / 相反的 /	不利的 / 仇人 / 忤 / 否定的 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 / 相反的 /	保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看守 / 看護 / 關心 / 關照 /
पच्चामित्त	पच्चामित्त	पच्चामित्त	पच्चामित्त	गोपन
paccāmitta	paccāmitta	paccāmitta	paccāmitta	gopana
仇人 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 / 魔鬼 /	仇人 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 / 魔鬼 /	仇人 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 / 魔鬼 /	仇人 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 / 魔鬼 /	保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 注意 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 關心 / 關照 /
पटिकण्टक	पटिकण्टक	पटिकण्टक	पटिकण्टक	पटिजग्गन
paṭikaṇṭaka	paṭikaṇṭaka	paṭikaṇṭaka	paṭikaṇṭaka	paṭijaggana
不利的 / 仇人 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	不利的 / 仇人 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	不利的 / 仇人 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	不利的 / 仇人 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 /	修 / 修復 / 修理 / 修補 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 管理 / 脩 / 關心 / 關照 /
पटिपक्ख	पटिपक्ख	पटिपक्ख	पटिपक्ख	परिहार
paṭipakkha	paṭipakkha	paṭipakkha	paṭipakkha	parihāra
仇人 / 忤 / 对手 / 對面 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 / 相反的 /	仇人 / 忤 / 对手 / 對面 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 / 相反的 /	仇人 / 忤 / 对手 / 對面 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 / 相反的 /	仇人 / 忤 / 对手 / 對面 / 敌 / 敌人 / 敌 / 敌人 / 敌方 / 敌军 / 相反的 /	保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威严 / 尊 ^严 / 尊 ^严 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /
			數	斧頭
			shù	fǔ tóu
			गणना	परसु
			gaṇanā	parasu
			号 / 号码 / 多寡 / 数 / 数字 / 數 / 數目 / 算术 / 算術 / 編號 / 编号 / 號 / 號碼 / 計算 /	फरसु
			數目	pharasu
			shù mù	
			गणना	
			gaṇanā	
			号 / 号码 / 多寡 / 数 / 数字 / 數 / 數目 / 算术 / 算術 / 編號 / 编号 / 號 / 號碼 / 計算 /	
			文	
			wén	
			निरुत्ति	
			nirutti	
			文 / 語 / 語言 / 语 / 语言 / 语言学 /	
			भासा	
			bhāsā	
			文 / 方言 / 語 / 語言 / 语 / 语言 / 语言学 /	

新
xīn
अचिर
acira
新 / 新的 / 最近 / 最近的 / 耗 / 近來 / 近来的 /
अभिनव
abhinava
新 / 新的 / 新鮮 / 耗 / 鮮 /
अहत
ahata
新 / 新的 / 新鮮 / 耗 / 鮮 /
नूतन
nūtana
新 / 新的 / 新鮮 / 耗 / 鮮 /
नव
nava
九 / 九個 / 新 / 新的 / 新鮮 / 耗 / 鮮 /

新世界

ख़िन शि ज़े
जगति
jagati
世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /

新的

ख़िन दे
अचिर
acira
新 / 新的 / 最近 / 最近的 / 耗 / 近來 / 近来的 /
अभिनव
abhinava
新 / 新的 / 新鮮 / 耗 / 鮮 /
अहत
ahata
新 / 新的 / 新鮮 / 耗 / 鮮 /
नूतन
nūtana
新 / 新的 / 新鮮 / 耗 / 鮮 /
नव
nava
九 / 九個 / 新 / 新的 / 新鮮 / 耗 / 鮮 /

新聞

ख़िन वन
पवत्ति
pavatti
事件 / 事端 / 入射 / 新聞 / 新闻 / 消息 / 消息 / 發生 / 訊 / 讯 / 音信 /

新聞

ख़िन वन
पवत्ति
pavatti
事件 / 事端 / 入射 / 新聞 / 新闻 / 消息 / 消息 / 發生 / 訊 / 讯 / 音信 /

新鮮
xīn xiān
अभिनव
abhinava
新 / 新的 / 新鮮 / 耗 / 鮮 /
अहत
ahata
新 / 新的 / 新鮮 / 耗 / 鮮 /
नूतन
nūtana
新 / 新的 / 新鮮 / 耗 / 鮮 /
नव
nava
九 / 九個 / 新 / 新的 / 新鮮 / 耗 / 鮮 /

斷電

द्वान् दान्
आधिपच्च
ādhipacca
霧 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 強權 / 控制 / 斷電 / 權力 / 统治 /
आधिपतेय्य
āhipateyya
霧 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 強權 / 斷電 / 權力 /
आनुभाव
ānubhāva
霧 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 霧 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 榮 /
थाम
thāma
霧 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /
बल
bala
军 / 军队 / 霧 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 勢力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

方便

फासुक
phāsuka
不方便 / 便 / 便利 / 宜人 / 愉快 / 方便 /

方便的

फासु
phāsu
安慰 / 安逸 / 容易 / 容易的 / 愉快的 / 慰 / 慰藉 / 方便的 / 易 / 舒服 / 舒服的 / 舒适 /

方向舵
fāng xiàng duò
अरित्त
aritta
方向舵 / 舵 /
方式

fāng shi

उपक्कम
upakkama
侵襲 / 出擊 / 征 / 意指 / 手段 / 押 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 方式 / 方法 / 發作 / 行凶 /
उपनिसा
upanisā
因素 / 方法 / 相似 /
उपाय
upāya
手段 / 方法 /
कम
kama
一步 / 命令 / 序 / 措施 / 方式 / 方法 / 模式 / 步 / 步子 / 步驟 / 狀態 / 脚步 / 舉止 / 训令 / 進程 / 咳 / 順序 / 顺序 /
नय
naya
打算 / 方式 / 方案 / 方法 / 模式 / 策 / 策劃 / 舉止 / 計劃 / 計畫 / 计划 / 顺序 /
नीहार
nīhāra
方式 / 方法 / 樣子 / 舉止 /
पकार
pakāra
方式 / 方法 / 模式 / 樣子 / 舉止 / 顺序 /

方案

fāng àn

नय
naya
打算 / 方式 / 方案 / 方法 / 模式 / 策 / 策劃 / 舉止 / 計劃 / 計畫 / 计划 / 顺序 /

方糖

गुळ
gula
加糖 / 地球 / 地球 / 方糖 / 球 / 糖 / 糖蜜 /

方糖

फांग तंग
गुळ
gula
加糖 / 地球 / 地球 / 方糖 / 球 / 糖 / 糖蜜 /

方言

fāng yán

भासा
bhāsā
文 / 方言 / 語 / 語言 / 语 / 语言 / 语言学 /

於今

yú jīn

अज्ज
ajja
今 / 今天 / 今日 / 於今 /

方法
fāng fǎ
उपक्कम
upakkama
侵襲 / 出擊 / 征 / 意指 / 手段 / 押 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 方式 / 方法 / 發作 / 行凶 /
उपनिसा
upanisā
因素 / 方法 / 相似 /
उपाय
upāya
手段 / 方法 /
कम
kama
一步 / 命令 / 序 / 措施 / 方式 / 方法 / 模式 / 步 / 步子 / 步驟 / 狀態 / 脚步 / 舉止 / 训令 / 進程 / 咳 / 順序 / 顺序 /
जाय
ñāya
制 / 制度 / 方法 / 模式 / 系統 / 系统 / 製 / 顺序 / 體制 / 體系 /
नय
naya
打算 / 方式 / 方案 / 方法 / 模式 / 策 / 策劃 / 舉止 / 計劃 / 計畫 / 计划 / 顺序 /
नीहार
nīhāra
方式 / 方法 / 樣子 / 舉止 /
पकार
pakāra
方式 / 方法 / 模式 / 樣子 / 舉止 / 顺序 /
पथ
patha
中 / 修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /
मग्ग
magga
修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /

方糖

फांग तंग
गुळ
gula
加糖 / 地球 / 地球 / 方糖 / 球 / 糖 / 糖蜜 /

方言

भासा
bhāsā
文 / 方言 / 語 / 語言 / 语 / 语言 / 语言学 /

於今

yú jīn

अज्ज
ajja
今 / 今天 / 今日 / 於今 /

於是

यु शि
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथो
atho
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 現在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

施用

shī yòng

अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 諦 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /

अत्थवस

atthavasa
使用 / 利用 / 动机 / 原因 / 因 / 情理 / 故 / 施用 / 理 / 理性 / 理由 / 用 / 用法 / 用途 / 由 / 緣故 / 运用 / 運用 / 道理 /

अभिनिरोपन

abhiniropana
應用 / 施用 / 申請 / 申請書 / 運用 /

उपभोग

upabhoga
使用 / 利 / 利润 / 利潤 / 利用 / 可享受的 / 贏 / 收益 / 施用 / 潤 / 潤 / 獲利 / 用 / 用法 / 用途 / 盈利 / 获利 / 裨益 / 运用 / 運用 /
पयोजन

payojana
使用 / 利用 / 從事 / 施用 / 用 / 用法 / 用途 / 运用 / 運用 /

परिभोग

paribhoga
享受 / 使用 / 利用 / 愉快 / 施用 / 用 / 用法 / 用途 / 运用 / 運用 /

旁边
páng biān
पक्ख
pakkha
一方 / 侧 / 信徒 / 侧 / 党 / 半邊 / 幫派 / 旁边 / 旁邊 / 派 / 派對 / 派系 / 當事人 / 羽翼 / 翅 / 翅膀 / 翼 / 跛子 / 边 / 黨 /
पस्स
passa
側 / 側 / 半邊 / 旁边 / 旁邊 / 边 /

旁邊
páng biān
पक्ख
pakkha
一方 / 侧 / 信徒 / 侧 / 党 / 半邊 / 幫派 / 旁边 / 旁邊 / 派 / 派對 / 派系 / 當事人 / 羽翼 / 翅 / 翅膀 / 翼 / 跛子 / 边 / 黨 /
पस्स
passa
側 / 側 / 半邊 / 旁边 / 旁邊 / 边 /

旂
qí
केतु
ketu
帜 / 幡 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 旗幟 /
धज
dhaja
帜 / 幡 / 徽 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 符 / 符號 / 象征 / 象徴 /
पताका
patākā
帜 / 幡 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 旗幟 /

旌
máo
बु
buddha
估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情報 / 情报 / 旌 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 窍 / 精神 / 老 / 老的 / 耄 / 舊 / 舊的 /

旅客
lǚ kè
अद्धिक
addhika
旅客 / 旅客 / 旅行者 / 旅行者 / 游客 /
अद्धिक
addhika
旅客 / 旅客 / 旅行者 / 旅行者 / 游客 /
मग्गिक
maggika
旅客 / 旅客 /
मग्गिक
maggika
旅客 / 旅客 /

旅游
lǚ yóu
गमन
gamana
去 / 導致 / 征程 / 征途 / 散步 / 旅游 / 旅游 / 旅程 / 旅程 / 旅行 / 旅行 / 旅途 / 程 / 追逐 /
गमन
gamana
去 / 導致 / 征程 / 征途 / 散步 / 旅游 / 旅游 / 旅程 / 旅程 / 旅行 / 旅行 / 旅途 / 程 / 追逐 /
चारिका
cārikā
征程 / 征途 / 旅游 / 旅程 / 旅程 / 旅行 / 旅行 / 旅途 / 程 /

旅游者
lǚ yóu zhě
अतिथि
atithi
住客 / 來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 探望者 / 旅游者 / 旅游者 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /
अतिथि
atithi
住客 / 來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 探望者 / 旅游者 / 旅游者 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /

旅程
lǚ chéng
गमन
gamana
去 / 導致 / 征程 / 征途 / 散步 / 旅游 / 旅游 / 旅程 / 旅程 / 旅行 / 旅行 / 旅途 / 程 / 追逐 /
गमन
gamana
去 / 導致 / 征程 / 征途 / 散步 / 旅游 / 旅游 / 旅程 / 旅程 / 旅行 / 旅行 / 旅途 / 程 / 追逐 /
चारिका
cārikā
征程 / 征途 / 旅游 / 旅程 / 旅程 / 旅行 / 旅行 / 旅途 / 程 /
चारिका
cārikā
征程 / 征途 / 旅游 / 旅程 / 旅程 / 旅行 / 旅行 / 旅途 / 程 /

旅行
lǚ xíng
गमन
gamana
去 / 導致 / 征程 / 征途 / 散步 / 旅游 / 旅游 / 旅程 / 旅程 / 旅行 / 旅行 / 旅途 / 程 / 追逐 /
चारिका
cārikā
征程 / 征途 / 旅游 / 旅程 / 旅程 / 旅行 / 旅行 / 旅途 / 程 /
चारिका
cārikā
征程 / 征途 / 旅游 / 旅程 / 旅程 / 旅行 / 旅行 / 旅途 / 程 /

旅行包
lǚ xíng bāo
पसिब्बक
pasibbaka
一袋 / 囊 / 大袋子 / 手提包 / 提包 / 旅行包 / 旅行包 / 囊 / 洗劫 / 紙袋 / 袋 / 袋子 / 錢包 / 麻布袋 / 麻袋 /
पसिब्बक
pasibbaka
一袋 / 囊 / 大袋子 / 手提包 / 提包 / 旅行包 / 旅行包 / 囊 / 洗劫 / 紙袋 / 袋 / 袋子 / 錢包 / 麻布袋 / 麻袋 /

旅行者
lǚ xíng zhě
अद्गू
addhagū
旅行者 / 游客 /
अद्धिक
addhika
旅客 / 旅客 / 旅行者 / 旅行者 / 游客 /
अद्धिक
addhika
旅客 / 旅客 / 旅行者 / 旅行者 / 游客 /
गमिक
gamika
旅行者 / 旅行者 / 游客 /
गमिक
gamika
旅行者 / 旅行者 / 游客 /
पथावी
pathāvī
旅行者 / 游客 / 行人 /

पथिक
pathika
旅行者 / 旅行者 / 游客 / 行人 /
पथिक
pathika
旅行者 / 旅行者 / 游客 / 行人 /

旅途
lǚ tú
गमन
gamana
去 / 導致 / 征程 / 征途 / 散步 / 旅游 / 旅游 / 旅程 / 旅程 / 旅行 / 旅行 / 旅途 / 程 / 追逐 /
चारिका
cārikā
征程 / 征途 / 旅游 / 旅程 / 旅程 / 旅行 / 旅行 / 旅途 / 程 /

旋轉
xuán zhuǎn
आवत्त
āvatta
परिवत्तन
parivattana
旋轉 / 翻譯 / 翻译 / 译文 /

旌
jīng
केतु
ketu
帜 / 幡 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 旗幟 /
धज
dhaja
帜 / 幡 / 徽 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 符 / 符號 / 象征 / 象徴 /
पताका
patākā
帜 / 幡 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 旗幟 /

族
zú
कुटुम्ब
kuṭumba
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 属 / 族 /
कुल
kula
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 宗族 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 家系 / 属 / 族 / 氏族 /
गोत्त
gotta
宗族 / 族 / 氏族 / 祖先 / 祖宗 / 血统 /
जातिक
jātika
宗族 / 族 / 氏族 / 民族 /

旗
qí
केतु
ketu
帜 / 幡 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 旗幟 /
धज
dhaja
帜 / 幡 / 徽 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 符 / 符號 / 象征 / 象徴 /
पताका
patākā
帜 / 幡 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 旗幟 /

旗子
qí zi
केतु
ketu
帜 / 幡 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 旗幟 /
धज
dhaja
帜 / 幡 / 徽 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 符 / 符號 / 象征 / 象徴 /
पताका
patākā
帜 / 幡 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 旗幟 /

旗帜
qí zhì
केतु
ketu
帜 / 幡 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 旗幟 /
धज
dhaja
帜 / 幡 / 徽 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 符 / 符號 / 象征 / 象徴 /
पताका
patākā
帜 / 幡 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 旗幟 /

旗幟
qí zhì
केतु
ketu
帜 / 幡 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 旗幟 /
कदलि
kadali
पताका
patākā
帜 / 幡 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 旗幟 /
无

wú
न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒绝 / 无 / 未 / 毋 / 沒 / 沒有 / 没法 / 没 / 沒有 / 没有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /
无知
wú zhī
अजानन
ajānana
不知 / 无知 / 無知 /
अञ्ञाण
aññāṇa
不知 / 愚昧 / 无知 / 無知 /
अविज्जा
avijjā
不知 / 无知 / 無知 /
तम
tama
不知 / 幽暗 / 无知 / 無知 / 黑 / 黑暗 /

既使
jì shǐ
अपि
api
与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 既使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /

既是
jì shì
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

既然
jì rán
पभुति
pabhuti
以來 / 既然 / 由於 / 自 / 自從 / 自此 /

日
rì
अण्ह
aṅha
全天 / 天 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
दिन
dina
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
दिवस
divasa
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /

日出
rì chū
उस्सूर
ussūra

日后
rì hòu
अनागत
anāgata
他日 / 前程 / 前途 / 将来 / 將來 / 日后 / 日後 / 未來 / 未来 / 未来的 /
आयति
āyati
他日 / 前程 / 前途 / 将来 / 將來 / 日后 / 日後 / 未來 / 未来 / 未来的 /

日子
rì zi
अण्ह
aṅha
全天 / 天 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
दिन
dina
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
दिवस
divasa
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /

日後
rì hòu
अनागत
anāgata
他日 / 前程 / 前途 / 将来 / 將來 / 日后 / 日後 / 未來 / 未来 / 未来的 /
आयति
āyati
他日 / 前程 / 前途 / 将来 / 將來 / 日后 / 日後 / 未來 / 未来 / 未来的 /

日报
rì bào
अन्वहं
anvahaṃ
日报 / 每日 / 每日的 /

日日
rì rì
अण्ह
aṅha
全天 / 天 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
दिन
dina
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
दिवस
divasa
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /

旧
jiù
जज्जर
jajjara
估 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /
जर
jara
估 / 发烧 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 热病 / 熱病 / 發燒 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 / 衰老的 /
पुराण
purāṇa
估 / 先前的 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /

बु
buḍḍha
估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情報 / 情报 / 旄 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 窍 / 精神 / 老 / 老的 / 耄 / 舊 / 舊的 /
पुराण
purāṇa
估 / 先前的 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /

बु
buḍḍha
估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情報 / 情报 / 旄 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 窍 / 精神 / 老 / 老的 / 耄 / 舊 / 舊的 /

旧的
jiù de
जज्जर
jajjara
估 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /
जर
jara
估 / 发烧 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 热病 / 熱病 / 發燒 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 / 衰老的 /

पुराण
purāṇa
估 / 先前的 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /
बु
buḍḍha
估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情報 / 情报 / 旄 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 窍 / 精神 / 老 / 老的 / 耄 / 舊 / 舊的 /

旨意
zhǐ yì
अनुक्कम
anukkama
令 / 命令 / 序 / 序列 / 承 / 排序 / 旨意 / 檄 / 次序 / 秩序 / 程 / 系列 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 / 顺序 /

旨趣
zhǐ qù
चेत
ceta
宗旨 / 心意 / 意向 / 意图 / 意圖 / 旨趣 / 用心 / 用意 / 目的 /
早的
zǎo de
काल
kāla
早的 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 /

时
shí
अद्धा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
काल
kāla
早的 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 /

时代
shí dài
आयु
āyu
代 / 壽命 / 年代 / 年岁 / 年纪 / 年老 / 年齡 / 年齡 / 时代 / 歲數 / 變老 / 齡 /

时候
shí hou
अद्धा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

अद्धा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

काल
kāla
早的 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 /
काल
kāla
早的 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 /

时刻
shí kè
खण
khaṇa
一刻 / 分 / 分鐘 / 分钟 / 时刻 / 时机 / 時刻 / 時機 / 會兒 / 机会 / 機會 / 片刻 / 瞬間 / 瞬間 / 關頭 /

时常
shí cháng
अभिण्हं
abhiṅham
不時 / 常 / 常常 / 往往 / 时常 / 時常 / 每每 / 經常 /

时期
shí qī
कालन्तर
kālantara
一段 / 句號 / 时期 / 時期 / 期 / 期間 / 期间 / 课时 /

时机
shí jī
खण
khaṇa
一刻 / 分 / 分鐘 / 分钟 / 时刻 / 时机 / 時刻 / 時機 / 會兒 / 机会 / 機會 / 片刻 / 瞬間 / 瞬間 / 關頭 /
पकरण
pakaraṇa
事件 / 事情 / 場合 / 时机 / 机会 / 肇端 / 近因 /
पसइग
pasaṅga
事件 / 事情 / 傾向 / 場合 / 大事 / 大事件 / 时机 / 机会 / 肇端 / 賽事 / 近因 /

时间
shí jiān
अद्धा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
काल
kāla
早的 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 /

旷
kuàng
कन्तार
kantāra
不毛之地 / 旷 / 曠 / 曠野 / 沙漠 / 漠 / 荒漠 / 荒野 /

昂
áng

अब्हुन्नत
abbhunnata
升高 / 崇 / 昂 / 果 / 潼 / 馱 / 高 / 高位 / 高昂 / 高水平 / 高的 /
उच्च
ucca
多高 / 崇 / 昂 / 果 / 潼 / 馱 / 高 / 高位 / 高大 / 高昂 / 高水平 / 高的 /
तुइग
tuṅga
崇 / 昂 / 果 / 潼 / 馱 / 高 / 高位 / 高昂 / 高水平 / 高的 /

昊
hào
अतिमहन्त
atimahanta
巨 / 巨大 / 巨大的 / 庞大 / 庞大 / 庞大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 / 過大 / 鉅 / 龐 / 龐大 /
ब्रहन्त
brahanta
巨人般的 / 巨大 / 巨大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 /

昌盛
chāng shèng
इद्धि
iddhi
效力 / 昌盛 / 泓 / 繁榮 / 繁荣 /
मङ्गल
maṅgala
儀式 / 典礼 / 典禮 / 吉兆的 / 昌盛 / 泓 / 礼 / 禮 / 繁榮 / 繁荣 /

明
míng
अन्तरिक
antarika
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /
अनन्तर
anantara
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 鐳 /

明亮
míng liàng
तपन
tapana
光亮 / 光明 / 出色 / 快活 / 明亮 / 辉 /
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 鐳 /

明亮的
míng liàng de
उज्जल
ujjala
जुण्ह
juṇha
भस्सर
bhassara
光亮的 / 明亮的 /
भासुर
bhāsura
光亮的 / 明亮的 /

明媚
míng mèi
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 鐳 /

昏倒
hūn dǎo
दुब्बल
dubbala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 昏 / 昏倒 / 昏倒 / 暈倒 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /
दुब्बल
dubbala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 昏 / 昏倒 / 昏倒 / 暈倒 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /

易
yì
फासु
phāsu
安慰 / 安逸 / 容易 / 容易的 / 愉快的 / 慰 / 慰藉 / 方便的 / 易 / 舒服 / 舒服的 / 舒适 /

易怒的
yì nù de
कोधन
kodhana
不受控制的 / 易怒的 /

明星
míng xīng
उळ
uḷu
五星 / 加上星号 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
तारका
tārakā
五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
तारा
tārā
五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
नक्खत्त
nakkhatta
五星 / 加上星号 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 /

明智
míng zhì
पण्डित
paṇḍita
哲 / 明智 / 智者 / 聰 / 英明 /
明智的
míng zhì de
निपक
nipaka

昏
hūn
दुब्बल
dubbala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 昏 / 昏倒 / 昏倒 / 暈倒 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /

昏倒
hūn dǎo
दुब्बल
dubbala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 昏 / 昏倒 / 昏倒 / 暈倒 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /
दुब्बल
dubbala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 昏 / 昏倒 / 昏倒 / 暈倒 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /

易
yì
फासु
phāsu
安慰 / 安逸 / 容易 / 容易的 / 愉快的 / 慰 / 慰藉 / 方便的 / 易 / 舒服 / 舒服的 / 舒适 /

易怒的
yì nù de
कोधन
kodhana
不受控制的 / 易怒的 /

易碎
yì suì
पभङ्गुर
pabhaṅgura
易碎 / 脆 / 脆弱 / 薄弱 / 薄弱 /
昔
xī
अतीत
atīta
往 / 往事 / 昔 / 昔 / 过去 / 過去 /
अतीत
atīta
往 / 往事 / 昔 / 昔 / 过去 / 過去 /

星
xīng
उळ
uḷu
五星 / 加上星号 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
तारका
tārakā
五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
तारा
tārā
五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
नक्खत्त
nakkhatta
五星 / 加上星号 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 /

星辰
xīng chén
उळ
uḷu
五星 / 加上星号 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
तारका
tārakā
五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
तारा
tārā
五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
नक्खत्त
nakkhatta

星座
xīng zuò
उळ
uḷu
五星 / 加上星号 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
नक्खत्त
nakkhatta
五星 / 加上星号 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 /

易碎
yì suì
पभङ्गुर
pabhaṅgura
易碎 / 脆 / 脆弱 / 薄弱 / 薄弱 /

昔
xī
अतीत
atīta
往 / 往事 / 昔 / 昔 / 过去 / 過去 /

星星
xīng xīng
उळ
uḷu
五星 / 加上星号 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
तारका
tārakā
五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
तारा
tārā
五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
नक्खत्त
nakkhatta
五星 / 加上星号 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 /

星辰
xīng chén
उळ
uḷu
五星 / 加上星号 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
तारका
tārakā
五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
तारा
tārā
五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
नक्खत्त
nakkhatta
五星 / 加上星号 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 /

星辰
xīng chén
उळ
uḷu
五星 / 加上星号 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
तारका
tārakā
五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
तारा
tārā
五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
नक्खत्त
nakkhatta
五星 / 加上星号 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 /

易碎
yì suì
पभङ्गुर
pabhaṅgura
易碎 / 脆 / 脆弱 / 薄弱 / 薄弱 /

昔
xī
अतीत
atīta
往 / 往事 / 昔 / 昔 / 过去 / 過去 /

星星
xīng xīng
उळ
uḷu
五星 / 加上星号 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
तारका
tārakā
五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
तारा
tārā
五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
नक्खत्त
nakkhatta
五星 / 加上星号 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 /

映像
yìng xiàng
पटिबिम्ब
paṭibimba
偶 / 像 / 副本 / 印像 / 反映 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
पटिमा
paṭimā
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
बिम्ब
bimba
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /

春
chūn
उब्बिद
ubbhida
彈簧 / 彈簧 / 春 / 春天 / 春季 / 泉 / 泉水 / 源 /
पेम
pema
恋爱 / 感情 / 春 / 爱 /
पियायना
piyāyana
性愛 / 恋 / 恋爱 / 情 / 愛 / 愛上 / 愛情 / 慈愛 / 戀 / 戀愛 / 摯愛 / 春 / 深愛 / 熱愛 / 爱 / 爱的 / 鍾情 /

春天
chūn tiān
उब्बिद
ubbhida
彈簧 / 彈簧 / 春 / 春天 / 春季 / 泉 / 泉水 / 源 /
春季
chūn jì
उब्बिद
ubbhida
彈簧 / 彈簧 / 春 / 春天 / 春季 / 泉 / 泉水 / 源 /

是
shì
अहोसि
ahosi
आम
āma
唯 / 是 / 是的 / 未成熟的 / 沒錯 / 沒錯 / 生的 /
एवं
evaṃ
唯 / 因此 / 因而 / 如此 / 是 / 是的 / 沒錯 / 没错 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 /

是否
shì fǒu
चे
ce
一但 / 倘 / 倘若 / 假 / 假使 / 假如 / 假若 / 好象 / 如果 / 就是 / 是否 / 的話 / 若 / 若是 / 要是 /

是的
shì de
आम
āma
唯 / 是 / 是的 / 未成熟的 / 沒錯 / 沒錯 / 生的 /
एवं
evam
唯 / 因此 / 因而 / 如此 / 是 / 是的 / 沒錯 / 沒錯 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 /

昶
chǎng
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 鐠 /

晷
zhòu
अण्ह
aṅha
全天 / 天 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
दिन
dina
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
दिवस
divasa
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /

時
shí
अद्धा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
काल
kāla
早的 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 /

時候
shí hou
अद्धा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
काल
kāla
早的 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 /

時光
shí guāng
अद्धा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
काल
kāla
早的 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 /

時刻
shí kè
खण
khaṇa
一刻 / 分 / 分鐘 / 分钟 / 时刻 / 时机 / 時刻 / 時機 / 會兒 / 机会 / 機會 / 片刻 / 瞬間 / 瞬間 / 關頭 /

時常
shí cháng
अभिण्हं
abhiṅhaṃ
不時 / 常 / 常常 / 往往 / 时常 / 時常 / 每每 / 經常 /
बहुल
bahula
大概 / 時常 / 豐富 /
बहुसो
bahuso
大概 / 時常 /

時期
shí qī
कालन्तर
kālantara
一段 / 句號 / 时期 / 時期 / 期 / 期間 / 期间 / 课时 /
時機
shí jī
खण
khaṇa
一刻 / 分 / 分鐘 / 分钟 / 时刻 / 时机 / 時刻 / 時機 / 會兒 / 机会 / 機會 / 片刻 / 瞬間 / 瞬間 / 關頭 /

時節
shí jié
उतु
utu
天气 / 天氣 / 季 / 季節 / 季节 / 時節 / 气候 / 氣候 /
時間
shí jiān
अद्धा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
काल
kāla
早的 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 /

晃動
huang dòng
पासाण
pāsāṇa
小石 / 岩 / 岩石 / 巖 / 晃動 / 核 / 石 / 石板 / 石頭 / 磐 / 磐石 /

晒
shài
अक्क
akka
周日 / 太阳 / 太陽 / 晒 / 曬 / 阳 / 陽 /
आदिच्च
ādicca
周日 / 太阳 / 太陽 / 晒 / 曬 / 阳 / 陽 /
भानु
bhānu
亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /

晚
wǎn
निसा
nisā
入夜 / 夜 / 夜幕 / 夜晚 / 夜游 / 夜行 / 宵 / 宿 / 整夜 / 晚 / 晚上 / 晦 / 每晚 / 黄昏 / 黑夜 /

晚上
wǎn shàng
निसा
nisā
入夜 / 夜 / 夜幕 / 夜晚 / 夜游 / 夜行 / 宵 / 宿 / 整夜 / 晚 / 晚上 / 晦 / 每晚 / 黄昏 / 黑夜 /

晝
zhòu
अण्ह
aṅha
全天 / 天 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
दिन
dina
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
दिवस
divasa
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /

景色
jǐng sè
उपलद्धि
upaladdhi
來看 / 所屬 / 景 / 景色 / 查看 / 檢視 / 看法 / 眺望 / 瞻 / 見解 / 觀點 / 鑒 / 鑑 / 鑒 /

晶
jīng
काच
kāca
晶 / 杯 / 杯子 / 水晶 / 玻 / 玻璃 / 玻璃制品 / 玻璃杯 / 玻璃的 / 璃 / 表蒙子 /

晦
huì
कण्ह
kaṅha
乌 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 恶 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 濛 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪恶 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 / 黯 /
काळ
kāḷa
乌 / 冥 / 变黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 濛 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 / 黯 /
तिमिर
timira
乌 / 冥 / 幽暗 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
तिमिस
timisa
乌 / 冥 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
निसा
nisā
入夜 / 夜 / 夜幕 / 夜晚 / 夜游 / 夜行 / 宵 / 宿 / 整夜 / 晚 / 晚上 / 晦 / 每晚 / 黄昏 / 黑夜 /

普赖斯
pǔ lài sī
अग्घ
aggha
价 / 价值 / 价格 / 值 / 價 / 價格 / 價錢 / 成本 / 推崇 / 普赖斯 / 行情 /

景
jǐng
उपलद्धि
upaladdhi
來看 / 所屬 / 景 / 景色 / 查看 / 檢視 / 看法 / 眺望 / 瞻 / 見解 / 觀點 / 鑒 / 鑑 / 鑒 /
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 鐠 /

景色
jǐng sè
उपलद्धि
upaladdhi
來看 / 所屬 / 景 / 景色 / 查看 / 檢視 / 看法 / 眺望 / 瞻 / 見解 / 觀點 / 鑒 / 鑑 / 鑒 /

晶
jīng
काच
kāca
晶 / 杯 / 杯子 / 水晶 / 玻 / 玻璃 / 玻璃制品 / 玻璃杯 / 玻璃的 / 璃 / 表蒙子 /

智
zhì
अमोह
amoha
智 / 智慧 /
जाण
ñāṇa
智 / 智慧 / 洞察力 /
पञ्ञा
pañña
智 / 智慧 / 洞察力 / 深知 / 知識 / 知识 / 知道 / 識 / 识 / 识 /
बु
buddhi
估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情報 / 情报 / 旄 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 窍 / 精神 / 老 / 老的 / 耄 / 舊 / 舊的 /
भूरि
bhūri
智 / 智慧 /

智力
zhì lì
पटिभाण
paṭibhāṇa
情報 / 情报 / 敏捷 / 智力 / 理智 / 窍 /
बु
buddhi
估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情報 / 情报 / 旄 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 窍 / 精神 / 老 / 老的 / 耄 / 舊 / 舊的 /

智力的
zhì lì de
चेतसिक
cetasika
心理的 / 智力的 /

智慧
zhì huì
अमोह
amoha
智 / 智慧 /
जाण
ñāṇa
智 / 智慧 / 洞察力 /

पञ्ञा
pañña
智 / 智慧 / 洞察力 / 深知 / 知識 / 知识 / 知道 / 識 / 识 / 识 /
बु
buddhi

估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情報 / 情报 / 旄 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 窍 / 精神 / 老 / 老的 / 耄 / 舊 / 舊的 /
भूरि
bhūri
智 / 智慧 /

智者
zhì zhě
पण्डित
paṇḍita
哲 / 明智 / 智者 / 聪 / 英明 /

暈倒
yūn dào
दुबबल
dubbala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 昏 / 昏倒 / 昏倒 / 暈倒 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /

暑
shǔ
उष्ण
uṣṇa
加热 / 惹火 / 暑 / 火爆 / 火辣 / 烫 / 热 / 热气 / 热的 / 熱 / 熱氣 / 燙 / 辣 /

暗
àn
कण्ह
kaṇha
乌 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 恶 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 溜 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪恶 / 邪恶的 / 邪恶 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
काळ
kāla
乌 / 冥 / 变黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 溜 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
तिमिर
timira
乌 / 冥 / 幽暗 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
तिमिस
timisa
乌 / 冥 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黧 /

暗影
àn yǐng
छाया
chāyā
影 / 影子 / 暗影 / 肖像 / 荫 / 阴影 / 陰影 /

暗的
àn de
अनुत्तान
anuttāna
冥 / 暗的 / 根深 / 模糊的 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深遠 / 渊 / 湛 / 窈 / 罩 / 遂 /
कण्ह
kaṇha
乌 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 恶 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 溜 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪恶 / 邪恶的 / 邪恶 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
काळ
kāla
乌 / 冥 / 变黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 溜 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
तिमिर
timira
乌 / 冥 / 幽暗 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
तिमिस
timisa
乌 / 冥 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黧 /

曠
míng
कण्ह
kaṇha
乌 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 恶 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 溜 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪恶 / 邪恶的 / 邪恶 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
काळ
kāla
乌 / 冥 / 变黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 溜 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
तिमिर
timira
乌 / 冥 / 幽暗 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
तिमिस
timisa
乌 / 冥 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黧 /

暨
jì
अपि
api
与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 既使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /
च
ca
与 / 且 / 並 / 並且 / 也 / 以及 / 併 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 和 / 太 / 并 / 并且 / 暨 / 汰 / 而 / 而且 / 與 /
पन
pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /

暮
mù
पदोस
padosa
傍晚 / 微明 / 暮 / 污點 / 激怒 / 缺點 / 薄暮 / 黃昏 /

暴力
bào lì
चण्ड
caṇḍa
多情 / 悍 / 暴力 / 暴烈 /

暴烈
bào liè
चण्ड
caṇḍa
多情 / 悍 / 暴力 / 暴烈 /

曝露
pù lù
उत्तान
uttāna
उत्तानक
uttānaka

曠
kuàng
कन्तार
kantāra
不毛之地 / 旷 / 曠 / 曠野 / 沙漠 / 漠 / 荒漠 / 荒野 /

曠野
kuàng yě
कन्तार
kantāra
不毛之地 / 旷 / 曠 / 曠野 / 沙漠 / 漠 / 荒漠 / 荒野 /

曬
shài
अक्क
akka
周日 / 太阳 / 太陽 / 晒 / 曬 / 阳 / 陽 /
आदिच्च
ādicca
周日 / 太阳 / 太陽 / 晒 / 曬 / 阳 / 陽 /
भानु
bhānu
亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /

曲
qū
गान
gāna
唱歌 / 嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌唱 / 歌曲 / 歌曲 / 歌聲 / 頌 /
गान
gāna
唱歌 / 嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌唱 / 歌曲 / 歌曲 / 歌聲 / 頌 /
गीत
gīta
唱歌 / 嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌唱 / 歌曲 / 歌曲 / 歌聲 / 頌 /
गीतिका
gītika
嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌曲 / 歌曲 / 頌 /
गीतिका
gītika
嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌曲 / 歌曲 / 頌 /

曲子
qū zi
गान
gāna
唱歌 / 嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌唱 / 歌曲 / 歌曲 / 歌聲 / 頌 /
गीत
gīta
唱歌 / 嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌唱 / 歌曲 / 歌曲 / 歌聲 / 頌 /
गीतिका
gītika
嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌曲 / 歌曲 / 頌 /

更多
gèng duō
बहुतर
bahutara
更 / 更加 / 更多 / 更好 / 许多 / 越來越 / 越來越多 / 非常多 /
भिय्यो
bhiyyo
多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /
भिय्योसो
bhiyyoso
多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /

更
gèng
उत्तरि
uttari
再作 / 另外 / 更 / 更远的 / 此外 / 而且 / 進一步 / 附加的 /
उत्तरिं
uttariṃ
再作 / 另外 / 更 / 更远的 / 此外 / 而且 / 進一步 / 附加的 /
परो
paro
上述 / 上面 / 以上 / 再作 / 前述 / 向上 / 在上面 / 更 / 更远的 / 此外 / 進一步 /
बहुतर
bahutara
更 / 更加 / 更多 / 更好 / 许多 / 越來越 / 越來越多 / 非常多 /
भिय्यो
bhiyyo
多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /
भिय्योसो
bhiyyoso
多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /

更加
gèng jiā
बहुतर
bahutara
更 / 更加 / 更多 / 更好 / 许多 / 越來越 / 越來越多 / 非常多 /
भिय्यो
bhiyyo
多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /
भिय्योसो
bhiyyoso
多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /

更多
gèng duō
बहुतर
bahutara
更 / 更加 / 更多 / 更好 / 许多 / 越來越 / 越來越多 / 非常多 /
भिय्यो
bhiyyo
多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /
भिय्योसो
bhiyyoso
多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /

更多的
gèng duō de
भिट्यो
bhiyyo
多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /
भिट्योसो
bhiyyoso
多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /

更大的
gèng dà de
भिट्यो
bhiyyo
多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /
भिट्योसो
bhiyyoso
多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /

更好
gèng hǎo
बहुतर
bahutara
更 / 更加 / 更多 / 更好 / 许多 / 越來越 / 越來越多 / 非常多 /
भिट्यो
bhiyyo
多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /
भिट्योसो
bhiyyoso
多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /

更改
gèng gǎi
परिणाम
pariṇāma
发展 / 变 / 变化 / 变更 / 开发 / 成熟 / 改 / 改變 / 更改 / 消化 / 變 / 變動 / 變化 / 變更 / 轉變 / 转变 /

更远的
gèng yuǎn de
उत्तरि
uttari
再作 / 另外 / 更 / 更远的 / 此外 / 而且 / 進一步 / 附加的 /
उत्तरिं
uttarim
再作 / 另外 / 更 / 更远的 / 此外 / 而且 / 進一步 / 附加的 /
परो
paro
上述 / 上面 / 以上 / 再作 / 前述 / 向上 / 在上面 / 更 / 更远的 / 此外 / 進一步 /

曷
hé
कतम
katama
什么 / 何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 如何 / 孰 / 曷 / 那 / 那 /

書
shū
पोत्थक
potthaka
书 / 书籍 / 冊 / 冊子 / 册 / 書 / 書本 / 本子 / 簿子 / 著作 / 著作 / 預定 /
書本
shū běn
पोत्थक
potthaka
书 / 书籍 / 冊 / 冊子 / 册 / 書 / 書本 / 本子 / 簿子 / 著作 / 著作 / 預定 /

曼
màn
उरु
uru
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 大號 / 奘 / 奘 / 弘 / 恢 / 曼 / 極大 / 碩 / 莫大 / 觥 /
जन
jana
人 / 人中 / 人们 / 人們 / 人士 / 人心 / 人民 / 夫 / 夫 / 子民 / 成年男子 / 曼 / 民 / 民眾 / 氓 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 眾人 / 者 / 萌 /
दिपद
dipada
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 男人 / 男子 / 男子漢 /
पुथुल
puthula
伟 / 大 / 大的 / 大號 / 曼 / 硕 /
पुम
puma
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男的 / 雄 / 雄性 / 雄的 /
पुरिस
purisa
人 / 人士 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男性的 / 男的 / 者 / 雄 / 雄性 / 雄的 /
पोस
posa
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 男人 / 男子 / 男子漢 /

會
céng
एकदा
ekadā
一度 / 一旦 / 一朝 / 一次 / 同時 / 曾 / 曾經 /
曾經
céng jīng
एकदा
ekadā
一度 / 一旦 / 一朝 / 一次 / 同時 / 曾 / 曾經 /

會
céng
एकदा
ekadā
一度 / 一旦 / 一朝 / 一次 / 同時 / 曾 / 曾經 /
曾經
céng jīng
एकदा
ekadā
一度 / 一旦 / 一朝 / 一次 / 同時 / 曾 / 曾經 /

最低的
zuì dī de
ओरिम
orima
पच्छिम
pacchima
刚过去的 / 往西 / 往西 / 最低的 / 最后 / 最后的 / 最後的 / 最新 / 最近的 / 最遲 / 西 / 西 / 西域 / 西方的 / 西洋 / 西洋 /

最初
zuì chū
अग्ग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 首 / 首先 /
आदि
ādi
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 開始 / 首 / 首先 /
पठम
paṭhama
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先前的 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 起先 / 首 / 首先 /

मुख
mukha
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 菁 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /
मुख्य
mukhya
最初的 / 最重要的 /

最前部
zuì qián bù
धुर
dhura
任 / 任職 / 前部 / 处 / 处 / 接近的 / 最初的 / 最前部 / 职 / 職 / 處 / 費用 / 辦公 / 辦公室 /

最后
zuì hòu
अन्तिम
antima
最后 / 最後 / 最終 / 最终 / 最终的 / 末期 / 結局 /
पच्छिम
pacchima
刚过去的 / 往西 / 往西 / 最低的 / 最后 / 最后的 / 最後的 / 最新 / 最近的 / 最遲 / 西 / 西 / 西域 / 西方的 / 西洋 / 西洋 /

最初的
zuì chū de
आदि
ādi
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 開始 / 首 / 首先 /

आवत्थिक
āvattthika
原 / 原件 / 原來 / 原先 / 原創 / 原始 / 原始的 / 原文 / 原有 / 原本 / 原来 / 原著 / 原貌 / 最初的 /
जेढु
jetṭha
最初的 / 至高的 /
धुर
dhura
任 / 任職 / 前部 / 处 / 处 / 接近的 / 最初的 / 最前部 / 职 / 職 / 處 / 費用 / 辦公 / 辦公室 /

पठम
paṭhama
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先前的 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 起先 / 首 / 首先 /
पधान
padhāna
主要的 / 最初的 / 領袖 / 首席 / 魁 /
पाकतिक
pākatika
天然 / 最初的 / 自然 / 自然的 /

मुख
mukha
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 菁 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /
मुख्य
mukhya
最初的 / 最重要的 /

最前部
zuì qián bù
धुर
dhura
任 / 任職 / 前部 / 处 / 处 / 接近的 / 最初的 / 最前部 / 职 / 職 / 處 / 費用 / 辦公 / 辦公室 /

最后
zuì hòu
अन्तिम
antima
最后 / 最後 / 最終 / 最终 / 最终的 / 末期 / 結局 /
पच्छिम
pacchima
刚过去的 / 往西 / 往西 / 最低的 / 最后 / 最后的 / 最後的 / 最新 / 最近的 / 最遲 / 西 / 西 / 西域 / 西方的 / 西洋 / 西洋 /

最后的
zuì hòu de
पच्छिम
pacchima
刚过去的 / 往西 / 往西 / 最低的 / 最后 / 最后的 / 最後的 / 最新 / 最近的 / 最遲 / 西 / 西 / 西域 / 西方的 / 西洋 / 西洋 /

最好的
zuì hǎo de
उत्तम
uttama
最後
zuì hòu
अन्तिम
antima
最后 / 最後 / 最終 / 最终 / 最终的 / 末期 / 結局 /

最後的
zuì hòu de
चरिम
carima
चरिमक
carimaka
पच्छिम
pacchima
刚过去的 / 往西 / 往西 / 最低的 / 最后 / 最后的 / 最後的 / 最新 / 最近的 / 最遲 / 西 / 西 / 西域 / 西方的 / 西洋 / 西洋 /

最新
zuì xīn
पच्छिम
pacchima
刚过去的 / 往西 / 往西 / 最低的 / 最后 / 最后的 / 最後的 / 最新 / 最近的 / 最遲 / 西 / 西 / 西域 / 西方的 / 西洋 / 西洋 /

最終
zuì zhōng
अन्तिम
antima
最后 / 最後 / 最終 / 最终 / 最终的 / 末期 / 結局 /

最终
zuì zhōng
अन्तिम
antima
最后 / 最後 / 最終 / 最终 / 最终的 / 末期 / 結局 /

最终的
zuì zhōng de
अन्तिम
antima
最后 / 最後 / 最終 / 最终 / 最终的 / 末期 / 結局 /

最近
zui jìn
अचिर
acira
新 / 新的 / 最近 / 最近的 / 耗 / 近來 / 近來的 /
अधुना
adhunā
今 / 今朝 / 剛才 / 在眼前 / 如今 / 最近 / 最近地 / 此刻 / 此時 / 現 / 現在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 / 近來 / 近日 / 近來 /

最近地
zui jìn dì
अधुना
adhunā
今 / 今朝 / 剛才 / 在眼前 / 如今 / 最近 / 最近地 / 此刻 / 此時 / 現 / 現在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 / 近來 / 近日 / 近來 /

最近的
zui jìn de
अचिर
acira
新 / 新的 / 最近 / 最近的 / 耗 / 近來 / 近來的 /
पच्छिम
pacchima
刚过去的 / 往西 / 往西 / 最低的 / 最后 / 最后的 / 最後的 / 最新 / 最近的 / 最遲 / 西 / 西 / 西域 / 西方的 / 西洋 / 西洋 /

最遲
zui chí
पच्छिम
pacchima
刚过去的 / 往西 / 往西 / 最低的 / 最后 / 最后的 / 最後的 / 最新 / 最近的 / 最遲 / 西 / 西 / 西域 / 西方的 / 西洋 / 西洋 /

最重要的
zui zhòng yào de
मुख्य
mukhya
最初的 / 最重要的 /

最高的
zui gāo de
अग्ग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 首 / 首先 /
उपरि
upari
上 / 上述 / 上面 / 之上 / 于 / 以上 / 前述 / 在 / 就 / 最高的 /

會兒
huì r
खण
khaṇa
一刻 / 分 / 分鐘 / 分钟 / 时刻 / 时机 / 時刻 / 時機 / 會兒 / 机会 / 機會 / 片刻 / 瞬間 / 瞬間 / 關頭 /

會員
huì yuán
अवयव
avayava
一部份 / 份 / 员 / 員 / 局部 / 成員 / 會員 / 股 / 肢 / 要素 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
會死
huì sǐ
मच्च
macca
人 / 会死 / 凡人 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 會死 / 男人 / 男子 / 男子漢 /
會議
huì yì
ओसरण
osaraṇa

月亮
yuè liàng
उळ
ulu
五星 / 加上星号 / 恆星 / 明星 / 星 / 星座 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
चन्द्र
canda
月亮 / 月光 / 月球 /
चन्द्रिमा
candimā
月亮 / 月光 / 月球 /
तारका
tārakā
五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 月亮 /
तारा
tārā
五星 / 加上星号 / 天空 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 月亮 /

月光
yuè guāng
कोमुदी
komudī
चन्द्र
canda
月亮 / 月光 / 月球 /
चन्द्रिका
candikā
चन्द्रिमा
candimā
月亮 / 月光 / 月球 /
जुण्हा
juṇhā

月光照耀的
yuè guāng zhào yào de
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 躑 /

月底
yuè dǐ
अग्ग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 首 / 首先 /
अन्त
anta
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂端 /
अपवग्ग
apavagga

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
अवसान
avasāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
ओसान
osāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

कोटि
koṭi
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 點 /
कोण
koṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /
निट्ठा
niṭṭhā

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
परिनिट्ठान
parinīṭṭhāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 /

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
--

परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 稜 / 極限 / 止境 / 滙 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 結束 / 缘 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियोसान
pariyosāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂端 /
अपवग्ग
apavagga
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
अवसान
avasāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 點 /
कोण
koṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /
निट्ठा
niṭṭhā

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
परिनिट्ठान
parinīṭṭhāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 /

月末
yuè mò
अग्ग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 首 / 首先 /
अन्त
anta
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂端 /
अपवग्ग
apavagga

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
अवसान
avasāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
ओसान
osāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 點 /
कोण
koṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /
निट्ठा
niṭṭhā

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
परिनिट्ठान
parinīṭṭhāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 /

परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 極限 / 棧 / 極限 / 止境 / 瀾 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 終結 / 結束 / 緣 / 邊 / 邊境 / 邊沿 / 邊緣 / 邊際 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 際 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियोसान
pariyosāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 終結 / 結束 / 道 /

月球
yuè qiú
चन्द
canda
月亮 / 月光 / 月球 /
चन्दिमा
candimā
月亮 / 月光 / 月球 /

有些
yǒu xiē
एकच
ekacca
一些 / 一番 / 些 / 必然 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某一個 / 某些 / 确定 /
एकच्चिय
ekacciya
一些 / 一番 / 些 / 必然 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某一個 / 某些 / 确定 /
कतिपय
katipaya
一些 / 一番 / 些 / 几 / 几个 / 好几 / 好幾 / 幾個 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某些 / 若干 /

有人
yǒu rén
एकच
ekacca
一些 / 一番 / 些 / 必然 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某一個 / 某些 / 确定 /
एकच्चिय
ekacciya
一些 / 一番 / 些 / 必然 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某一個 / 某些 / 确定 /
कतिपय
katipaya
一些 / 一番 / 些 / 几 / 几个 / 好几 / 好幾 / 幾個 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某些 / 若干 /

有力的
yǒu lì de
थाम
thāma
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /
बली
balī

有助
yǒu zhù
अनुगणहन
anuggaṇhana
助 / 協助 / 壁助 / 好意 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
अनुबल
anubala
刺激 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 激励 /
अवलम्बन
avalambana
助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

अवस्सय
avassaya
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
आलम्ब

आलम्बा
ālamba
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
उपकरण
upakaraṇa
乐器 / 仪 / 供養 / 儀 / 儀器 / 具 / 助 / 協助 / 器具 / 器械 / 壁助 / 工具 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 必需品 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

उपकार
upakāra
供養 / 助 / 助手 / 協助 / 壁助 / 好意 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /
दीप
dīpa
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 小島 / 島 / 岛屿 / 島 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /
पटिसरण
paṭisaraṇa
保护 / 保護 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

पटिट्ठा
patitṭhā
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 帮 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 /

有勇氣
yǒu yǒng qì
धिति
dhiti
决心 / 勇气 / 勇氣 / 有勇氣 / 活力 / 精力 / 胆量 / 能源 / 能量 / 膽子 / 膽量 / 高能 /

有味道
yǒu wèi dào
अस्साद
assāda
口味 / 味 / 味兒 / 味道 / 品味 / 品尝 / 品尝 / 啗 / 嚼 / 嘗 / 尝 / 愉快 / 有味道 / 滋味 / 滿足 / 趣味 /
有害
yǒu hài
अन्त्य
anattha
不幸 / 伤害 / 傷害 / 危害 / 壞處 / 害 / 弊 / 损伤 / 損害 / 有害 /

有害的
yǒu hài de
उपघातक
upaghātaka
उपघाती
upaghātī

有希望
yǒu xī wàng
पटिञ्जा
paṭiññā
同意 / 有希望 / 答應 / 約定 / 許 / 許可 / 許諾 / 諾 / 諾言 /
पटिस्सव
paṭissava
有希望 / 答應 / 約定 / 許 / 許諾 / 諾 / 諾言 / 贊成 /

有必要
yǒu bì yào
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 谛 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /

有时
yǒu shí
अप्पेकदा
appekadā
有时 / 有时候 / 有時 / 有時候 / 有時候 /
कुदाचन
kudācana
有时 / 有时候 / 有時 / 有時候 / 有時候 /
कुदाचनं
kudācanaṃ
有时 / 有时候 / 有時 / 有時候 / 有時候 /
कदाचि
kadāci
有时 / 有时候 / 有時 / 有時候 / 有時候 /

有时
yǒu shí hòu
अप्पेकदा
appekadā
有时 / 有时候 / 有時 / 有時候 / 有時候 /
कुदाचन
kudācana
有时 / 有时候 / 有時 / 有時候 / 有時候 /
कुदाचनं
kudācanaṃ
有时 / 有时候 / 有時 / 有時候 / 有時候 /
कदाचि
kadāci
有时 / 有时候 / 有時 / 有時候 / 有時候 /

有时候
yǒu shí hòu
अप्पेकदा
appekadā
有时 / 有时候 / 有時 / 有時候 / 有時候 /
कुदाचन
kudācana
有时 / 有时候 / 有時 / 有時候 / 有時候 /
कुदाचनं
kudācanaṃ
有时 / 有时候 / 有時 / 有時候 / 有時候 /
कदाचि
kadāci
有时 / 有时候 / 有時 / 有時候 / 有時候 /

有時
yǒu shí
अप्पेकदा
appekadā
有时 / 有时候 / 有時 / 有時候 / 有時候 /

有洞的
yǒu dòng de
छिद्द
chidda
孔 / 有洞的 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 穿孔的 / 窟窿 / 缺點 / 裂縫 / 過失 / 阱 /
有的是
yǒu de shì
एकच
ekacca
一些 / 一番 / 些 / 必然 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某一個 / 某些 / 确定 /
एकच्चिय
ekacciya
一些 / 一番 / 些 / 几 / 几个 / 好几 / 好幾 / 幾個 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某些 / 若干 /

有時候
yǒu shí hóu
अप्पेकदा
appekadā
有时 / 有时候 / 有時 / 有時候 / 有時候 /
कुदाचन
kudācana
有时 / 有时候 / 有時 / 有時候 / 有時候 /
कुदाचनं
kudācanaṃ
有时 / 有时候 / 有時 / 有時候 / 有時候 /
कदाचि
kadāci
有时 / 有时候 / 有時 / 有時候 / 有時候 /

有義務
yǒu yì wu
बद्ध
baddha
有義務 / 束縛 /
बन्ध
bandha
有義務 / 束縛 / 關押 /
बन्धन
bandhana
有義務 / 束縛 /

有耐久力
yǒu nài jiǔ lì
थिर
thira
事務所 / 公司 / 固 / 堅 / 堅決 / 堅定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 快 / 恆久 / 持久 / 有耐久力 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 持久的 / 迅 / 迅速 / 速 / 遽 /

有聲
yǒu shēng
गद
gada
作響 / 健全 / 嘔心 / 嘔 / 声 / 声音 / 恙 / 有聲 / 演講 / 疾 / 疾病 / 病 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
घोस
ghosa
作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘔 / 嘔 / 声 / 声音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

धनित
dhanita
作響 / 健全 / 嘔 / 声 / 声音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
निन्नाद
ninnāda
作響 / 健全 / 嘔 / 声 / 声音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

有能力的
yǒu néng lì de
भब्व
bhabva
勝任 / 得力 / 得力 / 有能力的 / 能力 / 能干 / 能干 /

有道
yǒu dào
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 需 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /

इस्सरिय
issariya
控制 / 有道 / 權威 / 統治 / 统治 / 財富 / 财富 /
दब्व
dabba
事件 / 实体 / 實質 / 有道 / 木料 / 木材 / 材 / 材料 / 森林 / 物質 / 物质 / 纺织品 / 財富 / 财富 /

धन
dhana
地产 / 属性 / 所有权 / 有道 / 財富 / 财产 / 财富 /
भोग
bhoga
占有 / 所有权 / 所有物 / 有道 / 財富 / 财富 /

有錢
yǒu qián
अड्ड
aḍḍha
一半 / 一半 / 一半的 / 一半的 / 半 / 半 / 半場 / 半場 / 半年 / 半年 / 半數 / 半數 / 半月 / 半月 / 半生 / 半生 / 大半 / 大半 / 大款 / 富人 / 富有 / 富有的 / 富裕 / 富裕的 / 有錢 /

有點兒
yǒu diǎn r
अप्प
appa
子 / 小 / 小班 / 小的 / 少 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

अप्पक
appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

ईसक
Tsaka
些微地 / 寡 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 有點兒 / 有點小 / 短的 / 稍微 /

有點小
yǒu diǎn xiǎo
अप्प
appa
子 / 小 / 小班 / 小的 / 少 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

अप्पक
appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
ईसक
Tsaka
些微地 / 寡 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 有點兒 / 有點小 / 短的 / 稍微 /

朋
péng
आवुसो
āvuso
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 朋 / 朋友 / 朋友 / 社友 / 老兄 /

朋友
péng you
आवुसो
āvuso
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 朋 / 朋友 / 朋友 / 社友 / 老兄 /
आवुसो
āvuso
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 朋 / 朋友 / 朋友 / 社友 / 老兄 /

服
fú
निवासन
nivāsana
打扮 / 打扮 / 服 / 服装 / 服裝 / 洋裝 / 穿戴 / 衣服 / 衣物 / 衣裳 /

服从
fú cóng
अनुवत्तन
anuvattana
服从 / 服從 / 順從 /

服侍
fú shì
उपद्दान
upaṭṭhāna
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 理解 / 等候 / 等候 / 維修 / 認識 / 諒解 / 认识 / 认识 / 體諒 /

उपासन
upāsana
伺候 / 役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 / 訓練 / 训练 / 训练 /

कार
kāra
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 /

किच्च
kicca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

पेसन
pesana
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 / 資訊 /

पारिचरिया
pāricariyā
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 等候 / 等候 / 維修 /

服务
fú wù
उपद्दान
upaṭṭhāna
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 理解 / 等候 / 等候 / 維修 / 認識 / 諒解 / 认识 / 认识 / 體諒 /
उपासन
upāsana
伺候 / 役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 / 訓練 / 训练 / 训练 /
कार
kāra
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 /
किच्च
kicca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
पेसन
pesana
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 / 資訊 /
पारिचरिया
pāricariyā
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 等候 / 等候 / 維修 /

服務
fú wu
उपद्दान
upaṭṭhāna
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 理解 / 等候 / 等候 / 維修 / 認識 / 諒解 / 认识 / 认识 / 體諒 /
उपासन
upāsana
伺候 / 役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 / 訓練 / 训练 / 训练 /
कार
kāra
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 /

किच्च
kicca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
पेसन
pesana
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 / 資訊 /

पारिचरिया
pāricariyā
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 等候 / 等候 / 維修 /

服從
fú cóng
अनुरोध
anurodha
अनुवत्तन
anuvattana
服从 / 服從 / 順從 /

服裝
fú zhuāng
अच्छादन
acchādana
服裝 / 服裝 / 衣服 / 衣物 /
छादन
chādana
服裝 / 服裝 / 蓋 / 衣服 / 衣物 / 遮 / 遮 /
निवासन
nivāsana
打扮 / 打扮 / 服 / 服装 / 服裝 / 洋裝 / 穿戴 / 衣服 / 衣物 / 衣裳 /

服役
fú yì
उपद्दान
upaṭṭhāna
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 理解 / 等候 / 等候 / 維修 / 認識 / 諒解 / 认识 / 认识 / 體諒 /

उपासन
upāsana
伺候 / 役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 / 訓練 / 训练 / 训练 /

कार
kāra
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 /

किच्च
kicca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

पेसन
pesana
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 / 資訊 /

पारिचरिया
pāricariyā
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 等候 / 等候 / 維修 /

服從
fú cóng
अनुरोध
anurodha
अनुवत्तन
anuvattana
服从 / 服從 / 順從 /

服裝
fú zhuāng
अच्छादन
acchādana
服裝 / 服裝 / 衣服 / 衣物 /
छादन
chādana
服裝 / 服裝 / 蓋 / 衣服 / 衣物 / 遮 / 遮 /
निवासन
nivāsana
打扮 / 打扮 / 服 / 服装 / 服裝 / 洋裝 / 穿戴 / 衣服 / 衣物 / 衣裳 /

服從
fú zhuāng
अच्छादन
acchādana
服裝 / 服裝 / 衣服 / 衣物 /
छादन
chādana
服裝 / 服裝 / 蓋 / 衣服 / 衣物 / 遮 / 遮 /
निवासन
nivāsana
打扮 / 打扮 / 服 / 服装 / 服裝 / 洋裝 / 穿戴 / 衣服 / 衣物 / 衣裳 /

朔
shuò
पभव
pabhava
來歷 / 來源 / 出处 / 出身 / 原点 / 始源 / 开始 / 朔 / 本源 / 来历 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 由来 / 血统 / 起源 /

朕
zhèn
अहं
ahaṃ
予 / 余 / 俺 / 吾 / 我 / 朕 / 鄙人 / 餘 /

朗
lǎng
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 竦 /

望
wàng
अपेक्खन
apekkhana
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /
अभिकङ्खन
abhikaṅkhana
希 / 希望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 渴望 /
अभिकङ्खित
abhikaṅkhita
希 / 希望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 渴望 /
आसा
āsā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
आसिसना
āsimsanā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /

朝上的
cháo shàng de
उक्कुज्ज
ukkujja
建立 / 朝上的 /

朝向
cháo xiàng
मुख
mukha
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 嘴 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

朝西
cháo xī
पतीचि
patīci
往西 / 往西 / 朝西 / 西 / 西 / 西區 / 西方 / 西方 / 西部 / 西部 / 西面 / 西面 /

期
qī
कालन्तर
kālantara
一段 / 句號 / 时期 / 時期 / 期 / 期間 / 期间 / 课时 /
भूमि
bhūmi
上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /

期待
qī dài
अपेक्खन
apekkhana
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /
अभिकङ्खन
abhikaṅkhana
希 / 希望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 渴望 /
अभिकङ्खित
abhikaṅkhita
希 / 希望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 渴望 /
आसा
āsā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
आसिसना
āsimsanā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /

期待的
qī dài de
आगमयमान
āgamayamāna

期間
qī jiān
कालन्तर
kālantara
一段 / 句號 / 时期 / 時期 / 期 / 期間 / 期间 / 课时 /

期望
qī wàng
अपेक्खन
apekkhana
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /
अभिकङ्खन
abhikaṅkhana
希 / 希望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 渴望 /
अभिकङ्खित
abhikaṅkhita
希 / 希望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 渴望 /
अभिलासा
abhilāsā
希望 / 愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
आसा
āsā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
आसिसना
āsimsanā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
इच्छन
icchana
希望 / 愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
इच्छा
icchā
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
जालिनी
jālinī
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 渴求 / 要求 / 願望 /
निकामना
nikāmanā
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /
पिहायना
pihāyanā
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /

期間
qī jiān
कालन्तर
kālantara
一段 / 句號 / 时期 / 時期 / 期 / 期間 / 期间 / 课时 /

期望
qī wàng
अपेक्खन
apekkhana
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /
अभिकङ्खन
abhikaṅkhana
希 / 希望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 渴望 /
अभिकङ्खित
abhikaṅkhita
希 / 希望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 渴望 /
अभिलासा
abhilāsā
希望 / 愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
आसा
āsā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
आसिसना
āsimsanā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /

期間
qī jiān
अद्दा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
काल
kāla
早的 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 /
कालन्तर
kālantara
一段 / 句號 / 时期 / 時期 / 期 / 期間 / 期间 / 课时 /

木
mù
कुज
kuja
木 / 树 / 樹 /
तरु
taru
木 / 树 / 樹 /
दुम
duma
木 / 树 / 樹 /
दारु
dāru
木 / 木料 / 木材 / 木柴 / 木頭 / 材 / 林木 / 树 / 森林 /
पादप
pādapa
木 / 树 / 樹 /

木匠
mù jiàng
तच्छक
tacchaka
木匠 / 木匠 / 木工 /
तच्छक
tacchaka
木匠 / 木匠 / 木工 /

木工
mù gōng
तच्छक
tacchaka
木匠 / 木匠 / 木工 /

木料
mù liào
कट्ट
kaṭṭha
木料 / 木材 / 材 / 森林 /
दब्ब
dabba
事件 / 实体 / 實質 / 有道 / 木料 / 木材 / 材 / 材料 / 森林 / 物質 / 物质 / 纺织品 / 財富 / 財富 /
दारु
dāru
木 / 木料 / 木材 / 木柴 / 木頭 / 材 / 林木 / 树 / 森林 /

木材
mù cái
कट्ट
kaṭṭha
木料 / 木材 / 材 / 森林 /
दब्ब
dabba
事件 / 实体 / 實質 / 有道 / 木料 / 木材 / 材 / 材料 / 森林 / 物質 / 物质 / 纺织品 / 財富 / 財富 /
दारु
dāru
木 / 木料 / 木材 / 木柴 / 木頭 / 材 / 林木 / 树 / 森林 /

木柴
mù chái
इधुम
idhuma
木柴 / 柴 / 柴火 / 樵 /
इन्धन
indhana
木柴 / 柴 / 柴火 / 樵 / 燃料 / 燃油 /
एध
edha
木柴 / 柴 / 柴火 / 樵 / 燃料 / 燃油 /
दारु
dāru
木 / 木料 / 木材 / 木柴 / 木頭 / 材 / 林木 / 树 / 森林 /

木槌
mù chuí
मुग्गर
muggara
木槌 / 棍棒 /

木筏
mù fá
कुल्ल
kulla
木筏 / 筏 / 筏 /
प्लव
plava
木筏 / 筏 / 浮子 / 筏 /

木頭
mù tóu
कलिङ्गर
kaliṅgara
दारु
dāru
木 / 木料 / 木材 / 木柴 / 木頭 / 材 / 林木 / 树 / 森林 /

未
wèi
न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒绝 / 无 / 未 / 毋 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 没 / 没有 / 没有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /

未來
wèi lái
अनागत
anāgata
他日 / 前程 / 前途 / 将来 / 將來 / 日后 / 日後 / 未來 / 未来 / 未来的 /
आगामी
āgāmī
आयति
āyati
他日 / 前程 / 前途 / 将来 / 將來 / 日后 / 日後 / 未來 / 未来 / 未来的 /

未完成的

wèi wán chéng de
अनिद्धित
aniṭṭhita
未成年人
wèi chéng nián rén
चुल्ल
culla
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 未成年人 / 渺小 / 芮 / 芾 / 叢 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

未成熟的

wèi chéng shú de
अल्ल
alla
未成熟的 / 湿的 / 濕 /
आम
āma
唯 / 是 / 是的 / 未成熟的 / 沒錯 / 没错 / 生的 /
आमक
āmaka
未成熟的 / 生的 /

未来

wèi lái
अनागत
anāgata
他日 / 前程 / 前途 / 将来 / 將來 / 日后 / 日後 / 未來 / 未来 / 未来的 /
आयति
āyati
他日 / 前程 / 前途 / 将来 / 將來 / 日后 / 日後 / 未來 / 未来 / 未来的 /

未来的

wèi lái de
अनागत
anāgata
他日 / 前程 / 前途 / 将来 / 將來 / 日后 / 日後 / 未來 / 未来 / 未来的 /
आयति
āyati
他日 / 前程 / 前途 / 将来 / 將來 / 日后 / 日後 / 未來 / 未来 / 未来的 /

未熟的

wèi shú de
अद्
adda
未熟的 / 生的 /

未知的
wèi zhī de
अञ्जतम
aññatama
अपाकट
apākaṭa
अविदित
avidita
एक
eka
一 / 一些 / 一體 / 之一 / 同一 / 同样 / 同种的 / 單 / 未知的 / 某一個 / 相同的 /

末
mò
अग्ग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 遒 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 首 / 首先 /
अन्त
anta
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 遒 / 頂端 /

अपवग्ग
apavagga
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 遒 /
अवसान
avasāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 遒 /

ओसान
osāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 遒 /
कोटि
koṭi
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 遒 / 點 /

कोण
koṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 遒 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /

निद्धा
niṭṭhā
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 遒 /

परिनिद्धान
pariniṭṭhāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 遒 /

परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 稜 / 極限 / 止境 / 滙 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 遒 / 邊 / 邊境 / 邊沿 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियोसान
pariyosāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 遒 /

末尾
mò wěi
अग्ग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 遒 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 首 / 首先 /
अन्त
anta
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 遒 / 頂端 /

अपवग्ग
apavagga
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 遒 /
अवसान
avasāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 遒 /

ओसान
osāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 遒 /
कोटि
koṭi
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 遒 / 點 /

कोण
koṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 遒 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /

निद्धा
niṭṭhā
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 遒 /

परिनिद्धान
pariniṭṭhāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 遒 /

परियन्त
pariyanta
 下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 極限 / 稜 / 極限 / 止境 / 溜 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 終結 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियोसान
pariyosāna
 下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 終結 / 結束 / 道 /

末期

mò qī

अन्तिम
antima
 最后 / 最後 / 最終 / 最終 / 最终的 / 末期 / 結局 /

末端
mò duān

अग्ग
agga
 一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 首 / 首先 /
अन्त
anta
 下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 結束 / 道 / 頂端 /
अपवग्ग
apavagga
 下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 結束 / 道 /
अवसान

avasāna
 下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 結束 / 道 /
ओसान
osāna
 下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 終結 / 結束 / 道 /
कोटि
koṭi
 下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 結束 / 道 / 點 /
कोण
koṇa
 下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /
निट्टा
niṭṭhā
 下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 终 / 終結 / 結束 / 道 /
परिनिट्ठान

अवसान
avasāna
 下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 結束 / 道 /

कोटि
koṭi
 下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 結束 / 道 / 點 /
कोण
koṇa
 下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /

निट्टा
niṭṭhā
 下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 终 / 終結 / 結束 / 道 /

परिनिट्ठान
pariniṭṭhāna
 下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 結束 / 道 /

परियन्त
pariyanta
 下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 極限 / 稜 / 極限 / 止境 / 溜 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 終結 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियोसान
pariyosāna
 下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 終結 / 結束 / 道 /

本份
běn fèn

किच्च
kipca
 东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

本子
běn zī

पोत्थक
potthaka
 书 / 书籍 / 冊 / 冊子 / 册 / 書 / 書本 / 本子 / 簿子 / 著作 / 著作 / 預定 /

本性
běn xìng

धम्म
dhamma
 事實 / 品德 / 大自然 / 天性 / 德 / 德性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 法 / 自然 / 自然界 / 道德 /
धम्मता
dhammatā
 大自然 / 天性 / 性情 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /
पकति

पकति
pakati
 人品 / 人物 / 品格 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /
भाव
bhāva
 况 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 情况 / 本性 / 本質 / 本质 / 條件 / 況 / 状态 / 自然 / 自然界 /

本文
běn wén

गन्थ
gantha
 作文 / 本文 / 組成 /

本源
běn yuán

उद्दान
uṭṭhāna
 上升 / 业 / 來歷 / 出身 / 原点 / 始源 / 工業 / 本源 / 来历 / 根源 / 業 / 活力 / 由来 / 精力 / 能源 / 能量 / 血统 / 行業 / 起源 / 高能 /
उप्पत्ति
uppatti
 來歷 / 再生 / 出身 / 原点 / 始源 / 本源 / 来历 / 根源 / 由来 / 血统 / 起源 /
निदान
nidāna
 事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源头 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /
पभव
pabhava
 來歷 / 來源 / 出处 / 出身 / 原点 / 始源 / 开始 / 朔 / 本源 / 来历 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源头 / 源頭 / 由来 / 血统 / 起源 /

本質
běn zhì

धम्म
dhamma
 事實 / 品德 / 大自然 / 天性 / 德 / 德性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 法 / 自然 / 自然界 / 道德 /
धम्मता
dhammatā
 大自然 / 天性 / 性情 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /
पकति
pakati
 人品 / 人物 / 品格 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /
भाव
bhāva
 况 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 情况 / 本性 / 本質 / 本质 / 條件 / 況 / 状态 / 自然 / 自然界 /

धम्म
dhamma
 事實 / 品德 / 大自然 / 天性 / 德 / 德性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 法 / 自然 / 自然界 / 道德 /
पकति
pakati
 人品 / 人物 / 品格 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /
भाव
bhāva
 况 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 情况 / 本性 / 本質 / 本质 / 條件 / 況 / 状态 / 自然 / 自然界 /

本质
běn zhì

धम्म
dhamma
 事實 / 品德 / 大自然 / 天性 / 德 / 德性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 法 / 自然 / 自然界 / 道德 /
धम्मता
dhammatā
 大自然 / 天性 / 性情 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /
पकति
pakati
 人品 / 人物 / 品格 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /
भाव
bhāva
 况 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 情况 / 本性 / 本質 / 本质 / 條件 / 況 / 状态 / 自然 / 自然界 /

本金
běn jīn

पमुख
pamukha
 主要的 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 本金 / 正面 / 资本 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 首席 / 魁 /

朴
pǔ

उट्यान
uyyāna
 停放 / 公园 / 朴 / 樸 /

机会
jī huì

ओकास
okāsa
 准许 / 机会 / 機會 / 空地 / 空地 / 空間 / 許可 /
खण
khāṇa
 一刻 / 分 / 分鐘 / 分钟 / 时刻 / 时机 / 時刻 / 時機 / 會兒 / 机会 / 機會 / 片刻 / 瞬間 / 瞬間 / 關頭 /
पकरण
pakarāṇa
 事件 / 事情 / 場合 / 时机 / 机会 / 肇端 / 近因 /
पसङ्ग
pasaṅga
 事件 / 事情 / 傾向 / 場合 / 大事 / 大事件 / 时机 / 机会 / 肇端 / 賽事 / 近因 /

权力
quán lì
आनुभाव
ānubhāva
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 榮 /
थाम
thāma
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /
पभाव
pabhāva
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功率 / 功率 / 劲 / 劲 / 势力 / 勁 / 勢力 / 大权 / 威 / 威力 / 实力 / 實力 / 強 / 强 / 强度 / 强权 / 彊 / 权力 /
बल
bala
军 / 军队 / 幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 勢力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

材
cái
आमिस
āmisa
利益 / 材 / 材料 / 材質 / 物质 / 物质的 / 素材 / 肉 / 肉體 / 血肉 / 誘餌 / 诱惑 / 食 / 食品 / 食物 / 餌 / 饭 / 饵 /
कट्ट
kaṭṭha
木料 / 木材 / 材 / 森林 /
दब्ब
dabba
事件 / 实体 / 實質 / 有道 / 木料 / 木材 / 材 / 材料 / 森林 / 物質 / 物质 / 纺织品 / 財富 / 财富 /
दारु
dāru
木 / 木料 / 木材 / 木柴 / 木頭 / 材 / 林木 / 树 / 森林 /

材料
cái liào
आमिस
āmisa
利益 / 材 / 材料 / 材質 / 物质 / 物质的 / 素材 / 肉 / 肉體 / 血肉 / 誘餌 / 诱惑 / 食 / 食品 / 食物 / 餌 / 饭 / 饵 /
दब्ब
dabba
事件 / 实体 / 實質 / 有道 / 木料 / 木材 / 材 / 材料 / 森林 / 物質 / 物质 / 纺织品 / 財富 / 财富 /

材質
cái zhì
आमिस
āmisa
利益 / 材 / 材料 / 材質 / 物质 / 物质的 / 素材 / 肉 / 肉體 / 血肉 / 誘餌 / 诱惑 / 食 / 食品 / 食物 / 餌 / 饭 / 饵 /
村
cūn
गाम
gāma
屯 / 庄 / 村 / 村子 / 村庄 / 莊 /

村子
cūn zi
गाम
gāma
屯 / 庄 / 村 / 村子 / 村庄 / 莊 /
村庄
cūn zhuāng
गाम
gāma
屯 / 庄 / 村 / 村子 / 村庄 / 莊 /
村民
cūn mǐn
गामिक
gāmika

杓子
sháo zi
उळइक
uḷuṅka
दब्बी
dabbī
勺 / 勺子 / 匙 / 匙 / 杓子 / 汤匙 /
杖
zhàng
दण्डक
daṇḍaka
杖 / 棍 / 棒 /

束
shù
उद्दान
uddāna
串 / 列出 / 列表 / 单子 / 名单 / 名單 / 束 / 目錄 / 群 / 譜 /
कण्णिका
kaṇṇikā
捆 / 束 /
कलाप
kalāpa
捆 / 束 / 管束 / 箭袋 /

束縛
shù fù
बद्ध
baddha
有義務 / 束縛 /
बन्ध
bandha
有義務 / 束縛 / 關押 /
बन्धन
bandhana
有義務 / 束縛 /

来历
lái lì
इतिहास
itihāsa
传统 / 傳統 / 历史 / 历史学 / 历史的 / 历史记录 / 史 / 来历 / 歷史 / 沿革 /
उद्दान
uṭṭhāna
上升 / 业 / 來歷 / 出身 / 原点 / 始源 / 工業 / 本源 / 来历 / 根源 / 業 / 活力 / 由来 / 精力 / 能源 / 能量 / 血统 / 行業 / 起源 / 高能 /
उपपत्ति
uppatti
來歷 / 再生 / 出身 / 原点 / 始源 / 本源 / 来历 / 根源 / 由来 / 血统 / 起源 /
पभाव
pabhava
來歷 / 來源 / 出处 / 出身 / 原点 / 始源 / 开始 / 朔 / 本源 / 来历 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 由来 / 血统 / 起源 /

来宾
lái bīn
अतिथि
atithi
住客 / 來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 探望者 / 旅游者 / 旅游者 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /
अब्भागत
abbhāgata
來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /
आगन्तुक
āgantuka
來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /
पाहुण
pāhuṇa
來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 来宾 / 禮物 / 賓 /

来源
lái yuán
निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /
पभव
pabhava
來歷 / 來源 / 出处 / 出身 / 原点 / 始源 / 开始 / 朔 / 本源 / 来历 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 由来 / 血统 / 起源 /

杯
bēi
काच
kāca
晶 / 杯 / 杯子 / 水晶 / 玻 / 玻璃 / 玻璃制品 / 玻璃杯 / 玻璃的 / 璃 / 表蒙子 /
कोसक
kosaka
一杯 / 一杯量 / 杯 / 杯子 / 獎杯 / 盃 / 盃 / 盅 / 茶杯 /

杯子
bēi zi
काच
kāca
晶 / 杯 / 杯子 / 水晶 / 玻 / 玻璃 / 玻璃制品 / 玻璃杯 / 玻璃的 / 璃 / 表蒙子 /
कोसक
kosaka
一杯 / 一杯量 / 杯 / 杯子 / 獎杯 / 盃 / 盃 / 盅 / 茶杯 /

杰出
jié chū
उळार
uḷāra
峨 / 崧 / 嵩 / 杰出 / 矗 / 穹 / 隗 / 高尚 / 高的 / 高貴 /

東
dōng
पुब्बा
pubbā
东 / 向东 / 向东的 / 東 / 東邊 / 東部 / 華東 /
पुरत्था
puratthā
东 / 向东 / 向东的 / 東 / 東邊 / 東部 / 華東 /

東區
dōng qū
पुरत्थिम
puratthima
东 / 東區 /
東方
dōng fāng
पाचीन
pācīna
東方 / 東部 /

東邊
dōng biān
पुब्बा
pubbā
东 / 向东 / 向东的 / 東 / 東邊 / 東部 / 華東 /
पुरत्था
puratthā
东 / 向东 / 向东的 / 東 / 東邊 / 東部 / 華東 /

東部
dōng bù
पुब्बा
pubbā
东 / 向东 / 向东的 / 東 / 東邊 / 東部 / 華東 /
पुरत्था
puratthā
东 / 向东 / 向东的 / 東 / 東邊 / 東部 / 華東 /
पाचीन
pācīna
東方 / 東部 /

果
gǎo
अब्भुन्नत
abbhunnata
升高 / 崇 / 昂 / 果 / 潼 / 馱 / 高 / 高位 / 高昂 / 高水平 / 高的 /
उच्च
ucca
多高 / 崇 / 昂 / 果 / 潼 / 馱 / 高 / 高位 / 高大 / 高昂 / 高水平 / 高的 /
तुङ्ग
tuṅga
崇 / 昂 / 果 / 潼 / 馱 / 高 / 高位 / 高昂 / 高水平 / 高的 /

松鼠
sōng shǔ
कलन्दक
kalandaka

极乐
jí lè
दिव
diva
上天 / 天 / 天堂 / 天意 / 天空 / 极乐 / 蒼天 / 霄 /
नाक
nāka
上天 / 天 / 天堂 / 天意 / 天空 / 极乐 / 蒼天 / 霄 /

极小的
jí xiǎo de
अप्पक
appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

极限
jí xiàn
अवधि
avadhi
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 徼 / 极限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
ओधि
odhi
圻 / 垓 / 埏 / 局限 / 徼 / 极限 / 極限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिच्छेद
pariccheda
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 度量 / 徼 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिमाण
parimāṇa
大小 / 局限 / 幅度 / 度量 / 措施 / 极限 / 極限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 边际 / 量 / 量度 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告终 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 溜 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 終結 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

枕
zhěn
उपधान
upadhāna
枕 / 枕头 / 枕頭 /
उस्सीसक
ussīsaka
枕 / 枕头 / 枕頭 /

枕头
zhěn tóu
उपधान
upadhāna
枕 / 枕头 / 枕頭 /
उस्सीसक
ussīsaka
枕 / 枕头 / 枕頭 /

枕頭
zhěn tóu
अपस्सय
apassaya
供養 / 墊子 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 枕頭 /
उपधान
upadhāna
枕 / 枕头 / 枕頭 /
उस्सीसक
ussīsaka
枕 / 枕头 / 枕頭 /

林
lín
अरञ्ज
arañña
林 / 林木 / 林野 / 森 / 森林 / 樹林 /

林木
lín mù
अरञ्ज
arañña
林 / 林木 / 林野 / 森 / 森林 / 樹林 /
दारु
dāru
木 / 木料 / 木材 / 木柴 / 木頭 / 材 / 林木 / 树 / 森林 /

林野
lín yě
अरञ्ज
arañña
林 / 林木 / 林野 / 森 / 森林 / 樹林 /

果
guǒ
अभिसन्द
abhisanda
成效 / 成果 / 效果 / 果 / 流出 / 究竟 / 結果 / 结果 /
अभिसन्दन
abhisandana
成效 / 成果 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निष्फज्जन
nipphajjana
作用 / 做 / 印象 / 影响 / 成就 / 成效 / 成果 / 成績 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निष्फत्ति
nipphatti
作用 / 完成 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निस्सन्द
nissanda
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /
फल
phala
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 果实 / 果實 / 果心 / 水果 / 究竟 / 結果 / 结果 /

果实
guǒ shí
फल
phala
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 果实 / 果實 / 果心 / 水果 / 究竟 / 結果 / 结果 /

果實
guǒ shí
फल
phala
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 果实 / 果實 / 果心 / 水果 / 究竟 / 結果 / 结果 /

果實
guǒ shí
फल
phala
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 果实 / 果實 / 果心 / 水果 / 究竟 / 結果 / 结果 /

果心
guǒ xīn
फल
phala
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 果实 / 果實 / 果心 / 水果 / 究竟 / 結果 / 结果 /

果斷
guǒ duàn
निच्छय
nicchaya
果斷 / 決議 /
果汁
guǒ zhī
ओज
oja
中 / 原汁 / 果汁 / 汁 / 汁液 /

果然
guǒ rán
अद्दा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
किर
kira
实在 / 實在 / 果然 / 果真 / 洵 / 當真 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真是 / 真正地 / 真的 /

खलु
khalu
实在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
खो
kho
实在 / 實在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 當真 / 的確實 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

नून
nūna
一定 / 定然 / 实在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

果真
guǒ zhēn
अद्दा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
किर
kira
实在 / 實在 / 果然 / 果真 / 洵 / 當真 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真是 / 真正地 / 真的 /
खलु
khalu
实在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
खो
kho

किर
kira
实在 / 實在 / 果然 / 果真 / 洵 / 當真 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真是 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
नून
nūna
一定 / 定然 / 实在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

नून
nūna
一定 / 定然 / 实在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

枯竭
kū jié
परिक्खय
parikkhaya
廢物 / 枯竭 / 浪費 / 浪费 / 白費 / 腐朽 / 虛度 /

梧
xiāo
तुच्छ
tuccha
寥 / 楞 / 梧 / 清空 / 空 / 空心 / 空格 / 空洞 / 空瓶 / 空白 / 空的 / 空著 / 孔 /

柄
bǐng
जट
jaṭa
把 / 把手 / 把柄 / 柄 /
दण्ड
daṇḍa
刑 / 刑罰 / 处罚 / 惩罚 / 懲罰 / 柄 / 梗 / 罚金 / 茎 / 蒂 /

बाहा
bāhā
手臂 / 手臂 / 把 / 把手 / 把柄 / 柄 / 柱 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /

某
mǒu
एकच्च
ekacca
一些 / 一番 / 些 / 必然 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某一個 / 某些 / 确定 /
एकच्चिय
ekacciya
一些 / 一番 / 些 / 必然 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某一個 / 某些 / 确定 /
कतिपय
katipayaya
一些 / 一番 / 些 / 几 / 几个 / 好几 / 好幾 / 幾個 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某些 / 若干 /

某一個

mǒu yī gè
अञ्जतर
aññatara
एक
eka
一 / 一些 / 一體 / 之一 / 同一 / 同样 / 同种的 / 單 / 未知的 / 某一個 / 相同的 /
एकच्च

ekacca
一些 / 一番 / 些 / 必然 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某一個 / 某些 / 确定 /
एकच्चिय

ekacciya
一些 / 一番 / 些 / 必然 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某一個 / 某些 / 确定 /

某事
mǒu shì
किञ्चन
kiñcana
某事 / 某物 / 點兒 /
किञ्चि
kiñci
某事 / 某物 / 點兒 /

某些
mǒu xiē
एकच्च
ekacca
一些 / 一番 / 些 / 必然 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某一個 / 某些 / 确定 /
एकच्चिय
ekacciya
一些 / 一番 / 些 / 必然 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某一個 / 某些 / 确定 /

कतिपय
katipayaya
一些 / 一番 / 些 / 几 / 几个 / 好几 / 好幾 / 幾個 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某些 / 若干 /

某处
mǒu chǔ
कत्थचि
katthaci
在某處 / 某处 / 某處 /

某物
mǒu wù
किञ्चन
kiñcana
某事 / 某物 / 點兒 /
किञ्चि
kiñci
某事 / 某物 / 點兒 /

某處
mǒu chù
कत्थचि
katthaci
在某處 / 某处 / 某處 /

柔弱
róu ruò
अबल
abala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /
दुब्बल
dubbala

孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 昏 / 昏倒 / 昏倒 / 暈倒 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /
--

查
chá
अन्वेसना
anvesanā
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 調查 / 追尋 /
गवेसन
gavesana
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /
परियेसना
pariyesanā
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /
मगगन
maggana
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /

查看

chá kàn
उपलद्धि
upaladdhi
來看 / 所屬 / 景 / 景色 / 查看 / 檢視 / 看法 / 眺望 / 瞻 / 見解 / 觀點 / 鑑 / 鑑 /

查閱

chá yuè
अन्वेसना
anvesanā
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 調查 / 追尋 /
गवेसन
gavesana
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /
परियेसना
pariyesanā
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /
मगगन
maggana
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /

柱
zhù
आलान
ālāna
आळान
ālāna
कूपक
kūpaka
कील
kīla
柱 / 樁 /
खाणु
khāṇu
खील
khīla
柱 / 樁 /
थम्भ
thambha
支柱 / 柱 / 柱子 / 柱状物 / 樁 /
बाह
bāha
手臂 / 手臂 / 把 / 把手 / 把柄 / 柄 / 柱 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /

柱子
zhù zǐ
थम्भ
thambha
支柱 / 柱 / 柱子 / 柱状物 / 樁 /

柱状物
zhù zhuàng wù
थम्भ
thambha
支柱 / 柱 / 柱子 / 柱状物 / 樁 /
柴
cháí
इधुम
idhuma
木柴 / 柴 / 柴火 / 樵 /
इन्धन
indhana
木柴 / 柴 / 柴火 / 樵 / 燃料 / 燃油 /
एध
edha
木柴 / 柴 / 柴火 / 樵 / 燃料 / 燃油 /

柴火
cháí huǒ
इधुम
idhuma
木柴 / 柴 / 柴火 / 樵 /
इन्धन
indhana
木柴 / 柴 / 柴火 / 樵 / 燃料 / 燃油 /
एध
edha
木柴 / 柴 / 柴火 / 樵 / 燃料 / 燃油 /

标
biāo
अइक
aīka
印子 / 标 / 標 / 標記 / 特徵 / 痕 / 記號 / 馬克 / 马克 /

标尺
biāo chǐ
अधिप
adhipa
主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /
अधिपति
adhipati
主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /
ईस
Tsa
尺 / 标尺 / 直尺 / 統治者 / 统治者 /

标记
biāo jì
निमित्त
nimitta
兆 / 兆头 / 先兆 / 前兆 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 徵兆 / 情理 / 故 / 标记 / 理 / 理由 / 由 / 緣故 / 迹象 / 道理 / 預兆 /

树
shù
कुज
kuja
木 / 树 / 樹 /
तरु
taru
木 / 树 / 樹 /
दुम
duma
木 / 树 / 樹 /
दारु
dāru
木 / 木料 / 木材 / 木柴 / 木頭 / 材 / 林木 / 树 / 森林 /
पादप
pādapa
木 / 树 / 樹 /

树皮
shù pí
तच
taca
削皮 / 剥 / 剥 / 吠 / 壳 / 壳 / 树皮 / 犬吠 / 皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 肌膚 / 肤 /
株
zhū
गच्छ
gaccha
事业 / 厂 / 工场 / 廠 / 株 / 栽 / 植 / 植物 /

桤
lǎo
पुट
puṭa
一籃 / 兜 / 匚 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 桤 / 孟 / 筐 / 筭 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पुटक
puṭaka
一籃 / 兜 / 匚 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 桤 / 孟 / 筐 / 筭 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पिटक
piṭaka
一籃 / 匚 / 吊籃 / 桤 / 筐 / 筭 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 /

样品
yàng pǐn
निदस्सन
nidassana
例 / 例子 / 实例 / 样品 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模范 / 比方 / 比較 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 / 證據 /

样子
yàng zi
आकार
ākāra
亮相 / 出場 / 境界 / 外表 / 外观 / 外貌 / 容貌 / 情况 / 样子 / 模樣 / 樣子 / 相貌 / 色 / 貌 / 面貌 /

样本
yàng běn
उदाहरण
udāharana
例 / 例子 / 实例 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模范 / 比方 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 /
निदस्सन
nidassana
例 / 例子 / 实例 / 样品 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模范 / 比方 / 比較 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 / 證據 /

核
hé
अस्मा
asmā
小石 / 核 / 石 / 石頭 /
पासाण
pāsāṇa
小石 / 岩 / 岩石 / 巖 / 晃動 / 核 / 石 / 石板 / 石頭 / 磐 / 磐石 /

根據地
gēn jù de
पाद
pāda
垒 / 基 / 基地 / 基础 / 基礎 / 壘 / 尺 / 底 / 底座 / 根據地 / 根本 / 膀 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 腿 / 英尺 / 足 / 足部 /

根本
gēn běn
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 靡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /
पाद
pāda
垒 / 基 / 基地 / 基础 / 基礎 / 壘 / 尺 / 底 / 底座 / 根據地 / 根本 / 膀 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 腿 / 英尺 / 足 / 足部 /

根深
gēn shēn
अनुत्तान
anuttāna
冥 / 暗的 / 根深 / 模糊的 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 渊 / 湛 / 窈 / 罩 / 邃 /
गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奥的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 渊 / 湛 / 窈 / 罩 / 邃 / 邈 /
गाध
gādha
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深度 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 渊 / 湛 / 窈 / 罩 / 邃 /

根源
gēn yuán
उद्गन
uṭṭhāna
上升 / 业 / 來歷 / 出身 / 原点 / 始源 / 工業 / 本源 / 来历 / 根源 / 業 / 活力 / 由来 / 精力 / 能源 / 能量 / 血统 / 行業 / 起源 / 高能 /
उप्पत्ति
uppatti
來歷 / 再生 / 出身 / 原点 / 始源 / 本源 / 来历 / 根源 / 由来 / 血统 / 起源 /
निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /

पभव
pabhava
來歷 / 來源 / 出处 / 出身 / 原点 / 始源 / 开始 / 朔 / 本源 / 来历 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 由来 / 血统 / 起源 /

栽
zāi
गच्छ
gaccha
事业 / 厂 / 工场 / 廠 / 株 / 栽 / 植 / 植物 /

桌布
zhuō bù
अम्बर
ambara
佈 / 天 / 天界 / 天空 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 雲霄 /
चेल
cela
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 衣服 /
चोळ
cola
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 /
दुस्स
dussa
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 衣服 /
पट
pata
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 衣服 /

桎梏
zhì gù
अन्दु
andu
桎梏 / 連鎖 / 鍊 / 鎖鏈 / 鏈 / 鏈子 / 鏈 /
अन्दुक
anduka
桎梏 / 桎梏 / 連鎖 / 鍊 / 鎖鏈 / 鏈 / 鏈子 / 鏈 /
अन्दुक
anduka
桎梏 / 桎梏 / 連鎖 / 鍊 / 鎖鏈 / 鏈 / 鏈子 / 鏈 /

桔子
jú zi
जम्बीर
jambīra
奧兰治 / 桔子 / 桔子 / 橘 / 橘子 / 橘色 / 橘色的 / 橙 / 橙子 / 橙色 / 橙色的 /
जम्बीर
jambīra
奧兰治 / 桔子 / 桔子 / 橘 / 橘子 / 橘色 / 橘色的 / 橙 / 橙子 / 橙色 / 橙色的 /

桩
zhuāng
पुञ्ज
puñja
一堆 / 堆 / 桩 / 椿 / 穰 /

梗
gěng
दण्ड
daṇḍa
刑 / 刑罰 / 处罚 / 惩罚 / 懲罰 / 柄 / 梗 / 罰金 / 莖 / 蒂 /
नाळ
nāḷa
梗 / 管 / 管子 /

條件
tiáo jiàn
भाव
bhāva
況 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 情況 / 本性 / 本質 / 本质 / 條件 / 況 / 状态 / 自然 / 自然界 /
梯
tī
अधिरोहनी
adhirohanī
梯 / 階梯 /
械
xiè
आयुध
āyudha
兵器 / 利器 / 械 / 武器 /
आवुध
āvudha
兵器 / 利器 / 械 / 武器 /

梵
fàn
ब्रह्म
brahma
創造者 / 梵 / 造物主 /
棉
mián
कप्पास
kappāsa
棉 / 棉花 / 绵 /
तूल
tūla
棉 / 棉花 / 绵 /
पिचु
picu
棉 / 棉花 / 绵 /

棉花
mián huā
कप्पास
kappāsa
棉 / 棉花 / 绵 /
तूल
tūla
棉 / 棉花 / 绵 /
पिचु
picu
棉 / 棉花 / 绵 /

棍
gùn
दण्डक
daṇḍaka
杖 / 棍 / 棒 /

棍
gùn
दण्डक
daṇḍaka
杖 / 棍 / 棒 /

棍棒
gùn bàng
घन
ghana
厚 / 厚的 / 固 / 密 / 密集的 / 捶 / 棍棒 / 槌 / 稠 / 粗 / 結實 / 萃 / 蕪 / 錘子 / 錘 /
मुग्गर
muggara
木槌 / 棍棒 /

棒
bàng
आवरण
āvaraṇa
屏 / 屏幕 / 屏風 / 棒 / 銀幕 / 關閉 / 障礙 /
दक्ख
dakkha
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俏 / 俐 / 焦 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 棒 / 精明 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 / 麻利 /
दण्डक
daṇḍaka
杖 / 棍 / 棒 /
पतोद
patoda
刺棒 / 棒 / 駕駛 /

棕
zōng
पाणि
pāṇi
一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 掌 / 掌心 / 棕 / 笔迹 /

棕色
zōng sè
तम्ब
tamba
布朗 / 成褐色 / 棕色 / 茶色 / 褐 / 褐色 / 銅 / 銅板 / 铜 /
पिङ्गल
piṅgala
布朗 / 成褐色 / 棕色 / 茶色 / 褐 / 褐色 /

森
sēn
अरण्य
arañña
林 / 林木 / 林野 / 森 / 森林 / 樹林 /

棍
gùn
दण्डक
daṇḍaka
杖 / 棍 / 棒 /

森林
sēn lín
अरण्य
arañña
林 / 林木 / 林野 / 森 / 森林 / 樹林 /
कट्ट
kaṭṭha
木料 / 木材 / 材 / 森林 /
दब्ब
dabba
事件 / 实体 / 實質 / 有道 / 木料 / 木材 / 材 / 材料 / 森林 / 物質 / 物质 / 纺织品 / 財富 / 财富 /
दारु
dāru
木 / 木料 / 木材 / 木柴 / 木頭 / 材 / 林木 / 树 / 森林 /

棧
léng
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 極限 / 棧 / 極限 / 止境 / 滯 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 終結 / 結束 / 緣 / 邊 / 邊境 / 邊沿 / 邊緣 / 邊际 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

椅
yǐ
पीठ
pīṭha
中 / 位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 / 椅 / 椅子 /

椅子
yǐ zi
पीठ
pīṭha
中 / 位 / 位子 / 位置 / 后座 / 席 / 座 / 座位 / 座椅 / 椅 / 椅子 /

椅背
yǐ bèi
पिट्ठ
pitṭha
后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 表面 / 走回 / 退后 / 面 / 麵 /
पिट्ठि
pitṭhi
上端 / 后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 尖峰 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 走回 / 退后 / 頂端 / 顶端 /

植
zhí
गच्छ
gaccha
事业 / 厂 / 工场 / 廠 / 株 / 栽 / 植 / 植物 /

植物
zhí wù
गच्छ
gaccha
事业 / 厂 / 工场 / 廠 / 株 / 栽 / 植 / 植物 /

椒
jiāo
कोलक
kolaka
椒 / 胡椒 /
椽
chuán
तुला
tulā
天平 / 平衡 / 椽 / 秤 /

椿
chūn
जनक
janaka
公公 / 天父 / 岳父 / 椿 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /
तात
tāta
儿子 / 兒子 / 公公 / 公子 / 天父 / 女婿 / 岳父 / 椿 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

植
zhā
कुल्ल
kulla
木筏 / 植 / 筏 /
प्लव
plava
木筏 / 植 / 浮子 / 筏 /

楞
léng
कण्ण
kaṇṇa
外耳 / 楞 / 耳 / 耳朵 / 耳朵 / 街角 / 角 / 角度 / 角落 / 转角 / 隅 / 隅 /
कोण
koṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 隅 / 隅 / 鞠躬 /

業
yè
उद्धान
uṭṭhāna

業
yè
उद्धान
uṭṭhāna
上升 / 业 / 來歷 / 出身 / 原点 / 始源 / 工業 / 本源 / 来历 / 根源 / 業 / 活力 / 由来 / 精力 / 能源 / 能量 / 血统 / 行業 / 起源 / 高能 /
कम्म

業
yè
उद्धान
uṭṭhāna
上升 / 业 / 來歷 / 出身 / 原点 / 始源 / 工業 / 本源 / 来历 / 根源 / 業 / 活力 / 由来 / 精力 / 能源 / 能量 / 血统 / 行業 / 起源 / 高能 /
कम्म

業主
yè zhǔ
इस्सर
issara
主 / 主人 / 創造者 / 大師 / 好手 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 統治者 / 老爺 / 造物主 / 領主 /
पति
pati
丈夫 / 丈夫 / 主 / 主人 / 伉 / 回 / 外子 / 大師 / 夫 / 夫 / 好手 / 婿 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 相反 / 統治者 / 老公 / 老爺 / 逆 / 領主 /

極大
jí dà
उरु
uru
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 大號 / 裝 / 裝 / 弘 / 恢 / 曼 / 極大 / 碩 / 莫大 / 觥 /
तुमुल
tumula
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 裝 / 裝 / 弘 / 恢 / 極大 / 盛大的 / 碩 / 莫大 / 觥 /

極端
jí duān
अच्यन्त
accanta
極端 / 永久 / 永久的 / 過世 / 非常 /

極限
jí xiàn
ओधि
odhi
圻 / 垓 / 埏 / 局限 / 徵 / 极限 / 極限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिमाण
parimāṇa
大小 / 局限 / 幅度 / 度量 / 措施 / 极限 / 極限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 边际 / 量 / 量度 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 涓 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 逾 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

楹
yíng
थम्भ
thambha
支柱 / 柱 / 柱子 / 柱状物 / 楹 /

榜樣
bǎng yàng
उदाहरण
udāharaṇa
例 / 例子 / 实例 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模範 / 比方 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 /
निदस्सन
nidassana
例 / 例子 / 实例 / 样品 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模範 / 比方 / 比較 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 / 證據 /

榜樣
bǎng yàng
उदाहरण
udāharaṇa
例 / 例子 / 实例 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模範 / 比方 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 /
निदस्सन
nidassana
例 / 例子 / 实例 / 样品 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模範 / 比方 / 比較 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 / 證據 /

榮
róng
कित्ति
kitti
光榮 / 名望 / 名气 / 名氣 / 名聲 / 名譽 / 榮 / 榮耀 / 榮 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 冪 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 冪 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 榮 /

榮耀
róng yào
कित्ति
kitti
光榮 / 名望 / 名气 / 名氣 / 名聲 / 名譽 / 榮 / 榮耀 / 榮 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 冪 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 冪 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 榮 /

榴
liú
दाडिम
dādima
榴 / 石榴 /
दाळिम
dāḷima
榴 / 石榴 /

構想
gòu xiǎng
गाह
gāha
主意 / 念頭 / 思想 / 想法 / 意念 / 意見 / 捕獲 / 構想 / 理念 / 理想 / 表象 / 點子 /

樾
chuí
घन
ghana
厚 / 厚的 / 固 / 密 / 密集的 / 捶 / 棍棒 / 樾 / 稠 / 粗 / 結實 / 萃 / 蓊 / 錘子 / 锤 /

樁
zhuāng
कील
kīla
柱 / 樁 /
खील
khīla
柱 / 樁 /
पुञ्ज
puñja
一堆 / 堆 / 桩 / 樁 / 稹 /

樂
lè
ताळ
tāḷa
乐 / 关键 / 樂 / 要害 / 譜 / 谱 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 / 音乐 / 音樂 /

樂趣
lè qù
आनन्द
ānanda
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
आराम
ārāma
修道院 / 僧院 / 娛 / 寺院 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 高兴 /

काम
kāma
娛 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 高兴 /
तुट्टि
tutṭhi
喜悅 / 喜悦 / 娛 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 高兴 /

नन्दि
nandi
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 渴望 / 渴求 / 禧 / 禧 /
पमोद
pamoda
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 禧 /

標
biāo
अङ्क
aṅka
印子 / 标 / 標 / 標記 / 特徵 / 痕 / 記號 / 馬克 / 马克 /

標記
biāo jì
अङ्क
aṅka
印子 / 标 / 標 / 標記 / 特徵 / 痕 / 記號 / 馬克 / 马克 /

模仿者
mó fǎng zhě
अनुकारी
anukārī

模式
mó shì
कम
kama
一步 / 命令 / 序 / 措施 / 方式 / 方法 / 模式 / 步 / 步子 / 步驟 / 狀態 / 脚步 / 舉止 / 训令 / 進程 / 隊 / 順序 / 顺序 /
त्राय
ñāya
制 / 制度 / 方法 / 模式 / 系統 / 系統 / 製 / 顺序 / 體制 / 體系 /
नय
naya
打算 / 方式 / 方案 / 方法 / 模式 / 策 / 策劃 / 舉止 / 計劃 / 計畫 / 计划 / 顺序 /

पकार
pakāra
方式 / 方法 / 模式 / 樣子 / 舉止 / 顺序 /
模樣
mó yàng
आकार
ākāra
亮相 / 出場 / 境界 / 外表 / 外观 / 外貌 / 容貌 / 情況 / 様子 / 模樣 / 樣子 / 相貌 / 色 / 貌 / 面貌 /

模糊的
mó hú de
अनुत्तान
anuttāna
冥 / 暗的 / 根深 / 模糊的 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 渊 / 湛 / 窈 / 罩 / 邃 /

模範
mó fàn
उदाहरण
udāharaṇa
例 / 例子 / 实例 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模範 / 比方 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 /
निदस्सन
nidassana
例 / 例子 / 实例 / 样品 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模範 / 比方 / 比較 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 / 證據 /

樣子
yàng zi
आकार
ākāra
亮相 / 出場 / 境界 / 外表 / 外观 / 外貌 / 容貌 / 情況 / 様子 / 模樣 / 樣子 / 相貌 / 色 / 貌 / 面貌 /
नीहार
nīhāra
方式 / 方法 / 樣子 / 舉止 /

橘
jú
जम्बीर
jambīra
奥兰治 / 桔子 / 桔子 / 橘 / 橘子 / 橘色 / 橘色的 / 橙 / 橙子 / 橙色 / 橙色的 /

橘子
jú zi
जम्बीर
jambīra
奥兰治 / 桔子 / 桔子 / 橘 / 橘子 / 橘色 / 橘色的 / 橙 / 橙子 / 橙色 / 橙色的 /
橘色
jú sè
जम्बीर
jambīra
奥兰治 / 桔子 / 桔子 / 橘 / 橘子 / 橘色 / 橘色的 / 橙 / 橙子 / 橙色 / 橙色的 /

樵
qiáo
इधुम
idhuma
木柴 / 柴 / 柴火 / 樵 /
इन्धन
indhana
木柴 / 柴 / 柴火 / 樵 / 燃料 / 燃油 /
एध
edha
木柴 / 柴 / 柴火 / 樵 / 燃料 / 燃油 /

樸
pú
उट्यान
uyyāna
停放 / 公园 / 朴 / 樸 /

樹
shù
कुज
kuja
木 / 树 / 樹 /
तरु
taru
木 / 树 / 樹 /

दुम
duma
木 / 树 / 樹 /
पादप
pādapa
木 / 树 / 樹 /

樹林
shù lín
अरञ्ज
arañña
林 / 林木 / 林野 / 森 / 森林 / 樹林 /

囊
tuó
पसिब्वक
pasibbaka
一袋 / 囊 / 大袋子 / 手提包 / 提包 / 旅行包 / 旅行包 / 囊 / 洗劫 / 紙袋 / 袋 / 袋子 / 錢包 / 麻布袋 / 麻袋 /

橘
jú
जम्बीर
jambīra
奥兰治 / 桔子 / 桔子 / 橘 / 橘子 / 橘色 / 橘色的 / 橙 / 橙子 / 橙色 / 橙色的 /

橘子
jú zi
जम्बीर
jambīra
奥兰治 / 桔子 / 桔子 / 橘 / 橘子 / 橘色 / 橘色的 / 橙 / 橙子 / 橙色 / 橙色的 /

橘色
jú sè
जम्बीर
jambīra
奥兰治 / 桔子 / 桔子 / 橘 / 橘子 / 橘色 / 橘色的 / 橙 / 橙子 / 橙色 / 橙色的 /

橘色的
jú sè de
जम्बीर
jambīra
奥兰治 / 桔子 / 桔子 / 橘 / 橘子 / 橘色 / 橘色的 / 橙 / 橙子 / 橙色 / 橙色的 /

橙
chéng
जम्बीर
jambīra
奥兰治 / 桔子 / 桔子 / 橘 / 橘子 / 橘色 / 橘色的 / 橙 / 橙子 / 橙色 / 橙色的 /

橙子
chéng zi
जम्बीर
jambīra
奥兰治 / 桔子 / 桔子 / 橘 / 橘子 / 橘色 / 橘色的 / 橙 / 橙子 / 橙色 / 橙色的 /

橙色
chéng sè
जम्बीर
jambīra
奥兰治 / 桔子 / 桔子 / 橘 / 橘子 / 橘色 / 橘色的 / 橙 / 橙子 / 橙色 / 橙色的 /

橙色的
chéng sè de
जम्बीर
jambīra
奥兰治 / 桔子 / 桔子 / 橘 / 橘子 / 橘色 / 橘色的 / 橙 / 橙子 / 橙色 / 橙色的 /

機會
jī huì
अवसर
avasara
ओकास
okāsa
准许 / 机会 / 機會 / 空地 / 空地 / 空間 / 許可 /
ओतार
otāra
存取 / 機會 / 通路 / 過失 / 降落 /
खण
khaṇa
一刻 / 分 / 分鐘 / 分钟 / 时刻 / 时机 / 時刻 / 時機 / 會兒 / 机会 / 機會 / 片刻 / 瞬間 / 瞬間 / 關頭 /

機能
jī néng
किच्च
kiCCA
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

橫越
héng yuè
तर
tara
橫越 / 路口 /

檄
xí
अनुक्कम
anukkama
令 / 命令 / 序 / 序列 / 承 / 排序 / 旨意 / 檄 / 次序 / 秩序 / 程 / 系列 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 / 顺序 /

檢視
jiǎn shì
उपलद्धि
upaladdhi
來看 / 所屬 / 景 / 景色 / 查看 / 檢視 / 看法 / 眺望 / 瞻 / 見解 / 觀點 / 鉴 / 鑑 / 鑒 /

檢討
jiǎn tǎo
पच्चवेक्खन
paccavekkhana
反射 / 反思 / 反省 / 檢討 /

權力
quán lì
आधिपच्च
ādhipacca
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 控制 / 斷電 / 權力 / 统治 /
आधिपतेय्य
ādhipateyya
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 權力 /
आनुभाव
ānubhāva
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 /

तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 榮 /
थाम
thāma
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /

बल
bala
军 / 军队 / 幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 勢力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

權威
quán wēi
इस्सरिय
issariya
控制 / 有道 / 權威 / 統治 / 统治 / 財富 / 财富 /

欠缺的
qiàn quē de
ऊन
ūna
不足的 / 欠缺的 / 缺 /

次序
cì xù
अनुक्कम
anukkama
令 / 命令 / 序 / 序列 / 承 / 排序 / 旨意 / 檄 / 次序 / 秩序 / 程 / 系列 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 / 顺序 /
आनुपुब्बी
ānupubbī
令 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 /

पटिपाटि
paṭipāṭi
令 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 /
परियाय
pariyāya
令 / 序 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 轉動 / 順序 / 顺序 /

次要的
cì yào de
अनुखुद्दक
anukhuddaka

欢乐
huān lè
आनन्द
ānanda
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
आराम
ārāma
修道院 / 僧院 / 娛 / 寺院 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 高兴 /
काम
kāma
娛 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 高兴 /
तुडि
tutṭhi
喜悅 / 喜悦 / 娛 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 高兴 /
नन्दि
nandi
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 渴望 / 渴求 / 禧 / 禧 /
पमोद
pamoda
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 禧 /
पामुज्ज
pāmujja
喜悅 / 喜悦 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
पामोज्ज
pāmojja
喜悅 / 喜悦 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
पीति
pīti
喜悅 / 喜悦 / 情緒 / 情趣 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /

欢喜
huān xǐ
आनन्द
ānanda
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
आराम
ārāma
修道院 / 僧院 / 娛 / 寺院 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 高兴 /
काम
kāma
娛 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 高兴 /
तुडि
tutṭhi
喜悅 / 喜悦 / 娛 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 高兴 /
नन्दि
nandi
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 渴望 / 渴求 / 禧 / 禧 /
पमोद
pamoda
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 禧 /

欢笑
huān xiào
पहास
pahāsa
欢笑 / 欢笑 / 歡笑 /
पहास
pahāsa
欢笑 / 欢笑 / 歡笑 /
欲
yù
छन्द
chanda
不妨 / 心願 / 必 / 意志 / 意願 / 愿望 / 慾 / 欲 / 祝 / 要 / 遺囑 /

欲望
yù wàng
अपेक्खन
apekkhana
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /
अभिलासा
abhilāsā
希望 / 愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /
आसा
āsā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
आसिंसना
āsimsanā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
इच्छन
icchana
希望 / 愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /

इच्छा
icchā
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
जालिनी
jālinī
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 渴求 / 要求 / 願望 /
तण्हा
taṇhā
口渴 / 愛 / 欲望 / 渴望 / 渴求 /
निकामना
nikāmanā
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /
पिहायना
pihāyanā
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /

欲望的
yù wàng de
अभिकङ्खी
abhikaṅkhī

欲求
yù qiú
अपेक्खन
apekkhana
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /
अभिलासा
abhilāsā
希望 / 愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
आसा
āsā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
आसिसना
āsimsanā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
इच्छन
icchana
希望 / 愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
इच्छा
icchā
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
जालिनी
jālinī
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 渴求 / 要求 / 願望 /
निकामना
nikāmanā
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /
पिहायना
pihāyanā
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /

欺詐
qī zhà
कुह
kuha
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
कुहक
kuhaka
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
कितव
kitava
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
नेकतिक
nekatika
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
नेकतिक
nekatika
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /

欺騙
qī piàn
उपलापन
upalāpana
कूट
kūṭa
上端 / 冈 / 坎 / 尖峰 / 山脊 / 山脊 / 岡 / 峙 / 峰 / 欺騙 / 突起 / 脊 / 脊 / 謊言 / 頂峰 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 高峰 /
केराटिय
kerāṭiya
欺騙 / 詭計 /
कुह
kuha
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
कुहक
kuhaka
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
कुहना
kuhanā
欺騙 / 詭計 /
कितव
kitava
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
निकति
nikati

欺
qiān
पच्चाहार
paccāhāra
包涵 / 原諒 / 寬恕 / 歉 / 歉意 / 致歉 / 道歉 /

欺騙
qī piàn
उपलापन
upalāpana
कूट
kūṭa
上端 / 冈 / 坎 / 尖峰 / 山脊 / 山脊 / 岡 / 峙 / 峰 / 欺騙 / 突起 / 脊 / 脊 / 謊言 / 頂峰 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 高峰 /
केराटिय
kerāṭiya
欺騙 / 詭計 /
कुह
kuha
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
कुहक
kuhaka
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
कुहना
kuhanā
欺騙 / 詭計 /
कितव
kitava
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
कोहञ्ज
kohañña
नेकतिक
nekatika
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
निकति
nikati

欺骗
qī piàn
कुह
kuha
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
कुहक
kuhaka
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
कितव
kitava
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
नेकतिक
nekatika
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
निकति
nikati

欺骗
qī piàn
कुह
kuha
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
कुहक
kuhaka
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
कितव
kitava
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
नेकतिक
nekatika
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /

歉
qiàn
पच्चाहार
paccāhāra
包涵 / 原諒 / 寬恕 / 歉 / 歉意 / 致歉 / 道歉 /

歉意
qiàn yì
पच्चाहार
paccāhāra
包涵 / 原諒 / 寬恕 / 歉 / 歉意 / 致歉 / 道歉 /

歌
gē
गान
gāna
唱歌 / 嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌唱 / 歌曲 / 歌曲 / 歌聲 / 頌 /
गीत
gīta
唱歌 / 嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌唱 / 歌曲 / 歌曲 / 歌聲 / 頌 /
गीतिका
gītikā
嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌曲 / 歌曲 / 頌 /

歌唱
gē chàng
गान
gāna
唱歌 / 嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌唱 / 歌曲 / 歌曲 / 歌聲 / 頌 /
गायन
gāyana
唱歌 / 歌唱 / 歌聲 /
गीत
gīta
唱歌 / 嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌唱 / 歌曲 / 歌曲 / 歌聲 / 頌 /

歌唱家
gē chàng jiā
गायक
gāyaka
女歌手 / 女歌手 / 歌唱家 / 歌手 /

歌手
gē shǒu
गायक
gāyaka
女歌手 / 女歌手 / 歌唱家 / 歌手 /

歌曲
gē qǔ
गान
gāna
唱歌 / 嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌唱 / 歌曲 / 歌曲 / 歌聲 / 頌 /
गान
gāna
唱歌 / 嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌唱 / 歌曲 / 歌曲 / 歌聲 / 頌 /
गीत
gīta
唱歌 / 嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌唱 / 歌曲 / 歌曲 / 歌聲 / 頌 /
गीत
gīta
唱歌 / 嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌唱 / 歌曲 / 歌曲 / 歌聲 / 頌 /
गीतिका
gītikā
嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌曲 / 歌曲 / 頌 /
गीतिका
gītikā
嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌曲 / 歌曲 / 頌 /

歌聲
gē shēng
गान
gāna
唱歌 / 嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌唱 / 歌曲 / 歌曲 / 歌聲 / 頌 /
गायन
gāyana
唱歌 / 歌唱 / 歌聲 /
गीत
gīta
唱歌 / 嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌唱 / 歌曲 / 歌曲 / 歌聲 / 頌 /

歡呼
huan hū
उक्कुट्टि
ukkuṭṭhi
喝彩 / 歡呼 /

歡喜
huan xǐ
अभिनन्दन
abhinandana
आनन्द
ānanda
喜悅 / 喜悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
तुट्ठि
tutṭhi
喜悅 / 喜悅 / 娛 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 高兴 /
तुस्सना
tussanā
喜悅 / 喜悅 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
नन्दि
nandi
喜悅 / 喜悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 渴望 / 渴求 / 禧 / 禧 /
पमोद
pamoda
喜悅 / 喜悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 禧 /
पामुज्ज
pāmuja
喜悅 / 喜悅 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
पामोज्ज
pāmojja
喜悅 / 喜悅 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
पीति
pīti
喜悅 / 喜悅 / 情緒 / 情趣 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /

歡樂
huan lè
आनन्द
ānanda
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
केळी
keḷī
कीळना
kiḷanā
तुडि
tutṭhi
喜悅 / 喜悦 / 娛 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 高兴 /
तुस्सना
tussanā
喜悅 / 喜悦 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
नन्दि
nandi
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 渴望 / 渴求 / 禧 / 禧 /
पमोद
pamoda
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 禧 /
पामुज्ज
pāmuḷja
喜悅 / 喜悦 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
पामोज्ज
pāmoḷja
喜悅 / 喜悦 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
पीति
pīti
喜悅 / 喜悦 / 情緒 / 情趣 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /

歡笑
huan xiào
पहास
pahāsa
欢笑 / 欢笑 / 歡笑 /

止
zhǐ
एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /

止境
zhǐ jìng
अग्ग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 迨 / 結束 / 迨 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶端 / 頂端 / 首 / 首先 /
अन्त
anta
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 結束 / 迨 / 頂端 /
अपवग्ग
apavagga
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 結束 / 迨 /
अवसान
avasāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 結束 / 迨 /
ओसान
osāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 迨 /
कोटि
koṭi
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 迨 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /
कोण
koṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 迨 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /
निट्ठा
niṭṭhā
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 终 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 终 / 终结 / 結束 / 迨 /
परिनिट्ठान
pariniṭṭhāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 結束 / 迨 /

歡樂
huan lè
आनन्द
ānanda
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
केळी
keḷī
कीळना
kiḷanā
तुडि
tutṭhi
喜悅 / 喜悦 / 娛 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 高兴 /
तुस्सना
tussanā
喜悅 / 喜悦 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
नन्दि
nandi
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 渴望 / 渴求 / 禧 / 禧 /
पमोद
pamoda
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 禧 /
पामुज्ज
pāmuḷja
喜悅 / 喜悦 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
पामोज्ज
pāmoḷja
喜悅 / 喜悦 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
पीति
pīti
喜悅 / 喜悦 / 情緒 / 情趣 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /

歡笑
huan xiào
पहास
pahāsa
欢笑 / 欢笑 / 歡笑 /

止
zhǐ
एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /

步兵
bù bīng
पत्ति
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利潤 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到來 / 贏 / 抵達 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /
भट
bhaṭa
兵 / 兵家 / 卒 / 士兵 / 小兵 / 步兵 / 警察 / 軍人 /

步子
bù zǐ
कम
kama
一步 / 命令 / 序 / 措施 / 方式 / 方法 / 模式 / 步 / 步子 / 步驟 / 狀態 / 脚步 / 舉止 / 训令 / 進程 / 咳 / 順序 / 順序 /

步行
bù xíng
चरण
carāṇa
尺 / 步行 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 英尺 / 足 / 足部 /

步驟
bù zhòu
कम
kama
一步 / 命令 / 序 / 措施 / 方式 / 方法 / 模式 / 步 / 步子 / 步驟 / 狀態 / 脚步 / 舉止 / 训令 / 進程 / 咳 / 順序 / 順序 /

武力
wǔ lì
बल
bala
军 / 军队 / 幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 勢力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

武器
wǔ qì
आयुध
āyudha
兵器 / 利器 / 械 / 武器 /
आवुध
āvudha
兵器 / 利器 / 械 / 武器 /

歪
wāi
कुटिल
kuṭīla
一心 / 不誠實 / 委 / 屈 / 屈曲 / 彎曲 / 歪 /

歲數
sui shù
आयु
āyu
代 / 壽命 / 年代 / 年岁 / 年紀 / 年老 / 年齡 / 年齡 / 时代 / 歲數 / 變老 / 齡 /

歷史
lì shǐ
इतिहास
itihāsa
传统 / 傳統 / 历史 / 历史学 / 历史的 / 历史记录 / 史 / 来历 / 歷史 / 沿革 /
歸
guī
पच्चागमन
paccāgamaṇa
交還 / 回 / 回來 / 回去 / 回歸 / 归 / 歸 / 歸來 / 歸還 / 返 / 返回 / 返航 / 迴 / 退回 / 退还 / 送回 / 重回 / 重返 /

歸來
guī lái
पच्चागमन
paccāgamaṇa
交還 / 回 / 回來 / 回去 / 回歸 / 归 / 歸 / 歸來 / 歸還 / 返 / 返回 / 返航 / 迴 / 退回 / 退还 / 送回 / 重回 / 重返 /

歸咎
guī jiù
अवण्ण
avaṇṇa
咎 / 怨 / 歸咎 / 罪 / 責備 / 責怪 /
उपवाद
upavāda
侮 / 侮辱 / 咎 / 怨 / 挑剔 / 歸咎 / 污辱 / 罪 / 責備 / 責怪 / 辱 /
निग्गह
niggaha
咎 / 怨 / 歸咎 / 罪 / 責備 / 責怪 / 過失 /

歸還
guī hái
निय्यातन
niyyātana
पच्चागमन
paccāgamaṇa
交還 / 回 / 回來 / 回去 / 回歸 / 归 / 歸 / 歸來 / 歸還 / 返 / 返回 / 返航 / 迴 / 退回 / 退还 / 送回 / 重回 / 重返 /
पटिदान
paṭidāna

死
sǐ
अन्तक
antaka
死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
कालकिरिया
kālakiriya
死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
कालङ्कत
kālaṅkata
死 / 死的 /
चवन
cavana
死 / 死亡 / 死地 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
नमुचि
namuci
死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
नास
nāsa
死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 毀滅 / 破壞 / 至死 / 身亡 /
पेत
peta
人世 / 已故的 / 幽灵 / 幽靈 / 死 / 死了 / 死去 / 死寂 / 死的 / 過世 / 鬼 / 鬼魂 /
मच्चु
maccu
死 / 死亡 / 死地 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /

死了
sǐ le
पेत
peta
人世 / 已故的 / 幽灵 / 幽靈 / 死 / 死了 / 死去 / 死寂 / 死的 / 過世 / 鬼 / 鬼魂 /

死亡
sǐ wáng
अन्तक
antaka
死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
कालकिरिया
kālakiriya
死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
चवन
cavana
死 / 死亡 / 死地 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
नमुचि
namuci
死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
नास
nāsa
死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 毀滅 / 破壞 / 至死 / 身亡 /
मच्चु
maccu
死 / 死亡 / 死地 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /

死去
sǐ qù
पेत
peta
人世 / 已故的 / 幽灵 / 幽靈 / 死 / 死了 / 死去 / 死寂 / 死的 / 過世 / 鬼 / 鬼魂 /
死地
sǐ de
अन्तक
antaka
死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
कालकिरिया
kālakiriya
死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
चवन
cavana
死 / 死亡 / 死地 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
नमुचि
namuci
死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
नास
nāsa
死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 毀滅 / 破壞 / 至死 / 身亡 /
मच्चु
maccu
死 / 死亡 / 死地 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /

残余物
cán yú wù
कचवर
kacavara
垃圾 / 废物 / 残余物 /
殘酷
cán kù
दारुण
dāruṇa
严 / 严重 / 殘酷 / 殘忍 / 殘酷 / 毒 / 粗糙的 / 苛 / 苛刻 /
殖民地
zhí mín de
निवेश
nivesa
住宅 / 住所 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 殖民地 / 殖民地 / 舍 / 舍 / 解决 /
निवेश
nivesa
住宅 / 住所 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 殖民地 / 殖民地 / 舍 / 舍 / 解决 /

死寂
sǐ jì
पेत
peta
人世 / 已故的 / 幽灵 / 幽靈 / 死 / 死了 / 死去 / 死寂 / 死的 / 過世 / 鬼 / 鬼魂 /
死的
sǐ de
कालङ्कत
kālaṅkata
死 / 死的 /
पेत
peta
人世 / 已故的 / 幽灵 / 幽靈 / 死 / 死了 / 死去 / 死寂 / 死的 / 過世 / 鬼 / 鬼魂 /

殘酷
cán kù
दारुण
dāruṇa
严 / 严重 / 殘酷 / 殘忍 / 殘酷 / 毒 / 粗糙的 / 苛 / 苛刻 /
段
duàn
पब्ब
pabba

死神
sǐ shén
अन्तक
antaka
死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
कालकिरिया
kālakiriya
死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
चवन
cavana
死 / 死亡 / 死地 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
नमुचि
namuci
死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
नास
nāsa
死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 毀滅 / 破壞 / 至死 / 身亡 /
मच्चु
maccu
死 / 死亡 / 死地 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /

残余物
cán yú wù
कचवर
kacavara
垃圾 / 废物 / 残余物 /
殘酷
cán kù
दारुण
dāruṇa
严 / 严重 / 殘酷 / 殘忍 / 殘酷 / 毒 / 粗糙的 / 苛 / 苛刻 /

殖民地
zhí mín de
निवेश
nivesa
住宅 / 住所 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 殖民地 / 殖民地 / 舍 / 舍 / 解决 /
निवेश
nivesa
住宅 / 住所 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 殖民地 / 殖民地 / 舍 / 舍 / 解决 /

殘忍
cán rěn
दारुण
dāruṇa
严 / 严重 / 殘酷 / 殘忍 / 殘酷 / 毒 / 粗糙的 / 苛 / 苛刻 /

殘酷
cán kù
दारुण
dāruṇa
严 / 严重 / 殘酷 / 殘忍 / 殘酷 / 毒 / 粗糙的 / 苛 / 苛刻 /

段
duàn
पब्ब
pabba

殷勤
yīn qín
अनुकूल
anukūla
愉快的 / 殷勤 / 殺害
shā hài
अतिपात
atipāta
殺害 / 殺死 / 謀殺 / अभिघात
abhighāta
接觸 / 殺害 / 碰撞 / अभिघातन
abhighātana
घात
ghāta
屠殺 / 殺害 / 破壞 / नासन
nāsana
殺害 / 破壞 / 逐出 / निग्घातन
nigghātana
殺害 / 破壞 / पातन
pātana

殺死
shā sǐ
अतिपात
atipāta
殺害 / 殺死 / 謀殺 / 殷
ké
कपाल
kapāla
कपालक
kapālaka

毀滅
huǐ miè
नास
nāsa
死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 毀滅 / 破壞 / 至死 / 身亡 / पराभव
parābhava
परिहानि
parihāni
損失 / 損失 / 毀滅 / 減少 / 茫然 / 敗 / 母
wú
न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒絕 / 无 / 未 / 母 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 沒 / 没有 / 没有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 / 母牛
mǔ niú
गावी
gāvī
母牛 / 牛 / 牯 / धेनु
dhenu
母牛 / 牛 / 牯 / 母親
mǔ qīn
अम्बा
ambā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / अम्मा
ammā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जनेत्ती
janettī
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जननी
jananī
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जनिका
janikā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / 母牛
mǔ niú
गावी
gāvī
母牛 / 牛 / 牯 / धेनु
dhenu
母牛 / 牛 / 牯 / 母親
mǔ qīn
अम्बा
ambā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / अम्मा
ammā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जनेत्ती
janettī
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जननी
jananī
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जनिका
janikā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / 母牛
mǔ niú
गावी
gāvī

殷勤
yīn qín
अनुकूल
anukūla
愉快的 / 殷勤 / 殺害
shā hài
अतिपात
atipāta
殺害 / 殺死 / 謀殺 / अभिघात
abhighāta
接觸 / 殺害 / 碰撞 / अभिघातन
abhighātana
घात
ghāta
屠殺 / 殺害 / 破壞 / नासन
nāsana
殺害 / 破壞 / 逐出 / निग्घातन
nigghātana
殺害 / 破壞 / पातन
pātana

母
mǔ
अम्बा
ambā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / अम्मा
ammā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जनेत्ती
janettī
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जननी
jananī
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जनिका
janikā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / 母親
mǔ qīn
अम्बा
ambā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / अम्मा
ammā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जनेत्ती
janettī
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जननी
jananī
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जनिका
janikā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / 母牛
mǔ niú
गावी
gāvī
母牛 / 牛 / 牯 / धेनु
dhenu
母牛 / 牛 / 牯 / 母親
mǔ qīn
अम्बा
ambā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / अम्मा
ammā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जनेत्ती
janettī
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जननी
jananī
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जनिका
janikā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / 母牛
mǔ niú
गावी
gāvī
母牛 / 牛 / 牯 / धेनु
dhenu
母牛 / 牛 / 牯 / 母親
mǔ qīn
अम्बा
ambā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / अम्मा
ammā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जनेत्ती
janettī
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जननी
jananī
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जनिका
janikā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / 母牛
mǔ niú
गावी
gāvī
母牛 / 牛 / 牯 / धेनु
dhenu
母牛 / 牛 / 牯 / 母親
mǔ qīn

母
mǔ
असेस
asesa
一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 圜 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 统统 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 / एकेक
ekeka
各 / 各個 / 各自 / 每 / 每一 / 每个 / 每個 / 每次 / एकमेक
ekameka
各 / 各個 / 各自 / 每 / 每一 / 每个 / 每個 / 每次 / निल्खल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 圜 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 统统 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 / निस्सेस
nissesa
一切 / 全部 / 全部的 / 全體 / 凡 / 凡是 / 圜 / 均 / 完全 / 完全地 / 所有 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 胥 / 芸芸 / 通通 / 每一
měi yī
एकेक
ekeka
各 / 各個 / 各自 / 每 / 每一 / 每个 / 每個 / 每次 / एकमेक
ekameka
各 / 各個 / 各自 / 每 / 每一 / 每个 / 每個 / 每次 / निल्खल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 圜 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 统统 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 / 每一
měi yī
एकेक
ekeka
各 / 各個 / 各自 / 每 / 每一 / 每个 / 每個 / 每次 / एकमेक
ekameka
各 / 各個 / 各自 / 每 / 每一 / 每个 / 每個 / 每次 / निल्खल
nikhila
一切 / 全部的 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 圜 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 统统 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 / 每个
měi gè
एकेक
ekeka
各 / 各個 / 各自 / 每 / 每一 / 每个 / 每個 / 每次 / एकमेक
ekameka
各 / 各個 / 各自 / 每 / 每一 / 每个 / 每個 / 每次 / 毒
dú
दारुण
dāruṇa
严 / 严重 / 残酷 / 殘忍 / 殘酷 / 毒 / 粗糙的 / 苛 / 苛刻 / 母牛
mǔ niú
गावी
gāvī
母牛 / 牛 / 牯 / धेनु
dhenu
母牛 / 牛 / 牯 / 母親
mǔ qīn
अम्बा
ambā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / अम्मा
ammā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जनेत्ती
janettī
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जननी
jananī
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / जनिका
janikā
娘 / 婆婆 / 岳母 / 母 / 母亲 / 母親 / 母牛
mǔ niú
गावी
gāvī
母牛 / 牛 / 牯 / धेनु
dhenu
母牛 / 牛 / 牯 / 母親
mǔ qīn

每個
měi gè
एकेक
ekeka
各 / 各個 / 各自 / 每 / 每一 / 每个 / 每個 / 每次 / एकमेक
ekameka
各 / 各個 / 各自 / 每 / 每一 / 每个 / 每個 / 每次 / 每年
měi nián
अनुवस्सं
anuvassam̐
一年一次的 / 每年 / 每年的 / 每年的
měi nián de
अनुवस्सं
anuvassam̐
一年一次的 / 每年 / 每年的 / 每日
měi rì
अन्वहं
anvahaṃ
日报 / 每日 / 每日的 / 每日的
měi rì de
अन्वहं
anvahaṃ
日报 / 每日 / 每日的 / 每晚
měi wǎn
निसा
nisā
入夜 / 夜 / 夜幕 / 夜晚 / 夜游 / 夜行 / 宵 / 宿 / 整夜 / 晚 / 晚上 / 晦 / 每晚 / 黄昏 / 黑夜 / 每次
měi cì
एकेक
ekeka
各 / 各個 / 各自 / 每 / 每一 / 每个 / 每個 / 每次 / एकमेक
ekameka
各 / 各個 / 各自 / 每 / 每一 / 每个 / 每個 / 每次 / 每每
měi měi
अभिण्हं
abhiṇhaṃ
不時 / 常 / 常常 / 往往 / 时常 / 時常 / 每每 / 經常 / 毒
dú
दारुण
dāruṇa
严 / 严重 / 残酷 / 殘忍 / 殘酷 / 毒 / 粗糙的 / 苛 / 苛刻 / 毒
dú

毒品
dú pǐn
अगद
agada
吸毒 / 戒毒 / 毒品 / 药 / 药物 / 葯 / 藥 / 藥品 / 藥物 / 醫藥 / 毒蛇
dú shé
गोनस
gonasa
比喩
bǐ yù
ओपम्म
opamma
比喩 / 比方 / 比較 / 直喩 / 比方
bǐ fāng
उदाहरण
udāharana
例 / 例子 / 实例 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模範 / 比方 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 / ओपम्म
opamma
比喩 / 比方 / 比較 / 直喩 / निदस्सन
nidassana
例 / 例子 / 实例 / 样品 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模範 / 比方 / 比較 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 / 證據 / 比較
bǐ jiào
उपमा
upamā
寓言 / 比較 / 直喩 / ओपम्म
opamma
比喩 / 比方 / 比較 / 直喩 / निदस्सन
nidassana
例 / 例子 / 实例 / 样品 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模範 / 比方 / 比較 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 / 證據 / 毒
dú
दारुण
dāruṇa
严 / 严重 / 残酷 / 殘忍 / 殘酷 / 毒 / 粗糙的 / 苛 / 苛刻 / 毒
dú

毕
bì
अनून
anūna
全部 / 完全 / 完全的 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 通通 /
अनूनक
anūnaka
全部 / 完全 / 完全的 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 通通 /
अनवसेस
anavasesa
全部 / 完 / 完全 / 完全地 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 竣 / 通通 /

पुण्ण
puṇṇa
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /
परिपूर
paripūra
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /

毗
pí
चक्क
cakka
令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 轮子 / 轱 / 轆 / 騎車 /

毛刷
máo shuā
कोच्छ
koccha
刷 / 刷子 / 毛刷 /

毛巾
máo jīn
पुंछनी
puñchanī
巾 / 手巾 / 毛巾 /

毛毯
máo tǎn
कम्बल
kambala
पापुरण
pāpuraṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 毛毯 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆盖 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

毛片
máo piàn
पत्त
patta
叶 / 床單 / 毛片 / 片 / 箔 / 羽 / 羽毛 / 翅膀 / 葉 / 葉子 / 頁 /

毛病
máo bìng
दोस
dosa
忿怒 / 怒 / 怒火 / 拂 / 愆 / 愆 / 愤怒 / 憤怒 / 毛病 / 瑕 / 書 / 破綻 / 缺點 / 缺陷 / 缺點 / 腐敗 / 責備 / 蹉 / 過失 /
毛线
máo xiàn
उण्ण
uṇṇa
毛线 / 纖維 / 羊毛 /

毯子
tǎn zi
अत्थर
atthara
地毯 / 地毯 / 毯子 /

氏族
shì zú
कुल
kula
一族 / 世家 / 全家 / 全家人 / 大家庭 / 宗 / 宗族 / 家 / 家人 / 家庭 / 家族 / 家眷 / 家系 / 屬 / 族 / 氏族 /
गोत्त
gotta
宗族 / 族 / 氏族 / 祖先 / 祖宗 / 血统 /
जातिक
jātika
宗族 / 族 / 氏族 / 民族 /

民
mín
जन
jana
人 / 人中 / 人们 / 人們 / 人士 / 人心 / 人民 / 夫 / 夫 / 子民 / 成年男子 / 曼 / 民 / 民眾 / 氓 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 眾人 / 者 / 萌 /

民族
mín zú
जाति
jāti
再生 / 出生 / 出身 / 国 / 国家 / 民族 / 生下 / 生出 / 种族 / 種族 / 誕 / 诞 / 賽跑 / 賽馬 /
जातिक
jātika
宗族 / 族 / 氏族 / 民族 /

民眾
mín zhòng
जन
jana
人 / 人中 / 人们 / 人們 / 人士 / 人心 / 人民 / 夫 / 夫 / 子民 / 成年男子 / 曼 / 民 / 民眾 / 氓 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 眾人 / 者 / 萌 /

氓
máng
जन
jana
人 / 人中 / 人们 / 人們 / 人士 / 人心 / 人民 / 夫 / 夫 / 子民 / 成年男子 / 曼 / 民 / 民眾 / 氓 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 眾人 / 者 / 萌 /
气候
qì hòu
उतु
utu
天气 / 天氣 / 季 / 季節 / 季节 / 時節 / 气候 / 氣候 /

气味
qì wèi
गन्ध
gandha
味道 / 嗅觉 / 气味 / 氣味 / 熏 / 香 / 香水 / 香油 /

氣候
qì hou
उतु
utu
天气 / 天氣 / 季 / 季節 / 季节 / 時節 / 气候 / 氣候 /

氣味
qì wèi
गन्ध
gandha
味道 / 嗅觉 / 气味 / 氣味 / 熏 / 香 / 香水 / 香油 /

氣息
qì xī
पाण
pāṇa
一口气 / 一口氣 / 世 / 人命 / 人生 / 呼吸 / 命 / 壽命 / 性命 / 息 / 氣息 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 生物 / 身 / 鼻息 / 鼻息 /

水
shuǐ
अण्ण
aṇṇa
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 / 食物 /
अम्बु
ambu
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
उदक
udaka
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
ओक
oka
下水 / 住所 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
जल
jala
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
तोय
toya
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
दक
daka
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
नीर
nīra
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /

水
shuǐ
अण्ण
aṇṇa
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 / 食物 /
अम्बु
ambu
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
उदक
udaka
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
ओक
oka
下水 / 住所 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /

जल
jala
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
तोय
toya
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /

दक
daka
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
नीर
nīra
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
पान
pāna
喝 / 喝了 / 好喝 / 水 / 糖浆 / 糖浆 / 飲 / 饮 / 饮料 /

水中
shuǐ zhōng
अण्ण
aṇṇa
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 / 食物 /
अम्बु
ambu
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
उदक
udaka
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
ओक
oka
下水 / 住所 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
जल
jala
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
तोय
toya
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
दक
daka
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
नीर
nīra
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /

水井
shuǐ jǐng
उदपान
udapāna
井 / 以至 / 嘛 / 囑 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /
ओपान
opāna
井 / 以至 / 嘛 / 囑 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /

水晶
shuǐ jīng
काच
kāca
晶 / 杯 / 杯子 / 水晶 / 玻 / 玻璃 / 玻璃制品 / 玻璃杯 / 玻璃的 / 璃 / 表蒙子 /

水果
shuǐ guǒ
फल
phala
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 果实 / 果實 / 果心 / 水果 / 究竟 / 結果 / 結果 /

水泡
shuǐ pào
पिळका
pīlākā

水波
shuǐ bō
तरङ्ग
tarāṅga
揮動 / 水波 / 波 / 波浪 / 浪 / 浪头 / 浪潮 /

水流
shuǐ liú
अस्सव
assava
水流 / 注意的 / 流 / 流动 / 流動 / 流向 / 流量 / 脓 / 膿 /
पवाह
pavāha
水流 / 流动 / 溪流 /

水源
shuǐ yuán
अण्ण
aṇṇa
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 / 食物 /
अम्बु
ambu
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
उदक
udaka
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
ओक
oka
下水 / 住所 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
जल
jala
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
तोय
toya
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
दक
daka
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
निदान
nidāna
事业 / 令人 / 来源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 导致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /
नीर
nīra
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
पभव
pabhava
來歷 / 來源 / 出处 / 出身 / 原点 / 始源 / 开始 / 朔 / 本源 / 来历 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 由来 / 血统 / 起源 /

水滴
shuǐ dī
थेव
theva
一滴 / 掉落 / 水滴 / 滴 / 落 / 降 /
पतन
patana
一滴 / 掉落 / 水滴 / 滴 / 落 / 落下 / 降 /
水災
shuǐ zāi
ओघ
ogha
大水 / 水災 / 降 / 洪 / 洪水 / 流 / 涌流 / 淹 /
水管
shuǐ guǎn
आयतिका
āyatikā
水管 / 管 / 管子 /

水系
shuǐ xì
आपगा
āpagā
川 / 水系 / 江 / 河 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 /
गङ्गा
gaṅgā
川 / 水系 / 江 / 河 / 河口 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 / 流 /
नदी
nadī
川 / 水系 / 江 / 河 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 /
水蛭
shuǐ zhī
जलूका
jalūkā
吸血鬼 / 水蛭 / 蛭 /
水道
shuǐ dào
नेतु
netu
水道 / 眼睛 / 眼睛 / 瞳孔 / 領袖 /
永
yǒng
अभिण्हसो
abhiṇhaso
一向 / 一律 / 从来 / 再三地 / 历来 / 向來 / 始終 / 始終 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /
निबद्धं
nibaddhaṃ
一向 / 一律 / 从来 / 历来 / 向來 / 始終 / 始終 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /
永久
yǒng jiǔ
अच्चन्त
accanta
極端 / 永久 / 永久的 / 過世 / 非常 /
धुव
dhuva
常任 / 常设的 / 恒 / 永久 / 永久的 /
永久的
yǒng jiǔ de
अच्चन्त
accanta
極端 / 永久 / 永久的 / 過世 / 非常 /
धुव
dhuva
常任 / 常设的 / 恒 / 永久 / 永久的 /
永恒的
yǒng héng de
अक्खय
akkhaya
अच्चुत
accuta
不死的 / 永恒的 /

汁
zhī
ओज
oja
中 / 原汁 / 果汁 / 汁 / 汁液 /
汁液
zhī yè
ओज
oja
中 / 原汁 / 果汁 / 汁 / 汁液 /
求
qiú
अज्झेसना
ajjhesanā
求 / 請求 / 请求 / 邀請 /
अभियाचन
abhiyācana
懇求 / 求 / 要 / 要求 / 要求物 / 請求 / 请求 /
आयाचना
āyācanā
應用 / 求 / 申請 / 申請書 / 請求 / 请求 /
求得
qiú de
अधिगत
adhigata
汜
qi
उपकट्टु
upakaṭṭha
接近的 / 汜 / 近 / 近乎 / 近乎 / 靠近 /
उपन्तिक
upantika
几乎 / 差不多 / 差不多 / 汜 / 近 / 近乎 / 近乎 / 鄰近 / 靠近 /
उपनिस्साय
upanissāya
汜 / 近 / 近乎 / 近乎 / 附近 / 靠近 /
江
jiāng
आपगा
āpagā
川 / 水系 / 江 / 河 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 /
गङ्गा
gaṅgā
川 / 水系 / 江 / 河 / 河口 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 / 流 /
नदी
nadī
川 / 水系 / 江 / 河 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 /

汚
wū
असुचि
asuci
垢 / 大便 / 屎 / 排泄物 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 / 精液 / 糞 /
उक्लाप
uklāpa
垃圾 / 垢 / 废物 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 /
कालुसिय
kālusiya
垢 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 / 陰暗 /
जल्लिका
jallikā
垢 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 /
污垢
wū gòu
असुचि
asuci
垢 / 大便 / 屎 / 排泄物 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 / 精液 / 糞 /
उक्लाप
uklāpa
垃圾 / 垢 / 废物 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 /
कालुसिय
kālusiya
垢 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 / 陰暗 /
जल्लिका
jallikā
垢 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 /
汚染
wū rǎn
दूसन
dūsana
汚染 / 汚辱 / 腐敗 /
污水坑
wū shuǐ kēng
ओलिगल्ल
oligalla
चन्दनिका
candanikā
汚点
wū diǎn
काळक
kāḷaka
变黑 / 污点 / 污點 / 淄 / 玄 / 皂 / 黎 / 黑 / 黑的 / 黑色 / 黝 /

汚點
wū diǎn
काळक
kāḷaka
变黑 / 污点 / 污點 / 淄 / 玄 / 皂 / 黎 / 黑 / 黑的 / 黑色 / 黝 /
पदोस
padosa
傍晚 / 微明 / 暮 / 污點 / 激怒 / 缺點 / 薄暮 / 黄昏 /
汤匙
tāng chí
कटच्छु
kaṭacchu
勺 / 勺子 / 匙 / 匙 / 汤匙 /
दब्बी
dabbī
勺 / 勺子 / 匙 / 匙 / 杓子 / 汤匙 /
汨
yù
आकुल
ākula
困惑 / 困惑的 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 纷 / 迷糊 / 迷茫 /
आकुल
ākula
困惑 / 困惑的 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 纷 / 迷糊 / 迷茫 /
मडकु
maṅku
困惑 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 纷 / 迷糊 / 迷茫 /
मडकु
maṅku
困惑 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 纷 / 迷糊 / 迷茫 /

江山
jiāng shān
जनपद
janapada
国 / 国家 / 國 / 國家 / 國度 / 我國 / 江山 / 治國 / 鄉村 /
देस
desa
區域 / 国 / 国家 / 國 / 國家 / 國度 / 地域 / 地域 / 我國 / 江山 / 治國 / 鄉村 /
汚
wū
असुचि
asuci
垢 / 大便 / 屎 / 排泄物 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 / 精液 / 糞 /
उक्लाप
uklāpa
垃圾 / 垢 / 废物 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 /
कालुसिय
kālusiya
垢 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 / 陰暗 /
जल्लिका
jallikā
垢 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 /
污垢
wū gòu
असुचि
asuci
垢 / 大便 / 屎 / 排泄物 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 / 精液 / 糞 /
उक्लाप
uklāpa
垃圾 / 垢 / 废物 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 /
कालुसिय
kālusiya
垢 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 / 陰暗 /
जल्लिका
jallikā
垢 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 /
汚染
wū rǎn
दूसन
dūsana
汚染 / 汚辱 / 腐敗 /
污水坑
wū shuǐ kēng
ओलिगल्ल
oligalla
चन्दनिका
candanikā
汚点
wū diǎn
काळक
kāḷaka
变黑 / 污点 / 污點 / 淄 / 玄 / 皂 / 黎 / 黑 / 黑的 / 黑色 / 黝 /

汚辱
wū rǔ
अक्कोस
akkosa
侮 / 侮辱 / 汚辱 / 責備 / 辱 /
आसज्जन
āsajjana
侮 / 侮辱 / 汚辱 / 辱 /
उपवाद
upavāda
侮 / 侮辱 / 咎 / 怨 / 挑剔 / 歸咎 / 汚辱 / 罪 / 責備 / 責怪 / 辱 /
ओमसना
omasanā
侮 / 侮辱 / 汚辱 / 責備 / 辱 /
घट्टन
ghaṭṭana
侮 / 侮辱 / 汚辱 / 辱 /
तिरोक्कार
tirokkāra
侮 / 侮辱 / 汚辱 / 辱 /
दूसन
dūsana
汚染 / 汚辱 / 腐敗 /

汚點
wū diǎn
काळक
kāḷaka
变黑 / 污点 / 污點 / 淄 / 玄 / 皂 / 黎 / 黑 / 黑的 / 黑色 / 黝 /
पदोस
padosa
傍晚 / 微明 / 暮 / 污點 / 激怒 / 缺點 / 薄暮 / 黄昏 /
汤匙
tāng chí
कटच्छु
kaṭacchu
勺 / 勺子 / 匙 / 匙 / 汤匙 /
दब्बी
dabbī
勺 / 勺子 / 匙 / 匙 / 杓子 / 汤匙 /
汨
yù
आकुल
ākula
困惑 / 困惑的 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 纷 / 迷糊 / 迷茫 /
आकुल
ākula
困惑 / 困惑的 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 纷 / 迷糊 / 迷茫 /
मडकु
maṅku
困惑 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 纷 / 迷糊 / 迷茫 /
मडकु
maṅku
困惑 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 纷 / 迷糊 / 迷茫 /

水滴
shuǐ dī
थेव
theva
一滴 / 掉落 / 水滴 / 滴 / 落 / 降 /
पतन
patana
一滴 / 掉落 / 水滴 / 滴 / 落 / 落下 / 降 /
水災
shuǐ zāi
ओघ
ogha
大水 / 水災 / 降 / 洪 / 洪水 / 流 / 涌流 / 淹 /
水管
shuǐ guǎn
आयतिका
āyatikā
水管 / 管 / 管子 /

水滴
shuǐ dī
थेव
theva
一滴 / 掉落 / 水滴 / 滴 / 落 / 降 /
पतन
patana
一滴 / 掉落 / 水滴 / 滴 / 落 / 落下 / 降 /
水災
shuǐ zāi
ओघ
ogha
大水 / 水災 / 降 / 洪 / 洪水 / 流 / 涌流 / 淹 /
水管
shuǐ guǎn
आयतिका
āyatikā
水管 / 管 / 管子 /

水滴
shuǐ dī
थेव
theva
一滴 / 掉落 / 水滴 / 滴 / 落 / 降 /
पतन
patana
一滴 / 掉落 / 水滴 / 滴 / 落 / 落下 / 降 /
水災
shuǐ zāi
ओघ
ogha
大水 / 水災 / 降 / 洪 / 洪水 / 流 / 涌流 / 淹 /
水管
shuǐ guǎn
आयतिका
āyatikā
水管 / 管 / 管子 /

汰
tài
च
ca
与 / 且 / 並 / 並且 / 也 / 以及 / 併 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 和 / 太 / 并 / 并且 / 暨 / 汰 / 而 / 而且 / 與 /

決心
jué xīn
अधिष्ठान
adhīṭṭhāna
决心 / 決心 / 決議 /
अधिमुक्ति
adhimutti
傾向 / 執著 / 性情 / 決心 /
अधिमुक्ख
adhimokkha
决心 / 決心 /
पणिधान
paṇidhāna
决心 / 決心 /

決議
jué yì
अधिष्ठान
adhīṭṭhāna
决心 / 決心 / 決議 /
निच्छय
nicchaya
果斷 / 決議 /

沈思
shěn sī
ज्ञान
jhāna
冥想 / 打坐 / 沈思 / 沉思 / 默念 /

沈著的
shěn zhù de
आनेञ्ज
āneñja
एकग
ekagga

沈重
shěn zhòng
गरु
garu
值得尊敬的 / 可敬的 / 導師 / 師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /
गुरु
guru
師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /
गरुक
garuka
岸然 / 慘重 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 窳 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重大 / 重的 / 重要 / 重要的 / 重重 /
भारिक
bhārika
慘重 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重的 / 重重 /

沈重的
shěn zhòng de
गरु
garu
值得尊敬的 / 可敬的 / 導師 / 師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /
गुरु
guru
師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /
गरुक
garuka
岸然 / 慘重 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 窳 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重大 / 重的 / 重要 / 重要的 / 重重 /
भारिक
bhārika
慘重 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重的 / 重重 /

沈默
chén mò
तुण्हीभाव
tuṇhībhāva
寂靜 / 沈默 / 沈默 / 沉默 /
तुण्हीभाव
tuṇhībhāva
寂靜 / 沈默 / 沈默 / 沉默 /

沈默的
shěn mò de
तुम्ही
tuṃhī
沈默的 / 靜 / 默默地 /
निस्सद
nissadda

沉思
chén sī
ज्ञान
jhāna
冥想 / 打坐 / 沈思 / 沉思 / 默念 /

沉重
chén zhòng
गरु
garu
值得尊敬的 / 可敬的 / 導師 / 師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /
गुरु
guru
師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /
गरुक
garuka
岸然 / 慘重 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 窳 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重大 / 重的 / 重要 / 重要的 / 重重 /
भारिक
bhārika
慘重 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重的 / 重重 /

沉重的
chén zhòng de
भारिय
bhāriya
沉重的 / 重的 /
沈默
chén mò
तुण्हीभाव
tuṇhībhāva
寂靜 / 沈默 / 沈默 / 沉默 /

沐浴
mù yù
नहान
nahāna
沐浴 / 洗浴 / 洗澡 / 浴 / 游泳 / 澡 /
न्हान
nhāna
沐浴 / 洗浴 / 洗澡 / 浴 / 游泳 / 澡 /
沒

méi
न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒絕 / 无 / 未 / 毋 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 沒 / 没有 / 没有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /

沒有
méi yǒu
न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒絕 / 无 / 未 / 毋 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 沒 / 没有 / 没有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /

沒法
méi fǎ
न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒絕 / 无 / 未 / 毋 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 沒 / 没有 / 没有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /
沒錯

méi cuò
आम
āma
唯 / 是 / 是的 / 未成熟的 / 沒錯 / 没错 / 生的 /
एवं
evaṃ
唯 / 因此 / 因而 / 如此 / 是 / 是的 / 沒錯 / 没错 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 /

沖洗
chōng xǐ
आचमन
ācamana

沙
shā
पुलिन
pulina
沙 / 沙地 / 沙地 / 沙子 / 砂 /

沙发
shā fā
पल्लङ्क
pallaṅka
沙发 / 沙發 /
沙地
shā dì

पुलिन
pulina
沙 / 沙地 / 沙地 / 沙子 / 砂 /
पुलिन
pulina
沙 / 沙地 / 沙地 / 沙子 / 砂 /

沙塵
shā chén
धूलि
dhūli
尘 / 埃 / 塵 / 尘 / 沙塵 / 灰塵 / 灰尘 /
पंसु
pamsu
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 土质 / 尘 / 埃 / 塵 / 尘 / 沙塵 / 泥土 / 灰塵 / 灰尘 /

沙子
shā zi
पुलिन
pulina
沙 / 沙地 / 沙地 / 沙子 / 砂 /

沙漠
shā mò
इरिन
irina
不毛之地 / 沙漠 / 漠 / 荒地 / 荒地 / 荒漠 /
कन्तार
kantāra
不毛之地 / 旷 / 曠 / 曠野 / 沙漠 / 漠 / 荒漠 / 荒野 /
जङ्गल
jaṅgala
丛林 / 叢林 / 沙漠 /

沙發
shā fā
पल्लङ्क
pallaṅka
沙发 / 沙發 /
沙的

shā de
उज्जङ्गल
ujjaṅgala
沛
pèi
पहूत
pahūta
丰 / 丰富的 / 充份 / 充沛 / 沛 / 盎 / 盎然 / 穰 / 裕 /

沒
méi
न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒絕 / 无 / 未 / 毋 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 沒 / 没有 / 没有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /

沒有
méi yǒu
न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒絕 / 无 / 未 / 毋 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 沒 / 没有 / 没有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /

沒有的
méi yǒu de
न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒絕 / 无 / 未 / 毋 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 沒 / 没有 / 没有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /

沒錯
méi cuò
आम
āma
唯 / 是 / 是的 / 未成熟的 / 沒錯 / 没错 / 生的 /
एवं
evaṃ
唯 / 因此 / 因而 / 如此 / 是 / 是的 / 沒錯 / 没错 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 /

滄
cāng
नील
nīla
滄 / 湛藍 / 滄 / 碧 / 蓝 / 蓝色 / 藍 / 藍色 / 青色 /

沫
mò
फेण
phena
人渣 / 沫 / 泡沫 /

河
hé
आपगा
āpagā
川 / 水系 / 江 / 河 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 /
गङ्गा
gaṅgā
川 / 水系 / 江 / 河 / 河口 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 / 流 /
नदी
nadī
川 / 水系 / 江 / 河 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 /

河口
hé kǒu
गङ्गा
gaṅgā
川 / 水系 / 江 / 河 / 河口 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 / 流 /

河岸
hé àn
कूल
kūla
堤防 / 河岸 /
तीर
tīra
岸 / 河岸 / 海岸 / 滨 /

河川
hé chuān
आपगा
āpagā
川 / 水系 / 江 / 河 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 /
गङ्गा
gaṅgā
川 / 水系 / 江 / 河 / 河口 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 / 流 /
नदी
nadī
川 / 水系 / 江 / 河 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 /

河床
hé chuáng
मञ्च
mañca
上床 / 床 / 床位 / 床鋪 / 床铺 / 河床 /

河水
hé shuǐ
आपगा
āpagā
川 / 水系 / 江 / 河 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 /
गङ्गा
gaṅgā
川 / 水系 / 江 / 河 / 河口 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 / 流 /
नदी
nadī
川 / 水系 / 江 / 河 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 /

河流
hé liú
आपगा
āpagā
川 / 水系 / 江 / 河 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 /
गङ्गा
gaṅgā
川 / 水系 / 江 / 河 / 河口 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 / 流 /
नदी
nadī
川 / 水系 / 江 / 河 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 /

河裡
hé li
आपगा
āpagā
川 / 水系 / 江 / 河 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 /
गङ्गा
gaṅgā
川 / 水系 / 江 / 河 / 河口 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 / 流 /
नदी
nadī
川 / 水系 / 江 / 河 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 /

沸騰
fèi téng
पच्यन
paccana
沸騰 / 沸騰 / 苦楚 /
沸騰
fèi téng
पच्यन
paccana
沸騰 / 沸騰 / 苦楚 /

油
yóu
तेल
tela
油 / 油彩 / 油料 / 油水 / 油污 / 油脂 / 石油 /

油彩
yóu cǎi
तेल
tela
油 / 油彩 / 油料 / 油水 / 油污 / 油脂 / 石油 /

油料
yóu liào
तेल
tela
油 / 油彩 / 油料 / 油水 / 油污 / 油脂 / 石油 /

油水
yóu shuǐ
तेल
tela
油 / 油彩 / 油料 / 油水 / 油污 / 油脂 / 石油 /

油污
yóu wū
तेल
tela
油 / 油彩 / 油料 / 油水 / 油污 / 油脂 / 石油 /

油脂
yóu zhī
तेल
tela
油 / 油彩 / 油料 / 油水 / 油污 / 油脂 / 石油 /
थूल
thūla
伦 / 奘 / 奘 / 油脂 / 粗 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 肥 / 肥肉 / 肥胖 / 胖 / 胖的 / 脂 / 脂肪 / 草 /

治
zhì
भेसज्ज
bhesajja
治 / 治愈 / 治疗 / 療 / 藥 /

治國
zhì guó
जनपद
janapada
国 / 国家 / 國 / 國家 / 國度 / 我國 / 江山 / 治國 / 鄉村 /
देस
desa
區域 / 国 / 国家 / 國 / 國家 / 國度 / 地域 / 地域 / 我國 / 江山 / 治國 / 鄉村 /

治愈
zhì yù
भेसज्ज
bhesajja
治 / 治愈 / 治疗 / 療 / 藥 /

治疗
zhì liáo
भेसज्ज
bhesajja
治 / 治愈 / 治疗 / 療 / 藥 /

沼澤
zhǎo zé
चिक्खल्ल
cikkhalla
像泥沼的地方 / 坭 / 沼泽 / 沼澤 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 / 泥沼 / 烂泥 /

沼澤
zhǎo zé
चिक्खल्ल
cikkhalla
像泥沼的地方 / 坭 / 沼泽 / 沼澤 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 / 泥沼 / 烂泥 /

पलिप
palipa
沿革
yán gé
इतिहास
itihāsa
传统 / 傳統 / 历史 / 历史学 / 历史的 / 历史记录 / 史 / 来历 / 歷史 / 沿革 /

況
kuàng
भाव
bhāva
况 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 情況 / 本性 / 本質 / 本质 / 條件 / 况 / 状态 / 自然 / 自然界 /

泉
quán
उदपान
udapāna
井 / 以至 / 嘛 / 嘱 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /
उब्भिद
ubbhida
弹簧 / 彈簧 / 春 / 春天 / 春季 / 泉 / 泉水 / 源 /

ओपान
opāna
井 / 以至 / 嘛 / 嘱 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /
कूप
kūpa
井 / 以至 / 嘛 / 嘱 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 洞 / 良好 /

泉水
quán shuǐ
उब्भिद
ubbhida
弹簧 / 彈簧 / 春 / 春天 / 春季 / 泉 / 泉水 / 源 /

泉源
quán yuán
निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /
पभव
pabhava
來歷 / 來源 / 出处 / 出身 / 原点 / 始源 / 开始 / 朔 / 本源 / 来历 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 由来 / 血统 / 起源 /

泓
hóng
इद्धि
iddhi
效力 / 昌盛 / 泓 / 繁榮 / 繁榮 /
मङ्गल
maṅgala
儀式 / 典礼 / 典禮 / 吉兆的 / 昌盛 / 泓 / 礼 / 禮 / 繁榮 / 繁榮 /

法
fǎ
धम्म
dhamma
事實 / 品德 / 大自然 / 天性 / 德 / 德性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 本性 / 本質 / 本质 / 法 / 自然 / 自然界 / 道德 /

नीति
nīti
定律 / 定律 / 律 / 律 / 法 / 法則 / 法學 / 法律 / 規律 /

法則
fǎ zé
नीति
nīti
定律 / 定律 / 律 / 律 / 法 / 法則 / 法學 / 法律 / 規律 /

法學
fǎ xué
नीति
nīti
定律 / 定律 / 律 / 律 / 法 / 法則 / 法學 / 法律 / 規律 /

法官
fǎ guān
अक्खदस्स
akkhadassa
判定 / 判斷 / 推事 / 法官 / 裁判 /

法師
fǎ shī
अधिप
adhipa
主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /

अधिपति
adhipati
主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /

अच्य
ayya
主 / 主人 / 君子 / 大師 / 好手 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 法師 / 紳士 / 統治者 / 老爺 / 領主 /
इस्सर
issara

主
zhǔ
主 / 主人 / 創造者 / 大師 / 好手 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 統治者 / 老爺 / 造物主 / 領主 /
पति
pati
丈夫 / 丈夫 / 主 / 主人 / 伉 / 回 / 外子 / 大師 / 夫 / 夫 / 好手 / 婿 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 相反 / 統治者 / 老公 / 老爺 / 逆 / 領主 /

法律
fǎ lù
नीति
nīti
定律 / 定律 / 律 / 律 / 法 / 法則 / 法學 / 法律 / 規律 /

泡沫
pào mò
फेण
phena
人渣 / 沫 / 泡沫 /
बु
bubbulaka
估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情報 / 情报 / 旖 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 窍 / 精神 / 老 / 老的 / 耄 / 舊 / 舊的 /
बु
bubbula
估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情報 / 情报 / 旖 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 窍 / 精神 / 老 / 老的 / 耄 / 舊 / 舊的 /

波
bō
तरङ्ग
taraṅga
揮動 / 水波 / 波 / 波浪 / 浪 / 浪头 / 浪潮 /
波浪
bō làng
तरङ्ग
taraṅga
揮動 / 水波 / 波 / 波浪 / 浪 / 浪头 / 浪潮 /

泥
ní
असुचि
asuci
垢 / 大便 / 屎 / 排泄物 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 / 精液 / 糞 /
उक्लाप
uklāpa
垃圾 / 垢 / 废物 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 /
कद्दम
kaddama
坭 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 /
कलल
kalala
坭 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 / 泥沼 /
कालुसिय
kālusiya
垢 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 / 陰暗 /
चिक्खल्ल
cikkhalla
像泥沼的地方 / 坭 / 沼泽 / 沼澤 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 / 泥沼 / 烂泥 /
जल्लिका
jallikā
垢 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 /
पङ्क
paṅka
坭 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 / 泥沼 /

泥土
ní tǔ
छमा
chamā
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
जगति
jagati
世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /
धरणी
dharanī
土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
पुथुवी
puthuvī
土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /
पंसु
pamsu
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 土质 / 盆 / 埃 / 塵 / 尘 / 沙塵 / 泥土 / 灰塵 / 灰尘 /
भू
bhū
土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 接地 / 接地 / 泥土 /

भूमि
bhūmi
上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /
कलल
kalala
坭 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 / 泥沼 /
चिक्खल्ल
cikkhalla
像泥沼的地方 / 坭 / 沼泽 / 沼澤 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 / 泥沼 / 烂泥 /
पङ्क
paṅka
坭 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 / 泥沼 /

泥巴
ní ba
कद्दम
kaddama
坭 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 /
कद्दम
kaddama
坭 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 /
कलल
kalala
坭 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 / 泥沼 /
कलल
kalala
坭 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 / 泥沼 /
चिक्खल्ल
cikkhalla
像泥沼的地方 / 坭 / 沼泽 / 沼澤 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 / 泥沼 / 烂泥 /
चिक्खल्ल
cikkhalla
像泥沼的地方 / 坭 / 沼泽 / 沼澤 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 / 泥沼 / 烂泥 /
पङ्क
paṅka
坭 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 / 泥沼 /
पङ्क
paṅka
坭 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 / 泥沼 /

泥沼
ní zhǎo
कलल
kalala
坭 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 / 泥沼 /
चिक्खल्ल
cikkhalla
像泥沼的地方 / 坭 / 沼泽 / 沼澤 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 / 泥沼 / 烂泥 /
पङ्क
paṅka
坭 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 / 泥沼 /

注意
zhù yì
अच्चना
accanā
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 祭品 / 翊 / 荣誉 /
अविप्पवास
avippavāsa
注意 / 注意力 / 注目 / 留神 / 關注 /
गुत्ति
gutti
保护 / 保護 / 守卫 / 守衛 / 守護 / 把守 / 注意 / 看守 / 衛 / 門衛 /
गारव
gārava
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 翊 /
गोपन
gopana
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 注意 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 關心 / 關照 /
चित्तीकार
cittikāra
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 翊 / 考慮 /
परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威严 / 尊 ^严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

注意的
zhù yì de
अप्पमत्त
appamatta
小心的 / 微小的 / 注意的 / 警醒的 /
अस्सव
assava
水流 / 注意的 / 流 / 流动 / 流動 / 流向 / 流量 / 脓 / 膿 /
जागर
jāgara
注意的 / 警醒的 /

注意
zhù yì
अच्चना
accanā
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 祭品 / 翊 / 荣誉 /
अविप्पवास
avippavāsa
注意 / 注意力 / 注目 / 留神 / 關注 /
गुत्ति
gutti
保护 / 保護 / 守卫 / 守衛 / 守護 / 把守 / 注意 / 看守 / 衛 / 門衛 /
गारव
gārava
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 翊 /
गोपन
gopana
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 注意 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 關心 / 關照 /
चित्तीकार
cittikāra
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 翊 / 考慮 /
परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威严 / 尊 ^严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

注意力
zhù yì lì
अविप्पवास
avippavāsa
注意 / 注意力 / 注目 / 留神 / 關注 /
परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威严 / 尊 ^严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

注意的
zhù yì de
अप्पमत्त
appamatta
小心的 / 微小的 / 注意的 / 警醒的 /
अस्सव
assava
水流 / 注意的 / 流 / 流动 / 流動 / 流向 / 流量 / 脓 / 膿 /
जागर
jāgara
注意的 / 警醒的 /

注目
zhù mù
अविप्पवास
avippavāsa
注意 / 注意力 / 注目 / 留神 / 關注 /
परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威严 / 尊 ^严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /
泪
lèi
अस्सु
assu
泪 / 泪水 / 流淚 / 淚 /

泪水
lèi shuǐ
अस्सु
assu
泪 / 泪水 / 流淚 / 淚 /
洋
yáng
बाहिर
bāhira
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外国的 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 洋 / 番 / 窗外 / 門外 /

洋娃娃
yáng wá wá
धीतलिका
dhītalikā
娃娃 / 洋娃娃 / 玩偶 /
洋裝
yáng zhuāng
निवासन
nivāsana
打扮 / 打扮 / 服 / 服装 / 服裝 / 洋裝 / 穿戴 / 衣服 / 衣物 / 衣裳 /

洗劫
xǐ jié
पसिब्बक
pasibbaka
一袋 / 囊 / 大袋子 / 手提包 / 提包 / 旅行包 / 旅行包 / 囊 / 洗劫 / 紙袋 / 袋 / 袋子 / 錢包 / 麻布袋 / 麻袋 /
洗浴
xǐ yù
नहान
nahāna
沐浴 / 洗浴 / 洗澡 / 浴 / 游泳 / 澡 /
न्हान
nhāna
沐浴 / 洗浴 / 洗澡 / 浴 / 游泳 / 澡 /

洗澡
xǐ zǎo
नहान
nahāna
沐浴 / 洗浴 / 洗澡 / 浴 / 游泳 / 澡 / न्हान
nhāna
沐浴 / 洗浴 / 洗澡 / 浴 / 游泳 / 澡 / 浴

洞

dòng
कूप
kūpa
井 / 以至 / 嘛 / 嘿 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 洞 / 良好 /
कुहर
kuhara
孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 窟窿 / 阱 /
गब्भर
gabbhara
山洞 / 洞 / 洞穴 / 洞穴 / 窟 / छिगल
chiggala
孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 窟窿 / 阱 /
छिद्द
chidda
孔 / 有洞的 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 穿孔的 / 窟窿 / 缺點 / 裂縫 / 過失 / 阱 /
बिल
bila
孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 空心 / 窟窿 / 孔 / 阱 /

洞口

dòng kǒu
कुहर
kuhara
孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 窟窿 / 阱 /
छिगल
chiggala
孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 窟窿 / 阱 /
छिद्द
chidda
孔 / 有洞的 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 穿孔的 / 窟窿 / 缺點 / 裂縫 / 過失 / 阱 /
बिल
bila
孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 空心 / 窟窿 / 孔 / 阱 /

洞察

dòng chá
अभिसमय
abhisamaya

洞察力
dòng chá lì
जाण
ñāṇa
智 / 智慧 / 洞察力 /
दस्सन
dassana
洞察力 / 直覺 / 直覺 / 看見 /
निज्झान
nijjhāna
पञ्ञा
paññā
智 / 智慧 / 洞察力 / 深知 / 知識 / 知識 / 知道 / 識 / 識 / 識 /

洞穴

dòng xué
गब्भर
gabbhara
山洞 / 洞 / 洞穴 / 洞穴 / 窟 /
गब्भर
gabbhara
山洞 / 洞 / 洞穴 / 洞穴 / 窟 /

洪

hóng
ओघ
ogha
大水 / 水災 / 泽 / 洪 / 洪水 / 流 / 涌流 / 淹 /

洪水

hóng shuǐ
ओघ
ogha
大水 / 水災 / 泽 / 洪 / 洪水 / 流 / 涌流 / 淹 /
洲
zhōu
दीप
dīpa
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 小島 / 島 / 島嶼 / 島 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支撐 / 支撐 / 支撐 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /

洵

xún
किर
kira
实在 / 實在 / 果然 / 果真 / 洵 / 當真 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真實地 / 真是 / 真正地 / 真的 /

活兒

huó r
कम्म
kamma
事 / 作用 / 做事 / 券 / 動作 / 勞工 / 在職 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 業 / 活兒 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 行動 / 起作用 / 辦事 / 飯碗 /
किचच
kipca

东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 責任 / 起作用 / 辦事 / 飯碗 /

活力
huó lì
उद्दान
uttāhāna
上升 / 业 / 來歷 / 出身 / 原点 / 始源 / 工業 / 本源 / 来历 / 根源 / 業 / 活力 / 由来 / 精力 / 能源 / 能量 / 血统 / 行業 / 起源 / 高能 /
उस्सुक्क
ussukka
活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 高能 /
शाम
thāma
幂 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 实力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /
धिति
dhiti
决心 / 勇气 / 勇氣 / 有勇氣 / 活力 / 精力 / 胆量 / 能源 / 能量 / 膽子 / 膽量 / 高能 /
पग्गह
paggaha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /
पग्गह
paggāha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /

派

pài
निकाय
nikāya
一群 / 团 / 团体 / 團 / 團體 / 宗派 / 小組 / 收集 / 教派 / 派 / 派系 / 組 / 组 / 群 / 群體 / 集團 /
पक्ख
pakkha
一方 / 側 / 信徒 / 側 / 党 / 半邊 / 幫派 / 旁边 / 旁邊 / 派 / 派對 / 派系 / 當事人 / 羽翼 / 翅 / 翅膀 / 翼 / 跛子 / 边 / 黨 /
भाग
bhāga
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 分担 / 局部 / 幫派 / 派 / 派系 / 股 / 股份 / 股票 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

派對

pài duì
पक्ख
pakkha
一方 / 側 / 信徒 / 側 / 党 / 半邊 / 幫派 / 旁边 / 旁邊 / 派 / 派對 / 派系 / 當事人 / 羽翼 / 翅 / 翅膀 / 翼 / 跛子 / 边 / 黨 /

流出

liú chū
अभिसन्द
abhisanda
成效 / 成果 / 效果 / 果 / 流出 / 究竟 / 結果 / 结果 /
पसव
pasava
子孫 / 孳 / 提出 / 流出 /
流刑
liú xíng
पब्बाजन
pabbājana
放逐 / 流亡 / 流刑 / 流放 / 被放逐者 / 驱逐 /

派系

pài xì
निकाय
nikāya
一群 / 团 / 团体 / 團 / 團體 / 宗派 / 小組 / 收集 / 教派 / 派 / 派系 / 組 / 组 / 群 / 群體 / 集團 /
पक्ख
pakkha
一方 / 側 / 信徒 / 側 / 党 / 半邊 / 幫派 / 旁边 / 旁邊 / 派 / 派對 / 派系 / 當事人 / 羽翼 / 翅 / 翅膀 / 翼 / 跛子 / 边 / 黨 /
भाग
bhāga
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 分担 / 局部 / 幫派 / 派 / 派系 / 股 / 股份 / 股票 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
पैिणन
pahiṇana
发送 / 派遣 / 特派 / 遣 /

派系
pài xì
निकाय
nikāya
一群 / 团 / 团体 / 團 / 團體 / 宗派 / 小組 / 收集 / 教派 / 派 / 派系 / 組 / 组 / 群 / 群體 / 集團 /
पक्ख
pakkha
一方 / 側 / 信徒 / 側 / 党 / 半邊 / 幫派 / 旁边 / 旁邊 / 派 / 派對 / 派系 / 當事人 / 羽翼 / 翅 / 翅膀 / 翼 / 跛子 / 边 / 黨 /
भाग
bhāga
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 分担 / 局部 / 幫派 / 派 / 派系 / 股 / 股份 / 股票 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

派遣

pài qiǎn
पहिणन
pahiṇana
发送 / 派遣 / 特派 / 遣 /

流

liú
अस्सव
assava
水流 / 注意的 / 流 / 流动 / 流動 / 流向 / 流量 / 脓 / 膿 /
ओघ
ogha
大水 / 水災 / 泽 / 洪 / 洪水 / 流 / 涌流 / 淹 /
गङ्गा
gaṅgā
川 / 水系 / 江 / 河 / 河口 / 河川 / 河水 / 河流 / 河裡 / 流 /

流亡

liú wáng
पब्बाजन
pabbājana
放逐 / 流亡 / 流刑 / 流放 / 被放逐者 / 驱逐 /

流出

liú chū
अभिसन्द
abhisanda
成效 / 成果 / 效果 / 果 / 流出 / 究竟 / 結果 / 结果 /
पसव
pasava
子孫 / 孳 / 提出 / 流出 /

流刑

liú xíng
पब्बाजन
pabbājana
放逐 / 流亡 / 流刑 / 流放 / 被放逐者 / 驱逐 /

流动
liú dòng
अस्सव
assava
水流 / 注意的 / 流 / 流动 / 流動 / 流向 / 流量 / 脓 / 膿 /
पवाह
pavāha
水流 / 流动 / 溪流 /

流動

liú dòng
अस्सव
assava
水流 / 注意的 / 流 / 流动 / 流動 / 流向 / 流量 / 脓 / 膿 /

流向

liú xiàng
अस्सव
assava
水流 / 注意的 / 流 / 流动 / 流動 / 流向 / 流量 / 脓 / 膿 /

流放

liú fàng
पब्बाजन
pabbājana
放逐 / 流亡 / 流刑 / 流放 / 被放逐者 / 驱逐 /

流星

liú xīng
उक्का
ukkā
喷灯 / 流星 / 火把 / 火炬 / 炬 / 燭 / 隕石 / 隕星 /
उप्पात
uppāta
流星 / 隕石 / 隕星 /

流氓

liú máng
खळ
khala
仓 / 卑鄙的人 / 流氓 / 無賴 / 粗 / 粗略的 / 粗糙的 / 糙 / 苛刻 / 草 /

流淚

liú lèi
अस्सु
assu
泪 / 泪水 / 流淚 / 淚 /

流量

liú liàng
अस्सव
assava
水流 / 注意的 / 流 / 流动 / 流動 / 流向 / 流量 / 脓 / 膿 /

流刑

liú xíng
पब्बाजन
pabbājana
放逐 / 流亡 / 流刑 / 流放 / 被放逐者 / 驱逐 /

測
cè
पमाण
pamāṇa
大小 / 尺寸 / 度量 / 措施 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 量度 /
परिच्छेद
pariccheda
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 度量 / 徼 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिमाण
parimāṇa
大小 / 局限 / 幅度 / 度量 / 措施 / 极限 / 極限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 边际 / 量 / 量度 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

測量
cè liàng
पमाण
pamāṇa
大小 / 尺寸 / 度量 / 措施 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 量度 /
परिच्छेद
pariccheda
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 度量 / 徼 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिमाण
parimāṇa
大小 / 局限 / 幅度 / 度量 / 措施 / 极限 / 極限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 边际 / 量 / 量度 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

浩大
hào dà
अतिमहन्त
atimahanta
巨 / 巨大 / 巨大的 / 庞 / 庞大 / 庞大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 / 過大 / 鉅 / 龐 / 龐大 /
ब्रहन्त
brahanta
巨人般的 / 巨大 / 巨大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 /

浩瀚
hào hàn
अतिमहन्त
atimahanta
巨 / 巨大 / 巨大的 / 庞 / 庞大 / 庞大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 / 過大 / 鉅 / 龐 / 龐大 /
ब्रहन्त
brahanta
巨人般的 / 巨大 / 巨大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 /

浪
làng
तरङ्ग
taraṅga
揮動 / 水波 / 波 / 波浪 / 浪 / 浪头 / 浪潮 /

浪头
làng tóu
तरङ्ग
taraṅga
揮動 / 水波 / 波 / 波浪 / 浪 / 浪头 / 浪潮 /
浪潮
làng cháo
तरङ्ग
taraṅga
揮動 / 水波 / 波 / 波浪 / 浪 / 浪头 / 浪潮 /
浪費
làng fèi

खय
khaya
廢物 / 浪費 / 浪費 / 白費 / 破壞 / 終結 / 虛度 / 衰退 /
परिक्खय
parikkhaya
廢物 / 枯竭 / 浪費 / 浪费 / 白費 / 腐朽 / 虛度 /

浪费
làng fèi
खय
khaya
廢物 / 浪費 / 浪費 / 白費 / 破壞 / 終結 / 虛度 / 衰退 /
परिक्खय
parikkhaya
廢物 / 枯竭 / 浪費 / 浪费 / 白費 / 腐朽 / 虛度 /

浮子
fú zi
प्लव
plava
木筏 / 楳 / 浮子 / 筏 /

浴
yù
नहान
nahāna
沐浴 / 洗浴 / 洗澡 / 浴 / 游泳 / 澡 /
न्हान
nhāna
沐浴 / 洗浴 / 洗澡 / 浴 / 游泳 / 澡 /

海岸
hǎi àn
तीर
tīra
岸 / 河岸 / 海岸 / 滨 /

海拔
hǎi bá
आरोह
āroha
個兒 / 海拔 / 身高 / 騎士 / 高低 / 高度 /
उन्नति
unnati
上升 / 加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 提高 / 海拔 / 益 / 茁 / 超升 /
उब्बेध
ubbedha
個兒 / 海拔 / 海拔高度 / 直立 / 身高 / 高低 / 高度 /

海拔高度
hǎi bá gāo dù
उब्बेध
ubbedha
個兒 / 海拔 / 海拔高度 / 直立 / 身高 / 高低 / 高度 /

海洋
hǎi yáng
अण्णव
aṇṇava
大洋 / 大海 / 海洋 / 瀚 / 瀛 /
जलधि
jaladhi
大洋 / 大海 / 海洋 / 瀚 / 瀛 /
जलनिधि
jalanidhi
大洋 / 大海 / 海洋 / 瀚 / 瀛 /

海龟
hǎi guī
कच्छप
kacchapa
海龟 / 鳖 / 龜 / 龟 /

消化
xiāo huà
गहणी
gahaṇī
妊娠 / 懷孕 / 消化 /
जीरण
jīraṇa
परिणाम
pariṇāma
发展 / 变 / 变化 / 变更 / 开发 / 成熟 / 改 / 改變 / 更改 / 消化 / 變 / 變動 / 變化 / 變更 / 轉變 / 转变 /

消化不良
xiāo huà bù liáng
अजीरक
ajīraka
अलसक
alasaka

消失
xiāo shī
अदस्सन
adassana
消失 / 缺乏 / 缺席 /
अन्तरधान
antaradhāna
अन्तरधायन
antaradhāyana
अपगम
apagama
अभाव
abhāva
不在 / 消失 / 缺乏 / 缺席 /
चुत्ति
cuti
नब्बापन
nabbāpana
冷却 / 冷卻 / 消失 /

消息
xiāo xī
पवत्ति
pavatti
事件 / 事端 / 入射 / 新聞 / 新闻 / 消息 / 消息 / 發生 / 訊 / 讯 / 音信 /
पवत्ति
pavatti
事件 / 事端 / 入射 / 新聞 / 新闻 / 消息 / 消息 / 發生 / 訊 / 讯 / 音信 /

消瘦
xiāo shòu
तनु
tanu
消瘦 / 瘦 / 瘦的 / 稀薄 / 稀薄 / 精巧 / 細 / 薄 / 薄 / 薄的 / 薄的 /

消防隊
xiāo fáng duì
अग्गि
aggi
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /
अनल
anala
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /
गिनि
gini
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /
जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
पावक
pāvaka
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /

涌流
yǒng liú
ओघ
ogha
大水 / 水災 / 泽 / 洪 / 洪水 / 流 / 涌流 / 淹 /

涎
xián
एला
elā
口水 / 唾 / 唾液 / 涎 /
एळा
eļā
口水 / 唾 / 唾液 / 涎 /
खेळ
khelā
口水 / 唾 / 唾液 / 涎 /

润
rùn
आनिसंस
ānisamsa
值得 / 值得 / 利 / 利润 / 利潤 / 功 / 贏 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
आय
āya
利 / 利润 / 利潤 / 贏 / 定期收入 / 成果 / 收 / 收入 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
उपभोग
upabhoga
使用 / 利 / 利润 / 利潤 / 利用 / 可享受的 / 贏 / 收益 / 施用 / 潤 / 潤 / 獲利 / 用 / 用法 / 用途 / 盈利 / 获利 / 裨益 / 运用 / 運用 /
पत्ति
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利润 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到来 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /

涨
zhāng
उगगम
uggama
上升 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 崛起 / 攀升 / 漲 / 漲 / 益 / 興起 / 茁 /
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 涨 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /
उदयन
udayana
上升 / 崛起 / 漲 / 漲 / 興起 /

涯
yá
गति
gati
事業 / 去 / 命运 / 命運 / 涯 / 生涯 / 課程 /

淄
zī
कण्ह
kaṇha
乌 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 恶 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 淄 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪恶 / 邪恶的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
काळ
kāḷa
乌 / 冥 / 变黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 淄 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
काळक
kāḷaka
变黑 / 污点 / 污點 / 淄 / 玄 / 皂 / 黎 / 黑 / 黑的 / 黑色 / 黝 /

淑女
shū nǚ
अय्या
ayyā
女主人 / 女士 / 情人 / 情妇 / 淑女 / 淑女 / 贵妇人 /
अय्या
ayyā
女主人 / 女士 / 情人 / 情妇 / 淑女 / 淑女 / 贵妇人 /

淚
lèi
अस्सु
assu
泪 / 泪水 / 流淚 / 淚 /

淡
dàn
अवभास
avabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 出現 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
आभा
ābhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
आलोक
āloka
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
जोति
joti

五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 着火 / 着火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
दित्ति
ditti

亮光 / 光 / 光亮 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
निभा
nibhā

亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पज्जोत
pajjota

亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पदीप
padīpa

亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पभा
pabhā

亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पभास
pabhāsa

亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
भा
bhā

亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
भानु
bhānu

亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /
--

淡淡
dàn dàn
अवभास
avabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 出現 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
आभा
ābhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
आलोक
āloka
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
जोति
joti

五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 着火 / 着火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
दित्ति
ditti

亮光 / 光 / 光亮 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
निभा
nibhā

亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पज्जोत
pajjota

亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पदीप
padīpa

亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पभा
pabhā

亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पभास
pabhāsa

亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
भा
bhā

亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
भानु
bhānu

亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /
--

淪陷
lún xiàn
पात
pāta
下跌 / 坠 / 墮 / 墜 / 墜入 / 墮 / 扔 / 投 / 掉 / 掉下 / 摔 / 摔下 / 摔倒 / 摔倒 / 淪陷 / 落下 / 跌 / 跌下 / 跌倒 / 跌倒 / 跌到 / 跌落 /

深
shēn
अनुत्तान
anuttāna
冥 / 暗的 / 根深 / 模糊的 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窵 / 罩 / 邃 /
गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奥的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窵 / 罩 / 邃 / 邈 /
गाध
gādha
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深度 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窵 / 罩 / 邃 /

深切
shēn qiè
अनुत्तान
anuttāna
冥 / 暗的 / 根深 / 模糊的 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窵 / 罩 / 邃 /
गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奥的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窵 / 罩 / 邃 / 邈 /
गाध
gādha
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深度 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窵 / 罩 / 邃 /

深切注意的
shēn qiè zhù yì de
निसामक
nisāmaka

深刻
shēn kè
अनुत्तान
anuttāna
冥 / 暗的 / 根深 / 模糊的 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窵 / 罩 / 邃 /
गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奥的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窵 / 罩 / 邃 / 邈 /
गाध
gādha
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深度 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窵 / 罩 / 邃 /

深厚
shēn hòu
अनुत्तान
anuttāna
冥 / 暗的 / 根深 / 模糊的 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 /
गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奧的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 / 邈 /
गध
gādha
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深度 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 /

深处
shēn chǔ
अनुत्तान
anuttāna
冥 / 暗的 / 根深 / 模糊的 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 /
गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奧的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 / 邈 /
गध
gādha
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深度 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 /

深奧的
shēn ào de
गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奧的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 / 邈 /

深度
shēn dù
गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奧的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 / 邈 /
गध
gādha
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深度 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 /

深思的
shēn sī de
चिन्तक
cintaka
चिन्तनक
cintanaka
पतिस्सत
patissata
深思的 / 留心的 /

深愛
shēn ài
पियायना
piyāyana
性愛 / 恋 / 恋爱 / 情 / 愛 / 愛上 / 愛情 / 慈愛 / 戀 / 戀愛 / 摯愛 / 春 / 深愛 / 熱愛 / 愛 / 爱的 / 鐘情 /

深沉
shēn chén
अनुत्तान
anuttāna
冥 / 暗的 / 根深 / 模糊的 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 /
गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奧的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 / 邈 /
गध
gādha
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深度 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 /

深海
shēn hǎi
गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奧的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 / 邈 /

深深
shēn shēn
अनुत्तान
anuttāna
冥 / 暗的 / 根深 / 模糊的 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 /
गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奧的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 / 邈 /
गध
gādha
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深度 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 /

深淵
shēn yuān
पाताल
pātāla
傾向 / 深淵 / 深淵 /

深淵
shēn yuān
पाताल
pātāla
傾向 / 深淵 / 深淵 /

深的
shēn de
अनुत्तान
anuttāna
冥 / 暗的 / 根深 / 模糊的 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 /
गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奧的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 / 邈 /
गध
gādha
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深度 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 /

深知
shēn zhī
अधिगम
adhigama
深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /
अनुबोध
anubodha
深知 / 理解 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 體諒 /
अवबोध
avabodha
深知 / 理解 / 理解力 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 體諒 /
आजानन
ājānana
深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /
पञ्चा
paññā
智 / 智慧 / 洞察力 / 深知 / 知識 / 知识 / 知道 / 識 / 识 / 识 /
परिजानन
parijānana
深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /
बोध
bodha
深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /

深處
shēn chù
अनुत्तान
anuttāna
冥 / 暗的 / 根深 / 模糊的 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 /
गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奧的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 / 邈 /
गध
gādha
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深度 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 /

深遠
shēn suǐ
अनुत्तान
anuttāna
冥 / 暗的 / 根深 / 模糊的 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 /
गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奧的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 / 邈 /
गध
gādha
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深度 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 滄 / 窈 / 葦 / 遂 /

清淡
qīng dàn
अवभास
avabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 出現 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
आभा
ābhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
आलोक
āloka
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 着火 / 着火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /

混亂
hùn luàn
आलोक
āloka
混亂 / 激動 /
नीघ
nīgha

淹
yān
ओघ
ogha
大水 / 水災 / 泽 / 洪 / 洪水 / 流 / 涌流 / 淹 /
清楚的
qīng chǔ de
निग्गुम्ब
niggumba

亮
liàng
亮光 / 光 / 光亮 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पदीप
padīpa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पभा
pabhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पभास
pabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
भा
bhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
भानु
bhānu
亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /

清澈的
qīng chè de
अच्छ
accha
包涵 / 承受 / 承擔 / 清澈的 / 熊 / 熊市 / 狗熊 / 結 / 结 /

清白的
qīng bái de
निरपराध
niraparādha

清空
qīng kōng
तुच्छ
tuccha
寥 / 楞 / 楞 / 清空 / 空 / 空心 / 空格 / 空洞 / 空瓶 / 空白 / 空的 / 空著 / 扎 /

淵
yuān
अनुत्तान
anuttāna
冥 / 暗的 / 根深 / 模糊的 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窈 / 罩 / 邃 /
गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奥的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窈 / 罩 / 邃 / 邈 /

गध
gādha
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深度 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窈 / 罩 / 邃 /

漁
yú
झस
jhasa
漁 / 釣 / 釣 / 魚 / 魚類 / 鱼 /
मच्छ
maccha
漁 / 釣 / 釣 / 魚 / 魚類 / 鱼 /

漁夫
yú fū
केवट्ट
kevaṭṭa

滲透
shèn tòu
निब्बेध
nibbedha
侵入 / 刺穿 / 滲透 / 滲透 /
पटिवेध
paṭivedha
侵入 / 滲透 / 滲透 / 理解 /

減少
jiǎn shǎo
परिहानि
parihāni
損失 / 損失 / 毀滅 / 減少 / 茫然 / 敗 /

渡口
dù kǒu
नावा
nāvā
小船 / 小艇 / 渡口 / 港口 / 舟 / 航 / 船 / 船 /

渣滓
zhā zǐ
कसट
kaṣaṭa
拒 / 拒絕 / 渣滓 /

測
cè
पमाण
pamāṇa
大小 / 尺寸 / 度量 / 措施 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 量度 / परिच्छेद
pariccheda
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 度量 / 微 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 眡 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिमाण
parimāṇa
大小 / 局限 / 幅度 / 度量 / 措施 / 极限 / 極限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 边际 / 量 / 量度 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

測量
cè liàng
पमाण
pamāṇa
大小 / 尺寸 / 度量 / 措施 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 量度 / परिच्छेद
pariccheda
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 度量 / 微 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 眡 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिमाण
parimāṇa
大小 / 局限 / 幅度 / 度量 / 措施 / 极限 / 極限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 边际 / 量 / 量度 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

港口
gǎng kǒu
नावा
nāvā
小船 / 小艇 / 渡口 / 港口 / 舟 / 航 / 船 / 船 /
पट्टन
paṭṭana
口岸 / 埠 / 左舷的 / 港口 / 端口 / 避难所 /

渴望
kě wàng
अपेक्खन
apekkhana
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /

अभिकङ्खन
abhikaṅkhana
希 / 希望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 渴望 /
अभिकङ्खित
abhikaṅkhita
希 / 希望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 渴望 /

अभिगिज्जन
abhigijjhana
渴望 / 渴求 /
अभिरुचि
abhiruci
希望 / 渴望 /
अभिलासा

abhilāsā
希望 / 愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
आसा
āsā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /

आसिसना
āsimsanā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
इच्छ
iccha
想 / 渴望 /
इच्छन

icchana
希望 / 愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
इच्छा
icchā
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /

एजा
ejā
動議 / 渴望 / 渴求 / 运动 / 運動 /
एसना

esanā
尋求 / 渴望 /
कामता
kāmatā
छन्दता
chandatā
जालिनी
jālinī
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 渴求 / 要求 / 願望 /

जिगिसना
jigimsanā
जिगिसा
jigimsā

तण्हा
taṅhā
口渴 / 愛 / 欲望 / 渴望 / 渴求 /
तसिना
tasinā
口渴 / 渴望 / 渴求 /
नन्दि

nandi
喜悅 / 喜悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 渴望 / 渴求 / 禧 / 禧 /
निकामना
nikāmanā
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /

पिपासा
pipāsā
口渴 / 渴望 /
पिहायना
pihāyanā
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /

渴望的
kě wàng de
पत्थयान
patthayāna

渴求
kě qiú

अभिगिज्जन
abhigijjhana
渴望 / 渴求 /
एजा
ejā
動議 / 渴望 / 渴求 / 运动 / 運動 /
जालिनी
jālinī
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 渴求 / 要求 / 願望 /

तण्हा
taṅhā
口渴 / 愛 / 欲望 / 渴望 / 渴求 /
तसिना

tasinā
口渴 / 渴望 / 渴求 /
नन्दि
nandi
喜悅 / 喜悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 渴望 / 渴求 / 禧 / 禧 /

游客
yóu kè
अद्दग्
addhagū
旅行者 / 游客 /
अद्धिक

addhika
旅客 / 旅客 / 旅行者 / 旅行者 / 游客 /
गमिक
gamika
旅行者 / 旅行者 / 游客 /
पथावी
pathāvī
旅行者 / 游客 / 行人 /
पथिक
pathika
旅行者 / 旅行者 / 游客 / 行人 /

游戏
yóu xì
खिड्डा
khīḍḍā

奏 / 娛樂 / 嬉 / 戏 / 戲 / 打球 / 扮 / 抹 / 游戏 / 演 / 玩 / 玩兒 / 玩弄 / 玩耍 / 耍 / 踢球 /
नच्च
nacca
游戏 / 舞蹈 / 表演 /

游泳
yóu yǒng
नहान
nahāna
沐浴 / 洗浴 / 洗澡 / 浴 / 游泳 / 澡 /
न्हान
nhāna
沐浴 / 洗浴 / 洗澡 / 浴 / 游泳 / 澡 /

渺小
miǎo xiǎo
अप्प
appa
子 / 小 / 小班 / 小的 / 少 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
अप्पक
appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
खुद्द
khudda
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
चुल्ल
culla
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 未成年人 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
थोक
thoka
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
परित्त
paritta
不足道 / 子 / 小 / 小班 / 小的 / 少的 / 微不足道 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

涓
méi
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 極限 / 棧 / 極限 / 止境 / 涓 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 終結 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

湖
hú
तळाक
talāka
湖 / 湖水 / 湖泊 / 潢 /

湖水
hú shuǐ
तळाक
talāka
湖 / 湖水 / 湖泊 / 潢 /

湖泊
hú pō
तळाक
talāka
湖 / 湖水 / 湖泊 / 潢 /

湛
zhàn
अनुत्तान
anuttāna
冥 / 暗的 / 根深 / 模糊的 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 薄 / 罩 / 遂 /
गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奥的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窈 / 罩 / 遂 / 邈 /
गाध
gādha
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深度 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窈 / 罩 / 遂 /

湛藍
zhàn lán
नील
nīla
沧 / 湛藍 / 滄 / 碧 / 藍 / 藍色 / 藍 / 藍色 / 青色 /
湿的
shī de
अल्ल
alla
未成熟的 / 湿的 / 濕 /

源
yuán
उब्भिद
ubbhida
彈簧 / 彈簧 / 春 / 春天 / 春季 / 泉 / 泉水 / 源 /
निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /
पभव
pabhava
來歷 / 來源 / 出处 / 出身 / 原点 / 始源 / 开始 / 朔 / 本源 / 来历 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 由来 / 血统 / 起源 /

源头
yuán tóu
निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /
पभव
pabhava
來歷 / 來源 / 出处 / 出身 / 原点 / 始源 / 开始 / 朔 / 本源 / 来历 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 由来 / 血统 / 起源 /

源泉
yuán quán
निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /
पभव
pabhava
來歷 / 來源 / 出处 / 出身 / 原点 / 始源 / 开始 / 朔 / 本源 / 来历 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 由来 / 血统 / 起源 /

源点
yuán diǎn
निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /
पभव
pabhava
來歷 / 來源 / 出处 / 出身 / 原点 / 始源 / 开始 / 朔 / 本源 / 来历 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 由来 / 血统 / 起源 /

源頭
yuán tóu
निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /
पभव
pabhava
來歷 / 來源 / 出处 / 出身 / 原点 / 始源 / 开始 / 朔 / 本源 / 来历 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 由来 / 血统 / 起源 /

準備
zhǔn bèi
उपक्खट
upakkhaṭa
कल्ल
kalla
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 焦 / 准备 / 妙 / 就绪 / 就绪 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /
परिवच्छ
parivaccha
溪流
xī liú
पवाह
pavāha
水流 / 流动 / 溪流 /

溺
nì
पस्साव
passāva
小便 / 尿 / 溺 /
滄
cāng
नील
nīla
沧 / 湛藍 / 滄 / 碧 / 藍 / 藍色 / 藍 / 藍色 / 青色 /
滋味
zī wèi
अस्साद
assāda
口味 / 味 / 味兒 / 味道 / 品味 / 品嘗 / 品尝 / 啗 / 啜 / 嘗 / 尝 / 愉快 / 有味道 / 滋味 / 滿足 / 趣味 /
滾筒
gǔn tǒng
दुन्दुभि
dundubhi
大鼓 / 滾筒 / 鼓 /
भेरि
bheri
大鼓 / 打鼓 / 滾筒 / 鼓 /

滿
mǎn
पुण्ण
puṇṇa
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /
परिपूर
paripūra
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /

滿的
mǎn de
पुण्ण
puṇṇa
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /
परिपूर
paripūra
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /

滨
bīn
तीर
tīra
岸 / 河岸 / 海岸 / 滨 /

渗透
shèn tòu
निब्बेध
nibbedha
侵入 / 刺穿 / 渗透 / 渗透 /
पटिवेध
paṭivedha
侵入 / 渗透 / 渗透 / 理解 /

滴
dī
थेव
theva
一滴 / 掉落 / 水滴 / 滴 / 落 / 降 /
परघरण
paggharaṇa
पतन
patana
一滴 / 掉落 / 水滴 / 滴 / 落 / 落下 / 降 /

滿
mǎn
पुण्ण
puṇṇa
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /
पुण्णता
puṇṇatā
परिपूर
paripūra
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /

滿意
mǎn yì
अभिरति
abhirati

滿懷
mǎn huái
पुण्ण
puṇṇa
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /
परिपूर
paripūra
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /

滿臉
mǎn liǎn
मुख
mukha
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 蔭 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

滿足
mǎn zú
अस्साद
assāda
口味 / 味 / 味兒 / 味道 / 品味 / 品嚐 / 品尝 / 嚼 / 嚼 / 嘗 / 尝 / 愉快 / 有味道 / 滋味 / 滿足 / 趣味 /
तित्ति
titti
滿足 / 邊緣 /

滿載
mǎn zài
पुण्ण
puṇṇa
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 飽 /
परिपूर
paripūra
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 飽 /

漂浮的
piāo fú de
उप्लवन
uplavana

演
yǎn
खिड़डा
khidḍā
奏 / 娛樂 / 嬉 / 戏 / 戲 / 打球 / 扮 / 抹 / 游戏 / 演 / 玩 / 玩兒 / 玩弄 / 玩耍 / 耍 / 踢球 /

演員
yǎn yuán
नच्यक
naccaka
扮演者 / 扮演者 / 演員 / 演員 / 舞者 /

演員
yǎn yuán
नच्यक
naccaka
扮演者 / 扮演者 / 演員 / 演員 / 舞者 /

演奏者
yǎn zòu zhě
धम
dhama
धमक
dhamaka

演戲
yǎn xì
चारी
cārī
演戲 / 演技 / 生活 /

演技
yǎn jì
चारी
cārī
演戲 / 演技 / 生活 /
演說
yǎn shuō
कथा
kathā
会话 / 故事 / 演說 / 言語 /

演講
yǎn jiǎng
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
उदाहार
udāhāra
गद
gada
作響 / 健全 / 呕心 / 嘔 / 声 / 声音 / 惹 / 有聲 / 演講 / 疾 / 疾病 / 病 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鸣 /
भासन
bhāsana
演講 / 談話 /

演讲
yǎn jiǎng
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित्त
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

漠
mò
इरिन
irina
不毛之地 / 沙漠 / 漠 / 荒地 / 荒地 / 荒漠 /
कन्तार
kantāra
不毛之地 / 旷 / 曠 / 曠野 / 沙漠 / 漠 / 荒漠 / 荒野 /

漩渦
xuán wō
आवट्ट
āvattā

漫
màn
अपलिबु
apalibuddha
漫 / 自由 / 自由的 / 解放 /
अबद्ध
abaddha
漫 / 自由 / 自由的 / 解放 /
अबन्धन
abandhana
漫 / 自由 / 自由的 / 解放 /
निरग्गल
niraggala
漫 / 自由 / 自由的 / 解放 /

滂
mǎng
अतिमहन्त
atimahanta
巨 / 巨大 / 巨大的 / 庞 / 庞大 / 庞大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 / 過大 / 鉅 / 龐 / 龐大 /
ब्रहन्त
brahanta
巨人般的 / 巨大 / 巨大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 /

漲
zhǎng
उगम
uggama
上升 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 崛起 / 攀升 / 漲 / 漲 / 益 / 興起 / 茁 /
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 漲 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /
उदयन
udayana
上升 / 崛起 / 漲 / 漲 / 興起 /

潛水
qián shuǐ
निमुज्जा
nimujjā

潢
huáng
तळाक
talāka
湖 / 湖水 / 湖泊 / 潢 /

潤
rùn
आनिसंस
ānisamsa
值得 / 值得 / 利 / 利潤 / 利潤 / 功 / 贏 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
आय
āya
利 / 利潤 / 利潤 / 贏 / 定期收入 / 成果 / 收 / 收入 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
उपभोग
upabhoga
使用 / 利 / 利润 / 利潤 / 利用 / 可享受的 / 贏 / 收益 / 施用 / 潤 / 潤 / 獲利 / 用 / 用法 / 用途 / 盈利 / 获利 / 裨益 / 运用 / 運用 /
पत्ति
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利润 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到來 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /

潼
tóng
अब्भुन्नत
abbhunnata
升高 / 崇 / 昂 / 昊 / 潼 / 馱 / 高 / 高位 / 高昂 / 高水平 / 高的 /
उच्च
ucca
多高 / 崇 / 昂 / 昊 / 潼 / 馱 / 高 / 高位 / 高大 / 高昂 / 高水平 / 高的 /
तुइण
tuṅga
崇 / 昂 / 昊 / 潼 / 馱 / 高 / 高位 / 高昂 / 高水平 / 高的 /

澡
zǎo
नहान
nahāna
沐浴 / 洗浴 / 洗澡 / 浴 / 游泳 / 澡 /
न्हान
nhāna
沐浴 / 洗浴 / 洗澡 / 浴 / 游泳 / 澡 /

激励
jī lì
अनुबल
anubala

刺激 / 助 / 協助 / 壁助 / 幫 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 激励 /

激動
jī dòng
आलोळ
āloḷa
混亂 / 激動 /
उब्बिज्जना
ubbijjanā
不安 / 激動 /
कुप्पन
kuppana
忿怒 / 激動 /
खोभ
khobha
休克 / 惊 / 激動 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震驚 / 驚 / 驚恐 /
चलन
calana
激動 / 發抖 / 運動 /
पकोप
pakopa
怒 / 怒火 / 拂 / 愤 / 憤怒 / 憤怒 / 激動 / 激怒 /
परितस्सना
paritassanā
फन्दन
phandana
動議 / 激動 / 运动 / 運動 /
फन्दि्त
phandita

激怒
jī nù
आघात
āghāta
仇 / 仇恨 / 怨恨 / 憎恨 / 激怒 / 碰撞 /
कोप
kopa
पकोप
pakopa
怒 / 怒火 / 拂 / 愤 / 憤怒 / 憤怒 / 激動 / 激怒 /
पटिघ
paṭigha
厭惡 / 激怒 / 碰撞 /
पदोस
padosa
傍晚 / 微明 / 暮 / 污點 / 激怒 / 缺點 / 薄暮 / 黃昏 /

激情
jī qíng
किलेस
kilesa

激烈
jī liè
कटुक
kaṭuka
尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 激烈 / 犀利 / 痛苦的 / 銳 / 鋒利 / 锐 /

濕
shī
अल्ल
alla
未成熟的 / 湿的 / 濕 /

灯
dēng
अवभास
avabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 出現 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
आभा
abhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
आलोक
āloka
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恒星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 着火 / 着火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
दित्ति
ditti
亮光 / 光 / 光亮 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
निभा
nibhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पज्जोत
pajjota
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पदीप
padīpa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पभा
pabhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पभास
pabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
भा
bhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
भानु
bhānu
亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /

灰塵
huī chén
धूलि
dhūli
坭 / 埃 / 塵 / 尘 / 沙塵 / 灰塵 / 灰尘 /
पंसु
pamsu
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 土质 / 坭 / 埃 / 塵 / 尘 / 沙塵 / 泥土 / 灰塵 / 灰尘 /
灰尘
huī chén
धूलि
dhūli
坭 / 埃 / 塵 / 尘 / 沙塵 / 灰塵 / 灰尘 /
पंसु
pamsu
土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 土质 / 坭 / 埃 / 塵 / 尘 / 沙塵 / 泥土 / 灰塵 / 灰尘 /

灰泥
huī ní
उदुक्खल
udukkhala
灰燼
huī jìn
छारिका
chārikā
भस्म
bhasma
災難
zāi nán
ईति
īti
灾
zāi
उपदव
upaddava
不幸 / 危 / 危險 / 危險 / 危難 / 威胁 / 当儿 / 灾 /

炉
lú
आवाप
āvāpa
炉 / 烤箱 /
उद्धन
uddhana
炉 / 炉子 / 炉灶 / 烤箱 / 熔矿炉 / 爐 /
炉子
lú zi
उद्धन
uddhana
炉 / 炉子 / 炉灶 / 烤箱 / 熔矿炉 / 爐 /

爐
lú zào
उद्धन
uddhana
炉 / 炉子 / 炉灶 / 烤箱 / 熔矿炉 / 爐 /

炬
jù
उक्का
ukkā
喷灯 / 流星 / 火把 / 火炬 / 炬 / 炬 / 烟 / 陨石 / 隕星 /
炯
jiǒng
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 鑄 /

炳
bǐng
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 鑄 /
点
diǎn
कोटि
koṭi
下場 / 告終 / 完結 / 完结 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 结束 / 迨 / 點 /

為什麼
wèi shén me
कस्मा
kasmā
为什么 / 为什么 / 为何 / 为何 / 何 / 何以 / 何必 / 何故 / 咋 / 為什麼 / 為何 / 為甚麼 /
為何
wèi hé
कस्मा
kasmā
为什么 / 为什么 / 为何 / 为何 / 何 / 何以 / 何必 / 何故 / 咋 / 為什麼 / 為何 / 為甚麼 /
為例
wèi lì
उदाहरण
udāharaṇa
例 / 例子 / 实例 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模範 / 比方 / 為例 / 範 / 范例 / 表率 /
निदस्सन
nidassana
例 / 例子 / 实例 / 样品 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模範 / 比方 / 比較 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 / 證據 /

為甚麼
wèi shén me
कस्मा
kasmā
为什么 / 为什么 / 为何 / 为何 / 何 / 何以 / 何必 / 何故 / 咋 / 為什麼 / 為何 / 為甚麼 /

爐
lú zào
उद्धन
uddhana
炉 / 炉子 / 炉灶 / 烤箱 / 熔矿炉 / 爐 /

為難
wèi nán
किच्छ
kicchha
吃力 / 困难 / 困難 / 屯 / 為難 / 痛苦 / 痛苦的 / 艰 / 艱難 / 蹇 / 难 / 難 / 難以 / 難度 /
烂泥
làn ní
चिक्खल्ल
cikkhalla
像泥沼的地方 / 坭 / 沼泽 / 沼澤 / 泥 / 泥巴 / 泥巴 / 泥沼 / 烂泥 /

烏
wū
कण्ह
kaṇha
乌 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 恶 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 淄 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
काळ
kāḷa
乌 / 冥 / 变黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 淄 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
तिमिर
timira
乌 / 冥 / 幽暗 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
तिमिस
timisa
乌 / 冥 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /

烏鴉
wū yā
अरिडु
arittṭha
不吉利的 / 烏鴉 / 烏鴉 / 鴉 / 鴉 /
काक
kāka
烏鴉 / 烏鴉 / 鴉 / 鴉 /
धङ्क
dhaṅka
烏鴉 / 烏鴉 / 鴉 / 鴉 /
烟
yān
धूम
dhūma
冒煙 / 吸煙 / 火 / 烟 / 煙 / 煙霧 / 熏 / 燻 / 菸 /

烤箱
kǎo xiāng
आवाप
āvāpa
炉 / 烤箱 /
उद्धन
uddhana
炉 / 炉子 / 炉灶 / 烤箱 / 熔矿炉 / 爐 /

烦恼
fán nǎo
दुक्ख
dukkha
烦恼 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛苦 /
烧杯
shāo bēi
थालक
thālaka
大口杯 / 烧杯 /

燙
tàng
उण्ह
uṇha
加热 / 惹火 / 暑 / 火爆 / 火辣 / 燙 / 热 / 热气 / 热的 / 熱 / 熱氣 / 燙 / 辣 /
热
rè
उण्ह
uṇha
加热 / 惹火 / 暑 / 火爆 / 火辣 / 燙 / 热 / 热气 / 热的 / 熱 / 熱氣 / 燙 / 辣 /
热气

rè qì
उण्ह
uṇha
加热 / 惹火 / 暑 / 火爆 / 火辣 / 燙 / 热 / 热气 / 热的 / 熱 / 熱氣 / 燙 / 辣 /
热病

rè bìng
जर
jara
估 / 发烧 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 热病 / 熱病 / 發燒 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 / 衰老的 /

热的
rè de
उण्ह
uṇha
加热 / 惹火 / 暑 / 火爆 / 火辣 / 燙 / 热 / 热气 / 热的 / 熱 / 熱氣 / 燙 / 辣 /
無

wú
न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒绝 / 无 / 未 / 毋 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 没 / 没有 / 沒有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /
無恥

wú chǐ
अहिरिक
ahirika
不要臉 / 無恥 /

無知	焰
wú zhī	yàn
अज्ञान	अच्चि
ajānana	acci
不知 / 无知 / 無知 /	火 / 火焰 / 焰 /
अज्ञाण	जाला
aññāṇa	jalā
不知 / 愚昧 / 无知 / 無知 /	火焰 / 焰 /
अविज्ञा	然
avijjā	rán
不知 / 无知 / 無知 /	इत्थं
तम	ittham
tama	因此 / 因而 / 如此 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 /
不知 / 幽暗 / 无知 / 無知 / 黑 / 黑暗 /	इति

無賴
wú lài
खळ
khāḷa
伧 / 卑鄙的人 / 流氓 / 無賴 / 粗 / 粗略的 / 粗糙的 / 糙 / 苛刻 / 草 /
無限
wú xiàn
अनन्त
ananta
無需
wú xū
न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒绝 / 无 / 未 / 毋 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 没 / 没有 / 没有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /

焦急
jiāo jí
दर
dara
惶 / 焦急 / 焦慮 / 焦虑 /
दरथ
daratha
惶 / 焦急 / 焦慮 / 焦虑 /

焦慮
jiāo lù
दर
dara
惶 / 焦急 / 焦慮 / 焦虑 /
दरथ
daratha
惶 / 焦急 / 焦慮 / 焦虑 /

焦慮
jiāo lù
दर
dara
惶 / 焦急 / 焦慮 / 焦虑 /
दरथ
daratha
惶 / 焦急 / 焦慮 / 焦虑 /

然后	然
ránhòu	rán
अथ	इत्थं
atha	ittham
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /	因此 / 因而 / 如此 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 /
अथो	इति
atho	iti
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /	因此 / 因而 / 如此 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 /
तु	एवं
tu	evam
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 剛才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /	唯 / 因此 / 因而 / 如此 / 是 / 是的 / 沒錯 / 沒錯 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 /
तु	तथा
tu	tathā
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 剛才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /	以致 / 因此 / 因而 / 如此 / 所以 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 / 這麼 /
अथो	पि
atho	pi
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /	不過 / 乃是 / 也許 / 也许 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 可能 / 大概 / 恐怕 / 惟 / 或 / 或許 / 或许 / 然 / 然而 / 究竟 /

然後
ránhòu
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अपर
apara
其他的 / 另 / 另一 / 另外一个 / 另外的 / 然後 / 西 / 西 / 西域 / 西方的 / 西洋 / 西洋 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 剛才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
पच्छा
pacchā
之后 / 后 / 然後 /

然而	然
ránhér	rán ér
आदु	आदु
ādu	不過 / 乃是 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 惟 / 或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 然而 / 还是 / 還是 /
एव	एव
eva	仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /
तु	तु
tu	不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 剛才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

然後
ránhòu
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथो
atho
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अपर
apara
其他的 / 另 / 另一 / 另外一个 / 另外的 / 然後 / 西 / 西 / 西域 / 西方的 / 西洋 / 西洋 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 剛才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
पच्छा
pacchā
之后 / 后 / 然後 /

煙
yān
धूम
dhūma
冒煙 / 吸煙 / 火 / 烟 / 煙 / 煙霧 / 熏 / 燻 / 菸 /
煙斗
yān dòu
पनाळिका
panāḷikā
煙斗 / 管 / 管子 / 管用 / 通道 /
煙霧
yān wù
धूम
dhūma
冒煙 / 吸煙 / 火 / 烟 / 煙 / 煙霧 / 熏 / 燻 / 菸 /
पच्छा
pacchā
之后 / 后 / 然後 /

然而	然
ránhér	rán ér
आदु	आदु
ādu	不過 / 乃是 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 惟 / 或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 然而 / 还是 / 還是 /
एव	एव
eva	仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /
तु	तु
tu	不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 剛才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
पन	पन
pana	不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /
पि	पि
pi	不過 / 乃是 / 也許 / 也许 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 可能 / 大概 / 恐怕 / 惟 / 或 / 或許 / 或许 / 然 / 然而 / 究竟 /

煙
yān
धूम
dhūma
冒煙 / 吸煙 / 火 / 烟 / 煙 / 煙霧 / 熏 / 燻 / 菸 /
煙斗
yān dòu
पनाळिका
panāḷikā
煙斗 / 管 / 管子 / 管用 / 通道 /
煙霧
yān wù
धूम
dhūma
冒煙 / 吸煙 / 火 / 烟 / 煙 / 煙霧 / 熏 / 燻 / 菸 /

照料
zhàoliào
आरक्खा
ārakkhā
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看守 / 看護 / 關心 / 關照 /
गोपन
gopana
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 注意 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 關心 / 關照 /
पटिजग्गन
paṭijaggana
修 / 修復 / 修理 / 修補 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 管理 / 脩 / 關心 / 關照 /
परिचरण
paricaraṇa
परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威严 / 尊 ^严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

照片
zhàopiàn
चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 颜料 /

照看
zhàokàn
आरक्खा
ārakkhā
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看守 / 看護 / 關心 / 關照 /
गोपन
gopana
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 注意 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 關心 / 關照 /
पटिजग्गन
paṭijaggana
修 / 修復 / 修理 / 修補 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 管理 / 脩 / 關心 / 關照 /
परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威严 / 尊 ^严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

煮出的汁
zhǔ chū de zhī
कसाय
kasāya

煮沸
zhǔ fèi
निप्पक्क
nippakka
煮沸 / 煮沸的 /

煮沸的
zhǔ fèi de
निप्पक्क
nippakka
煮沸 / 煮沸的 / 煲
bào
उक्खलि
ukkhali
一壺 / 壺 / 壺 / 煲 / 缸 / 罐 / 鍋 / 锅 /
चाटि
cāti
一壺 / 壺 / 壺 / 煲 / 缸 / 罐 / 鍋 / 锅 /

熊
xióng
अच्छ
accha
包涵 / 承受 / 承擔 / 清澈的 / 熊 / 熊市 / 狗熊 / 結 / 结 /
इस्स
issa
包涵 / 承受 / 承擔 / 熊 / 熊市 / 狗熊 / 結 / 结 /

熊市
xióng shì
अच्छ
accha
包涵 / 承受 / 承擔 / 清澈的 / 熊 / 熊市 / 狗熊 / 結 / 结 /
इस्स
issa
包涵 / 承受 / 承擔 / 熊 / 熊市 / 狗熊 / 結 / 结 /

熏
xūn
गन्ध
gandha
味道 / 嗅觉 / 气味 / 氣味 / 熏 / 香 / 香水 / 香油 /
धूम
dhūma
冒煙 / 吸煙 / 火 / 烟 / 煙 / 煙霧 / 熏 / 熏 / 菸 /

熔矿炉
róng kuàng lú
उद्धन
uddhana
炉 / 炉子 / 炉灶 / 烤箱 / 熔矿炉 / 爐 /
熟悉
shú xī
परिचय
paricaya

熟悉的
shú xī de
पगुण
paguṇa

熨
yùn
अय
aya
定期收入 / 收 / 收入 / 收益 / 熨 / 熨斗 / 鐵 / 鐵頭 / 铁 /
काळायस
kālāyasa
熨 / 熨斗 / 鐵 / 鐵頭 / 铁 /
熨斗
yùn dòu
अय
aya
定期收入 / 收 / 收入 / 收益 / 熨 / 熨斗 / 鐵 / 鐵頭 / 铁 /
काळायस
kālāyasa
熨 / 熨斗 / 鐵 / 鐵頭 / 铁 /

熬夜
áo yè
जागरिय
jāgariya
熬夜 / 警戒 /

熬夜的人
áo yè de rén
उळम्प
uḷumpa
熬夜的人 / 猫头鹰 / 貓頭鷹 /
कोसिक
kosika
熬夜的人 / 猫头鹰 / 貓頭鷹 /

熬煎
áo jiān
असात
asāta
不愉快的 / 熬煎 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛苦 / 苦楚 / 苦痛 /

熱
rè
आताप
ātāpa
उण्ह
uṇha
加热 / 惹火 / 暑 / 火爆 / 火辣 / 烫 / 热 / 热气 / 热的 / 熱 / 熱氣 / 燙 / 辣 /
गिम्ह
gimha
घम्म
ghamma
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 霧 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 霧 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 榮 /
निदाघ
nidāgha
乾旱 / 夏 / 夏令 / 夏天 / 夏季 / 夏日 / 夏的 / 熱 / 避暑 /

熱愛
rè ài
अभिप्पसाद
abhippasāda
信心 / 熱愛 /
पुरेक्खार
purekkhāra
尊敬 / 熱愛 / 荣誉 /
पसीदन
pasīdana
पियायना
piyāyanā
性愛 / 恋 / 恋爱 / 情 / 愛 / 愛上 / 愛情 / 慈愛 / 戀 / 戀愛 / 摯愛 / 春 / 深愛 / 熱愛 / 爱 / 爱的 / 鐘情 /
भत्ति
bhatti
信仰 / 信奉 / 信念 / 執著 / 熱愛 /

熱氣
rè qì
उण्ह
uṇha
加热 / 惹火 / 暑 / 火爆 / 火辣 / 烫 / 热 / 热气 / 热的 / 熱 / 熱氣 / 燙 / 辣 /

熱病
rè bìng
जर
jara
估 / 发烧 / 古 / 古老 / 年老的 / 年近 / 旧 / 旧的 / 热病 / 熱病 / 發燒 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 / 衰老的 /

熏
xī
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熏 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 鐻 /

燃料
rán liào
इन्धन
indhana
木柴 / 柴 / 柴火 / 樵 / 燃料 / 燃油 /
उपादान
upādāna
抓的 / 燃料 / 燃油 / 附件 /
एध
edha
木柴 / 柴 / 柴火 / 樵 / 燃料 / 燃油 /

燃油
rán yóu
इन्धन
indhana
木柴 / 柴 / 柴火 / 樵 / 燃料 / 燃油 /
उपादान
upādāna
抓的 / 燃料 / 燃油 / 附件 /
एध
edha
木柴 / 柴 / 柴火 / 樵 / 燃料 / 燃油 /

燃燒
rán shāo
जलन
jalana
光亮 / 燃燒 /
झायन
jhāyana

燃起
rán qǐ
अग्गि
aggi
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /
अनल
anala
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /
गिनि
gini
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /

जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
पावक
pāvaka
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /

燈
dēng
अवभास
avabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 出現 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
आभा
ābhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
आलोक
āloka
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
दिति
ditti
亮光 / 光 / 光亮 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

दीप
dīpa
供養 / 助 / 協助 / 壁助 / 小島 / 島 / 島嶼 / 島 / 幫 / 帮助 / 帮忙 / 幫 / 幫助 / 幫忙 / 扶 / 扶助 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 救助 / 救命 / 救援 / 有助 / 洲 / 燈 /
निभा
nibha
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पज्जोत
pajjota
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पदीप
padīpa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पभा
pabhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पभास
pabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

भा
bhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

भानु
bhānu
亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /

燈光
dēng guāng

अवभास
avabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 出現 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

आभा
ābhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

आलोक
āloka
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燈 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /

दित्ति
ditti
亮光 / 光 / 光亮 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

निभा
nibhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पज्जोत
pajjota
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पदीप
padīpa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पभा
pabhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पभास
pabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

भा
bhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

भानु
bhānu
亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /

燒
shāo
अनुडहन
anuḍahana

आलिम्पन
ālimpana

燙
tàng
उण्ह
uṇha
加热 / 惹火 / 暑 / 火爆 / 火辣 / 燙 / 热 / 热气 / 热的 / 熱 / 熱氣 / 燙 / 辣 /

營
yíng
खन्धावार
khandhāvāra
安营 / 營 / 砦 / 营 / 陣營 / 集中營 / 露營 /

燧
sui
अग्गि
aggi
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /

अनल
anala
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /

गिनि
gini
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /

जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燈 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /

पावक
pāvaka
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /

धूम
dhūma
冒煙 / 吸煙 / 火 / 烟 / 煙 / 煙霧 / 熏 / 燻 / 菸 /

爐
xūn
धूम
dhūma
冒煙 / 吸煙 / 火 / 烟 / 煙 / 煙霧 / 熏 / 燻 / 菸 /

爐
lú
उद्धन
uddhana
炉 / 炉子 / 炉灶 / 烤箱 / 熔矿炉 / 爐 /

爇
jué
उक्का
ukkā
喷灯 / 流星 / 火把 / 火炬 / 炬 / 爇 / 隕石 / 隕星 /

爪
zhuǎ
नख
nakha
指甲 / 指甲剪 / 爪 / 爪 / 釘 / 釘子 / 釘 /

नख
nakha
指甲 / 指甲剪 / 爪 / 爪 / 釘 / 釘子 / 釘 /

爬行的
pá xíng de
अपाद
apāda
अपादक
apādaka

爭吵
zhēng chǎo
कलह
kalaha
争执 / 爭端 / 争议 / 争论 / 吵 / 吵架 / 拌嘴 / 爭吵 / 爭執 / 爭論 / 磕 / 糾紛 /

爭執
zhēng zhí
कलह
kalaha
争执 / 爭端 / 争议 / 争论 / 吵 / 吵架 / 拌嘴 / 爭吵 / 爭執 / 爭論 / 磕 / 糾紛 /

爭論
zhēng lùn
कलह
kalaha
争执 / 爭端 / 争议 / 争论 / 吵 / 吵架 / 拌嘴 / 爭吵 / 爭執 / 爭論 / 磕 / 糾紛 /

愛
ài
पेम
pema
恋爱 / 感情 / 春 / 爱 /

पियायना
piyāyana
性愛 / 恋 / 恋爱 / 情 / 愛 / 愛上 / 愛情 / 慈愛 / 戀 / 戀愛 / 摯愛 / 春 / 深愛 / 熱愛 / 爱 / 爱的 / 鐘情 /

父
fù
जनक
janaka
公公 / 天父 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

तात
tāta
儿子 / 兒子 / 公公 / 公子 / 天父 / 女婿 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

愛人
ài rén
अङ्गना
aṅganā
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 婦人 / 婦女 / 爱人 /

कन्ता
kantā
伉 / 太太 / 夫人 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘子 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 老婆 /

कलत्त
kalatta
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /

जानि
jāni
伉 / 剥奪 / 剥夺 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 损失 / 損失 / 爱人 / 老婆 / 茫然 / 败 /

爱人
ài rén
अङ्गना
aṅganā
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 婦人 / 婦女 / 爱人 /

कन्ता
kantā
伉 / 太太 / 夫人 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘子 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 老婆 /

कलत्त
kalatta
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /

जानि
jāni
伉 / 剥奪 / 剥夺 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 损失 / 損失 / 爱人 / 老婆 / 茫然 / 败 /

जया
jāyā
伉 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /

श्री
shī
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 婦人 / 婦女 / 爱人 /

नारी
nāri
女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 娘 / 婦人 / 婦女 / 爱人 /

पिया
piyā
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /

भरिया
bhariyā
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /

पियायना
piyāyana
性愛 / 恋 / 恋爱 / 情 / 愛 / 愛上 / 愛情 / 慈愛 / 戀 / 戀愛 / 摯愛 / 春 / 深愛 / 熱愛 / 爱 / 爱的 / 鐘情 /

父
fù
जनक
janaka
公公 / 天父 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

तात
tāta
儿子 / 兒子 / 公公 / 公子 / 天父 / 女婿 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

जनक
janaka
公公 / 天父 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

तात
tāta
儿子 / 兒子 / 公公 / 公子 / 天父 / 女婿 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

父亲
fù qīn
जनक
janaka
公公 / 天父 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

तात
tāta
儿子 / 兒子 / 公公 / 公子 / 天父 / 女婿 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

父親
fù qīn
जनक
janaka
公公 / 天父 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

तात
tāta
儿子 / 兒子 / 公公 / 公子 / 天父 / 女婿 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

जनक
janaka
公公 / 天父 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

तात
tāta
儿子 / 兒子 / 公公 / 公子 / 天父 / 女婿 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

जनक
janaka
公公 / 天父 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

तात
tāta
儿子 / 兒子 / 公公 / 公子 / 天父 / 女婿 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

爸爸
bà bà
जनक
janaka
公公 / 天父 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

爸爸
bà bà
जनक
janaka
公公 / 天父 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

तात
tāta
儿子 / 兒子 / 公公 / 公子 / 天父 / 女婿 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

祖父
diē
जनक
janaka
公公 / 天父 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

तात
tāta
儿子 / 兒子 / 公公 / 公子 / 天父 / 女婿 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

爺
ye
जनक
janaka
公公 / 天父 / 岳父 / 椿 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /
तात
tāta
儿子 / 兒子 / 公公 / 公子 / 天父 / 女婿 / 岳父 / 椿 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

爽
shuǎng
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 竦 /

牆
qiáng
कुड़ड
kuḍḍa
围墙 / 垣 / 墙 / 墙壁 / 壁 / 牆 / 牆上 / 牆壁 /
भित्ति
bhitti
围墙 / 垣 / 墙 / 墙壁 / 壁 / 牆 / 牆上 / 牆壁 /

牆上
qiáng shàng
कुड़ड
kuḍḍa
围墙 / 垣 / 墙 / 墙壁 / 壁 / 牆 / 牆上 / 牆壁 /
भित्ति
bhitti
围墙 / 垣 / 墙 / 墙壁 / 壁 / 牆 / 牆上 / 牆壁 /

牆壁
qiáng bì
कुड़ड
kuḍḍa
围墙 / 垣 / 墙 / 墙壁 / 壁 / 牆 / 牆上 / 牆壁 /
भित्ति
bhitti
围墙 / 垣 / 墙 / 墙壁 / 壁 / 牆 / 牆上 / 牆壁 /

片
piàn
पट्ट
patta
叶 / 平板 / 床单 / 片 / 箔 / 綳带 / 綳带 / 羽毛 / 葉 / 葉子 / 薄片 / 页 /
पल्ल
patta
叶 / 床单 / 毛片 / 片 / 箔 / 羽 / 羽毛 / 翅膀 / 葉 / 葉子 / 页 /

片刻
piàn kè
खण
khaṇa
一刻 / 分 / 分鐘 / 分钟 / 时刻 / 时机 / 時刻 / 時機 / 會兒 / 机会 / 機會 / 片刻 / 瞬間 / 瞬間 / 關頭 /

片子
piàn zi
पटल
paṭala
信封 / 封套 / 封袋 / 影片 / 片子 / 电影 / 膜 / 膠片 / 蓋子 / 薄膜 / 软片 /

牙
yá
दन्त
danta
尖牙 / 牙 / 牙齒 / 牙齿 / 觥 / 芳 / 齒 / 齿 /
दिवज
dvija
牙 / 牙齒 / 牙齿 / 雀 / 鳥 / 鸟 / 齒 / 齿 /
दसन
dasana
牙 / 牙齒 / 牙齿 / 齒 / 齿 /

牙齒
yá chǐ
दन्त
danta
尖牙 / 牙 / 牙齒 / 牙齿 / 觥 / 芳 / 齒 / 齿 /
दिवज
dvija
牙 / 牙齒 / 牙齿 / 雀 / 鳥 / 鸟 / 齒 / 齿 /
दसन
dasana
牙 / 牙齒 / 牙齿 / 齒 / 齿 /

牙齒
yá chǐ
दन्त
danta
尖牙 / 牙 / 牙齒 / 牙齿 / 觥 / 芳 / 齒 / 齿 /
दिवज
dvija
牙 / 牙齒 / 牙齿 / 雀 / 鳥 / 鸟 / 齒 / 齿 /
दसन
dasana
牙 / 牙齒 / 牙齿 / 齒 / 齿 /

牛
niú
गावी
gāví
母牛 / 牛 / 牯 /
गावो
gāvo
家畜 / 牛 /
गो
go
公牛 / 家畜 / 牛 /
धेनु
dhenu
母牛 / 牛 / 牯 /

牛奶
niú nǎi
खीर
khīra
乳 / 乳汁 / 吸奶 / 奶 / 牛奶 /
दुध
duddha
乳 / 乳汁 / 奶 / 牛奶 /
पय
paya
乳 / 乳汁 / 奶 / 牛奶 /

牡
mǔ
पुम
puma
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男的 / 雄 / 雄性 / 雄的 /
पुरिस
purisa
人 / 人士 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男性的 / 男的 / 者 / 雄 / 雄性 / 雄的 /

牢
láo
कारा
kāra
入獄 / 囚室 / 囹 / 大牢 / 拘留所 / 牢 / 牢獄 / 犴 / 獄 / 獄 / 班房 / 监狱 / 監 / 監牢 / 監獄 / 監禁 / 關押 /
चारक
cāraka
囚室 / 囹 / 牢 / 牢獄 / 獄 / 獄 / 监狱 / 監 / 監牢 / 監獄 /
थिर
thira
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 快 / 恆久 / 持久 / 有耐久力 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 持久的 / 迅 / 迅速 / 速 / 遽 /
दव्ह
dalha
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 穩 / 精力充沛的 /

牢固
láo gù
थिर
thira
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 快 / 恆久 / 持久 / 有耐久力 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 持久的 / 迅 / 迅速 / 速 / 遽 /
दव्ह
dalha
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 穩 / 精力充沛的 /

牢狱
láo yù
कारा
kāra
入獄 / 囚室 / 囹 / 大牢 / 拘留所 / 牢 / 牢獄 / 犴 / 獄 / 獄 / 班房 / 监狱 / 監 / 監牢 / 監獄 / 監禁 / 關押 /
चारक
cāraka
囚室 / 囹 / 牢 / 牢獄 / 獄 / 獄 / 监狱 / 監 / 監牢 / 監獄 /

牧场
mù chǎng
गोचर
gocara
物
wù
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 諦 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /

物主
wù zhǔ
इस्सर
issara
主 / 主人 / 创造者 / 大師 / 好手 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 統治者 / 老爺 / 造物主 / 領主 /
पति
pati
丈夫 / 丈夫 / 主 / 主人 / 伉 / 回 / 外子 / 大師 / 夫 / 夫 / 好手 / 婿 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 相反 / 統治者 / 老公 / 老爺 / 逆 / 領主 /

物件
wù jiàn
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 諦 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /

物質
wù zhì
दव्व
dabba
事件 / 实体 / 實質 / 有道 / 木料 / 木材 / 材 / 材料 / 森林 / 物質 / 物质 / 纺织品 / 財富 / 财富 /
पुव्व
pubba
先前的 / 物質 / 脓 / 膿 /

物质
wù zhì
आमिस
āmisa
利益 / 材 / 材料 / 材質 / 物质 / 物质的 / 素材 / 肉 / 肉體 / 血肉 / 誘餌 / 诱惑 / 食 / 食品 / 食物 / 餌 / 饭 / 餌 /
दव्व
dabba
事件 / 实体 / 實質 / 有道 / 木料 / 木材 / 材 / 材料 / 森林 / 物質 / 物质 / 纺织品 / 財富 / 财富 /

物质的
wù zhì de
आमिस
āmisa
利益 / 材 / 材料 / 材質 / 物质 / 物质的 / 素材 / 肉 / 肉體 / 血肉 / 誘餌 / 诱惑 / 食 / 食品 / 食物 / 餌 / 饭 / 餌 /
牯
gǔ
गावी
gāví
母牛 / 牛 / 牯 /
धेनु
dhenu
母牛 / 牛 / 牯 /

特使
tè shǐ
दूत
dūta
使者 / 信使 / 信差 / 信差 / 特使 /
特別
tè bié
आवेणिक
āveṇika
例外的 / 特別 /

特務
tè wu
अवचरक
avacaraka
刺探 / 密探 / 特務 / 狙 / 耳目 / 諜 / 諜 / 間諜 / 间谍 /

特大
tè dà
इन्द
inda
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 / 統治者 /
जनाधिप
janādhipa
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 /
जनिन्द
janinda
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 /
देव
deva
一群 / 上帝 / 君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 天 / 天界 / 天空 / 特大 / 王 / 神 / 雲霄 /
पत्थिव
patthiva
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 /
特徵
tè zhǐ
अङ्क
aṅka
印子 / 标 / 標 / 標記 / 特徵 / 痕 / 記號 / 馬克 / 马克 /
特派
tè pài
पहिणन
pahiṇana
发送 / 派遣 / 特派 / 遣 /
特赦
tè shè
खन्ति
khanti
宽容 / 宽恕 / 希望 / 忍耐 / 特赦 / 耐力 / 耐心 / 耐性 / 赦免 / 饒恕 /
犀利
xī lì
कटुक
kaṭuka
尖锐 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 激烈 / 犀利 / 痛苦的 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
खर
khara
仓 / 使勁 / 固 / 尖锐 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 痛苦的 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
तिण्ह
tiṅha
尖锐 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
तिप्प
tippa
刺骨的 / 尖锐 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 急性 / 犀利 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
犁
lí
नङ्गल
naṅgala
犁 / 耒 / 耕 / 耜 /

犬
quǎn
कुक्कुर
kukkura
尾隨 / 犬 / 犬类 / 狗 / 狗一樣 / 狗肉 / 賽狗 /
犬吠
quǎn fèi
तच
taca
削皮 / 剥 / 剥 / 吠 / 壳 / 壳 / 树皮 / 犬吠 / 皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 肌膚 / 肤 /
犬类
quǎn lèi
कुक्कुर
kukkura
尾隨 / 犬 / 犬类 / 狗 / 狗一樣 / 狗肉 / 賽狗 /
犯
fàn
कलुस
kalusa
不道德 / 犯 /
犯案
fàn àn
अपराध
aparādha
犯案 / 犯罪 / 犯罪率 / 罪行 / 罪過 / 辜 /
किब्बि
kibbisa
犯案 / 犯罪 / 犯罪率 / 罪行 / 罪過 / 辜 /
犯罪
fàn zuì
अपराध
aparādha
犯案 / 犯罪 / 犯罪率 / 罪行 / 罪過 / 辜 /
किब्बि
kibbisa
犯案 / 犯罪 / 犯罪率 / 罪行 / 罪過 / 辜 /
दुस्सन
dussana
忿怒 / 犯罪 /
犯罪率
fàn zuì lǜ
अपराध
aparādha
犯案 / 犯罪 / 犯罪率 / 罪行 / 罪過 / 辜 /
किब्बि
kibbisa
犯案 / 犯罪 / 犯罪率 / 罪行 / 罪過 / 辜 /
犯罪的
fàn zuì de
अपराधी
aparādhī
刑事 / 犯罪的 / 罪犯 /

犴
àn
कारा
kārā
入獄 / 囚室 / 囹 / 大牢 / 拘留所 / 牢 / 牢獄 / 犴 / 獄 / 班房 / 監獄 / 監 / 監牢 / 監獄 / 監禁 / 關押 /
状态
zhuàng tài
भाव
bhāva
况 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性质 / 情况 / 本性 / 本質 / 本质 / 條件 / 况 / 状态 / 自然 / 自然界 /
狀態
zhuàng tài
कम
kama
一步 / 命令 / 序 / 措施 / 方式 / 方法 / 模式 / 步 / 步子 / 步驟 / 狀態 / 脚步 / 舉止 / 訓令 / 進程 / 陔 / 順序 / 顺序 /
狗
gǒu
कुक्कुर
kukkura
尾隨 / 犬 / 犬类 / 狗 / 狗一樣 / 狗肉 / 賽狗 /
狗一樣
gǒu yī yàng
कुक्कुर
kukkura
尾隨 / 犬 / 犬类 / 狗 / 狗一樣 / 狗肉 / 賽狗 /
狗熊
gǒu xióng
अच्छ
accha
包涵 / 承受 / 承擔 / 清澈的 / 熊 / 熊市 / 狗熊 / 結 / 结 /
इस्स
issa
包涵 / 承受 / 承擔 / 熊 / 熊市 / 狗熊 / 結 / 结 /
狗肉
gǒu ròu
कुक्कुर
kukkura
尾隨 / 犬 / 犬类 / 狗 / 狗一樣 / 狗肉 / 賽狗 /
狙
jū
अवचरक
avacaraka
刺探 / 密探 / 特務 / 狙 / 耳目 / 謀 / 謀 / 間諜 / 间谍 /
狼
hěn
अति
ati
不勝 / 不胜 / 十分 / 大 / 太 / 很 / 狠 / 甚 / 甚 / 都很 / 非常 /

独
dú
एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /
独身
dú shēn
एकक
ekaka
仃 / 单 / 单一 / 单一的 / 单身的 / 唯 / 唯一 / 孤 / 孤單 / 孤零零 / 独身 / 獨居 / 莛 /
獅
shī
केसरी
kesarī
獅 / 獅子 / 獅子座 / 獅 / 獅子 /
獅子
shī zi
केसरी
kesarī
獅 / 獅子 / 獅子座 / 獅 / 獅子 /
獅子座
shī zi zuò
केसरी
kesarī
獅 / 獅子 / 獅子座 / 獅 / 獅子 /
獄
yù
कारा
kārā
入獄 / 囚室 / 囹 / 大牢 / 拘留所 / 牢 / 牢獄 / 犴 / 獄 / 班房 / 監獄 / 監 / 監牢 / 監獄 / 監禁 / 關押 /
चारक
cāraka
囚室 / 囹 / 牢 / 牢獄 / 獄 / 獄 / 監獄 / 監 / 監牢 / 監獄 /
狼
láng
कोक
koka
猎人
liè rén
नेसाद
nesāda
猎人 / 獵人 /
猛打
měng dǎ
आसेवना
āsevanā
猛打 / 練習 / 追击 / 追求 /
猜測
cāi cè
आदेसना
ādesanā
आदिसना
ādisanā

猩
xīng
कपि
kapi
猩 / 猴 / 猴子 / 猿 / 猿猴 /
猫
māo
बब्बु
babbu
猫 / 貓 /
बब्बुक
babbuka
猫 / 貓 /
बिळार
bīlāra
猫 / 貓 /
मज्जार
majjāra
猫 / 貓 /
猫头鹰
māo tóu yīng
उळम्प
uḷumpa
熬夜的人 / 猫头鹰 / 貓頭鷹 /
कोसिक
kosika
熬夜的人 / 猫头鹰 / 貓頭鷹 /
猴
hóu
कपि
kapi
猩 / 猴 / 猴子 / 猿 / 猿猴 /
प्लवङ्गम
plavaṅgama
猴 / 猴子 /
मक्कट
makkāṭa
猴 / 猴子 /
猴子
hóu zi
कपि
kapi
猩 / 猴 / 猴子 / 猿 / 猿猴 /
प्लवङ्गम
plavaṅgama
猴 / 猴子 /
मक्कट
makkāṭa
猴 / 猴子 /
猶如
yóu rú
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

猶豫
yóu yù
परिसम्पना
parisappanā
懷疑 / 猶豫 / 發抖 /

猿
yuán
कपि
kapi
猩 / 猴 / 猴子 / 猿 / 猿猴 /

猿猴
yuán hóu
कपि
kapi
猩 / 猴 / 猴子 / 猿 / 猿猴 /

獸
dāi
ठान
thāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 獸 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /

獄
yù
कारा
kārā
入獄 / 囚室 / 囹 / 大牢 / 拘留所 / 牢 / 牢獄 / 犴 / 獄 / 班房 / 監獄 / 監 / 監牢 / 監獄 / 監禁 / 關押 /
चारक
cāraka
囚室 / 囹 / 牢 / 牢獄 / 獄 / 獄 / 監獄 / 監 / 監牢 / 監獄 /

獅
shī
केसरी
kesarī
獅 / 獅子 / 獅子座 / 獅 / 獅子 /

獅子
shī zi
केसरी
kesarī
獅 / 獅子 / 獅子座 / 獅 / 獅子 /

獎杯
jiǎng bēi
कोसक
kosaka
一杯 / 一杯量 / 杯 / 杯子 / 獎杯 / 盃 / 盃 / 盃 / 茶杯 /

獨居
dú jū
एकक
ekaka
仃 / 单 / 单一 / 单一的 / 单身的 / 唯 / 唯一 / 孤 / 孤單 / 孤零零 / 独身 / 獨居 / 莖 /

獨生女
dú shēng nǚ
तनुजा
tanujā
千金 / 女儿 / 女兒 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 /
दुहितु
duhitu
千金 / 女儿 / 女兒 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 /
धितु
dhītu
千金 / 女儿 / 女兒 / 女婿 / 女孩儿 / 媳 / 獨生女 /

獲利
huò lì
आनिसंस
ānisamsa
值得 / 值得 / 利 / 利潤 / 利潤 / 功 / 贏 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
आय
āya
利 / 利润 / 利潤 / 贏 / 定期收入 / 成果 / 收 / 收入 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
उपभोग
upabhoga
使用 / 利 / 利润 / 利潤 / 利用 / 可享受的 / 贏 / 收益 / 施用 / 潤 / 潤 / 獲利 / 用 / 用法 / 用途 / 盈利 / 获利 / 裨益 / 运用 / 運用 /

पत्ति
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利润 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到来 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /

獲得
huò de
गहण
gahaṇa
把握 / 抓 / 拿 / 獲得 / 萃 /
पत्तुं
pattum
到達 / 抵 / 獲得 / 达 / 達 / 達到 /

獵人
liè rén
नेसाद
nesāda
猎人 / 獵人 /

獸
shòu
तिरच्छान
tiracchāna
兽 / 动物 / 动物性 / 動物 / 獸 / 畜牲 / 畜生 / 野兽 /
पसु
pasu
兽 / 动物 / 獸 / 畜牲 / 畜生 / 野兽 /

獨居
dú jū
एकक
ekaka
仃 / 单 / 单一 / 单一的 / 单身的 / 唯 / 唯一 / 孤 / 孤單 / 孤零零 / 独身 / 獨居 / 莖 /

獨居
dú jū
एकक
ekaka
仃 / 单 / 单一 / 单一的 / 单身的 / 唯 / 唯一 / 孤 / 孤單 / 孤零零 / 独身 / 獨居 / 莖 /

玄
xuán
कण्ह
kaṇha
乌 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 恶 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 淄 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 / 黧 /
काळ
kāla
乌 / 冥 / 变黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 淄 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
काळक
kāḷaka
变黑 / 污点 / 污點 / 淄 / 玄 / 皂 / 黎 / 黑 / 黑的 / 黑色 / 黝 /

率直
lǜ zhí
अज्जव
ajjava
正直 / 率直 / 率直 / 誠實 /
अज्जव
ajjava
正直 / 率直 / 率直 / 誠實 /

उजु
uju
伸直 / 垂直的 / 正 / 正直 / 率直 / 率直 / 直 / 直接 / 直的 / 直行 / 直通 / 迪 /
उजु
uju
伸直 / 垂直的 / 正 / 正直 / 率直 / 率直 / 直 / 直接 / 直的 / 直行 / 直通 / 迪 /
उजुक
ujuka
伸直 / 垂直的 / 正 / 正直 / 率直 / 率直 / 直 / 直的 / 直行 / 直通 /

उजु
uju
伸直 / 垂直的 / 正 / 正直 / 率直 / 率直 / 直 / 直接 / 直的 / 直行 / 直通 / 迪 /
उजुक
ujuka
伸直 / 垂直的 / 正 / 正直 / 率直 / 率直 / 直 / 直的 / 直行 / 直通 /

王
wáng
इन्द
inda
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 / 統治者 /
जनाधिप
janādhipa
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 /

王
wáng
इन्द
inda
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 / 統治者 /
जनाधिप
janādhipa
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 /

王
wáng
इन्द
inda
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 / 統治者 /
जनाधिप
janādhipa
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 /

देव
deva
一群 / 上帝 / 君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 天 / 天界 / 天空 / 特大 / 王 / 神 / 雲霄 /
पत्थिव
patthiva
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 /

王冠
wáng guān
किरीट
kirīṭa
冕 / 冠 / 冠冕 / 加冕 / 王冠 / 王权 /
मकुट
makuṭa
冕 / 冠 / 冠冕 / 加冕 / 王冠 /

王权
wáng quán
किरीट
kirīṭa
冕 / 冠 / 冠冕 / 加冕 / 王冠 / 王权 /

玩
wán
कीळा
kīlā
好玩 / 玩 / 球 /
खिड्डा
khidḍā
奏 / 娛樂 / 嬉 / 戏 / 戲 / 打球 / 扮 / 抹 / 游戏 / 演 / 玩 / 玩兒 / 玩弄 / 玩耍 / 耍 / 踢球 /

玩偶
wán ǒu
धीतलिका
dhīṭalikā
娃娃 / 洋娃娃 / 玩偶 /

玩兒
wán r
खिड्डा
khidḍā
奏 / 娛樂 / 嬉 / 戏 / 戲 / 打球 / 扮 / 抹 / 游戏 / 演 / 玩 / 玩兒 / 玩弄 / 玩耍 / 耍 / 踢球 /

玩具
wán jù
कीळनक
kīḷanaka

玩弄
wán nòng
खिड्डा
khidḍā
奏 / 娛樂 / 嬉 / 戏 / 戲 / 打球 / 扮 / 抹 / 游戏 / 演 / 玩 / 玩兒 / 玩弄 / 玩耍 / 耍 / 踢球 /

玩弄男人
wán nòng nán rén
कुत्त
kutta

玩耍
wán shuǎ
खिड्डा
khidḍā
奏 / 娛樂 / 嬉 / 戏 / 戲 / 打球 / 扮 / 抹 / 游戏 / 演 / 玩 / 玩兒 / 玩弄 / 玩耍 / 耍 / 踢球 /

現
xiàn
अधुना
adhunā
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 最近 / 最近地 / 此刻 / 此時 / 現 / 现在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 / 而今 / 近來 / 近日 / 近来 /
इदानी
idāni
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 現 / 现在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /
एतरहि
etarahi
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 現 / 现在 / 現在 / 目前 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 現在 / 現在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

現在
xiàn zài
अधुना
adhunā
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 最近 / 最近地 / 此刻 / 此時 / 現 / 现在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 / 而今 / 近來 / 近日 / 近来 /

इदानी
idāni
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 現 / 现在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /

एतरहि
etarahi
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 現 / 现在 / 現在 / 目前 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /

तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 現在 / 現在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

现在还是
xiàn zài hái shì

तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
पन
pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /

现实

xiàn shí

तच्छ
taccha
事實 / 实 / 實 / 现实 / 真 / 真实的 / 真實 / 真正 / 真正的 /
तथ
tatha
事實 / 实 / 實 / 现实 / 真 / 真实的 / 真實 / 真正 / 真正的 /

玻
bō

काच
kāca
晶 / 杯 / 杯子 / 水晶 / 玻 / 玻璃 / 玻璃制品 / 玻璃杯 / 玻璃的 / 璃 / 表蒙子 /

玻璃
bō lí

काच
kāca
晶 / 杯 / 杯子 / 水晶 / 玻 / 玻璃 / 玻璃制品 / 玻璃杯 / 玻璃的 / 璃 / 表蒙子 /

玻璃制品
bō lí zhì pǐn

काच
kāca
晶 / 杯 / 杯子 / 水晶 / 玻 / 玻璃 / 玻璃制品 / 玻璃杯 / 玻璃的 / 璃 / 表蒙子 /

玻璃杯
bō lí bēi

काच
kāca
晶 / 杯 / 杯子 / 水晶 / 玻 / 玻璃 / 玻璃制品 / 玻璃杯 / 玻璃的 / 璃 / 表蒙子 /

玻璃的
bō lí de

काच
kāca
晶 / 杯 / 杯子 / 水晶 / 玻 / 玻璃 / 玻璃制品 / 玻璃杯 / 玻璃的 / 璃 / 表蒙子 /

珊
shān

पवाळ
pavāḷa
珊 / 珊瑚 / 珊瑚制玩具 / 瑚 / 芽 /

珊瑚
shān hú

पवाळ
pavāḷa
珊 / 珊瑚 / 珊瑚制玩具 / 瑚 / 芽 /

珊瑚制玩具
shān hú zhì wán jù

पवाळ
pavāḷa
珊 / 珊瑚 / 珊瑚制玩具 / 瑚 / 芽 /
班固
bān gù

निसेध
nisedha
取締 / 抑制 / 班固 / 禁 / 禁令 / 禁止 / 防范 / 預防 / 預防 /

班房
bān fáng

कारा
kāra
入獄 / 囚室 / 囹 / 大牢 / 拘留所 / 牢 / 牢獄 / 犴 / 獄 / 班房 / 監獄 / 監 / 監牢 / 監獄 / 監禁 / 關押 /

現在
xiàn zài

अधुना
adhunā
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 最近 / 最近地 / 此刻 / 此時 / 現 / 现在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 / 近來 / 近日 / 近来 /
इदानि
idāni
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 現 / 现在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /

एतरहि
etarahi
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 現 / 现在 / 現在 / 目前 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

球
qiú

आयतन
āyatana
位 / 位置 / 區域 / 地位 / 地位 / 局面 / 球 / 界 / 身份 / 身分 / 部位 /
कन्दुक
kanduka
कीळा
kīḷā
好玩 / 玩 / 球 /
गुळ
gulā
加糖 / 地球 / 地球 / 方糖 / 球 / 糖 / 糖蜜 /
घटिका
ghaṭikā

球门
qiú mén

अन्त
anta
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 结束 / 遑 / 頂端 /

निमित्त
nimitta
兆 / 兆头 / 先兆 / 前兆 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 徵兆 / 情理 / 故 / 标记 / 理 / 理由 / 由 / 緣故 / 迹象 / 道理 / 預兆 /

पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 部件 / 邮政 / 部位 /

理念
lǐ niàn

गाह
gāha
主意 / 念頭 / 思想 / 想法 / 意念 / 意見 / 捕獲 / 構想 / 理念 / 理想 / 表象 / 點子 /

理
lǐ

अत्थवस
atthavasa
使用 / 利用 / 动机 / 原因 / 因 / 情理 / 故 / 施用 / 理 / 理性 / 理由 / 用 / 用法 / 用途 / 由 / 緣故 / 运用 / 運用 / 道理 /
अपदेस
apadesa
动机 / 原因 / 因 / 声明 / 说明书 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 聲明 / 說法 / 说法 / 道理 / 陈述 / 陳述 /

कारण
kāraṇa
动机 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 道理 /

ठान
ṭhāna

任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 默 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /

निमित्त
nimitta
兆 / 兆头 / 先兆 / 前兆 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 徵兆 / 情理 / 故 / 标记 / 理 / 理由 / 由 / 緣故 / 迹象 / 道理 / 預兆 /

पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 部件 / 邮政 / 部位 /

理想
lǐ xiǎng

गाह
gāha
主意 / 念頭 / 思想 / 想法 / 意念 / 意見 / 捕獲 / 構想 / 理念 / 理想 / 表象 / 點子 /

理性
lǐ xìng

अत्थवस
atthavasa
使用 / 利用 / 动机 / 原因 / 因 / 情理 / 故 / 施用 / 理 / 理性 / 理由 / 用 / 用法 / 用途 / 由 / 緣故 / 运用 / 運用 / 道理 /
अपदेस
apadesa
动机 / 原因 / 因 / 声明 / 说明书 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 聲明 / 說法 / 说法 / 道理 / 陈述 / 陳述 /

कारण
kāraṇa
动机 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 道理 /

ठान
ṭhāna

任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 默 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /

पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 部件 / 邮政 / 部位 /

理想
lǐ xiǎng

गाह
gāha
主意 / 念頭 / 思想 / 想法 / 意念 / 意見 / 捕獲 / 構想 / 理念 / 理想 / 表象 / 點子 /

理智
lǐ zhì

पटिभाण
paṭibhāṇa
情報 / 情报 / 敏捷 / 智力 / 理智 / 窍 /
बु
buddhi
估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情報 / 情报 / 旄 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 窍 / 精神 / 老 / 老的 / 毫 / 舊 / 舊的 /

理由
lǐ yóu

अत्थवस
atthavasa
 <div>使用 / 利用 / 动机 / 原因 / 因 / 情理 / 故 / 施用 / 理 / 理性 / 理由 / 用 / 用法 / 用途 / 由 / 緣故 / 运用 / 運用 / 道理 /</div>
अपदेस
apadesa
 <div>动机 / 原因 / 因 / 声明 / 声明书 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 聲明 / 說法 / 说法 / 道理 / 陈述 / 陳述 /</div>
कारण
kāraṇa
 <div>动机 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 道理 /</div>
ठान
ṭhāna
 <div>任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 靡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 款 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /</div>
निदान
nidāna
 <div>事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 緣 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /</div>
निमित्त
nimitta
 <div>兆 / 兆头 / 先兆 / 前兆 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 徵兆 / 情理 / 故 / 标记 / 理 / 理由 / 由 / 緣故 / 迹象 / 道理 / 預兆 /</div>
पद
pada
 <div>一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 靡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 郵政 / 部位 /</div>

理解
lǐ jiě

अनुबु
anubujjhana
 <div>理解 / 觉醒 / 認識 / 諒解 / 认识 / 认识 / 醒悟 / 體諒 /</div>
अनुबोध
anubodha
 <div>深知 / 理解 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 體諒 /</div>
अवबोध
avabodha
 <div>深知 / 理解 / 理解力 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 體諒 /</div>
उपद्दान
upaṭṭhāna
 <div>役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 理解 / 等候 / 等候 / 維修 / 認識 / 諒解 / 认识 / 认识 / 體諒 /</div>
पटिवेध
paṭivedha
 <div>侵入 / 渗透 / 渗透 / 理解 /</div>

理解力
lǐ jiě lì

अवबोध
avabodha
 <div>深知 / 理解 / 理解力 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 體諒 /</div>

理論
lǐ lùn

दिद्धि
ditṭhi
 <div>信仰 / 信奉 / 信念 / 意見 / 理論 / 理论 / 論 / 论 /</div>

理论
lǐ lùn

दिद्धि
ditṭhi
 <div>信仰 / 信奉 / 信念 / 意見 / 理論 / 理论 / 論 / 论 /</div>
瑕
xiá

दोस
dosa
 <div>忿怒 / 怒 / 怒火 / 拂 / 愆 / 愤 / 愤怒 / 憤怒 / 毛病 / 瑕 / 膏 / 破綻 / 缺点 / 缺陷 / 缺點 / 腐敗 / 責備 / 蹉 / 過失 /</div>

瑚
hú

पवाळ
pavāḷa
 <div>珊瑚 / 珊瑚 / 珊瑚制玩具 / 瑚 / 芽 /</div>

瓊事
suǒ shì

बिन्दु
bindu
 <div>瓊事 / 點 /</div>

璀璨
cuǐ càn

दोसिना
dosinā
 <div>亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 鑄 /</div>
璃
lǐ

काच
kāca
 <div>晶 / 杯 / 杯子 / 水晶 / 玻 / 玻璃 / 玻璃制品 / 玻璃杯 / 玻璃的 / 璃 / 表蒙子 /</div>

環境
huán jìng

ठान
ṭhāna
 <div>任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 靡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 款 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /</div>
瓢
piáo

उदञ्चन
udañcana

瓣
bàn

दल
dala
 <div>叶 / 瓣 / 箔 / 花瓣 / 葉 / 葉子 / 页 /</div>
瓦片
wǎ piàn

इडुका
itṭhakā
 <div>平铺 / 瓦片 / 瓷磚 /</div>
इट्टिका
itṭhikā
 <div>平铺 / 瓦片 / 瓷磚 /</div>

瓦解
wǎ jiě

भङ्ग
bhaṅga
 <div>分解 / 瓦解 / 解散 /</div>
भिन्दन
bhindana

瓶
píng

नाळिका
nāḷikā
 <div>奶瓶 / 瓶 / 瓶子 / 管 / 管子 / 酒瓶 /</div>
瓶子
píng zi

नाळिका
nāḷikā
 <div>奶瓶 / 瓶 / 瓶子 / 管 / 管子 / 酒瓶 /</div>

瓷器
cí qì

चीनरट्ट
cīnaraṭṭha
 <div>中国 / 中國 / 中華 / 华 / 瓷器 / 華 /</div>
瓷磚
cí zhuān

इडुका
itṭhakā
 <div>平铺 / 瓦片 / 瓷磚 /</div>
इट्टिका
itṭhikā
 <div>平铺 / 瓦片 / 瓷磚 /</div>

甘蔗
gān zhè

उच्छु
ucchu

甚
shèn

अति
ati
 <div>不勝 / 不胜 / 十分 / 大 / 太 / 很 / 狠 / 甚 / 甚 / 都很 / 非常 /</div>
अति
ati
 <div>不勝 / 不胜 / 十分 / 大 / 太 / 很 / 狠 / 甚 / 甚 / 都很 / 非常 /</div>

甚至
shèn zhì

अद्धा
addhā
 <div>一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /</div>
अद्धा
addhā
 <div>一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /</div>
अपि
api
 <div>与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 既使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /</div>
अपि
api
 <div>与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 既使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /</div>

甜食
tián shí

खадनीय
khādaniya
 <div>甜食 / 糖果 /</div>

生
shēng

उपपत्ति
upapatti
 <div>再生 / 生 /</div>
चरित
carita
 <div>世 / 人命 / 人生 / 個性 / 命 / 品行 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /</div>
जीव
jīva
 <div>世 / 人命 / 人生 / 命 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /</div>
पाण
pāṇa
 <div>一口气 / 一口氣 / 世 / 人命 / 人生 / 呼吸 / 命 / 壽命 / 性命 / 息 / 氣息 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 生物 / 身 / 鼻息 / 鼻息 /</div>

生下
shēng xià

उप्पज्जन
uppajjana
 <div>出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 /</div>
उत्पाद
uppāda
 <div>上升 / 出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 血统 / 誕 / 诞 / 起源 /</div>
जाति
jāti
 <div>再生 / 出生 / 出身 / 国 / 国家 / 民族 / 生下 / 生出 / 种族 / 種族 / 誕 / 诞 / 賽跑 / 賽馬 /</div>

जायन
jāyana
 <div>出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 /</div>
निब्बत्तन
nibbattana
 <div>再生 / 出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 /</div>
पजायन
pajāyana
 <div>出生 / 出身 / 存在 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 /</div>

生人
shēng rén

अतिथि
atithi
 <div>住客 / 來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 探望者 / 旅游者 / 旅游者 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /</div>
अब्भागत
abbhāgata
 <div>來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /</div>

आगन्तुक
āgantuka
 <div>來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /</div>

生出
shēng chū
उप्पज्जन
uppajjana
出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 / उत्पाद
uppāda
上升 / 出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 血统 / 誕 / 诞 / 起源 /
जाति
jāti
再生 / 出生 / 出身 / 国 / 国家 / 民族 / 生下 / 生出 / 种族 / 種族 / 誕 / 诞 / 賽跑 / 賽馬 /
जायन
jāyana
出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 / निब्वत्तन
nibbattana
再生 / 出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 /
पजायन
pajāyana
出生 / 出身 / 存在 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 /

生命
shēng mìng
चरित
carita
世 / 人命 / 人生 / 個性 / 命 / 品行 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /
जीव
jīva
世 / 人命 / 人生 / 命 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /
पाण
pāṇa
一口气 / 一口气 / 世 / 人命 / 人生 / 呼吸 / 命 / 壽命 / 性命 / 息 / 氣息 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 生物 / 身 / 鼻息 / 鼻息 /

生存
shēng cún
अत्थिता
atthitā
存在 / 存在物 / 实存 / 生存 /
आजीव
ājīva
生存 / 生活 / 生計 / 生计 /
पवत्तन
pavattana
前進 / 執行 / 存在 / 存在物 / 实存 / 生存 /

生平
shēng píng
चरित
carita
世 / 人命 / 人生 / 個性 / 命 / 品行 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /
जीव
jīva
世 / 人命 / 人生 / 命 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /
पाण
pāṇa
一口气 / 一口气 / 世 / 人命 / 人生 / 呼吸 / 命 / 壽命 / 性命 / 息 / 氣息 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 生物 / 身 / 鼻息 / 鼻息 /

生成
shēng chéng
पजा
pajā
一代 / 世 / 世代 / 代 / 代人 / 子孫 / 孳 / 生成 / 辈 /
生殖者
shēng zhí zhě
उप्पादेतु
uppādetu

生活
shēng huó
आजीव
ājīva
生存 / 生活 / 生計 / 生计 /
चरित
carita
世 / 人命 / 人生 / 個性 / 命 / 品行 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /
चारी
cārī
演戲 / 演技 / 生活 /
जीव
jīva
世 / 人命 / 人生 / 命 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /
जीवन
jīvana
生活 / 生計 / 生计 /
पाण
pāṇa
一口气 / 一口气 / 世 / 人命 / 人生 / 呼吸 / 命 / 壽命 / 性命 / 息 / 氣息 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 生物 / 身 / 鼻息 / 鼻息 /
生涯
shēng yá
गति
gati
事業 / 去 / 命运 / 命運 / 涯 / 生涯 / 課程 /

生父
shēng fù
जनक
janaka
公公 / 天父 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /
तात
tāta
儿子 / 兒子 / 公公 / 公子 / 天父 / 女婿 / 岳父 / 樁 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

生物
shēng wù
जन्तु
jantu
人 / 生物 /
देही
dehī
पाण
pāṇa
一口气 / 一口气 / 世 / 人命 / 人生 / 呼吸 / 命 / 壽命 / 性命 / 息 / 氣息 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 生物 / 身 / 鼻息 / 鼻息 /
पाणी
pāṇī

生病
shēng bìng
आतुर
ātura
患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病弱 / 瘁 / 飮 /
आबाधिक
ābādhika
患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病人 / 病弱 / 瘁 / 飮 /
गिलान
gilāna
不舒服的 / 患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病人 / 病弱 / 病的 / 瘁 / 飮 /

生病的
shēng bìng de
आतुर
ātura
患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病弱 / 瘁 / 飮 /
आबाधिक
ābādhika
患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病人 / 病弱 / 瘁 / 飮 /
गिलान
gilāna
不舒服的 / 患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病人 / 病弱 / 病的 / 瘁 / 飮 /
दुक्खित
dukkhita
不快樂 / 不高興 / 使痛苦的 / 生病的 / 惹 /
दुक्खी
dukkhī

生的
shēng de
अद्द
adda
未熟的 / 生的 /
आम
āma
唯 / 是 / 是的 / 未成熟的 / 沒錯 / 沒錯 / 生的 /
आमक
āmaka
未成熟的 / 生的 /

生硬
shēng yìng
असिथिल
asithila
僵 / 僵硬 / 生硬 / 硬 / 硬的 /
उपत्थद्द
upatthaddha
僵 / 僵硬 / 生硬 / 硬 / 硬的 /
कठिन
kaṭhina
伧 / 使勁 / 僵 / 僵硬 / 僵硬的 / 生硬 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / थद्द
thaddha
使勁 / 僵 / 僵硬 / 強硬 / 強硬 / 強硬的 / 生硬 / 硬 / 硬朗 / 硬殼 / 硬的 / 艱苦 / 辛 / 辛苦 / 難纏 / 韧 /

生計
shēng jì
आजीव
ājīva
生存 / 生活 / 生計 / 生计 /
जीवन
jīvana
生活 / 生計 / 生计 /
जीविका
jīvikā
生計 / 生计 /
पोसावनिक
posāvanika

生計
shēng jì
आजीव
ājīva
生存 / 生活 / 生計 / 生计 /
जीवन
jīvana
生活 / 生計 / 生计 /
जीविका
jīvikā
生計 / 生计 /

生長
shēng zhǎng
अभिवद्दन्
abhivaḍḍhana
加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 生長 / 益 / 茁 /
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 漲 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /

甥
shēng
भागिनेय्य
bhāgineyya
侄 / 侄子 / 外甥 / 姪 / 甥 /

用
yòng
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 諦 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /

अत्थवस
atthavasa
使用 / 利用 / 动机 / 原因 / 因 / 情理 / 故 / 施用 / 理 / 理性 / 理由 / 用 / 用法 / 用途 / 由 / 緣故 / 运用 / 運用 / 道理 /
उपभोग
upabhoga
使用 / 利 / 利润 / 利潤 / 利用 / 可享受的 / 贏 / 收益 / 施用 / 潤 / 潤 / 獲利 / 用 / 用法 / 用途 / 盈利 / 获利 / 裨益 / 运用 / 運用 /
पयोजन
payojana
使用 / 利用 / 從事 / 施用 / 用 / 用法 / 用途 / 运用 / 運用 /
परिभोग
paribhoga
享受 / 使用 / 利用 / 愉快 / 施用 / 用 / 用法 / 用途 / 运用 / 運用 /

用人
yòng rén
पेत्सिक
pessika
仆 / 仆人 / 使者 / 信使 / 信差 / 信差 / 僕 / 公务员 / 厮 / 厮 / 用人 /

用功
yòng gōng
परक्कम
parakkama
用心
yòng xīn
चेत
ceta
宗旨 / 心意 / 意向 / 意图 / 意圖 / 旨趣 / 用心 / 用意 / 目的 /

用意
yòng yì
चेत
ceta
宗旨 / 心意 / 意向 / 意图 / 意圖 / 旨趣 / 用心 / 用意 / 目的 /

用法
yòng fǎ
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 谛 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /

अत्थवस
atthavasa
使用 / 利用 / 动机 / 原因 / 因 / 情理 / 故 / 施用 / 理 / 理性 / 理由 / 用 / 用法 / 用途 / 由 / 緣故 / 运用 / 運用 / 道理 /

उपभोग
upabhoga
使用 / 利 / 利润 / 利潤 / 利用 / 可享受的 / 贏 / 收益 / 施用 / 润 / 潤 / 獲利 / 用 / 用法 / 用途 / 盈利 / 获利 / 裨益 / 运用 / 運用 /

पयोजन
payojana
使用 / 利用 / 從事 / 施用 / 用 / 用法 / 用途 / 运用 / 運用 /
परिभोग
paribhoga
享受 / 使用 / 利用 / 愉快 / 施用 / 用 / 用法 / 用途 / 运用 / 運用 /

用途
yòng tú

अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 谛 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /

अत्थवस
atthavasa
使用 / 利用 / 动机 / 原因 / 因 / 情理 / 故 / 施用 / 理 / 理性 / 理由 / 用 / 用法 / 用途 / 由 / 緣故 / 运用 / 運用 / 道理 /

उपभोग
upabhoga
使用 / 利 / 利润 / 利潤 / 利用 / 可享受的 / 贏 / 收益 / 施用 / 润 / 潤 / 獲利 / 用 / 用法 / 用途 / 盈利 / 获利 / 裨益 / 运用 / 運用 /

पयोजन
payojana
使用 / 利用 / 從事 / 施用 / 用 / 用法 / 用途 / 运用 / 運用 /
परिभोग
paribhoga
享受 / 使用 / 利用 / 愉快 / 施用 / 用 / 用法 / 用途 / 运用 / 運用 /

田
tián
केदार
kedāra
地 / 地 / 场 / 場 / 實地 / 田 / 田地 / 田野 / 畝 / 耕地 / 野外 / 領域 / 領域 /

田地
tián dì
केदार
kedāra
地 / 地 / 场 / 場 / 實地 / 田 / 田地 / 田野 / 畝 / 耕地 / 野外 / 領域 / 领域 /

田野
tián yě

केदार
kedāra
地 / 地 / 场 / 場 / 實地 / 田 / 田地 / 田野 / 畝 / 耕地 / 野外 / 領域 / 领域 /

由
yóu
अत्थवस
atthavasa

使用 / 利用 / 动机 / 原因 / 因 / 情理 / 故 / 施用 / 理 / 理性 / 理由 / 用 / 用法 / 用途 / 由 / 緣故 / 运用 / 運用 / 道理 /

अपदेस
apadesa
动机 / 原因 / 因 / 声明 / 声明书 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 聲明 / 說法 / 说法 / 道理 / 陈述 / 陳述 /
कारण

kāraṇa
动机 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 道理 /
ठान
thāna

任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 欵 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /

निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /

निमित्त
nimitta
兆 / 兆头 / 先兆 / 前兆 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 徵兆 / 情理 / 故 / 标记 / 理 / 理由 / 由 / 緣故 / 迹象 / 道理 / 預兆 /

पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 郵政 / 部位 /

由於
yóu yú
पभुत्ति
pabhuti
以來 / 既然 / 由於 / 自 / 自從 / 自此 /

由来
yóu lái
उद्दान
uṭṭhāna
上升 / 业 / 來歷 / 出身 / 原点 / 始源 / 工業 / 本源 / 来历 / 根源 / 業 / 活力 / 由来 / 精力 / 能源 / 能量 / 血统 / 行業 / 起源 / 高能 /
उप्पत्ति
uppatti
來歷 / 再生 / 出身 / 原点 / 始源 / 本源 / 来历 / 根源 / 由来 / 血统 / 起源 /
पभव
pabhava
來歷 / 來源 / 出处 / 出身 / 原点 / 始源 / 开始 / 朔 / 本源 / 来历 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 由来 / 血统 / 起源 /

由此
yóu cǐ
इत्थं
ittham
因此 / 因而 / 如此 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 /
इति
iti
因此 / 因而 / 如此 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 /
एवं
evaṃ
唯 / 因此 / 因而 / 如此 / 是 / 是的 / 沒錯 / 没错 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 /
तथा
tathā
以致 / 因此 / 因而 / 如此 / 所以 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 / 這麼 /

申請
shēn qǐng
अभिनिरोपन
abhiniropana
應用 / 施用 / 申請 / 申請書 / 運用 /
आयाचना
āyācanā
應用 / 求 / 申請 / 申請書 / 請求 / 请求 /
उपयोग
upayoga
受雇 / 應用 / 申請 / 申請書 / 連接 / 雇用 /

申請書
shēn qǐng shū
अभिनिरोपन
abhiniropana
應用 / 施用 / 申請 / 申請書 / 運用 /
आयाचना
āyācanā
應用 / 求 / 申請 / 申請書 / 請求 / 请求 /
उपयोग
upayoga
受雇 / 應用 / 申請 / 申請書 / 連接 / 雇用 /

电影
diàn yǐng
पटल
paṭala
信封 / 封套 / 封袋 / 影片 / 片子 / 电影 / 膜 / 膠片 / 蓋子 / 薄膜 / 软片 /

男
nán
पुम
puma
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男的 / 雄 / 雄性 / 雄的 /
पुरिस
purisa
人 / 人士 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男性的 / 男的 / 者 / 雄 / 雄性 / 雄的 /

男人
nán rén
जन
jana
人 / 人中 / 人们 / 人們 / 人士 / 人心 / 人民 / 夫 / 夫 / 子民 / 成年男子 / 曼 / 民 / 民眾 / 氓 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 眾人 / 者 / 萌 /

दिपद
dipada
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 男人 / 男子 / 男子漢 /
पुम
puma
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男的 / 雄 / 雄性 / 雄的 /

पुरिस
purisa
人 / 人士 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男性的 / 男的 / 者 / 雄 / 雄性 / 雄的 /
पोस
posa
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 男人 / 男子 / 男子漢 /
मच्च

macca
人 / 会死 / 凡人 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 會死 / 男人 / 男子 / 男子漢 /

男子
nán zi

जन
jana
人 / 人中 / 人们 / 人們 / 人士 / 人心 / 人民 / 夫 / 夫 / 子民 / 成年男子 / 曼 / 民 / 民眾 / 氓 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 眾人 / 者 / 萌 /
दिपद
dipada
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 男人 / 男子 / 男子漢 /
पुम
puma
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男的 / 雄 / 雄性 / 雄的 /
पुरिस
purisa
人 / 人士 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男性的 / 男的 / 者 / 雄 / 雄性 / 雄的 /
पोस
posa
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 男人 / 男子 / 男子漢 /
मच्च
macca
人 / 会死 / 凡人 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 會死 / 男人 / 男子 / 男子漢 /

男子漢

男子漢
nán zi hàn

जन
jana
人 / 人中 / 人们 / 人們 / 人士 / 人心 / 人民 / 夫 / 夫 / 子民 / 成年男子 / 曼 / 民 / 民眾 / 氓 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 眾人 / 者 / 萌 /
दिपद
dipada
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 男人 / 男子 / 男子漢 /
पुम
puma
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男的 / 雄 / 雄性 / 雄的 /
पुरिस
purisa
人 / 人士 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男性的 / 男的 / 者 / 雄 / 雄性 / 雄的 /
पोस
posa
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 男人 / 男子 / 男子漢 /
मच्च
macca
人 / 会死 / 凡人 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 會死 / 男人 / 男子 / 男子漢 /

男孩
nán hái

कुमार
kumāra
僮 / 好孩子 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
कुमारक
kumāraka
僮 / 好孩子 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
दहर
dahara
僮 / 好孩子 / 少年 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
दारक
dāraka
僮 / 好孩子 / 小孩 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /

男孩儿

नán hái ér

कुमार
kumāra
僮 / 好孩子 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
कुमारक
kumāraka
僮 / 好孩子 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
दहर
dahara
僮 / 好孩子 / 少年 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
दारक
dāraka
僮 / 好孩子 / 小孩 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /

男孩子

नán hái zi

कुमार
kumāra
僮 / 好孩子 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
कुमारक
kumāraka
僮 / 好孩子 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
दहर
dahara
僮 / 好孩子 / 少年 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
दारक
dāraka
僮 / 好孩子 / 小孩 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /

男性

nán xìng

पुम
puma
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男的 / 雄 / 雄性 / 雄的 /
पुरिस
purisa
人 / 人士 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男性的 / 男的 / 者 / 雄 / 雄性 / 雄的 /

男性的
nán xìng de

पुरिस
purisa
人 / 人士 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男性的 / 男的 / 者 / 雄 / 雄性 / 雄的 /
男的
nán de

पुम
puma
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男的 / 雄 / 雄性 / 雄的 /
पुरिस
purisa
人 / 人士 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男性的 / 男的 / 者 / 雄 / 雄性 / 雄的 /

画

huà

चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 顔料 /
畷
fàn

केदार
kedāra
地 / 地 / 场 / 場 / 實地 / 田 / 田地 / 田野 / 畷 / 耕地 / 野外 / 領域 / 領域 /

界

jiè

आयतन
āyatana
位 / 位置 / 區域 / 地位 / 地位 / 局面 / 球 / 界 / 身份 / 身分 / 部位 /
界限
jiè xiàn

अवधि
avadhi
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 微 / 极限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
ओधि
odhi
圻 / 垓 / 埏 / 局限 / 微 / 极限 / 極限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिच्छेद
pariccheda

圻 / 垓 / 埏 / 境 / 度量 / 微 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /

畏
wèi

आसङ्का
āsaukā
怀疑 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 悻 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /
उत्तास
uttāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 悻 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
तास
tāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 悻 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 發抖 / 虞 /
पटिभय
paṭibhaya
害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 悻 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
भय
bhaya
可怕的 / 害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐怖的 / 恐惧 / 恐懼 / 悻 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 / 非常害怕 /

畏懼

wèi jù

आसङ्का
āsaukā
怀疑 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 恐懼 / 悻 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
उत्तास
uttāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 悻 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
तास
tāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 悻 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 發抖 / 虞 /
पटिभय
paṭibhaya
害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 悻 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
भय
bhaya
可怕的 / 害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐怖的 / 恐惧 / 恐懼 / 悻 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 / 非常害怕 /

留

liú

ठान
ṭhāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到 ^位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 靡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 默 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /

留下
liú xià

ठान
ṭhāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到 ^位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 靡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 默 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
निवृत्तन
nivattana
中斷 / 折回 / 留下 /

留心

liú xīn

आरक्खा
ārakkhā
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看守 / 看護 / 關心 / 關照 /
गोपन
gopana
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 注意 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 關心 / 關照 /
पटिजगन
paṭijaggana
修 / 修復 / 修理 / 修補 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 管理 / 脩 / 關心 / 關照 /

पटिसङ्खान
paṭisaṅkhāna
परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威 ^严 / 尊 ^严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

留心的

liú xīn de

पतिस्सत
patissata
深思的 / 留心的 /

留神

liú shén

अविप्पवास
avippavāsa
注意 / 注意力 / 注目 / 留神 / 關注 /
परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威 ^严 / 尊 ^严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

眵
zhěn
अवधि
avadhi
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 徼 / 极限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
ओधि
odhi
圻 / 垓 / 埏 / 局限 / 徼 / 极限 / 極限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिच्छेद
pariccheda
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 度量 / 徼 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告终 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 涓 / 眵 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 迨 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

畜牲
chù shēng
तिरच्छान
tiracchāna
兽 / 动物 / 动物性 / 動物 / 獸 / 畜牲 / 畜生 / 野兽 /
पसु
pasu
兽 / 动物 / 獸 / 畜牲 / 畜生 / 野兽 /

畜生
chù shēng
तिरच्छान
tiracchāna
兽 / 动物 / 动物性 / 動物 / 獸 / 畜牲 / 畜生 / 野兽 /
पसु
pasu
兽 / 动物 / 獸 / 畜牲 / 畜生 / 野兽 /

पटिकखेप
paṭikkhepa
不存在 / 反对 / 否定 / 异议 / 拒绝 / 異議 /

當中
dāng zhōng
अन्तरे
antare
之間 / 介 / 其中 / 当中 / 當中 / 芸芸 / 間 / 间 /

當事人
dāng shì rén
पक्ख
pakkha
一方 / 側 / 信徒 / 側 / 党 / 半邊 / 幫派 / 旁边 / 旁邊 / 派 / 派對 / 派系 / 當事人 / 羽翼 / 翅 / 翅膀 / 翼 / 跛子 / 边 / 黨 /

畢
bì
अनून
anūna
全部 / 完全 / 完全的 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 通通 /
अनूनक
anūnaka
全部 / 完全 / 完全的 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 通通 /
अनवसेस
anavasesa
全部 / 完 / 完全 / 完全地 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 竣 / 通通 /
पुण्ण
puṇṇa
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /
परिपूर
paripūra
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /

番
fān
बाहिर
bāhira
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外国的 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 洋 / 番 / 窗外 / 門外 /

畫
huà
चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 顏料 /

異議
yì yì
पटिकखेप
paṭikkhepa
不存在 / 反对 / 否定 / 异议 / 拒绝 / 異議 /

當中
dāng zhōng
अन्तरे
antare
之間 / 介 / 其中 / 当中 / 當中 / 芸芸 / 間 / 间 /

當事人
dāng shì rén
पक्ख
pakkha
一方 / 側 / 信徒 / 側 / 党 / 半邊 / 幫派 / 旁边 / 旁邊 / 派 / 派對 / 派系 / 當事人 / 羽翼 / 翅 / 翅膀 / 翼 / 跛子 / 边 / 黨 /

當作
dāng zuò
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

當做
dāng zuò
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

當年
dāng nián
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथो
atho
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

當時
dāng shí de
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथो
atho
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 现 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

當成
dāng chéng
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

當日
dāng rì
अण्ह
anha
全天 / 天 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
दिन
dina
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
दिवस
divasa
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /

當時
dāng shí
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथो
atho
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 现 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

當時的
dāng shí de
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथो
atho
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 现 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

當然
dāng rán
अद्दा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

एकन्त
ekanta
當然 / 確信 /
खलु
khalu
实在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
खो
kho
实在 / 實在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 當真 / 的確 / 真地 / 真地 / 真狗 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

ननु
nanu
नून
nūna
一定 / 定然 / 实在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

當真
dāng zhēn
किर
kira
实在 / 實在 / 果然 / 果真 / 洵 / 當真 / 真地 / 真地 / 真狗 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 /
खो
kho
实在 / 實在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 當真 / 的確 / 真地 / 真地 / 真狗 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

當面
dāng miàn
मुख
mukha
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 鶯 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

疆
jiāng
अवधि
avadhi
圻 / 垓 / 垸 / 境 / 徼 / 极限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
ओधि
odhi
圻 / 垓 / 垸 / 局限 / 徼 / 极限 / 極限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिच्छेद
pariccheda
圻 / 垓 / 垸 / 境 / 度量 / 徼 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 稜 / 極限 / 止境 / 湄 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 结束 / 缘 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 逾 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

疆界
jiāng jiè
अवधि
avadhi
圻 / 垓 / 垸 / 境 / 徼 / 极限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
ओधि
odhi
圻 / 垓 / 垸 / 局限 / 徼 / 极限 / 極限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिच्छेद
pariccheda
圻 / 垓 / 垸 / 境 / 度量 / 徼 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 稜 / 極限 / 止境 / 湄 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 结束 / 缘 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 逾 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

疏忽
shū hū
पमाद
pamāda
懈怠 / 疏忽 /

疑
yí
आसङ्का
āsaṅkā
怀疑 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 悻 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /
द्वेज्झ
dvejḥha
可疑的 / 怀疑 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 矛盾 / 置疑 /
द्वेव्हक
dvelhaka
怀疑 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 /
疑問
yí wèn
आसङ्का
āsaṅkā
怀疑 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 悻 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /
कथङ्कथा
kathaṃkathā
不确定 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 /
द्वेज्झ
dvejḥha
可疑的 / 怀疑 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 矛盾 / 置疑 /
द्वेव्हक
dvelhaka
怀疑 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 /

疑惑
yí huò
आसङ्का
āsaṅkā
怀疑 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 悻 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /
कथङ्कथा
kathaṃkathā
不确定 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 /
द्वेज्झ
dvejḥha
可疑的 / 怀疑 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 矛盾 / 置疑 /
द्वेव्हक
dvelhaka
怀疑 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 /

疑惑
yí huò
आसङ्का
āsaṅkā
怀疑 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 悻 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /
कथङ्कथा
kathaṃkathā
不确定 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 /
द्वेज्झ
dvejḥha
可疑的 / 怀疑 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 矛盾 / 置疑 /
द्वेव्हक
dvelhaka
怀疑 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 /

疑慮
yí lù
आसङ्का
āsaṅkā
怀疑 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 悻 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /
कथङ्कथा
kathaṃkathā
不确定 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 /
द्वेज्झ
dvejḥha
可疑的 / 怀疑 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 矛盾 / 置疑 /
द्वेव्हक
dvelhaka
怀疑 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 /

疤
bā
आरञ्जित
ārañjita
傷疤 / 傷痕 / 疤 / 疤痕 / 痕 / 癩痕 /

疤痕
bā hén
आरञ्जित
ārañjita
傷疤 / 傷痕 / 疤 / 疤痕 / 痕 / 癩痕 /
瘋狂
fēng kuáng
उम्माद
ummāda
瘋狂 / 癡狂 /

疲倦
pí juàn
किलमथ
kilamatha
疲倦 / 疲劳 / 疲勞 /
तन्दी
tandī
怠惰 / 疲倦 / 疲勞 /
निव्वि
nibbidā
信任的 / 厭惡 / 工資 / 疲倦 / 疲勞 / 相似的 /
परिस्सम
parissama
努力 / 疲倦 / 疲劳 / 疲勞 /

疲倦的
pí juàn de
तन्दि
tandita
厌倦 / 厌烦 / 疲倦的 / 疲勞 / 疲劳的 /

疲勞
pí láo
किलमथ
kilamatha
疲倦 / 疲劳 / 疲勞 /
तन्दि
tandita
厌倦 / 厌烦 / 疲倦的 / 疲勞 / 疲劳的 /
तन्दी
tandī
怠惰 / 疲倦 / 疲勞 /
निव्वि
nibbidā
信任的 / 厭惡 / 工資 / 疲倦 / 疲勞 / 相似的 /
परिस्सम
parissama
努力 / 疲倦 / 疲劳 / 疲勞 /

疲劳的
pí láo de
तन्दि
tandita
厌倦 / 厌烦 / 疲倦的 / 疲勞 / 疲劳的 /

疲勞
pí láo
किलमथ
kilamatha
疲倦 / 疲劳 / 疲勞 /
परिस्सम
parissama
努力 / 疲倦 / 疲劳 / 疲勞 /

疸
dǎn
पण्डुरोग
pañḍuroga
疸 / 黄疸 /

疼
téng
अघ
agha
不幸 / 天 / 天界 / 天空 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛楚 / 痛苦 / 罪 / 罪惡 / 罪過 / 苦痛 / 雲霄 /
असात
asāta
不愉快的 / 熬煎 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛苦 / 苦楚 / 苦痛 /
दुक्ख
dukkha
烦恼 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛苦 /

疼痛
téng tòng
अघ
agha
不幸 / 天 / 天界 / 天空 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛楚 / 痛苦 / 罪 / 罪惡 / 罪過 / 苦痛 / 雲霄 /
असात
asāta
不愉快的 / 熬煎 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛苦 / 苦楚 / 苦痛 /
दुक्ख
dukkha
烦恼 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛苦 /

疾
jī
आतङ्क
ātaṅka
弊病 / 恙 / 疾 / 疾病 / 病 / 病症 / 病的 / 症 /
आबाध
ābādha
弊病 / 疾 / 疾病 / 病 / 病症 / 病的 / 症 / 痛苦 /
गद
gada
作響 / 健全 / 呕心 / 嘔 / 声 / 声音 / 恙 / 有聲 / 演講 / 疾 / 疾病 / 病 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鸣 /
गेलञ्ज
gelañña
呕心 / 恙 / 疾 / 疾病 / 病 /

疾病
jī bing
आतङ्क
ātaṅka
弊病 / 恙 / 疾 / 疾病 / 病 / 病症 / 病的 / 症 /
आबाध
ābādha
弊病 / 疾 / 疾病 / 病 / 病症 / 病的 / 症 / 痛苦 /
आमय
āmaya
恙 / 疾病 / 病 / 病症 / 症 /
गद
gada
作響 / 健全 / 呕心 / 嘔 / 声 / 声音 / 恙 / 有聲 / 演講 / 疾 / 疾病 / 病 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鸣 /
गेलञ्ज
gelañña
呕心 / 恙 / 疾 / 疾病 / 病 /

病
bìng

आतङ्क
ātaṅka
弊病 / 恙 / 疾 / 疾病 / 病 / 病症 / 病的 / 症 /
आतुर
ātura
患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病弱 / 痒 / 虺 /
आबाध
ābādha
弊病 / 疾 / 疾病 / 病 / 病症 / 病的 / 症 / 痛苦 /
आबाधिक
ābādhika
患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病人 / 病弱 / 痒 / 虺 /
आमय
āmaya
恙 / 疾病 / 病 / 病症 / 症 /
गद
gada
作響 / 健全 / 嘔心 / 嘯 / 声 / 声音 / 恙 / 有聲 / 演講 / 疾 / 疾病 / 病 / 聲 / 聲音 / 響聲 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鸣 /
गेलञ्ज
gelañña
嘔心 / 恙 / 疾 / 疾病 / 病 /
गिलान
gilāna
不舒服的 / 患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病人 / 病弱 / 病的 / 痒 / 虺 /

病人

bìng rén

अधिवासक
adhivāsaka
患者 / 持久的 / 病人 / 病患 / 耐心 /
आबाधिक
ābādhika
患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病人 / 病弱 / 痒 / 虺 /
गिलान
gilāna
不舒服的 / 患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病人 / 病弱 / 病的 / 痒 / 虺 /
गिलानक
gilānaka
不舒服的 / 病人 / 病的 /

病弱

bìng ruò

आतुर
ātura
患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病弱 / 痒 / 虺 /
आबाधिक
ābādhika
患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病人 / 病弱 / 痒 / 虺 /
गिलान
gilāna
不舒服的 / 患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病人 / 病弱 / 病的 / 痒 / 虺 /

病患
bìng huàn

अधिवासक
adhivāsaka
患者 / 持久的 / 病人 / 病患 / 耐心 /
病症
bìng zhèng

आतङ्क
ātaṅka
弊病 / 恙 / 疾 / 疾病 / 病 / 病症 / 病的 / 症 /
आबाध
ābādha
弊病 / 疾 / 疾病 / 病 / 病症 / 病的 / 症 / 痛苦 /
आमय
āmaya
恙 / 疾病 / 病 / 病症 / 症 /

病的

bìng de

आतङ्क
ātaṅka
弊病 / 恙 / 疾 / 疾病 / 病 / 病症 / 病的 / 症 /
आबाध
ābādha
弊病 / 疾 / 疾病 / 病 / 病症 / 病的 / 症 / 痛苦 /
गिलान
gilāna
不舒服的 / 患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病人 / 病弱 / 病的 / 痒 / 虺 /
गिलानक
gilānaka
不舒服的 / 病人 / 病的 /

症

zhèng

आतङ्क
ātaṅka
弊病 / 恙 / 疾 / 疾病 / 病 / 病症 / 病的 / 症 /
आबाध
ābādha
弊病 / 疾 / 疾病 / 病 / 病症 / 病的 / 症 / 痛苦 /
आमय
āmaya
恙 / 疾病 / 病 / 病症 / 症 /

痒

yǎng

कच्छु
kacchu
痒 / 痒痒 / 癢 /
खज्जु
khajju
痒 / 痒痒 / 癢 /

痒痒
yǎng yǎng

कच्छु
kacchu
痒 / 痒痒 / 癢 /
खज्जु
khajju
痒 / 痒痒 / 癢 /
痔
zhì

अरिस
arisa
痔 / 痔疮 /
दुन्नामक
dunnāmaka
痔 / 痔疮 / 痔疮 / 痔疾 /

痔核
zhì hé

दुन्नामक
dunnāmaka
痔 / 痔疮 / 痔疮 / 痔疾 /
痔疮
zhì chuāng

अरिस
arisa
痔 / 痔疮 /
दुन्नामक
dunnāmaka
痔 / 痔疮 / 痔疮 / 痔疾 /

痔疾

zhì jí

दुन्नामक
dunnāmaka
痔 / 痔疮 / 痔疮 / 痔疾 /

痕

hén

अङ्क
aṅka
印子 / 标 / 標 / 標記 / 特徵 / 痕 / 記號 / 馬克 / 马克 /
आरञ्जित
ārañjita
傷疤 / 傷痕 / 疤 / 疤痕 / 痕 / 癩痕 /

痛

tòng

अघ
agha
不幸 / 天 / 天界 / 天空 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛楚 / 痛苦 / 罪 / 罪惡 / 罪過 / 苦痛 / 雲霄 /
असात
asāta
不愉快的 / 熬煎 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛苦 / 苦楚 / 苦痛 /
दुक्ख
dukkha
烦恼 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛苦 /

痛楚
tòng chu

अघ
agha
不幸 / 天 / 天界 / 天空 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛楚 / 痛苦 / 罪 / 罪惡 / 罪過 / 苦痛 / 雲霄 /
अघ
agha
不幸 / 天 / 天界 / 天空 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛楚 / 痛苦 / 罪 / 罪惡 / 罪過 / 苦痛 / 雲霄 /
असात
asāta
不愉快的 / 熬煎 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛苦 / 苦楚 / 苦痛 /

痛苦

tòng kǔ

अघ
agha
不幸 / 天 / 天界 / 天空 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛楚 / 痛苦 / 罪 / 罪惡 / 罪過 / 苦痛 / 雲霄 /
असात
asāta
不愉快的 / 熬煎 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛苦 / 苦楚 / 苦痛 /
आबाध
ābādha
弊病 / 疾 / 疾病 / 病 / 病症 / 病的 / 症 / 痛苦 /
किच्छ
kiçca
吃力 / 困难 / 困難 / 屯 / 為難 / 痛苦 / 痛苦的 / 艱 / 艱難 / 蹇 / 难 / 難 / 難以 / 難度 /
खेद
kheda
痛苦 / 遺憾 /
दुक्ख
dukkha
烦恼 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛苦 /
बाधन
bādhana
妨害 / 捕捉 / 痛苦 / 陷阱 /

痛苦的

tòng kǔ de

कटुक
kaṭuka
尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 激烈 / 犀利 / 痛苦的 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
किच्छ
kiçca
吃力 / 困难 / 困難 / 屯 / 為難 / 痛苦 / 痛苦的 / 艱 / 艱難 / 蹇 / 难 / 難 / 難以 / 難度 /
खर
khara
仓 / 使勁 / 固 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 痛苦的 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / 銳 / 鋒利 / 锐 /

痢
lì

अतिसार
atisāra
痢 / 痢疾 /
पक्खन्दिका
pakkhandikā
痢 / 痢疾 /
痢疾
lì jí

अतिसार
atisāra
痢 / 痢疾 /
पक्खन्दिका
pakkhandikā
痢 / 痢疾 /

痴

chī

अन्ध
andha
傻 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 盲 / 盲人 / 相親 / 瞎 / 瞎子 / 瞎眼 / 瞽 / 笨 / 笨的 /
जळ
jala
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दन्ध
dandha
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दुप्पञ्ज
duppañña
傻 / 傻子 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
दुम्मेध
dummedha
傻 / 傻子 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
बाल
bāla
傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 困 / 子 / 子女 / 孥 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /

痒

cui

आतुर
ātura
患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病弱 / 痒 / 虺 /
आबाधिक
ābādhika
患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病人 / 病弱 / 痒 / 虺 /
गिलान
gilāna
不舒服的 / 患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病人 / 病弱 / 病的 / 痒 / 虺 /

瘋狂
فēng kuáng
उम्माद
ummāda

疯狂 / 癡狂 /

癩痕
bān hén
आरञ्जित
ārañjita
傷疤 / 傷痕 / 疤 / 疤痕 / 痕 / 癩痕 /

瘦
shòu
तनु
tanu
消瘦 / 瘦 / 瘦的 / 稀薄 / 稀薄 / 精巧 / 細 / 薄 / 薄 / 薄的 / 薄的 /

瘦的
shòu de
तनु
tanu
消瘦 / 瘦 / 瘦的 / 稀薄 / 稀薄 / 精巧 / 細 / 薄 / 薄 / 薄的 / 薄的 /

療
liáo
भेसज्ज
bhesajja
治 / 治愈 / 治疗 / 療 / 藥 /

癢
yǎng
कच्छु
kacchu
痒 / 痒痒 / 癢 /
खज्जु
khajju
痒 / 痒痒 / 癢 /

登上
dēng shàng
आरोहन
ārohana
攀登 / 登上 / 登高 /

登台
dēng tái
भूमि
bhūmi
上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /

登高
dēng gāo
आरोहन
ārohana
攀登 / 登上 / 登高 /

發作
fā zuò
अधिपतन
adhipatana

侵襲 / 出擊 / 征 / 抨 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 發作 / 行凶 / 跳躍 /

उपकम
upakkama
侵襲 / 出擊 / 征 / 意指 / 手段 / 抨 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 方式 / 方法 / 發作 / 行凶 /

發光
fā guāng
अवभास
avabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 出現 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
आभा
ābhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
आलोक
āloka
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
जोति
joti

五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /

दित्ति
ditti
亮光 / 光 / 光亮 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

निभा
nibhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पज्जोत
pajjota
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पदीप
padīpa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पभा
pabhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पभास
pabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

भ
bhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

भानु
bhānu
亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /

發光
fā guāng
अवभास
avabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 出現 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
आभा
ābhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
आलोक
āloka
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
जोति
joti

五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /

दित्ति
ditti
亮光 / 光 / 光亮 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /

दित्ति
ditti
亮光 / 光 / 光亮 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

निभा
nibhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पज्जोत
pajjota
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पदीप
padīpa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पभा
pabhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

पभास
pabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

भ
bhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /

भानु
bhānu
亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /

發抖
fā dǒu
कम्पन
kampana
發抖 / 運動 /
चलन
calana
激動 / 發抖 / 運動 /
तास
tāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 發抖 / 虞 /
परिसप्पना
parisappanā
懷疑 / 猶豫 / 發抖 /

怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 發抖 / 虞 /

परिसप्पना
parisappanā
懷疑 / 猶豫 / 發抖 /

發燒
fā shāo
जर
jara
估 / 发烧 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 热病 / 熱病 / 發燒 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 / 衰老的 /

發生
fā shēng
पवत्ति
pavatti
事件 / 事端 / 入射 / 新聞 / 新闻 / 消息 / 消息 / 發生 / 訊 / 讯 / 音信 /

發音
fā yīn
उच्चारण
uccāraṇa
发音 / 發音 / 读音 /

白
bái
अवदात
avadāta
白 / 白的 / 白暂 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /

ओदात
odāta
白 / 白的 / 白暂 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /

दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 皑 / 翌 / 耿 / 燭 /

धवल
dhavala
白 / 白的 / 白暂 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /

धवल
dhavala
白 / 白的 / 白暂 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /

白天
bái tiān
अण्ह
aṇha
全天 / 天 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
दिन
dina
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
दिवस
divasa
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /

全天 / 天 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /

दिन
dina
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
दिवस
divasa
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /

白日
bái rì
अण्ह
aṇha
全天 / 天 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
दिन
dina
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /
दिवस
divasa
全天 / 天 / 太陽 / 日 / 日子 / 日日 / 昼 / 晝 / 當日 / 白天 / 白日 /

白的
bái de
अवदात
avadāta
白 / 白的 / 白暂 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /
ओदात
odāta
白 / 白的 / 白暂 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /

白的
bái de
अवदात
avadāta
白 / 白的 / 白暂 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /
ओदात
odāta
白 / 白的 / 白暂 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /

धवल
dhavala
白 / 白的 / 白暂 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /

धवल
dhavala
白 / 白的 / 白暂 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /

白暂
bái xī
अवदात
avadāta
白 / 白的 / 白暂 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /
ओदात
odāta
白 / 白的 / 白暂 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /

ओदात
odāta
白 / 白的 / 白暂 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /
धवल
dhavala
白 / 白的 / 白暂 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /

धवल
dhavala
白 / 白的 / 白暂 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /

白粉
bái fěn
अवदात
avadāta
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 / 皤 /
ओदात
odāta
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /
धवल
dhavala
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /

白紙
bái zhǐ
अवदात
avadāta
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /
ओदात
odāta
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /
धवल
dhavala
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /

白色
bái sè
अवदात
avadāta
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /
ओदात
odāta
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /
धवल
dhavala
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /

白色的
bái sè de
अवदात
avadāta
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /
ओदात
odāta
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /
धवल
dhavala
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /

白衣
bái yī
अवदात
avadāta
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /
ओदात
odāta
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /
धवल
dhavala
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /

白費
bái fèi
खय
khaya
廢物 / 浪費 / 浪費 / 白費 / 破壞 / 終結 / 虛度 / 衰退 /
परिक्खय
parikkhaya
廢物 / 枯竭 / 浪費 / 浪费 / 白費 / 腐朽 / 虛度 /
皂
zào
कण्ह
kaṇha
乌 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 恶 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 淄 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪恶 / 邪恶的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
काळ
kāḷa
乌 / 冥 / 变黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 淄 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
काळक
kāḷaka
变黑 / 污点 / 污點 / 淄 / 玄 / 皂 / 黎 / 黑 / 黑的 / 黑色 / 黝 /

的確
de què
अद्दा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
खलु
khalu
实在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 確 / 確實 /
खो
kho
实在 / 實在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 當真 / 的確 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
नून
nūna
一定 / 定然 / 实在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

的話
de huà
चे
ce
一但 / 倘 / 倘若 / 假 / 假使 / 假如 / 假若 / 好象 / 如果 / 就是 / 是否 / 的話 / 若 / 若是 / 要是 /

皆
jiē
असेस
asesa
一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全部 / 全體 / 凡 / 凡是 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
निखिल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全部 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /

皇
huáng
दिसम्पति
disampati
国王 / 皇 /
皇后
huáng hòu
देवी
devī
女神 / 女神 / 皇后 /

皈依
guī yī
ताण
tāṇa
保护 / 保護 / 皈依 / 避難所 / 避難所 /
皎
jiǎo
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 鐳 /

皓
hào
अवदात
avadāta
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /
ओदात
odāta
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 鐳 /
धवल
dhavala
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /

皙
xī
अवदात
avadāta
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /
ओदात
odāta
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /

皓
hào
अवदात
avadāta
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /
ओदात
odāta
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /
धवल
dhavala
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /

皤
pó
अवदात
avadāta
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /
ओदात
odāta
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /
धवल
dhavala
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /

皤
pó
अवदात
avadāta
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /
ओदात
odāta
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /
धवल
dhavala
白 / 白的 / 白皙 / 白粉 / 白紙 / 白色 / 白色的 / 白衣 / 皓 / 皙 / 皤 / 皤 /

皮
pí
चम्म
camma
皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 皮革 / 肌膚 / 肤 / 革 /
छवि
chavi
外皮 / 皮 / 皮膚 /
तच
taca
削皮 / 剝 / 剥 / 吠 / 壳 / 壳 / 树皮 / 犬吠 / 皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 肌膚 / 肤 /

皮的
pí de
चम्म
camma
皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 皮革 / 肌膚 / 肤 / 革 /
तच
taca
削皮 / 剝 / 剥 / 吠 / 壳 / 壳 / 树皮 / 犬吠 / 皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 肌膚 / 肤 /

皮肤
pí fū
चम्म
camma
皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 皮革 / 肌膚 / 肤 / 革 /
तच
taca
削皮 / 剝 / 剥 / 吠 / 壳 / 壳 / 树皮 / 犬吠 / 皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 肌膚 / 肤 /

皮膚
pí fū
चम्म
camma
皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 皮革 / 肌膚 / 肤 / 革 /
छवि
chavi
外皮 / 皮 / 皮膚 /
तच
taca
削皮 / 剝 / 剥 / 吠 / 壳 / 壳 / 树皮 / 犬吠 / 皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 肌膚 / 肤 /

皮革
pí gé
चम्म
camma
皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 皮革 / 肌膚 / 肤 / 革 /

盂

yú
आधार
ādhāra
供養 / 基礎 / 容器 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 孟 /
कोसक
kosaka

一杯 / 一杯量 / 杯 / 杯子 / 獎杯 / 盃 / 盃 / 盃 / 茶杯 /
--

पुट
puṭa
一籃 / 兜 / 口 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 栳 / 孟 / 筐 / 筲 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /

पुटक
puṭaka
一籃 / 兜 / 口 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 栳 / 孟 / 筐 / 筲 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /

पेळा
peḷā
容器 / 孟 / 盒子 /

盃

bēi
कोसक
kosaka
一杯 / 一杯量 / 杯 / 杯子 / 獎杯 / 盃 / 盃 / 盃 / 茶杯 /

盅

zhōng
कोसक
kosaka
一杯 / 一杯量 / 杯 / 杯子 / 獎杯 / 盃 / 盃 / 盃 / 茶杯 /

盆子
pén zi
पाति
pāti
一碗 / 保齡球 / 盆子 / 盤子 / 碗 / 鉢 /

盈

yíng
पुण्ण
puṅṅa
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 滿的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 飽 /
परिपूर
paripūra

充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 滿的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 飽 /

盈利
yíng lì
आनिसंस
ānisamsa
值得 / 值得 / 利 / 利潤 / 利潤 / 功 / 贏 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /

आय
āya
利 / 利潤 / 利潤 / 贏 / 定期收入 / 成果 / 收 / 收入 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /

उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 涨 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /

उपभोग
upabhoga
使用 / 利 / 利潤 / 利潤 / 利用 / 可享受的 / 贏 / 收益 / 施用 / 潤 / 潤 / 獲利 / 用 / 用法 / 用途 / 盈利 / 获利 / 裨益 / 运用 / 運用 /

पत्ति
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利潤 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到来 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /

益
yì
अभिवड्ढन
abhivaḍḍhana
加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 生長 / 益 / 茁 /

उग्गम
uggama
上升 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 崛起 / 攀升 / 涨 / 漲 / 益 / 興起 / 茁 /

उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 涨 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /

उन्नति
unnati
上升 / 加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 提高 / 海拔 / 益 / 茁 / 超升 /

उपब्रूहन
upabrūhana
加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 擴大 / 益 / 茁 /

पवड्ढन
pavaḍḍhana
加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 复原 / 复职 / 恢复 / 恢復 / 益 / 茁 /

फातिकम्म
phātikamma
加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 复原 / 复职 / 恢复 / 恢復 / 益 / 茁 /

盎

àng
पहूत
pahūta
丰 / 丰富的 / 充份 / 充沛 / 沛 / 盎 / 盎然 / 穰 / 裕 /

盎然

àng rán
पहूत
pahūta
丰 / 丰富的 / 充份 / 充沛 / 沛 / 盎 / 盎然 / 穰 / 裕 /

监狱

jiān yù
कारा
kāra
入獄 / 囚室 / 囹 / 大牢 / 拘留所 / 牢 / 牢獄 / 犴 / 獄 / 獄 / 班房 / 監獄 / 監 / 監牢 / 監獄 / 監禁 / 關押 /
चारक
cāraka
囚室 / 囹 / 牢 / 牢獄 / 獄 / 獄 / 監獄 / 監 / 監牢 / 監獄 /

盒子
hé zi
पेळा
peḷā
容器 / 孟 / 盒子 /

盔甲

कुई जिआ
kūi jiǎ
कवच
kavaca

蓋

गै
gài
अपिधान
apidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

छदन
chadana
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋頂 / 屋頂 / 幌子 / 房頂 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 覆 / 覆盖 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

पच्चत्थरण
paccattharaṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 床單 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆盖 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

पच्छाद
pacchāda
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆盖 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

पापुरण
pāpuraṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 毛毯 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆盖 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

पिधान
pidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆盖 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

盜

dào
चोर
cora
小偷 / 強盜 / 盜 / 盜 / 盜賊 / 竊賊 / 賊 / 賊 /

तक्कर
takkara
小偷 / 盜 / 盜 / 竊賊 / 賊 / 賊 /

थेन
thena
小偷 / 盜 / 盜 / 竊賊 / 賊 / 賊 /

थेनक
thenaka
小偷 / 盜 / 盜 / 竊賊 / 賊 / 賊 /

盛大的
shèng dà de
तुमुल
tumula
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 英 / 英 / 弘 / 恢 / 極大 / 盛大的 / 硕 / 莫大 / 航 /

盜

dào
चोर
cora

小偷 / 強盜 / 盜 / 盜 / 盜賊 / 竊賊 / 賊 / 賊 /

तक्कर
takkara
小偷 / 盜 / 盜 / 竊賊 / 賊 / 賊 /

थेन
thena
小偷 / 盜 / 盜 / 竊賊 / 賊 / 賊 /

थेनक
thenaka
小偷 / 盜 / 盜 / 竊賊 / 賊 / 賊 /

盜賊

dào zéi
चोर
cora
小偷 / 強盜 / 盜 / 盜 / 盜賊 / 竊賊 / 賊 / 賊 /
दस्सु
dassu
強盜 / 盜賊 /

盟

méng
अभिसपन
abhisapana
宣誓 / 盟 / 詛咒 / 誓 / 誓言 / 起誓 /

盡力

jìn lì
उस्सहन
ussahana
努力 / 盡力 /

盡頭
jin tóu
अग्ग
agga
一次／上端／下場／乍／元／先／先在／原始／告終／在先／完結／完結／尖峰／底／搶先／最初／最高的／月底／月末／末／末尾／末端／止境／盡頭／端／端上／第一／第一個／第一名／第一次／終／終結／終點／結束／終／終結／結束／道／頂／頂尖／頂端／頂点／頂端／首／首先／
अन्त
anta
下場／告終／完結／完結／底／月底／月末／末／末尾／末端／止境／球門／盡頭／目標／目標／目的／端／端上／終／終止／終結／終點／結束／終／終結／結束／道／頂端／
अपवग्ग
apavagga
下場／告終／完結／完結／底／月底／月末／末／末尾／末端／止境／盡頭／端／端上／終／終結／終點／結束／終／終結／結束／道／
अवसान
avasāna
下場／停止／告終／完結／完結／底／月底／月末／末／末尾／末端／止境／盡頭／端／端上／終／終結／終點／結束／終／終結／結束／道／
ओसान
osāna
下場／停止／告終／完結／完結／定局／底／月底／月末／末／末尾／末端／止境／盡頭／端／端上／終／終結／終點／結束／終／終結／結束／道／
कोटि
koṭi
下場／告終／完結／完結／底／指出／月底／月末／末／末尾／末端／止境／点／盡頭／端／端上／終／終結／終點／結束／終／終結／結束／道／點／
कोण
koṇa
下場／告終／完結／完結／底／弓／月底／月末／末／末尾／末端／磅／止境／盡頭／端／端上／終／終結／終點／結束／終／終結／結束／船首／街角／角落／躬／转角／道／陲／隅／鞠躬／
निट्ठा
niṭṭhā
下場／告終／完結／完結／完美／定局／底／月底／月末／末／末尾／末端／止境／盡頭／端／端上／終／終結／終點／結束／結論／終／終結／結束／道／
परिनिट्ठान
pariniṭṭhāna
下場／告終／完結／完結／底／月底／月末／末／末尾／末端／止境／盡頭／端／端上／終／終結／終點／結束／終／終結／結束／道／

परियन्त
pariyanta
下場／中／刃／告終／境／完結／完結／局限／底／月底／月末／末／末尾／末端／極限／棧／極限／止境／瀕／眈／疆／疆界／盡頭／端／端上／終／終結／終點／結束／緣／終／終結／結束／緣／边／边境／边沿／边缘／边际／道／邊／邊境／邊界／邊緣／鋒／际／限／限制／限定／限度／
परियोसान
pariyosāna
下場／告終／完結／完結／定局／底／月底／月末／末／末尾／末端／止境／盡頭／端／端上／終／終結／終點／結束／結論／終／終結／結束／道／
監
जिान
कारा
kāra
入獄／囚室／囹／大牢／拘留所／牢／牢獄／犴／獄／獄／班房／監獄／監／監牢／監獄／監禁／關押／
चारक
cāraka
囚室／囹／牢／牢獄／獄／獄／監獄／監／監牢／監獄／

監牢

जिान लॉ
कारा
kāra
入獄／囚室／囹／大牢／拘留所／牢／牢獄／犴／獄／獄／班房／監獄／監／監牢／監獄／監禁／關押／
चारक
cāraka
囚室／囹／牢／牢獄／獄／獄／監獄／監／監牢／監獄／

監獄

जिान यु
कारा
kāra
入獄／囚室／囹／大牢／拘留所／牢／牢獄／犴／獄／獄／班房／監獄／監／監牢／監獄／監禁／關押／
चारक
cāraka
囚室／囹／牢／牢獄／獄／獄／監獄／監／監牢／監獄／

監禁

जिान जि
कारा
kāra
入獄／囚室／囹／大牢／拘留所／牢／牢獄／犴／獄／獄／班房／監獄／監／監牢／監獄／監禁／關押／

盤子

pán zi
थाल
thāla
盤子／碟子／
पाति
pāti
一碗／保齡球／盆子／盤子／碗／鉢／

目
mù
अक्खि
akkhi
目／眸／眼／眼珠／眼病／眼皮／眼睛／眼睛／眼瞼／睛／睛／瞳孔／
चक्खु
cakkhu
目／眸／眼／眼珠／眼界／眼病／眼睛／眼睛／睛／睛／
नयन
nayana
攜帶／目／眸／眼／眼珠／眼病／眼睛／眼睛／睛／睛／

目前

mù qián
एतरहि
etarahi
今／今朝／刚才／在眼前／如今／此刻／此時／現／現在／現在／目前／眼下／眼前／立刻／而今／

目标

mù biāo
अत्थ
attha
使用／利用／含义／含意／含義／增益／宗旨／客观／寓意／必要／必需品／意／意思／意義／施用／有必要／有道／物／物件／用／用法／用途／目标／破壞／福利／福祉／缺乏／裨益／要有／要求／谛／財富／财富／运用／運用／需／需要／
अन्त
anta
下場／告終／完結／完結／底／月底／月末／末／末尾／末端／止境／球門／盡頭／目标／目標／目的／端／端上／終／終止／終結／終點／結束／終／終結／結束／道／頂端／

目標

mù biāo
अन्त
anta
下場／告終／完結／完結／底／月底／月末／末／末尾／末端／止境／球門／盡頭／目标／目標／目的／端／端上／終／終止／終結／終點／結束／終／終結／結束／道／頂端／

目的

mù de
अन्त
anta
下場／告終／完結／完結／底／月底／月末／末／末尾／末端／止境／球門／盡頭／目标／目標／目的／端／端上／終／終止／終結／終點／結束／終／終結／結束／道／頂端／
चेत
ceta
宗旨／心意／意向／意图／意圖／旨趣／用心／用意／目的／

目錄

mù lù
उदान
uddāna
串／列出／列表／单子／名单／名單／束／目錄／群／譜／

盯梢
dīng shāo
नइग्गु
naṅguṭṭha
尾／尾巴／尾巴／尾部／盯梢／
पुच्छ
pucchā
尾／尾巴／尾巴／尾部／盯梢／
盲
मंग
अन्ध
andha
傻／呆／愚蠢的／痴／盲／盲人／相親／瞎／瞎子／瞎眼／瞽／笨／笨的／
काण
kāṇa
盲／盲人／相親／瞎／瞎子／瞎眼／瞽／

盲人

máng rén
अन्ध
andha
傻／呆／愚蠢的／痴／盲／盲人／相親／瞎／瞎子／瞎眼／瞽／笨／笨的／
काण
kāṇa
盲／盲人／相親／瞎／瞎子／瞎眼／瞽／

直

zhí
अजिम्ह
ajimha
伸直／正／直／直的／直行／直通／
उजु
uju
伸直／垂直的／正／正直／率直／率直／直／直接／直的／直行／直通／迪／
उजुक
ujuka
伸直／垂直的／正／正直／率直／率直／直／直的／直行／直通／

直喻

zhí yù
उपमा
upamā
寓言／比較／直喻／
ओपम्म
opamma
比喻／比方／比較／直喻／

直尺
zhí chǐ
अधिप
adhīpa
主／主人／君主／大師／好手／尺／師傅／師傅／師父／标尺／法師／直尺／統治者／统治者／老爺／領主／
अधिपति
adhīpati
主／主人／君主／大師／好手／尺／師傅／師傅／師父／标尺／法師／直尺／統治者／统治者／老爺／領主／
ईस
īsa
尺／标尺／直尺／統治者／统治者／

直接

zhí jiē
उजु
uju
伸直／垂直的／正／正直／率直／率直／直／直接／直的／直行／直通／迪／

直接地

zhí jiē dì
उजुं
ujum

直的

zhí de
अजिम्ह
ajimha
伸直／正／直／直的／直行／直通／
उजु
uju
伸直／垂直的／正／正直／率直／率直／直／直接／直的／直行／直通／迪／
उजुक
ujuka
伸直／垂直的／正／正直／率直／率直／直／直的／直行／直通／

直立

zhí lì
उब्बेध
ubbedha
個兒／海拔／海拔高度／直立／身高／高低／高度／

直立的

zhí lì de
ठायी
thāyī
持久的／直立的／

直行
zhí xíng
अजिम्ह
ajimha
伸直 / 正 / 直 / 直的 / 直行 / 直通 /
उजु
uju
伸直 / 垂直的 / 正 / 正直 / 率直 / 率直 / 直 / 直接 / 直的 / 直行 / 直通 / 迪 /
उजुक
ujuka
伸直 / 垂直的 / 正 / 正直 / 率直 / 率直 / 直 / 直的 / 直行 / 直通 /

直覺
zhí jué
दस्सन
dassana
洞察力 / 直覺 / 直覺 / 看見 /

直觉
zhí jué
दस्सन
dassana
洞察力 / 直覺 / 直覺 / 看見 /

直通
zhí tōng
अजिम्ह
ajimha
伸直 / 正 / 直 / 直的 / 直行 / 直通 /
उजु
uju
伸直 / 垂直的 / 正 / 正直 / 率直 / 率直 / 直 / 直接 / 直的 / 直行 / 直通 / 迪 /
उजुक
ujuka
伸直 / 垂直的 / 正 / 正直 / 率直 / 率直 / 直 / 直的 / 直行 / 直通 /

相互
xiāng hù
अञ्जमञ्ज
aññamañña
互 / 互助 / 互相 / 相互 / 相互的 /
अञ्जोञ्ज
aññoñña
互 / 互助 / 互相 / 相互 / 相互的 /

相互的
xiāng hù de
अञ्जमञ्ज
aññamañña
互 / 互助 / 互相 / 相互 / 相互的 /
अञ्जोञ्ज
aññoñña
互 / 互助 / 互相 / 相互 / 相互的 /

相仿
xiāng fǎng
उपम
upama
似 / 似 / 侔 / 同 / 喜欢 / 宛 / 相仿 / 相似的 / 肖 /

相似
xiāng sì
उपनिसा
upanisā
因素 / 方法 / 相似 /
कप्प
kappa
想 / 相似 / 相似 /
कप्प
kappa
想 / 相似 / 相似 /

相仿
xiāng fǎng
उपम
upama
似 / 似 / 侔 / 同 / 喜欢 / 宛 / 相仿 / 相似的 / 肖 /

相似
xiāng sì
उपनिसा
upanisā
因素 / 方法 / 相似 /
कप्प
kappa
想 / 相似 / 相似 /
कप्प
kappa
想 / 相似 / 相似 /

相似的
xiāng sì de

उपम
upama
似 / 似 / 侔 / 同 / 喜欢 / 宛 / 相仿 / 相似的 / 肖 /
एकविध
ekavidha

निब्बि
nibbisesa
信任的 / 厭惡 / 工資 / 疲倦 / 疲勞 / 相似的 /
निभ
nibha

相仿
xiāng fǎng
पटिभाग
paṭibhāga
侔 / 均 / 均衡 / 相似的 / 相等 / 等於 /

相似的事物
xiāng sì de shì wù
पटिबिम्ब
paṭibimba
偶 / 像 / 副本 / 印像 / 反映 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
पटिमा
paṭimā
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /

相互
xiāng hù
अञ्जमञ्ज
aññamañña
互 / 互助 / 互相 / 相互 / 相互的 /
अञ्जोञ्ज
aññoñña
互 / 互助 / 互相 / 相互 / 相互的 /

相互的
xiāng hù de
अञ्जमञ्ज
aññamañña
互 / 互助 / 互相 / 相互 / 相互的 /
अञ्जोञ्ज
aññoñña
互 / 互助 / 互相 / 相互 / 相互的 /

相反
xiāng fǎn
पटि
pati
相反 / 相反 / 逆 / 逆 /
पटि

相仿
xiāng fǎng
पटि
pati
相反 / 相反 / 逆 / 逆 /
पति

उपम
upama
似 / 似 / 侔 / 同 / 喜欢 / 宛 / 相仿 / 相似的 / 肖 /

相反的
xiāng fǎn de
पच्चनिक
paccanika
不利的 / 仇人 / 忤 / 否定的 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 / 相反的 /
पटिपक्ख

相仿
xiāng fǎng
पाटिपक्खा
paṭipakkha
仇人 / 忤 / 对手 / 對面 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敵方 / 敵軍 / 相反的 /
पटिलोम
paṭiloma

相同的
xiāng tóng de
एक
eka
一 / 一些 / 一體 / 之一 / 同一 / 同样 / 同种的 / 單 / 未知的 / 某一個 / 相同的 /

相等
xiāng děng
पटिभाग
paṭibhāga
侔 / 均 / 均衡 / 相似的 / 相等 / 等於 /

相等的
xiāng děng de
तुल्य
tulya
निभ
nibha
相似的 / 相等的 /

相聚
xiāng jù
एकज्जं
ekajjhaṃ
一同 / 一塊兒 / 一起 / 一齊 / 全 / 共同 / 到一起 / 在一起 / 相聚 / 結伴 / 齊 / 齐 /

相親
xiāng qīn
अन्ध
andha
傻 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 盲 / 盲人 / 相親 / 瞎 / 瞎子 / 瞎眼 / 瞽 / 笨 / 笨的 /
काण
kāṇa
盲 / 盲人 / 相親 / 瞎 / 瞎子 / 瞎眼 / 瞽 /

相貌
xiāng mào
आकार
ākāra
亮相 / 出場 / 境界 / 外表 / 外观 / 外貌 / 容貌 / 情况 / 样子 / 模樣 / 樣子 / 相貌 / 色 / 貌 / 面貌 /

盾
dùn
खेट
kheṭa
包庇 / 屏蔽 / 盾 / 盾牌 /
खेटक
kheṭaka
包庇 / 屏蔽 / 盾 / 盾牌 /

盾牌
dùn pái
खेट
kheṭa
包庇 / 屏蔽 / 盾 / 盾牌 /
खेटक
kheṭaka
包庇 / 屏蔽 / 盾 / 盾牌 /

眉
méi
भमु
bhamu
眉 / 眉毛 /

眉毛
méi máo
भमु
bhamu
眉 / 眉毛 /

看
kàn
पेक्खण
pekkhana
看 / 視力 /

看作
kàn zuò
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /

看守
kàn shǒu
आरक्खक
ārakkhaka
守卫 / 守衛 / 守護 / 巡夜者 / 把守 / 看守 / 看守人 / 衛 / 門衛 /
आरक्खा

看守人
kàn shǒu rén
आरक्खक
ārakkhaka
守卫 / 守衛 / 守護 / 巡夜者 / 把守 / 看守 / 看守人 / 衛 / 門衛 /
गोपक
gopaka
巡夜者 / 看守人 /
看法

看
kàn
पेक्खण
pekkhana
看 / 視力 /
看作
kàn zuò
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /
看守
kàn shǒu
आरक्खक
ārakkhaka
守卫 / 守衛 / 守護 / 巡夜者 / 把守 / 看守 / 看守人 / 衛 / 門衛 /
आरक्खा
ārakkhā
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看守 / 看護 / 關心 / 關照 /
गुत्ति
gutti
保护 / 保護 / 守卫 / 守衛 / 守護 / 把守 / 注意 / 看守 / 衛 / 門衛 /

看守人
kàn shǒu rén
आरक्खक
ārakkhaka
守卫 / 守衛 / 守護 / 巡夜者 / 把守 / 看守 / 看守人 / 衛 / 門衛 /
गोपक
gopaka
巡夜者 / 看守人 /
看法

看
kàn fǎ
उपलद्धि
upaladdhi
來看 / 所屬 / 景 / 景色 / 查看 / 檢視 / 看法 / 眺望 / 瞻 / 見解 / 觀點 / 鑒 / 鑑 / 鑒 /

看著
kàn zhe
अवेक्खन
avekkhana

看見
kàn jiàn
दस्सन
dassana
洞察力 / 直覺 / 直覺 / 看見 /

看護
kàn hù
आरक्खा
ārakkhā
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看守 / 看護 / 關心 / 關照 /
गोपन

看守
kàn shǒu
आरक्खक
ārakkhā
守卫 / 守衛 / 守護 / 巡夜者 / 把守 / 看守 / 看守人 / 衛 / 門衛 /
आरक्खा
ārakkhā
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 注意 / 照料 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 關心 / 關照 /
पटिजग्गन

相互
xiāng hù
अञ्जमञ्ज
aññamañña
互 / 互助 / 互相 / 相互 / 相互的 /
अञ्जोञ्ज
aññoñña
互 / 互助 / 互相 / 相互 / 相互的 /

相互的
xiāng hù de
अञ्जमञ्ज
aññamañña
互 / 互助 / 互相 / 相互 / 相互的 /
अञ्जोञ्ज
aññoñña
互 / 互助 / 互相 / 相互 / 相互的 /

看
kàn
पेक्खण
pekkhana
看 / 視力 /
看作
kàn zuò
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /
看守
kàn shǒu
आरक्खक
ārakkhaka
守卫 / 守衛 / 守護 / 巡夜者 / 把守 / 看守 / 看守人 / 衛 / 門衛 /
आरक्खा
ārakkhā
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威严 / 尊 ^严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

看
kàn
पेक्खण
pekkhana
看 / 視力 /
看作
kàn zuò
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /
看守
kàn shǒu
आरक्खक
ārakkhaka
守卫 / 守衛 / 守護 / 巡夜者 / 把守 / 看守 / 看守人 / 衛 / 門衛 /
आरक्खा
ārakkhā
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威严 / 尊 ^严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

看
kàn
पेक्खण
pekkhana
看 / 視力 /
看作
kàn zuò
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /
看守
kàn shǒu
आरक्खक
ārakkhaka
守卫 / 守衛 / 守護 / 巡夜者 / 把守 / 看守 / 看守人 / 衛 / 門衛 /
आरक्खा
ārakkhā
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威严 / 尊 ^严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

真地
zhēn de
किर
kira
实在 / 實在 / 果然 / 果真 / 洵 / 當真 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 /
किर
kira
实在 / 實在 / 果然 / 果真 / 洵 / 當真 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 /
खो
kho
实在 / 實在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 當真 / 的確 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
खो
kho
实在 / 實在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 當真 / 的確 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

真夠
zhēn gòu
किर
kira
实在 / 實在 / 果然 / 果真 / 洵 / 當真 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 /
खो
kho
实在 / 實在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 當真 / 的確 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

真实地
zhēn shí dì
किर
kira
实在 / 實在 / 果然 / 果真 / 洵 / 當真 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 /
खो
kho
实在 / 實在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 當真 / 的確 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

真实的
zhēn shí de
तच्छ
taccha
事實 / 实 / 實 / 现实 / 真 / 真实的 / 真實 / 真正 / 真正的 /
तथ
tatha
事實 / 实 / 實 / 现实 / 真 / 真实的 / 真實 / 真正 / 真正的 /

真實
zhēn shí
तच्छ
taccha
事實 / 实 / 實 / 现实 / 真 / 真实的 / 真實 / 真正 / 真正的 /
तथ
tatha
事實 / 实 / 實 / 现实 / 真 / 真实的 / 真實 / 真正 / 真正的 /

真是
zhēn shì
किर
kira
实在 / 實在 / 果然 / 果真 / 洵 / 當真 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 /
खो
kho
实在 / 實在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 當真 / 的確 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

真正
zhēn zhèng
तच्छ
taccha
事實 / 实 / 實 / 现实 / 真 / 真实的 / 真實 / 真正 / 真正的 /
तथ
tatha
事實 / 实 / 實 / 现实 / 真 / 真实的 / 真實 / 真正 / 真正的 /

真正地
zhēn zhèng dì
अद्दा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
किर
kira
实在 / 實在 / 果然 / 果真 / 洵 / 當真 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 /
खो
kho
实在 / 實在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 當真 / 的確 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

真正的
zhēn zhèng de
तच्छ
taccha
事實 / 实 / 實 / 现实 / 真 / 真实的 / 真實 / 真正 / 真正的 /
तथ
tatha
事實 / 实 / 實 / 现实 / 真 / 真实的 / 真實 / 真正 / 真正的 /

真的
zhēn de
अद्दा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
किर
kira
实在 / 實在 / 果然 / 果真 / 洵 / 當真 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 /
खलु
khalu
实在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
खो
kho
实在 / 實在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 當真 / 的確 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
नून
nūna
一定 / 定然 / 实在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

眼
mián
निद्दा
niddā
入睡 / 眼 / 睡 / 睡不著 / 睡覺 / 睡觉 / 覺 / 觉 /
眨眼
zhǎ yǎn
निमेष
nimesa
眸
móu
अक्खि
akkhi
目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼病 / 眼皮 / 眼睛 / 眼睛 / 眼瞼 / 睛 / 睛 / 瞳孔 /
चक्खु
cakkhu
目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼界 / 眼病 / 眼睛 / 眼睛 / 睛 / 睛 /
नयन
nayana
攜帶 / 目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼病 / 眼睛 / 眼睛 / 睛 / 睛 /

眼
mián
निद्दा
niddā
入睡 / 眼 / 睡 / 睡不著 / 睡覺 / 睡觉 / 覺 / 觉 /
眨眼
zhǎ yǎn
निमेष
nimesa

眸
móu
अक्खि
akkhi
目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼病 / 眼皮 / 眼睛 / 眼睛 / 眼瞼 / 睛 / 睛 / 瞳孔 /
चक्खु
cakkhu
目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼界 / 眼病 / 眼睛 / 眼睛 / 睛 / 睛 /
नयन
nayana
攜帶 / 目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼病 / 眼睛 / 眼睛 / 睛 / 睛 /

眺望
tiào wàng
उपलद्धि
upaladdhi
來看 / 所屬 / 景 / 景色 / 查看 / 檢視 / 看法 / 眺望 / 瞻 / 見解 / 觀點 / 釜 / 鑑 / 鑒 /

眼
yǎn
अक्खि
akkhi
目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼病 / 眼皮 / 眼睛 / 眼睛 / 眼瞼 / 睛 / 睛 / 瞳孔 /
चक्खु
cakkhu
目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼界 / 眼病 / 眼睛 / 眼睛 / 睛 / 睛 /
नयन
nayana
攜帶 / 目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼病 / 眼睛 / 眼睛 / 睛 / 睛 /

眼下
yǎn xià
अधुना
adhunā
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 最近 / 最近地 / 此刻 / 此時 / 現 / 現在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 / 而今 / 近來 / 近日 / 近來 /
इदानी
idāni
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 現 / 現在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /
एतरहि
etarahi
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 現 / 現在 / 現在 / 目前 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

眼
etarahi
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 現 / 現在 / 現在 / 目前 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

眼前
yǎn qián
अधुना
adhunā
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 最近 / 最近地 / 此刻 / 此時 / 現 / 現在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 / 而今 / 近來 / 近日 / 近來 /
इदानी
idāni
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 現 / 現在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /
एतरहि
etarahi
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 現 / 現在 / 現在 / 目前 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

眼珠
yǎn zhū
अक्खि
akkhi
目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼病 / 眼皮 / 眼睛 / 眼睛 / 眼瞼 / 睛 / 睛 / 瞳孔 /
चक्खु
cakkhu
目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼界 / 眼病 / 眼睛 / 眼睛 / 睛 / 睛 /
नयन
nayana
攜帶 / 目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼病 / 眼睛 / 眼睛 / 睛 / 睛 /

眼界
yǎn jiè
चक्खु
cakkhu
目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼界 / 眼病 / 眼睛 / 眼睛 / 睛 / 睛 /

眼病
yǎn bìng
अक्खि
akkhi
目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼病 / 眼皮 / 眼睛 / 眼睛 / 眼瞼 / 睛 / 睛 / 瞳孔 /
चक्खु
cakkhu
目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼界 / 眼病 / 眼睛 / 眼睛 / 睛 / 睛 /
नयन
nayana
攜帶 / 目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼病 / 眼睛 / 眼睛 / 睛 / 睛 /

眼皮
yǎn pí
अक्खि
akkhi
 目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼病 / 眼皮 / 眼睛 / 眼睛 / 眼瞼 / 睛 / 睛 / 瞳孔 /
眼睛
yǎn jing
अक्खि
akkhi
 目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼病 / 眼皮 / 眼睛 / 眼睛 / 眼瞼 / 睛 / 睛 / 瞳孔 /
अक्खि
akkhi
 目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼病 / 眼皮 / 眼睛 / 眼睛 / 眼瞼 / 睛 / 睛 / 瞳孔 /
चक्खु
cakkhu
 目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼界 / 眼病 / 眼睛 / 眼睛 / 睛 / 睛 /
चक्खु
cakkhu
 目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼界 / 眼病 / 眼睛 / 眼睛 / 睛 / 睛 /
चक्खु
cakkhu
 目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼界 / 眼病 / 眼睛 / 眼睛 / 睛 / 睛 /
नेतु
netu
 水道 / 眼睛 / 眼睛 / 瞳孔 / 領袖 /
नेतु
netu
 水道 / 眼睛 / 眼睛 / 瞳孔 / 領袖 /
नयन
nayana
 攜帶 / 目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼病 / 眼睛 / 眼睛 / 睛 / 睛 /
नयन
nayana
 攜帶 / 目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼病 / 眼睛 / 眼睛 / 睛 / 睛 /

眼瞼
yǎn jiǎn
अक्खि
akkhi
 目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼病 / 眼皮 / 眼睛 / 眼睛 / 眼瞼 / 睛 / 睛 / 瞳孔 /

眾
zhòng
गण
gana
 一群 / 人潮 / 人群 / 众 / 擁擠 / 支部 / 眾 / 組 / 群 / 隊 /

眾人
zhòng rén
जन
jana
 人 / 人中 / 人们 / 人們 / 人士 / 人心 / 人民 / 夫 / 夫 / 子民 / 成年男子 / 曼 / 民 / 民眾 / 氓 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 眾人 / 者 / 萌 /

睛
jīng
अक्खि
akkhi
 目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼病 / 眼皮 / 眼睛 / 眼睛 / 眼瞼 / 睛 / 睛 / 瞳孔 /
अक्खि
akkhi
 目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼病 / 眼皮 / 眼睛 / 眼睛 / 眼瞼 / 睛 / 睛 / 瞳孔 /
चक्खु
cakkhu
 目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼界 / 眼病 / 眼睛 / 眼睛 / 睛 / 睛 /
चक्खु
cakkhu
 目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼界 / 眼病 / 眼睛 / 眼睛 / 睛 / 睛 /
नयन
nayana
 攜帶 / 目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼病 / 眼睛 / 眼睛 / 睛 / 睛 /
नयन
nayana
 攜帶 / 目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼病 / 眼睛 / 眼睛 / 睛 / 睛 /

睡
shuì
निद्रा
niddā
 入睡 / 眠 / 睡 / 睡不著 / 睡覺 / 睡覺 / 覺 / 覺 /
睡不著
shuì bù zhe
निद्रा
niddā
 入睡 / 眠 / 睡 / 睡不著 / 睡覺 / 睡覺 / 覺 / 覺 /

睡覺
shuì jué
निद्रा
niddā
 入睡 / 眠 / 睡 / 睡不著 / 睡覺 / 睡覺 / 覺 / 覺 /

睡覺
shuì jué
निद्रा
niddā
 入睡 / 眠 / 睡 / 睡不著 / 睡覺 / 睡覺 / 覺 / 覺 /

睫毛
jié máo
पखुम
pakhuma
瞎
xiā
अन्ध
andha
 傻 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 盲 / 盲人 / 相親 / 瞎 / 瞎子 / 瞎眼 / 瞽 / 笨 / 笨的 /
काण
kāṇa
 盲 / 盲人 / 相親 / 瞎 / 瞎子 / 瞎眼 / 瞽 /

瞎子
xiā zi
अन्ध
andha
 傻 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 盲 / 盲人 / 相親 / 瞎 / 瞎子 / 瞎眼 / 瞽 / 笨 / 笨的 /
काण
kāṇa
 盲 / 盲人 / 相親 / 瞎 / 瞎子 / 瞎眼 / 瞽 /

瞎眼
xiā yǎn
अन्ध
andha
 傻 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 盲 / 盲人 / 相親 / 瞎 / 瞎子 / 瞎眼 / 瞽 / 笨 / 笨的 /
काण
kāṇa
 盲 / 盲人 / 相親 / 瞎 / 瞎子 / 瞎眼 / 瞽 /

瞬間
shùn jiān
खण
khaṇa
 一刻 / 分 / 分鐘 / 分钟 / 时刻 / 时机 / 時刻 / 時機 / 會兒 / 机会 / 機會 / 片刻 / 瞬間 / 瞬間 / 關頭 /
瞬間
shùn jiān
खण
khaṇa
 一刻 / 分 / 分鐘 / 分钟 / 时刻 / 时机 / 時刻 / 時機 / 會兒 / 机会 / 機會 / 片刻 / 瞬間 / 瞬間 / 關頭 /

瞳孔
tóng kǒng
अक्खि
akkhi
 目 / 眸 / 眼 / 眼珠 / 眼病 / 眼皮 / 眼睛 / 眼睛 / 眼瞼 / 睛 / 睛 / 瞳孔 /
नेतु
netu
 水道 / 眼睛 / 眼睛 / 瞳孔 / 領袖 /

瞻
zhān
उपलद्धि
upaladdhi
 來看 / 所屬 / 景 / 景色 / 查看 / 檢視 / 看法 / 眺望 / 瞻 / 見解 / 觀點 / 簽 / 鑑 / 鑒 /
瞽
gǔ
अन्ध
andha
 傻 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 盲 / 盲人 / 相親 / 瞎 / 瞎子 / 瞎眼 / 瞽 / 笨 / 笨的 /
काण
kāṇa
 盲 / 盲人 / 相親 / 瞎 / 瞎子 / 瞎眼 / 瞽 /

矗
chù
उठार
uṭāra
 峨 / 崧 / 嵩 / 杰出 / 矗 / 穹 / 隗 / 高尚 / 高的 / 高貴 /

矛
máo
तोमर
tomara
 矛 / 鏃 /

矛盾
máo dùn
द्वेज्झ
dvejḥha
 可疑的 / 怀疑 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 矛盾 / 置疑 /

矢
shǐ
असन
asana
 吃 / 矢 / 箭 / 食 / 食品 / 食物 / 飯 /
उसु
usu
 矢 / 箭 /
तेजन
tejana
 矢 / 箭 /

知識
zhī shi
अधिगम
adhigama
 深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /
अनुबोध
anubodha
 深知 / 理解 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 體諒 /
अवबोध
avabodha

अवबोध
avabodha
 深知 / 理解 / 理解力 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 體諒 /

आजानन
ājānana
 深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /
पञ्ञा
paññā
 智 / 智慧 / 洞察力 / 深知 / 知識 / 知识 / 知道 / 識 / 识 / 识 /
परिजानन
parijānana
 深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /
बोध

बोध
bodha
 深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /

ईसक
īsaka
 些微地 / 寡 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

知識
zhī shī
अधिगम
adhigama
 深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /
अनुबोध
anubodha
 深知 / 理解 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 體諒 /
अवबोध
avabodha
 深知 / 理解 / 理解力 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 體諒 /
आजानन
ājānana
 深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /
पञ्ञा
paññā
 智 / 智慧 / 洞察力 / 深知 / 知識 / 知识 / 知道 / 識 / 识 / 识 /
परिजानन
parijānana
 深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /
बोध
bodha
 深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /

知識
zhī dào
पञ्ञा
paññā
 智 / 智慧 / 洞察力 / 深知 / 知識 / 知识 / 知道 / 識 / 识 / 识 /

短劍
duǎn jiàn
पोत्थनिका
potthanikā
 七 / 七首 / 短劍 /

短命的
duǎn mìng de
इत्तर
ittara
 很少的 / 摘要 / 短命的 /

短的
duǎn de
अप्प
appa
 子 / 小 / 小班 / 小的 / 少 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
अप्पक
appaka

अप्पक
appaka
 子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

ईसक
īsaka
 些微地 / 寡 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 有點兒 / 有點小 / 短的 / 稍微 /

矯正	矿
jiǎo zhèng	kuàng
पटिकम्म	आकर
paṭikamma	ākara
矯正 / 贖罪 /	我的 / 矿 / 矿山 / 礦 / 雷 /
石	矿山
shí	kuàng shān
अस्मा	आकर
asmā	ākara
小石 / 核 / 石 / 石頭 /	我的 / 矿 / 矿山 / 礦 / 雷 /
उपल	砂
upala	shā
小石 / 石 / 石頭 /	पुलिन
पासाण	pulina
pāsāṇa	沙 / 沙地 / 沙地 / 沙子 / 砂 /
小石 / 岩 / 岩石 / 巖 / 晃動 / 核 / 石 / 石板 / 石頭 / 磐 / 磐石 /	
石墨	研
shí mò	yán
अब्भक	उग्गह
abbhaka	uggaha
	学 / 學習 / 研 / 研究 /
石板	研磨
shí bǎn	yán mó
पासाण	पिसन
pāsāṇa	pisana
小石 / 岩 / 岩石 / 巖 / 晃動 / 核 / 石 / 石板 / 石頭 / 磐 / 磐石 /	पिसन
	pimsana
石榴	研究
shí liú	yán jiū
दाडिम	उग्गण्हन
dādīma	uggaṇhana
榴 / 石榴 /	學習 / 研究 /
दाळिम	उग्गह
dāḷīma	uggaha
榴 / 石榴 /	学 / 學習 / 研 / 研究 /
石油	砦
shí yóu	zhài
तेल	कोट्टक
tela	koṭṭhaka
油 / 油彩 / 油料 / 油水 / 油污 / 油脂 / 石油 /	儲藏室 / 出入口 / 堡垒 / 壁櫥 / 寨 / 砦 / 要塞 / 要塞 /
石膏	खन्धावार
shí gāo	khandhāvāra
आलेप	安营 / 營 / 砦 / 营 / 陣營 / 集中營 / 露營 /
ālepa	
石膏 / 膏药 /	破
石頭	pò
shí tóu	खण्ड
अस्मा	khaṇḍa
asmā	壞掉 / 破 / 破碎 / 碎 /
小石 / 核 / 石 / 石頭 /	भग्ग
उपल	bhagga
upala	壞掉 / 破 / 破碎 / 碎 /
小石 / 石 / 石頭 /	
पासाण	
pāsāṇa	
小石 / 岩 / 岩石 / 巖 / 晃動 / 核 / 石 / 石板 / 石頭 / 磐 / 磐石 /	

破壞	破壞
pò huài	pò huài
अत्थ	अत्थ
attha	使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 谛 / 财富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /
अपचिन्न	अपचिन्न
apacinana	apacinana
उपच्छेद	उपच्छेद
upaccheda	中止 / 停止 / 破壞 /
खय	खय
khaya	khaya
廢物 / 浪費 / 浪费 / 白費 / 破壞 / 終結 / 虛度 / 衰退 /	廢物 / 浪費 / 浪费 / 白費 / 破壞 / 終結 / 虛度 / 衰退 /
घात	घात
ghāta	屠殺 / 殺害 / 破壞 /
नस्सन	नस्सन
nassana	損失 / 損失 / 破壞 / 茫然 / 败 /
नास	नास
nāsa	死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 毀滅 / 破壞 / 至死 / 身亡 /
नासन	नासन
nāsana	殺害 / 破壞 / 逐出 /
निग्घातन	निग्घातन
nigghātana	殺害 / 破壞 /
पीळन	पीळन
pīlana	伤 / 伤害 / 损 / 损伤 / 损害 / 損傷 / 損壞 / 損害 / 破壞 /
भञ्जन	भञ्जन
bhañjana	

破洞	破洞
pò dòng	pò dòng
कुहर	कुहर
kuhara	孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 窟窿 / 阱 /
छिग्गल	छिग्गल
chiggala	孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 窟窿 / 阱 /
छिद्द	छिद्द
chidda	孔 / 有洞的 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 穿孔的 / 窟窿 / 缺點 / 裂縫 / 過失 / 阱 /
बिल	बिल
bila	孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 空心 / 窟窿 / 玆 / 阱 /

破碎	破碎
pò suì	pò suì
खण्ड	खण्ड
khaṇḍa	壞掉 / 破 / 破碎 / 碎 /
भग्ग	भग्ग
bhagga	壞掉 / 破 / 破碎 / 碎 /
破綻	破綻
pò zhàn	pò zhàn
दोस	दोस
dosa	忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 愆 / 愤 / 愤怒 / 憤怒 / 毛病 / 瑕 / 耑 / 破綻 / 缺點 / 缺陷 / 缺點 / 腐敗 / 責備 / 蹉 / 過失 /
碩	碩
shuò	shuò
उरु	उरु
uru	伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 大號 / 莢 / 莢 / 弘 / 恢 / 曼 / 極大 / 硕 / 莫大 / 觥 /
तुमुल	तुमुल
tumula	伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 莢 / 莢 / 弘 / 恢 / 極大 / 盛大的 / 硕 / 莫大 / 觥 /
पुथुल	पुथुल
puthula	伟 / 大 / 大的 / 大號 / 曼 / 硕 /

硬	硬
yìng	yìng
असिथिल	असिथिल
asithila	僵 / 僵硬 / 生硬 / 硬 / 硬的 /
उपत्थद्द	उपत्थद्द
upatthaddha	僵 / 僵硬 / 生硬 / 硬 / 硬的 /
कक्खळ	कक्खळ
kakkhala	伧 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 苛刻 / 草 / 辛 / 辛苦 /
कठिन	कठिन
kāṭhina	伧 / 使勁 / 僵 / 僵硬 / 僵硬的 / 生硬 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /
खर	खर
khara	伧 / 使勁 / 固 / 尖锐 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 痛苦的 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / 銳 / 鋒利 / 銳 /
थद्द	थद्द
thaddha	使勁 / 僵 / 僵硬 / 強硬 / 強硬 / 強硬的 / 生硬 / 硬 / 硬朗 / 硬殼 / 硬的 / 艱苦 / 辛 / 辛苦 / 難纏 / 韧 /
थिर	थिर
thira	事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 快 / 恒久 / 持久 / 有耐久力 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 耐久 / 迅 / 迅速 / 速 / 遽 /
दब्ध	दब्ध
dalha	事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 穩 / 精力充沛的 /
निद्दुर	निद्दुर
niṭṭhura	伧 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /

硬朗	硬朗
yìng lǎng	yìng lǎng
थद्द	थद्द
thaddha	使勁 / 僵 / 僵硬 / 強硬 / 強硬 / 強硬的 / 生硬 / 硬 / 硬朗 / 硬殼 / 硬的 / 艱苦 / 辛 / 辛苦 / 難纏 / 韧 /

硬殼
ying ké
ककखळ
kakkhaḷa
佷 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 苛刻 / 草 / 辛 / 辛苦 /
कठिन
kaṭhina
佷 / 使勁 / 僵 / 僵硬 / 僵硬的 / 生硬 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /
खर
khara
佷 / 使勁 / 固 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 痛苦的 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / 銳 / 鋒利 / 銳 /
थद्द
thaddha
使勁 / 僵 / 僵硬 / 強硬 / 強硬的 / 生硬 / 硬 / 硬朗 / 硬殼 / 硬的 / 艱苦 / 辛 / 辛苦 / 難纏 / 韌 /
निदुर
niṭṭhura
佷 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /

硬的

ying de
असिथिल
asithila
僵 / 僵硬 / 生硬 / 硬 / 硬的 /
उपत्थद्द
upatthaddha
僵 / 僵硬 / 生硬 / 硬 / 硬的 /
ककखळ
kakkhaḷa
佷 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 苛刻 / 草 / 辛 / 辛苦 /
कठिन
kaṭhina
佷 / 使勁 / 僵 / 僵硬 / 僵硬的 / 生硬 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /
खर
khara
佷 / 使勁 / 固 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 痛苦的 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / 銳 / 鋒利 / 銳 /
थद्द
thaddha
使勁 / 僵 / 僵硬 / 強硬 / 強硬的 / 生硬 / 硬 / 硬朗 / 硬殼 / 硬的 / 艱苦 / 辛 / 辛苦 / 難纏 / 韌 /
निदुर
niṭṭhura
佷 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /
硬要
ying yào
उपनिबन्धन
upanibandhana
निबन्ध
nibandha
硬要 / 綁 /

确
què
अद्दा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
खलु
khalu
实在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
खो
kho
实在 / 實在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 當真 / 的確 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
नून
nūna
一定 / 定然 / 实在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

确定

què dìng
एकच्च
ekacca
一些 / 一番 / 些 / 必然 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某一個 / 某些 / 确定 /
एकच्चिय
ekacchiya
一些 / 一番 / 些 / 必然 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某一個 / 某些 / 确定 /

碎

sui
खण्ड
khaṇḍa
壞掉 / 破 / 破碎 / 碎 /
भग्ग
bhagga
壞掉 / 破 / 破碎 / 碎 /

碗

wǎn
पाति
pāti
一碗 / 保齡球 / 盆子 / 盤子 / 碗 / 鉢 /

碟子

dié zi
थाल
thāla
盤子 / 碟子 /

碧

bi
नील
nīla
沧 / 湛藍 / 滄 / 碧 / 藍 / 藍色 / 藍 / 藍色 / 青色 /

碰撞
pèng zhuàng
अभिघात
abhighāta
接觸 / 殺害 / 碰撞 /
आघात
āghāta
仇 / 仇恨 / 怨恨 / 憎恨 / 激怒 / 碰撞 /
पटिघ
paṭigha
厭惡 / 激怒 / 碰撞 /
पटिघात
paṭighāta
厭惡 / 碰撞 /

磕

chá
कलह
kalaha
爭執 / 爭端 / 爭議 / 爭論 / 吵 / 吵架 / 拌嘴 / 爭吵 / 爭執 / 爭論 / 磕 / 糾紛 /

磕

què
अद्दा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
खलु
khalu
实在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
खो
kho
实在 / 實在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 當真 / 的確 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
नून
nūna
一定 / 定然 / 实在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

確信

què xìn
एकन्त
ekanta
當然 / 確信 /
एकंस
ekamsa
एकंसिक
ekamsika

確實
què shí
अद्दा
addhā
一定 / 定然 / 实在 / 實在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 时 / 时候 / 时候 / 时间 / 時 / 時候 / 時光 / 時間 / 期间 / 果然 / 果真 / 甚至 / 甚至 / 當然 / 的確 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
खलु
khalu
实在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
खो
kho
实在 / 實在 / 實際上 / 果然 / 果真 / 當然 / 當真 / 的確 / 真地 / 真地 / 真夠 / 真实地 / 真是 / 真正地 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /
नून
nūna
一定 / 定然 / 实在 / 實際上 / 当然 / 当然可以 / 必定 / 果然 / 果真 / 當然 / 的確 / 真的 / 确 / 確 / 確實 /

磬

pǎn
थिर
thira
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 快 / 恆久 / 持久 / 有耐久力 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磬 / 耐久的 / 迅 / 迅速 / 速 / 遽 /
दव्ह
dalḥa
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磬 / 穩 / 精力充沛的 /
पासाण
pāsāṇa
小石 / 岩 / 岩石 / 巖 / 晃動 / 核 / 石 / 石板 / 石頭 / 磬 / 磬石 /

磬石

pán shí
पासाण
pāsāṇa
小石 / 岩 / 岩石 / 巖 / 晃動 / 核 / 石 / 石板 / 石頭 / 磬 / 磬石 /

磨石

mó shí
निकस
nikasa
निसाण
nisāṇa
磨碎
mó suì
परिमद्दन
parimaddana

礦

kuàng
आकर
ākara
我的 / 矿 / 矿山 / 礦 / 雷 /

礦坑
kuàng kēng
कासु
kāsu
坑 / 礦坑 /
礼
lǐ
उस्सव
ussava
儀式 / 典礼 / 典禮 / 礼 / 禮 /
मङ्गल
maṅgala
儀式 / 典礼 / 典禮 / 吉兆的 / 昌盛 / 泓 / 礼 / 禮 / 繁榮 / 繁榮 /

礼物

lǐ wù
उपहार
upahāra
天才 / 礼物 / 禮物 / 賜 / 贈送 / 賜 / 賜 /
उपायन
upāyana
天才 / 礼物 / 禮物 / 賜 / 贈送 / 賜 / 賜 /
चाग
cāga
天才 / 慷慨 / 礼物 / 禮物 / 賜 / 贈送 / 賜 / 賜 /

社友

shè yǒu
अनुज
anuja
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /
आवुसो
āvuso
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 朋 / 朋友 / 朋友 / 社友 / 老兄 /
भातु
bhātu
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /
भातिक
bhātika
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /

祇

zhī
एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /

祕

mì
गुय्ह
guyha
祕 / 神秘 / 秘 / 秘密 / 隱秘 /

祖先
zǔ xiān
गोत्त
gotta
宗族 / 族 / 氏族 / 祖先 / 祖宗 / 血统 /

祖宗
zǔ zōng
गोत्त
gotta
宗族 / 族 / 氏族 / 祖先 / 祖宗 / 血统 /

祖母
zǔ mǔ
अय्यका
ayyakā
奶奶 / 婆 / 祖母 /
अय्यिका
ayyikā
奶奶 / 婆 / 祖母 /

祖父
zǔ fǔ
अय्यक
ayyaka
祖父 / 老爺爺 /
पितामह
pitāmaha
祖父 / 老爺爺 /

祇
zhī
एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /

祚
zuò
आसी
āsī
庇佑 / 恩惠 / 祚 / 祝福 / 福 / 福氣 /

神
shén
अमर
amara
上帝 / 不朽 / 不朽的 / 不死 / 不死的 / 不滅 / 仙 / 仙 / 仙人 / 仙人 / 神 / 神仙 / 神仙 /
देव
deva
一群 / 上帝 / 君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 天 / 天界 / 天空 / 特大 / 王 / 神 / 雲霄 /
देवत्त
devatta
上帝 / 神 / 神性 /
निज्जर
nijjara

神仙
shén xian
अमर
amara
上帝 / 不朽 / 不朽的 / 不死 / 不死的 / 不滅 / 仙 / 仙 / 仙人 / 仙人 / 神 / 神仙 / 神仙 /
अमर
amara
上帝 / 不朽 / 不朽的 / 不死 / 不死的 / 不滅 / 仙 / 仙 / 仙人 / 仙人 / 神 / 神仙 / 神仙 /

神性
shén xìng
देवत्त
devatta
上帝 / 神 / 神性 /

祝
zhù
अभिलासा
abhilāsā
希望 / 愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /

आसा
āsā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
आसिसना
āsimsanā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
इच्छन
icchana
希望 / 愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
इच्छा
icchā
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /

छन्द
chanda
不妨 / 心願 / 必 / 意志 / 意願 / 愿望 / 慾 / 欲 / 祝 / 要 / 遺囑 /
祝福
zhù fú
आसी
āsī
庇佑 / 恩惠 / 祚 / 祝福 / 福 / 福氣 /

神
shén
अमर
amara
上帝 / 不朽 / 不朽的 / 不死 / 不死的 / 不滅 / 仙 / 仙 / 仙人 / 仙人 / 神 / 神仙 / 神仙 /
देव
deva
一群 / 上帝 / 君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 天 / 天界 / 天空 / 特大 / 王 / 神 / 雲霄 /
देवत्त
devatta
上帝 / 神 / 神性 /
निज्जर
nijjara

神
shén
अमर
amara
上帝 / 不朽 / 不朽的 / 不死 / 不死的 / 不滅 / 仙 / 仙 / 仙人 / 仙人 / 神 / 神仙 / 神仙 /
देव
deva
一群 / 上帝 / 君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 天 / 天界 / 天空 / 特大 / 王 / 神 / 雲霄 /
देवत्त
devatta
上帝 / 神 / 神性 /
निज्जर
nijjara

神
shén
अमर
amara
上帝 / 不朽 / 不朽的 / 不死 / 不死的 / 不滅 / 仙 / 仙 / 仙人 / 仙人 / 神 / 神仙 / 神仙 /
देव
deva
一群 / 上帝 / 君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 天 / 天界 / 天空 / 特大 / 王 / 神 / 雲霄 /
देवत्त
devatta
上帝 / 神 / 神性 /
निज्जर
nijjara

神
shén
अमर
amara
上帝 / 不朽 / 不朽的 / 不死 / 不死的 / 不滅 / 仙 / 仙 / 仙人 / 仙人 / 神 / 神仙 / 神仙 /
देव
deva
一群 / 上帝 / 君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 天 / 天界 / 天空 / 特大 / 王 / 神 / 雲霄 /
देवत्त
devatta
上帝 / 神 / 神性 /
निज्जर
nijjara

神
shén
अमर
amara
上帝 / 不朽 / 不朽的 / 不死 / 不死的 / 不滅 / 仙 / 仙 / 仙人 / 仙人 / 神 / 神仙 / 神仙 /
देव
deva
一群 / 上帝 / 君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 天 / 天界 / 天空 / 特大 / 王 / 神 / 雲霄 /
देवत्त
devatta
上帝 / 神 / 神性 /
निज्जर
nijjara

神
shén
अमर
amara
上帝 / 不朽 / 不朽的 / 不死 / 不死的 / 不滅 / 仙 / 仙 / 仙人 / 仙人 / 神 / 神仙 / 神仙 /
देव
deva
一群 / 上帝 / 君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 天 / 天界 / 天空 / 特大 / 王 / 神 / 雲霄 /
देवत्त
devatta
上帝 / 神 / 神性 /
निज्जर
nijjara

神
shén
अमर
amara
上帝 / 不朽 / 不朽的 / 不死 / 不死的 / 不滅 / 仙 / 仙 / 仙人 / 仙人 / 神 / 神仙 / 神仙 /
देव
deva
一群 / 上帝 / 君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 天 / 天界 / 天空 / 特大 / 王 / 神 / 雲霄 /
देवत्त
devatta
上帝 / 神 / 神性 /
निज्जर
nijjara

神的食物
shén de shí wù
अमत
amata

神秘
shén mì
गुह्य
guyha
祕 / 神秘 / 秘 / 秘密 / 隱秘 /

祭典
jì diǎn
छण
chaṇa
祭典 / 節 / 節慶 / 節日 / 节 / 节庆 /

祭品
jì pǐn
अच्यना
accanā
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 祭品 / 翊 / 荣誉 /

祭拜
jì bài
अपचायन
apacāyana
供奉 / 尊敬 / 崇 / 崇拜 / 崇敬 / 拜 / 敬神 / 敬重 / 祭拜 / 禮拜 /
नमस्सन
namassana
供奉 / 尊敬 / 崇 / 崇拜 / 崇敬 / 拜 / 敬神 / 祭拜 / 禮拜 /

禁
jìn
निसेध
nisedha
取締 / 抑制 / 班固 / 禁 / 禁令 / 禁止 / 防范 / 預防 / 預防 /

禁令
jìn lìng
निसेध
nisedha
取締 / 抑制 / 班固 / 禁 / 禁令 / 禁止 / 防范 / 預防 / 預防 /
पटिसेध
paṭisedha
禁令 / 禁止 / 防止 / 預防 /

禁欲
jìn yù
आतापन
ātāpana
受刑 / 折磨 / 拷問 / 拷打 / 禁欲 / 酷刑 /
आरति
ārati

禁止
jìn zhǐ
निसेध
nisedha
取締 / 抑制 / 班固 / 禁 / 禁令 / 禁止 / 防范 / 預防 / 預防 /
पटिसेध
paṭisedha
禁令 / 禁止 / 防止 / 預防 /

禁
jìn
निसेध
nisedha
取締 / 抑制 / 班固 / 禁 / 禁令 / 禁止 / 防范 / 預防 / 預防 /
पटिसेध
paṭisedha
禁令 / 禁止 / 防止 / 預防 /

禁
jìn
निसेध
nisedha
取締 / 抑制 / 班固 / 禁 / 禁令 / 禁止 / 防范 / 預防 / 預防 /
पटिसेध
paṭisedha
禁令 / 禁止 / 防止 / 預防 /

禁食的
jìn shí de
निराहार
nirāhāra

福
fú
आसी
āsī
庇佑 / 恩惠 / 祚 / 祝福 / 福 / 福氣 /

福利
fú lì
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 谛 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /

कल्याण
kalyāṇa
仁慈 / 德行 / 福利 / 福祉 / 美德 / 迷人的 /

福氣
fú qì
आसी
āsī
庇佑 / 恩惠 / 祚 / 祝福 / 福 / 福氣 /

福祉
fú zhǐ
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 谛 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /

कल्याण
kalyāṇa
仁慈 / 德行 / 福利 / 福祉 / 美德 / 迷人的 /

कल्याण
kalyāṇa
仁慈 / 德行 / 福利 / 福祉 / 美德 / 迷人的 /

कल्याण
kalyāṇa
仁慈 / 德行 / 福利 / 福祉 / 美德 / 迷人的 /

कल्याण
kalyāṇa
仁慈 / 德行 / 福利 / 福祉 / 美德 / 迷人的 /

कल्याण
kalyāṇa
仁慈 / 德行 / 福利 / 福祉 / 美德 / 迷人的 /

禧
xǐ
आनन्द
ānanda

喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
तुट्ठि
tuttṭhi
喜悅 / 喜悦 / 娛 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 高兴 /

तुस्सना
tussanā
喜悅 / 喜悦 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
नन्दि
nandi
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 渴望 / 渴求 / 禧 / 禧 /

नन्दि
nandi
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 渴望 / 渴求 / 禧 / 禧 /
पमोद
pamoda
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 禧 /

पमोद
pamoda
喜悅 / 喜悦 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 禧 /
पामुज्ज
pāmujja
喜悅 / 喜悦 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /

पामुज्ज
pāmujja
喜悅 / 喜悦 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /
पामोज्ज
pāmojja
喜悅 / 喜悦 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /

पीति
pīti
喜悅 / 喜悦 / 情緒 / 情趣 / 欢乐 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 /

禮
lǐ
उस्सव
ussava
儀式 / 典礼 / 典禮 / 礼 / 禮 /
मङ्गल
maṅgala
儀式 / 典礼 / 典禮 / 吉兆的 / 昌盛 / 泓 / 礼 / 禮 / 繁榮 / 繁榮 /

禮拜
lǐ bài
अपचायन
apacāyana
供奉 / 尊敬 / 崇 / 崇拜 / 崇敬 / 拜 / 敬神 / 敬重 / 祭拜 / 禮拜 /
नमस्सन
namassana
供奉 / 尊敬 / 崇 / 崇拜 / 崇敬 / 拜 / 敬神 / 祭拜 / 禮拜 /

अपचायन
apacāyana
供奉 / 尊敬 / 崇 / 崇拜 / 崇敬 / 拜 / 敬神 / 敬重 / 祭拜 / 禮拜 /
नमस्सन
namassana
供奉 / 尊敬 / 崇 / 崇拜 / 崇敬 / 拜 / 敬神 / 祭拜 / 禮拜 /

अपचायन
apacāyana
供奉 / 尊敬 / 崇 / 崇拜 / 崇敬 / 拜 / 敬神 / 敬重 / 祭拜 / 禮拜 /
नमस्सन
namassana
供奉 / 尊敬 / 崇 / 崇拜 / 崇敬 / 拜 / 敬神 / 祭拜 / 禮拜 /

禮物
lǐ wù
उपहार
upahāra
天才 / 礼物 / 禮物 / 賜 / 贈送 / 賜 / 賜 /
उपायन
upāyana
天才 / 礼物 / 禮物 / 賜 / 贈送 / 賜 / 賜 /
चाग
cāga
天才 / 慷慨 / 礼物 / 禮物 / 賜 / 贈送 / 賜 / 賜 /
पण्णाकार
pañṇākāra
पाहुण
pāhuṇa
來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 来宾 / 禮物 / 賓 /

私人的
sī rén de
अज्झत्त
ajjhatta
个人 / 人身 / 個人 / 私人的 /

种
zhǒng
बीज
bīja
种 / 种子 / 種 / 種子 / 籽 /

种子
zhǒng zǐ
बीज
bīja
种 / 种子 / 種 / 種子 / 籽 /

种族
zhǒng zú
जाति
jāti
再生 / 出生 / 出身 / 国 / 国家 / 民族 / 生下 / 生出 / 种族 / 種族 / 誕 / 诞 / 賽跑 / 賽馬 /

秒
miǎo
दुतिय
dutiya
二等 / 伯仲叔季 / 秒 / 第二 / 第二次 / 第二的 /

秘
mì
गुह्य
guyha
祕 / 神秘 / 秘 / 秘密 / 隱秘 /

秘密
mì mì
गुह्य
guyha
祕 / 神秘 / 秘 / 秘密 / 隱秘 /

秤
chèng
तुला
tulā
天平 / 平衡 / 椽 / 秤 /

秩序
zhì xù
अनुक्कम
anukkama
令 / 命令 / 序 / 序列 / 承 / 排序 / 旨意 / 檄 / 次序 / 秩序 / 程 / 系列 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 / 順序 /
आनुपुब्बी
ānupubbī
令 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 /
पटिपाटि
paṭipāṭi
令 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 /
परियाय
pariyāya
令 / 序 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 轉動 / 順序 / 順序 /

称赞
chēng zàn
परंसा
paśamsā
称赞 / 赞美 /

移出
yí chū
बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /

移動
yí dòng
चञ्चल
cañcala
不穩定 / 移動 /

秽
huì
असुचि
asuci
垢 / 大便 / 屎 / 排泄物 / 污 / 污垢 / 泥 / 泥 / 秽 / 精液 / 糞 /
उक्लाप
uklāpa
垃圾 / 垢 / 废物 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 /
कालुसिया
kālusiya
垢 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 / 陰暗 /
जल्लिका
jallikā
垢 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 /

稀薄
xī bó
तनु
tanu
消瘦 / 瘦 / 瘦的 / 稀薄 / 稀薄 / 精巧 / 細 / 薄 / 薄 / 薄的 / 薄的 /
तनु
tanu
消瘦 / 瘦 / 瘦的 / 稀薄 / 稀薄 / 精巧 / 細 / 薄 / 薄 / 薄的 / 薄的 /

稀薄
xī bó
तनु
tanu
消瘦 / 瘦 / 瘦的 / 稀薄 / 稀薄 / 精巧 / 細 / 薄 / 薄 / 薄的 / 薄的 /

秤
chèng
तुला
tulā
天平 / 平衡 / 椽 / 秤 /

稅
shuì
कर
kara
一手 / 伸手 / 光線 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 指甲 / 稅 / 稅 / 笔迹 /
बलि
bali
岁入 / 收入 / 收益 / 稅 / 稅 / 進帳 /

稅前
shuì qián
पुरतो
purato
之前 / 在前 / 從前 / 此前 / 稅前 / 面前 /

程
chéng
अनुक्कम
anukkama
令 / 命令 / 序 / 序列 / 承 / 排序 / 旨意 / 檄 / 次序 / 秩序 / 程 / 系列 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 / 順序 /
गमन
gamana
去 / 導致 / 征程 / 征途 / 散步 / 旅游 / 旅游 / 旅程 / 旅程 / 旅行 / 旅行 / 旅途 / 程 / 追逐 /
चारिका
cārikā
征程 / 征途 / 旅游 / 旅程 / 旅程 / 旅行 / 旅行 / 旅途 / 程 /

程式
chéng shì
पटिपज्जन
paṭipajjana
程式 / 練習 / 遵守 /
श्रीक
śhīka
些微地 / 寡 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 有點兒 / 有點小 / 短的 / 稍微 /

稅
shuì
कर
kara
一手 / 伸手 / 光線 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 指甲 / 稅 / 稅 / 笔迹 /
बलि
bali
岁入 / 收入 / 收益 / 稅 / 稅 / 進帳 /

稍微
shāo wēi
ईसक
īsaka
些微地 / 寡 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 有點兒 / 有點小 / 短的 / 稍微 /

稅
shuì
कर
kara
一手 / 伸手 / 光線 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 指甲 / 稅 / 稅 / 笔迹 /
बलि
bali
岁入 / 收入 / 收益 / 稅 / 稅 / 進帳 /

稚
zhì
तरुण
taruṇa
仔 / 少 / 年少 / 年紀 / 年輕 / 年輕人 / 年轻 / 年轻的 / 年青 / 幼 / 稚 /

種
zhǒng
बीज
bīja
种 / 种子 / 種 / 種子 / 籽 /
जति
jāti
再生 / 出生 / 出身 / 国 / 国家 / 民族 / 生下 / 生出 / 种族 / 種族 / 誕 / 诞 / 賽跑 / 賽馬 /

稱呼
chēng hū
आमन्तन
āmantana
呼叫 / 稱呼 / 邀請 /

稠
chóu
गहन
gahana
丛林 / 厚 / 厚的 / 叢林 / 密 / 密封的 / 稠 / 粗 / 萃 / 蕪 /
घन
ghana
厚 / 厚的 / 固 / 密 / 密集的 / 捶 / 棍棒 / 槌 / 稠 / 粗 / 結實 / 萃 / 蕪 / 錘子 / 锤 /
बहल
bahala
厚 / 厚的 / 密 / 密集的 / 稠 / 粗 / 萃 / 蕪 /

種
zhǒng
बीज
bīja
种 / 种子 / 種 / 種子 / 籽 /
जति
jāti
再生 / 出生 / 出身 / 国 / 国家 / 民族 / 生下 / 生出 / 种族 / 種族 / 誕 / 诞 / 賽跑 / 賽馬 /

種子
zhǒng zǐ
बीज
bīja
种 / 种子 / 種 / 種子 / 籽 /

種族
zhǒng zú
जाति
jāti
再生 / 出生 / 出身 / 国 / 国家 / 民族 / 生下 / 生出 / 种族 / 種族 / 誕 / 诞 / 賽跑 / 賽馬 /

稱呼
chēng hū
आमन्तन
āmantana
呼叫 / 稱呼 / 邀請 /

穢
zhě
काय
kāya
体 / 堆 / 穢 / 聚集 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
चिति
citi
堆 / 穢 /
पूग
pūga
堆 / 穢 /
पुञ्ज
puñja
一堆 / 堆 / 桩 / 椿 / 穢 /

稻草
dào cǎo
पलाल
palāla
吸管 / 稻草 / 草 /

穩
wěn
दब्ध
dabha
事務所 / 公司 / 固 / 堅 / 堅決 / 堅定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 穩 / 精力充沛的 /

穩妥
wěn tuǒ
अभय
abhaya
保險 / 保險箱 / 安 / 安全 / 安全性 / 安全的 / 安危 / 穩妥 /
खेम
khema
保險箱 / 太平 / 安 / 安全 / 安全地 / 穩妥 /

穩定性
wěn dìng xìng
ठिति
thiti

穰
ráng
पहूत
pahūta
丰 / 丰富的 / 充份 / 充沛 / 沛 / 盎 / 盎然 / 穰 / 裕 /

穴
xué
कुहर
kuhara
孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 窟窿 / 阱 /
कुहर
kuhara
孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 窟窿 / 阱 /

छिगल
chiggala
孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 窟窿 / 阱 /
छिगल
chiggala
孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 窟窿 / 阱 /

孔
kǒng
कुहर
kuhara
孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 窟窿 / 阱 /
छिगल
chiggala
孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 窟窿 / 阱 /

穢
zhě
काय
kāya
体 / 堆 / 穢 / 聚集 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
चिति
citi
堆 / 穢 /
पूग
pūga
堆 / 穢 /
पुञ्ज
puñja
一堆 / 堆 / 桩 / 椿 / 穢 /

穢
zhě
काय
kāya
体 / 堆 / 穢 / 聚集 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
चिति
citi
堆 / 穢 /
पूग
pūga
堆 / 穢 /
पुञ्ज
puñja
一堆 / 堆 / 桩 / 椿 / 穢 /

穢
zhě
काय
kāya
体 / 堆 / 穢 / 聚集 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
चिति
citi
堆 / 穢 /
पूग
pūga
堆 / 穢 /
पुञ्ज
puñja
一堆 / 堆 / 桩 / 椿 / 穢 /

穢
zhě
काय
kāya
体 / 堆 / 穢 / 聚集 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
चिति
citi
堆 / 穢 /
पूग
pūga
堆 / 穢 /
पुञ्ज
puñja
一堆 / 堆 / 桩 / 椿 / 穢 /

穢
zhě
काय
kāya
体 / 堆 / 穢 / 聚集 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
चिति
citi
堆 / 穢 /
पूग
pūga
堆 / 穢 /
पुञ्ज
puñja
一堆 / 堆 / 桩 / 椿 / 穢 /

究竟
jiū jìng
अभिसन्द
abhisanda
成效 / 成果 / 效果 / 果 / 流出 / 究竟 / 結果 / 结果 /
अभिसन्दन
abhisandana
成效 / 成果 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 現在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
निप्फज्जन
nippahjana
作用 / 做 / 印象 / 影响 / 成就 / 成效 / 成果 / 成績 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निप्फत्ति
nipphatti
作用 / 完成 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निस्सन्द
nissanda
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /
पि
pi
不過 / 乃是 / 也許 / 也许 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 可能 / 大概 / 恐怕 / 惟 / 或 / 或許 / 或许 / 然 / 然而 / 究竟 /
फल
phala
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 果实 / 果實 / 果心 / 水果 / 究竟 / 結果 / 结果 /

穹
qióng
उळार
ulāra
峨 / 崧 / 嵩 / 杰出 / 矗 / 穹 / 隗 / 高尚 / 高的 / 高貴 /

空
kōng
तुच्छ
tuccha
寥 / 楞 / 楞 / 清空 / 空 / 空心 / 空格 / 空洞 / 空瓶 / 空白 / 空的 / 空著 / 扎 /

空
kōng
आकास
ākāsa
天 / 天界 / 天空 / 空地 / 空地 / 空白 / 空間 / 空间 / 雲霄 /
तुच्छ
tuccha
寥 / 楞 / 楞 / 清空 / 空 / 空心 / 空格 / 空洞 / 空瓶 / 空白 / 空的 / 空著 / 扎 /

空地
kōng de
अङ्गण
aṅgaṇa
空地 / 空地 /
अङ्गण
aṅgaṇa
空地 / 空地 /
आकास
ākāsa
天 / 天界 / 天空 / 空地 / 空地 / 空白 / 空間 / 空间 / 雲霄 /
आकास
ākāsa
天 / 天界 / 天空 / 空地 / 空地 / 空白 / 空間 / 空间 / 雲霄 /
ओकास
okāsa
准许 / 机会 / 機會 / 空地 / 空地 / 空間 / 許可 /
ओकास
okāsa
准许 / 机会 / 機會 / 空地 / 空地 / 空間 / 許可 /

空心
kōng xīn
तुच्छ
tuccha
寥 / 楞 / 楞 / 清空 / 空 / 空心 / 空格 / 空洞 / 空瓶 / 空白 / 空的 / 空著 / 扎 /
बिल
bila
孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 空心 / 窟窿 / 扎 / 阱 /

空格
kōng gé
तुच्छ
tuccha
寥 / 楞 / 楞 / 清空 / 空 / 空心 / 空格 / 空洞 / 空瓶 / 空白 / 空的 / 空著 / 扎 /
空洞

穹
kōng dòng
तुच्छ
tuccha
寥 / 楞 / 楞 / 清空 / 空 / 空心 / 空格 / 空洞 / 空瓶 / 空白 / 空的 / 空著 / 扎 /

空瓶
kōng píng
तुच्छ
tuccha
寥 / 楞 / 楞 / 清空 / 空 / 空心 / 空格 / 空洞 / 空瓶 / 空白 / 空的 / 空著 / 扎 /

空白
kōng bái
आकास
ākāsa
天 / 天界 / 天空 / 空地 / 空地 / 空白 / 空間 / 空间 / 雲霄 /
तुच्छ
tuccha
寥 / 楞 / 楞 / 清空 / 空 / 空心 / 空格 / 空洞 / 空瓶 / 空白 / 空的 / 空著 / 扎 /

空的
kōng de
तुच्छ
tuccha
寥 / 楞 / 楞 / 清空 / 空 / 空心 / 空格 / 空洞 / 空瓶 / 空白 / 空的 / 空著 / 扎 /

空著
kōng zhe
तुच्छ
tuccha
寥 / 楞 / 楞 / 清空 / 空 / 空心 / 空格 / 空洞 / 空瓶 / 空白 / 空的 / 空著 / 扎 /

空間
kōng jiān
आकास
ākāsa
天 / 天界 / 天空 / 空地 / 空地 / 空白 / 空間 / 空间 / 雲霄 /
ओकास
okāsa
准许 / 机会 / 機會 / 空地 / 空地 / 空間 / 許可 /
空間

空心
kōng jiān
आकास
ākāsa
天 / 天界 / 天空 / 空地 / 空地 / 空白 / 空間 / 空间 / 雲霄 /
穿孔的
chuān kǒng de
छिद्द
chidda
孔 / 有洞的 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 穿孔的 / 窟窿 / 缺點 / 裂縫 / 過失 / 阱 /

穿戴
chuān dài
निवासन
nivāsana
打扮 / 打扮 / 服 / 服装 / 服裝 / 洋裝 / 穿戴 / 衣服 / 衣物 / 衣裳 /

穿著
chuān zhù
पिलन्धन
pilandhana
穿著 / 裝飾 /

穿越
chuān yuè
नित्थरण
nittharaṇa
克服 / 完成 / 穿越 /

窳
zhūn
गरुक
garuka
岸然 / 惨重 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 窳 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重大 / 重的 / 重要 / 重要的 / 重重 /

突起
tū qǐ
कूट
kūṭa
上端 / 冈 / 坎 / 尖峰 / 山脊 / 山脊 / 岡 / 峙 / 峰 / 欺騙 / 突起 / 脊 / 脊 / 謊言 / 頂峰 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 高峰 /

窳
yǎo
अनुत्तान
anuttāna
冥 / 暗的 / 根深 / 模糊的 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深遠 / 淵 / 湛 / 窳 / 羣 / 遂 /

गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奥的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深遠 / 淵 / 湛 / 窳 / 羣 / 遂 / 邈 /
गाध
gādha
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深度 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深遠 / 淵 / 湛 / 窳 / 羣 / 遂 /

窳
qiào
पटिभाण
paṭibhāṇa
情報 / 情报 / 敏捷 / 智力 / 理智 / 窳 /

बु
buddhi
估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情報 / 情报 / 旄 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 窳 / 精神 / 老 / 老的 / 耄 / 舊 / 舊的 /

窗
chuāng
आलोकन
ālokana
窗 / 窗口 / 窗子 / 窗戶 / 窗户 /
आलोकसन्धि
ālokasandhi
窗 / 窗口 / 窗子 / 窗戶 / 窗户 /
उल्लोकन
ullokana
窗 / 窗口 / 窗子 / 窗戶 / 窗户 /
कवाट
kavāṭa
窗 / 窗口 / 窗子 / 窗戶 / 窗户 /

窗口
chuāng kǒu
आलोकन
ālokana
窗 / 窗口 / 窗子 / 窗戶 / 窗户 /
आलोकसन्धि
ālokasandhi
窗 / 窗口 / 窗子 / 窗戶 / 窗户 /
उल्लोकन
ullokana
窗 / 窗口 / 窗子 / 窗戶 / 窗户 /
कवाट
kavāṭa
窗 / 窗口 / 窗子 / 窗戶 / 窗户 /

窗外
chuāng wài
तिरो
tiro
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 超出 / 超过 / 門外 /
बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /
बहिद्द
bahiddhā
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 門外 /
बाहिर
bāhira
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外国的 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 洋 / 番 / 窗外 / 門外 /

窗子
chuāng zi
आलोकन
ālokana
窗 / 窗口 / 窗子 / 窗戶 / 窗户 /
आलोकसन्धि
ālokasandhi
窗 / 窗口 / 窗子 / 窗戶 / 窗户 /
उल्लोकन
ullokana
窗 / 窗口 / 窗子 / 窗戶 / 窗户 /
कवाट
kavāṭa
窗 / 窗口 / 窗子 / 窗戶 / 窗户 /

窗戶
chuāng hù
आलोकन
ālokana
窗 / 窗口 / 窗子 / 窗戶 / 窗户 /
आलोकसन्धि
ālokasandhi
窗 / 窗口 / 窗子 / 窗戶 / 窗户 /
उल्लोकन
ullokana
窗 / 窗口 / 窗子 / 窗戶 / 窗户 /
कवाट
kavāṭa
窗 / 窗口 / 窗子 / 窗戶 / 窗户 /

窗戶
chuāng hù
आलोकन
ālokana
窗 / 窗口 / 窗子 / 窗戶 / 窗户 /
आलोकसन्धि
ālokasandhi
窗 / 窗口 / 窗子 / 窗戶 / 窗户 /
उल्लोकन
ullokana
窗 / 窗口 / 窗子 / 窗戶 / 窗户 /
कवाट
kavāṭa
窗 / 窗口 / 窗子 / 窗戶 / 窗户 /

窩
wō
कुलावक
kulāvaka
巢 / 窩 / 窠 / 窩 / 蔴 / 鳥巢 /
निड्ड
niḍḍa
巢 / 窩 / 窠 / 窩 / 蔴 / 鳥巢 /

窟
kū
गब्भर
gabbhara
山洞 / 洞 / 洞穴 / 洞穴 / 窟 /

窟窿
kū long
कुहर
kuhara
孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 窟窿 / 阱 /
छिगल
chiggala
孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 窟窿 / 阱 /
छिद्द
chidda
孔 / 有洞的 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 穿孔的 / 窟窿 / 缺點 / 裂縫 / 過失 / 阱 /
बिल
bila
孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 空心 / 窟窿 / 玆 / 阱 /

窠
kē
कुलावक
kulāvaka
巢 / 窩 / 窠 / 窩 / 蔴 / 鳥巢 /
निड्ड
niḍḍa
巢 / 窩 / 窠 / 窩 / 蔴 / 鳥巢 /

窩
wō
कुलावक
kulāvaka
巢 / 窩 / 窠 / 窩 / 蔴 / 鳥巢 /
निड्ड
niḍḍa
巢 / 窩 / 窠 / 窩 / 蔴 / 鳥巢 /
竊
qiè
दुइ
duṭṭha
不善 / 不良 / 不道德的 / 坏的 / 竊 /

竊賊
qiè zéi
चोर
cora
小偷 / 強盜 / 盜 / 盜 / 盜賊 / 竊賊 / 賊 / 賊 /
तक्कर
takkara
小偷 / 盜 / 盜 / 竊賊 / 賊 / 賊 /
थेन
thena
小偷 / 盜 / 盜 / 竊賊 / 賊 / 賊 /
थेनक
thenaka
小偷 / 盜 / 盜 / 竊賊 / 賊 / 賊 /

立刻
lì kè
अधुना
adhunā
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 最近 / 最近地 / 此刻 / 此時 / 現 / 現在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 / 而今 / 近來 / 近日 / 近來 /
इदानी
idāni
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 現 / 現在 / 現在 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /
एतरहि
etarahi
今 / 今朝 / 刚才 / 在眼前 / 如今 / 此刻 / 此時 / 現 / 現在 / 現在 / 目前 / 眼下 / 眼前 / 立刻 / 而今 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 則 / 剛才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 現在 / 現在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

立即地
lì jí dì
तावदे
tāvade
立即地 / 那時 /
तावदेव
tāvadeva
立即地 / 那時 /
章
zhāng
अज्झाय
ajjhāya
卷 / 章 / 篇 / 篇章 /

竣
jùn
अनवसेस
anavasesa
全部 / 完 / 完全 / 完全地 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 竣 / 通通 /

童
tóng
कुमार
kumāra
僮 / 好孩子 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
कुमारक
kumāraka
僮 / 好孩子 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
दहर
dahara
僮 / 好孩子 / 少年 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
दारक
dāraka
僮 / 好孩子 / 小孩 / 少年 / 年青人 / 男孩 / 男孩儿 / 男孩子 / 童 /
पुल्ल
putta
儿 / 儿 / 儿子 / 儿童 / 兒 / 兒子 / 兒童 / 公子 / 团 / 女婿 / 女婿 / 子 / 子女 / 子女 / 孥 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 童 /

बाल
bāla
傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孥 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /

童年
tóng nián
बाल्य
bālya
小時候 / 幼年 / 幼年时代 / 愚蠢 / 童年 / 自小 / 自幼 / 蠢事 /

端
duān
अगग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 首 / 首先 /
अन्त
anta
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 结束 / 道 / 頂端 /
अपवगग
apavagga
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 结束 / 道 /

अवसान
avasāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 结束 / 道 /
ओसान
osāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 结束 / 道 /
कोटि
koṭi
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 结束 / 道 / 點 /

कोण
koṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 结束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /
निडा
niṭṭhā
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 结束 / 道 /

परिनिदान
pariniṭṭhāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 结束 / 道 /

परिनिट्ठान
pariniṭṭhāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 结束 / 道 /

परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 滙 / 眇 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 结束 / 缘 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियोसान
pariyosāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 结束 / 道 /

端上
duān shàng

अग्र
agga

一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 首 / 首先 /
अन्त
anta

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球門 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂端 /
अपवर्ग
apavagga

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
अवसान
avasāna

下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
ओसान
osāna

下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
कोटि
koṭi

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 點 /
कोण
koṇa

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 磅 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /
निट्टा
niṭṭhā

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
परिनिट्टान
pariniṭṭhāna

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

परियन्त
pariyanta

下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 極限 / 稜 / 極限 / 止境 / 溜 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियोसान
pariyosāna

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
端口
duān kǒu

पट्टन
paṭṭana

口岸 / 埠 / 左舷的 / 港口 / 端口 / 避难所 /

端口

笑
xiào

जग्घना
jagghanā

परिहास
parihāsa

嘲弄 / 笑 /

笔迹

बिंजि
कर

kara

一手 / 伸手 / 光線 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 指甲 / 稅 / 稅 / 笔迹 /
पाणि
pāṇi

一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手掌 / 手邊 / 手頭 / 掌 / 掌心 / 棕 / 笔迹 /
भुज
bhuja

一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手臂 / 手臂 / 手邊 / 手頭 / 笔迹 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /

符

फु
धज

dhaja

帜 / 幟 / 徽 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 符 / 符號 / 象征 / 象徵 /
符合
fú hé

अन्वय
anvaya

一致 / 传统 / 傳統 / 符合 / 過程 /
एकत्त
ekatta

协议 / 協定 / 協議 / 契约 / 寂寞 / 符合 /
कतिका
katikā

交談 / 协议 / 協定 / 協議 / 契約 / 契约 / 符合 /

符號
fú hào

धज
dhaja

帜 / 幟 / 徽 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 符 / 符號 / 象征 / 象徵 /
笨
bèn

अन्ध
andha

傻 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 盲 / 盲人 / 相親 / 瞎 / 瞎子 / 瞎眼 / 瞽 / 笨 / 笨的 /
जळ
jala

傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दन्ध
dandha

傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दुप्पञ्ज
duppañña

傻 / 傻子 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
बाल
bāla

傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孥 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /

जळ
jala

傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दन्ध
dandha

傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दुप्पञ्ज
duppañña

傻 / 傻子 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
दुम्मेध
dummedha

傻 / 傻子 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /

बाल
bāla

傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孥 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
बाल
bāla

傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孥 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
दुम्मेध
dummedha

傻 / 傻子 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
बाल
bāla

傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孥 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /

दुम्मेध
dummedha

傻 / 傻子 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
बाल
bāla

傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孥 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
दुम्मेध
dummedha

傻 / 傻子 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
बाल
bāla

傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孥 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /

笨的
bèn de

अन्ध
andha

傻 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 盲 / 盲人 / 相親 / 瞎 / 瞎子 / 瞎眼 / 瞽 / 笨 / 笨的 /
जळ
jala

傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दन्ध
dandha

傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दुप्पञ्ज
duppañña

傻 / 傻子 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
दुम्मेध
dummedha

傻 / 傻子 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /

笨蛋

बेंदंन
दुप्पञ्ज

duppañña

傻 / 傻子 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
दुम्मेध
dummedha

傻 / 傻子 / 呆 / 愚蠢的 / 痴 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /
बाल
bāla

傻 / 傻子 / 儿 / 儿 / 儿童 / 兒 / 兒童 / 呆 / 团 / 子 / 子女 / 孥 / 孩 / 孩子 / 孺 / 小孩 / 小孩子 / 幼 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 痴 / 童 / 笨 / 笨的 / 笨蛋 /

笨重
bèn zhòng

गरु
garu

值得尊敬的 / 可敬的 / 導師 / 師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /
गुरु
guru

師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /
गरुक
garuka

岸然 / 慘重 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 砲 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重大 / 重的 / 重要 / 重要的 / 重重 /
भारिक
bhārika

慘重 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重的 / 重重 /

第一

दिंयि
अग्र

agga

一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 首 / 首先 /
आदि
ādi

一次 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 開始 / 首 / 首先 /
पठम
paṭhama

一次 / 乍 / 元 / 先 / 先前的 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 起先 / 首 / 首先 /

第一個

दिंयिं गे
अग्र

agga

一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 首 / 首先 /
आदि
ādi

一次 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 開始 / 首 / 首先 /
पठम
paṭhama

一次 / 乍 / 元 / 先 / 先前的 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 起先 / 首 / 首先 /

पठम
paṭhama

一次 / 乍 / 元 / 先 / 先前的 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 起先 / 首 / 首先 /

第一名
dì yī míng
अगग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 頂點 / 頂端 / 首 / 首先 /
आदि
ādi
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 開始 / 首 / 首先 /
पठम
paṭhama
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先前的 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 第一次 / 起先 / 首 / 首先 /

第一次
dì yī cì
अगग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 頂點 / 頂端 / 首 / 首先 /
आदि
ādi
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 開始 / 首 / 首先 /
पठम
paṭhama
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先前的 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 起先 / 首 / 首先 /

第一的
dì yī de
पामोक्ख
pāmokkha
主要的 / 第一的 / 領袖 / 首席 / 魁 /

第三
dì sān
ततिय
tatiya
三次 / 三等 / 丙 / 協力 / 第三 / 第三次 /

第三次
dì sān cì
ततिय
tatiya
三次 / 三等 / 丙 / 協力 / 第三 / 第三次 /

第九
dì jiǔ
नवम
navama

第二
dì èr
दुतिय
dutiya
二等 / 伯仲叔季 / 秒 / 第二 / 第二次 / 第二的 /

第二次的
dì èr cì
दुतिय
dutiya
二等 / 伯仲叔季 / 秒 / 第二 / 第二次 / 第二的 /

第二的
dì èr de
दुतिय
dutiya
二等 / 伯仲叔季 / 秒 / 第二 / 第二次 / 第二的 /

第六的
dì liù de
छट्ठ
chaṭṭha

第四
dì sì
चतुत्थ
catuttha
第四 / 第四的 /

第四的
dì sì de
चतुत्थ
catuttha
第四 / 第四的 /

笪
lǒng
पञ्जर
pañjara
笪 / 笪 / 籠 / 籠子 /
पञ्जर
pañjara
笪 / 笪 / 籠 / 籠子 /

等候
dēng hou
उपइान
upaṭṭhāna
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 理解 / 等候 / 等候 / 維修 / 認識 / 諒解 / 认识 / 认识 / 體諒 /
उपइान
upaṭṭhāna
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 理解 / 等候 / 等候 / 維修 / 認識 / 諒解 / 认识 / 认识 / 體諒 /

पारिचरिया
pāricariyā
पारिचरिया
pañjara
笪 / 笪 / 籠 / 籠子 /
पारिचरिया
pañjara
笪 / 笪 / 籠 / 籠子 /
पारिचरिया
pāricariyā
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 理解 / 等候 / 等候 / 維修 /

等於
děng yú
पटिभाग
paṭibhāga
侷 / 均 / 均衡 / 相似的 / 相等 / 等於 /

等級
dēng jí
तुलन
tulana

筋肉
jīn ròu
नहारु
nahāru
筋肉 / 肌肉 / 肌腱 / 腱 / 腱子 /
न्हारु
nhāru
筋肉 / 肌肉 / 肌腱 / 腱 / 腱子 /

筏
fá

कुल्ल
kulla
木筏 / 槎 / 筏 /
प्लव
plava
木筏 / 槎 / 浮子 / 筏 /

筐
kuāng
पुट
puṭa
一籃 / 兜 / 匭 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 梲 / 孟 / 筐 / 筭 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पुटक
puṭaka
一籃 / 兜 / 匭 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 梲 / 孟 / 筐 / 筭 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पिटक
piṭaka
一籃 / 匭 / 吊籃 / 梲 / 筐 / 筭 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 /

答
dá

उत्तर
uttara
上面的 / 北方 / 北方的 / 响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /
पटिवचन
paṭivacana
响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /

答對
dá duì
उत्तर
uttara
上面的 / 北方 / 北方的 / 响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /
पटिवचन
paṭivacana
响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /

答應
dá yīng
पटिञ्जा
paṭiññā
同意 / 有希望 / 答應 / 約定 / 許 / 許可 / 許諾 / 諾 / 諾言 /
पटिस्सव
paṭissava
有希望 / 答應 / 約定 / 許 / 許諾 / 諾 / 諾言 / 贊成 /

答案
dá àn
उत्तर
uttara
上面的 / 北方 / 北方的 / 响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /
पटिवचन
paṭivacana
响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /

答覆
dá fù
उत्तर
uttara
上面的 / 北方 / 北方的 / 响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /
पटिवचन
paṭivacana
响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /

策
cè
नय
naya
打算 / 方式 / 方案 / 方法 / 模式 / 策 / 策劃 / 舉止 / 計劃 / 計畫 / 计划 / 順序 /
पटिवचन
paṭivacana
响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /

策
cè
नय
naya
打算 / 方式 / 方案 / 方法 / 模式 / 策 / 策劃 / 舉止 / 計劃 / 計畫 / 计划 / 順序 /
策劃
cè huà
नय
naya
打算 / 方式 / 方案 / 方法 / 模式 / 策 / 策劃 / 舉止 / 計劃 / 計畫 / 计划 / 順序 /

筭
shāo
पुट
puṭa
一籃 / 兜 / 匭 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 梲 / 孟 / 筐 / 筭 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पुटक
puṭaka
一籃 / 兜 / 匭 / 匭 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 梲 / 孟 / 筐 / 筭 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पिटक
piṭaka
一籃 / 匭 / 吊籃 / 梲 / 筐 / 筭 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 /

箔
bó
दल
dala
叶 / 瓣 / 箔 / 花瓣 / 葉 / 葉子 / 頁 /
पट्ट
patta
叶 / 平板 / 床單 / 片 / 箔 / 繡帶 / 綳帶 / 羽毛 / 葉 / 葉子 / 薄片 / 頁 /
पण्ण
paṇṇa
信 / 信件 / 函 / 叶 / 字母 / 箔 / 葉 / 葉子 / 頁 /
पण्णक
paṇṇaka
信 / 信件 / 函 / 叶 / 字母 / 箔 / 葉 / 葉子 / 頁 /
पल्ल
patta
叶 / 床單 / 毛片 / 片 / 箔 / 羽 / 羽毛 / 翅膀 / 葉 / 葉子 / 頁 /
पलास
palāsa
叶 / 箔 / 葉 / 葉子 / 頁 /

算术
suàn shù
गणना
gaṇanā
号 / 号码 / 多寡 / 数 / 数字 / 數 / 數目 / 算术 / 算術 / 編號 / 编号 / 號 / 號碼 / 計算 /

算術
suàn shù
गणना
gaṇanā
号 / 号码 / 多寡 / 数 / 数字 / 數 / 數目 / 算术 / 算術 / 編號 / 编号 / 號 / 號碼 / 計算 /

管
guǎn
आयतिका
āyatikā
水管 / 管 / 管子 /
नळ
naḷa
管 / 管子 / 芦 / 芦苇 / 苇 / 茅草 / 葭 / 兼 / 蘆葦 /
नाळ
nāḷa
梗 / 管 / 管子 /
नाळिका
nāḷikā
奶瓶 / 瓶 / 瓶子 / 管 / 管子 / 酒瓶 /

पनाळिका
panāḷikā
煙斗 / 管 / 管子 / 管用 / 通道 /

管子
guǎn zi
आयतिका
āyatikā
水管 / 管 / 管子 /
नळ
naḷa
管 / 管子 / 芦 / 芦苇 / 苇 / 茅草 / 葭 / 蒹 / 蘆葦 /
नाळ
nāḷa
梗 / 管 / 管子 /
नाळिका
nāḷikā
奶瓶 / 瓶 / 瓶子 / 管 / 管子 / 酒瓶 /
पनाळिका
panāḷikā
煙斗 / 管 / 管子 / 管用 / 通道 /

管束
guǎn shù
कलाप
kalāpa
捆 / 束 / 管束 / 箭袋 /

管理
guǎn lǐ
अधिकार
adhikāra
任 / 任職 / 办事处 / 办公室 / 厅 / 处 / 处 / 廨 / 管理 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 辦公 / 辦公室 /
चारण
cāraṇa
पटिजग्गन
paṭṭijaggana
修 / 修復 / 修理 / 修補 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 管理 / 脩 / 關心 / 關照 /

管用
guǎn yòng
पनाळिका
panāḷikā
煙斗 / 管 / 管子 / 管用 / 通道 /

箭
jiàn
असन
asana
吃 / 矢 / 箭 / 食 / 食品 / 食物 / 饭 /
उसु
usu
矢 / 箭 /
तेजन
tejana
矢 / 箭 /

箭袋
jiàn dài
कलाप
kalāpa
捆 / 束 / 管束 / 箭袋 /

節
jié
छण
chaṇa
祭典 / 節 / 節慶 / 節日 / 节 / 节庆 /
節慶
jié qīng
छण
chaṇa
祭典 / 節 / 節慶 / 節日 / 节 / 节庆 /
節日
jié rì
छण
chaṇa
祭典 / 節 / 節慶 / 節日 / 节 / 节庆 /

範
fàn
उदाहरण
udāharaṇa
例 / 例子 / 实例 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模范 / 比方 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 /
निदस्सन
nidassana
例 / 例子 / 实例 / 样品 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模范 / 比方 / 比較 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 / 證據 /
篇
piān
अज्झाय
ajjhāya
卷 / 章 / 篇 / 篇章 /
篇幅
piān fú
आयाम
āyāma
篇幅 / 長度 / 長短 / 长度 /

篇章
piān zhāng
अज्झाय
ajjhāya
卷 / 章 / 篇 / 篇章 /

籃
lán
पुट
puṭa
一籃 / 兜 / 口 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 栳 / 孟 / 筐 / 筩 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पुटक
puṭaka
一籃 / 兜 / 口 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 栳 / 孟 / 筐 / 筩 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पिटक
piṭaka
一籃 / 口 / 吊籃 / 栳 / 筐 / 筩 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /

籠
lóng
पञ्जर
pañjara
笼 / 笼 / 籠 / 籠子 /

籠子
lóng zi
पञ्जर
pañjara
笼 / 笼 / 籠 / 籠子 /

簾
liàn
पुट
puṭa
一籃 / 兜 / 口 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 栳 / 孟 / 筐 / 筩 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पुटक
puṭaka
一籃 / 兜 / 口 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 栳 / 孟 / 筐 / 筩 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पिटक
piṭaka
一籃 / 口 / 吊籃 / 栳 / 筐 / 筩 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 /

簿子
bù zi
पोत्यक
potthaka
书 / 书籍 / 冊 / 冊子 / 册 / 書 / 書本 / 本子 / 簿子 / 著作 / 著作 / 預定 /

籃
lán
पुट
puṭa
一籃 / 兜 / 口 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 栳 / 孟 / 筐 / 筩 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पुटक
puṭaka
一籃 / 兜 / 口 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 栳 / 孟 / 筐 / 筩 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पिटक
piṭaka
一籃 / 口 / 吊籃 / 栳 / 筐 / 筩 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 /

籃子
lán zi
पुट
puṭa
一籃 / 兜 / 口 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 栳 / 孟 / 筐 / 筩 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पुटक
puṭaka
一籃 / 兜 / 口 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 栳 / 孟 / 筐 / 筩 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पिटक
piṭaka
一籃 / 口 / 吊籃 / 栳 / 筐 / 筩 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 /

籠
lóng
पञ्जर
pañjara
笼 / 笼 / 籠 / 籠子 /

籠子
lóng zi
पञ्जर
pañjara
笼 / 笼 / 籠 / 籠子 /

籽
zǐ
बीज
bīja
种 / 种子 / 種 / 種子 / 籽 /
粉
fěn
चुण्ण
cuṇṇa
粉 / 粉末 / 细粉 / 金粉 /

粉末
fěn mò
चुण्ण
cuṇṇa
粉 / 粉末 / 细粉 / 金粉 /

粗
cū
ओळारिक
oḷārika
充足的 / 粗 / 粗劣 / 粗糙 / 粗糙的 / 糲 /
कक्कस
kakkasa
伧 / 粗 / 粗劣 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 糲 / 苛刻 / 草 /
कक्खळ
kakkhaḷa
伧 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 苛刻 / 草 / 辛 / 辛苦 /
कठिन
kaṭhina
伧 / 使勁 / 僵 / 僵硬 / 僵硬的 / 生硬 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /

खर
khara
伧 / 使勁 / 固 / 尖锐 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 痛苦的 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
खळ
khala
伧 / 卑鄙的人 / 流氓 / 無賴 / 粗 / 粗略的 / 粗糙的 / 糙 / 苛刻 / 草 /
गम्म
gamma
粗 / 粗俗的 / 粗劣 / 粗糙 / 粗糙的 / 糲 /
गहन
gahana
丛林 / 厚 / 厚的 / 叢林 / 密 / 密封的 / 稠 / 粗 / 萃 / 蔘 /
घन
ghana
厚 / 厚的 / 固 / 密 / 密集的 / 捶 / 棍棒 / 槌 / 稠 / 粗 / 結實 / 萃 / 蔘 / 錘子 / 锤 /

थूल
thūla
伧 / 柴 / 柴 / 油脂 / 粗 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 肥 / 肥肉 / 肥胖 / 胖 / 胖的 / 脂 / 脂肪 / 草 /
निदुर
niṭṭhura
伧 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /
बहल
bahala
厚 / 厚的 / 密 / 密集的 / 稠 / 粗 / 萃 / 蔘 /

粗俗的
cū sú de
असब्धी
asabbhī
गम्म
gamma
粗 / 粗俗的 / 粗劣 / 粗糙 / 粗糙的 / 糲 /
जम्म
jamma
卑鄙 / 可鄙 / 可鄙的 / 粗俗的 /

粗劣
cū liè
ओळारिक
oḷārika
充足的 / 粗 / 粗劣 / 粗糙 / 粗糙的 / 糲 /
कक्कस
kakkasa
伧 / 粗 / 粗劣 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 糲 / 苛刻 / 草 /
गम्म
gamma
粗 / 粗俗的 / 粗劣 / 粗糙 / 粗糙的 / 糲 /

粗略的

cū luè de
खळ
khāḷa
伧 / 卑鄙的人 / 流氓 / 無賴 / 粗 / 粗略的 / 粗糙的 / 糙 / 苛刻 / 草 /

粗糙

cū cāo
ओळारिक
oḷārika
充足的 / 粗 / 粗劣 / 粗糙 / 粗糙的 / 糲 /
कक्कस
kakkasa
伧 / 粗 / 粗劣 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 糲 / 苛刻 / 草 /
गम्म
gamma
粗 / 粗俗的 / 粗劣 / 粗糙 / 粗糙的 / 糲 /
थूल
thūla
伧 / 奘 / 奘 / 油脂 / 粗 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 肥 / 肥肉 / 肥胖 / 胖 / 胖的 / 脂 / 脂肪 / 草 /

粗糙的
cū cāo de
ओळारिक
oḷārika
充足的 / 粗 / 粗劣 / 粗糙 / 粗糙的 / 糲 /
कक्कस
kakkasa
伧 / 粗 / 粗劣 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 糲 / 苛刻 / 草 /
कक्खळ
kakkhaḷa
伧 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 苛刻 / 草 / 辛 / 辛苦 /
कठिन
kaṭhina
伧 / 使勁 / 僵 / 僵硬 / 僵硬的 / 生硬 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /
खर
khara
伧 / 使勁 / 固 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 痛苦的 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / 銳 / 鋒利 / 銳 /
खळ
khāḷa
伧 / 卑鄙的人 / 流氓 / 無賴 / 粗 / 粗略的 / 粗糙的 / 糙 / 苛刻 / 草 /
गम्म
gamma
粗 / 粗俗的 / 粗劣 / 粗糙 / 粗糙的 / 糲 /
थूल
thūla
伧 / 奘 / 奘 / 油脂 / 粗 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 肥 / 肥肉 / 肥胖 / 胖 / 胖的 / 脂 / 脂肪 / 草 /
दारुण
dāruṇa
严 / 严重 / 残酷 / 残忍 / 残酷 / 毒 / 粗糙的 / 苛 / 苛刻 /

粗野

cū yě
उन्नळ
unnaḷa
傲慢 / 囂張 / 粗野 / 自大 / 自大的 / 自大的 / 骄 /

粘膜炎

zhān mó yán
पिनास
pināsa

粥碗

zhōu wǎn
तट्टक
taṭṭaka

粲
càn
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 鐳 /

精力

jīng lì
उद्दान
utṭhāna
上升 / 业 / 來歷 / 出身 / 原点 / 始源 / 工業 / 本源 / 来历 / 根源 / 業 / 活力 / 由来 / 精力 / 能源 / 能量 / 血统 / 行業 / 起源 / 高能 /
उस्सुकक
ussukka
活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 高能 /
धिति
dhiti
决心 / 勇气 / 勇氣 / 有勇氣 / 活力 / 精力 / 胆量 / 能源 / 能量 / 膽子 / 膽量 / 高能 /
पग्गह
paggaha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /

पग्गाह
पग्गहा
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /
बल
bala
军 / 军队 / 幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 勢力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

精力充沛的
jīng lì chōng pèi de
उस्सुक
ussuka
दल्ह
dalha
事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 穩 / 精力充沛的 /

精巧

jīng qiǎo
तनु
tanu
消瘦 / 瘦 / 瘦的 / 稀薄 / 稀薄 / 精巧 / 細 / 薄 / 薄 / 薄的 / 薄的 /

精明

jīng míng
चातुरिय
cāturīya
技術 / 精明 /
दक्ख
dakkha
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俏 / 俐 / 焦 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 棒 / 精明 / 聰 / 聪明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 / 麻利 /

精明的
jīng míng de
चतुर
catura
जाननक
jānanaka

精液

jīng yè
असुचि
asuci
垢 / 大便 / 屎 / 排泄物 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 / 精液 / 糞 /

精神

jīng shén
चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 顏料 /
बु
buddhi
估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情報 / 情报 / 旄 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 窍 / 精神 / 老 / 老的 / 毫 / 舊 / 舊的 /

精通

jīng tōng
कोसल्ल
kosalla

精通的

jīng tōng de
कोविद
kovida

糕

gāo
पूप
pūpa
糕 / 蛋糕 / 西薄 / 餅 / 饼 /
पूव
pūva
糕 / 蛋糕 / 西薄 / 餅 / 饼 /

糖

táng
गुळ
gula
加糖 / 地球 / 地球 / 方糖 / 球 / 糖 / 糖蜜 /

糖果

táng guǒ
खादनीय
khādanīya
甜食 / 糖果 /

糖漿

táng jiāng
पान
pāna
喝 / 喝了 / 好喝 / 水 / 糖漿 / 糖漿 / 飲 / 饮 / 饮料 /

糖漿
táng jiāng
पान
pāna
喝 / 喝了 / 好喝 / 水 / 糖漿 / 糖漿 / 飲 / 饮 / 饮料 /

糖蜜

táng mì
गुळ
gula
加糖 / 地球 / 地球 / 方糖 / 球 / 糖 / 糖蜜 /
फाणित
phaṇita

糙

cāo
कक्कस
kakkasa
伧 / 粗 / 粗劣 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 糲 / 苛刻 / 草 /
कक्खळ
kakkhaḷa
伧 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 苛刻 / 草 / 辛 / 辛苦 /
कठिन
kaṭhina
伧 / 使勁 / 僵 / 僵硬 / 僵硬的 / 生硬 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /

خر

khara
伧 / 使勁 / 固 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 痛苦的 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / 銳 / 鋒利 / 銳 /

खळ

khāḷa
伧 / 卑鄙的人 / 流氓 / 無賴 / 粗 / 粗略的 / 粗糙的 / 糙 / 苛刻 / 草 /
थूल
thūla
伧 / 奘 / 奘 / 油脂 / 粗 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 肥 / 肥肉 / 肥胖 / 胖 / 胖的 / 脂 / 脂肪 / 草 /

निटुर

niṭṭhura
伧 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /

糞

fèn
असुचि
asuci
垢 / 大便 / 屎 / 排泄物 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 / 精液 / 糞 /
उक्कार
ukkāra
大便 / 排泄物 / 糞 /
करीस
karīsa
大便 / 排泄物 / 糞 /
गूथ
gūtha
大便 / 排泄物 / 糞 /

糠	
kāng	
थुस	
thusa	
糲	
li	
ओळारिक	
olārika	
充足的 / 粗 / 粗劣 / 粗糙 / 粗糙的 / 糲 /	
कक्कस	
kakkasa	
伧 / 粗 / 粗劣 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 糲 / 苛刻 / 草 /	
गम्म	
gamma	
粗 / 粗俗的 / 粗劣 / 粗糙 / 粗糙的 / 糲 /	
系列	
xì liè	
अनुक्कम	
anukkama	
令 / 命令 / 序 / 序列 / 承 / 排序 / 旨意 / 檄 / 次序 / 秩序 / 程 / 系列 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 / 顺序 /	
系統	
xì tǒng	
जाय	
ñāya	
制 / 制度 / 方法 / 模式 / 系統 / 系統 / 製 / 顺序 / 體制 / 體系 /	
系统	
xì tǒng	
जाय	
ñāya	
制 / 制度 / 方法 / 模式 / 系統 / 系統 / 製 / 顺序 / 體制 / 體系 /	
糾紛	
jiū fēn	
कलह	
kalaha	
争执 / 争端 / 争议 / 争论 / 吵 / 吵架 / 拌嘴 / 爭吵 / 爭執 / 爭論 / 磕 / 糾紛 /	
紀念碑	
jì niàn bēi	
चेतिय	
cetiya	
約定	
yuē dìng	
पटिञ्जा	
paṭiññā	
同意 / 有希望 / 答應 / 約定 / 許 / 許可 / 許諾 / 諾 / 諾言 /	
पटिस्सव	
paṭissava	
有希望 / 答應 / 約定 / 許 / 許諾 / 諾 / 諾言 / 贊成 /	

紅色
hóng sè
अरुण
aruṇa

紆
shū
जगति
jagati
世 / 世上 / 世界 / 世界上 / 世間 / 人間 / 土 / 土壤 / 地 / 地 / 地球 / 地球 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 天下 / 天地 / 宇宙 / 接地 / 接地 / 新世界 / 泥土 / 紆 /

純金
chún jīn
कञ्चन
kañcana
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /
कनक
kanaka
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /
कम्बु
kambu
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /
चामीकर
cāmīkara
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /
जातरूप
jātarūpa
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /
तपनीय
tapanīya
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /

紙袋
zhǐ dài
पसिब्बक
pasibbaka
一袋 / 囊 / 大袋子 / 手提包 / 提包 / 旅行包 / 旅行包 / 囊 / 洗劫 / 紙袋 / 袋 / 袋子 / 錢包 / 麻布袋 / 麻袋 /

素材
sù cái
आमिस
āmisa
利益 / 材 / 材料 / 材質 / 物质 / 物质的 / 素材 / 肉 / 肉體 / 血肉 / 誘餌 / 诱惑 / 食 / 食品 / 食物 / 餌 / 饭 / 饵 /

索
suǒ
अन्वेषना
anvesanā
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 調查 / 追尋 /
गवेषन
gavesana
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /
परियेसना
pariyesanā
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /
मगगन
maggana
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /

紧
jǐn
गाळ्ह
gālha
紧 / 紧的 / 緊 /

紧的
jǐn de
गाळ्ह
gālha
紧 / 紧的 / 緊 /

累積
lèi jī
उच्चय
uccaya
堆积 / 累積 /
細
xì
तनु
tanu
消瘦 / 瘦 / 瘦的 / 稀薄 / 稀薄 / 精巧 / 細 / 薄 / 薄 / 薄的 / 薄的 /

紳士
shēn shì
अय्य
ayya
主 / 主人 / 君子 / 大師 / 好手 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 法師 / 紳士 / 統治者 / 老爺 / 領主 /

終
zhōng
अगग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 首 / 首先 /
अन्त
anta
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂端 /
अपवगग

apavagga
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

अवसान
avasāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

ओसान
osāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

कोटि
koṭi
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 點 /

कोण
koṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /

निट्टा
niṭṭhā
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

परिनिट्टान
pariniṭṭhāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 滙 / 眈 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 結束 / 缘 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियोसान
pariyosāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

終止
zhōng zhǐ
अन्त
anta
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂端 /

終結
zhōng jié

अग्ग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 首 / 首先 /
अन्त
anta
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂端 /
अपवग्ग
apavagga
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
अवसान
avasāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
ओसान
osāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
कोटि
koṭi
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 點 /
कोण
koṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /
खय
khaya
廢物 / 浪費 / 浪费 / 白費 / 破壞 / 終結 / 虛度 / 衰退 /
निट्टा
niṭṭhā
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
परिनिट्टान
pariniṭṭhāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 涸 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियोसान
pariyosāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
अन्त
anta
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂端 /
अपवग्ग
apavagga
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
अवसान
avasāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
ओसान
osāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
कोटि
koṭi
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 點 /
कोण
koṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /
खय
khaya
廢物 / 浪費 / 浪费 / 白費 / 破壞 / 終結 / 虛度 / 衰退 /
निट्टा
niṭṭhā
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
परिनिट्टान
pariniṭṭhāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

終點
zhōng diǎn

अग्ग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
अन्त
anta
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂端 /
अपवग्ग
apavagga
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
अवसान
avasāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
ओसान
osāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
कोटि
koṭi
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 點 /
कोण
koṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /
निट्टा
niṭṭhā
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
परिनिट्टान
pariniṭṭhāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 涸 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियोसान
pariyosāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
組
zǔ

गण
gaṇa
一群 / 人潮 / 人群 / 众 / 擁擠 / 支部 / 眾 / 組 / 群 / 隊 /
निकाय
nikāya
一群 / 团 / 团体 / 團 / 團體 / 宗派 / 小組 / 收集 / 教派 / 派 / 派系 / 組 / 组 / 群 / 群體 / 集團 /
組合
zǔ hé

घटन
ghaṭana
組成
zǔ chéng

गन्थ
gantha
作文 / 本文 / 組成 /
गन्थन
ganthana
作文 / 扭轉 / 組成 / 編織 /

結
jié

अच्छ
accha
包涵 / 承受 / 承擔 / 清澈的 / 熊 / 熊市 / 狗熊 / 結 / 结 /
इस्स
issa
包涵 / 承受 / 承擔 / 熊 / 熊市 / 狗熊 / 結 / 结 /
ककु
kaku
結伴
jié bàn

एकज्जं
ekajjhaṃ
一同 / 一塊兒 / 一起 / 一齊 / 全 / 共同 / 到一起 / 在一起 / 相聚 / 結伴 / 齊 / 齐 /

結實
jié shí

एकघन
ekaghana
固 / 結實 /
घन
ghana
厚 / 厚的 / 固 / 密 / 密集的 / 捶 / 棍棒 / 槌 / 稠 / 粗 / 結實 / 萃 / 薺 / 錘子 / 锤 /
結局
jié jú

अन्तिम
antima
最后 / 最後 / 最終 / 最終 / 最终的 / 末期 / 結局 /

結束
jié shù
अग्ग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 頂点 / 頂端 / 首 / 首先 /
अन्त
anta
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球門 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂端 /
अपवग्ग
apavagga
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
अवसान
avasāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
ओसान
osāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 道 /
कोटि
koṭi
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 道 / 點 /
कोण
koṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 撈 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /
निट्ठा
niṭṭhā
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 終結 / 結束 / 道 /
निट्ठान
niṭṭhāna
完工 / 完成 / 結束 /
परिनिट्ठान
pariniṭṭhāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 極限 / 稜 / 極限 / 止境 / 瀾 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियोसान
pariyosāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

結果

jié guǒ

अभिसन्द
abhisanda
成效 / 成果 / 效果 / 果 / 流出 / 究竟 / 結果 / 結果 /
अभिसन्दन
abhisandana
成效 / 成果 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 結果 /
निग्गम
niggama
出去 / 結果 / 離開 /
निप्फज्जन
nipphajjana
作用 / 做 / 印象 / 影响 / 成就 / 成效 / 成果 / 成績 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 結果 /
निप्फत्ति
nipphatti
作用 / 完成 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 結果 / 結果 /
निस्सन्द
nissanda
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 結果 / 解除 /

फल
phala
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 果实 / 果實 / 果心 / 水果 / 究竟 / 結果 / 結果 /

結論
jié lùn
ओसान
osāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 限制 / 結束 / 道 /
निगमन
nigamana
定局 / 結論 / 解釋 / 解釋 / 說明 /
निट्ठा
niṭṭhā
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
परियोसान
pariyosāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
絕對
jué duì
केवल
kevala
仅仅 / 全部 / 全部的 / 只有 / 唯 / 唯一 / 囫 / 孤 / 完全 / 总体 / 惟 / 整 / 整个 / 整個 / 整数 / 整整 / 絕對 / 绝对 / 通通 / 鞋底 /

統一

तोंग यी
tōng yī
एकीभूत
ekībhūta

統治

तोंग जि
इस्सरिय
issariya
控制 / 有道 / 權威 / 統治 / 统治 / 財富 / 财富 /

統治者
tǒng zhì zhě
अधिप
adhipa
主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /
अधिपति
adhipati
主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /
अय्य
ayya
主 / 主人 / 君子 / 大師 / 好手 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 法師 / 紳士 / 統治者 / 老爺 / 領主 /
इन्द
inda
君王 / 国王 / 國王 / 大王 / 特大 / 王 / 統治者 /
इस्सर
issara
主 / 主人 / 创造者 / 大師 / 好手 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 統治者 / 老爺 / 造物主 / 領主 /
ईस
Tsa
尺 / 标尺 / 直尺 / 統治者 / 统治者 /

पति
pati
丈夫 / 丈夫 / 主 / 主人 / 伉 / 回 / 外子 / 大師 / 夫 / 夫 / 好手 / 婿 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 相反 / 統治者 / 老公 / 老爺 / 逆 / 領主 /

統統
tǒng tǒng
असेस
asesa
一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
निखिल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /

綁
bǎng
निबन्ध
nibandha
硬要 / 綁 /

經
jīng
परं
param
之后 / 之後 / 后 / 后的 / 後 / 經 / 經過 / 经 / 经过 / 超出 / 超过 /

經常
jīng cháng
अभिण्हं
abhiṇhaṃ
不時 / 常 / 常常 / 往往 / 时常 / 時常 / 每每 / 經常 /

經歷
jīng lì
पागुञ्जता
pāguññatā
經歷 / 經驗 / 经历 / 经验 / 見識 / 體會 / 體驗 /

經過
jīng guò
परं
param
之后 / 之後 / 后 / 后的 / 後 / 經 / 經過 / 经 / 经过 / 超出 / 超过 /

經驗
jīng yàn
पागुञ्जता
pāguññatā
經歷 / 經驗 / 经历 / 经验 / 見識 / 體會 / 體驗 /

維修
wéi xiū
उपट्ठान
upatṭhāna
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 理解 / 等候 / 等候 / 維修 / 認識 / 諒解 / 认识 / 认识 / 體諒 /

उपासन
upāsana
伺候 / 役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 / 訓練 / 训练 / 训练 /
कार

kāra
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 /
किच्च
kickca

东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
--

पेसन
pesana
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 / 資訊 /
पारिचरिया
pāricariyā

維持
wéi chí

उपत्थम्भ
upatthambha
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支持者 / 支援 / 支撐 / 維持 / 鼓勵 /
पवत्तापन
pavattāpana
保存 / 維持 /

緊
jǐn
गाळ्ह
gālha
紧 / 紧的 / 紧 /

線
xiàn
आवली
āvalī
排 / 線 /
तन्त
tanta
तन्तु
tantu
線 / 繩索 /
पालि
pāli
一線 / 一行 / 線 / 線條 / 線路 / 线 / 线路 / 行了 / 行的 /

線條
xiàn tiáo
पालि
pāli
一線 / 一行 / 線 / 線條 / 線路 / 线 / 线路 / 行了 / 行的 /

線路
xiàn lù
पालि
pāli
一線 / 一行 / 線 / 線條 / 線路 / 线 / 线路 / 行了 / 行的 /

緣
yuán
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 稜 / 極限 / 止境 / 湄 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 结束 / 缘 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

緣
yuán
गन्थन
ganthana
作文 / 扭轉 / 組成 / 編織 /

編號
biān hào
गणना
gaṇanā
号 / 号码 / 多寡 / 数 / 数字 / 數 / 數目 / 算术 / 編號 / 编号 / 號 / 號碼 / 計算 /

緩慢
huǎn màn
जळ
jala
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दन्ध
dandha
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /

緣故
yuán gù
अत्थवस
atthavasa
使用 / 利用 / 动机 / 原因 / 因 / 情理 / 故 / 施用 / 理 / 理性 / 理由 / 用 / 用法 / 用途 / 由 / 緣故 / 运用 / 運用 / 道理 /
अपदेस
apadesa
动机 / 原因 / 因 / 声明 / 声明书 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 聲明 / 說法 / 说法 / 道理 / 陈述 / 陳述 /

कारण
kāraṇa
动机 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 道理 /
ठान
ṭhāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 款 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
निमित्त
nimitta
兆 / 兆头 / 先兆 / 前兆 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 徵兆 / 情理 / 故 / 标记 / 理 / 理由 / 由 / 緣故 / 迹象 / 道理 / 預兆 /

पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /

編織
biān zhī
गन्थन
ganthana
作文 / 扭轉 / 組成 / 編織 /

編號
biān hào
गणना
gaṇanā
号 / 号码 / 多寡 / 数 / 数字 / 數 / 數目 / 算术 / 編號 / 编号 / 號 / 號碼 / 計算 /

緩慢
huǎn màn
जळ
jala
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दन्ध
dandha
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /

練習
liàn xí
अनुचरण
anucarāṇa
執行 / 練習 /
आचार
ācāra
आसेवना
āsevanā
猛打 / 練習 / 追击 / 追求 /
उपसेवना
upasevanā
交往 / 練習 /
चारित्त
cāritta
品行 / 練習 / 習慣 / 行 / 行为 /
पटिपज्जन
paṭipajjana
程式 / 練習 / 遵守 /
पटिपत्ति
paṭipatti
操行 / 練習 /

縮小
suō xiǎo
अपचय
apacaya
下跌 / 撤回 / 縮小 /

總司令
zǒng sī lǐng
नियामक
niyāmaka
司令 / 司令官 / 指揮官 / 指揮官 / 總司令 / 船長 /

總是
zǒng shì
अभिण्हसो
abhiṇhaso
一向 / 一律 / 从来 / 再三地 / 历来 / 向來 / 始終 / 始终 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /
निबद्धं
nibaddham
一向 / 一律 / 从来 / 历来 / 向來 / 始終 / 始终 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /

總能
zǒng néng
अभिण्हसो
abhiṇhaso
一向 / 一律 / 从来 / 再三地 / 历来 / 向來 / 始終 / 始终 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /
निबद्धं
nibaddham
一向 / 一律 / 从来 / 历来 / 向來 / 始終 / 始终 / 常 / 從來 / 总是 / 永 / 總是 / 總能 / 老是 /

績
jī
किरिया
kiriya
作用 / 券 / 動作 / 性能 / 績 / 绩 / 绩 / 行动 / 行動 / 表現 /

繁榮
fán róng
इज्झन
ijjhana
成功 / 繁榮 /
इद्धि
iddhi
效力 / 昌盛 / 泓 / 繁榮 / 繁荣 /
मङ्गल
maṅgala
儀式 / 典礼 / 典禮 / 吉兆的 / 昌盛 / 泓 / 礼 / 禮 / 繁榮 / 繁荣 /

繁殖
fán zhí
निब्बत्तापन
nibbattāpana

繁榮
fán róng
इद्धि
iddhi
效力 / 昌盛 / 泓 / 繁榮 / 繁荣 /
मङ्गल
maṅgala
儀式 / 典礼 / 典禮 / 吉兆的 / 昌盛 / 泓 / 礼 / 禮 / 繁榮 / 繁荣 /

繁重
fán zhòng
गरु
garu
值得尊敬的 / 可敬的 / 導師 / 師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /
गुरु
guru
師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /
गरुक
garuka
岸然 / 慘重 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 窳 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重大 / 重的 / 重要 / 重要的 / 重重 /
भारिक
bhārika
慘重 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重的 / 重重 /

繡帶
běng dài
पट्ट
paṭṭa
叶 / 平板 / 床單 / 片 / 箔 / 繡帶 / 綳帶 / 羽毛 / 葉 / 葉子 / 薄片 / 页 /
पट्टिका
paṭṭikā
繡帶 / 綳帶 / 腰帶 /

繇
zhòu
निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /

繩索
shéng suǒ
तन्तु
tantu
線 / 繩索 /
繪畫
huì huà
चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 顔料 /

纜
cái
एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纜 / 隻 /

纖維
xiān wéi
उण्ण
uṇṇa
毛线 / 纖維 / 羊毛 /

紛
fēn
आकुल
ākula
困惑 / 困惑的 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 纷 / 迷糊 / 迷茫 /
मडकु
maṅku
困惑 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 纷 / 迷糊 / 迷茫 /

纺织品
fǎng zhī pǐn
दब्ब
dabba
事件 / 实体 / 實質 / 有道 / 木料 / 木材 / 材 / 材料 / 森林 / 物質 / 物质 / 纺织品 / 財富 / 财富 /

线
xiàn
पालि
pāli
一線 / 一行 / 線 / 線條 / 線路 / 线 / 线路 / 行了 / 行的 /

线圈
xiàn quān
चुम्बट
cumbata
卷 / 墊 / 线圈 /
चुम्बटक
cumbataka
卷 / 墊 / 线圈 /

线路
xiàn lù
पालि
pāli
一線 / 一行 / 線 / 線條 / 線路 / 线 / 线路 / 行了 / 行的 /

组
zǔ
निकाय
nikāya
一群 / 团 / 团体 / 團 / 團體 / 宗派 / 小組 / 收集 / 教派 / 派 / 派系 / 組 / 组 / 群 / 群體 / 集團 /

细粉

चुण्ण
cunṇa
粉 / 粉末 / 细粉 / 金粉 /

终
zhōng
अगग
agga
一次 / 上端 / 下场 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告终 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 首 / 首先 /

अन्त

अन्त
anta
下场 / 告终 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂端 /

अपवग्ग

apavagga
下场 / 告终 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

अवसान

avasāna
下场 / 停止 / 告终 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

ओसान

osāna
下场 / 停止 / 告终 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

कोटि

koṭi
下场 / 告终 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 點 /

कोण

koṇa
下场 / 告终 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /

निट्ठा

niṭṭhā
下场 / 告终 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

परिनिट्ठान

pariniṭṭhāna
下场 / 告终 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

परियन्त

pariyanta
下场 / 中 / 刃 / 告终 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 滙 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

परियोसान

pariyosāna
下场 / 告终 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

अन्त
anta
下场 / 告终 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂端 /

अपवग्ग

apavagga
下场 / 告终 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

अवसान

avasāna
下场 / 停止 / 告终 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

ओसान

osāna
下场 / 停止 / 告终 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

कोटि

koṭi
下场 / 告终 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 點 /

कोण

koṇa
下场 / 告终 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /

निट्ठा

niṭṭhā
下场 / 告终 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

परिनिट्ठान

pariniṭṭhāna
下场 / 告终 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

终结

zhōng jié
अगग
agga
一次 / 上端 / 下场 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告终 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 首 / 首先 /

अन्त

अन्त
anta
下场 / 告终 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂端 /

अपवग्ग

apavagga
下场 / 告终 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

अवसान

avasāna
下场 / 停止 / 告终 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

ओसान

osāna
下场 / 停止 / 告终 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

कोटि

koṭi
下场 / 告终 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 點 /

कोण

koṇa
下场 / 告终 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /

निट्ठा

niṭṭhā
下场 / 告终 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

परिनिट्ठान

pariniṭṭhāna
下场 / 告终 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

परियन्त
pariyanta
下场 / 中 / 刃 / 告终 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 滙 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

परियोसान

pariyosāna
下场 / 告终 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

经

jīng

परं

param
之后 / 之後 / 后 / 后的 / 後 / 經 / 經過 / 经 / 经过 / 超出 / 超过 /

经历

jīng lì

पागुञ्जता
pāguññatā
經歷 / 經驗 / 经历 / 经验 / 見識 / 體會 / 體驗 /

经过

jīng guò

परं

param
之后 / 之後 / 后 / 后的 / 後 / 經 / 經過 / 经 / 经过 / 超出 / 超过 /

经验

jīng yàn

पागुञ्जता
pāguññatā
經歷 / 經驗 / 经历 / 经验 / 見識 / 體會 / 體驗 /

结

jié

अच्छ

accha
包涵 / 承受 / 承擔 / 清澈的 / 熊 / 熊市 / 狗熊 / 結 / 结 /

इस्स

issa
包涵 / 承受 / 承擔 / 熊 / 熊市 / 狗熊 / 結 / 结 /

结束
jié shù
अग्ग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 首 / 首先 /
अन्त
anta
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球門 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂端 /
अपवग्ग
apavagga
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
अवसान
avasāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
ओसान
osāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
कोटि
koṭi
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 點 /
कोण
koṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /
निट्ठा
niṭṭhā
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /
परिनिट्ठान
pariniṭṭhāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 極限 / 棧 / 極限 / 止境 / 瀾 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियोसान
pariyosāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 /

结果

jié guǒ
अभिसन्द
abhisanda
成效 / 成果 / 效果 / 果 / 流出 / 究竟 / 結果 / 结果 /
अभिसन्दन
abhisandana
成效 / 成果 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निप्फज्जन
nipphajjana
作用 / 做 / 印象 / 影响 / 成就 / 成效 / 成果 / 成績 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निप्फत्ति
nipphatti
作用 / 完成 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 /
निस्सन्द
nissanda
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 结果 / 解除 /
फल
phala
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 果实 / 果實 / 果心 / 水果 / 究竟 / 結果 / 结果 /

绝对

jué duì
केवल
kevala
仅仅 / 全部 / 全部的 / 只有 / 唯 / 唯一 / 囫 / 孤 / 完全 / 总体 / 惟 / 整 / 整个 / 整個 / 整数 / 整整 / 絕對 / 绝对 / 通通 / 鞋底 /

统治

tǒng zhì
आधिपच्च
āhipacca
幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 控制 / 斷電 / 權力 / 统治 /
इस्सरिय
issariya
控制 / 有道 / 權威 / 統治 / 统治 / 財富 / 财富 /

统治者
tǒng zhì zhě
अधिप
adhipa
主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /
अधिपति
adhipati
主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /
ईस
Isa
尺 / 标尺 / 直尺 / 統治者 / 统治者 /

绩

jī
किरिय
kiriya
作用 / 券 / 動作 / 性能 / 績 / 绩 / 绩 / 行动 / 行動 / 表現 /
किरिय
kiriya
作用 / 券 / 動作 / 性能 / 績 / 绩 / 绩 / 行动 / 行動 / 表現 /

绵

mián
कप्पास
kappāsa
棉 / 棉花 / 绵 /
तूल
tūla
棉 / 棉花 / 绵 /
पिचु
picu
棉 / 棉花 / 绵 /

绷带

bēng dài
पट्ट
paṭṭa
叶 / 平板 / 床單 / 片 / 箔 / 繃帶 / 绷带 / 羽毛 / 葉 / 葉子 / 薄片 / 页 /
पट्टिका
paṭṭikā
繃帶 / 绷带 / 腰帶 /

编号

biān hào
गणना
gaṇanā
号 / 号码 / 多寡 / 数 / 数字 / 數 / 數目 / 算术 / 算術 / 編號 / 编号 / 號 / 號碼 / 計算 /

缘

yuán
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 極限 / 棧 / 極限 / 止境 / 瀾 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

缸
gāng
उक्खलि
ukkhali
一壺 / 壺 / 壺 / 煲 / 缸 / 罐 / 鍋 / 锅 /
चाटि
cāṭi
一壺 / 壺 / 壺 / 煲 / 缸 / 罐 / 鍋 / 锅 /
缺
quē
ऊन
ūna
不足的 / 欠缺的 / 缺 /

缺乏

quē fá
अन्त्य
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 諦 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /
अदस्सन
adassana
消失 / 缺乏 / 缺席 /
अभाव
abhāva
不在 / 消失 / 缺乏 / 缺席 /

缺席

quē xí
अदस्सन
adassana
消失 / 缺乏 / 缺席 /
अभाव
abhāva
不在 / 消失 / 缺乏 / 缺席 /

缺水
quē shuǐ
अण्ण
aṇṇa
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 / 食物 /
अम्बु
ambu
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
उदक
udaka
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
ओक
oka
下水 / 住所 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
जल
jala
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
तोय
toya
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
दक
daka
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /
नीर
nīra
下水 / 水 / 水中 / 水源 / 缺水 /

缺点

quē diǎn
दोस
dosa
忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 愆 / 愆 / 愤怒 / 憤怒 / 毛病 / 瑕 / 書 / 破綻 / 缺点 / 缺陷 / 缺點 / 腐敗 / 責備 / 蹉 / 過失 /

缺陷

quē xiàn
दोस
dosa
忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 愆 / 愆 / 愤怒 / 憤怒 / 毛病 / 瑕 / 書 / 破綻 / 缺点 / 缺陷 / 缺點 / 腐敗 / 責備 / 蹉 / 過失 /

缺點

quē diǎn
आदीनव
ādīnava
कलङ्क
kalaṅka
छिद्द
chidda
孔 / 有洞的 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 穿孔的 / 窟窿 / 缺點 / 裂縫 / 過失 / 阱 /

दोस

dosa
忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 愆 / 愆 / 愤怒 / 憤怒 / 毛病 / 瑕 / 書 / 破綻 / 缺点 / 缺陷 / 缺點 / 腐敗 / 責備 / 蹉 / 過失 /
पदोस
padosa
傍晚 / 微明 / 暮 / 污點 / 激怒 / 缺點 / 薄暮 / 黃昏 /

鉢
bō
पाति
pāti
一碗 / 保齡球 / 盆子 / 盤子 / 碗 / 鉢 /

罐
guàn
उक्खलि
ukkhali
一壺 / 壺 / 壺 / 煲 / 缸 / 罐 / 鍋 / 锅 /
चाटि
cāṭi
一壺 / 壺 / 壺 / 煲 / 缸 / 罐 / 鍋 / 锅 /

网
wǎng
जाल
jāla
网 / 网际 /

网际
wǎng jì
जाल
jāla
网 / 网际 /

罚金
fá jīn
दण्ड
daṇḍa
刑 / 刑罰 / 处罚 / 惩罚 / 懲罰 / 柄 / 梗 / 罰金 / 荖 / 蒂 /

罩
zhào
अत्थरण
attharaṇa
套 / 床單 / 罩 /
अपिधान
apidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
छदन
chadana
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋頂 / 屋顶 / 幌子 / 房頂 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

पच्चत्थरण
paccattharaṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पच्छाद
pacchāda
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 毛毯 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

पापुरण
pāpuraṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 毛毯 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

पिधान
pidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

罪
zuì
अकुसल
akusala
孽 / 罪 / 罪惡 / 罪過 /
अघ
agha
不幸 / 天 / 天界 / 天空 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛楚 / 痛苦 / 罪 / 罪惡 / 罪過 / 苦痛 / 雲霄 /
अवण्ण
avaṇṇa
咎 / 怨 / 歸咎 / 罪 / 責備 / 責怪 /
असद्धम्म
asaddhamma
罪 / 罪惡 / 罪過 /

उपवाद
upavāda
侮 / 侮辱 / 咎 / 怨 / 挑剔 / 歸咎 / 污辱 / 罪 / 責備 / 責怪 / 辱 /
कलि
kali
擊敗 / 罪 / 罪惡 / 罪過 /
निग्गह
niggaha
咎 / 怨 / 歸咎 / 罪 / 責備 / 責怪 / 過失 /
पाप
pāpa
孽 / 惡 / 罪 / 邪惡 /

罪人
zuì rén
पापिमन्तु
pāpimantu
孽 / 惡 / 罪 / 邪惡 /

罪名
zuì míng
अब्भाचिकखन
abbhācikkhana
指控 / 控告 / 罪名 / 罪狀 /
चोदना
codanā
指控 / 控告 / 罪名 / 罪狀 /

罪惡
zuì è
अकुसल
akusala
孽 / 罪 / 罪惡 / 罪過 /
अघ
agha
不幸 / 天 / 天界 / 天空 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛楚 / 痛苦 / 罪 / 罪惡 / 罪過 / 苦痛 / 雲霄 /
असद्धम्म
asaddhamma
罪 / 罪惡 / 罪過 /
कलि
kali
擊敗 / 罪 / 罪惡 / 罪過 /

罪犯
zuì fàn
अतिचारी
aticārī
अपराधी
aparādhī
刑事 / 犯罪的 / 罪犯 /

罪狀
zuì zhuàng
अब्भाचिकखन
abbhācikkhana
指控 / 控告 / 罪名 / 罪狀 /
चोदना
codanā
指控 / 控告 / 罪名 / 罪狀 /

罪行
zuì xíng
अपराध
aparādha
犯案 / 犯罪 / 犯罪率 / 罪行 / 罪過 / 辜 /
आगु
āgu
罪行 / 罪過 /
किब्बि
kibbisa
犯案 / 犯罪 / 犯罪率 / 罪行 / 罪過 / 辜 /

罪過
zuì guò
अकुसल
akusala
孽 / 罪 / 罪惡 / 罪過 /
अघ
agha
不幸 / 天 / 天界 / 天空 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛楚 / 痛苦 / 罪 / 罪惡 / 罪過 / 苦痛 / 雲霄 /
अतिककम
atikkama
अपराध
aparādha
犯案 / 犯罪 / 犯罪率 / 罪行 / 罪過 / 辜 /
असद्धम्म
asaddhamma
罪 / 罪惡 / 罪過 /
आगु
āgu
罪行 / 罪過 /
कलि
kali
擊敗 / 罪 / 罪惡 / 罪過 /
किब्बि
kibbisa
犯案 / 犯罪 / 犯罪率 / 罪行 / 罪過 / 辜 /

置疑
zhì yí
आसङ्का
āsāṅkā
怀疑 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /
कथइक्था
kathamkathā
不确定 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 /
द्वेज्झ
dvejḥha
可疑的 / 怀疑 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 矛盾 / 置疑 /
द्वेव्हक
dvelhaka
怀疑 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 /

署
shǔ
अधिकार
adhikāra
任 / 任職 / 办事处 / 办公室 / 厅 / 处 / 处 / 廨 / 管理 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 辦公 / 辦公室 /

ठान
ṭhāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廨 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 默 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 /
部位 /

पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廨 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /

羅網
luó wǎng
पास
pāsa
投 / 羅網 / 陷阱 /

羊毛
yáng máo
उण्ण
uṇṇa
毛线 / 纖維 / 羊毛 /

美德
měi dé
कल्याण
kalyāṇa
仁慈 / 德行 / 福利 / 福祉 / 美德 / 迷人的 /
कुसल
kusala
专家 / 乖 / 伶 / 伶 / 俐 / 焦 / 善 / 妙 / 德行 / 美德 /

美术
měi shù
कला
kalā
功夫 / 美术 / 艺术 / 藝術 /
美洲豹
měi zhōu bào
दीपि
dīpi
美洲豹 / 豹 /
दीपिक
dīpika
美洲豹 / 豹 /

羡慕
xiàn mù
इस्सा
issā
吃醋 / 妒忌 / 嫉妒 / 忌妒 / 羡慕 / 羨慕 /
उसूयना
usūyanā
吃醋 / 妒忌 / 嫉妒 / 忌妒 / 羡慕 / 羨慕 /
उसूया
usūyā
吃醋 / 妒忌 / 嫉妒 / 忌妒 / 羡慕 / 羨慕 /

群
qún
उद्दान
uddāna
串 / 列出 / 列表 / 单子 / 名单 / 名單 / 柬 / 目錄 / 群 / 谱 /
गण
gaṇa
一群 / 人潮 / 人群 / 众 / 擁擠 / 支部 / 眾 / 組 / 群 / 隊 /
निकाय
nikāya
一群 / 团 / 团体 / 團 / 團體 / 宗派 / 小組 / 收集 / 教派 / 派 / 派系 / 組 / 组 / 群 / 群體 / 集團 /

群體
qún tǐ
निकाय
nikāya
一群 / 团 / 团体 / 團 / 團體 / 宗派 / 小組 / 收集 / 教派 / 派 / 派系 / 組 / 组 / 群 / 群體 / 集團 /

羡慕
xiàn mù
इस्सा
issā
吃醋 / 妒忌 / 嫉妒 / 忌妒 / 羡慕 / 羨慕 /
उसूयना
usūyanā
吃醋 / 妒忌 / 嫉妒 / 忌妒 / 羡慕 / 羨慕 /
उसूया
usūyā
吃醋 / 妒忌 / 嫉妒 / 忌妒 / 羡慕 / 羨慕 /

義務
yì wu
कत्तब्ब
kattabba
義務 / 責任 / 责任 /
करणीय
karaṇīya
義務 / 責任 / 责任 /
羽
yǔ
पत्त
patta
叶 / 床單 / 毛片 / 片 / 箔 / 羽 / 羽毛 / 翅膀 / 葉 / 葉子 / 页 /

羽毛
yǔ máo
पट्ट
patta
叶 / 平板 / 床單 / 片 / 箔 / 繃帶 / 綑帶 / 羽毛 / 葉 / 葉子 / 薄片 / 页 /
पत्त
patta
叶 / 床單 / 毛片 / 片 / 箔 / 羽 / 羽毛 / 翅膀 / 葉 / 葉子 / 页 /
羽翼
yǔ yì
पक्ख
pakkha
一方 / 側 / 信徒 / 側 / 党 / 半邊 / 幫派 / 旁边 / 旁邊 / 派 / 派對 / 派系 / 當事人 / 羽翼 / 翅 / 翅膀 / 翼 / 跛子 / 边 / 黨 /

翅
chì
पक्ख
pakkha
一方 / 側 / 信徒 / 側 / 党 / 半邊 / 幫派 / 旁边 / 旁邊 / 派 / 派對 / 派系 / 當事人 / 羽翼 / 翅 / 翅膀 / 翼 / 跛子 / 边 / 黨 /

翅膀
chì bǎng
पक्ख
pakkha
一方 / 側 / 信徒 / 側 / 党 / 半邊 / 幫派 / 旁边 / 旁邊 / 派 / 派對 / 派系 / 當事人 / 羽翼 / 翅 / 翅膀 / 翼 / 跛子 / 边 / 黨 /
पत्त
patta
叶 / 床單 / 毛片 / 片 / 箔 / 羽 / 羽毛 / 翅膀 / 葉 / 葉子 / 页 /

翊
yì
अच्चना
accanā
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 祭品 / 翊 / 荣誉 /
गारव
gārava
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 翊 /
चित्तीकार
cittīkāra
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 考慮 /

翌
yì
अन्तरिक
antarika
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /
अनन्तर
anantara
下 / 下一个 / 下一个的 / 下一個 / 下一次 / 下一步 / 下個 / 下次 / 接下來 / 明 / 翌 /
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 薰 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 鐳 /

習慣
xí guàn
चारित्त
cāritta
品行 / 練習 / 習慣 / 行 / 行为 /

翦
jiǎn
कत्तरि
kattari
剪 / 剪刀 / 剪子 / 翦 /
कत्तरिका
kattarikā
剪 / 剪刀 / 剪子 / 翦 /
पिप्फल
pipphala
剪 / 剪刀 / 剪子 / 翦 /
पिप्फलक
pipphalaka
剪 / 剪刀 / 剪子 / 翦 /

翻譯
fān yì
अनुवाद
anuvāda
翻譯 / 翻译 / 译文 / 責備 /
परिवत्तन
parivattana
旋轉 / 翻譯 / 翻译 / 译文 /

翻译
fān yì
अनुवाद
anuvāda
翻譯 / 翻译 / 译文 / 責備 /
परिवत्तन
parivattana
旋轉 / 翻譯 / 翻译 / 译文 /

翼
yì
पक्ख
pakkha
一方 / 側 / 信徒 / 側 / 党 / 半邊 / 幫派 / 旁边 / 旁邊 / 派 / 派對 / 派系 / 當事人 / 羽翼 / 翅 / 翅膀 / 翼 / 跛子 / 边 / 黨 /

老
lǎo
आचरिय
ācariya
師資 / 教師 / 老 / 老师 / 老師 /
जज्जर
jajjara
估 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /
जर
jara
估 / 发烧 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 热病 / 熱病 / 發燒 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 / 衰老的 /
थेर
thera
पुराण
purāṇa
估 / 先前的 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /
बु
buḍḍha
估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情报 / 情报 / 旄 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 窍 / 精神 / 老 / 老的 / 毫 / 舊 / 舊的 /

老兄
lǎo xiōng
अनुज
anuja
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /
आवुसो
āvuso
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 朋 / 朋友 / 朋友 / 社友 / 老兄 /
भातु
bhātu
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /

भार्तिक
bhātika
兄弟 / 兄或弟 / 兄長 / 同胞 / 哥 / 哥哥 / 姐夫 / 弟兄 / 弟弟 / 社友 / 老兄 /

老公
lǎo gōng
कन्त
kanta
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 合意的 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 愉快的 / 老公 /
धव
dhava
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 /
पति
pati
丈夫 / 丈夫 / 主 / 主人 / 伉 / 回 / 外子 / 大師 / 夫 / 夫 / 好手 / 婿 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 相反 / 統治者 / 老公 / 老爺 / 逆 / 領主 /
पिय
piya
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 / 親愛的 /
भत्तु
bhattu
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 /

老婆
lǎo pó
कन्ता
kantā
伉 / 太太 / 夫人 / 女 / 女人 / 女人 / 女子 / 女子 / 女的 / 妇 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娘 / 娶妻 / 婦人 / 婦女 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
कलत्त
kalatta
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
जानि
jāni
伉 / 剝奪 / 剝夺 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 損失 / 損失 / 爱人 / 老婆 / 茫然 / 败 /
जाया
jāyā
伉 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /

पिया
piyā
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /
भरिया
bhariyā
伉 / 太太 / 夫人 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 爱人 / 老婆 /

老子
lǎo zi
जनक
janaka
公公 / 天父 / 岳父 / 椿 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /
तात
tāta
儿子 / 兒子 / 公公 / 公子 / 天父 / 女婿 / 岳父 / 椿 / 父 / 父亲 / 父親 / 爷 / 爸爸 / 爹 / 爺 / 生父 / 老子 /

老家
lǎo jiā
आवास
āvāsa
主場／主頁／住宅／住家／回國／在家／家／家園／家園／家庭／家裡／居家／故鄉／老家／
उपस्सय
upassaya
主場／主頁／住宅／住家／住所／回國／在家／家／家園／家園／家庭／家裡／居家／故鄉／老家／
गेह
geha
主場／主頁／住宅／住家／回國／在家／家／家園／家園／家裡／居家／屋／屋子／房／房子／房屋／捨／收容／故鄉／老家／舍／舍／
घर
ghara
主場／主頁／住宅／住家／回國／在家／家／家園／家園／家裡／居家／屋／屋子／房／房子／房屋／捨／收容／故鄉／老家／舍／舍／
निकेत
niketa
主場／主頁／住宅／住家／住所／回國／在家／家／家園／家園／家庭／家裡／居家／故鄉／老家／
निकेतन
niketana
主場／主頁／住宅／住家／住所／回國／在家／家／家園／家園／家庭／家裡／居家／屋子／房／房子／房屋／故鄉／老家／
निलय
nilaya
主場／主頁／住宅／住家／住所／回國／在家／家／家園／家園／家庭／家裡／居家／屋／屋子／房／房子／房屋／捨／收容／故鄉／老家／舍／舍／

老師
lǎo shī
अज्झायक
ajjhāyaka
師資／教師／老师／老師／
आचेर
ācera
師資／教師／老师／老師／
आचरिय
ācariya
師資／教師／老／老师／老師／
गरु
garu
值得尊敬的／可敬的／導師／師資／慘重／教師／沈重／沈重的／沉重／笨重／繁重／老师／老師／重型／重的／重重／
गुरु
guru
師資／慘重／教師／沈重／沈重的／沉重／笨重／繁重／老师／老師／重型／重的／重重／

老師
lǎo shī
अज्झायक
ajjhāyaka
師資／教師／老师／老師／
आचेर
ācera
師資／教師／老师／老師／
आचरिय
ācariya
師資／教師／老／老师／老師／
गरु
garu
值得尊敬的／可敬的／導師／師資／慘重／教師／沈重／沈重的／沉重／笨重／繁重／老师／老師／重型／重的／重重／
गुरु
guru
師資／慘重／教師／沈重／沈重的／沉重／笨重／繁重／老师／老師／重型／重的／重重／

老是
lǎo shì
अभिण्हसो
abhiṅhaso
一向／一律／从来／再三地／历来／向來／始終／始终／常／從來／总是／永／總是／總能／老是／
निबद्धं
nibaddham
一向／一律／从来／历来／向來／始終／始终／常／從來／总是／永／總是／總能／老是／

老爺爺
lǎo ye
अधिप
adhipa
主／主人／君主／大師／好手／尺／师傅／師傅／師父／标尺／法師／直尺／統治者／统治者／老爺／領主／
अधिपति
adhipati
主／主人／君主／大師／好手／尺／师傅／師傅／師父／标尺／法師／直尺／統治者／统治者／老爺／領主／
अय्य
ayya
主／主人／君子／大師／好手／师傅／師傅／師父／标尺／紳士／統治者／老爺／領主／
इस्सर
issara
主／主人／创造者／大師／好手／师傅／師傅／師父／所有者／業主／法師／物主／統治者／老爺／造物主／領主／
पति
pati
丈夫／丈夫／主／主人／伉／回／外子／大師／夫／夫／好手／婿／师傅／師傅／師父／所有者／業主／法師／物主／相反／統治者／老公／老爺／逆／領主／

老爺爺
lǎo ye ye
अय्यक
ayyaka
祖父／老爺爺／
पितामह
pitāmaha
祖父／老爺爺／
老的
lǎo de
जज्जर
jajjara
估／古／古老／年老的／年迈／旧／旧的／老／老的／舊／舊的／
जर
jara
估／发烧／古／古老／年老的／年迈／旧／旧的／热病／熱病／發燒／老／老的／舊／舊的／衰老的／
पुराण
purāṇa
估／先前的／古／古老／年老的／年迈／旧／旧的／老／老的／舊／舊的／
बु
buḍḍha
估／古／古老／头脑／年老／年老的／年迈／情報／情报／旄／旧／旧的／智／智力／智慧／泡沫／泡沫／理智／窍／精神／老／老的／毫／舊／舊的／

老虎
lǎo hǔ
ब्यग्घ
byaggha
老虎／虎／
老鼠
lǎo shǔ
आखु
ākhu
叛徒／告密者／捕鼠／老鼠／耗子／鼠／鼯／
उन्दुर
undura
叛徒／告密者／捕鼠／老鼠／鼠／
उन्दूर
undūra
叛徒／告密者／捕鼠／老鼠／鼠／

考慮
kǎo lù
चित्तीकार
cittikāra
尊敬／尊重／崇敬／敬／注意／翊／考慮／

考試
kǎo shì
उपपरिक्खन
upaparikkhana
考試／調查／

毫
mào
बु
buḍḍha
估／古／古老／头脑／年老／年老的／年迈／情報／情报／旄／旧／旧的／智／智力／智慧／泡沫／泡沫／理智／窍／精神／老／老的／毫／舊／舊的／
者
zhě
जन
jana
人／人中／人们／人們／人士／人心／人民／夫／夫／子民／成年男子／曼／民／民眾／氓／男人／男子／男子漢／眾人／者／萌／
पुग्गल
puggala
个人／人／人士／個別／個體／者／
पुरिस
purisa
人／人士／夫／夫／成年男子／曼／牡／男／男人／男子／男子漢／男性／男性的／男的／者／雄／雄性／雄的／

而
ér
अपि
api
与／且／並／並且／以及／但是／併／偶／兼／又／及／及其／可是／和／并／并且／既使／暨／此外／甚至／甚至／而／而且／與／连／連／
च
ca
与／且／並／並且／也／以及／併／兼／又／及／及其／和／太／并／并且／暨／汰／而／而且／與／
पन
pana
不過／与／且／並／並且／乃是／仍／仍然／仍舊／以及／但／但是／併／依然／兼／却／卻／又／及／及其／只／只是／可是／和／尚／并／并且／惟／暨／然而／现在还是／而／而且／與／還沒／還沒有／那麼／

而
tu
不過／乃是／今／今朝／仍／仍然／仍舊／但／但是／依然／便／则／刚才／則／却／卻／只／只是／可是／在眼前／如今／尚／就／屆時／已／当年／当时／当时的／惟／接著／接著／於是／此刻／此時／然／然后／然後／然而／現／现在／现在还是／現在／當年／當時／當時的／眼下／眼前／究竟／立刻／而今／這時／遂／還沒／還沒有／那時／那時候／那麼／

耍
shuǎ
खिड्डा
khīḍḍā
奏／娛樂／嬉／戏／戲／打球／扮／抹／游戏／演／玩／玩兒／玩弄／玩耍／耍／踢球／

而且
ér qiě
अपि
api
与／且／並／並且／以及／但是／併／偶／兼／又／及／及其／可是／和／并／并且／既使／暨／此外／甚至／甚至／而／而且／與／连／連／
उत्तरि
uttari
再作／另外／更／更远的／此外／而且／進一步／附加的／
उत्तरिं
uttariṃ
再作／另外／更／更远的／此外／而且／進一步／附加的／
च
ca
与／且／並／並且／也／以及／併／兼／又／及／及其／和／太／并／并且／暨／汰／而／而且／與／
पन
pana
不過／与／且／並／並且／乃是／仍／仍然／仍舊／以及／但／但是／併／依然／兼／却／卻／又／及／及其／只／只是／可是／和／尚／并／并且／惟／暨／然而／现在还是／而／而且／與／還沒／還沒有／那麼／

而今
ér jīn
अधुना
adhunā
今／今朝／刚才／在眼前／如今／最近／最近地／此刻／此時／現／现在／現在／眼下／眼前／立刻／而今／近來／近日／近来／

इदानि
idāni
今／今朝／刚才／在眼前／如今／此刻／此時／現／现在／現在／眼下／眼前／立刻／而今／
एतरहि
etarahi
今／今朝／刚才／在眼前／如今／此刻／此時／現／现在／現在／目前／眼下／眼前／立刻／而今／還沒有／那麼／

耍
tu
不過／乃是／今／今朝／仍／仍然／仍舊／但／但是／依然／便／则／刚才／則／却／卻／只／只是／可是／在眼前／如今／尚／就／屆時／已／当年／当时／当时的／惟／接著／接著／於是／此刻／此時／然／然后／然後／然而／現／现在／现在还是／現在／當年／當時／當時的／眼下／眼前／究竟／立刻／而今／這時／遂／還沒／還沒有／那時／那時候／那麼／

耍
shuǎ
खिड्डा
khīḍḍā
奏／娛樂／嬉／戏／戲／打球／扮／抹／游戏／演／玩／玩兒／玩弄／玩耍／耍／踢球／

耐久的
nài jiǔ de
थिर
thira
事務所 / 公司 / 固 / 堅 / 堅決 / 堅定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 快 / 恆久 / 持久 / 有耐久力 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 耐久的 / 迅 / 迅速 / 速 / 遽 /
耐力
nài lì
खन्ति
khanti
寬容 / 寬恕 / 希望 / 忍耐 / 特赦 / 耐力 / 耐心 / 耐性 / 赦免 / 饒恕 /
耐心
nài xīn
अधिवासक
adhivāsaka
患者 / 持久的 / 病人 / 病患 / 耐心 /
अधिवासना
adhivāsana
忍耐 / 耐心 /
खन्ति
khanti
寬容 / 寬恕 / 希望 / 忍耐 / 特赦 / 耐力 / 耐心 / 耐性 / 赦免 / 饒恕 /
खमन
khamana
容忍 / 忍受 / 忍耐 / 耐心 / 耐性 /
耐性
nài xìng
खन्ति
khanti
寬容 / 寬恕 / 希望 / 忍耐 / 特赦 / 耐力 / 耐心 / 耐性 / 赦免 / 饒恕 /
खमन
khamana
容忍 / 忍受 / 忍耐 / 耐心 / 耐性 /
耒
lěi
नङ्गल
naṅgala
犁 / 耒 / 耕 / 耜 /
耕
gēng
नङ्गल
naṅgala
犁 / 耒 / 耕 / 耜 /
耕作
gēng zuò
कसन
kasana
耕地
gēng dì
केदार
kedāra
地 / 地 / 场 / 場 / 實地 / 田 / 田地 / 田野 / 畝 / 耕地 / 野外 / 領域 / 領域 /

耕者
gēng zhě
कस्सक
kassaka
佃 / 农夫 / 农民 / 耕者 / 農夫 / 農民 /
耗
hào
अचिर
acira
新 / 新的 / 最近 / 最近的 / 耗 / 近來 / 近来的 /
अभिनव
abhinava
新 / 新的 / 新鮮 / 耗 / 鮮 /
अहत
ahata
新 / 新的 / 新鮮 / 耗 / 鮮 /
नूतन
nūtana
新 / 新的 / 新鮮 / 耗 / 鮮 /
नव
nava
九 / 九個 / 新 / 新的 / 新鮮 / 耗 / 鮮 /
耗子
hào zi
आखु
ākhu
叛徒 / 告密者 / 捕鼠 / 老鼠 / 耗子 / 鼠 / 鼯 /
耜
sì
नङ्गल
naṅgala
犁 / 耒 / 耕 / 耜 /
耳
ěr
कण्ण
kaṅṅa
外耳 / 楞 / 耳 / 耳朵 / 耳朵 / 街角 / 角 / 角度 / 角落 / 转角 / 陬 / 隅 /
耳朵
ěr duo
कण्ण
kaṅṅa
外耳 / 楞 / 耳 / 耳朵 / 耳朵 / 街角 / 角 / 角度 / 角落 / 转角 / 陬 / 隅 /
耕作
gēng zuò
कसन
kasana
耕地
gēng dì
केदार
kedāra
地 / 地 / 场 / 場 / 實地 / 田 / 田地 / 田野 / 畝 / 耕地 / 野外 / 領域 / 領域 /
耻
chǐ
अयस
ayasa
恥辱 / 耻 / 辱 /

耽
dān
पमज्जना
pamajjanā
延 / 延遲 / 延遲 / 拖延 / 挨 / 耽 / 耽擱 / 耽擱 / 耽誤 /
耽擱
dān gē
पमज्जना
pamajjanā
延 / 延遲 / 延遲 / 拖延 / 挨 / 耽 / 耽擱 / 耽擱 / 耽誤 /
耽擱
dān gē
पमज्जना
pamajjanā
延 / 延遲 / 延遲 / 拖延 / 挨 / 耽 / 耽擱 / 耽擱 / 耽誤 /
耽誤
dān wù
पमज्जना
pamajjanā
延 / 延遲 / 延遲 / 拖延 / 挨 / 耽 / 耽擱 / 耽擱 / 耽誤 /
耽
gēng
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 鑫 /
聊聊
liáo liáo
अभिजप्पन
abhijappana
演講 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演講 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
聾
lóng
बधिर
badhira
聾 / 聵 / 聵 /

职
zhí
अधिकार
adhikāra
任 / 任職 / 办事处 / 办公室 / 厅 / 处 / 处 / 廨 / 管理 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 辦公 / 辦公室 /
ठान
thāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到 / 到 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廨 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 狀 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
धुर
dhura
任 / 任職 / 前部 / 处 / 处 / 接近的 / 最初的 / 最前部 / 职 / 職 / 處 / 費用 / 辦公 / 辦公室 /
职业
zhí yè
कम्म
kamma
事 / 作用 / 做事 / 券 / 動作 / 勞工 / 在職 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 業 / 活兒 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 行動 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
कम्मन्त
kammanta
事 / 事情 / 做事 / 務 / 在職 / 工 / 工作 / 工匠 / 工夫 / 工夫 / 职业 / 職業 / 著作 / 著作 / 起作用 / 辦事 /
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

联络
lián luò
फस्स
phassa
接觸 / 联络 /
聖人
shèng rén
इसि
isi
聖經
shèng jīng
आगम
āgama
來 / 信仰 / 宗教 / 教 / 聖經 /
पावचन
pāvachana

聚集
jù jí
उपसंहरण
upasaṃharana
ओचिनन
ocinana
काय
kāya
体 / 堆 / 積 / 聚集 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
聵
kuì
बधिर
badhira
聾 / 聵 / 聵 /
聰
cōng
कल्ल
kalla
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 僮 / 准备 / 妙 / 就緒 / 就緒 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /
छेक
cheka
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 僮 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /
दक्ख
dakkha
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俏 / 俐 / 僮 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 棒 / 精明 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 / 麻利 /
पटु
paṭu
乖 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 僮 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /
पण्डित
paṇḍita
哲 / 明智 / 智者 / 聰 / 英明 /
聰明
cōng míng
कल्ल
kalla
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 僮 / 准备 / 妙 / 就緒 / 就緒 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /
छेक
cheka
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 僮 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /
दक्ख
dakkha
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俏 / 俐 / 僮 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 棒 / 精明 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 / 麻利 /
पटु
paṭu
乖 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 僮 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /

聰明的
cōng míng de
कल्ल
kalla
乖 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 僬 / 准备 / 妙 / 就緒 / 就緒 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /
छेक
cheka
乖 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /
दक्ख
dakka
乖 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 棒 / 精明 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 / 麻利 /
पटु
paṭu
乖 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /

聰明
cōng míng
कल्ल
kalla
乖 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 僬 / 准备 / 妙 / 就緒 / 就緒 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /
छेक
cheka
乖 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /
दक्ख
dakka
乖 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 棒 / 精明 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 / 麻利 /
पटु
paṭu
乖 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 僬 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /

聲
shēng
गद
gada
作響 / 健全 / 嘔心 / 嘔 / 嘯 / 聲 / 聲音 / 恚 / 有聲 / 演講 / 疾 / 疾病 / 病 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
घोस
ghosa
作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嘍 / 聲 / 聲音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
धनित
dhanita
作響 / 健全 / 嘯 / 聲 / 聲音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
निन्नाद
ninnāda
作響 / 健全 / 嘯 / 聲 / 聲音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

聲明
shēng míng
अपदेस
apadesa
动机 / 原因 / 因 / 声明 / 声明书 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 聲明 / 說法 / 说法 / 道理 / 陈述 / 陳述 /
ऋत्ति
ñatti
公告 / 告示 / 宣言 / 聲明 /

聲音
shēng yīn
गद
gada
作響 / 健全 / 嘔心 / 嘔 / 嘯 / 聲 / 聲音 / 恚 / 有聲 / 演講 / 疾 / 疾病 / 病 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
घोस
ghosa
作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嘍 / 聲 / 聲音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
धनित
dhanita
作響 / 健全 / 嘯 / 聲 / 聲音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
निन्नाद
ninnāda
作響 / 健全 / 嘯 / 聲 / 聲音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

聲
shēng
गद
gada
作響 / 健全 / 嘔心 / 嘔 / 嘯 / 聲 / 聲音 / 恚 / 有聲 / 演講 / 疾 / 疾病 / 病 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
घोस
ghosa
作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嘍 / 聲 / 聲音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
धनित
dhanita
作響 / 健全 / 嘯 / 聲 / 聲音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
निन्नाद
ninnāda
作響 / 健全 / 嘯 / 聲 / 聲音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

聲響
shēng xiǎng
गद
gada
作響 / 健全 / 嘔心 / 嘔 / 嘯 / 聲 / 聲音 / 恚 / 有聲 / 演講 / 疾 / 疾病 / 病 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
घोस
ghosa
作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嘍 / 聲 / 聲音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
धनित
dhanita
作響 / 健全 / 嘯 / 聲 / 聲音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
निन्नाद
ninnāda
作響 / 健全 / 嘯 / 聲 / 聲音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

職
zhí
अधिकार
adhikāra
任 / 任職 / 办事处 / 办公室 / 厅 / 处 / 处 / 麻 / 管理 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 辦公 / 辦公室 /
ठान
ṭhāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 麻 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 狀 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
धुर
dhura
任 / 任職 / 前部 / 处 / 处 / 接近的 / 最初的 / 最前部 / 职 / 職 / 處 / 費用 / 辦公 / 辦公室 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 麻 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 郵件 / 郵政 / 部位 /

職位
zhí wèi
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 麻 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 郵件 / 郵政 / 部位 /

職業
zhí yè
अवचरण
avacaraṇa
交易 / 職業 /
कम्मन्त
kammanta
事 / 事情 / 做事 / 務 / 在職 / 工 / 工作 / 工匠 / 工夫 / 工夫 / 职业 / 職業 / 著作 / 著作 / 起作用 / 辦事 /

聽起來
tīng qǐ lái
गद
gada
作響 / 健全 / 嘔心 / 嘔 / 嘯 / 聲 / 聲音 / 恚 / 有聲 / 演講 / 疾 / 疾病 / 病 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
घोस
ghosa
作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嘍 / 聲 / 聲音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
धनित
dhanita
作響 / 健全 / 嘯 / 聲 / 聲音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
निन्नाद
ninnāda
作響 / 健全 / 嘯 / 聲 / 聲音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

聾
lóng
बधिर
badhira
聾 / 聵 / 聾 /

肆
sì
आपण
āpaṇa
商場 / 市 / 市场 / 市場 / 市集 / 肆 / 销售 / 集市 /

肇端
zhào duān
पकरण
pakaraṇa
事件 / 事情 / 場合 / 时机 / 机会 / 肇端 / 近因 /
पसङ्ग
pasaṅga
事件 / 事情 / 傾向 / 場合 / 大事 / 大事件 / 时机 / 机会 / 肇端 / 賽事 / 近因 /

肉
ròu
आमिस
āmisa
利益 / 材 / 材料 / 材質 / 物质 / 物质的 / 素材 / 肉 / 肉體 / 血肉 / 誘餌 / 诱惑 / 食 / 食品 / 食物 / 餌 / 饭 / 餌 /
पिसित
pisita
肉 / 肉體 / 血肉 /

肉豆寇
ròu dòu kòu
कोसफल
kosaphala
肉體
ròu tǐ
आमिस
āmisa
利益 / 材 / 材料 / 材質 / 物质 / 物质的 / 素材 / 肉 / 肉體 / 血肉 / 誘餌 / 诱惑 / 食 / 食品 / 食物 / 餌 / 饭 / 餌 /
पिसित
pisita
肉 / 肉體 / 血肉 /

肋
lèi
फासुका
phāsukā
肋 / 肋 / 肋骨 /
फासुका
phāsukā
肋 / 肋 / 肋骨 /
फासुलिका
phāsulikā
肋 / 肋 / 肋骨 /
फासुलिका
phāsulikā
肋 / 肋 / 肋骨 /

肋骨
lèi gú
फासुका
phāsukā
肋 / 肋 / 肋骨 /
फासुलिका
phāsulikā
肋 / 肋 / 肋骨 /

肌肉
jī ròu
नहार
nahāru
筋肉 / 肌肉 / 肌腱 / 腱 / 腱子 /
न्हार
nhāru
筋肉 / 肌肉 / 肌腱 / 腱 / 腱子 /

肌腱
jī jiàn
नहार
nahāru
筋肉 / 肌肉 / 肌腱 / 腱 / 腱子 /
न्हार
nhāru
筋肉 / 肌肉 / 肌腱 / 腱 / 腱子 /

आमिस
āmisa
利益 / 材 / 材料 / 材質 / 物质 / 物质的 / 素材 / 肉 / 肉體 / 血肉 / 誘餌 / 诱惑 / 食 / 食品 / 食物 / 餌 / 饭 / 餌 /
पिसित
pisita
肉 / 肉體 / 血肉 /

肌膚
jī fū
चम्म
camma
皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 皮革 / 肌膚 / 肤 / 革 /
तच
taca
削皮 / 剥 / 剥 / 吠 / 壳 / 壳 / 树皮 / 犬吠 / 皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 肌膚 / 肤 /

肖
xiào
उपम
upama
似 / 似 / 侔 / 同 / 喜欢 / 宛 / 相仿 / 相似的 / 肖 /

肖像
xiào xiàng
छाया
chāyā
影 / 影子 / 暗影 / 肖像 / 荫 / 阴影 / 陰影 /
पटिबिम्ब
paṭibimba
偶 / 像 / 副本 / 印像 / 反映 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
पटिमा
paṭimā
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
बिम्ब
bimba
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /

肘
zhǒu
कप्पर
kappara
手肘 / 肘 /

肚
dù
आमासय
āmāsaya
肚 / 胃 / 腹 /
उदर
udara
下腹 / 內部 / 肚 / 肚子 / 肚皮 / 胃 / 腹 / 腹部 / 臚 /
कोट्ट
koṭṭha
下腹 / 肚 / 肚子 / 腹 / 腹部 /
जठर
jaṭhara
肚 / 肚子 / 肚皮 / 胃 / 腹 / 腹部 / 臚 /

肚子
dù zi
उदर
udara
下腹 / 內部 / 肚 / 肚子 / 肚皮 / 胃 / 腹 / 腹部 / 臚 /
कोट्ट
koṭṭha
下腹 / 肚 / 肚子 / 腹 / 腹部 /
जठर
jaṭhara
肚 / 肚子 / 肚皮 / 胃 / 腹 / 腹部 / 臚 /

肚皮
dù pí
उदर
udara
下腹 / 內部 / 肚 / 肚子 / 肚皮 / 胃 / 腹 / 腹部 / 臚 /
जठर
jaṭhara
肚 / 肚子 / 肚皮 / 胃 / 腹 / 腹部 / 臚 /

股
gǔ
अवयव
avayava
一部份 / 份 / 员 / 員 / 局部 / 成員 / 會員 / 股 / 肢 / 要素 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
अंस
aṃsa
一部份 / 份 / 局部 / 擔負 / 股 / 肩 / 肩膀 / 膊 / 膊 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
कोट्टास
koṭṭhāsa
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 股 / 股份 / 股票 / 部份 / 部分 /
पटिविस
paṭivimsa
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 股 / 股份 / 股票 / 部份 / 部分 /
भाग
bhāga
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 分担 / 局部 / 幫派 / 派 / 派系 / 股 / 股份 / 股票 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

肢
zhī
अङ्ग
aṅga
品質 / 品质 / 成分 / 肢 / 質 / 質量 / 质 / 质量 /
अवयव
avayava
一部份 / 份 / 员 / 員 / 局部 / 成員 / 會員 / 股 / 肢 / 要素 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

肤
fū
चम्म
camma
皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 皮革 / 肌膚 / 肤 / 革 /
तच
taca
削皮 / 剥 / 剥 / 吠 / 壳 / 壳 / 树皮 / 犬吠 / 皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 肌膚 / 肤 /

股份
gǔ fèn
कोट्टास
koṭṭhāsa
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 股 / 股份 / 股票 / 部份 / 部分 /
पटिविस
paṭivimsa
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 股 / 股份 / 股票 / 部份 / 部分 /
पल्लि
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利润 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到来 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 润 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /
भाग
bhāga
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 分担 / 局部 / 幫派 / 派 / 派系 / 股 / 股份 / 股票 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

股票
gǔ piào
कोट्टास
koṭṭhāsa
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 股 / 股份 / 股票 / 部份 / 部分 /
पटिविस
paṭivimsa
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 股 / 股份 / 股票 / 部份 / 部分 /
पल्लि
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利润 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到来 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 润 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /
भाग
bhāga
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 分担 / 局部 / 幫派 / 派 / 派系 / 股 / 股份 / 股票 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

胆
dǎn xiǎo
भौरुक
bhīruka
怯懦的 / 怵 / 懦 / 懦弱 / 胆小 / 膽小 /
胆量
dǎn liàng
धिति
dhiti
决心 / 勇气 / 勇氣 / 有勇氣 / 活力 / 精力 / 胆量 / 能源 / 能量 / 膽子 / 膽量 / 高能 /

肤
fū
चम्म
camma
皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 皮革 / 肌膚 / 肤 / 革 /
तच
taca
削皮 / 剥 / 剥 / 吠 / 壳 / 壳 / 树皮 / 犬吠 / 皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 肌膚 / 肤 /

肥
féi
थूल
thūla
伧 / 奘 / 奘 / 油脂 / 粗 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 肥 / 肥肉 / 肥胖 / 胖 / 胖的 / 脂 / 脂肪 / 草 /
肥肉
féi ròu
थूल
thūla
伧 / 奘 / 奘 / 油脂 / 粗 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 肥 / 肥肉 / 肥胖 / 胖 / 胖的 / 脂 / 脂肪 / 草 /

肥胖
féi pàng
थूल
thūla
伧 / 奘 / 奘 / 油脂 / 粗 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 肥 / 肥肉 / 肥胖 / 胖 / 胖的 / 脂 / 脂肪 / 草 /

肩
jiān
अंस
aṃsa
一部份 / 份 / 局部 / 擔負 / 股 / 肩 / 肩膀 / 膊 / 膊 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
肩膀
jiān bǎng
अंस
aṃsa
一部份 / 份 / 局部 / 擔負 / 股 / 肩 / 肩膀 / 膊 / 膊 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

胃
wèi
आमासय
āmāsaya
肚 / 胃 / 腹 /
उदर
udara
下腹 / 內部 / 肚 / 肚子 / 肚皮 / 胃 / 腹 / 腹部 / 臚 /
जठर
jaṭhara
肚 / 肚子 / 肚皮 / 胃 / 腹 / 腹部 / 臚 /

胆小
dǎn xiǎo
भौरुक
bhīruka
怯懦的 / 怵 / 懦 / 懦弱 / 胆小 / 膽小 /
胆量
dǎn liàng
धिति
dhiti
决心 / 勇气 / 勇氣 / 有勇氣 / 活力 / 精力 / 胆量 / 能源 / 能量 / 膽子 / 膽量 / 高能 /

背包
bèi bāo
थविका
thavikā
背包 / 錢包 /

背影
bèi yǐng
पिट्ट
piṭṭha
后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 表面 / 走回 / 退后 / 面 / 麵 /
पिट्ठि
piṭṭhi
上端 / 后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 尖峰 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 走回 / 退后 / 頂端 / 頂端 /

背部
bèi bù
पिट्ट
piṭṭha
后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 表面 / 走回 / 退后 / 面 / 麵 /
पिट्ठि
piṭṭhi
上端 / 后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 尖峰 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 走回 / 退后 / 頂端 / 頂端 /

背面
bèi miàn
पिट्ट
piṭṭha
后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 表面 / 走回 / 退后 / 面 / 麵 /
पिट्ठि
piṭṭhi
上端 / 后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 尖峰 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 走回 / 退后 / 頂端 / 頂端 /

胖
pàng
थूल
thūla
伧 / 奘 / 奘 / 油脂 / 粗 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 肥 / 肥肉 / 肥胖 / 胖 / 胖的 / 脂 / 脂肪 / 草 /
胖的
pàng de
थूल
thūla
伧 / 奘 / 奘 / 油脂 / 粗 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 肥 / 肥肉 / 肥胖 / 胖 / 胖的 / 脂 / 脂肪 / 草 /

胜
shèng
जय
jaya
勝 / 勝利 / 好勝 / 戰勝 / 捷 / 胜 / 胜利 /

胜利
shèng lì
जय
jaya
勝 / 勝利 / 好勝 / 戰勝 / 捷 / 胜 / 胜利 /

胡扯
hú chě
पलाप
palāpa
廢話 / 胡扯 /

胡椒
hú jiāo
कोलक
kolaka
椒 / 胡椒 /

胥
xū
असेस
asesa

一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
--

निखिल
nikhila

一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
--

निस्सेस
nissesa
一切 / 全部 / 全部的 / 全體 / 凡 / 凡是 / 囫 / 均 / 完全 / 完全地 / 所有 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 胥 / 芸芸 / 通通 /

胯
kuà
ऊरु
ūru
大腿 / 大腿骨 / 胯 / 腿 /
पाद
pāda
叁 / 基 / 基地 / 基础 / 基礎 / 壘 / 尺 / 底 / 底座 / 根據地 / 根本 / 胯 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 腿 / 英尺 / 足 / 足部 /

脬
gē
उपकच्छ
upakaccha
脬 / 腋下 / 腋下 / 腋窩 / 腋窩 /
उपकच्छक
upakacchaka
脬 / 腋下 / 腋下 / 腋窩 / 腋窩 /
कच्छ
kaccha
脬 / 腋下 / 腋下 / 腋窩 / 腋窩 /

脬
gē
उपकच्छ
upakaccha
脬 / 腋下 / 腋下 / 腋窩 / 腋窩 /

脬
gē
उपकच्छक
upakacchaka
脬 / 腋下 / 腋下 / 腋窩 / 腋窩 /
कच्छ
kaccha
脬 / 腋下 / 腋下 / 腋窩 / 腋窩 /

脬
gē
उपकच्छक
upakacchaka
脬 / 腋下 / 腋下 / 腋窩 / 腋窩 /

脬
gē
उपकच्छक
upakacchaka
脬 / 腋下 / 腋下 / 腋窩 / 腋窩 /

胳膊
gē bo
बाहु
bāhu
手臂 / 手臂 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /

बाह
bāhā
手臂 / 手臂 / 把 / 把手 / 把柄 / 柄 / 柱 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /

भुज
bhujā
一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手臂 / 手臂 / 手邊 / 手頭 / 笔迹 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /

胸
xiōng
उर
ura
中 / 乳 / 乳房 / 吸奶 / 奶子 / 心口 / 怀 / 懷 / 胸 / 胸口 / 胸脯 / 胸膛 / 胸部 /

चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 颜料 /

胸口
xiōng kǒu
उर
ura
中 / 乳 / 乳房 / 吸奶 / 奶子 / 心口 / 怀 / 懷 / 胸 / 胸口 / 胸脯 / 胸膛 / 胸部 /

胸脯
xiōng pú
उर
ura
中 / 乳 / 乳房 / 吸奶 / 奶子 / 心口 / 怀 / 懷 / 胸 / 胸口 / 胸脯 / 胸膛 / 胸部 /

胸膛
xiōng táng
उर
ura
中 / 乳 / 乳房 / 吸奶 / 奶子 / 心口 / 怀 / 懷 / 胸 / 胸口 / 胸脯 / 胸膛 / 胸部 /

脬
xiōng bù
उर
ura
中 / 乳 / 乳房 / 吸奶 / 奶子 / 心口 / 怀 / 懷 / 胸 / 胸口 / 胸脯 / 胸膛 / 胸部 /

能克服
néng kè fú
अतिवत्त
ativatta
克服 / 能克服 / 超越 /

能力
néng lì
कल्ल
kalla

乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 健全的 / 健康的 / 焦 / 准备 / 妙 / 就緒 / 就绪 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聪 / 聪明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /

थाम
thāma
冪 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 实力 / 冪 / 強國 / 强权 / 斷電 / 有力的 / 权力 / 權力 / 活力 / 能力 /

दक्ख
dakkha
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俏 / 俐 / 焦 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 棒 / 精明 / 聪 / 聪明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 / 麻利 /
बल

bala
军 / 军队 / 冪 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 勢力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 冪 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

भव्व
bhabba
勝任 / 得力 / 得力 / 有能力的 / 能力 / 能干 / 能干 /

能干
néng gān
पटिबल
paṭibala
勝任 / 得力 / 能干 / 能干 /

पटिबल
paṭibala
勝任 / 得力 / 能干 / 能干 /
भव्व

bhabba
勝任 / 得力 / 得力 / 有能力的 / 能力 / 能干 / 能干 /
भव्व

bhabba
勝任 / 得力 / 得力 / 有能力的 / 能力 / 能干 / 能干 /

能源
néng yuán
उद्दान
uṭṭhāna

上升 / 业 / 來歷 / 出身 / 原点 / 始源 / 工業 / 本源 / 来历 / 根源 / 業 / 活力 / 由来 / 精力 / 能源 / 能量 / 血统 / 行業 / 起源 / 高能 /
--

उस्सुक्क
ussukka
活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 高能 /

धिति
dhiti
决心 / 勇气 / 勇氣 / 有勇氣 / 活力 / 精力 / 胆量 / 能源 / 能量 / 膽子 / 膽量 / 高能 /

पग्गह
paggaha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /

पग्गाह
paggāha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /

能量
néng liàng
उद्दान
uṭṭhāna
上升 / 业 / 來歷 / 出身 / 原点 / 始源 / 工業 / 本源 / 来历 / 根源 / 業 / 活力 / 由来 / 精力 / 能源 / 能量 / 血统 / 行業 / 起源 / 高能 /

उस्सुक्क
ussukka
活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 高能 /

धिति
dhiti
决心 / 勇气 / 勇氣 / 有勇氣 / 活力 / 精力 / 胆量 / 能源 / 能量 / 膽子 / 膽量 / 高能 /

पग्गह
paggaha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /

पग्गाह
paggāha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /

脂
zhī
थूल
thūla
伦 / 奘 / 奘 / 油脂 / 粗 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 肥 / 肥肉 / 肥胖 / 胖 / 胖的 / 脂 / 脂肪 / 草 /

脂肪
zhī fáng
थूल
thūla
伦 / 奘 / 奘 / 油脂 / 粗 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 肥 / 肥肉 / 肥胖 / 胖 / 胖的 / 脂 / 脂肪 / 草 /

脆
cuì
पभङ्गुर
pabhaṅgura
易碎 / 脆 / 脆弱 / 薄弱 / 薄弱 /

脆弱
cuì ruò
पभङ्गुर
pabhaṅgura
易碎 / 脆 / 脆弱 / 薄弱 / 薄弱 /

脆弱的
cuì ruò de
पभङ्गु
pabhaṅgu
脆弱的 / 脆的 /

脆的
cuì de
पभङ्गु
pabhaṅgu
脆弱的 / 脆的 /

脊
jǐ

कूट
kūṭa
上端 / 岡 / 坎 / 尖峰 / 山脊 / 山脊 / 岡 / 峙 / 峰 / 欺騙 / 突起 / 脊 / 脊 / 謊言 / 頂峰 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 高峰 /
कूट
kūṭa

上端 / 岡 / 坎 / 尖峰 / 山脊 / 山脊 / 岡 / 峙 / 峰 / 欺騙 / 突起 / 脊 / 脊 / 謊言 / 頂峰 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 高峰 /
--

脰
nóng
अस्सव
assava

水流 / 注意的 / 流 / 流动 / 流動 / 流向 / 流量 / 脰 / 膿 /

पुब्व
pubba
先前的 / 物質 / 脰 / 膿 /

पूय
pūya
脰 / 膿 /

脖
bó
कण्ठ
kaṅṭha

吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /

गल
gala
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /

गीवा
gīvā
脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /

脖子
bó zi
कण्ठ
kaṅṭha
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /
गल
gala
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /
गीवा
gīvā
脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /

脚
jiǎo
चरण
carāṇa
尺 / 步行 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 英尺 / 足 / 足部 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到到 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廩 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /
पाद
pāda
垒 / 基 / 基地 / 基础 / 基礎 / 壘 / 尺 / 底 / 底座 / 根據地 / 根本 / 胯 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 腿 / 英尺 / 足 / 足部 /

脚步
jiǎo bù
कम
kama
一步 / 命令 / 序 / 措施 / 方式 / 方法 / 模式 / 步 / 步子 / 步驟 / 狀態 / 脚步 / 舉止 / 训令 / 進程 / 陔 / 順序 / 顺序 /

脩
xiū
पटिजगगन
paṭijaggana
修 / 修復 / 修理 / 修補 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 管理 / 脩 / 關心 / 關照 /

脰
dòu
कण्ठ
kaṅṭha
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /
गल
gala
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /
गीवा
gīvā
脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /

臉
liǎn
मुख
mukha
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前線 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 薈 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

腋下
yè xià
उपकच्छ
upakaccha
腋 / 腋下 / 腋下 / 腋窩 / 腋窩 /
उपकच्छ
upakaccha
腋 / 腋下 / 腋下 / 腋窩 / 腋窩 /
उपकच्छक
upakacchaka
腋 / 腋下 / 腋下 / 腋窩 / 腋窩 /
उपकच्छक
upakacchaka
腋 / 腋下 / 腋下 / 腋窩 / 腋窩 /
कच्छ
kaccha
腋 / 腋下 / 腋下 / 腋窩 / 腋窩 /
कच्छ
kaccha
腋 / 腋下 / 腋下 / 腋窩 / 腋窩 /

腋窩
yè wō
उपकच्छ
upakaccha
腋 / 腋下 / 腋下 / 腋窩 / 腋窩 /
उपकच्छक
upakacchaka
腋 / 腋下 / 腋下 / 腋窩 / 腋窩 /
कच्छ
kaccha
腋 / 腋下 / 腋下 / 腋窩 / 腋窩 /

腋窩
yì wō
उपकच्छ
upakaccha
腋 / 腋下 / 腋下 / 腋窩 / 腋窩 /
उपकच्छक
upakacchaka
腋 / 腋下 / 腋下 / 腋窩 / 腋窩 /
कच्छ
kaccha
腋 / 腋下 / 腋下 / 腋窩 / 腋窩 /
腐敗

fū bài
दूसन
dūsana
污染 / 污辱 / 腐敗 /
दोस
dosa
忿怒 / 怒 / 怒火 / 拂 / 愆 / 愤 / 愤怒 / 憤怒 / 毛病 / 瑕 / 耑 / 破綻 / 缺点 / 缺陷 / 缺點 / 腐敗 / 責備 / 蹉 / 過失 /
腐朽
fū xiǔ
परिक्खय
parikkhaya
廢物 / 枯竭 / 浪費 / 浪費 / 白費 / 腐朽 / 虛度 /

腕
wàn
करभ
karabha
手腕 / 腕 / 駝 / 駱駝 / 駝 / 駝 / 骆驼 /
腕尺
wàn chǐ
कुक्कु
kukku

腰
yāo
कटि
kaṭi
腰 / 腰部 / 臀部 /
मज्झ
majjha
中央 / 中央的 / 中心 / 央 / 居中 / 腰 / 腰部 /

腰帶
yāo dài
पट्टिका
paṭṭikā
繙帶 / 绷带 / 腰帶 /

腳步
jiǎo bù
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到到 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廩 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /

腰部
yāo bù
कटि
kaṭi
腰 / 腰部 / 臀部 /
जघन
jaghana
屁股 / 腰部 / 臀部 /
मज्झ
majjha
中央 / 中央的 / 中心 / 央 / 居中 / 腰 / 腰部 /

腿
jiàn
नहार
nahāru
筋肉 / 肌肉 / 肌腱 / 腿 / 腿子 /
न्हार
nhāru
筋肉 / 肌肉 / 肌腱 / 腿 / 腿子 /

腿子
jiàn zi
नहार
nahāru
筋肉 / 肌肉 / 肌腱 / 腿 / 腿子 /
न्हार
nhāru
筋肉 / 肌肉 / 肌腱 / 腿 / 腿子 /

腳
jiǎo
चरण
carāṇa
尺 / 步行 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 英尺 / 足 / 足部 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到到 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廩 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /
पाद
pāda
垒 / 基 / 基地 / 基础 / 基礎 / 壘 / 尺 / 底 / 底座 / 根據地 / 根本 / 胯 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 腿 / 英尺 / 足 / 足部 /

腳步
jiǎo bù
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到到 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廩 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /

腳趾
jiǎo zhǐ
अङ्गुलि
aṅguli
手指 / 手指头 / 指 / 指頭 / 腳趾 /
腳踏
jiǎo tà
चरण
carāṇa
尺 / 步行 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 英尺 / 足 / 足部 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到到 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廩 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /
पाद
pāda
垒 / 基 / 基地 / 基础 / 基礎 / 壘 / 尺 / 底 / 底座 / 根據地 / 根本 / 胯 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 腿 / 英尺 / 足 / 足部 /

腹
fù
आमासय
āmāsaya
肚 / 胃 / 腹 /
उदर
udara
下腹 / 內部 / 肚 / 肚子 / 肚皮 / 胃 / 腹 / 腹部 / 臚 /
कोट्ट
koṭṭha
下腹 / 肚 / 肚子 / 腹 / 腹部 /
जठर
jaṭhara
肚 / 肚子 / 肚皮 / 胃 / 腹 / 腹部 / 臚 /

腹部
fù bù
उदर
udara
下腹 / 內部 / 肚 / 肚子 / 肚皮 / 胃 / 腹 / 腹部 / 臚 /
कोट्ट
koṭṭha
下腹 / 肚 / 肚子 / 腹 / 腹部 /
जठर
jaṭhara
肚 / 肚子 / 肚皮 / 胃 / 腹 / 腹部 / 臚 /

腿
tuǐ
ऊरु
ūru
大腿 / 大腿骨 / 胯 / 腿 /
पाद
pāda
傘 / 基 / 基地 / 基础 / 基礎 / 壘 / 尺 / 底 / 底座 / 根據地 / 根本 / 胯 / 脚 / 脚 / 脚踏 / 腿 / 英尺 / 足 / 足部 /

膊
bo
अंस
aṃsa
一部份 / 份 / 局部 / 擔負 / 股 / 肩 / 肩膀 / 膊 / 膊 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
अंस
aṃsa
一部份 / 份 / 局部 / 擔負 / 股 / 肩 / 肩膀 / 膊 / 膊 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

膏药
gāo yào
आलेप
ālepa
石膏 / 膏药 /

膜
mó
पटल
paṭala
信封 / 封套 / 封袋 / 影片 / 片子 / 电影 / 膜 / 膠片 / 蓋子 / 薄膜 / 软片 /

膝
xī
जण्णु
jaṅṅu
膝 / 膝上 / 膝下 / 膝蓋 /
जाणु
jānu
膝 / 膝上 / 膝下 / 膝蓋 /

膝上
xī shàng
जण्णु
jaṅṅu
膝 / 膝上 / 膝下 / 膝蓋 /
जाणु
jānu
膝 / 膝上 / 膝下 / 膝蓋 /

膝下
xī xià
जण्णु
jaṅṅu
膝 / 膝上 / 膝下 / 膝蓋 /
जाणु
jānu
膝 / 膝上 / 膝下 / 膝蓋 /

膝蓋
xī gài
उच्छङ्ग
ucchaṅga
膝蓋 / 臀部 /
जण्णु
jaṅṅu
膝 / 膝上 / 膝下 / 膝蓋 /
जाणु
jānu
膝 / 膝上 / 膝下 / 膝蓋 /

膠片
jiāo piàn
पटल
paṭala
信封 / 封套 / 封袋 / 影片 / 片子 / 电影 / 膜 / 膠片 / 蓋子 / 薄膜 / 软片 /

膳
shàn
भत्त
bhatta
膳 / 膳食 / 食 / 食品 / 食物 / 餐 / 饭 /
भोजन
bhojana
膳 / 膳食 / 食 / 食品 / 食物 / 餐 / 饭 /

膳食
shàn shí
भत्त
bhatta
膳 / 膳食 / 食 / 食品 / 食物 / 餐 / 饭 /
भोजन
bhojana
膳 / 膳食 / 食 / 食品 / 食物 / 餐 / 饭 /

膽子
dǎn zi
धिति
dhiti
决心 / 勇气 / 勇氣 / 有勇氣 / 活力 / 精力 / 胆量 / 能源 / 能量 / 膽子 / 膽量 / 高能 /

膽小
dǎn xiǎo
भीरुक
bhīruka
怯懦的 / 怵 / 懦 / 懦弱 / 胆小 / 膽小 /

膽量
dǎn liàng
धिति
dhiti
决心 / 勇气 / 勇氣 / 有勇氣 / 活力 / 精力 / 胆量 / 能源 / 能量 / 膽子 / 膽量 / 高能 /

膿
nóng
अस्सव
assava
水流 / 注意的 / 流 / 流动 / 流動 / 流向 / 流量 / 脓 / 膿 /
पुब्ब
pubba
先前的 / 物質 / 脓 / 膿 /
पूय
pūya
脓 / 膿 /

臀部
tún bù
आनिसद
ānisada
屁股 / 臀部 /
उच्छङ्ग
ucchaṅga

膝蓋 / 臀部 /
कटि
kaṭi
腰 / 腰部 / 臀部 /
जघन
jaghana
屁股 / 腰部 / 臀部 /
नितम्ब
nitamba
पावळ
pāvaḷa
屁股 / 臀部 /

臂
bei
बाहु
bāhu
手臂 / 手臂 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /
बाहु
bāhu
手臂 / 手臂 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /

臂膀 / 麾下 /
बाह
bāhā

手臂 / 手臂 / 把 / 把手 / 把柄 / 柄 / 柱 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /
बाह
bāhā

手臂 / 手臂 / 把 / 把手 / 把柄 / 柄 / 柱 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /
बाह
bāhā

手臂 / 手臂 / 把 / 把手 / 把柄 / 柄 / 柱 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /
भुज
bhuja
一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手臂 / 手臂 / 手邊 / 手頭 / 笔迹 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /

手臂 / 手臂 / 把 / 把手 / 把柄 / 柄 / 柱 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /
भुज
bhuja
一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手臂 / 手臂 / 手邊 / 手頭 / 笔迹 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /

臂膀
bei bǎng
बाहु
bāhu
手臂 / 手臂 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /

臂膀 / 麾下 /
बाहु
bāhu
手臂 / 手臂 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /

臂膀 / 麾下 /
बाह
bāhā
手臂 / 手臂 / 把 / 把手 / 把柄 / 柄 / 柱 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /

臂膀 / 麾下 /
बाह
bāhā
手臂 / 手臂 / 把 / 把手 / 把柄 / 柄 / 柱 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /

臂膀 / 麾下 /
भुज
bhuja
一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手臂 / 手臂 / 手邊 / 手頭 / 笔迹 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /

臂膀 / 麾下 /
भुज
bhuja
一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手臂 / 手臂 / 手邊 / 手頭 / 笔迹 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /

臉
liǎn
मुख
mukha
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 觜 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

臉上
liǎn shàng
मुख
mukha

臉上
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 觜 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

臉部
liǎn bù
मुख
mukha

臉部
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 觜 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

臚
lú
उदर
udara
下腹 / 內部 / 肚 / 肚子 / 肚皮 / 胃 / 腹 / 腹部 / 臚 /
जठर
jathara
肚 / 肚子 / 肚皮 / 胃 / 腹 / 腹部 / 臚 /

臨
lín
मुख
mukha

臨
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 觜 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

自
zì
पभुति
pabhuti
以來 / 既然 / 由於 / 自 / 自從 / 自此 /

自大
zì dà
अतिमान
atimāna

自大
zì dà
उन्नळ
unnala
傲慢 / 囂張 / 粗野 / 自大 / 自大的 / 自大的 / 驕 /

自大的
zì dà de
उन्नळ
unnala

自大的
उन्नळ
unnala
傲慢 / 囂張 / 粗野 / 自大 / 自大的 / 自大的 / 驕 /

自大的
उन्नळ
unnala
傲慢 / 囂張 / 粗野 / 自大 / 自大的 / 自大的 / 驕 /

自尊
zì zūn
अभिमान
abhimāna

自小
zì xiǎo
बाल्य
bālyā
小時候 / 幼年 / 幼年时代 / 愚蠢 / 童年 / 自小 / 自幼 / 蠢事 /

自幼
zì yòu
बाल्य
bālyā

自幼
बाल्य
bālyā
小時候 / 幼年 / 幼年时代 / 愚蠢 / 童年 / 自小 / 自幼 / 蠢事 /

自從
zì cóng
ततो
tato
因此 / 所以 / 故 / 自從 /
पभृति
pabhuti
以來 / 既然 / 由於 / 自 / 自從 / 自此 /

自此
zì cǐ
पभृति
pabhuti
以來 / 既然 / 由於 / 自 / 自從 / 自此 /

自然
zì rán
धम्म
dhamma
事實 / 品德 / 大自然 / 天性 / 德 / 德性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性質 / 本性 / 本質 / 本质 / 法 / 自然 / 自然界 / 道德 /
धम्मता
dhammatā

大自然 / 天性 / 性情 / 性質 / 性質 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /
पकति
pakati
人品 / 人物 / 品格 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性質 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /
पाकतिक
pākatika
天然 / 最初的 / 自然 / 自然的 /
भाव
bhāva
況 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性質 / 情況 / 本性 / 本質 / 本质 / 條件 / 況 / 状态 / 自然 / 自然界 /

自然界
zì rán jiè
धम्म
dhamma
事實 / 品德 / 大自然 / 天性 / 德 / 德性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性質 / 本性 / 本質 / 本质 / 法 / 自然 / 自然界 / 道德 /
धम्मता
dhammatā
大自然 / 天性 / 性情 / 性質 / 性質 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /
पकति
pakati

人品 / 人物 / 品格 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性質 / 本性 / 本質 / 本质 / 自然 / 自然界 /
भाव
bhāva
況 / 大自然 / 天性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性質 / 情況 / 本性 / 本質 / 本质 / 條件 / 況 / 状态 / 自然 / 自然界 /

自然的
zì rán de
पाकतिक
pākatika
天然 / 最初的 / 自然 / 自然的 /
自由
zì yóu
अपलिबु
apalibuddha
漫 / 自由 / 自由的 / 解放 /
अबद्ध
abaddha
漫 / 自由 / 自由的 / 解放 /
अबन्धन
abandhana
漫 / 自由 / 自由的 / 解放 /
निरग्गल
niraggala
漫 / 自由 / 自由的 / 解放 /
自由民
zì yóu mín
भुजिस्स
bhujissa

自由的
zì yóu de
अपलिबु
apalibuddha
漫 / 自由 / 自由的 / 解放 /
अबद्ध
abaddha
漫 / 自由 / 自由的 / 解放 /
अबन्धन
abandhana
漫 / 自由 / 自由的 / 解放 /
निरग्गल
niraggala
漫 / 自由 / 自由的 / 解放 /

自行车
zì xíng chē
चक्क
cakka
令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 轮子 / 轆 / 轆 / 騎車 /
臭

chòu
पूति
pūti
पूतिक
pūtika

臭味
chòu wèi
दुग्गन्ध
duggandha

至死
zhì sǐ
अन्तक
antaka
死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
कालकिरिया
kālakiriya
死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
चवन
cavana
死 / 死亡 / 死地 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
नमुचि
namuci
死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
नास
nāsa
死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 毀滅 / 破壞 / 至死 / 身亡 /
मच्चु
maccu
死 / 死亡 / 死地 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /

至高的
zhì gāo de
जेट्ठ
jetṭha
最初的 / 至高的 /

致
zhì
निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /

致使
zhì shǐ
निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /

致款
zhì qiàn
पच्चाहार
paccāhāra
包涵 / 原諒 / 寬恕 / 歉 / 歉意 / 致款 / 道歉 /

致款
zhì qiàn
पच्चाहार
paccāhāra
包涵 / 原諒 / 寬恕 / 歉 / 歉意 / 致款 / 道歉 /

致款
zhì qiàn
पच्चाहार
paccāhāra
包涵 / 原諒 / 寬恕 / 歉 / 歉意 / 致款 / 道歉 /

與
yǔ
अपि
api
与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 既使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /
च
ca
与 / 且 / 並 / 並且 / 也 / 以及 / 併 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 和 / 太 / 并 / 并且 / 暨 / 汰 / 而 / 而且 / 與 /
पन
pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 /
现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /

興
xīng
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 涨 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /

興起
xīng qǐ
उग्गम
uggama
上升 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 涨 / 漲 / 益 / 興起 / 茁 /
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 涨 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /
उदयन
udayana
上升 / 崛起 / 涨 / 漲 / 興起 /

興趣
xīng qù
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 涨 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /

舉報
jǔ bào
निवेदन
nivedana
公告 / 呈報 / 告示 / 報告 / 報案 / 情報 / 舉報 /

舉止
jǔ zhǐ
आकप्प
ākappa
इरियना
iriyana
姿 / 姿勢 / 姿态 / 舉止 /
इरिया
iriyā
姿 / 姿勢 / 姿态 / 舉止 /
उब्बहन
ubbahana
कम
kama
一步 / 命令 / 序 / 措施 / 方式 / 方法 / 模式 / 步 / 步子 / 步驟 / 狀態 / 脚步 / 舉止 / 训令 / 進程 / 陔 / 順序 / 顺序 /
नय
naya
打算 / 方式 / 方案 / 方法 / 模式 / 策 / 策劃 / 舉止 / 計劃 / 計畫 / 计划 / 顺序 /
नीहार
nīhāra
方式 / 方法 / 樣子 / 舉止 /
पकार
pakāra
方式 / 方法 / 模式 / 樣子 / 舉止 / 顺序 /

舉起
jǔ qǐ
पग्गह
paggaha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /
पग्गह
paggāha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /

舊
jiù
जज्जर
jajjara
估 / 古 / 古老 / 年老的 / 年近 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /
जर
jara
估 / 发烧 / 古 / 古老 / 年老的 / 年近 / 旧 / 旧的 / 热病 / 熱病 / 發燒 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 / 衰老的 /
पुराण
purāṇa

估 / 先前的 / 古 / 古老 / 年老的 / 年近 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /
बु
buddha

估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年近 / 情報 / 情報 / 旄 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 窍 / 精神 / 老 / 老的 / 毫 / 舊 / 舊的 /
--

舊的
jiù de
जज्जर
jajjara
估 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /
जर
jara
估 / 发烧 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 热病 / 熱病 / 發燒 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 / 衰老的 /
पुराण
purāṇa
估 / 先前的 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 /
बु
buḍḍha
估 / 古 / 古老 / 头脑 / 年老 / 年老的 / 年迈 / 情报 / 情报 / 旄 / 旧 / 旧的 / 智 / 智力 / 智慧 / 泡沫 / 泡沫 / 理智 / 窍 / 精神 / 老 / 老的 / 耄 / 舊 / 舊的 /

舌
shé
जिह्वा
jivhā
口舌 / 舌 / 舌头 / 舌頭 / 语言 /

舌头
shé tóu
जिह्वा
jivhā
口舌 / 舌 / 舌头 / 舌頭 / 语言 /

舌頭
shé tóu
जिह्वा
jivhā
口舌 / 舌 / 舌头 / 舌頭 / 语言 /

निलय
nilaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 房子 / 房屋 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निलय
nilaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 房子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /

निवेस
nivesa
住宅 / 住所 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 殖民地 / 殖民地 / 舍 / 舍 / 解决 /
निवेस
nivesa
住宅 / 住所 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 殖民地 / 殖民地 / 舍 / 舍 / 解决 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गह
gaha
住宅 / 家 / 居 / 屋 / 屋子 / 屋頂 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गह
gaha
住宅 / 家 / 居 / 屋 / 屋子 / 屋頂 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गेह
geha
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /

घर
ghara
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
घर
ghara
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /
निलय
nilaya
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 住所 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 家庭 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /

नचक
naccaka
扮演者 / 扮演者 / 演員 / 演員 / 舞者 /
नच्य
nacca
游戏 / 舞蹈 / 表演 /
नच्य
nacca
游戏 / 舞蹈 / 表演 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गह
gaha
住宅 / 家 / 居 / 屋 / 屋子 / 屋頂 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

गह
gaha
住宅 / 家 / 居 / 屋 / 屋子 / 屋頂 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /
गेह
geha
主場 / 主頁 / 住宅 / 住家 / 回國 / 在家 / 家 / 家園 / 家園 / 家裡 / 居家 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 故鄉 / 老家 / 舍 / 舍 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

शु
shù
अगार
agāra
住宅 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 舍 / 舍 /

舟
zhōu
तरणी
taraṇī
小船 / 小艇 / 舟 / 航 / 船 / 船 /
दोणि
doṇi
小船 / 小艇 / 舟 / 航 / 船 /
दोणिका
doṇikā
小船 / 小艇 / 舟 / 航 / 船 /
नावा
nāvā
小船 / 小艇 / 渡口 / 港口 / 舟 / 航 / 船 / 船 /

航
háng
तरणी
taraṇī
小船 / 小艇 / 舟 / 航 / 船 / 船 /
दोणि
doṇi
小船 / 小艇 / 舟 / 航 / 船 /

तरणी
taraṇī
小船 / 小艇 / 舟 / 航 / 船 / 船 /
दोणि
doṇi
小船 / 小艇 / 舟 / 航 / 船 /

दोणि
doṇi
小船 / 小艇 / 舟 / 航 / 船 /
दोणिका
doṇikā
小船 / 小艇 / 舟 / 航 / 船 /
नावा
nāvā
小船 / 小艇 / 渡口 / 港口 / 舟 / 航 / 船 / 船 /

航向
háng xiàng
पथ
patha
中 / 修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /
航線
háng xiàn

पथ
patha
中 / 修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /

航線
háng xiàn
पथ
patha
中 / 修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /

航
fāng
दन्त
danta
尖牙 / 牙 / 牙齒 / 牙齿 / 舂 / 芳 / 齒 / 齿 /

舵
duò
अरित्त
aritta
方向舵 / 舵 /

舵
duò
अरित्त
aritta
方向舵 / 舵 /

舵
duò
अरित्त
aritta
方向舵 / 舵 /

舵
duò
अरित्त
aritta
方向舵 / 舵 /

船
bó
तरणी
taraṇī
小船 / 小艇 / 舟 / 航 / 船 / 船 /
नावा
nāvā
小船 / 小艇 / 渡口 / 港口 / 舟 / 航 / 船 / 船 /

船
chuán
तरणी
taraṇī
小船 / 小艇 / 舟 / 航 / 船 / 船 /
दोणि
doṇi
小船 / 小艇 / 舟 / 航 / 船 /

दोणि
doṇi
小船 / 小艇 / 舟 / 航 / 船 /
दोणिका
doṇikā
小船 / 小艇 / 舟 / 航 / 船 /
नावा
nāvā
小船 / 小艇 / 渡口 / 港口 / 舟 / 航 / 船 / 船 /

船長
chuán zhǎng
नियामक
niyāmaka
司令 / 司令官 / 指挥官 / 指揮官 / 總司令 / 船長 /

船首
chuán shǒu
इस्सास
issāsa
射手 / 弓 / 船首 / 躬 / 鞠躬 /
कोण
koṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 隙 / 隅 / 鞠躬 /

चाप
cāpa
弓 / 船首 / 躬 / 鞠躬 /
धनु
dhanu
弓 / 船首 / 躬 / 鞠躬 /

良好
liáng hǎo
उदपान
udapāna
井 / 以至 / 嘛 / 嘿 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /

उदपान
udapāna
井 / 以至 / 嘛 / 嘿 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /

कूप
kūpa
井 / 以至 / 嘛 / 嘿 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /

कूप
kūpa
井 / 以至 / 嘛 / 嘿 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /

कूप
kūpa
井 / 以至 / 嘛 / 嘿 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /

कूप
kūpa
井 / 以至 / 嘛 / 嘿 / 好 / 好了 / 好啊 / 安好 / 小康 / 很好 / 水井 / 泉 / 良好 /

艰
jiān
किच्छ
kičča
吃力 / 困难 / 困難 / 屯 / 為難 / 痛苦 / 痛苦的 / 艰 / 艱難 / 蹇 / 难 / 難 / 難以 / 難度 /

艱苦
jiān kǔ
कक्खळ
kakkhaḷa
伧 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 苛刻 / 草 / 辛 / 辛苦 /
कठिन
kaṭhina
伧 / 使勁 / 僵 / 僵硬 / 僵硬的 / 生硬 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /

खर
khara
伧 / 使勁 / 固 / 尖锐 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 痛苦的 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / 銳 / 鋒利 / 銳 /
थद
thaddha
使勁 / 僵 / 僵硬 / 強硬 / 強硬 / 強硬的 / 生硬 / 硬 / 硬朗 / 硬殼 / 硬的 / 艱苦 / 辛 / 辛苦 / 難纏 / 韧 /
निदुर
niṭṭhura
伧 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /

艱難
jiān nán
किच्छ
kičča
吃力 / 困难 / 困難 / 屯 / 為難 / 痛苦 / 痛苦的 / 艰 / 艱難 / 蹇 / 难 / 難 / 難以 / 難度 /
色
sè
आकार
ākāra
亮相 / 出場 / 境界 / 外表 / 外观 / 外貌 / 容貌 / 情况 / 样子 / 模樣 / 様子 / 相貌 / 色 / 貌 / 面貌 /

色鬼
sè guǐ
अज
aja
山羊 / 山羊座 / 色鬼 /
艺术
yì shù
कला
kalā
功夫 / 美术 / 艺术 / 藝術 /

节
jié
छण
chaṇa
祭典 / 節 / 節慶 / 節日 / 节 / 节庆 /

节庆
jié qìng
छण
chaṇa
祭典 / 節 / 節慶 / 節日 / 节 / 节庆 /
扎

kōu
तुच्छ
tuccha
寥 / 楞 / 楞 / 清空 / 空 / 空心 / 空格 / 空洞 / 空瓶 / 空白 / 空的 / 空著 / 扎 /
बिल
bila
孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 空心 / 窟窿 / 扎 / 阱 /

芦
lú
नळ
naḷa
管 / 管子 / 芦 / 芦苇 / 苇 / 茅草 / 葭 / 兼 / 蘆葦 /

芦苇
lú wěi
नळ
naḷa
管 / 管子 / 芦 / 芦苇 / 苇 / 茅草 / 葭 / 兼 / 蘆葦 /

芭
bā
चोच
coca
芭 / 芭蕉 / 蕉 / 香蕉 /

芭蕉
bā jiāo
चोच
coca
芭 / 芭蕉 / 蕉 / 香蕉 /

芮
ruì
अप्प
appa
子 / 小 / 小班 / 小的 / 少 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
अप्पक
appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
खुद्द
khudda
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
चुल्ल
culla
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 未成年 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
थोक
thoka
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
परित्त
paritta
不足道 / 子 / 小 / 小班 / 小的 / 少的 / 微不足道 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

花
huā
कुसुम
kusuma
花 / 花蕊 /
पुप्फ
puppha
花 / 花蕊 /

花瓣
huā bàn
दल
dala
叶 / 瓣 / 箔 / 花瓣 / 葉 / 葉子 / 页 /

花粉
huā fěn
किञ्जकख
kiñjakkha

花蕊
huā ruǐ
कुसुम
kusuma
花 / 花蕊 /
पुप्फ
puppha
花 / 花蕊 /

花蕾
huā lěi
कोरक
koraka
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /
जालक
jālaka
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /
मकुल
makula
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /
मुकुल
mukula
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /

芳
fāng
दन्त
danta
尖牙 / 牙 / 牙齒 / 牙齿 / 舂 / 芳 / 齒 / 齿 /

芳草
fāng cǎo
तिण
tiṇa
芳草 / 草 / 青草 /

芸芸
yún yún
अन्तरे
antare
之間 / 介 / 其中 / 当中 / 當中 / 芸芸 / 間 / 间 /

असेस
asesa
一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 统统 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /

निखिल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 统统 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
निस्सेस
nissesa

一切 / 全部 / 全部的 / 全體 / 凡 / 凡是 / 囫 / 均 / 完全 / 完全地 / 所有 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 胥 / 芸芸 / 通通 /
--

芽
yá
कोरक
koraka
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /
जालक
jālaka
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /
पवाळ
pavāḷa
珊 / 珊瑚 / 珊瑚制玩具 / 瑚 / 芽 /
मकुल
makula
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /
मुकुल
mukula
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /

蒂
fèi
अप्प
appa
子 / 小 / 小班 / 小的 / 少 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 有點小 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
अप्पक
appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

खुद्द
khudda
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

चुल्ल
culla
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 未成年 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
थोक
thoka

子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
परित्त
paritta
不足道 / 子 / 小 / 小班 / 小的 / 少的 / 微不足道 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

苇
wěi
नळ
naḷa
管 / 管子 / 芦 / 芦苇 / 苇 / 茅草 / 葭 / 兼 / 蘆葦 /

苛
kē
दारुण
dāruṇa
严 / 严重 / 殘酷 / 殘忍 / 殘酷 / 毒 / 粗糙的 / 苛 / 苛刻 /

苛刻
kē kè
कक्कस
kakkasa
佷 / 粗 / 粗劣 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 糲 / 苛刻 / 草 /
कक्खळ
kakkhaḷa
佷 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 苛刻 / 草 / 辛 / 辛苦 /
खळ
khala
佷 / 卑鄙的人 / 流氓 / 無賴 / 粗 / 粗略的 / 粗糙的 / 糙 / 苛刻 / 草 /
दारुण
dāruṇa
严 / 严重 / 残酷 / 殘忍 / 殘酷 / 毒 / 粗糙的 / 苛 / 苛刻 /

苞

bāo
कोरक
koraka
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /
जालक
jālaka
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /
मकुल
makula
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /
मुकुल
mukula
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /

若

ruò
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /
चे
ce
一但 / 倘 / 倘若 / 假 / 假使 / 假如 / 假若 / 好象 / 如果 / 就是 / 是否 / 的話 / 若 / 若是 / 要是 /

若干

ruò gàn
कतिपय
katipaya
一些 / 一番 / 些 / 几 / 几个 / 好几 / 好幾 / 幾個 / 有些 / 有人 / 有的是 / 某 / 某些 / 若干 /

若是

ruò shì
चे
ce
一但 / 倘 / 倘若 / 假 / 假使 / 假如 / 假若 / 好象 / 如果 / 就是 / 是否 / 的話 / 若 / 若是 / 要是 /

苦
kǔ
तित्त
titta
苦 / 苦瓜 / 苦的 /
तित्तक
tittaka
苦 / 苦瓜 / 苦的 /

苦楚

kǔ chǔ
असात
asāta
不愉快的 / 熬煎 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛苦 / 苦楚 / 苦痛 /
पच्चन
paccana
沸騰 / 沸騰 / 苦楚 /

苦瓜

kǔ guā
तित्त
titta
苦 / 苦瓜 / 苦的 /
तित्तक
tittaka
苦 / 苦瓜 / 苦的 /

苦痛

kǔ tòng
अघ
agha
不幸 / 天 / 天界 / 天空 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛楚 / 痛苦 / 罪 / 罪惡 / 罪過 / 苦痛 / 雲霄 /
असात
asāta
不愉快的 / 熬煎 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛苦 / 苦楚 / 苦痛 /

苦的

kǔ de
तित्त
titta
苦 / 苦瓜 / 苦的 /
तित्तक
tittaka
苦 / 苦瓜 / 苦的 /

苦難

kǔ nán
उपायास
upāyāsa

英

yīng
निब्भय
nibbhaya
忼 / 勇 / 勇敢 / 勇敢的 / 英 /

英俊的

yīng jùn de
अभिरूप
abhirūpa

英尺
yīng chǐ
चरण
caraṇa
尺 / 步行 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 英尺 / 足 / 足部 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廩 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /
पाद
pāda
垒 / 基 / 基地 / 基础 / 基礎 / 壘 / 尺 / 底 / 底座 / 根據地 / 根本 / 膀 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 腿 / 英尺 / 足 / 足部 /

英明

yīng míng
पण्डित
paṇḍita
哲 / 明智 / 智者 / 聰 / 英明 /

茁

zhuó
अभिवड्ढन
abhivaḍḍhana
加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 生長 / 益 / 茁 /
उगम
uggama
上升 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 崛起 / 攀升 / 漲 / 漲 / 益 / 興起 / 茁 /
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 漲 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /

उन्नति

unnati
上升 / 加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 提高 / 海拔 / 益 / 茁 / 超升 /
उपब्रूहन
upabrūhana
加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 擴大 / 益 / 茁 /
पवड्ढन
pavaḍḍhana
加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 益 / 茁 / 長大 /
फातिकम्म
phātikamma
加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 复原 / 复职 / 恢复 / 恢復 / 益 / 茁 /

范
fàn
उदाहरण
udāharaṇa
例 / 例子 / 实例 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模範 / 比方 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 /
निदस्सन
nidassana
例 / 例子 / 实例 / 样品 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模範 / 比方 / 比較 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 / 證據 /

范例

fàn lì
उदाहरण
udāharaṇa
例 / 例子 / 实例 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模範 / 比方 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 /
निदस्सन
nidassana
例 / 例子 / 实例 / 样品 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模範 / 比方 / 比較 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 / 證據 /

茅草

máo cǎo
नळ
naḷa
管 / 管子 / 芦 / 芦苇 / 苇 / 茅草 / 蔴 / 兼 / 蘆葦 /

莖

jīng
दण्ड
daṇḍa
刑 / 刑罰 / 处罰 / 懲罰 / 懲罰 / 柄 / 梗 / 罰金 / 莖 / 蒂 /

莖

qióng
एकक
ekaka
仃 / 单 / 单一 / 单一的 / 单身的 / 唯 / 唯一 / 孤 / 孤單 / 孤零零 / 独身 / 獨居 / 莖 /

茫

máng
अतिमहन्त
atimahanta
巨 / 巨大 / 巨大的 / 庞 / 庞大 / 庞大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 濛 / 茫 / 茫茫 / 過大 / 鉅 / 龐 / 龐大 /
ब्रहन्त
brahanta
巨人般的 / 巨大 / 巨大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 濛 / 茫 / 茫茫 /

茫然
máng rán
अपाय
apāya
地狱 / 地獄 / 損失 / 損失 / 茫然 / 败 / 過失 /
अलाभ
alābha
損失 / 損失 / 茫然 / 败 /
जानि
jāni
伉 / 剝奪 / 剝夺 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 損失 / 損失 / 爱人 / 老婆 / 茫然 / 败 /
नस्सन
nassana
損失 / 損失 / 破壞 / 茫然 / 败 /
परिहानि
parihāni
損失 / 損失 / 毀滅 / 減少 / 茫然 / 败 /

茫茫

máng máng
अतिमहन्त
atimahanta
巨 / 巨大 / 巨大的 / 庞 / 庞大 / 庞大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 濛 / 茫 / 茫茫 / 過大 / 鉅 / 龐 / 龐大 /
ब्रहन्त
brahanta
巨人般的 / 巨大 / 巨大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 濛 / 茫 / 茫茫 /

茶杯
chá bēi
कोसक
kosaka
一杯 / 一杯量 / 杯 / 杯子 / 獎杯 / 盃 / 盃 / 盅 / 茶杯 /

茶色

chá sè
कपिल
kapila
茶色 / 茶色的 /
तम्ब
tamba
布朗 / 成褐色 / 棕色 / 茶色 / 褐 / 褐色 / 銅 / 銅板 / 铜 /
पिङ्गल
piṅgala
布朗 / 成褐色 / 棕色 / 茶色 / 褐 / 褐色 /

茶色的

chá sè de
कपिल
kapila
茶色 / 茶色的 /

茹

rú
भोत्तुं
bhottuṃ
可吃 / 吃 / 吃光 / 吃掉 / 吃飯 / 吃飽 / 啖 / 喫 / 大吃 / 茹 / 食 / 餐 /

草
cǎo
कक्कस
kakkasa
伧 / 粗 / 粗劣 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 糲 / 苛刻 / 草 /
कक्खळ
kakkhaḷa
伧 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 苛刻 / 草 / 辛 / 辛苦 /
कठिन
kaṭhina
伧 / 使勁 / 僵 / 僵硬 / 僵硬的 / 生硬 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /
खर
khara
伧 / 使勁 / 固 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 痛苦的 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / 銳 / 鋒利 / 銳 /
खळ
khala
伧 / 卑鄙的人 / 流氓 / 無賴 / 粗 / 粗略的 / 粗糙的 / 糙 / 苛刻 / 草 /
तिण
tiṇa
芳草 / 草 / 青草 /
थूल
thūla
伧 / 柴 / 柴 / 油脂 / 粗 / 粗糙 / 粗糙的 / 糙 / 肥 / 肥肉 / 肥胖 / 胖 / 胖的 / 脂 / 脂肪 / 草 /
निदुर
niṭṭhura
伧 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /
पलाल
palāla
吸管 / 稻草 / 草 /

荒地
huāng de
इरिन
irina
不毛之地 / 沙漠 / 漠 / 荒地 / 荒地 / 荒漠 /
इरिन
irina
不毛之地 / 沙漠 / 漠 / 荒地 / 荒地 / 荒漠 /

荒漠
huāng mò
इरिन
irina
不毛之地 / 沙漠 / 漠 / 荒地 / 荒地 / 荒漠 /
कन्तार
kantāra
不毛之地 / 旷 / 曠 / 曠野 / 沙漠 / 漠 / 荒漠 / 荒野 /

荒野
huāng yě
कन्तार
kantāra
不毛之地 / 旷 / 曠 / 曠野 / 沙漠 / 漠 / 荒漠 / 荒野 /

荣
róng
कित्ति
kitti
光榮 / 名望 / 名气 / 名氣 / 名聲 / 名譽 / 榮 / 榮耀 / 荣 /
तेज
teja
光榮 / 光芒 / 光輝 / 幂 / 力 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 大权 / 大權 / 威 / 威力 / 幂 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 榮 / 榮耀 / 權力 / 熱 / 荣 /

荣誉
róng yù
अच्चना
accanā
尊敬 / 尊重 / 崇敬 / 敬 / 注意 / 祭品 / 翊 / 荣誉 /
पटिपूजना
paṭipūjanā
尊敬 / 崇敬 / 敬意 / 荣誉 /
पुरेक्खार
purekkhāra
尊敬 / 熱愛 / 荣誉 /

荫
yīn
छाया
chāyā
影 / 影子 / 暗影 / 肖像 / 荫 / 阴影 / 陰影 /

药
yào
अगद
agada
吸毒 / 戒毒 / 毒品 / 药 / 药物 / 药 / 藥 / 藥品 / 藥物 / 醫藥 /

药物
yào wù
अगद
agada
吸毒 / 戒毒 / 毒品 / 药 / 药物 / 药 / 藥 / 藥品 / 藥物 / 醫藥 /

莊
zhuāng
गाम
gāma
屯 / 庄 / 村 / 村子 / 村庄 / 莊 /

莘
xīn
दीघ
dīgha
冗长的 / 多头 / 悠久 / 莘 / 长 / 长的 /

莫大
mò dà
उरु
uru
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 大號 / 莢 / 莢 / 弘 / 恢 / 曼 / 極大 / 碩 / 莫大 / 骹 /
तुमुल
tumula
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 莢 / 莢 / 弘 / 恢 / 極大 / 盛大的 / 碩 / 莫大 / 骹 /

获利
huò lì
आनिसंस
ānisamsa
值得 / 值得 / 利 / 利润 / 利潤 / 功 / 贏 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
आय
āya
利 / 利润 / 利潤 / 贏 / 定期收入 / 成果 / 收 / 收入 / 收益 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 获利 / 裨益 /
उदय
udaya
上升 / 兴 / 兴 / 兴致 / 兴趣 / 兴趣 / 利害 / 利害关系 / 利息 / 利息 / 利益 / 加價 / 加大 / 升起 / 增 / 增加 / 增多 / 增强 / 增殖 / 增添 / 增長 / 贏 / 定期收入 / 崛起 / 息 / 息 / 成果 / 攀升 / 收 / 收入 / 收益 / 涨 / 漲 / 生長 / 盈利 / 益 / 興 / 興起 / 興趣 / 茁 / 获利 / 裨益 /
उपभोग
upabhoga
使用 / 利 / 利润 / 利潤 / 利用 / 可享受的 / 贏 / 收益 / 施用 / 潤 / 潤 / 獲利 / 用 / 用法 / 用途 / 盈利 / 获利 / 裨益 / 运用 / 運用 /
पत्ति
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利润 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到来 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /

華
huá
चीनरट्ट
cīnaratṭha
中国 / 中國 / 中華 / 华 / 瓷器 / 華 /
華東
huá dōng
पुब्बा
pubbā
东 / 向东 / 向东的 / 東 / 東邊 / 東部 / 華東 /
पुरत्था
puratthā
东 / 向东 / 向东的 / 東 / 東邊 / 東部 / 華東 /

菸
yān
धूम
dhūma
冒煙 / 吸煙 / 火 / 烟 / 煙 / 煙霧 / 熏 / 燻 / 菸 /

萃
cùi
गहण
gahana
把握 / 抓 / 拿 / 獲得 / 萃 /
गहन
gahana
丛林 / 厚 / 厚的 / 叢林 / 密 / 密封的 / 稠 / 粗 / 萃 / 蔘 /
घन
ghana
厚 / 厚的 / 固 / 密 / 密集的 / 捶 / 棍棒 / 槌 / 稠 / 粗 / 結實 / 萃 / 蔘 / 錘子 / 錘 /
बहल
bahala
厚 / 厚的 / 密 / 密集的 / 稠 / 粗 / 萃 / 蔘 /
萌
méng
जन
jana
人 / 人中 / 人们 / 人們 / 人士 / 人心 / 人民 / 夫 / 夫 / 子民 / 成年男子 / 曼 / 民 / 民眾 / 氓 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 眾人 / 者 / 萌 /

萌芽
méng yá
कोरक
koraka
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /
जालक
jālaka
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /
मुकुल
makula
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /
मुकुल
mukula
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /

营
yíng
खन्धावार
khandhāvāra
安营 / 營 / 砦 / 营 / 陣營 / 集中營 / 露營 /

萬
wàn
नहुत
nahuta
一萬 / 万 / 萬 /

萬物
wàn wù
असेस
asesa
一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /
निखिल
nikhila
一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /

落
luò
शेव
theva
一滴 / 掉落 / 水滴 / 滴 / 落 / 降 /
पतन
patana
一滴 / 掉落 / 水滴 / 滴 / 落 / 落下 / 降 /

落下
luò xià
निपात
nipāta
पतन
patana
一滴 / 掉落 / 水滴 / 滴 / 落 / 落下 / 降 /
पात
pāta
下跌 / 坠 / 墮 / 墜 / 墜入 / 墮 / 扔 / 投 / 掉 / 掉下 / 摔 / 摔下 / 摔倒 / 摔倒 / 淪陷 / 落下 / 跌 / 跌下 / 跌倒 / 跌倒 / 跌到 / 跌落 /

葉
yè
दल
dala
叶 / 瓣 / 箔 / 花瓣 / 葉 / 葉子 / 页 /
पट्ट
patta
叶 / 平板 / 床單 / 片 / 箔 / 繡帶 / 綳帶 / 羽毛 / 葉 / 葉子 / 薄片 / 页 /
पण्ण
paṇṇa
信 / 信件 / 函 / 叶 / 字母 / 箔 / 葉 / 葉子 / 页 /
पण्णक
paṇṇaka
信 / 信件 / 函 / 叶 / 字母 / 箔 / 葉 / 葉子 / 页 /
पत्त
patta
叶 / 床單 / 毛片 / 片 / 箔 / 羽 / 羽毛 / 翅膀 / 葉 / 葉子 / 页 /
पलास
palāsa
叶 / 箔 / 葉 / 葉子 / 页 /

葉子
yè zi
दल
dala
叶 / 瓣 / 箔 / 花瓣 / 葉 / 葉子 / 页 /
पट्ट
patta
叶 / 平板 / 床單 / 片 / 箔 / 繡帶 / 綳帶 / 羽毛 / 葉 / 葉子 / 薄片 / 页 /
पण्ण
panṇa
信 / 信件 / 函 / 叶 / 字母 / 箔 / 葉 / 葉子 / 页 /
पण्णक
paṇṇaka
信 / 信件 / 函 / 叶 / 字母 / 箔 / 葉 / 葉子 / 页 /
पत्त
patta
叶 / 床單 / 毛片 / 片 / 箔 / 羽 / 羽毛 / 翅膀 / 葉 / 葉子 / 页 /
पलास
palāsa
叶 / 箔 / 葉 / 葉子 / 页 /

著作
zhù zuò
कम्म
kamma
事 / 作用 / 做事 / 券 / 動作 / 勞工 / 在職 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 業 / 活兒 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 行動 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
कम्म
kamma
事 / 作用 / 做事 / 券 / 動作 / 勞工 / 在職 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 業 / 活兒 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 行動 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
कम्मन्त
kammanta
事 / 事情 / 做事 / 務 / 在職 / 工 / 工作 / 工匠 / 工夫 / 工夫 / 职业 / 職業 / 著作 / 著作 / 起作用 / 辦事 /
कम्मन्त
kammanta
事 / 事情 / 做事 / 務 / 在職 / 工 / 工作 / 工匠 / 工夫 / 工夫 / 职业 / 職業 / 著作 / 著作 / 起作用 / 辦事 /
किच्च
kipca

kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

पोत्थक
potthaka
书 / 书籍 / 冊 / 冊子 / 册 / 書 / 書本 / 本子 / 簿子 / 著作 / 著作 / 預定 /

पोत्थक
potthaka
书 / 书籍 / 冊 / 冊子 / 册 / 書 / 書本 / 本子 / 簿子 / 著作 / 著作 / 預定 /

著火
zhù huǒ
अग्नि
aggi
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /
अग्नि
aggi
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /
अनल
anala

अनल
anala
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /
अनल
anala
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /

अनल
anala
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /

गिनि
gini
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /
गिनि
gini
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /

गिनि
gini
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /

जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /

जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /

पावक
pāvaka
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /
पावक
pāvaka
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /

पावक
pāvaka
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /

著者
zhù zhě
कत्तु
kattu
作家 / 作者 / 著者 /

葭
jiā
नळ
naḷa
管 / 管子 / 芦 / 芦苇 / 苇 / 茅草 / 葭 / 蒹 / 蘆葦 /

葯
yào
अगद
agada
吸毒 / 戒毒 / 毒品 / 药 / 药物 / 葯 / 藥 / 藥品 / 藥物 / 醫藥 /

惹
xǐ
दुःखित
dukkhita
不快樂 / 不高興 / 使痛苦的 / 生病的 / 惹 /

蒂
di
दण्ड
daṇḍa
刑 / 刑罰 / 处罰 / 懲罰 / 懲罰 / 柄 / 梗 / 罰金 / 茎 / 蒂 /

蒹
jiān
नळ
naḷa
管 / 管子 / 芦 / 芦苇 / 苇 / 茅草 / 葭 / 蒹 / 蘆葦 /

蒼天
cāng tiān
दिव
diva
上天 / 天 / 天堂 / 天意 / 天空 / 极乐 / 蒼天 / 霄 /
नाक
nāka
上天 / 天 / 天堂 / 天意 / 天空 / 极乐 / 蒼天 / 霄 /

蒼蠅
cāng ying
मक्खिका
makkhikā
蒼蠅 / 蠅 / 蠅 / 飛 / 飛翔 / 飞 / 飞翔 /

蕪
wǔ
गहन
gahana
丛林 / 厚 / 厚的 / 叢林 / 密 / 密封的 / 稠 / 粗 / 萃 / 蕪 /
घन
ghana
厚 / 厚的 / 固 / 密 / 密集的 / 捶 / 棍棒 / 槌 / 稠 / 粗 / 結實 / 萃 / 蕪 / 錘子 / 锤 /
बहल
bahala
厚 / 厚的 / 密 / 密集的 / 稠 / 粗 / 萃 / 蕪 /

蓋
gài
अपिधान
apidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 摺 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

छदन
chadana
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋頂 / 屋顶 / 幌子 / 房頂 / 摺 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 / 遮掩 /
छादन
chādana
服裝 / 服裝 / 蓋 / 衣服 / 衣物 / 遮 /

पच्चत्थरण
paccattharaṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 床單 / 摺 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पच्छाद
pacchāda
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 摺 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

पापुरण
pāpuraṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 摺 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 毛毯 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

पिधान
pidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 摺 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

पिधान
pidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 摺 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

蓋上
gài shàng
अपिधान
apidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
छदन
chadana
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋頂 / 屋顶 / 幌子 / 房頂 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पच्चत्थरण
paccattharaṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 床單 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पच्छाद
pacchāda
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पापुरण
pāpuraṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 毛毯 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पिधान
pidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

蓋子
gài zi
अपिधान
apidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
छदन
chadana
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋頂 / 屋顶 / 幌子 / 房頂 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
थकन
thakana
पच्चत्थरण
paccattharaṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 床單 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पच्छाद
pacchāda
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पटल
paṭala
信封 / 封套 / 封袋 / 影片 / 片子 / 电影 / 膜 / 膠片 / 蓋子 / 薄膜 / 軟片 /
पापुरण
pāpuraṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 毛毯 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पिधान
pidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

藍

lán
नील
nīla
沧 / 湛藍 / 滄 / 碧 / 藍 / 藍色 / 藍 / 藍色 / 青色 /
藍色
lán sè
नील
nīla
沧 / 湛藍 / 滄 / 碧 / 藍 / 藍色 / 藍 / 藍色 / 青色 /

蔑視

miè shì
अवजानन
avajānana
晒 / 蔑視 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /

葡
bó
दिब्ब
dibba
𦍋 / 卜 / 卜 / 天上 / 葡 /
蔴
cù
कुलावक
kulāvaka
巢 / 窩 / 窠 / 窩 / 蔴 / 鳥巢 /
निड्ड
niḍḍa
巢 / 窩 / 窠 / 窩 / 蔴 / 鳥巢 /
蔽
bi
अपिधान
apidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 床單 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
छदन
chadana
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋頂 / 屋顶 / 幌子 / 房頂 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पच्चत्थरण
paccattharaṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 床單 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पच्छाद
pacchāda
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
जालक
jālaka
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /
मकुल
makula
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /
मुकुल
mukula
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /
पिधान
pidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

蕉

jiāo
चोच
coca
芭 / 芭蕉 / 蕉 / 香蕉 /

蕞
zuì
अप्प
appa
子 / 小 / 小班 / 小的 / 少 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 渺小 / 渺小的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
अप्पक
appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
खुद्द
khudda
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
चुल्ल
culla
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 未成年人 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
शोक
thoka
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
परित्त
paritta
不足道 / 子 / 小 / 小班 / 小的 / 少的 / 微不足道 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

蕾

lěi
कोरक
koraka
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /
जालक
jālaka
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /
मकुल
makula
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /
मुकुल
mukula
花蕾 / 芽 / 苞 / 萌芽 / 蕾 /

薄
bó
अप्प
appa
子 / 小 / 小班 / 小的 / 少 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
अप्पक
appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
खुद्द
khudda
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
खुद्द
khudda
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
चुल्ल
culla
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 未成年人 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
चुल्ल
culla
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 未成年人 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
तनु
tanu
消瘦 / 瘦 / 瘦的 / 稀薄 / 稀薄 / 精巧 / 細 / 薄 / 薄 / 薄的 / 薄的 /
तनु
tanu
消瘦 / 瘦 / 瘦的 / 稀薄 / 稀薄 / 精巧 / 細 / 薄 / 薄 / 薄的 / 薄的 /
शोक
thoka
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
शोक
thoka
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
परित्त
paritta
不足道 / 子 / 小 / 小班 / 小的 / 少的 / 微不足道 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
परित्त
paritta
不足道 / 子 / 小 / 小班 / 小的 / 少的 / 微不足道 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

薄弱
báo ruò
अबल
abala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /
अबल
abala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /
दुबल
dubbala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 昏 / 昏倒 / 昏倒 / 暈倒 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /
दुबल
dubbala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 昏 / 昏倒 / 昏倒 / 暈倒 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /
पभङ्गुर
pabhaṅgura
易碎 / 脆 / 脆弱 / 薄弱 / 薄弱 /
पभङ्गुर
pabhaṅgura
易碎 / 脆 / 脆弱 / 薄弱 / 薄弱 /

薄暮
bó mù
पदोस
padosa
傍晚 / 微明 / 暮 / 污點 / 激怒 / 缺點 / 薄暮 / 黃昏 /

薄片
bó piàn
पट्ट
paṭṭa
叶 / 平板 / 床單 / 片 / 箔 / 繡帶 / 綳帶 / 羽毛 / 葉 / 葉子 / 薄片 / 页 /
पट्टक
paṭṭaka
平板 / 薄片 /

薄的
báo de
तनु
tanu
消瘦 / 瘦 / 瘦的 / 稀薄 / 稀薄 / 精巧 / 細 / 薄 / 薄 / 薄的 / 薄的 /
तनु
tanu
消瘦 / 瘦 / 瘦的 / 稀薄 / 稀薄 / 精巧 / 細 / 薄 / 薄 / 薄的 / 薄的 /

薄的切片
bó de qiè piàn
पेसि
pesi
पेसिका
pesikā

薄膜
bó mó
पटल
paṭala
信封 / 封套 / 封袋 / 影片 / 片子 / 电影 / 膜 / 膠片 / 蓋子 / 薄膜 / 軟片 /

薪水
xīn shuǐ
भति
bhati
薪水 / 費 / 費用 / 费 / 酬金 / 酬金 /
藍
lán
नील
nīla
沧 / 湛藍 / 滄 / 碧 / 藍 / 藍色 / 藍 / 藍色 / 青色 /
藍色
lán sè
नील
nīla
沧 / 湛藍 / 滄 / 碧 / 藍 / 藍色 / 藍 / 藍色 / 青色 /

藐
miǎo
अप्प
appa
子 / 小 / 小班 / 小的 / 少 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點兒 / 有點小 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
अप्पक
appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
खुद्द
khudda
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
चुल्ल
culla
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 未成年人 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
थोक
thoka
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
परित्त
paritta
不足道 / 子 / 小 / 小班 / 小的 / 少的 / 微不足道 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

藝術
yì shù
कला
kalā
功夫 / 美术 / 艺术 / 藝術 /
藥
yào
अगद
agada
吸毒 / 戒毒 / 毒品 / 药 / 药物 / 药 / 藥 / 藥品 / 藥物 / 醫藥 /
ओसध
osadha
भेसज्ज
bhesajja
治 / 治愈 / 治疗 / 療 / 藥 /

藥品
yào pǐn
अगद
agada
吸毒 / 戒毒 / 毒品 / 药 / 药物 / 药 / 藥 / 藥品 / 藥物 / 醫藥 /
藥物
yào wù
अगद
agada
吸毒 / 戒毒 / 毒品 / 药 / 药物 / 药 / 藥 / 藥品 / 藥物 / 醫藥 /
蘆葦
lú wěi
नळ
naḷa
管 / 管子 / 芦 / 芦苇 / 苇 / 茅草 / 葭 / 蒹 / 蘆葦 /

虎
hǔ
ब्यग्घ
byaggha
老虎 / 虎 /

處
chù
अधिकार
adhikāra
任 / 任職 / 办事处 / 办公室 / 斤 / 处 / 处 / 廨 / 管理 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 辦公 / 辦公室 /
ठान
ṭhāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廨 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 默 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
धुर
dhura
任 / 任職 / 前部 / 处 / 处 / 接近的 / 最初的 / 最前部 / 职 / 職 / 處 / 費用 / 辦公 / 辦公室 /

處女
chù nǚ
कुमारिका
kumārikā
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /
कुमारी
kumārī
丫頭 / 处女 / 处女 / 女孩 / 女孩 / 女孩子 / 女郎 / 姑娘 / 姑娘 / 小姑娘 / 小姑娘 / 少女 / 少女 / 處女 /

號
hào
गणना
gaṇanā
号 / 号码 / 多寡 / 数 / 数字 / 數 / 數目 / 算术 / 算術 / 編號 / 编号 / 號 / 號碼 / 計算 /
號碼
hào mǎ
गणना
gaṇanā
号 / 号码 / 多寡 / 数 / 数字 / 數 / 數目 / 算术 / 算術 / 編號 / 编号 / 號 / 號碼 / 計算 /

虛度
xū dù
खय
khaya
廢物 / 浪費 / 浪費 / 白費 / 破壞 / 終結 / 虛度 / 衰退 /
परिक्खय
parikkhaya
廢物 / 枯竭 / 浪費 / 浪费 / 白費 / 腐朽 / 虛度 /
虛弱
xū ruò
अबल
abala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /
दुबल
dubbala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 昏 / 昏倒 / 昏倒 / 暈倒 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /

虻
huǐ
आतुर
ātura
患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病弱 / 瘁 / 虻 /
आबाधिक
ābādhika
患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病人 / 病弱 / 瘁 / 虻 /
गिलान
gilāna
不舒服的 / 患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病人 / 病弱 / 病的 / 瘁 / 虻 /

虻
huǐ
आतुर
ātura
患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病弱 / 瘁 / 虻 /
आबाधिक
ābādhika
患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病人 / 病弱 / 瘁 / 虻 /
गिलान
gilāna
不舒服的 / 患病 / 生病 / 生病的 / 病 / 病人 / 病弱 / 病的 / 瘁 / 虻 /
蚊
yī
किपिल्लिका
kipillikā
蚊 / 蚂 / 蚂蚁 / 螞蟻 /
पिपिल्लिका
pipillikā
蚊 / 蚂 / 蚂蚁 / 螞蟻 /
पिपीलिका
pipīlikā
蚊 / 蚂 / 蚂蚁 / 螞蟻 /

虞
yú
आसङ्का
āsaṅkā
怀疑 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懷疑 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 疑 / 疑問 / 疑惑 / 疑慮 / 置疑 / 虞 /
उत्तास
uttāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
तास
tāsa
怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 發抖 / 虞 /
पटिभय
paṭibhaya
害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 /
भय
bhaya
可怕的 / 害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐怖的 / 恐惧 / 恐懼 / 憚 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 / 非常害怕 /

號
hào
गणना
gaṇanā
号 / 号码 / 多寡 / 数 / 数字 / 數 / 數目 / 算术 / 算術 / 編號 / 编号 / 號 / 號碼 / 計算 /
號碼
hào mǎ
गणना
gaṇanā
号 / 号码 / 多寡 / 数 / 数字 / 數 / 數目 / 算术 / 算術 / 編號 / 编号 / 號 / 號碼 / 計算 /

蚊
wén
मकस
makasa
蚊 / 蚊子 /
蚊子
wén zi
मकस
makasa
蚊 / 蚊子 /

蚩
chī
अन्धभूत
andhabhūta
侗 / 控 / 愚昧 / 蚩 /

蚱
zhà
अधिपातक
adhipātaka
蚱 / 蚱蜢 / 蛾 / 蛭 / 蝗虫 / 蠓 / 跳蚤 /
पटङ्ग
paṭaṅga
蚱 / 蚱蜢 / 蛭 / 蝗虫 / 蠓 /

蚱蜢
zhà měng
अधिपातक
adhipātaka
蚱 / 蚱蜢 / 蛾 / 蛭 / 蝗虫 / 蠓 / 跳蚤 /
पटङ्ग
paṭaṅga
蚱 / 蚱蜢 / 蛭 / 蝗虫 / 蠓 /

蛇
shé
अलगद्द
alagadda
अहि
ahi
आसीविस
āsīvisa
उरग
uraga
दुजिव्ह
dujivha
भोगी
bhogī

蛋
dàn
अण्डक
aṇḍaka
卵 / 卵子 / 卵细胞 / 蛋 / 鸡蛋 /

蛋糕
dàn gāo
पूप
pūpa
糕 / 蛋糕 / 西薄 / 餅 / 饼 /
पूव
pūva
糕 / 蛋糕 / 西薄 / 餅 / 饼 /

蛙
wā
भेक
bheka
蛙 / 蛤 / 蛤蟆 / 蟾蜍 / 辙叉 / 青蛙 /
蛤
há
भेक
bheka
蛙 / 蛤 / 蛤蟆 / 蟾蜍 / 辙叉 / 青蛙 /

蛤蟆
há ma
भेक
bheka
蛙 / 蛤 / 蛤蟆 / 蟾蜍 / 辙叉 / 青蛙 /

蛭
zhì
जलूका
jalūkā
吸血鬼 / 水蛭 / 蛭 /
蛾
é
अधिपातक
adhipātaka
蚱 / 蚱蜢 / 蛾 / 蛭 / 蝗虫 / 蠓 / 跳蚤 /

蜂
fēng
अलि
ali
蜂 / 蜜蜂 / 蝎 / 蝎 / 蝎子 / 蠍 / 蠍子 /
छप्पद
chappada
蜂 / 蜜蜂 /

蜜蜂
mì fēng
अलि
ali
蜂 / 蜜蜂 / 蝎 / 蝎 / 蝎子 / 蠍 / 蠍子 /
छप्पद
chappada
蜂 / 蜜蜂 /

蛭
měng
अधिपातक
adhipātaka
蚱 / 蚱蜢 / 蛾 / 蛭 / 蝗虫 / 蠓 / 跳蚤 /
पटङ्ग
paṭaṅga
蚱 / 蚱蜢 / 蛭 / 蝗虫 / 蠓 /

蝇
ying
मक्खिका
makkhikā
蒼蝇 / 蝇 / 蝇 / 蝇 / 飛 / 飛翔 / 飞 / 飞翔 /
मक्खिका
makkhikā
蒼蝇 / 蝇 / 蝇 / 蝇 / 飛 / 飛翔 / 飞 / 飞翔 /

蝎
xiē
अलि
ali
蜂 / 蜜蜂 / 蝎 / 蝎 / 蝎子 / 蠍 / 蠍子 /
अलि
ali
蜂 / 蜜蜂 / 蝎 / 蝎 / 蝎子 / 蠍 / 蠍子 /

蝎子
xiē zi
अलि
ali
蜂 / 蜜蜂 / 蝎 / 蝎 / 蝎子 / 蠍 / 蠍子 /

蝗虫
huáng chóng
अधिपातक
adhipātaka
蚱 / 蚱蜢 / 蛾 / 蛭 / 蝗虫 / 蠓 / 跳蚤 /
पटङ्ग
paṭaṅga
蚱 / 蚱蜢 / 蛭 / 蝗虫 / 蠓 /

蝙蝠
biān fú
अजिनपत्ता
ajinapattā
जतुका
jatukā
螃蟹

páng xiè
कक्कट
kakkaṭa
螃蟹 / 蟹 /
कुलीर
kulīra
螃蟹 / 蟹 /

蚂蚁
mǎ yǐ
किपिल्लिका
kipillikā
蚁 / 蚂 / 蚂蚁 / 螞蟻 /
पिपिल्लिका
pipillikā
蚁 / 蚂 / 蚂蚁 / 螞蟻 /
पिपीलिका
pipīlikā
蚁 / 蚂 / 蚂蚁 / 螞蟻 /

蟲
chóng
किमि
kimi
पुलव
pulava

蟹
xiè
कक्कट
kakkaṭa
螃蟹 / 蟹 /
कुलीर
kulīra
螃蟹 / 蟹 /

蟾蜍
chán chú
भेक
bheka
蛙 / 蛤 / 蛤蟆 / 蟾蜍 / 辙叉 / 青蛙 /

蝇
ying
मक्खिका
makkhikā
蒼蝇 / 蝇 / 蝇 / 蝇 / 飛 / 飛翔 / 飞 / 飞翔 /

蠍
xiē
अलि
ali
蜂 / 蜜蜂 / 蝎 / 蝎 / 蝎子 / 蠍 / 蠍子 /

蠍子
xiē zi
अलि
ali
蜂 / 蜜蜂 / 蝎 / 蝎 / 蝎子 / 蠍 / 蠍子 /
蠍

měng
अधिपातक
adhipātaka
蚱 / 蚱蜢 / 蛾 / 蛭 / 蝗虫 / 蠓 / 跳蚤 /
पटङ्ग
paṭaṅga
蚱 / 蚱蜢 / 蛭 / 蝗虫 / 蠓 /

蠢
chǔn
जळ
jala
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दन्ध
dandha
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /

蠢事
chǔn shì
बाल्य
bālyā
小時候 / 幼年 / 幼年时代 / 愚蠢 / 童年 / 自小 / 自幼 / 蠢事 /

蠢笨
chǔn bèn
जळ
jāla
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दन्ध
dandha
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /

蠶
juān
दोसिना
dosinā
亮 / 光亮 / 光明 / 布赖特 / 明 / 明亮 / 明媚 / 昶 / 景 / 月光照耀的 / 朗 / 炯 / 炳 / 熹 / 爽 / 璀璨 / 白 / 皎 / 皓 / 粲 / 翌 / 耿 / 蠶 /

血管
xuè guǎn
धमनि
dhamani
叶脉 / 血管 / 静脉 / 靜脈 /

血统
xuè tǒng
उद्गान
uṭṭhāna
上升 / 业 / 來歷 / 出身 / 原点 / 始源 / 工業 / 本源 / 来历 / 根源 / 業 / 活力 / 由来 / 精力 / 能源 / 能量 / 血统 / 行業 / 起源 / 高能 /
उप्पत्ति
uppatti
來歷 / 再生 / 出身 / 原点 / 始源 / 本源 / 来历 / 根源 / 由来 / 血统 / 起源 /
उप्पाद
uppāda
上升 / 出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 血统 / 誕 / 诞 / 起源 /
गोत्त
gotta
宗族 / 族 / 氏族 / 祖先 / 祖宗 / 血统 /
पभव
pabhava
來歷 / 來源 / 出处 / 出身 / 原点 / 始源 / 开始 / 朔 / 本源 / 来历 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 由来 / 血统 / 起源 /

血肉
xuè ròu
आमिस
āmisa
利益 / 材 / 材料 / 材質 / 物质 / 物质的 / 素材 / 肉 / 肉體 / 血肉 / 誘餌 / 诱惑 / 食 / 食品 / 食物 / 餌 / 饭 / 饵 /
पिसित
pisita
肉 / 肉體 / 血肉 /

行
xíng
चारित्त
cāritta
品行 / 練習 / 習慣 / 行 / 行为 /
पन्ति
panti
一串 / 串 / 列 / 行 /

行为
xíng wéi
चारित्त
cāritta
品行 / 練習 / 習慣 / 行 / 行为 /

行了
xíng le
पालि
pāli
一線 / 一行 / 線 / 線條 / 線路 / 线 / 线路 / 行了 / 行的 /

行人
xíng rén
पथावी
pathāví
旅行者 / 游客 / 行人 /
पथिक
pathika
旅行者 / 旅行者 / 游客 / 行人 /
पदिक
padika

行凶
xíng xiōng
अधिपतन
adhipatana
侵襲 / 出擊 / 征 / 抨 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 發作 / 行凶 / 跳躍 /
उपक्कम
upakkama
侵襲 / 出擊 / 征 / 意指 / 手段 / 抨 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 方式 / 方法 / 發作 / 行凶 /

行动
xíng dòng
कम्म
kamma
事 / 作用 / 做事 / 券 / 動作 / 勞工 / 在職 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 業 / 活兒 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 行動 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
किच्च
kiicca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
किरिय
kiriya
作用 / 券 / 動作 / 性能 / 績 / 績 / 绩 / 行动 / 行動 / 表現 /
चार
cāra
作用 / 動作 / 動議 / 去 / 推移 / 行动 / 行動 / 运动 / 運動 /
पयोग
payoga
作用 / 努力 / 動作 / 從事 / 行动 / 行動 /

街角
jiē jiǎo
कण्ण
kaṇṇa
外耳 / 楞 / 耳 / 耳朵 / 耳朵 / 街角 / 角 / 角度 / 角落 / 转角 / 陬 / 隅 /
कोण
koṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完结 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 结束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /

行動
xíng dòng
कम्म
kamma
事 / 作用 / 做事 / 券 / 動作 / 勞工 / 在職 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 業 / 活兒 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 行動 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
किरिय
kiriya
作用 / 券 / 動作 / 性能 / 績 / 績 / 绩 / 行动 / 行動 / 表現 /
चार
cāra
作用 / 動作 / 動議 / 去 / 推移 / 行动 / 行動 / 运动 / 運動 /
पयोग
payoga
作用 / 努力 / 動作 / 從事 / 行动 / 行動 /

行情
xíng qíng
अग्घ
aggha
价 / 价值 / 价格 / 值 / 價 / 價格 / 價錢 / 成本 / 推崇 / 普赖斯 / 行情 /
行業
xíng yè
उद्दान
utthāna
上升 / 业 / 來歷 / 出身 / 原点 / 始源 / 工業 / 本源 / 来历 / 根源 / 業 / 活力 / 由来 / 精力 / 能源 / 能量 / 血统 / 行業 / 起源 / 高能 /

行的
xíng de
पालि
pāli
一線 / 一行 / 線 / 線條 / 線路 / 线 / 线路 / 行了 / 行的 /

街角
jiē jiǎo
कण्ण
kaṇṇa
外耳 / 楞 / 耳 / 耳朵 / 耳朵 / 街角 / 角 / 角度 / 角落 / 转角 / 陬 / 隅 /
कोण
koṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完结 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 结束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /

衙
yá
अधिकार
adhikāra
任 / 任職 / 办事处 / 办公室 / 厅 / 处 / 处 / 廨 / 管理 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 辦公 / 辦公室 /
ठान
thāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廨 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 狀 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廨 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /

衛
wèi
आरक्खक
ārakkhaka
守卫 / 守衛 / 守護 / 巡夜者 / 把守 / 看守 / 看守人 / 衛 / 門衛 /
गुत्ति
gutti
保护 / 保護 / 守卫 / 守衛 / 守護 / 把守 / 注意 / 看守 / 衛 / 門衛 /

衛生
wèi shēng
आरोग्य
ārogya
保健 / 健康 / 卫生 / 衛生 /

衡
héng
पमाण
pamāṇa
大小 / 尺寸 / 度量 / 措施 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 量度 /
परिच्छेद
pariccheda
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 度量 / 徼 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 眇 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिमाण
parimāṇa
大小 / 局限 / 幅度 / 度量 / 措施 / 极限 / 極限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 边际 / 量 / 量度 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

衡量
héng liàng
पमाण
pamāṇa
大小 / 尺寸 / 度量 / 措施 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 量度 /
परिच्छेद
pariccheda
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 度量 / 徼 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 眇 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिमाण
parimāṇa
大小 / 局限 / 幅度 / 度量 / 措施 / 极限 / 極限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 边际 / 量 / 量度 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

衣料
yī liào
अम्बर
ambara
佈 / 天 / 天界 / 天空 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 雲霄 /
चेल
cela
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 衣服 /
चोळ
coḷa
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 /
दुस्स
dussa
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 衣服 /
पट
paṭa
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 衣服 /

衣服
yī fú
अच्छादन
acchādana
服裝 / 服裝 / 衣服 / 衣物 /
चेल
cela
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 衣服 /
छादन
chādana
服裝 / 服裝 / 蓋 / 衣服 / 衣物 / 遮 /
दुस्स
dussa
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 衣服 /
निवासन
nivāsana
打扮 / 打扮 / 服 / 服裝 / 服裝 / 洋裝 / 穿戴 / 衣服 / 衣物 / 衣裳 /
पट
paṭa
佈 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 衣服 /

衣物
yī wù
अच्छादन
acchādana
服裝 / 服裝 / 衣服 / 衣物 /
छादन
chādana
服裝 / 服裝 / 蓋 / 衣服 / 衣物 / 遮 /
निवासन
nivāsana
打扮 / 打扮 / 服 / 服裝 / 服裝 / 洋裝 / 穿戴 / 衣服 / 衣物 / 衣裳 /

衣裳
yī shang
निवासन
nivāsana
打扮 / 打扮 / 服 / 服裝 / 服裝 / 洋裝 / 穿戴 / 衣服 / 衣物 / 衣裳 /
表徵
biǎo zhǐ
पञ्जाण
paññāṇa
告示 / 表徵 /

表演
biǎo yǎn
नच्च
nacca
游戏 / 舞蹈 / 表演 /

表率
biǎo lǜ
उदाहरण
udāharana
例 / 例子 / 实例 / 样本 / 榜樣 / 榜樣 / 模範 / 比方 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 /
निदस्सन
nidassana
例 / 例子 / 实例 / 样品 / 样本 / 榜樣 / 榜樣 / 模範 / 比方 / 比較 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 / 證據 /

表現
biǎo xiàn
किरिय
kiriya
作用 / 券 / 動作 / 性能 / 績 / 績 / 绩 / 行动 / 行動 / 表現 /

表示尊敬的
biǎo shì zūn jìng de
पुज्ज
pujja
表蒙子
biǎo měng zi
काच
kāca
晶 / 杯 / 杯子 / 水晶 / 玻 / 玻璃 / 玻璃制品 / 玻璃杯 / 玻璃的 / 璃 / 表蒙子 /

表象
biǎo xiàng
गाह
gāha
主意 / 念頭 / 思想 / 想法 / 意念 / 意見 / 捕獲 / 構想 / 理念 / 理想 / 表象 / 點子 /

表面
biǎo miàn
पिट्ठ
pitṭha
后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 表面 / 走回 / 退后 / 面 / 麵 /
衰
shuāi
अबल
abala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /
दुबल
dubbala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 昏 / 昏倒 / 昏倒 / 暈倒 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /

衰弱
shuāi ruò
अबल
abala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /
दुबल
dubbala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 昏 / 昏倒 / 昏倒 / 暈倒 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /

衰弱的
shuāi ruò de
किस
kisa
憔悴的 / 衰弱的 /

衰老的
shuāi lǎo de
जर
jara
估 / 发烧 / 古 / 古老 / 年老的 / 年迈 / 旧 / 旧的 / 热病 / 熱病 / 發燒 / 老 / 老的 / 舊 / 舊的 / 衰老的 /

衰退
shuāi tuì
खय
khaya
廢物 / 浪費 / 浪费 / 白費 / 破壞 / 終結 / 虛度 / 衰退 /
जरता
jaratā
जरा
jarā

袋
dài
पुट
puṭa
一籃 / 兜 / 口 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 栲 / 盂 / 筐 / 筍 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पुटक
puṭaka
一籃 / 兜 / 口 / 口袋 / 吊籃 / 容器 / 栲 / 盂 / 筐 / 筍 / 籃 / 簾 / 籃 / 籃子 / 袋 /
पसिब्बक
pasibbaka
一袋 / 囊 / 大袋子 / 手提包 / 提包 / 旅行包 / 旅行包 / 囊 / 洗劫 / 紙袋 / 袋 / 袋子 / 錢包 / 麻布袋 / 麻袋 /

袋子
dài zi
पसिब्बक
pasibbaka
一袋 / 囊 / 大袋子 / 手提包 / 提包 / 旅行包 / 旅行包 / 囊 / 洗劫 / 紙袋 / 袋 / 袋子 / 錢包 / 麻布袋 / 麻袋 /

被告
bèi gào
चुदितक
cuditaka

被放逐者
bèi fàng zhú zhě
पब्बाजन
pabbājana
放逐 / 流亡 / 流刑 / 流放 / 被放逐者 / 驅逐 /

裁
cái
अनुज्ञा
anuññā
制裁 / 同意 / 批准 / 支援 / 裁 / 許可 / 認可 /

裁判
cái pàn
अकखदस्स
akkhadassa
判定 / 判斷 / 推事 / 法官 / 裁判 /

裂縫
liè fèng
छिद्द
chidda
孔 / 有洞的 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 穿孔的 / 窟窿 / 缺點 / 裂縫 / 過失 / 阱 /
दरी
darī

装备
zhuāng bèi
परिक्खार
parikkhāra
備 / 器材 / 必需品 / 装备 / 裝備 / 裝置 / 設備 / 设备 / 配件 /

裝飾物
zhuāng shì wù
अलङ्कार
alaṅkāra
裝飾物 / 裝修 / 裝飾 /
आभरण
ābharaṇa
裝飾物 / 裝修 / 裝飾 /
पसाधन
pasādhana
裝飾物 / 裝修 / 裝飾 /

裏
lǐ
अन्तो
anto
中 / 在 / 裏 / 裡 / 里 /

裕
yù
पहूत
pahūta
丰 / 丰富的 / 充份 / 充沛 / 沛 / 盎 / 盎然 / 穰 / 裕 /

裝修
zhuāng xiū
अलङ्करण
alaṅkaraṇa
整理 / 裝修 / 裝飾 /
अलङ्कार
alaṅkāra
裝飾物 / 裝修 / 裝飾 /
आभरण
ābharaṇa
裝飾物 / 裝修 / 裝飾 /
पसाधन
pasādhana
裝飾物 / 裝修 / 裝飾 /

裝備
zhuāng bèi
परिक्खार
parikkhāra
備 / 器材 / 必需品 / 装备 / 裝備 / 裝置 / 設備 / 设备 / 配件 /

裝置
zhuāng zhì
परिक्खार
parikkhāra
備 / 器材 / 必需品 / 装备 / 裝備 / 裝置 / 設備 / 设备 / 配件 /

裝飾
zhuāng shì
अलङ्करण
alaṅkaraṇa
整理 / 裝修 / 裝飾 /
अलङ्कार
alaṅkāra
裝飾物 / 裝修 / 裝飾 /
आभरण
ābharaṇa
裝飾物 / 裝修 / 裝飾 /
पसाधन
pasādhana
裝飾物 / 裝修 / 裝飾 /
पसाधन
pasādhana
裝飾物 / 裝修 / 裝飾 /
पिलन्धन
pilandhana
穿著 / 裝飾 /

裡
lǐ
अन्तो
anto
中 / 在 / 裏 / 裡 / 里 /

裡邊
lǐ biān
अब्भन्तर
abbhantara
之內 / 內 / 內側 / 內部 / 內部 / 裡邊 / 裡面 / 裡頭 / 里 /

裡面
lǐ miàn
अब्भन्तर
abbhantara
之內 / 內 / 內側 / 內部 / 內部 / 裡邊 / 裡面 / 裡頭 / 里 /

裡頭
lǐ tóu
अब्भन्तर
abbhantara
之內 / 內 / 內側 / 內部 / 內部 / 裡邊 / 裡面 / 裡頭 / 里 /

裨
bì
अप्प
appa
子 / 小 / 小班 / 小的 / 少 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
अप्पक
appaka
子 / 寡 / 小 / 小型的 / 小班 / 小的 / 少 / 少数的 / 少的 / 少量 / 很少的 / 微小 / 有點兒 / 有點小 / 极小的 / 渺小 / 短的 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
खुद्द
khudda
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /
चुल्ल
culla
子 / 小 / 小班 / 小的 / 微小 / 未成年 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

li
अन्तो
anto
中 / 在 / 裏 / 裡 / 里 /

裡邊
lǐ biān
अब्भन्तर
abbhantara
之內 / 內 / 內側 / 內部 / 內部 / 裡邊 / 裡面 / 裡頭 / 里 /
परित्त
paritta
不足道 / 子 / 小 / 小班 / 小的 / 少的 / 微不足道 / 微小 / 渺小 / 芮 / 蒂 / 蕞 / 薄 / 薄 / 藐 / 裨 /

裡面
lǐ miàn
अब्भन्तर
abbhantara
之內 / 內 / 內側 / 內部 / 內部 / 裡邊 / 裡面 / 裡頭 / 里 /

裡頭
lǐ tóu
अब्भन्तर
abbhantara
之內 / 內 / 內側 / 內部 / 內部 / 裡邊 / 裡面 / 裡頭 / 里 /

裨益
bì yì
अत्थ
attha
使用／利用／含义／含意／含義／增益／宗旨／客观／寓意／必要／必需品／意／意思／意義／施用／有必要／有道／物／物件／用／用法／用途／目标／破壞／福利／福祉／缺乏／裨益／要有／要求／諦／財富／财富／运用／運用／需／需要／
आनिसंस
ānisamsa
值得／值得／利／利润／利潤／功／贏／收益／润／潤／獲利／盈利／获利／裨益／
आय
āya
利／利润／利潤／贏／定期收入／成果／收／收入／收益／润／潤／獲利／盈利／获利／裨益／
उदय
udaya
上升／兴／兴／兴致／兴趣／兴趣／利害／利害关系／利息／利息／利益／加價／加大／升起／增／增加／增多／增强／增殖／增添／增長／贏／定期收入／崛起／息／息／成果／攀升／收／收入／收益／涨／漲／生長／盈利／益／興／興起／興趣／茁／获利／裨益／
उपभोग
upabhoga
使用／利／利润／利潤／利用／可享受的／贏／收益／施用／润／潤／獲利／用／用法／用途／盈利／获利／裨益／运用／運用／
पत्ति
patti
份／共享／共用／分享／利／利润／利潤／到任／到來／到来／贏／抵达／抵達／收益／步兵／润／潤／獲利／盈利／股／股份／股票／获利／裨益／達到／部分／

裸露
luǒ lù
नग्गिय
naggiya
製
zhì
जाय
ñāya
制／制度／方法／模式／系統／系统／製／顺序／體制／體系／

製造
zhì zào
उप्पादन
uppādana
升起／製造／
निष्पादन
nipphādana
成就／製造／

褐
hè
तम्ब
tamba
布朗／成褐色／棕色／茶色／褐／褐色／銅／銅板／铜／
पिङ्गल
piṅgala
布朗／成褐色／棕色／茶色／褐／褐色／

褐色
hè sè
तम्ब
tamba
布朗／成褐色／棕色／茶色／褐／褐色／銅／銅板／铜／
पिङ्गल
piṅgala
布朗／成褐色／棕色／茶色／褐／褐色／
襦
rú
कञ्चुक
kañcuka
上衣／外套／夾克／夾克／襦／

西
xī
अपर
apara
其他的／另／另一／另外一个／另外的／然後／西／西／西域／西方的／西洋／西洋／
अपर
apara
其他的／另／另一／另外一个／另外的／然後／西／西／西域／西方的／西洋／西洋／
पच्छिम
pacchima
刚过去的／往西／往西／最低的／最后／最后的／最後的／最新／最近的／最遲／西／西／西域／西方的／西洋／西洋／
अपर
apara
其他的／另／另一／另外一个／另外的／然後／西／西／西域／西方的／西洋／西洋／

पच्छिम
pacchima
刚过去的／往西／往西／最低的／最后／最后的／最後的／最新／最近的／最遲／西／西／西域／西方的／西洋／西洋／
पत्तीचि
patīci
往西／往西／朝西／西／西／西區／西方／西方／西部／西部／西面／西面／
पत्तीचि
patīci
往西／往西／朝西／西／西／西區／西方／西方／西部／西部／西面／西面／

西區
xī qū
पत्तीचि
patīci
往西／往西／朝西／西／西／西區／西方／西方／西部／西部／西面／西面／

西域
xī yù
अपर
apara
其他的／另／另一／另外一个／另外的／然後／西／西／西域／西方的／西洋／西洋／
पच्छिम
pacchima
刚过去的／往西／往西／最低的／最后／最后的／最後的／最新／最近的／最遲／西／西／西域／西方的／西洋／西洋／
西方
xī fāng
पत्तीचि
patīci
往西／往西／朝西／西／西／西區／西方／西方／西部／西部／西面／西面／
पत्तीचि
patīci
往西／往西／朝西／西／西／西區／西方／西方／西部／西部／西面／西面／

西域
xī yù
अपर
apara
其他的／另／另一／另外一个／另外的／然後／西／西／西域／西方的／西洋／西洋／
पच्छिम
pacchima
刚过去的／往西／往西／最低的／最后／最后的／最後的／最新／最近的／最遲／西／西／西域／西方的／西洋／西洋／

西方
xī fāng
पत्तीचि
patīci
往西／往西／朝西／西／西／西區／西方／西方／西部／西部／西面／西面／
पत्तीचि
patīci
往西／往西／朝西／西／西／西區／西方／西方／西部／西部／西面／西面／

西方的
xī fāng de
अपर
apara
其他的／另／另一／另外一个／另外的／然後／西／西／西域／西方的／西洋／西洋／
पच्छिम
pacchima
刚过去的／往西／往西／最低的／最后／最后的／最後的／最新／最近的／最遲／西／西／西域／西方的／西洋／西洋／

西洋
xī yáng
अपर
apara
其他的／另／另一／另外一个／另外的／然後／西／西／西域／西方的／西洋／西洋／
पच्छिम
pacchima
刚过去的／往西／往西／最低的／最后／最后的／最後的／最新／最近的／最遲／西／西／西域／西方的／西洋／西洋／
अपर
apara
其他的／另／另一／另外一个／另外的／然後／西／西／西域／西方的／西洋／西洋／

पच्छिम
pacchima
刚过去的／往西／往西／最低的／最后／最后的／最後的／最新／最近的／最遲／西／西／西域／西方的／西洋／西洋／
पच्छिम
pacchima
刚过去的／往西／往西／最低的／最后／最后的／最後的／最新／最近的／最遲／西／西／西域／西方的／西洋／西洋／

西薄
xī bó
पूप
pūpa
糕／蛋糕／西薄／餅／饼／
पूव
pūva
糕／蛋糕／西薄／餅／饼／

西部
xī bù
पत्तीचि
patīci
往西／往西／朝西／西／西／西區／西方／西方／西部／西部／西面／西面／
पत्तीचि
patīci
往西／往西／朝西／西／西／西區／西方／西方／西部／西部／西面／西面／

西面
xī miàn
पत्तीचि
patīci
往西／往西／朝西／西／西／西區／西方／西方／西部／西部／西面／西面／
पत्तीचि
patīci
往西／往西／朝西／西／西／西區／西方／西方／西部／西部／西面／西面／

要塞
yào
अभियाचन
abhiyācana
懇求／求／要／要求／要求物／請求／请求／
छन्द
chanda
不妨／心願／必／意志／意願／愿望／慾／欲／祝／要／遺囑／

要塞
yào sāi
कोटुक
koṭṭhaka
儲藏室／出入口／堡壘／壁櫥／寨／砦／要塞／要塞／
कोटुक
koṭṭhaka
儲藏室／出入口／堡壘／壁櫥／寨／砦／要塞／要塞／
नगर
nagara
城／城區／城堡／城市／城裡／城鎮／城鎮／小鎮／市／市府／市立／要塞／要塞／進城／都市／都會／鎮／镇／
नगर
nagara
城／城區／城堡／城市／城裡／城鎮／城鎮／小鎮／市／市府／市立／要塞／要塞／進城／都市／都會／鎮／镇／

बल
bala
军／军队／募／力／力气／力氣／力量／功／功率／功率／勢力／動力／勢力／大权／大權／大群／大軍／威／威力／实力／募／強國／强权／斷電／权力／權力／武力／精力／能力／要塞／軍隊／逼／逼迫／部队／陸軍／

要害
yào hài
अपापुरण
apāpuraṇa
关键／要害／鍵／鎖上／鑰／鑰匙／钥／钥匙／钥匙／键／關鍵／
अवापुरण
avāpuraṇa
关键／要害／鍵／鎖上／鑰／鑰匙／钥／钥匙／钥匙／键／關鍵／
कुञ्चिका
kuñcikā
关键／要害／鍵／鎖上／鑰／鑰匙／钥／钥匙／钥匙／键／關鍵／
ताळ
tāla
乐／关键／樂／要害／譜／谱／鍵／鎖上／鑰／鑰匙／钥／钥匙／钥匙／键／關鍵／音乐／音樂／

要是
yào shì
चे
ce
一但／倘／倘若／假／假使／假如／假若／好象／如果／就是／是否／的話／若／若是／要是／

要有
yào yǒu
अत्थ
attha
使用／利用／含义／含意／含義／增益／宗旨／客观／寓意／必要／必需品／意／意思／意義／施用／有必要／有道／物／物件／用／用法／用途／目标／破壞／福利／福祉／缺乏／裨益／要有／要求／諦／財富／财富／运用／運用／需／需要／

要求
yào qiú
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 需 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /
अपेक्खन
apekkhana
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /
अभियाचन
abhīyācana
懇求 / 求 / 要 / 要求 / 要求物 / 請求 / 请求 /
अभिलासा
abhilāsā
希望 / 愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
आसा
āsā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
आसिंसना
āsimsanā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
इच्छन
icchana
希望 / 愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
इच्छा
icchā
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
जालिनी
jalīnī
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 渴求 / 要求 / 願望 /
निकामना
nikāmanā
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /
पिहायना
pihāyanā
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /

要求物
yào qiú wù
अभियाचन
abhīyācana
懇求 / 求 / 要 / 要求 / 要求物 / 請求 / 请求 /

要素
yào sù
अवयव
avayava
一部份 / 份 / 员 / 員 / 局部 / 成員 / 會員 / 股 / 肢 / 要素 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
धातु
dhātu
元素 / 因素 / 成份 / 成分 / 要素 /

罩
tán
अनुत्तान
anuttāna
冥 / 暗的 / 根深 / 模糊的 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窈 / 罩 / 遂 /
गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奥的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窈 / 罩 / 遂 / 邈 /
गाध
gādha
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深度 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窈 / 罩 / 遂 /

覆
fù
अपिधान
apidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
छदन
chadana
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋顶 / 屋顶 / 幌子 / 房頂 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पच्छाद
pacchāda
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

要求物
yào qiú wù
अभियाचन
abhīyācana
懇求 / 求 / 要 / 要求 / 要求物 / 請求 / 请求 /

要素
yào sù
अवयव
avayava
一部份 / 份 / 员 / 員 / 局部 / 成員 / 會員 / 股 / 肢 / 要素 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
धातु
dhātu
元素 / 因素 / 成份 / 成分 / 要素 /

罩
tán
अनुत्तान
anuttāna
冥 / 暗的 / 根深 / 模糊的 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窈 / 罩 / 遂 /
गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奥的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窈 / 罩 / 遂 / 邈 /
गाध
gādha
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深度 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窈 / 罩 / 遂 /

覆

覆
fù
अपिधान
apidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
छदन
chadana
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋顶 / 屋顶 / 幌子 / 房頂 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पच्छाद
pacchāda
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पच्छाद
pacchāda
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

要求物
yào qiú wù
अभियाचन
abhīyācana
懇求 / 求 / 要 / 要求 / 要求物 / 請求 / 请求 /

要素
yào sù
अवयव
avayava
一部份 / 份 / 员 / 員 / 局部 / 成員 / 會員 / 股 / 肢 / 要素 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
धातु
dhātu
元素 / 因素 / 成份 / 成分 / 要素 /

罩
tán
अनुत्तान
anuttāna
冥 / 暗的 / 根深 / 模糊的 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窈 / 罩 / 遂 /
गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奥的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窈 / 罩 / 遂 / 邈 /
गाध
gādha
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深度 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窈 / 罩 / 遂 /

覆蓋
fù gài
अपिधान
apidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
छदन
chadana
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋顶 / 屋顶 / 幌子 / 房頂 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पच्छाद
pacchātharaṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 床單 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

觀點
guān diǎn
अपिधान
apīdhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
परियोनहन
pariyonahana
पापुरण
pāpuraṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 毛毯 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

觀點
guān diǎn
अपिधान
apīdhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
परियोनहन
pariyonahana
पापुरण
pāpuraṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 毛毯 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

觀點
guān diǎn
अपिधान
apīdhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
परियोनहन
pariyonahana
पापुरण
pāpuraṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 毛毯 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

觀點
guān diǎn
अपिधान
apīdhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
परियोनहन
pariyonahana
पापुरण
pāpuraṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 毛毯 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

見解
jiàn jiě
अपिधान
apīdhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पिधान
pidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩盖 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

見識
jiàn shi
पागुञ्जता
pāguññatā
來看 / 所屬 / 景 / 景色 / 查看 / 檢視 / 看法 / 眺望 / 瞻 / 見解 / 觀點 / 鑒 / 鑑 / 鑒 /

規律
guī lǜ
नीति
nīti
定律 / 定律 / 律 / 律 / 法 / 法則 / 法學 / 法律 / 規律 /

視力
shì lì
पेक्खण
pekkhaṇa
看 / 視力 /

親愛的
qīn ài de
पिय
piya
丈夫 / 丈夫 / 伉 / 外子 / 夫 / 夫 / 婿 / 老公 / 親愛的 /

親戚
qīn qi
जाति
jiāti
बन्धव
bandhava
戚 / 戚 / 親戚 /

覺
jué
निदा
nīdā
入睡 / 眠 / 睡 / 睡不著 / 睡覺 / 睡覺 / 覺 / 覺 /

觀點
guān diǎn
अपिधान
apīdhādi
來看 / 所屬 / 景 / 景色 / 查看 / 檢視 / 看法 / 眺望 / 瞻 / 見解 / 觀點 / 鑒 / 鑑 / 鑒 /

覺
jué
निदा
nīdā
入睡 / 眠 / 睡 / 睡不著 / 睡覺 / 睡覺 / 覺 / 覺 /

覺醒
jué xǐng
अनुबु
anubujjhana
理解 / 覺醒 / 認識 / 諒解 / 认识 / 认识 / 醒悟 / 體諒 /

角
jiǎo
कण्ण
kaṇṇa
外耳 / 楞 / 耳 / 耳朵 / 耳朵 / 街角 / 角 / 角度 / 角落 / 转角 / 陬 / 隅 /

角度
jiǎo dù
कण्ण
kaṇṇa
外耳 / 楞 / 耳 / 耳朵 / 耳朵 / 街角 / 角 / 角度 / 角落 / 转角 / 陬 / 隅 /

角落
jiǎo luò
कण्ण
kaṇṇa
外耳 / 楞 / 耳 / 耳朵 / 耳朵 / 街角 / 角 / 角度 / 角落 / 转角 / 陬 / 隅 /

角
jiǎo
कण्ण
kaṇṇa
外耳 / 楞 / 耳 / 耳朵 / 耳朵 / 街角 / 角 / 角度 / 角落 / 转角 / 陬 / 隅 /
कोण
kōṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /

菁
zuǐ
आनन
ānana
口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 菁 / 面 /

मुख
múx
mukha
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 菁 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

解決
jiě jué
निवेस
nivesa
住宅 / 住所 / 屋 / 屋子 / 房 / 房子 / 房屋 / 捨 / 收容 / 殖民地 / 殖民地 / 舍 / 舍 / 解決 /

解放
jiě fàng
अपलिबु
apalibuddha
漫 / 自由 / 自由的 / 解放 /

अवद्
abaddha
漫 / 自由 / 自由的 / 解放 /
अबन्धन
abandhana
漫 / 自由 / 自由的 / 解放 /
निरग्गल
niraggala
漫 / 自由 / 自由的 / 解放 /

解散
jiě sǎn
भङ्ग
bhaṅga
分解 / 瓦解 / 解散 /

解答
jiě dá
उत्तर
uttara
上面的 / 北方 / 北方的 / 响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /
पटिवचन
paṭivacana
响应 / 回信 / 回復 / 回答 / 回覆 / 回話 / 答 / 答對 / 答案 / 答覆 / 解答 /

解說
jiě shuō
अट्ठकथा
aṭṭhakathā
解說 / 說明 /

解釋
jiě shì
उद्दीपना
uddīpanā
解釋 / 解釋 / 說明 / दीपना
dīpanā
解釋 / 解釋 / 說明 / निगमन
nigamana
定局 / 結論 / 解釋 / 解釋 / 說明 / निब्बेठन
nibbeṭhana
解釋 / 解釋 / 說明 / पकास
pakāsa
光亮 / 解釋 / 解釋 / 說明 / परिदीपन
paridīpana

解釋
jiě shì
उद्दीपना
uddīpanā
解釋 / 解釋 / 說明 / दीपना
dīpanā
解釋 / 解釋 / 說明 / निगमन
nigamana
定局 / 結論 / 解釋 / 解釋 / 說明 / निद्देस
niddesa
描寫 / 描述 / 解釋 / निब्बेठन
nibbeṭhana
解釋 / 解釋 / 說明 / पकास
pakāsa
光亮 / 解釋 / 解釋 / 說明 / परिदीपन
paridīpana

解除
jiě chú
निस्सन्द
nissanda
作用 / 成效 / 成果 / 效 / 效應 / 效果 / 果 / 究竟 / 結果 / 結果 / 解除 /

解雇
jiě gù
ओस्सजन
ossajana
解雇 / 釋放 /

舩
gōng
उरु
uru
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 大號 / 裝 / 裝 / 弘 / 恢 / 曼 / 極大 / 碩 / 莫大 / 舩 /
तुमुल
tumula
伟 / 偉 / 偉大 / 冢 / 夥 / 大 / 大牌 / 大的 / 裝 / 裝 / 弘 / 恢 / 極大 / 盛大的 / 碩 / 莫大 / 舩 /
触摸
chù mō
फोट्टब्ब
photṭhabba
接觸 / 触摸 /
觸
chù
फुसन
phusana

言
yán
आलाप
ālāpa
交談 / 会话 / 單詞 / 圣言 / 字 / 言 / 詞 / 話 / 談話 / 词 /
言語
yán yǔ
कथा
kathā
会话 / 故事 / 演說 / 言語 /

訂
dìng
अनुक्कम
anukkama
令 / 命令 / 序 / 序列 / 承 / 排序 / 旨意 / 檄 / 次序 / 秩序 / 程 / 系列 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 / 順序 /
आनुपुब्बी
ānupubbī
令 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 /
पटिपाटि
paṭipāṭi
令 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 /
परियाय
pariyāya
令 / 序 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 轉動 / 順序 / 順序 /

訓
xùn
पवत्ति
pavatti
事件 / 事端 / 入射 / 新聞 / 新聞 / 消息 / 消息 / 發生 / 訊 / 訊 / 音信 /
訓練
xùn liàn
उपासन
upāsana
伺候 / 役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 / 訓練 / 训练 / 训练 /

記性
jì xìng
अनुस्सति
anussati
回忆 / 回憶 / 記性 / 記憶 / 記憶力 / 记忆 / 追忆 / 追思 /
अनुस्सरण
anussaraṇa
回忆 / 回想 / 記性 / 記憶 / 記憶力 / 记忆 / 追忆 / 追思 /

訂單
dìng dān
अनुक्कम
anukkama
令 / 命令 / 序 / 序列 / 承 / 排序 / 旨意 / 檄 / 次序 / 秩序 / 程 / 系列 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 / 順序 /
आनुपुब्बी
ānupubbī
令 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 /
पटिपाटि
paṭipāṭi
令 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 /
परियाय
pariyāya
令 / 序 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 轉動 / 順序 / 順序 /

計劃
jì huà
नय
naya
打算 / 方式 / 方案 / 方法 / 模式 / 策 / 策劃 / 舉止 / 計劃 / 計畫 / 计划 / 顺序 /
पकप्पना
pakappanā
安排 / 計劃 /

計畫
jì huà
नय
naya
打算 / 方式 / 方案 / 方法 / 模式 / 策 / 策劃 / 舉止 / 計劃 / 計畫 / 计划 / 顺序 /

計算
jì suàn
गणना
gaṇanā
号 / 号码 / 多寡 / 数 / 数字 / 數 / 數目 / 算术 / 算術 / 編號 / 编号 / 號 / 號碼 / 計算 /

訊
xùn
पवत्ति
pavatti
事件 / 事端 / 入射 / 新聞 / 新聞 / 消息 / 消息 / 發生 / 訊 / 訊 / 音信 /

訓練
xùn liàn
उपासन
upāsana
伺候 / 役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 / 訓練 / 训练 / 训练 /

記性
jì xìng
अनुस्सति
anussati
回忆 / 回憶 / 記性 / 記憶 / 記憶力 / 记忆 / 追忆 / 追思 /
अनुस्सरण
anussaraṇa
回忆 / 回想 / 記性 / 記憶 / 記憶力 / 记忆 / 追忆 / 追思 /

記憶
jì yì
अनुस्सति
anussati
回忆 / 回憶 / 記性 / 記憶 / 記憶力 / 记忆 / 追忆 / 追思 /
अनुस्सरण
anussaraṇa
回忆 / 回想 / 記性 / 記憶 / 記憶力 / 记忆 / 追忆 / 追思 /
अभिजानन
abhijānana
回想 / 回憶 / 承認 / 記憶 /

記憶力
jì yì lì
अनुस्सति
anussati
回忆 / 回憶 / 記性 / 記憶 / 記憶力 / 记忆 / 追忆 / 追思 /
अनुस्सरण
anussaraṇa
回忆 / 回想 / 記性 / 記憶 / 記憶力 / 记忆 / 追忆 / 追思 /

記號
jì hào
अङ्क
aṅka
印子 / 标 / 標 / 標記 / 特徵 / 痕 / 記號 / 馬克 / 马克 /

設備
shè bèi
परिक्खार
parikkhāra
備 / 器材 / 必需品 / 装备 / 裝備 / 裝置 / 設備 / 设备 / 配件 /

許
xǔ
पटिञ्जा
paṭiññā
同意 / 有希望 / 答應 / 約定 / 許 / 許可 / 許諾 / 諾 / 諾言 /
पटिस्सव
paṭissava
有希望 / 答應 / 約定 / 許 / 許諾 / 諾 / 諾言 / 贊成 /

許可
xǔ kě
अनुञ्जा
anuññā
制裁 / 同意 / 批准 / 支援 / 裁 / 許可 / 認可 /
अनुमति
anumati
同意 / 許可 /

अपलोकन
apalokana
同意 / 許可 /
ओकास
okāsa
准许 / 机会 / 機會 / 空地 / 空地 / 空間 / 許可 /
पटिञ्जा
paṭiññā
同意 / 有希望 / 答應 / 約定 / 許 / 許可 / 許諾 / 諾 / 諾言 /

許多
xǔ duō
अतिविय
ativiya
अनप्पक
anappaka
不少 / 多多 / 好多 / 很多 / 許多 / 諸多 / 许多 / 重要的 / 非常多 /
बहु
bahu
不少 / 充分 / 多多 / 好多 / 很多 / 許多 / 諸多 / 许多 / 非常多 /

許諾
xǔ nuò
पटिञ्जा
paṭiññā
同意 / 有希望 / 答應 / 約定 / 許 / 許可 / 許諾 / 諾 / 諾言 /
पटिस्सव
paṭissava
有希望 / 答應 / 約定 / 許 / 許諾 / 諾 / 諾言 / 贊成 /

詛咒
zǔ zhòu
अभिसपन
abhisapana
宣誓 / 盟 / 詛咒 / 誓 / 誓言 / 起誓 /
अभिसाप
abhisāpa

詞
cí
आलाप
ālāpa
交談 / 会话 / 單詞 / 圣言 / 字 / 言 / 詞 / 話 / 談話 / 词 /
詩

詩
shī
कब्ब
kabba
कावेय्य
kāveyya
詩 / 诗 / 诗歌 /
गेय्य
geyya

पञ्ज
pajja
修路 / 徑 / 徑 / 路 / 路上 / 路徑 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
詩人

詩人
shī rén
कवि
kavi
詩人 / 诗人 /

詭計
guǐ jì
केराटिय
kerāṭiya
欺騙 / 詭計 /
कुहना
kuhanā
欺騙 / 詭計 /

話
huà
आलाप
ālāpa
交談 / 会话 / 單詞 / 圣言 / 字 / 言 / 詞 / 話 / 談話 / 词 /

該
gāi
एत
eta
其 / 彼 / 該 / 该 / 这个 / 这个 / 這 / 那 / 那 / 那个 / 那個 / 那天 /

認可
rèn kě
अनुग्गा
anuṅgā
制裁 / 同意 / 批准 / 支援 / 裁 / 許可 / 認可 /

認識
rèn shi
अनुबु
anubujjhana
理解 / 觉醒 / 認識 / 諒解 / 认识 / 认识 / 醒悟 / 體諒 /
अनुबोध
anubodha
深知 / 理解 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 體諒 /
अवबोध
avabodha
深知 / 理解 / 理解力 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 體諒 /

誘惑
yòu huò
आवट्टन
āvattana

誘餌
yòu ěr
आमिस
āmisa
利益 / 材 / 材料 / 材質 / 物质 / 物质的 / 素材 / 肉 / 肉體 / 血肉 / 誘餌 / 诱惑 / 食 / 食品 / 食物 / 餌 / 飯 / 餌 /
निवाप
nivāpa
誘餌 / 诱惑 / 餌 / 餌 /

誑
kuáng
अलिक
alika
假話 / 撒謊 / 誑 / 說謊 / 謊 / 謊言 / 謊話 / 说谎 / 谎 / 躺 /

誓
shì
अभिसपन
abhisapana
宣誓 / 盟 / 詛咒 / 誓 / 誓言 / 起誓 /

誓言
shì yán
अभिसपन
abhisapana
宣誓 / 盟 / 詛咒 / 誓 / 誓言 / 起誓 /

誑
kuáng
अलिक
alika
假話 / 撒謊 / 誑 / 說謊 / 謊 / 謊言 / 謊話 / 说谎 / 谎 / 躺 /

詛咒
zǔ zòu
अज्जव
ajjava
正直 / 率直 / 率直 / 誠實 /

誕
dàn
उप्पज्जन
uppajjana
出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 / उत्पाद
uppāda
上升 / 出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 血统 / 誕 / 诞 / 起源 /
जाति
jāti
再生 / 出生 / 出身 / 国 / 国家 / 民族 / 生下 / 生出 / 种族 / 種族 / 誕 / 诞 / 賽跑 / 賽馬 /
जायन
jāyana
出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 / निब्वल्लन
nibbattana
再生 / 出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 /
पजायन
pajāyana
出生 / 出身 / 存在 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 /

誘惑
yòu huò
आवट्टन
āvattana
利益 / 材 / 材料 / 材質 / 物质 / 物质的 / 素材 / 肉 / 肉體 / 血肉 / 誘餌 / 诱惑 / 食 / 食品 / 食物 / 餌 / 飯 / 餌 /
निवाप
nivāpa
誘餌 / 诱惑 / 餌 / 餌 /

誘餌
yòu ěr
आमिस
āmisa
利益 / 材 / 材料 / 材質 / 物质 / 物质的 / 素材 / 肉 / 肉體 / 血肉 / 誘餌 / 诱惑 / 食 / 食品 / 食物 / 餌 / 飯 / 餌 /
निवाप
nivāpa
誘餌 / 诱惑 / 餌 / 餌 /

誘餌
yòu ěr
आमिस
āmisa
利益 / 材 / 材料 / 材質 / 物质 / 物质的 / 素材 / 肉 / 肉體 / 血肉 / 誘餌 / 诱惑 / 食 / 食品 / 食物 / 餌 / 飯 / 餌 /
निवाप
nivāpa
誘餌 / 诱惑 / 餌 / 餌 /

誘餌
yòu ěr
आमिस
āmisa
利益 / 材 / 材料 / 材質 / 物质 / 物质的 / 素材 / 肉 / 肉體 / 血肉 / 誘餌 / 诱惑 / 食 / 食品 / 食物 / 餌 / 飯 / 餌 /
निवाप
nivāpa
誘餌 / 诱惑 / 餌 / 餌 /

語
yǔ
निरुत्ति
nirutti
文 / 語 / 語言 / 语 / 语言 / 语言学 / भासा
bhāsā
文 / 方言 / 語 / 語言 / 语 / 语言 / 语言学 /

語言
yǔ yán
निरुत्ति
nirutti
文 / 語 / 語言 / 语 / 语言 / 语言学 / भासा
bhāsā
文 / 方言 / 語 / 語言 / 语 / 语言 / 语言学 /

誠實
chéng shí
अज्जव
ajjava
正直 / 率直 / 率直 / 誠實 /

說明
shuō míng
अडुकथा
aṭṭhakathā
解說 / 說明 / उद्दीपना
uddīpanā
解释 / 解釋 / 說明 / दीपना
dīpanā
解释 / 解釋 / 說明 / निगमन
nigamana
定局 / 結論 / 解释 / 解釋 / 說明 / निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 緣 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 / निब्वेठन
nibbēṭhana
解释 / 解釋 / 說明 / पकास
pakāsa
光亮 / 解释 / 解釋 / 說明 / परिदीपन
paridīpana
解释 / 解釋 / 說明 /

說明
shuō míng
अडुकथा
aṭṭhakathā
解說 / 說明 / उद्दीपना
uddīpanā
解释 / 解釋 / 說明 / दीपना
dīpanā
解释 / 解釋 / 說明 / निगमन
nigamana
定局 / 結論 / 解释 / 解釋 / 說明 / निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 緣 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 / निब्वेठन
nibbēṭhana
解释 / 解釋 / 說明 / पकास
pakāsa
光亮 / 解释 / 解釋 / 說明 / परिदीपन
paridīpana
解释 / 解釋 / 說明 /

談
tán
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

談
tán
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

談到
tán dào
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

談法
shuō fǎ
अपदेस
apadesa
动机 / 原因 / 因 / 声明 / 声明书 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 聲明 / 說法 / 说法 / 道理 / 陈述 / 陳述 /

說謊
shuō huǎng
अलिक
alika
假話 / 撒謊 / 誑 / 說謊 / 謊 / 謊言 / 謊話 / 说谎 / 谎 / 躺 /

說起
shuō qǐ
भणन्त
bhaṇanta
來說 / 說起 /

課程
kè chéng
गति
gati
事業 / 去 / 命运 / 命運 / 涯 / 生涯 / 課程 /

課程
kè chéng
गति
gati
事業 / 去 / 命运 / 命運 / 涯 / 生涯 / 課程 /

課程
kè chéng
गति
gati
事業 / 去 / 命运 / 命運 / 涯 / 生涯 / 課程 /

調查
diào chá
अन्वेषना
anvesanā
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 調查 / 追尋 /
उपपरिक्खन
upaparikkhana
考試 / 調查 / परिगणहन
parigaṇhana

談
tán
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

談
tán
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

談到
tán dào
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

談到
tán dào
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

談到
tán dào
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

談話
tán huà
आलाप
ālāpa
交談 / 会话 / 單詞 / 圣言 / 字 / 言 / 詞 / 話 / 談話 / 词 /
भासन
bhāsana
演講 / 談話 /

談話
tán huà
आलाप
ālāpa
交談 / 会话 / 單詞 / 圣言 / 字 / 言 / 詞 / 話 / 談話 / 词 /
भासन
bhāsana
演講 / 談話 /

談話
tán huà
आलाप
ālāpa
交談 / 会话 / 單詞 / 圣言 / 字 / 言 / 詞 / 話 / 談話 / 词 /
भासन
bhāsana
演講 / 談話 /

談話
tán huà
आलाप
ālāpa
交談 / 会话 / 單詞 / 圣言 / 字 / 言 / 詞 / 話 / 談話 / 词 /
भासन
bhāsana
演講 / 談話 /

談論
tán lùn
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

談論
tán lùn
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

談論
tán lùn
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

談論
tán lùn
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

談論
tán lùn
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

談論
tán lùn
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

談論
tán lùn
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

談論
tán lùn
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

談論
tán lùn
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

談論
tán lùn
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

談論
tán lùn
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 /

諸多
zhū duō
अनप्यक
anappaka
不少 / 多多 / 好多 / 很多 / 許多 / 諸多 / 许多 / 重要的 / 非常多 /
बहु
bahu
不少 / 充分 / 多多 / 好多 / 很多 / 許多 / 諸多 / 许多 / 非常多 /

諾

nuò
पटिञ्जा
paṭiññā
同意 / 有希望 / 答應 / 約定 / 許 / 許可 / 許諾 / 諾 / 諾言 /
पटिस्सव
paṭissava
有希望 / 答應 / 約定 / 許 / 許諾 / 諾 / 諾言 / 贊成 /

諾言

nuò yán
पटिञ्जा
paṭiññā
同意 / 有希望 / 答應 / 約定 / 許 / 許可 / 許諾 / 諾 / 諾言 /
पटिस्सव
paṭissava
有希望 / 答應 / 約定 / 許 / 許諾 / 諾 / 諾言 / 贊成 /

謀殺

móu shā
अतिपात
atipāta
殺害 / 殺死 / 謀殺 /

謊

huǎng
अलिक
alika
假話 / 撒謊 / 誑 / 說謊 / 謊 / 謊言 / 謊話 / 说谎 / 谎 / 躺 /

謊言

huǎng yán
अतच्छ
ataccha
अभूत
abhūta
अलिक
alika
假話 / 撒謊 / 誑 / 說謊 / 謊 / 謊言 / 謊話 / 说谎 / 谎 / 躺 /
असच्च
asacca
कूट
kūṭa
上端 / 冈 / 坎 / 尖峰 / 山脊 / 山脊 / 岡 / 峙 / 峰 / 欺騙 / 突起 / 脊 / 脊 / 謊言 / 頂峰 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 高峰 /

謊話

huǎng huà
अलिक
alika
假話 / 撒謊 / 誑 / 說謊 / 謊 / 謊言 / 謊話 / 说谎 / 谎 / 躺 /

講話
jiǎng huà
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

講述

jiǎng shù
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

證據

zhèng jù
निदस्सन
nidassana

例 / 例子 / 实例 / 样品 / 样本 / 榜样 / 榜樣 / 模范 / 比方 / 比較 / 為例 / 範 / 范 / 范例 / 表率 / 證據 /

識
shi
अधिगम
adhigama
深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /
अनुबोध
anubodha
深知 / 理解 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 识 / 體諒 /
अवबोध
avabodha
深知 / 理解 / 理解力 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 识 / 體諒 /
आजानन

ājānana
深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /
पञ्जा
paññā
智 / 智慧 / 洞察力 / 深知 / 知識 / 知识 / 知道 / 識 / 识 / 识 /
परिजानन
parijānana
深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /
बोध
bodha
深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /

譜

pǔ
ताळ
tāḷa
乐 / 关键 / 樂 / 要害 / 譜 / 濬 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 / 音乐 / 音樂 /

警告

jǐng gào
अनुसिद्धि
anusitṭhi
劝告 / 咨詢 / 忠告 / 警告 /

警察

jǐng chá
भट
bhaṭa
兵 / 兵家 / 卒 / 士兵 / 小兵 / 步兵 / 警察 / 軍人 /

警戒

jǐng jiè
अप्पमाद
appamāda
जागरिय
jāgariya
熬夜 / 警戒 /

警醒的

jǐng xǐng de
अप्पमत्त
appamatta
小心的 / 微小的 / 注意的 / 警醒的 /
जागर
jāgara
注意的 / 警醒的 /

議論
yì lùn
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित
abhijappita
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

譴責

qiǎn zé
उपारम्भ
upārambha
指責 / 譴責 / 谴责 / 责难 /
गरहन
garahana
譴責 / 責備 /

護士

hù shì
आपादिका
āpādikā
护士 / 護士 / 護理 /
उपद्वाक
upaṭṭhāka
护士 / 護士 / 護理 /
धाती
dhātī
护士 / 護士 / 護理 /
पोसिका
posikā
护士 / 護士 / 護理 /
護理

hù lǐ
आपादिका
āpādikā
护士 / 護士 / 護理 /
उपद्वाक
upaṭṭhāka
护士 / 護士 / 護理 /
धाती
dhātī
护士 / 護士 / 護理 /
पोसिका
posikā
护士 / 護士 / 護理 /

變

biàn
परिणाम
pariṇāma
发展 / 变 / 变化 / 变更 / 开发 / 成熟 / 改 / 改變 / 更改 / 消化 / 變 / 變動 / 變化 / 變更 / 轉變 / 转变 /

變動
biàn dòng
अञ्जथत्त
aññathatta
परिणाम
pariṇāma
发展 / 变 / 变化 / 变更 / 开发 / 成熟 / 改 / 改變 / 更改 / 消化 / 變 / 變動 / 變化 / 變更 / 轉變 / 转变 /

變化

biàn huà
परिणाम
pariṇāma
发展 / 变 / 变化 / 变更 / 开发 / 成熟 / 改 / 改變 / 更改 / 消化 / 變 / 變動 / 變化 / 變更 / 轉變 / 转变 /

變得

biàn de
भवति
bhavati

變更

biàn gèng
परिणाम
pariṇāma
发展 / 变 / 变化 / 变更 / 开发 / 成熟 / 改 / 改變 / 更改 / 消化 / 變 / 變動 / 變化 / 變更 / 轉變 / 转变 /

變老

biàn lǎo
आयु
āyu
代 / 壽命 / 年代 / 年岁 / 年纪 / 年老 / 年齡 / 年齡 / 时代 / 歲數 / 變老 / 齡 /

计划

jì huà
नय
naya
打算 / 方式 / 方案 / 方法 / 模式 / 策 / 策劃 / 舉止 / 計劃 / 計畫 / 计划 / 順序 /

訂

dìng
अनुक्कम
anukkama
令 / 命令 / 序 / 序列 / 承 / 排序 / 旨意 / 檄 / 次序 / 秩序 / 程 / 系列 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 / 順序 /
आनुपुब्बी
ānupubbī
令 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 /
पटिपाटि
paṭipāṭi
令 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 /

परियाय
pariyāya
令 / 序 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 轉動 / 順序 / 順序 /

认识
rèn shī
अनुबु
anubujjhana
理解 / 觉醒 / 認識 / 諒解 / 认识 / 认识 / 醒悟 / 體諒 /
अनुबु
anubujjhana
理解 / 觉醒 / 認識 / 諒解 / 认识 / 认识 / 醒悟 / 體諒 /
अनुबोध
anubodha
深知 / 理解 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 體諒 /
अनुबोध
anubodha
深知 / 理解 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 體諒 /
अवबोध
avabodha
深知 / 理解 / 理解力 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 體諒 /
अवबोध
avabodha
深知 / 理解 / 理解力 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 體諒 /
उपद्दान
upaṭṭhāna
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 理解 / 等候 / 等候 / 維修 / 認識 / 諒解 / 认识 / 认识 / 體諒 /
उपद्दान
upaṭṭhāna
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 理解 / 等候 / 等候 / 維修 / 認識 / 諒解 / 认识 / 认识 / 體諒 /

训令

xùn lìng
कम
kama
一步 / 命令 / 序 / 措施 / 方式 / 方法 / 模式 / 步 / 步子 / 步驟 / 狀態 / 脚步 / 舉止 / 训令 / 進程 / 陔 / 順序 / 顺序 /
训练
xun liàn
उपासन
upāsana
伺候 / 役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 / 訓練 / 训练 / 训练 /
उपासन
upāsana
伺候 / 役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 / 訓練 / 训练 / 训练 /

讯

xùn
पवत्ति
pavatti
事件 / 事端 / 入射 / 新聞 / 新闻 / 消息 / 消息 / 發生 / 訊 / 讯 / 音信 /

记忆
jì yì
अनुस्सति
anussati
回忆 / 回憶 / 記性 / 記憶 / 記憶力 / 记忆 / 追忆 / 追思 /
अनुस्सरण
anussaraṇa
回忆 / 回想 / 記性 / 記憶 / 記憶力 / 记忆 / 追忆 / 追思 /

许多

xǔ duō
अनप्पक
anappaka
不少 / 多多 / 好多 / 很多 / 許多 / 諸多 / 许多 / 重要的 / 非常多 /
बहु
bahu
不少 / 充分 / 多多 / 好多 / 很多 / 許多 / 諸多 / 许多 / 非常多 /
बहुतर
bahutara
更 / 更加 / 更多 / 更好 / 许多 / 越來越 / 越來越多 / 非常多 /

论

lùn
दिट्ठि
ditṭhi
信仰 / 信奉 / 信念 / 意見 / 理論 / 理论 / 論 / 论 /

设备

shè bèi
परिक्खार
parikkhāra
備 / 器材 / 必需品 / 装备 / 裝備 / 裝置 / 設備 / 设备 / 配件 /

识
shī
अधिगम
adhigama
深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /
अधिगम
adhigama
深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /
अनुबोध
anubodha
深知 / 理解 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 體諒 /
अनुबोध
anubodha
深知 / 理解 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 體諒 /
अवबोध
avabodha
深知 / 理解 / 理解力 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 體諒 /
अवबोध
avabodha
深知 / 理解 / 理解力 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 體諒 /
आजानन
ājānana
深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /
आजानन
ājānana
深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /
पञ्ञा
paññā
智 / 智慧 / 洞察力 / 深知 / 知識 / 知识 / 知道 / 識 / 识 / 识 /
पञ्ञा
paññā
智 / 智慧 / 洞察力 / 深知 / 知識 / 知识 / 知道 / 識 / 识 / 识 /
परिजानन
parijānana
深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /
परिजानन
parijānana
深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /
बोध
bodha
深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /
बोध
bodha
深知 / 知識 / 知识 / 識 / 识 / 识 /

词

cí
आलाप
ālāpa
交談 / 会话 / 單詞 / 圣言 / 字 / 言 / 詞 / 話 / 談話 / 词 /

译文
yì wén
अनुवाद
anuvāda
翻譯 / 翻译 / 译文 / 責備 /
परिवत्तन
parivattana
旋轉 / 翻譯 / 翻译 / 译文 /
诗
shī
कावेय्य
kāveyya
詩 / 诗 / 诗歌 /

诗人

shī rén
कवि
kavi
詩人 / 诗人 /

诗歌

shī gē
कावेय्य
kāveyya
詩 / 诗 / 诗歌 /

诞

dàn
उप्पज्जन
uppajjana
出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 /
उप्पाद
uppāda
上升 / 出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 血统 / 誕 / 诞 / 起源 /

जाति

jāti
再生 / 出生 / 出身 / 国 / 国家 / 民族 / 生下 / 生出 / 种族 / 種族 / 誕 / 诞 / 賽跑 / 賽馬 /
जायन
jāyana
出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 /
निब्बत्तन
nibbattana
再生 / 出生 / 出身 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 /

पजायन

pajāyana
出生 / 出身 / 存在 / 生下 / 生出 / 誕 / 诞 /

该

gāi
एत
eta
其 / 彼 / 該 / 该 / 这个 / 这个 / 這 / 那 / 那 / 那个 / 那個 / 那天 /

语

yǔ
निरुत्ति
nirutti
文 / 語 / 語言 / 语 / 语言 / 语言学 /
भासा
bhāsā
文 / 方言 / 語 / 語言 / 语 / 语言 / 语言学 /

语言
yǔ yán
जिव्हा
jivhā
口舌 / 舌 / 舌头 / 舌頭 / 语言 /
निरुत्ति
nirutti
文 / 語 / 語言 / 语 / 语言 / 语言学 /
भासा
bhāsā
文 / 方言 / 語 / 語言 / 语 / 语言 / 语言学 /

语言学

yǔ yán xué
निरुत्ति
nirutti
文 / 語 / 語言 / 语 / 语言 / 语言学 /
भासा
bhāsā
文 / 方言 / 語 / 語言 / 语 / 语言 / 语言学 /

诱惑

yòu huò
आमिस
āmisa
利益 / 材 / 材料 / 材質 / 物质 / 物质的 / 素材 / 肉 / 肉體 / 血肉 / 誘餌 / 诱惑 / 食 / 食品 / 食物 / 餌 / 饭 / 餌 /
निवाप
nivāpa
誘餌 / 诱惑 / 餌 / 餌 /

说法

shuō fǎ
अपदेस
apadesa
动机 / 原因 / 因 / 声明 / 声明书 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 聲明 / 說法 / 说法 / 道理 / 陈述 / 陳述 /

说谎

shuō huǎng
अलिक
alika
假話 / 撒謊 / 誑 / 說謊 / 謊 / 謊言 / 謊話 / 说谎 / 谎 / 躺 /

请求

qǐng qiú
अज्झेसना
ajjhesanā
求 / 請求 / 请求 / 邀請 /
अभियाचन
abhiyācana
懇求 / 求 / 要 / 要求 / 要求物 / 請求 / 请求 /
आयाचना
āyācanā
應用 / 求 / 申請 / 申請書 / 請求 / 请求 /

读音

dú yīn
उच्चारण
uccāraṇa
发音 / 發音 / 读音 /

课时
kè shí
कालन्तर
kālantara
一段 / 句號 / 时期 / 時期 / 期 / 期間 / 期间 / 课时 /
課程
kè chéng
पथ
patha
中 / 修路 / 办法 / 徑 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路徑 / 路線 / 路线 / 路途 / 軌 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /

谈
tán
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित्त
abhijappitta
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

谈论
tán lùn
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित्त
abhijappitta
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

谈话
tán huà
अभिजप्पन
abhijappana
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिजप्पित्त
abhijappitta
演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /
अभिलाप
abhilāpa
演講 / 演讲 / 聊聊 / 談 / 談到 / 談論 / 講話 / 講述 / 議論 / 谈 / 谈论 / 谈话 /

谍
dié
अवचरक
avacaraka
刺探 / 密探 / 特務 / 狙 / 耳目 / 謀 / 谍 / 間諜 / 间谍 /
谎
huǎng
अलिक
alika
假話 / 撒謊 / 誑 / 說謊 / 謊 / 謊言 / 謊話 / 说谎 / 谎 / 躺 /

谛
dì
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 谛 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /

谱
pǔ
उद्दान
uddāna
串 / 列出 / 列表 / 单子 / 名单 / 名單 / 束 / 目錄 / 群 / 譜 /
ताळ
tāla
乐 / 关键 / 樂 / 要害 / 譜 / 譜 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 / 音乐 / 音樂 /

谴责
qiǎn zé
उपारम्भ
upārambha
指責 / 譴責 / 谴责 / 责难 /

豐富
fēng fù
बहुल
bahula
大概 / 時常 / 豐富 /

象
xiàng
इभ
ibha
大象 / 象 /
इव
iva
一如 / 一样 / 不啻 / 似 / 似 / 似的 / 似的 / 作為 / 做為 / 像 / 像是 / 出任 / 同样地 / 喜好 / 喜欢 / 喜歡 / 好像 / 好比 / 如 / 如同 / 宛如 / 就象 / 当作 / 既是 / 猶如 / 當作 / 當做 / 當成 / 看作 / 若 / 象 /
कुञ्जर
kuñjara
大象 / 象 /
कणेरु
kaṇeru
大象 / 象 /
करी
karī
大象 / 象 /
गज
gaja
大象 / 象 /
दिवप
dvipa
大象 / 象 /
नाग
nāga
大象 / 象 /

象征
xiàng zhēng
धज
dhaja
帜 / 幟 / 徽 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 符 / 符號 / 象征 / 象徵 /

象徵
xiàng zhǐ
धज
dhaja
帜 / 幟 / 徽 / 旂 / 旌 / 旗 / 旗子 / 旗帜 / 符 / 符號 / 象征 / 象徵 /

豹
bào
दीपि
dīpi
美洲豹 / 豹 /
दीपिक
dīpika
美洲豹 / 豹 /

貓
māo
तुण्हीभूत
tuṇhībhūta

貌
mào
आकार
ākāra
亮相 / 出場 / 境界 / 外表 / 外观 / 外貌 / 容貌 / 情况 / 样子 / 模樣 / 樣子 / 相貌 / 色 / 貌 / 面貌 /

猫
māo
बब्बु
babbu
猫 / 貓 /
बब्बुक
babbuka
猫 / 貓 /
बिळार
biḷāra
猫 / 貓 /
मज्जार
majjāra
猫 / 貓 /
貓頭鷹
māo tóu yīng
उळम्प
uḷumpa
熬夜的人 / 猫头鹰 / 貓頭鷹 /
कोसिक
kosika
熬夜的人 / 猫头鹰 / 貓頭鷹 /

貝特
bèi tè
अब्भुत
abbhuta
下注 / 了不起的 / 奇事 / 奇景 / 奇迹 / 打賭 / 貝特 / 賭 / 賭 /

財富
cái fù
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 谛 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /
इस्सरिय
issariya
控制 / 有道 / 權威 / 統治 / 统治 / 財富 / 财富 /
दब्ब
dabba
事件 / 实体 / 實質 / 有道 / 木料 / 木材 / 材 / 材料 / 森林 / 物質 / 物质 / 纺织品 / 財富 / 财富 /
धन
dhana
地产 / 属性 / 所有权 / 有道 / 財富 / 财产 / 财富 /
भग
bhaga
財富 / 财富 / 运气 / 運氣 /

भाग्य
bhāgya
भोग
bhoga
占有 / 所有权 / 所有物 / 有道 / 財富 / 财富 /

貧窮
pín qióng
दाळिदिय
dāliddiya
貧窮 / 贫困 /
責任
zé rèn
कत्तब्ब
kattabba
義務 / 責任 / 责任 /
करणीय
kaṛaṇīya
義務 / 責任 / 责任 /
कातब्ब
kātabba
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

責備
zé bèi
अक्कोस
akkosa
侮 / 侮辱 / 污辱 / 責備 / 辱 /
अतिवाक्य
ativākya
अनुवाद
anuvāda
翻譯 / 翻译 / 译文 / 責備 /
अपवाद
apavāda
責備 / 責怪 /
अवण्ण
avaṇṇa
咎 / 怨 / 歸咎 / 罪 / 責備 / 責怪 /
उपक्कोस
upakkosa
उपवाद
upavāda
侮 / 侮辱 / 咎 / 怨 / 挑剔 / 歸咎 / 污辱 / 罪 / 責備 / 責怪 / 辱 /
ओमसना
omasanā
侮 / 侮辱 / 污辱 / 責備 / 辱 /
गरहन
garahana
譴責 / 責備 /
दोस
dosa
忿怒 / 怒 / 怒火 / 拂 / 愆 / 愆 / 愤怒 / 憤怒 / 毛病 / 瑕 / 膏 / 破綻 / 缺点 / 缺陷 / 缺點 / 腐敗 / 責備 / 蹉 / 過失 /
निग्गण्हण
niggaṇhaṇa
निग्गह
niggaha
咎 / 怨 / 歸咎 / 罪 / 責備 / 責怪 / 過失 /

責怪
zé guài
अपवाद
apavāda
責備 / 責怪 /
अवण्ण
avaṇṇa
咎 / 怨 / 歸咎 / 罪 / 責備 / 責怪 /
उपवाद
upavāda
侮 / 侮辱 / 咎 / 怨 / 挑剔 / 歸咎 / 污辱 / 罪 / 責備 / 責怪 / 辱 /
निग्गह
niggaha
咎 / 怨 / 歸咎 / 罪 / 責備 / 責怪 / 過失 /

貴族
guì zú
पवर
pavara

費
fèi
भति
bhati
薪水 / 費 / 費用 / 费 / 酬金 / 酬金 /

費用
fèi yòng

धुर
dhura
任 / 任職 / 前部 / 处 / 处 / 接近的 / 最初的 / 最前部 / 职 / 職 / 處 / 費用 / 辦公 / 辦公室 /
परिब्बय
paribbaya
費用 / 開支 /
भति
bhati
薪水 / 費 / 費用 / 费 / 酬金 / 酬金 /

資訊
zī xùn
पेसन
pesana
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 維修 / 資訊 /

賊
zéi
चोर
cora
小偷 / 強盜 / 盜 / 盜 / 盜賊 / 竊賊 / 賊 / 賊 /
तक्कर
takkara
小偷 / 盜 / 盜 / 竊賊 / 賊 / 賊 /
थेन
thena
小偷 / 盜 / 盜 / 竊賊 / 賊 / 賊 /
थेनक
thenaka
小偷 / 盜 / 盜 / 竊賊 / 賊 / 賊 /

賓
bīn
अतिथि
atithi
住客 / 來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 探望者 / 旅游者 / 旅游者 / 來宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /
अब्भागत
abbhāgata
來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 來宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /
आगन्तुक
āgantuka
來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 來宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /
पाहुण
pāhuṇa
來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 來宾 / 禮物 / 賓 /

賜
sì
उपहार
upahāra
天才 / 礼物 / 禮物 / 賜 / 贈送 / 賜 / 賜 /
उपायन
upāyana
天才 / 礼物 / 禮物 / 賜 / 贈送 / 賜 / 賜 /
चाग
cāga
天才 / 慷慨 / 礼物 / 禮物 / 賜 / 贈送 / 賜 / 賜 /

質
zhì
अङ्ग
aṅga
品質 / 品质 / 成分 / 肢 / 質 / 質量 / 质 / 质量 /
गुण
guṇa
品質 / 品质 / 質 / 質量 / 质 / 质量 /

質問
zhì wèn
पन्ह
pañha
事情 / 問題 / 回答 / 审问 / 提問 / 質問 / 質疑 / 質詢 / 问题 /

質疑
zhì yí
पन्ह
pañha
事情 / 問題 / 回答 / 审问 / 提問 / 質問 / 質疑 / 質詢 / 问题 /

質詢
zhì xún
अभिनयन
abhinayana
पन्ह
pañha
事情 / 問題 / 回答 / 审问 / 提問 / 質問 / 質疑 / 質詢 / 问题 /

質量
zhì liàng
अङ्ग
aṅga
品質 / 品质 / 成分 / 肢 / 質 / 質量 / 质 / 质量 /
गुण
guṇa
品質 / 品质 / 質 / 質量 / 质 / 质量 /

賭
dǔ
अब्भुत
abbhuta
下注 / 了不起的 / 奇事 / 奇景 / 奇迹 / 打賭 / 貝特 / 賭 / 賭 /

賭博
dǔ bó
जूत
jūta
賭博 / 賭博 /

賭徒
dǔ tú
अक्खधुत्त
akkhadhutta

購買
gòu mǎi

कय
kaya

賽事
sài shì
पसङ्ग
pasaṅga
事件 / 事情 / 傾向 / 場合 / 大事 / 大事件 / 时机 / 机会 / 肇端 / 賽事 / 近因 /

賽跑
sài pǎo
जाति
jāti
再生 / 出生 / 出身 / 国 / 国家 / 民族 / 生下 / 生出 / 种族 / 種族 / 誕 / 诞 / 賽跑 / 賽馬 /

賽馬
sài mǎ
जाति
jāti
再生 / 出生 / 出身 / 国 / 国家 / 民族 / 生下 / 生出 / 种族 / 種族 / 誕 / 诞 / 賽跑 / 賽馬 /

贈送
zèng sòng
उपहार
upahāra
天才 / 礼物 / 禮物 / 賜 / 贈送 / 賜 / 賜 /
उपायन
upāyana
天才 / 礼物 / 禮物 / 賜 / 贈送 / 賜 / 賜 /
चाग
cāga
天才 / 慷慨 / 礼物 / 禮物 / 賜 / 贈送 / 賜 / 賜 /

贊助
zàn zhù
पग्गह
paggaha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /
पग्गाह
paggāha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /

贊助人
zàn zhù rén
अनुग्गाहक
anuggāhaka

贊成
zàn chéng
पटिस्सव
paṭissava
有希望 / 答應 / 約定 / 許 / 許諾 / 諾 / 諾言 / 贊成 /

贖罪
shú zuì
पटिकम्म
paṭikamma
矯正 / 贖罪 /

财产
cái chǎn
धन
dhana
地产 / 属性 / 所有权 / 有道 / 財富 / 财产 / 財富 /

財富
cái fù
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 諦 / 財富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /

इस्सरिय
issariya
控制 / 有道 / 權威 / 統治 / 统治 / 財富 / 财富 /
दब्ब
dabba
事件 / 实体 / 實質 / 有道 / 木料 / 木材 / 材 / 材料 / 森林 / 物質 / 物质 / 纺织品 / 財富 / 财富 /

धन
dhana
地产 / 属性 / 所有权 / 有道 / 財富 / 财产 / 財富 /
भग
bhaga
財富 / 财富 / 运气 / 運氣 /
भोग
bhoga
占有 / 所有权 / 所有物 / 有道 / 財富 / 财富 /

责任
zé rèn
कत्तब्ब
kattabba
義務 / 責任 / 责任 /
करणीय
karaṇīya
義務 / 責任 / 责任 /
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

责难
zé nán
उपारम्भ
upārambha
指責 / 譴責 / 谴责 / 责难 /

败
bài
अपाय
apāya
地狱 / 地獄 / 损失 / 損失 / 茫然 / 败 / 過失 /

अलाभ
alābha
损失 / 損失 / 茫然 / 败 /
जानि
jāni
仇 / 剝奪 / 剥夺 / 太太 / 夫人 / 夫妻 / 女人 / 女人 / 妇人 / 妻 / 妻子 / 娶妻 / 媳婦 / 愛人 / 损失 / 損失 / 爱人 / 老婆 / 茫然 / 败 /

नस्सन
nassana
损失 / 損失 / 破壞 / 茫然 / 败 /
परिहानि
parihāni
损失 / 損失 / 毀滅 / 減少 / 茫然 / 败 /

质
zhì
अङ्ग
aṅga
品質 / 品质 / 成分 / 肢 / 質 / 質量 / 质 / 质量 /
गुण
guṇa
品質 / 品质 / 質 / 質量 / 质 / 质量 /

質量
zhì liàng
अङ्ग
aṅga
品質 / 品质 / 成分 / 肢 / 質 / 質量 / 质 / 质量 /
गुण
guṇa
品質 / 品质 / 質 / 質量 / 质 / 质量 /

贪婪的
tān lán de
कदरिय
kadariya
婪 / 小氣 / 贪婪的 /
贫困
pín kùn
दाळिदिय
dālididiya
貧窮 / 贫困 /
贵妇人
guì fù rén
अय्या
ayyā
女主人 / 女士 / 情人 / 情妇 / 淑女 / 淑女 / 贵妇人 /
费
fèi
भति
bhati
薪水 / 費 / 費用 / 费 / 酬金 / 酬金 /
贼
zéi
चोर
cora
小偷 / 強盜 / 盜 / 盜 / 盜賊 / 竊賊 / 賊 / 賊 /
तक्कर
takkara
小偷 / 盜 / 盜 / 竊賊 / 賊 / 賊 /
थेन
thena
小偷 / 盜 / 盜 / 竊賊 / 賊 / 賊 /
थेनक
thenaka
小偷 / 盜 / 盜 / 竊賊 / 賊 / 賊 /
资本
zī běn
पमुख
pamukha
主要的 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 本金 / 正面 / 资本 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 首席 / 魁 /
賭
dǔ
अब्भुत
abbhuta
下注 / 了不起的 / 奇事 / 奇景 / 奇迹 / 打賭 / 貝特 / 賭 / 賭 /
賭博
dǔ bó
जुत
jūta
賭博 / 賭博 /

賜
cì
उपहार
upahāra
天才 / 礼物 / 禮物 / 賜 / 贈送 / 賜 / 賜 /
उपहार
upahāra
天才 / 礼物 / 禮物 / 賜 / 贈送 / 賜 / 賜 /
उपायन
upāyana
天才 / 礼物 / 禮物 / 賜 / 贈送 / 賜 / 賜 /
उपायन
upāyana
天才 / 礼物 / 禮物 / 賜 / 贈送 / 賜 / 賜 /
चाग
cāga
天才 / 慷慨 / 礼物 / 禮物 / 賜 / 贈送 / 賜 / 賜 /
चाग
cāga
天才 / 慷慨 / 礼物 / 禮物 / 賜 / 贈送 / 賜 / 賜 /

赛狗
sài gǒu
कुक्कुर
kukkura
尾隨 / 犬 / 犬类 / 狗 / 狗一樣 / 狗肉 / 赛狗 /
赞美
zàn měi
पसंसा
pasamsā
称赞 / 赞美 /
赤裸的
chì luǒ de
निच्योल
niccola
赦免
shè miǎn
खन्ति
khanti
寬容 / 寬恕 / 希望 / 忍耐 / 特赦 / 耐力 / 耐心 / 耐性 / 赦免 / 饒恕 /

走出
zǒu chū
बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /

走回
zǒu huí
पिठ्ठ
piṭṭha
后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 表面 / 走回 / 退后 / 面 / 麵 /
पिठ्ठि
piṭṭhi
上端 / 后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 尖峰 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 走回 / 退后 / 頂端 / 顶端 /

走進
zǒu jìn
आरब्भ
ārabbha
一下 / 即將 / 大約 / 大约 / 左右 / 快要 / 走進 / 關於 /

赶快
gǎn kuài
अविलम्बितं
avilambitaṃ
很快 / 很快地 / 趕快 / 趕快 / 迅速地 /
आसु
āsu
很快 / 很快地 / 趕快 / 趕快 / 迅速地 /
खिप्पं
khippaṃ
很快 / 很快地 / 趕快 / 趕快 / 迅速地 /

起床
qǐ chuáng
अब्भुद्धान
abbhuṭṭhāna
起床 / 进展 / 进步 / 進展 / 進步 /
起源
qǐ yuán
उद्धान
uṭṭhāna
上升 / 业 / 來歷 / 出身 / 原点 / 始源 / 工業 / 本源 / 来历 / 根源 / 業 / 活力 / 由来 / 精力 / 能源 / 能量 / 血统 / 行業 / 起源 / 高能 /

起作用
qǐ zuò yòng
कम्म
kamma
事 / 作用 / 做事 / 券 / 動作 / 勞工 / 在職 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 業 / 活兒 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 行動 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
कम्मन्त
kammanta
事 / 事情 / 做事 / 務 / 在職 / 工 / 工作 / 工匠 / 工夫 / 工夫 / 职业 / 職業 / 著作 / 著作 / 起作用 / 辦事 /

走出
zǒu chū
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

起先
qǐ xiān
आदितो
ādito
起先 / 起初 /
पठम
paṭhama
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先前的 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 起先 / 首 / 首先 /

起初
qǐ chū
आदितो
ādito
起先 / 起初 /

起因
qǐ yīn
निदान
nidāna
事业 / 令人 / 來源 / 促使 / 出处 / 原因 / 因 / 因素 / 導致 / 引起 / 故 / 本源 / 来源 / 根源 / 水源 / 泉源 / 源 / 源头 / 源泉 / 源点 / 源頭 / 理由 / 由 / 繇 / 致 / 致使 / 說明 / 起因 /

起床
qǐ chuáng
अब्भुद्धान
abbhuṭṭhāna
起床 / 进展 / 进步 / 進展 / 進步 /

起誓
qǐ shì
अभिसपन
abhisapana
宣誓 / 盟 / 詛咒 / 誓 / 誓言 / 起誓 /
超出
chāo chū
तिरो
tiro
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 超出 / 超过 / 門外 /
परं
param
之后 / 之後 / 后 / 后的 / 後 / 經 / 經過 / 经 / 经过 / 超出 / 超过 /

超升
chāo shēng
उन्नन्ति
unnati
上升 / 加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 提高 / 海拔 / 益 / 茁 / 超升 /

超越
chāo yuè
अतिवत्त
ativatta
克服 / 能克服 / 超越 /

起火
qǐ huǒ
अग्नि
aggi
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /
अनल
anala
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /

ignition
gini
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /

ignition
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /

पावक
pāvaka
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /

起誓
qǐ shì
अभिसपन
abhisapana
宣誓 / 盟 / 詛咒 / 誓 / 誓言 / 起誓 /
超出
chāo chū
तिरो
tiro
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 超出 / 超过 / 門外 /
परं
param
之后 / 之後 / 后 / 后的 / 後 / 經 / 經過 / 经 / 经过 / 超出 / 超过 /

超升
chāo shēng
उन्नन्ति
unnati
上升 / 加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 提高 / 海拔 / 益 / 茁 / 超升 /

超越
chāo yuè
अतिवत्त
ativatta
克服 / 能克服 / 超越 /

超过
chāo guò
तिरो
tiro
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 超出 / 超过 / 門外 /
परं
param
之后 / 之後 / 后 / 后的 / 後 / 經 / 經過 / 经 / 经过 / 超出 / 超过 /

越來越

yuè lái yuè
बहुतर
bahutara
更 / 更加 / 更多 / 更好 / 许多 / 越來越 / 越來越多 / 非常多 /
भिऱ्यो
bhiyyo
多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /
भिऱ्योसो
bhiyyoso
多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /

越來越多

yuè lái yuè duō
बहुतर
bahutara
更 / 更加 / 更多 / 更好 / 许多 / 越來越 / 越來越多 / 非常多 /
भिऱ्यो
bhiyyo
多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /
भिऱ्योसो
bhiyyoso
多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /

趋势

qū shì
अभिनिवेश
abhinivesa
傾向 / 趨勢 /

趕快

gǎn kuài
अविलम्बितं
avilambitaṃ
很快 / 很快地 / 赶快 / 趕快 / 迅速地 /
आसु
āsu
很快 / 很快地 / 赶快 / 趕快 / 迅速地 /
खिप्पं
khippaṃ
很快 / 很快地 / 赶快 / 趕快 / 迅速地 /
तुवटं
tuvaṭaṃ
很快 / 很快地 / 赶快 / 趕快 / 迅速地 /

趣味
qù wèi
अस्साद
assāda
口味 / 味 / 味兒 / 味道 / 品味 / 品嘗 / 品尝 / 咱 / 嚼 / 嘗 / 尝 / 愉快 / 有味道 / 滋味 / 滿足 / 趣味 /

足

zú
चरण
carāṇa
尺 / 步行 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 英尺 / 足 / 足部 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /
पाद
pāda
垒 / 基 / 基地 / 基础 / 基礎 / 壘 / 尺 / 底 / 底座 / 根據地 / 根本 / 胯 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 腿 / 英尺 / 足 / 足部 /

पाद
pāda
垒 / 基 / 基地 / 基础 / 基礎 / 壘 / 尺 / 底 / 底座 / 根據地 / 根本 / 胯 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 腿 / 英尺 / 足 / 足部 /

足部

zú bù
चरण
carāṇa
尺 / 步行 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 英尺 / 足 / 足部 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /
पाद
pāda
垒 / 基 / 基地 / 基础 / 基礎 / 壘 / 尺 / 底 / 底座 / 根據地 / 根本 / 胯 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 腿 / 英尺 / 足 / 足部 /

पाद
pāda
垒 / 基 / 基地 / 基础 / 基礎 / 壘 / 尺 / 底 / 底座 / 根據地 / 根本 / 胯 / 脚 / 腳 / 腳踏 / 腿 / 英尺 / 足 / 足部 /

跌

diē
पात
pāta
下跌 / 坠 / 墮 / 墜 / 墜入 / 墮 / 扔 / 投 / 掉 / 掉下 / 摔 / 摔下 / 摔倒 / 摔倒 / 淪陷 / 落下 / 跌 / 跌下 / 跌倒 / 跌倒 / 跌到 / 跌落 /

跌下

diē xià
पात
pāta
下跌 / 坠 / 墮 / 墜 / 墜入 / 墮 / 扔 / 投 / 掉 / 掉下 / 摔 / 摔下 / 摔倒 / 摔倒 / 淪陷 / 落下 / 跌 / 跌下 / 跌倒 / 跌倒 / 跌到 / 跌落 /

跌倒
diē dào
पात
pāta
下跌 / 坠 / 墮 / 墜 / 墜入 / 墮 / 扔 / 投 / 掉 / 掉下 / 摔 / 摔下 / 摔倒 / 摔倒 / 淪陷 / 落下 / 跌 / 跌下 / 跌倒 / 跌倒 / 跌到 / 跌落 /
पात
pāta
下跌 / 坠 / 墮 / 墜 / 墜入 / 墮 / 扔 / 投 / 掉 / 掉下 / 摔 / 摔下 / 摔倒 / 摔倒 / 淪陷 / 落下 / 跌 / 跌下 / 跌倒 / 跌倒 / 跌到 / 跌落 /

跌到

diē dào
पात
pāta
下跌 / 坠 / 墮 / 墜 / 墜入 / 墮 / 扔 / 投 / 掉 / 掉下 / 摔 / 摔下 / 摔倒 / 摔倒 / 淪陷 / 落下 / 跌 / 跌下 / 跌倒 / 跌倒 / 跌到 / 跌落 /

跌落

diē luò
पात
pāta
下跌 / 坠 / 墮 / 墜 / 墜入 / 墮 / 扔 / 投 / 掉 / 掉下 / 摔 / 摔下 / 摔倒 / 摔倒 / 淪陷 / 落下 / 跌 / 跌下 / 跌倒 / 跌倒 / 跌到 / 跌落 /

跛子

bǒ zǐ
कुणी
kuṇī
पक्ख
pakkha
一方 / 側 / 信徒 / 側 / 党 / 半邊 / 幫派 / 旁边 / 旁邊 / 派 / 派對 / 派系 / 當事人 / 羽翼 / 翅 / 翅膀 / 翼 / 跛子 / 边 / 黨 /

पङ्गु
paṅgu
跛子 / 跛足的 /
पङ्गुल
paṅgula
跛子 / 跛足的 /
पीठसप्पी
pīṭhasappī

跛足的

bǒ zú de
खज्ज
khañja
पङ्गु
paṅgu
跛子 / 跛足的 /
पङ्गुल
paṅgula
跛子 / 跛足的 /

距

jù
दूर
dūra
距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /

距离
jù lí
दूर
dūra
距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /

距離

jù lí
दूर
dūra
距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /

跟前

gēn qián
अभिमुख
abhimukha
前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 向 / 正面 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 /
पमुख
pamukha
主要的 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 本金 / 正面 / 资本 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 首席 / 魁 /
मुख
mukha
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 冀 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 冀 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

跟隨

gēn suí
अनुबन्धन
anubandhana
跟隨 / 追 / 連接 /
अनुयन्त
anuyanta
अन्वागत
anvāgata
अन्वायिक
anvāyika
अनुसार
anusāra
पटिसेवन
paṭisevana
中用 / 使用 / 跟隨 /

路
lù
अञ्जस
añjasa
修路 / 小道 / 径 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
पज्ज
pajja
修路 / 径 / 徑 / 詩 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
पथ
patha
中 / 修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /
पन्थ
pantha
修路 / 办法 / 径 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
मग्ग
magga
修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /

路上

lù shàng
अञ्जस
añjasa
修路 / 小道 / 径 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
पज्ज
pajja
修路 / 径 / 徑 / 詩 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
पथ
patha
中 / 修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /
पन्थ
pantha
修路 / 办法 / 径 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /

पन्थ
pantha
修路 / 办法 / 径 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
मग्ग
magga
修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /

路口

lù kǒu
तर
tara
橫越 / 路口 /

路径	路线	跳出	身	身亡
lù jìng	lù xiàn	tiào chū	shēn	shēn wáng
अञ्जस	अञ्जस	बहि	करजकाय	अन्तक
añjasa	añjasa	bahi	karajakāya	antaka
修路 / 小道 / 径 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /	修路 / 小道 / 径 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /	之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /	体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /	死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
पज्ज	पज्ज	跳蚤	कलेबर	कालकिरिया
pajja	pajja	tiào shuǐ	kalebara	kālakiriyā
修路 / 径 / 徑 / 詩 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /	修路 / 径 / 徑 / 詩 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /	跳蚤	体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /	死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
पथ	पथ	tiào shuǐ	काय	चवन
patha	patha	गहन	kāya	cavana
中 / 修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /	中 / 修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /	gāhana	体 / 堆 / 積 / 聚集 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /	死 / 死亡 / 死地 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
पन्थ	पन्थ	跳蚤	गल्ल	नमुचि
pantha	pantha	tiào zǎo	gatta	namuci
修路 / 办法 / 径 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /	修路 / 办法 / 径 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /	अधिपातक	体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /	死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
मग्ग	मग्ग	adhipātaka	चरित	नास
magga	magga	𧈧 / 𧈨 / 𧈩 / 𧈪 / 𧈫 / 𧈬 / 𧈭 / 跳蚤 /	carita	nāsa
修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /	修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /	跳躍	世 / 人命 / 人生 / 個性 / 命 / 品行 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /	死 / 死亡 / 死地 / 死神 / 毀滅 / 破壞 / 至死 / 身亡 /
路程	路途	tiào yuè	जीव	मच्चु
lù chéng	lù tú	अधिपतन	jīva	maccu
दूर	अञ्जस	adhipatana	世 / 人命 / 人生 / 命 / 壽命 / 性命 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 身 /	死 / 死亡 / 死地 / 死地 / 死神 / 至死 / 身亡 /
dūra	añjasa	侵襲 / 出擊 / 征 / 抨 / 攻 / 攻击 / 攻打 / 攻擊 / 發作 / 行凶 / 跳躍 /	देह	身份
距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迴 / 遯 / 遯 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遙远 / 遥远的 /	修路 / 小道 / 径 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /	उपपतन	deha	shēn fèn
路線	पज्ज	uppatana	体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /	अवद्धान
lù xiàn	pajja	升起 / 跳躍 / 飛 /	पाण	avatthāna
पथ	修路 / 径 / 徑 / 詩 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /	踢球	pāṇa	位 / 位置 / 地位 / 地位 / 姿 / 姿勢 / 姿态 / 局面 / 身份 / 身分 / 部位 /
patha	पथ	tī qiú	一口气 / 一口氣 / 世 / 人命 / 人生 / 呼吸 / 命 / 壽命 / 性命 / 息 / 氣息 / 生 / 生命 / 生平 / 生活 / 生物 / 身 / 鼻息 / 鼻息 /	आयतन
中 / 修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /	patha	खिड़डा	बोन्दि	āyatana
中 / 修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /	中 / 修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /	khidḍā	bondi	位 / 位置 / 區域 / 地位 / 地位 / 局面 / 球 / 界 / 身份 / 身分 / 部位 /
पन्थ	पन्थ	奏 / 娛樂 / 嬉 / 戏 / 戲 / 打球 / 扮 / 抹 / 游戏 / 演 / 玩 / 玩兒 / 玩弄 / 玩耍 / 耍 / 踢球 /	体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /	ठान
pantha	pantha	跳	身上	ṭhāna
修路 / 办法 / 径 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /	修路 / 办法 / 径 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /	tī	shēn shàng	任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到任 / 到任 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 靡 /
मग्ग	मग्ग	खुर	करजकाय	引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 默 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 處 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
magga	magga	khura	karajakāya	पद
修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /	修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /	剃刀 / 蹄 /	体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /	pada
跳	跳	蹇	काय	一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到任 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 靡 /
tiào	tiào	jiǎn	kāya	引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 腳 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 郵件 / 郵政 / 部位 /
पक्खन्दन	पक्खन्दन	कसिर	गल्ल	पदेस
pakkhandana	pakkhandana	kasira	gatta	padesa
		困难 / 困難 / 悲慘 / 蹇 / 難度 / 麻煩 /	体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /	交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到任 / 區域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 斑 / 斑點 / 身份 / 部位 /
		किच्छ	देह	
		kickcha	deha	
		吃力 / 困难 / 困難 / 屯 / 為難 / 痛苦 / 痛苦的 / 艰 / 艱難 / 蹇 / 难 / 難 / 難以 / 難度 /	体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /	
		蹉	बोन्दि	
		cuō	bondi	
		दोस	体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /	
		dosa	देह	
		忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 愆 / 愆 / 愤怒 / 憤怒 / 毛病 / 瑕 / 膏 / 破綻 / 缺点 / 缺陷 / 缺點 / 腐敗 / 責備 / 蹉 / 過失 /	deha	
			体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /	
			बोन्दि	
			bondi	
			体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /	

身体
shēn tǐ
करजकाय
karajakāya
体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
कलेबर
kalebara
体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
काय
kāya
体 / 堆 / 積 / 聚集 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
गल्ल
gatta
体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
देह
deha
体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
बोन्दि
bondi
体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /

身分
shēn fēn
अवट्टान
avatṭhāna
位 / 位置 / 地位 / 地位 / 姿 / 姿勢 / 姿态 / 局面 / 身份 / 身分 / 部位 /
आयतन
āyatana
位 / 位置 / 區域 / 地位 / 地位 / 局面 / 球 / 界 / 身份 / 身分 / 部位 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廩 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /

身子
shēn zǐ
करजकाय
karajakāya
体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
कलेबर
kalebara
体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
काय
kāya
体 / 堆 / 積 / 聚集 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
गल्ल
gatta
体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
देह
deha
体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
बोन्दि
bondi
体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /

身體
shēn tǐ
करजकाय
karajakāya
体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
कलेबर
kalebara
体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
काय
kāya
体 / 堆 / 積 / 聚集 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
गल्ल
gatta
体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
देह
deha
体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
बोन्दि
bondi
体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /

身高
shēn gāo
आरोह
āroha
個兒 / 海拔 / 身高 / 騎士 / 高低 / 高度 /
उब्बेध
ubbedha
個兒 / 海拔 / 海拔高度 / 直立 / 身高 / 高低 / 高度 /

躬
gōng
इस्सास
issāsa
射手 / 弓 / 船首 / 躬 / 鞠躬 /
कोण
koṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /
चाप
cāpa
弓 / 船首 / 躬 / 鞠躬 /
धनु
dhanu
弓 / 船首 / 躬 / 鞠躬 /

躺
tǎng
अलिक
alika
假話 / 撒謊 / 誑 / 說謊 / 謊 / 謊言 / 謊話 / 说谎 / 谎 / 躺 /

躺下
tǎng xià
निपज्जन
nipajjana
車門
chē mén
द्वार
dvāra
入口 / 大門 / 大門 / 車門 / 門 / 門口 / 門 / 高考 /

車頭
chē tóu
अभिमुख
abhimukha
前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 向 / 正面 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 /
पमुख
pamukha
主要的 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 本金 / 正面 / 資本 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 首席 / 魁 /
मुख
mukha
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 蕘 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

軍人
jūn rén
बलदु
balattha
兵 / 兵 / 兵家 / 兵家 / 卒 / 卒 / 士兵 / 士兵 / 小兵 / 小兵 / 軍人 / 軍人 /
बलदु
balatṭha
兵 / 兵 / 兵家 / 兵家 / 卒 / 卒 / 士兵 / 士兵 / 小兵 / 小兵 / 軍人 / 軍人 /
बलत्थ
balattha
兵 / 兵家 / 卒 / 士兵 / 小兵 / 軍人 /
भट
bhaṭa
兵 / 兵家 / 卒 / 士兵 / 小兵 / 步兵 / 警察 / 軍人 /

軍隊
jūn duì
अनीक
anīka
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /
चमू
camū
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /
धजिनी
dhajinī
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /
बल
bala
军 / 军队 / 幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 勢力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /
बलकाय
balakāya
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /

軟弱
ruǎn ruò
अबल
abala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /
दुब्बल
dubbala
孱 / 弱 / 弱的 / 微弱 / 微弱的 / 昏 / 昏倒 / 昏倒 / 暈倒 / 柔弱 / 薄弱 / 薄弱 / 虛弱 / 衰 / 衰弱 / 軟弱 /

輕
qīng
अवभास
avabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 出現 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
आभा
ābhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
आलोक
āloka
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 着火 / 着火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
दित्ति
ditti
亮光 / 光 / 光亮 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
निभा
nibhā
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पज्जोत
pajjota
亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पदीप
padīpa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पभा
pabhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
पभास
pabhāsa
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
भा
bhā
亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /
भानु
bhānu
亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /

輕便
qīng biàn

अवभास
avabhāsa
 <div>亮光 / 光 / 光線 / 出現 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /</div>
आभा
abhā
 <div>亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /</div>
आलोक
āloka
 <div>亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /</div>
जोति
joti
 <div>五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 着火 / 着火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /</div>
दित्ति
ditti
 <div>亮光 / 光 / 光亮 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /</div>
निभा
nibhā
 <div>亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /</div>
पज्जोत
pajjota
 <div>亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /</div>
पदीप
padīpa
 <div>亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /</div>
पभास
pabhāsa
 <div>亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /</div>
भा
bhā
 <div>亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /</div>
भानु
bhānu
 <div>亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /</div>

輕視
qīng shì

अतिमञ्जना
atimaññana
 <div>傲慢 / 晒 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /</div>
अवजानन
avajānana
 <div>晒 / 蔑視 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /</div>
अवञ्जा
avaññā
 <div>晒 / 失禮 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /</div>
अवमञ्जना
avamaññana
 <div>不敬 / 晒 / 忽視 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /</div>

輪子
lún zi

चक्क
cakka
 <div>令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 轮子 / 轆 / 轆 / 騎車 /</div>

轉
zhuǎn

आवत्तन
āvattana

轉動
zhuǎn dòng

परियाय
pariyāya
 <div>令 / 序 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 轉動 / 順序 / 順序 /</div>

轉變
zhuǎn biàn

परिणाम
pariṇāma
 <div>发展 / 变 / 变化 / 变更 / 开发 / 成熟 / 改 / 改變 / 更改 / 消化 / 變 / 變動 / 變化 / 變更 / 轉變 / 转变 /</div>

軌
guǐ

अञ्जस
añjasa
 <div>修路 / 小道 / 徑 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 軌 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /</div>
पज्ज
pajja
 <div>修路 / 徑 / 徑 / 詩 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 軌 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /</div>
पथ
patha
 <div>中 / 修路 / 办法 / 徑 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路线 / 路途 / 軌 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /</div>
पन्थ
pantha
 <div>修路 / 办法 / 徑 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 軌 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /</div>
मग्ग
magga
 <div>修路 / 办法 / 徑 / 徑 / 方法 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 軌 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /</div>

輪子
lún zi

चक्क
cakka
 <div>令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 轮子 / 轆 / 轆 / 騎車 /</div>

軟片
ruǎn piàn

पटल
paṭala
 <div>信封 / 封套 / 封袋 / 影片 / 片子 / 电影 / 膜 / 膠片 / 蓋子 / 薄膜 / 軟片 /</div>

轆
gū

चक्क
cakka
 <div>令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 轮子 / 轆 / 轆 / 騎車 /</div>
चक्क
cakka

令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 轮子 / 轆 / 轆 / 騎車 /
令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 轮子 / 轆 / 轆 / 騎車 /
पज्ज
pajja
 <div>修路 / 徑 / 徑 / 詩 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 軌 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /</div>
पथ
patha
 <div>中 / 修路 / 办法 / 徑 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路线 / 路途 / 軌 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /</div>
पन्थ
pantha
 <div>修路 / 办法 / 徑 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 軌 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /</div>
मग्ग
magga
 <div>修路 / 办法 / 徑 / 徑 / 方法 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 軌 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /</div>

转变
zhuǎn biàn

परिणाम
pariṇāma
 <div>发展 / 变 / 变化 / 变更 / 开发 / 成熟 / 改 / 改變 / 更改 / 消化 / 變 / 變動 / 變化 / 變更 / 轉變 / 转变 /</div>

转角
zhuǎn jiǎo

कण्ण
kaṇṇa
 <div>外耳 / 楞 / 耳 / 耳朵 / 耳朵 / 街角 / 角 / 角度 / 角落 / 转角 / 陬 / 隅 /</div>
कोण
koṇa
 <div>下場 / 告終 / 完結 / 完结 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 结束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /</div>

輪子
lún zi

चक्क
cakka
 <div>令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 轮子 / 轆 / 轆 / 騎車 /</div>

軟片
ruǎn piàn

पटल
paṭala
 <div>信封 / 封套 / 封袋 / 影片 / 片子 / 电影 / 膜 / 膠片 / 蓋子 / 薄膜 / 軟片 /</div>

轆
gū

चक्क
cakka
 <div>令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 轮子 / 轆 / 轆 / 騎車 /</div>
चक्क
cakka

令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 轮子 / 轆 / 轆 / 騎車 /
令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 轮子 / 轆 / 轆 / 騎車 /

轻
qīng

अवभास
avabhāsa
 <div>亮光 / 光 / 光線 / 出現 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /</div>
आभा
ābhā
 <div>亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /</div>
आलोक
āloka
 <div>亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /</div>
जोति
joti
 <div>五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 着火 / 着火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /</div>
दित्ति
ditti
 <div>亮光 / 光 / 光亮 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /</div>

निभा
nibhā
 <div>亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /</div>
पज्जोत
pajjota
 <div>亮光 / 光 / 光彩 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /</div>
पदीप
padīpa
 <div>亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /</div>
पभास
pabhāsa
 <div>亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /</div>

भा
bhā
 <div>亮光 / 光 / 光線 / 對光 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 /</div>
भानु
bhānu
 <div>亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /</div>

轻蔑
qīng miè
अतिमञ्जना
atimaññanā
傲慢 / 晒 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /
अवजानन
avajānana
晒 / 蔑視 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /
अवञ्जा
avaññā
晒 / 失禮 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /
अवमञ्जना
avamaññanā
不敬 / 晒 / 忽視 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /

轻视
qīng shì
अतिमञ्जना
atimaññanā
傲慢 / 晒 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /
अवजानन
avajānana
晒 / 蔑視 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /
अवञ्जा
avaññā
晒 / 失禮 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /
अवमञ्जना
avamaññanā
不敬 / 晒 / 忽視 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /

辅音
fū yīn
ब्यञ्जन
byañjana
子音 / 辅音 / 音节 /

羣
bèi
पजा
pajā
一代 / 世 / 世代 / 代 / 代人 / 子孫 / 孳 / 生成 / 羣 /

辉
huī
तपन
tapana
光亮 / 光明 / 出色 / 快活 / 明亮 / 辉 /

辵义
zhé chā
भक
bheka
蛙 / 蛤 / 蛤蟆 / 蟾蜍 / 辵义 / 青蛙 /
किब्बि
kibbisa
犯案 / 犯罪 / 犯罪率 / 罪行 / 罪過 / 辜 /

辛
xīn
ककखळ
kakkhaḷa
伧 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 苛刻 / 草 / 辛 / 辛苦 /
कठिन
kaṭhina
伧 / 使勁 / 僵 / 僵硬 / 僵硬的 / 生硬 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /
खर
khara
伧 / 使勁 / 固 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 痛苦的 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / 銳 / 銳利 / 銳 /
थद्द
thaddha
使勁 / 僵 / 僵硬 / 強硬 / 強硬 / 強硬的 / 生硬 / 硬 / 硬朗 / 硬殼 / 硬的 / 艱苦 / 辛 / 辛苦 / 難纏 / 韌 /
निदुर
niṭṭhura
粗 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /

辛苦
xīn kǔ
ककखळ
kakkhaḷa
伧 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 苛刻 / 草 / 辛 / 辛苦 /
कठिन
kaṭhina
伧 / 使勁 / 僵 / 僵硬 / 僵硬的 / 生硬 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /
खर
khara
伧 / 使勁 / 固 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 痛苦的 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / 銳 / 銳利 / 銳 /
थद्द
thaddha
使勁 / 僵 / 僵硬 / 強硬 / 強硬 / 強硬的 / 生硬 / 硬 / 硬朗 / 硬殼 / 硬的 / 艱苦 / 辛 / 辛苦 / 難纏 / 韌 /
निदुर
niṭṭhura
伧 / 使勁 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 /

辜
gū
अपराध
aparādha
犯案 / 犯罪 / 犯罪率 / 罪行 / 罪過 / 辜 /
किब्बि
kibbisa
犯案 / 犯罪 / 犯罪率 / 罪行 / 罪過 / 辜 /

辣
là
उण्ह
uṇha
加热 / 惹火 / 暑 / 火爆 / 火辣 / 烫 / 热 / 热气 / 热的 / 熱 / 熱氣 / 燙 / 辣 /

辦事
bàn shì
कम्म
kamma
事 / 作用 / 做事 / 券 / 動作 / 勞工 / 在職 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 業 / 活兒 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 行動 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /
कम्मन्त
kammanta
事 / 事情 / 做事 / 務 / 在職 / 工 / 工作 / 工匠 / 工夫 / 工夫 / 职业 / 職業 / 著作 / 著作 / 起作用 / 辦事 /
किच्च
kipca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

辦公
bàn gōng
अधिकार
adhikāra
任 / 任職 / 办事处 / 办公室 / 厅 / 处 / 处 / 廡 / 管理 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 辦公 / 辦公室 /
ठान
thāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 歎 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
धुर
dhura
任 / 任職 / 前部 / 处 / 处 / 接近的 / 最初的 / 最前部 / 职 / 職 / 處 / 費用 / 辦公 / 辦公室 /

辱
rǔ
अक्कोस
akkosa
侮 / 侮辱 / 污辱 / 責備 / 辱 /
अयस
ayasa
恥辱 / 耻 / 辱 /
आसज्जन
āsajjana
侮 / 侮辱 / 污辱 / 辱 /
उपवाद
upavāda
侮 / 侮辱 / 咎 / 怨 / 挑剔 / 歸咎 / 污辱 / 罪 / 責備 / 責怪 / 辱 /
ओमसना
omasanā
侮 / 侮辱 / 污辱 / 責備 / 辱 /
घट्टन
ghaṭṭana
侮 / 侮辱 / 污辱 / 辱 /
तिरोक्कार
tirokkāra
侮 / 侮辱 / 污辱 / 辱 /

辦公室
bàn gōng shì
अधिकार
adhikāra
任 / 任職 / 办事处 / 办公室 / 厅 / 处 / 处 / 廡 / 管理 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 辦公 / 辦公室 /
ठान
thāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 歎 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
धुर
dhura
任 / 任職 / 前部 / 处 / 处 / 接近的 / 最初的 / 最前部 / 职 / 職 / 處 / 費用 / 辦公 / 辦公室 /

辦法
bàn fǎ
पथ
patha
中 / 修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /
पन्थ
pantha
修路 / 办法 / 径 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
मग्ग
magga
修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /

辱
rǔ
अक्कोस
akkosa
侮 / 侮辱 / 污辱 / 責備 / 辱 /
अयस
ayasa
恥辱 / 耻 / 辱 /
आसज्जन
āsajjana
侮 / 侮辱 / 污辱 / 辱 /
उपवाद
upavāda
侮 / 侮辱 / 咎 / 怨 / 挑剔 / 歸咎 / 污辱 / 罪 / 責備 / 責怪 / 辱 /
ओमसना
omasanā
侮 / 侮辱 / 污辱 / 責備 / 辱 /
घट्टन
ghaṭṭana
侮 / 侮辱 / 污辱 / 辱 /
तिरोक्कार
tirokkāra
侮 / 侮辱 / 污辱 / 辱 /

農夫
nóng fu
कस्सक
kassaka
佃 / 农夫 / 农民 / 耕者 / 農夫 / 農民 /

農民
nóng mín
कस्सक
kassaka
佃 / 农夫 / 农民 / 耕者 / 農夫 / 農民 /

边
biān
पक्ख
pakkha
一方 / 側 / 信徒 / 側 / 党 / 半邊 / 幫派 / 旁边 / 旁邊 / 派 / 派對 / 派系 / 當事人 / 羽翼 / 翅 / 翅膀 / 翼 / 跛子 / 边 / 黨 /
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 涓 / 眇 / 眇 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 结束 / 缘 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
पस्स
passa
側 / 側 / 半邊 / 旁边 / 旁邊 / 边 /

边境
biān jìng
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 涓 / 眇 / 眇 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 结束 / 缘 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

边沿
biān yán
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 涓 / 眇 / 眇 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 结束 / 缘 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

边缘
biān yuán
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 涓 / 眇 / 眇 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 结束 / 缘 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

这儿
zhè r
अत्र
atra
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
अत्र
atra
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
इध
idha
在座 / 在這裡 / 此世 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
इध
idha
在座 / 在這裡 / 此世 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
इह
iha
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
इह
iha
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
एत्तो
etto
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
एत्तो
etto
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
एत्थ
ettha
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
एत्थ
ettha
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /

这样
zhè yàng
इत्थं
ittham
因此 / 因而 / 如此 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 /
इत्थं
ittham
因此 / 因而 / 如此 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 /
इति
iti
因此 / 因而 / 如此 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 /
इति
iti
因此 / 因而 / 如此 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 /
एवं
evam
唯 / 因此 / 因而 / 如此 / 是 / 是的 / 沒錯 / 没错 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 /
एवं
evam
唯 / 因此 / 因而 / 如此 / 是 / 是的 / 沒錯 / 没错 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 /
एवरूप
evarūpa
其 / 如此 / 这样 /
तथा
tathā
以致 / 因此 / 因而 / 如此 / 所以 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 / 這麼 /
तथा
tathā
以致 / 因此 / 因而 / 如此 / 所以 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 / 這麼 /
तादिस
tādisa
其 / 如此 / 这样 /
तादिसक
tādisaka
其 / 如此 / 这样 /

这里
zhè lǐ
अत्र
atra
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
अत्र
atra
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
इध
idha
在座 / 在這裡 / 此世 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
इध
idha
在座 / 在這裡 / 此世 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
इह
iha
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
इह
iha
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
एत्तो
etto
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
एत्तो
etto
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
एत्थ
ettha
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
एत्थ
ettha
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
इन्ध
jñ
进展
jìn zhǎn
अभ्युद्गान
abbhuttāna
起床 / 进展 / 进步 / 進展 / 進步 /
进步
jìn bù
अभ्युद्गान
abbhuttāna
起床 / 进展 / 进步 / 進展 / 進步 /

迟缓
chí huǎn
जळ
jala
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
दन्ध
dandha
傻 / 傻事 / 呆 / 愚 / 愚笨 / 愚蠢 / 愚蠢的 / 慢 / 慢慢地 / 慢的 / 懵 / 痴 / 笨 / 笨的 / 緩慢 / 蠢 / 蠢笨 / 迟缓 /
迴
jiōng
दूर
dūra
距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迴 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /
迪
dí
उजु
uju
伸直 / 垂直的 / 正 / 正直 / 率直 / 率直 / 直 / 直接 / 直的 / 直行 / 直通 / 迪 /
迫害
pò hài
परिताप
paritāpa
迫近
pò jìn
उपक्कमन
upakkamana
接近 / 攻擊 / 近似 / 近似 / 迫近 / 途徑 / 進場 / 逼近 /
迴
huí
पच्चागमन
paccāgamana
交還 / 回 / 回來 / 回去 / 回歸 / 归 / 歸 / 歸來 / 歸還 / 返 / 返回 / 返航 / 迴 / 退回 / 退还 / 送回 / 重回 / 重返 /
迷亂
mí luàn
अन्धकार
andhakāra
困惑 / 迷亂 / 黑 / 黑暗 /
迷人的
mí rén de
कल्याण
kalyāṇa
仁慈 / 德行 / 福利 / 福祉 / 美德 / 迷人的 /
जञ्ज
jañña

迷糊
mí hu
आकुल
ākula
困惑 / 困惑的 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 纷 / 迷糊 / 迷茫 /
मड्कु
maṅku
困惑 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 纷 / 迷糊 / 迷茫 /
迷茫
mí máng
आकुल
ākula
困惑 / 困惑的 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 纷 / 迷糊 / 迷茫 /
मड्कु
maṅku
困惑 / 弄得 / 弄混 / 慌 / 憤 / 汨 / 汨 / 纷 / 迷糊 / 迷茫 /
迹象
jī xiàng
निमित्त
nimitta
兆 / 兆头 / 先兆 / 前兆 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 徵兆 / 情理 / 故 / 标记 / 理 / 理由 / 由 / 緣故 / 迹象 / 道理 / 預兆 /
追
zhuī
अनुबन्धन
anubandhana
跟隨 / 追 / 連接 /
追击
zhuī jī
आसेवना
āsevanā
猛打 / 練習 / 追击 / 追求 /
追尋
zhuī xún
अन्वेसना
anvesanā
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 調查 / 追尋 /
गवेसन
gavesana
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /
परियेसना
pariyesanā
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /
मगगन
maggana
寻 / 尋 / 尋找 / 尋求 / 搜 / 搜尋 / 搜查 / 搜索 / 搜身 / 查 / 查閱 / 索 / 追尋 /

连
lián
अपि
api
与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 即使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /

追忆
zhuī yì
अनुस्सति
anussati
回忆 / 回憶 / 記性 / 記憶 / 記憶力 / 记忆 / 追忆 / 追思 /
अनुस्सरण
anussaraṇa
回忆 / 回想 / 記性 / 記憶 / 記憶力 / 记忆 / 追忆 / 追思 /

追思
zhuī sī
अनुस्सति
anussati
回忆 / 回憶 / 記性 / 記憶 / 記憶力 / 记忆 / 追忆 / 追思 /
अनुस्सरण
anussaraṇa
回忆 / 回想 / 記性 / 記憶 / 記憶力 / 记忆 / 追忆 / 追思 /

追求
zhuī qiú
आसेवना
āsevanā
猛打 / 練習 / 追击 / 追求 /
एसन्त
esanta
एसमान
esamāna

追逐
zhuī zhú
गमन
gamana
去 / 導致 / 征程 / 征途 / 散步 / 旅游 / 旅游 / 旅程 / 旅程 / 旅行 / 旅行 / 旅途 / 程 / 追逐 /

追隨者
zhuī suí zhě
अनुगामिक
anugāmika
信徒 / 追隨者 /
अनुगामी
anugāmī
信徒 / 追隨者 /
निस्सितक
nissitaka
信徒 / 追隨者 /

退休
tuì xiū
पटिसल्लान
paṭisaḷlāna

退后
tuì hòu
पिट्ठ
piṭṭha
后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 表面 / 走回 / 退后 / 面 / 麵 /
पिट्ठि
piṭṭhi
上端 / 后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 尖峰 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 走回 / 退后 / 頂端 / 顶端 /

退回
tuì huí
पच्चागमन
paccāgamana
交還 / 回 / 回來 / 回去 / 回歸 / 归 / 歸 / 歸來 / 歸還 / 返 / 返回 / 返航 / 迴 / 退回 / 退还 / 送回 / 重回 / 重返 /

退还
tuì hái
पच्चागमन
paccāgamana
交還 / 回 / 回來 / 回去 / 回歸 / 归 / 歸 / 歸來 / 歸還 / 返 / 返回 / 返航 / 迴 / 退回 / 退还 / 送回 / 重回 / 重返 /

送回
sòng huí
पच्चागमन
paccāgamana
交還 / 回 / 回來 / 回去 / 回歸 / 归 / 歸 / 歸來 / 歸還 / 返 / 返回 / 返航 / 迴 / 退回 / 退还 / 送回 / 重回 / 重返 /

逃脫
táo tuō
निस्सरण
nissaraṇa
外出 / 逃脫 / 離開 /

逆
nì
पटि
pati
相反 / 相反 / 逆 / 逆 /
पटि
paṭi
相反 / 相反 / 逆 / 逆 /
पति
pati
丈夫 / 丈夫 / 主 / 主人 / 伉 / 回 / 外子 / 大師 / 夫 / 夫 / 好手 / 孀 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 相反 / 統治者 / 老公 / 老爺 / 逆 / 領主 /

逐出
zhú chū
नासन
nāsana
殺害 / 破壞 / 逐出 /
निककड्ढन
nikkaḍḍhana
पटिविनोदन
paṭivinoḍana
बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /
逐退的
zhú tuì de
पटिबाहक
paṭibāhaka

途
tú
अञ्जस
añjasa
修路 / 小道 / 徑 / 徑 / 路 / 路上 / 路徑 / 路線 / 路途 / 軌 / 軌道 / 途 / 途徑 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
पज्ज

पज्जा
pajja
修路 / 徑 / 徑 / 詩 / 路 / 路上 / 路徑 / 路線 / 路途 / 軌 / 軌道 / 途 / 途徑 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
पथ
patha
中 / 修路 / 办法 / 徑 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路徑 / 路線 / 路线 / 路途 / 軌 / 軌道 / 辦法 / 途 / 途徑 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /
पन्थ

pantha
pantha
修路 / 办法 / 徑 / 徑 / 路 / 路上 / 路徑 / 路線 / 路途 / 軌 / 軌道 / 辦法 / 途 / 途徑 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
मग्ग
magga
修路 / 办法 / 徑 / 徑 / 方法 / 路 / 路上 / 路徑 / 路線 / 路途 / 軌 / 軌道 / 軌道 / 辦法 / 途 / 途徑 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /

途徑
tú jīng
अञ्जस
añjasa
修路 / 小道 / 徑 / 徑 / 路 / 路上 / 路徑 / 路線 / 路途 / 軌 / 軌道 / 途 / 途徑 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
पज्ज
pajja
修路 / 徑 / 徑 / 詩 / 路 / 路上 / 路徑 / 路線 / 路途 / 軌 / 軌道 / 途 / 途徑 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
पथ
patha
中 / 修路 / 办法 / 徑 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路徑 / 路線 / 路线 / 路途 / 軌 / 軌道 / 軌道 / 辦法 / 途 / 途徑 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /
पन्थ
pantha
修路 / 办法 / 徑 / 徑 / 路 / 路上 / 路徑 / 路線 / 路途 / 軌 / 軌道 / 辦法 / 途 / 途徑 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
मग्ग
magga
修路 / 办法 / 徑 / 徑 / 方法 / 路 / 路上 / 路徑 / 路線 / 路途 / 軌 / 軌道 / 軌道 / 辦法 / 途 / 途徑 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /

途徑
tú jīng
उपक्कमन
upakkamana
接近 / 攻擊 / 近似 / 近似 / 迫近 / 途徑 / 進場 / 逼近 /

遯
tì
दूर
dūra
距 / 距離 / 距離 / 路程 / 迴 / 遯 / 遯 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遙远 / 遙远的 /

逗留
dòu liú
ठान
thāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到到 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 靡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 獸 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /

這
zhè
एत
eta
其 / 彼 / 該 / 该 / 这个 / 这个 / 這 / 那 / 那 / 那个 / 那個 / 那天 /

這兒
zhè r
अत्र
atra
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
इध
idha
在座 / 在這裡 / 此世 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
इह
iha
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
एत्तो
etto
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
एत्थ
ettha
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /

這時
zhè shí
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

अथो
atho
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

這樣
zhè yàng
इत्थं
ittham
因此 / 因而 / 如此 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 /
एवं
evaṃ
唯 / 因此 / 因而 / 如此 / 是 / 是的 / 沒錯 / 没错 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 /
तथा
tatha
以致 / 因此 / 因而 / 如此 / 所以 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 / 這麼 /

這裡
zhè li
अत्र
atra
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
इध
idha
在座 / 在這裡 / 此世 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
इह
iha
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
एत्तो
etto
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /
एत्थ
ettha
在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /

這邊
zhè biān
अत्र
atra
 <div>在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /</div>
इध
idha
 <div>在座 / 在這裡 / 此世 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /</div>
इह
iha
 <div>在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /</div>
एत्तो
etto
 <div>在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /</div>
एत्थ
ettha
 <div>在座 / 在這裡 / 这儿 / 这儿 / 这里 / 这里 / 這兒 / 這裡 / 這邊 /</div>

這麼
zhè me
तथा
tathā
 <div>以致 / 因此 / 因而 / 如此 / 所以 / 然 / 由此 / 这样 / 这样 / 這樣 / 這麼 /</div>

通告
tōng gào
जापन
ñāpana
 <div>公告 / 告示 / 通告 / 通知 /</div>
通常
tōng cháng
पायेन
pāyena
 <div>主要地 / 通常 /</div>

通知
tōng zhī
जापन
ñāpana
 <div>公告 / 告示 / 通告 / 通知 /</div>

通知者
tōng zhī zhě
ओचरक
ocaraka

通路
tōng lù
अञ्जस
añjasa
 <div>修路 / 小道 / 径 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /</div>
ओतार
otāra
 <div>存取 / 機會 / 通路 / 過失 / 降落 /</div>
पज्ज
pajja
 <div>修路 / 径 / 徑 / 詩 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /</div>
पथ
patha
 <div>中 / 修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /</div>
पन्थ
pantha
 <div>修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /</div>

通过
tōng guò
पाठ
pāṭha
 <div>通过 / 通道 /</div>

通通
tōng tōng
अनून
anūna
 <div>全部 / 完全 / 完全的 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 通通 /</div>
अनूनक
anūnaka
 <div>全部 / 完全 / 完全的 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 通通 /</div>
अनवसेस
anavasesa
 <div>全部 / 完 / 完全 / 完全地 / 完善 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成 / 成套 / 整 / 毕 / 畢 / 竣 / 通通 /</div>
असेस
asesa
 <div>一切 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 完全地 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /</div>

केवल
kevala
 <div>仅仅 / 全部 / 全部的 / 只有 / 唯 / 唯一 / 囫 / 孤 / 完全 / 总体 / 惟 / 整 / 整个 / 整個 / 整数 / 整整 / 絕對 / 绝对 / 通通 / 鞋底 /</div>

कसिण
kaṣiṇa
 <div>全部 / 全部的 / 囫 / 完全 / 总体 / 整 / 整个 / 整個 / 整数 / 整整 / 通通 /</div>
निखिल
nikhila
 <div>一切 / 一切的 / 万物 / 俱 / 全 / 全部 / 全部的 / 全都 / 全體 / 凡 / 凡是 / 各 / 囫 / 均 / 大家 / 完全 / 总体 / 所有 / 所有的 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 每一 / 皆 / 統統 / 胥 / 芸芸 / 萬物 / 通通 /</div>

निस्सेस
nissesa
 <div>一切 / 全部 / 全部的 / 全體 / 凡 / 凡是 / 囫 / 均 / 完全 / 完全地 / 所有 / 整 / 整个 / 整個 / 整天 / 整数 / 整整 / 每 / 皆 / 胥 / 芸芸 / 通通 /</div>

पुण्ण
puṇṇa
 <div>充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /</div>
परिपूर
paripūra
 <div>充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /</div>

通道
tōng dào
पनाळिका
panāḷikā
 <div>煙斗 / 管 / 管子 / 管用 / 通道 /</div>
पाठ
pāṭha
 <div>通过 / 通道 /</div>

速
sù
खिप्प
khippa
 <div>徇 / 很快地 / 快 / 快的 / 快速 / 速 /</div>
जव
java
 <div>力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 势力 / 实力 / 快慢 / 速 / 速力 / 速度 / 速率 / 飛車 /</div>
तुरित
turita
 <div>匆忙地 / 徇 / 很快地 / 快 / 快的 / 快速 / 快速的 / 斋 / 迅 / 迅速 / 迅速地 / 迅速的 / 速 / 遽 / 飞快 /</div>
थिर
thira
 <div>事務所 / 公司 / 固 / 坚 / 坚决 / 坚定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 快 / 恆久 / 持久 / 有耐久力 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 耐久的 / 迅 / 迅速 / 速 / 遽 /</div>

速力
sù lì
जव
java
 <div>力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 势力 / 实力 / 快慢 / 速 / 速力 / 速度 / 速率 / 飛車 /</div>

速度
sù dù
जव
java
 <div>力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 势力 / 实力 / 快慢 / 速 / 速力 / 速度 / 速率 / 飛車 /</div>

速率
sù lǜ
जव
java
 <div>力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 势力 / 实力 / 快慢 / 速 / 速力 / 速度 / 速率 / 飛車 /</div>

造反的
zào fǎn de
अप्पतिस्स
appatissa

造物主
zào wù zhǔ
इस्सर
issara
 <div>主 / 主人 / 创造者 / 大師 / 好手 / 师傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 統治者 / 老爺 / 造物主 / 領主 /</div>
कमलासन
kamalāsana
 <div>创造者 / 造物主 /</div>
ब्रह्म
brahma
 <div>创造者 / 梵 / 造物主 /</div>

連
lián
अपि
api
 <div>与 / 且 / 並 / 並且 / 以及 / 但是 / 併 / 偶 / 兼 / 又 / 及 / 及其 / 可是 / 和 / 并 / 并且 / 即使 / 暨 / 此外 / 甚至 / 甚至 / 而 / 而且 / 與 / 连 / 連 /</div>

連接
lián jiē
अनुबन्धन
anubandhana
 <div>跟隨 / 追 / 連接 /</div>
आबन्धक
ābandhaka
उपयोग
upayoga
 <div>受雇 / 應用 / 申請 / 申請書 / 連接 / 雇用 /</div>

連續
lián xù
अनुपुब्ब
anupubba

連鎖
lián suǒ
अन्दु
andu
 <div>桎梏 / 連鎖 / 鍊 / 鎖鏈 / 鏈 / 鏈子 / 鏈 /</div>
अन्दुक
anduka
 <div>桎梏 / 桎梏 / 連鎖 / 鍊 / 鎖鏈 / 鏈 / 鏈子 / 鏈 /</div>

進一步
jìn yī bù
उत्तरि
uttari
 <div>再作 / 另外 / 更 / 更远的 / 此外 / 而且 / 進一步 / 附加的 /</div>
उत्तरिं
uttariṃ
 <div>再作 / 另外 / 更 / 更远的 / 此外 / 而且 / 進一步 / 附加的 /</div>
परो
paro
 <div>上述 / 上面 / 以上 / 再作 / 前述 / 向上 / 在上面 / 更 / 更远的 / 此外 / 進一步 /</div>

進城
jìn chéng
नगर
nagara
 <div>城 / 城區 / 城堡 / 城市 / 城裡 / 城鎮 / 城鎮 / 小鎮 / 市 / 市府 / 市立 / 要塞 / 要塞 / 進城 / 都市 / 都會 / 鎮 / 鎮 /</div>

進場
jìn chǎng
उपक्कमन
upakkamana
 <div>接近 / 攻擊 / 近似 / 近似 / 迫近 / 途徑 / 進場 / 逼近 /</div>

進展
jìn zhǎn
अब्हुतान
abbhutāṅha
起床 / 进展 / 进步 / 進展 / 進步 / 進帳
進帳
jìn zhàng
बलि
bali
岁入 / 收入 / 收益 / 稅 / 稅 / 進帳 / 進步
進程
jìn chéng
कम
kama
一步 / 命令 / 序 / 措施 / 方式 / 方法 / 模式 / 步 / 步子 / 步驟 / 狀態 / 脚步 / 舉止 / 训令 / 進程 / 陔 / 順序 / 顺序 /

邏
luó
तक्क
takka
想 / 逻 / 逻辑 / 邏輯 /
逻辑
luó jí
तक्क
takka
想 / 逻 / 逻辑 / 邏輯 /
逼
bī
बल
bala
军 / 军队 / 幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 勢力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

逼近
bī jìn
उपक्कमन
upakkamana
接近 / 攻擊 / 近似 / 近似 / 迫近 / 途徑 / 進場 / 逼近 /

逼迫
bī pò
बल
bala
军 / 军队 / 幕 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 勢力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 幕 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /

遂
sui
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथो
atho
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 則 / 剛才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

運動
yùn dòng
इञ्जन
iñjana
動作 / 動議 / 動靜 / 手足 / 运动 / 運動 /
एजा
ejā
動議 / 渴望 / 渴求 / 运动 / 運動 /
कम्पन
kampana
發抖 / 運動 /
चलन
calana
激動 / 發抖 / 運動 /
चार
cāra
作用 / 動作 / 動議 / 去 / 推移 / 行动 / 行動 / 运动 / 運動 /
दव
dava
好玩 / 娱乐 / 運動 /
फन्दन
phandana
動議 / 激動 / 运动 / 運動 /

運氣
yùn qì
भग
bhaga
財富 / 财富 / 运气 / 運氣 /

運用
yùn yòng
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 谛 / 财富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /
अत्थवस
atthavasa
使用 / 利用 / 动机 / 原因 / 因 / 情理 / 故 / 施用 / 理 / 理性 / 理由 / 用 / 用法 / 用途 / 由 / 緣故 / 运用 / 運用 / 道理 /
अभिनिरोपन
abhiniropana
應用 / 施用 / 申請 / 申請書 / 運用 /
उपभोग
upabhoga
使用 / 利 / 利润 / 利潤 / 利用 / 可享受的 / 贏 / 收益 / 施用 / 潤 / 潤 / 獲利 / 用 / 用法 / 用途 / 盈利 / 获利 / 裨益 / 运用 / 運用 /
पयोजन
payojana
使用 / 利用 / 從事 / 施用 / 用 / 用法 / 用途 / 运用 / 運用 /
परिभोग
paribhoga
享受 / 使用 / 利用 / 愉快 / 施用 / 用 / 用法 / 用途 / 运用 / 運用 /

運輸
yùn shū
आवहन
āvahana
過世
guò shì
अच्चन्त
accanta
極端 / 永久 / 永久的 / 過世 / 非常 /
पेत
peta
人世 / 已故的 / 幽灵 / 幽靈 / 死 / 死了 / 死去 / 死寂 / 死的 / 過世 / 鬼 / 鬼魂 /

過去
guò qù
अतीत
atīta
往 / 往事 / 昔 / 昔 / 过去 / 過去 /
पुब्बे
pubbe
以往 / 從前 / 過去 /

過大
guò dà
अतिमहन्त
atimahanta
巨 / 巨大 / 巨大的 / 庞 / 庞大 / 庞大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 / 過大 / 鉅 / 龐 / 龐大 /

過失
guò shī
अज्जाचार
ajjācāra
अपाय
apāya
地獄 / 地獄 / 損失 / 損失 / 茫然 / 败 / 過失 /
ओतार
otāra
存取 / 機會 / 通路 / 過失 / 降落 /
खलित
khalita
छिद्द
chidda
孔 / 有洞的 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 穿孔的 / 窟窿 / 缺點 / 裂縫 / 過失 / 阱 /
दोस
dosa
忿怒 / 怒 / 怒火 / 佛 / 愆 / 愤 / 愤怒 / 憤怒 / 毛病 / 瑕 / 普 / 破綻 / 缺点 / 缺陷 / 缺點 / 腐敗 / 責備 / 蹉 / 過失 /
निग्गह
niggaha
咎 / 怨 / 歸咎 / 罪 / 責備 / 責怪 / 過失 /

過度
guò dù
अतिरेक
atireka
過度 / 非常 /
अधिमत्त
adhimatta
太多 / 過度 / 非常的 /
過程
guò chéng
अन्वय
anvaya
一致 / 传统 / 傳統 / 符合 / 過程 /
遐
xiá
दूर
dūra
距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /

遼
qiú
अगग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 遼 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 首 / 首先 /
अन्त
anta
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 遼 / 頂端 /
अपवग्ग
apavagga
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 遼 /

अवसान
avasāna
下場 / 停止 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 遼 /

कोटि
koṭi
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 點 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 遼 / 點 /

कोण
koṅa
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /

निट्टा
niṭṭhā
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 完美 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 终结 / 結束 / 遼 /

परिनिट्टान
pariniṭṭhāna
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 遼 /

परियन्त
pariyanta
 下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 極限 / 棧 / 極限 / 止境 / 瀾 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 終結 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियोसान
pariyosāna
 下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 定局 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 結論 / 終 / 終結 / 結束 / 道 /

道

दào

अञ्जस
añjasa
 修路 / 小道 / 徑 / 徑 / 路 / 路上 / 路徑 / 路線 / 路途 / 軌 / 軌道 / 途 / 途徑 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
पञ्ज
pajja
 修路 / 徑 / 徑 / 詩 / 路 / 路上 / 路徑 / 路線 / 路途 / 軌 / 軌道 / 途 / 途徑 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
पथ
patha
 中 / 修路 / 办法 / 徑 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 課程 / 路 / 路上 / 路徑 / 路線 / 路途 / 軌 / 軌道 / 途 / 途徑 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /
पन्थ
pantha
 修路 / 办法 / 徑 / 徑 / 路 / 路上 / 路徑 / 路線 / 路途 / 軌 / 軌道 / 途 / 途徑 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
मग्ग
magga
 修路 / 办法 / 徑 / 徑 / 方法 / 路 / 路上 / 路徑 / 路線 / 路途 / 軌 / 軌道 / 辦法 / 途 / 途徑 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /

道德

dào dé

धम्म
dhamma
 事實 / 品德 / 大自然 / 天性 / 德 / 德性 / 性情 / 性格 / 性質 / 性質 / 本性 / 本質 / 本质 / 法 / 自然 / 自然界 / 道德 /

道歉

dào qiàn

पच्चाहार
paccāhāra
 包涵 / 原諒 / 寬恕 / 歉 / 歉意 / 致歉 / 道歉 /

道理
dào lǐ

अत्थवस
atthavasa
 使用 / 利用 / 动机 / 原因 / 因 / 情理 / 故 / 施用 / 理 / 理性 / 理由 / 用 / 用法 / 用途 / 由 / 緣故 / 运用 / 運用 / 道理 /
अपदेस
apadesa
 动机 / 原因 / 因 / 声明 / 声明书 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 聲明 / 說法 / 说法 / 道理 / 陈述 / 陳述 /
कारण
kāraṇa
 动机 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 道理 /
ठान
ṭhāna
 任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地点 / 場所 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 狀 / 理 / 理性 / 理由 / 環境 / 由 / 留 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
निमित्त
nimitta
 兆 / 兆头 / 先兆 / 前兆 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 徵兆 / 情理 / 故 / 标记 / 理 / 理由 / 由 / 緣故 / 迹象 / 道理 / 預兆 /
पद
pada
 一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /

達
dá

पल्लु
pattum
 到達 / 抵 / 獲得 / 达 / 達 / 達到 /
達到
dá dào

पल्लु
pattum
 到達 / 抵 / 獲得 / 达 / 達 / 達到 /
पल्लि
patti
 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利潤 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到來 / 贏 / 抵达 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /

違反
wéi fǎn

उल्लङ्घन
ullaṅghana

पधंस
padhamṣa
 冒犯 / 違反 / 違規 /

違規

wéi guī

पधंस
padhamṣa
 冒犯 / 違反 / 違規 /

遠

yuǎn

दूर
dūra
 距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /

道路
dào lù

अञ्जस
añjasa
 修路 / 小道 / 徑 / 徑 / 路 / 路上 / 路徑 / 路線 / 路途 / 軌 / 軌道 / 途 / 途徑 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
पञ्ज
pajja
 修路 / 徑 / 徑 / 詩 / 路 / 路上 / 路徑 / 路線 / 路途 / 軌 / 軌道 / 途 / 途徑 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
पथ
patha
 中 / 修路 / 办法 / 徑 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 課程 / 路 / 路上 / 路徑 / 路線 / 路途 / 軌 / 軌道 / 途 / 途徑 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /
पन्थ
pantha
 修路 / 办法 / 徑 / 徑 / 路 / 路上 / 路徑 / 路線 / 路途 / 軌 / 軌道 / 辦法 / 途 / 途徑 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
मग्ग
magga
 修路 / 办法 / 徑 / 徑 / 方法 / 路 / 路上 / 路徑 / 路線 / 路途 / 軌 / 軌道 / 辦法 / 途 / 途徑 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /

遣
qiǎn

पहिणन
pahiṇana
 发送 / 派遣 / 特派 / 遣 /
遙远
yáo yuǎn

दूर
dūra
 距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /
遙远的
yáo yuǎn de

दूर
dūra
 距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /

遠方
yuǎn fāng

दूर
dūra
 距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /
遠處
yuǎn chù

दूर
dūra
 距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /
遠近
yuǎn jìn

दूर
dūra
 距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /
遠離
yuǎn lí

आरका
ārakā

आरा
āra

遠
yuǎn

दूर
dūra
 距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /

遠方
yuǎn fāng

दूर
dūra
 距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /
遠處
yuǎn chù

दूर
dūra
 距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /
遠近
yuǎn jìn

दूर
dūra
 距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /
遠離
yuǎn lí

आरका
ārakā

आरा
āra

遠
yuǎn

दूर
dūra
 距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /
遠處
yuǎn chù

दूर
dūra
 距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /
遠近
yuǎn jìn

दूर
dūra
 距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /
遠離
yuǎn lí

आरका
ārakā

आरा
āra

遣
qiǎn

पहिणन
pahiṇana
 发送 / 派遣 / 特派 / 遣 /
遙远
yáo yuǎn

दूर
dūra
 距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /
遙远的
yáo yuǎn de

दूर
dūra
 距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /

遠
yuǎn

दूर
dūra
 距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /

遠方
yuǎn fāng

दूर
dūra
 距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /
遠處
yuǎn chù

दूर
dūra
 距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /
遠近
yuǎn jìn

दूर
dūra
 距 / 距离 / 距離 / 路程 / 迥 / 遯 / 遐 / 遠 / 遠方 / 遠處 / 遠近 / 遥远 / 遥远的 /
遠離
yuǎn lí

आरका
ārakā

आरा
āra

遮
zhē

अपिधान
apidhāna
 包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 摺 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
छदन
chadana
 包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋頂 / 屋顶 / 幌子 / 房頂 / 摺 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

छदन
chādana
 服裝 / 服裝 / 蓋 / 衣服 / 衣物 / 遮 /
पच्चत्थरण
paccattharaṇa
 包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 床單 / 摺 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

पच्छाद
pacchāda
 包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 摺 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पापुरग
pāpuraṇa
 包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 摺 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 毛毯 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

पिधान
pidhāna
 包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 摺 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

पिधान
pidhāna
 包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 摺 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 蓋 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

遮住
zhē zhù

अपिधान
apidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
छदन
chadana
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋頂 / 屋顶 / 幌子 / 房頂 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पच्चत्थरण
paccattharaṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 床單 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पच्छाद
pacchāda
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पापुरण
pāpuraṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 毛毯 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पिधान
pidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

遮掩
zhē yǎn

अपिधान
apidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
छदन
chadana
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 屋頂 / 屋顶 / 幌子 / 房頂 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पच्चत्थरण
paccattharaṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 床單 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पच्छाद
pacchāda
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पापुरण
pāpuraṇa
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 毛毯 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /
पिधान
pidhāna
包含 / 包庇 / 包罗 / 套 / 套子 / 封皮 / 幌子 / 捂 / 掩 / 掩蓋 / 掩護 / 掩飾 / 盖 / 罩 / 蓋 / 蓋上 / 蓋子 / 蔽 / 覆 / 覆蓋 / 遮 / 遮住 / 遮掩 /

遵守
zūn shǒu

अभियुञ्जन
abhiyuñjana
審判 / 遵守 /
अभियोग
abhiyoga
पटिपज्जन
paṭipajjana
程式 / 練習 / 遵守 /
遺囑
yí zhǔ

छन्द
chanda
不妨 / 心願 / 必 / 意志 / 意願 / 愿望 / 慾 / 欲 / 祝 / 要 / 遺囑 /
遺憾
yí hàn

खेद
kheda
痛苦 / 遺憾 /

遽
jù

तुरित
turita
匆忙地 / 徇 / 很快地 / 快 / 快的 / 快速 / 快速的 / 齋 / 迅 / 迅速 / 迅速地 / 迅速的 / 速 / 遽 / 飛快 /
थिर
thira
事務所 / 公司 / 固 / 堅 / 堅決 / 堅定 / 堅 / 堅固 / 堅定 / 快 / 恆久 / 持久 / 有耐久力 / 牢 / 牢固 / 硬 / 磐 / 耐久的 / 迅 / 迅速 / 速 / 遽 /

避免
bì miǎn

परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威严 / 尊严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /
पहान
pahāna
切除 / 避免 /
避暑
bì shǔ

निदाघ
nidāgha
乾旱 / 夏 / 夏令 / 夏天 / 夏季 / 夏日 / 夏的 / 熱 / 避暑 /

避难所
bì nán suǒ

ताण
tāṇa
保护 / 保護 / 皈依 / 避難所 / 避難所 /
पट्टन
paṭṭana
口岸 / 埠 / 左舷的 / 港口 / 端口 / 避難所 /
避難所
bì nán suǒ

ताण
tāṇa
保护 / 保護 / 皈依 / 避難所 / 避難所 /
邀請
yāo qǐng

अज्झेसन
ajjhesanā
求 / 請求 / 请求 / 邀請 /
आमन्तन
āmantana
呼叫 / 稱呼 / 邀請 /
आराधना
ārādhanā
成就 / 邀請 /
निमन्तन
nimantana
पवारणा
pavāraṇā

邃
suì

अनुत्तान
anuttāna
冥 / 暗的 / 根深 / 模糊的 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窈 / 罩 / 邃 /
गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奧的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窈 / 罩 / 邃 / 邈 /
गाध
gādha
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深度 / 深沉 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窈 / 罩 / 邃 /

還不
hái bù

न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒绝 / 无 / 未 / 毋 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 没 / 没有 / 没有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /
還是
hái shì

आदु
ādu
不過 / 乃是 / 但 / 但是 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 惟 / 或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 然而 / 还是 / 還是 /
उद
uda
或 / 或是 / 或者 / 抑或 / 还是 / 還是 /
還沒

hái méi
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 剛才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 現在 / 現在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
पन
pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /

還沒有
hái méi yǒu

तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 剛才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 現在 / 現在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
पन
pana
不過 / 与 / 且 / 並 / 並且 / 乃是 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 以及 / 但 / 但是 / 併 / 依然 / 兼 / 却 / 卻 / 又 / 及 / 及其 / 只 / 只是 / 可是 / 和 / 尚 / 并 / 并且 / 惟 / 暨 / 然而 / 现在还是 / 而 / 而且 / 與 / 還沒 / 還沒有 / 那麼 /
邈

miào

गम्भीर
gambhīra
冥 / 根深 / 深 / 深切 / 深刻 / 深厚 / 深处 / 深奧的 / 深度 / 深沉 / 深海 / 深深 / 深的 / 深處 / 深邃 / 淵 / 湛 / 窈 / 罩 / 邃 / 邈 /

邊
biān

परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 極限 / 棧 / 極限 / 止境 / 滯 / 吟 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 結束 / 缘 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
邊境

biān jìng

परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 極限 / 棧 / 極限 / 止境 / 滯 / 吟 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 結束 / 缘 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

邊界
biān jiè
अवधि
avadhi
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 徼 / 极限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
ओधि
odhi
圻 / 垓 / 埏 / 局限 / 徼 / 极限 / 極限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिच्छेद
pariccheda
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 度量 / 徼 / 措施 / 极限 / 测 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 涓 / 眴 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 结束 / 缘 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 迨 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

邊緣
biān yuán
तिट्ति
titti
滿足 / 邊緣 /
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 涓 / 眴 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 结束 / 缘 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 迨 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

邏輯
luó jī
तक्क
takka
想 / 逻 / 逻辑 / 邏輯 /

那
nèi
एत
eta
其 / 彼 / 該 / 该 / 这个 / 这个 / 這 / 那 / 那 / 那个 / 那個 / 那天 /
एत
eta
其 / 彼 / 該 / 该 / 这个 / 这个 / 這 / 那 / 那 / 那个 / 那個 / 那天 /
कतम
katama
什么 / 何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 如何 / 孰 / 曷 / 那 / 那 /
कतम
katama
什么 / 何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 如何 / 孰 / 曷 / 那 / 那 /
कतर
katara
何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 孰 / 那 / 那 /
कतर
katara
何 / 哪 / 哪一 / 哪一个 / 哪一個 / 哪位 / 哪個 / 孰 / 那 / 那 /

那個
nèi gè
एत
eta
其 / 彼 / 該 / 该 / 这个 / 这个 / 這 / 那 / 那 / 那个 / 那個 / 那天 /

那個
nà gè
एत
eta
其 / 彼 / 該 / 该 / 这个 / 这个 / 這 / 那 / 那 / 那个 / 那個 / 那天 /

那兒
nà r
तत्थ
tattha
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तत्र
tatra
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तहं
tahaṃ
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तहिं
tahiṃ
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /

那天
nà tiān
एत
eta
其 / 彼 / 該 / 该 / 这个 / 这个 / 這 / 那 / 那 / 那个 / 那個 / 那天 /

那時
nà shí
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथो
atho
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
तावदे
tāvade
立即地 / 那時 /
तावदेव
tāvadeva
立即地 / 那時 /

那時候
nà shí hou
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथो
atho
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

那
nà
तत्थ
tattha
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तत्र
tatra
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तहं
tahaṃ
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तहिं
tahiṃ
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /

那裡
nà li
तत्थ
tattha
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तत्र
tatra
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तहं
tahaṃ
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तहिं
tahiṃ
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /

那里
nèi lǐ
तत्थ
tattha
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तत्र
tatra
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तहं
tahaṃ
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तहिं
tahiṃ
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /

那
nà
तत्थ
tattha
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तत्र
tatra
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तहं
tahaṃ
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तहिं
tahiṃ
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /

那
xié
कण्ह
kaṇha
烏 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 濫 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
邪惡
xié è
कण्ह
kaṇha
烏 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 濫 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /

那惡的
xié è de
कण्ह
kaṇha
烏 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 濫 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
邪惡的
xié è de
कण्ह
kaṇha
烏 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 濫 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
邪惡
xié è
कण्ह
kaṇha
烏 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 濫 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /

那麼
nà me
अथ
atha
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
अथो
atho
也 / 便 / 其次 / 则 / 則 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 接著 / 接著 / 於是 / 然后 / 然後 / 當年 / 當時 / 當時的 / 這時 / 遂 / 那時 / 那時候 / 那麼 /
तु
tu
不過 / 乃是 / 今 / 今朝 / 仍 / 仍然 / 仍舊 / 但 / 但是 / 依然 / 便 / 则 / 刚才 / 則 / 却 / 卻 / 只 / 只是 / 可是 / 在眼前 / 如今 / 尚 / 就 / 屆時 / 已 / 当年 / 当时 / 当时的 / 惟 / 接著 / 接著 / 於是 / 此刻 / 此時 / 然 / 然后 / 然後 / 然而 / 現 / 现在 / 现在还是 / 現在 / 當年 / 當時 / 當時的 / 眼下 / 眼前 / 究竟 / 立刻 / 而今 / 這時 / 遂 / 還沒 / 還沒有 / 那時 / 那時候 / 那麼 /

那
nà
तत्थ
tattha
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तत्र
tatra
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तहं
tahaṃ
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तहिं
tahiṃ
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /

那
nà
तत्थ
tattha
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तत्र
tatra
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तहं
tahaṃ
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /
तहिं
tahiṃ
存有 / 那兒 / 那裡 / 那里 /

那
xié
कण्ह
kaṇha
烏 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 濫 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
邪惡
xié è
कण्ह
kaṇha
烏 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 濫 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /

那惡的
xié è de
कण्ह
kaṇha
烏 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 濫 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
邪惡的
xié è de
कण्ह
kaṇha
烏 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 濫 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
邪惡
xié è
कण्ह
kaṇha
烏 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 濫 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /

那
xié
कण्ह
kaṇha
烏 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 濫 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
पाप
pāpa
孽 / 惡 / 罪 / 邪惡 /

郵件
yóu jiàn
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衛 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 郵件 / 邮政 / 部位 /

郵政
yóu zhèng
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到位 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衛 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 郵件 / 邮政 / 部位 /

部
bù

अवयव
avayava
一部份 / 份 / 員 / 員 / 局部 / 成員 / 會員 / 股 / 肢 / 要素 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
अंस
aṃsa
一部份 / 份 / 局部 / 擔負 / 股 / 肩 / 肩膀 / 膊 / 膊 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
भाग
bhāga
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 分担 / 局部 / 幫派 / 派 / 派系 / 股 / 股份 / 股票 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

部件

अवयव
avayava
一部份 / 份 / 員 / 員 / 局部 / 成員 / 會員 / 股 / 肢 / 要素 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
अंस
aṃsa
一部份 / 份 / 局部 / 擔負 / 股 / 肩 / 肩膀 / 膊 / 膊 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
भाग
bhāga
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 分担 / 局部 / 幫派 / 派 / 派系 / 股 / 股份 / 股票 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

部份

अवयव
avayava
一部份 / 份 / 員 / 員 / 局部 / 成員 / 會員 / 股 / 肢 / 要素 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
अंस
aṃsa
一部份 / 份 / 局部 / 擔負 / 股 / 肩 / 肩膀 / 膊 / 膊 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
कोट्टास
koṭṭhāsa
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 股 / 股份 / 股票 / 部份 / 部分 /
पटिविस
paṭivimsa
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 股 / 股份 / 股票 / 部份 / 部分 /
भाग
bhāga
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 分担 / 局部 / 幫派 / 派 / 派系 / 股 / 股份 / 股票 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

部位
bù wèi

अवट्टान
avaṭṭhāna
位 / 位置 / 地位 / 地位 / 姿 / 姿勢 / 姿态 / 局面 / 身份 / 身分 / 部位 /
आयतन
āyatana
位 / 位置 / 區域 / 地位 / 地位 / 局面 / 球 / 界 / 身份 / 身分 / 部位 /
ठान
ṭhāna
任 / 任職 / 位 / 位子 / 位置 / 停留 / 到任 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 呆 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 处 / 处 / 安放 / 寄予 / 席 / 廡 / 引起 / 待 / 情理 / 所 / 故 / 獸 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 留下 / 緣故 / 署 / 职 / 職 / 處 / 衙 / 身份 / 辦公 / 辦公室 / 逗留 / 道理 / 部位 /
पद
pada
一句話 / 任 / 位 / 位子 / 位置 / 刊登 / 到任 / 办公室 / 动机 / 原因 / 去處 / 因 / 因素 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 基地 / 基地 / 基础 / 場所 / 安放 / 寄予 / 尺 / 局面 / 崗位 / 席 / 底 / 廡 / 引起 / 情理 / 所 / 故 / 根本 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 署 / 職 / 職位 / 脚 / 腳 / 腳步 / 腳踏 / 英尺 / 衙 / 足 / 足部 / 身份 / 身分 / 道理 / 邮件 / 邮政 / 部位 /
पदेस
padesa
交椅 / 位 / 位子 / 位置 / 到任 / 區域 / 去處 / 地 / 地 / 地位 / 地位 / 地方 / 地方 / 地点 / 地點 / 場所 / 安放 / 定位 / 寄予 / 席 / 所 / 所在地 / 所在地 / 斑 / 斑點 / 身份 / 部位 /

部分
bù fēn

अवयव
avayava
一部份 / 份 / 員 / 員 / 局部 / 成員 / 會員 / 股 / 肢 / 要素 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
अंस
aṃsa
一部份 / 份 / 局部 / 擔負 / 股 / 肩 / 肩膀 / 膊 / 膊 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /
कोट्टास
koṭṭhāsa
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 股 / 股份 / 股票 / 部份 / 部分 /
पटिविस
paṭivimsa
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 股 / 股份 / 股票 / 部份 / 部分 /
पल्लि
patti
份 / 共享 / 共用 / 分享 / 利 / 利潤 / 利潤 / 到任 / 到來 / 到来 / 贏 / 抵達 / 抵達 / 收益 / 步兵 / 潤 / 潤 / 獲利 / 盈利 / 股 / 股份 / 股票 / 获利 / 裨益 / 達到 / 部分 /
भाग
bhāga
一部份 / 一部分 / 份 / 共享 / 共用 / 分享 / 分担 / 局部 / 幫派 / 派 / 派系 / 股 / 股份 / 股票 / 部 / 部件 / 部份 / 部分 /

部隊

अनीक
anīka
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /
चम्ू
camū
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /
धजिनी
dhajinī
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /
बल
bala
军 / 军队 / 冪 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 勢力 / 動力 / 勢力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 冪 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /
बलकाय
balakāya
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /

都
dōu

उभ
ubha
兩 / 兩者 / 二者 / 俩 / 俩 / 倆 / 兩 / 兩人 / 兩者 / 都 /
उभय
ubhaya
兩 / 兩者 / 二者 / 俩 / 俩 / 倆 / 兩 / 兩人 / 兩者 / 都 /
उभो
ubho
兩 / 兩者 / 二者 / 俩 / 俩 / 倆 / 兩 / 兩人 / 兩者 / 都 /
ठानीय
ṭhānīya
大城市 / 大都市 / 都 / 都市 / 首都 /

都不

दौ बु
dōu bù

न
na
不 / 不了 / 不去 / 不可以 / 不是 / 不需要 / 並非 / 可不是 / 否 / 否定 / 弗 / 拒绝 / 无 / 未 / 毋 / 沒 / 沒有 / 沒法 / 没 / 没有 / 沒有的 / 無 / 無需 / 還不 / 都不 /

都市

दौ शि
ṭhānīya
大城市 / 大都市 / 都 / 都市 / 首都 /
ठानीय
ṭhānīya
大城市 / 大都市 / 都 / 都市 / 首都 /
नगर
nagara
城 / 城區 / 城堡 / 城市 / 城裡 / 城鎮 / 城镇 / 小鎮 / 市 / 市府 / 市立 / 要塞 / 要塞 / 進城 / 都市 / 都會 / 鎮 / 鎮 /

都很

दौ हें
ati
不勝 / 不胜 / 十分 / 大 / 太 / 很 / 狠 / 甚 / 甚 / 都很 / 非常 /

都會

दौ हुि
नगर
nagara
城 / 城區 / 城堡 / 城市 / 城裡 / 城鎮 / 城镇 / 小鎮 / 市 / 市府 / 市立 / 要塞 / 要塞 / 進城 / 都市 / 都會 / 鎮 / 鎮 /

鄉村

xiāng cūn
जनपद
janapada
国 / 国家 / 國 / 國家 / 國度 / 我國 / 江山 / 治國 / 鄉村 /
देस
desa
區域 / 国 / 国家 / 國 / 國家 / 國度 / 地域 / 地域 / 我國 / 江山 / 治國 / 鄉村 /

鄙
bǐ

अधम
adhama
低 / 低下 / 低劣的 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 卑劣 / 鄙 / 鄙吝 / 隳 /
अवच
avaca
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隳 /
ओरक
oraka
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隳 /
छव
chava
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隳 /

निकिड्ड
nikittṭha
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隳 /
निहीन
nihīna
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 有罪的 / 鄙 / 隳 /
नीच
nīca
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隳 /

鄙人

bǐ rén
अहं
ahaṃ
予 / 余 / 俺 / 吾 / 我 / 朕 / 鄙人 / 餘 /

鄙吝

bǐ lìn
अधम
adhama
低 / 低下 / 低劣的 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 卑劣 / 鄙 / 鄙吝 / 隳 /

鄙視

bǐ shì
अतिमञ्जना
atimaññana
傲慢 / 晒 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /
अवजानन
avajānana
晒 / 蔑視 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /
अवञ्जा
avaññā
晒 / 失禮 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /
अवमञ्जना
avamaññana
不敬 / 晒 / 忽視 / 輕視 / 轻蔑 / 轻视 / 鄙視 /

鄰近	酸味	里	重的	重重
lín jìn	suān wèi	lǐ	zhòng de	zhòng zhòng
आसन्न	अम्बिल	अन्तो	गरु	गरु
āsanna	ambila	anto	garu	garu
接近的 / 鄰近 /	酸 / 酸味 / 酸性 /	中 / 在 / 裏 / 裡 / 里 /	值得尊敬的 / 可敬的 / 導師 / 師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 /	值得尊敬的 / 可敬的 / 導師 / 師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 /
उपन्तिक	酸性	अब्भन्तर	沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /	沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /
upantika	suān xìng	abbhantara	गुरु	गुरु
几乎 / 差不多 / 差不多 / 迄 / 近 / 近乎 / 近乎 / 鄰近 / 靠近 /	अम्बिल	之內 / 內 / 內側 / 內部 / 內部 / 裡邊 / 裡面 / 裡頭 / 里 /	गुरु	गुरु
配件	ambila	重回	गुरु	गुरु
pèi jiàn	酸 / 酸味 / 酸性 /	zhòng huí	師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /	師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /
परिक्खार	醉心	पच्चागमन	गरुक	गरुक
parikkhāra	zuì xīn	paccāgamana	garuka	garuka
備 / 器材 / 必需品 / 装备 / 裝備 / 裝置 / 設備 / 设备 / 配件 /	ओलीयना	交還 / 回 / 回來 / 回去 / 回歸 / 归 / 歸 / 歸來 / 歸還 / 返 / 返回 / 返航 / 迴 / 退回 / 退还 / 送回 / 重回 / 重返 /	岸然 / 慘重 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 窳 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重大 / 重的 / 重要 / 重要的 / 重重 /	岸然 / 慘重 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 窳 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重大 / 重的 / 重要 / 重要的 / 重重 /
酒	醋	重型	भारिक	भारिक
jiǔ	cù	zhòng xíng	bhārika	bhārika
मज्ज	बिलङ्ग	गरु	慘重 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重的 / 重重 /	慘重 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重的 / 重重 /
majja	bilaṅga	garu	भारिय	野免
喝酒 / 酒 / 酒鬼 /	醒悟	值得尊敬的 / 可敬的 / 導師 / 師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /	bhāriya	yě tù
酒杯	xǐng wù	गुरु	沉重的 / 重的 /	पेलक
jiǔ bēi	अनुबु	guru	重聚	pelaka
आपानीयकंस	anubujjhana	गुरु	zhòng jù	免子 / 野免 /
āpānīyakamsa	理解 / 觉醒 / 認識 / 諒解 / 认识 / 认识 / 醒悟 / 體諒 /	guru	पटिसन्धि	野兽
酒瓶	醫師	師資 / 慘重 / 教師 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 老师 / 老師 / 重型 / 重的 / 重重 /	paṭisandhi	yě shòu
jiǔ píng	yī shī	गरुक	重聚 / 重逢 /	तिरच्छान
नाळिका	तिकिच्छक	garuka	重要	tiracchāna
nāḷikā	tikicchaka	岸然 / 慘重 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 窳 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重大 / 重的 / 重要 / 重要的 / 重重 /	zhòng yào	兽 / 动物 / 动物性 / 動物 / 獸 / 畜牲 / 畜生 / 野兽 /
奶瓶 / 瓶 / 瓶子 / 管 / 管子 / 酒瓶 /	医师 / 医生 / 博士 / 大 / 大夫 / 大夫 / 醫師 /	भारिक	गरुक	पसु
酒鬼	भिसक्क	bhārika	garuka	pasu
jiǔ guǐ	bhisakka	慘重 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重的 / 重重 /	岸然 / 慘重 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 窳 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重大 / 重的 / 重要 / 重要的 / 重重 /	兽 / 动物 / 獸 / 畜牲 / 畜生 / 野兽 /
मज्ज	醫師	重大	重要的	野外
majja	醫師 /	zhòng dà	zhòng yào de	yě wài
喝酒 / 酒 / 酒鬼 /	醫藥	गरुक	अनप्पक	केदार
酥油	yī yào	garuka	anappaka	kedāra
sū yóu	अगद	岸然 / 慘重 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 窳 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重大 / 重的 / 重要 / 重要的 / 重重 /	不少 / 多多 / 好多 / 很多 / 許多 / 諸多 / 许多 / 重要的 / 非常多 /	地 / 地 / 场 / 場 / 實地 / 田 / 田地 / 田野 / 畝 / 耕地 / 野外 / 領域 / 领域 /
घत	agada	भारिक	गरुक	量
ghata	吸毒 / 戒毒 / 毒品 / 药 / 药物 / 葯 / 藥 / 藥品 / 藥物 / 醫藥 /	bhārika	garuka	liàng
酬金	釋放	重新	岸然 / 慘重 / 沈重 / 沈重的 / 沉重 / 窳 / 笨重 / 繁重 / 重型 / 重大 / 重的 / 重要 / 重要的 / 重重 /	पथ
chóu jīn	shì fàng	zhòng xīn	重返	patha
भति	ओस्सजन	पुन	zhòng fǎn	中 / 修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 /
bhati	ossajana	puna	पच्चागमन	परिमाण
薪水 / 費 / 費用 / 费 / 酬金 / 酬金 /	解雇 / 釋放 /	一再 / 一遍 / 再 / 再一次 / 再度 / 再次 / 又 / 重新 /	paccāgamana	parimāṇa
भति	निब्बान	गुरु	交還 / 回 / 回來 / 回去 / 回歸 / 归 / 歸 / 歸來 / 歸還 / 返 / 返回 / 返航 / 迴 / 退回 / 退还 / 送回 / 重回 / 重返 /	大小 / 局限 / 幅度 / 度量 / 措施 / 极限 / 極限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 边际 / 量 / 量度 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
bhati	nibbāna	garuka	重逢	
薪水 / 費 / 費用 / 费 / 酬金 / 酬金 /	冷却 / 冷卻 / 釋放 /	zhòng féng	पटिसन्धि	
酷刑	निय्यान	पटिसन्धि	paṭisandhi	
kù xíng	niyyāna	重聚 / 重逢 /	重聚 / 重逢 /	
आतापन	出發 / 外出 / 放松 / 救出 / 釋放 /	भारिक		
ātāpana	परिमुच्चन	भारिय		
受刑 / 折磨 / 拷問 / 拷打 / 禁欲 / 酷刑 /	parimuccana	भारिक		
कारणा	परिमुत्ति	भारिक		
kāraṇā	parimutti	भारिक		
受刑 / 折磨 / 拷問 / 拷打 / 酷刑 /	मुञ्चन	भारिक		
酸	मुञ्चन	भारिक		
suān	मुञ्चन	भारिक		
अम्बिल	मुञ्चन	भारिक		
ambila	मुञ्चन	भारिक		
酸 / 酸味 / 酸性 /	放出 / 釋放 /	भारिक		

量度	金子	金幣	金色	鉅
liàng dù	jīn zī	jīn bì	jīn sè	jù
पमाण	कञ्चन	कञ्चन	कञ्चन	अतिमहन्त
pamāṇa	kañcana	kañcana	kañcana	atimahanta
大小 / 尺寸 / 度量 / 措施 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 量度 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	巨 / 巨大 / 巨大的 / 庞 / 庞大 / 庞大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 / 過大 / 鉅 / 龐 / 龐大 /
परिच्छेद	कनक	कनक	कनक	釜
pariccheda	kanaka	kanaka	kanaka	jiàn
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 度量 / 徼 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 眡 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	उपलद्धि
परिमाण	कम्बु	कम्बु	कम्बु	upaladdhi
parimāṇa	kambu	kambu	kambu	來看 / 所屬 / 景 / 景色 / 查看 / 檢視 / 看法 / 眺望 / 瞻 / 見解 / 觀點 / 釜 / 鑑 / 鑒 /
大小 / 局限 / 幅度 / 度量 / 措施 / 极限 / 極限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 边际 / 量 / 量度 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	銀幕
金	चामीकर	चामीकर	चामीकर	yín mù
jīn	cāmīkara	cāmīkara	cāmīkara	आवरण
कञ्चन	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	āvaraṇa
kañcana	जातरूप	जातरूप	जातरूप	屏 / 屏幕 / 屏風 / 棒 / 銀幕 / 關閉 / 障礙 /
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	jātarūpa	jātarūpa	jātarūpa	銅
कनक	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	tóng
kanaka	तपनीय	तपनीय	तपनीय	तम्ब
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	tapanīya	tapanīya	tapanīya	tamba
कम्बु	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	布朗 / 成褐色 / 棕色 / 茶色 / 褐 / 褐色 / 銅 / 銅板 / 铜 /
kambu	金	金	金色的	銅板
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	jīn zī	jīn xīn	jīn sè de	tóng bǎn
चामीकर	कञ्चन	कञ्चन	पीत	तम्ब
cāmīkara	kañcana	kañcana	pīta	tamba
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	金色的 / 黃色 / 黄 / 黄色 /	布朗 / 成褐色 / 棕色 / 茶色 / 褐 / 褐色 / 銅 / 銅板 / 铜 /
जातरूप	कनक	कनक	पीतक	銳
jātarūpa	kanaka	kanaka	pītaka	ruì
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	金色的 / 黃色 / 黄 / 黄色 /	कटुक
तपनीय	कम्बु	कम्बु	釘	kaṭuka
tapanīya	kambu	kambu	dīng	尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 激烈 / 犀利 / 痛苦的 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	नख	खर
चामीकर	चामीकर	चामीकर	nakha	khara
cāmīkara	चामीकर	चामीकर	指甲 / 指甲剪 / 爪 / 爪 / 釘 / 釘子 / 钉 /	伧 / 使勁 / 固 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利的 / 痛苦的 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	cāmīkara	cāmīkara	釘子	तिण्ह
जातरूप	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	dīng zi	tiṅha
jātarūpa	जातरूप	जातरूप	नख	尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	jātarūpa	jātarūpa	nakha	तिप्प
तपनीय	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	指甲 / 指甲剪 / 爪 / 爪 / 釘 / 釘子 / 钉 /	tippa
tapanīya	तपनीय	तपनीय	針	刺骨的 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 急性 / 犀利 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /	tapanīya	tapanīya	zhēn	鋒
金粉	आर	आर	आर	fēng
jīn fěn	āra	āra	आर	परियन्त
चुण्ण	針 / 针 /	針 / 针 /	आर	pariyanta
cuṇṇa	鈞	鈞	āra	下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 滙 / 眡 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 终结 / 结束 / 缘 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 道 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
粉 / 粉末 / 细粉 / 金粉 /	diào	diào	झस	
	jhasa	jhasa	झस	
	漁 / 釣 / 钓 / 魚 / 魚類 / 鱼 /	漁 / 釣 / 钓 / 魚 / 魚類 / 鱼 /	मच्छ	
	maccha	maccha	maccha	
	漁 / 釣 / 钓 / 魚 / 魚類 / 鱼 /	漁 / 釣 / 钓 / 魚 / 魚類 / 鱼 /		

鋒利
fēng lì
कटुक
kaṭuka
尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 激烈 / 犀利 / 痛苦的 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
खर
khara
伧 / 使勁 / 固 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 痛苦的 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
तिप्ह
tiṅha
尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
तिप्प
tippa
刺骨的 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 急性 / 犀利 / 銳 / 鋒利 / 锐 /

錘子
chuí zi
घन
ghana
厚 / 厚的 / 固 / 密 / 密集的 / 捶 / 棍棒 / 槌 / 稠 / 粗 / 結實 / 萃 / 蕪 / 錘子 / 锤 /
錢包
qián bāo
थविका
thavikā
背包 / 錢包 /
पसिब्वक
pasibbaka
一袋 / 囊 / 大袋子 / 手提包 / 提包 / 旅行包 / 旅行包 / 囊 / 洗劫 / 紙袋 / 袋 / 袋子 / 錢包 / 麻布袋 / 麻袋 /

鍊
liàn
अन्दु
andu
桎梏 / 連鎖 / 鍊 / 鎖鏈 / 鏈 / 鏈子 / 链 /
अन्दुक
anduka
桎梏 / 桎梏 / 連鎖 / 鍊 / 鎖鏈 / 鏈 / 鏈子 / 链 /

鍋
guō
उक्खलि
ukkhali
一壺 / 壺 / 壺 / 煲 / 缸 / 罐 / 鍋 / 锅 /
चाटि
cāṭi
一壺 / 壺 / 壺 / 煲 / 缸 / 罐 / 鍋 / 锅 /

鎮
zhèn
नगर
nagara
城 / 城區 / 城堡 / 城市 / 城裡 / 城鎮 / 城鎮 / 小鎮 / 市 / 市府 / 市立 / 要塞 / 要塞 / 進城 / 都市 / 都會 / 鎮 / 镇 /
鎮壓
zhèn yā
निम्मदहन
nimmaddana
征服 / 鎮壓 /

鍵
jiàn
अपापुरण
apāpuraṇa
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
अवापुरण
avāpuraṇa
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
कुञ्चिका
kuñcikā
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
ताळ
tāḷa
乐 / 关键 / 樂 / 要害 / 譜 / 谱 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 / 音乐 / 音樂 /
鎖上
suǒ shàng

अपापुरण
apāpuraṇa
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
अवापुरण
avāpuraṇa
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
कुञ्चिका
kuñcikā
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
ताळ
tāḷa
乐 / 关键 / 樂 / 要害 / 譜 / 谱 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 / 音乐 / 音樂 /

鎖鏈
suǒ liàn
अन्दु
andu
桎梏 / 連鎖 / 鍊 / 鎖鏈 / 鏈 / 鏈子 / 链 /
अन्दुक
anduka
桎梏 / 桎梏 / 連鎖 / 鍊 / 鎖鏈 / 鏈 / 鏈子 / 链 /

鍛
shā
तोमर
tomara
矛 / 鍛 /
鎮
zhèn
नगर
nagara
城 / 城區 / 城堡 / 城市 / 城裡 / 城鎮 / 城鎮 / 小鎮 / 市 / 市府 / 市立 / 要塞 / 要塞 / 進城 / 都市 / 都會 / 鎮 / 镇 /
鎮壓
zhèn yā
निम्मदहन
nimmaddana
征服 / 鎮壓 /

鑑
jiàn
उपलद्धि
upaladdhi
來看 / 所屬 / 景 / 景色 / 查看 / 檢視 / 看法 / 眺望 / 瞻 / 見解 / 觀點 / 釜 / 鑑 / 鑒 /
鑒
jiàn
उपलद्धि
upaladdhi
來看 / 所屬 / 景 / 景色 / 查看 / 檢視 / 看法 / 眺望 / 瞻 / 見解 / 觀點 / 釜 / 鑑 / 鑒 /

鏈子
liàn zi
अन्दु
andu
桎梏 / 連鎖 / 鍊 / 鎖鏈 / 鏈 / 鏈子 / 链 /
अन्दुक
anduka
桎梏 / 桎梏 / 連鎖 / 鍊 / 鎖鏈 / 鏈 / 鏈子 / 链 /

鏡
jìng
आदास
ādāsa
反射鏡 / 鏡 / 鏡子 / 镜 / 镜子 /
दप्पण
dappaṇa
反射鏡 / 鏡 / 鏡子 / 镜 / 镜子 /

鏡子
jìng zi
आदास
ādāsa
反射鏡 / 鏡 / 鏡子 / 镜 / 镜子 /
दप्पण
dappaṇa
反射鏡 / 鏡 / 鏡子 / 镜 / 镜子 /

鐘情
zhōng qíng
पियायना
piyāyanā
性愛 / 恋 / 恋爱 / 情 / 愛 / 愛上 / 愛情 / 慈愛 / 戀 / 戀愛 / 摯愛 / 春 / 深愛 / 熱愛 / 爱 / 爱的 / 鐘情 /

鐵
tiě
अय
aya
定期收入 / 收 / 收入 / 收益 / 熨 / 熨斗 / 鐵 / 鐵頭 / 铁 /
काळायस
kālāyasa
熨 / 熨斗 / 鐵 / 鐵頭 / 铁 /

鐵頭
tiě tóu
अय
aya
定期收入 / 收 / 收入 / 收益 / 熨 / 熨斗 / 鐵 / 鐵頭 / 铁 /
काळायस
kālāyasa
熨 / 熨斗 / 鐵 / 鐵頭 / 铁 /

釣
diào
झस
jhasa
漁 / 釣 / 钓 / 魚 / 魚類 / 鱼 /
मच्छ
maccha
漁 / 釣 / 钓 / 魚 / 魚類 / 鱼 /

鑒
jiàn
उपलद्धि
upaladdhi
來看 / 所屬 / 景 / 景色 / 查看 / 檢視 / 看法 / 眺望 / 瞻 / 見解 / 觀點 / 釜 / 鑑 / 鑒 /

鑰
yào
अपापुरण
apāpuraṇa
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
अवापुरण
avāpuraṇa
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
कुञ्चिका
kuñcikā
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
ताळ
tāḷa
乐 / 关键 / 樂 / 要害 / 譜 / 谱 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 / 音乐 / 音樂 /

鑰匙
yào shi
अपापुरण
apāpuraṇa
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
अवापुरण
avāpuraṇa
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
कुञ्चिका
kuñcikā
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /

針
zhēn
आर
āra
針 / 针 /
釘
dīng
नख
nakha
指甲 / 指甲剪 / 爪 / 爪 / 釘 / 釘子 / 钉 /

釣
diào
झस
jhasa
漁 / 釣 / 钓 / 魚 / 魚類 / 鱼 /
मच्छ
maccha
漁 / 釣 / 钓 / 魚 / 魚類 / 鱼 /

钥
yào
अपापुरण
apāpuraṇa
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
अवापुरण
avāpuraṇa
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
कुञ्चिका
kuñcikā
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
ताळ
tāḷa
乐 / 关键 / 樂 / 要害 / 譜 / 谱 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 / 音乐 / 音樂 /

銅
guō
उक्खलि
ukkhali
一壺 / 壺 / 壺 / 煲 / 缸 / 罐 / 鍋 / 锅 /
चाटि
cāṭi
一壺 / 壺 / 壺 / 煲 / 缸 / 罐 / 鍋 / 锅 /

錢包
qián bāo
थविका
thavikā
背包 / 錢包 /
पसिब्वक
pasibbaka
一袋 / 囊 / 大袋子 / 手提包 / 提包 / 旅行包 / 旅行包 / 囊 / 洗劫 / 紙袋 / 袋 / 袋子 / 錢包 / 麻布袋 / 麻袋 /

鎖鏈
suǒ liàn
अन्दु
andu
桎梏 / 連鎖 / 鍊 / 鎖鏈 / 鏈 / 鏈子 / 链 /
अन्दुक
anduka
桎梏 / 桎梏 / 連鎖 / 鍊 / 鎖鏈 / 鏈 / 鏈子 / 链 /

鑰
yào
अपापुरण
apāpuraṇa
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
अवापुरण
avāpuraṇa
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
कुञ्चिका
kuñcikā
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
ताळ
tāḷa
乐 / 关键 / 樂 / 要害 / 譜 / 谱 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 / 音乐 / 音樂 /

鑰匙
yào shi
अपापुरण
apāpuraṇa
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
अवापुरण
avāpuraṇa
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
कुञ्चिका
kuñcikā
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /

铁
tiě

अय
aya
定期收入 / 收 / 收入 / 收益 / 熨 / 熨斗 / 鐵 / 鐵頭 / 铁 /
काढायस
kāḷāyasa
熨 / 熨斗 / 鐵 / 鐵頭 / 铁 /

铜
tóng

तम्ब
tamba
布朗 / 成褐色 / 棕色 / 茶色 / 褐 / 褐色 / 銅 / 銅板 / 铜 /

铤
liàn

अन्दु
andu
桎梏 / 連鎖 / 鍊 / 鎖鏈 / 鏈 / 鏈子 / 链 /
अन्दुक
anduka
桎梏 / 桎梏 / 連鎖 / 鍊 / 鎖鏈 / 鏈 / 鏈子 / 链 /

销售
xiāo shòu

आपण
āpaṇa
商場 / 市 / 市场 / 市場 / 市集 / 肆 / 销售 / 集市 /

锅
guō

उक्खलि
ukkhali
一壺 / 壺 / 壺 / 煲 / 缸 / 罐 / 鍋 / 锅 /
चाटि
cāṭi
一壺 / 壺 / 壺 / 煲 / 缸 / 罐 / 鍋 / 锅 /

锐
ruì

कटुक
kaṭuka
尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 激烈 / 犀利 / 痛苦的 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
खर
khara
佷 / 使勁 / 固 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 痛苦的 / 硬 / 硬殼 / 硬的 / 粗 / 粗糙的 / 糙 / 艱苦 / 草 / 辛 / 辛苦 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
तिण्ह
tiṇha
尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 犀利 / 銳 / 鋒利 / 锐 /
तिप्प
tippa
刺骨的 / 尖銳 / 尖锐 / 尖锐的 / 急劇 / 急性 / 犀利 / 銳 / 鋒利 / 锐 /

锤
chuí

घन
ghana
厚 / 厚的 / 固 / 密 / 密集的 / 捶 / 棍棒 / 槌 / 稠 / 粗 / 結實 / 萃 / 蕪 / 錘子 / 锤 /

键
jiàn

अपापुरण
apāpuraṇa
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
अवापुरण
avāpuraṇa
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
कुञ्चिका
kuñcikā
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
ताळ
tāḷa
乐 / 关键 / 樂 / 要害 / 譜 / 谱 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 / 音乐 / 音樂 /

镇
zhèn

नगर
nagara
城 / 城區 / 城堡 / 城市 / 城裡 / 城鎮 / 城镇 / 小鎮 / 市 / 市府 / 市立 / 要塞 / 要塞 / 進城 / 都市 / 都會 / 鎮 / 镇 /

镜
jìng

आदास
ādāsa
反射鏡 / 鏡 / 鏡子 / 镜 / 镜子 /
दप्पण
dappaṇa
反射鏡 / 鏡 / 鏡子 / 镜 / 镜子 /

镜子
jìng zi

आदास
ādāsa
反射鏡 / 鏡 / 鏡子 / 镜 / 镜子 /
दप्पण
dappaṇa
反射鏡 / 鏡 / 鏡子 / 镜 / 镜子 /

镯
zhuó

कङ्कण
kaṅkaṇa
手鐲 / 手镯 / 镯 /
कटक
kaṭaka
手鐲 / 手镯 / 镯 /

長大
zhǎng dà

पवड्ढन
pavaḍḍhana
加價 / 加大 / 增 / 增加 / 增多 / 增強 / 增殖 / 增添 / 增長 / 益 / 茁 / 長大 /

長度
zhǎng dù

आयाम
āyāma
篇幅 / 長度 / 長短 / 长度 /
長短

zhǎng duǎn

आयाम
āyāma
篇幅 / 長度 / 長短 / 长度 /
长
zhǎng

दीघ
dīgha
冗长的 / 多头 / 悠久 / 莘 / 长 / 长的 /

長度
zhǎng dù

आयाम
āyāma
篇幅 / 長度 / 長短 / 长度 /

长的
zhǎng de

दीघ
dīgha
冗长的 / 多头 / 悠久 / 莘 / 长 / 长的 /

門
mén

द्वार
dvāra
入口 / 大門 / 大门 / 車門 / 門 / 門口 / 门 / 高考 /

門口
mén kǒu

द्वार
dvāra
入口 / 大門 / 大门 / 車門 / 門 / 門口 / 门 / 高考 /

門外
mén wài

तिरो
tiro
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 超出 / 超过 / 門外 /

बहि
bahi
之外 / 以外 / 出 / 出動 / 出去 / 出局 / 出於 / 出門 / 外 / 外側 / 外出 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 拿出 / 移出 / 窗外 / 走出 / 跳出 / 逐出 / 門外 /
बहिद्धा
bahiddhā
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 局外的 / 窗外 / 門外 /

बाहिर
bāhira
之外 / 以外 / 外 / 外側 / 国外的 / 外在的 / 外界 / 外表 / 外邊 / 外部 / 外部的 / 外面 / 外頭 / 对外的 / 局外的 / 洋 / 番 / 窗外 / 門外 /

門衛
mén wèi

आरक्खक
ārakkhaka
守卫 / 守衛 / 守護 / 巡夜者 / 把守 / 看守 / 看守人 / 衛 / 門衛 /

गुत्ति
gutti
保护 / 保護 / 守卫 / 守衛 / 守護 / 把守 / 注意 / 看守 / 衛 / 門衛 /

開始
kāi shǐ

आदि
ādi
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 開始 / 首 / 首先 /

आरम्भ
ārambha
嘗試 / 開始 /
उद्भव
ubbhava

開支
kāi zhī

परिब्बय
paribbaya
費用 / 開支 /

開火
kāi huǒ

अग्नि
aggi
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /

अनल
anala
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /
गिति
gini
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /

जोति
joti
五星 / 亮光 / 光 / 光線 / 光芒 / 光輝 / 加上星号 / 大火 / 失火 / 如火 / 對光 / 开火 / 恆星 / 明星 / 星 / 星星 / 星辰 / 消防隊 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 灯 / 燃起 / 燈 / 燈光 / 燧 / 發光 / 著火 / 著火 / 起火 / 輕 / 輕便 / 轻 / 開火 /
पावक
pāvaka
大火 / 失火 / 如火 / 开火 / 消防隊 / 火 / 火光 / 火勢 / 火災 / 火燒 / 火警 / 燃起 / 燧 / 著火 / 著火 / 起火 / 開火 /

閒
xián

अलस
alasa
佚 / 怠 / 惰 / 懶 / 懶惰 / 懶惰的 / 懶散 / 懶散的 / 懶 / 懶惰 / 閒 /

間
jiān

अन्तरे
antare
之間 / 介 / 其中 / 当中 / 當中 / 芸芸 / 間 / 间 /

間諜
jiān dié

अवचरक
avacaraka
刺探 / 密探 / 特務 / 狙 / 耳目 / 諜 / 谍 / 間諜 / 间谍 /

關心
guān xīn

आरक्खा
ārakkhā
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看守 / 看護 / 關心 / 關照 /

गोपन
gopana
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 注意 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 關心 / 關照 /
पटिजगन
paṭijaggana
修 / 修復 / 修理 / 修補 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 管理 / 脩 / 關心 / 關照 /

परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威严 ^严 / 尊严 ^严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

關押
guān yā

कारा
kāra
入獄 / 囚室 / 囹 / 大牢 / 拘留所 / 牢 / 牢狱 / 犴 / 獄 / 獄 / 班房 / 监狱 / 監 / 監牢 / 監獄 / 監禁 / 關押 /
बन्ध
bandha
有義務 / 束縛 / 關押 /

關於
guān yú

आरब्ध
ārabbha
一下 / 即將 / 大約 / 大约 / 左右 / 快要 / 走進 / 關於 /
पटिच्च
paṭicca
因 / 關於 /

關注
guān zhù
अविष्पवास
avippavāsa
注意 / 注意力 / 注目 / 留神 / 關注 /
परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威 ^严 / 尊 ^严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

關照
guān zhào
आरक्खा
ārakkhā
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看守 / 看護 / 關心 / 關照 /
गोपन
gopana
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 注意 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 關心 / 關照 /
पटिजगगन
paṭijaggana
修 / 修復 / 修理 / 修補 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 打理 / 料理 / 照料 / 照看 / 留心 / 看護 / 管理 / 脩 / 關心 / 關照 /
परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威 ^严 / 尊 ^严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

關鍵
guān jiàn
अपापुरण
apāpuraṇa
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
अवापुरण
avāpuraṇa
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
कुञ्चिका
kuñcīkā
关键 / 要害 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 /
ताळ
tāḷa
乐 / 关键 / 樂 / 要害 / 譜 / 谱 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 / 音乐 / 音樂 /

關閉
guān bì
आवरण
āvaraṇa
屏 / 屏幕 / 屏風 / 棒 / 銀幕 / 關閉 / 障礙 /
पिदहन
pidahana

關頭
guān tóu
खण
khaṇa
一刻 / 分 / 分鐘 / 分钟 / 时刻 / 时机 / 時刻 / 時機 / 會兒 / 机会 / 機會 / 片刻 / 瞬間 / 瞬間 / 關頭 /
门
mén
द्वार
dvāra
入口 / 大門 / 大门 / 車門 / 門 / 門口 / 门 / 高考 /

问题
wèn tí
पन्ह
pañha
事情 / 問題 / 回答 / 审问 / 提問 / 質問 / 質疑 / 質詢 / 问题 /
间
jiān
अन्तरे
antare
之間 / 介 / 其中 / 当中 / 當中 / 芸芸 / 間 / 间 /
间谍
jiān dié
अवचरक
avacaraka
刺探 / 密探 / 特務 / 狙 / 耳目 / 謀 / 谋 / 間諜 / 间谍 /

阱
jǐng
कुहर
kuhara
孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 窟窿 / 阱 /
छिगगल
chiggala
孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 窟窿 / 阱 /
छिद्द
chidda
孔 / 有洞的 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 穿孔的 / 窟窿 / 缺點 / 裂縫 / 過失 / 阱 /
बिल
bila
孔 / 洞 / 洞口 / 破洞 / 穴 / 穴 / 空心 / 窟窿 / 孔 / 阱 /

防止
fáng zhǐ
पटिसेध
paṭisedha
禁令 / 禁止 / 防止 / 預防 /
防范
fáng fàn
निवारण
nivāraṇa
擋住 / 防范 / 預防 / 预防 /
निसेध
nisedha
取締 / 抑制 / 班固 / 禁 / 禁令 / 禁止 / 防范 / 預防 / 预防 /

阳
yáng
अक्क
akka
周日 / 太阳 / 太陽 / 晒 / 曬 / 阳 / 陽 /
आदिच्च
ādicca
周日 / 太阳 / 太陽 / 晒 / 曬 / 阳 / 陽 /
भानु
bhānu
亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /

阴影
yīn yǐng
छाया
chāyā
影 / 影子 / 暗影 / 肖像 / 荫 / 阴影 / 陰影 /

阵
zhèn
अभिमुख
abhimukha
前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 /
पमुख
pamukha
主要的 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 本金 / 正面 / 资本 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 首席 / 魁 /
मुख
mukha
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 觐 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

阶梯
jiē tī
अधिरोहनी
adhirohanī
梯 / 阶梯 /

阶段
jiē duàn
भूमि
bhūmi
上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /

附件
fù jiàn
उपादान
upādāna
抓的 / 燃料 / 燃油 / 附件 /

附加的
fù jiā de
उत्तरि
uttari
再作 / 另外 / 更 / 更远的 / 此外 / 而且 / 進一步 / 附加的 /
उत्तरि
uttariṃ
再作 / 另外 / 更 / 更远的 / 此外 / 而且 / 進一步 / 附加的 /

附著
fù zhù
आरामता
ārāmata

附近
fù jìn
अविदूर
avidūra
接近的 / 附近 /
उपचार
upacāra
उपनिस्साय
upanissāya
汔 / 近 / 近乎 / 近乎 / 附近 / 靠近 /

附近的
fù jìn de
पटिविस्सक
paṭivissaka

际
jì
अवधि
avadhi
圻 / 垓 / 垤 / 境 / 微 / 极限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिच्छेद
pariccheda
圻 / 垓 / 垤 / 境 / 度量 / 微 / 措施 / 极限 / 测 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告终 / 境 / 完結 / 完结 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 滙 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 终 / 终结 / 结束 / 缘 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

陆
lù
थल
thala
國土 / 土地 / 土地 / 地 / 地 / 地上 / 地皮 / 地皮 / 地面 / 地面 / 接地 / 接地 / 陆 / 陆地 / 陸 / 陸地 /

陆地
lù dì
थल
thala
國土 / 土地 / 土地 / 地 / 地 / 地上 / 地皮 / 地皮 / 地面 / 地面 / 接地 / 接地 / 陆 / 陆地 / 陸 / 陸地 /

陈述
chén shù
अपदेस
apadesa
动机 / 原因 / 因 / 声明 / 声明书 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 聲明 / 說法 / 说法 / 道理 / 陈述 / 陳述 /

陌生人
mò shēng rén
अतिथि
atithi
住客 / 來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 探望者 / 旅游者 / 旅游者 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /
अब्भागत
abbhāgata
來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /
आगन्तुक
āgantuka
來賓 / 做客 / 客 / 客人 / 宾 / 来宾 / 生人 / 賓 / 陌生人 /
पर
para
其他 / 其他人 / 其它 / 其它的 / 別 / 別的 / 别 / 别人 / 别的 / 另 / 另一個 / 另外 / 譬 / 陌生人 /

降
jiàng
अवतरण
avatarana
थेव
theva
一滴 / 掉落 / 水滴 / 滴 / 落 / 降 /
पतन
patana
一滴 / 掉落 / 水滴 / 滴 / 落 / 落下 / 降 /

降低
jiàng dī
अधो
adho

降落
jiàng luò
ओतार
otāra
存取 / 機會 / 通路 / 過失 / 降落 /
ओरुहन
oruhana

限
xiàn
ओधि
odhi
圻 / 垓 / 埏 / 局限 / 徼 / 极限 / 極限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिमाण
parimāṇa
大小 / 局限 / 幅度 / 度量 / 措施 / 极限 / 極限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 边际 / 量 / 量度 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 涓 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 終結 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 迨 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

限制
xiàn zhì
अवधि
avadhi
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 徼 / 极限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
ओधि
odhi
圻 / 垓 / 埏 / 局限 / 徼 / 极限 / 極限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
नियम
niyama
限制 / 限定 / 限度 /
परिच्छेद
pariccheda
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 度量 / 徼 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिमाण
parimāṇa
大小 / 局限 / 幅度 / 度量 / 措施 / 极限 / 極限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 边际 / 量 / 量度 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 涓 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 終結 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 迨 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

限制
xiàn zhì
अवधि
avadhi
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 徼 / 极限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
ओधि
odhi
圻 / 垓 / 埏 / 局限 / 徼 / 极限 / 極限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
नियम
niyama
限制 / 限定 / 限度 /
परिच्छेद
pariccheda
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 度量 / 徼 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिमाण
parimāṇa
大小 / 局限 / 幅度 / 度量 / 措施 / 极限 / 極限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 边际 / 量 / 量度 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 涓 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 終結 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 迨 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

限定
xiàn dìng
अवधि
avadhi
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 徼 / 极限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
ओधि
odhi
圻 / 垓 / 埏 / 局限 / 徼 / 极限 / 極限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
नियम
niyama
限制 / 限定 / 限度 /
परिच्छेद
pariccheda
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 度量 / 徼 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिमाण
parimāṇa
大小 / 局限 / 幅度 / 度量 / 措施 / 极限 / 極限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 边际 / 量 / 量度 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 涓 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 終結 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 迨 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

限制
xiàn zhì
अवधि
avadhi
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 徼 / 极限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
ओधि
odhi
圻 / 垓 / 埏 / 局限 / 徼 / 极限 / 極限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
नियम
niyama
限制 / 限定 / 限度 /
परिच्छेद
pariccheda
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 度量 / 徼 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिमाण
parimāṇa
大小 / 局限 / 幅度 / 度量 / 措施 / 极限 / 極限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 边际 / 量 / 量度 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 涓 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 終結 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 迨 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

限制
xiàn zhì
अवधि
avadhi
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 徼 / 极限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
ओधि
odhi
圻 / 垓 / 埏 / 局限 / 徼 / 极限 / 極限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
नियम
niyama
限制 / 限定 / 限度 /
परिच्छेद
pariccheda
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 度量 / 徼 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिमाण
parimāṇa
大小 / 局限 / 幅度 / 度量 / 措施 / 极限 / 極限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 边际 / 量 / 量度 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 涓 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 終結 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 迨 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

限度
xiàn dù
अवधि
avadhi
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 徼 / 极限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
ओधि
odhi
圻 / 垓 / 埏 / 局限 / 徼 / 极限 / 極限 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 边际 / 邊界 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
नियम
niyama
限制 / 限定 / 限度 /
परिच्छेद
pariccheda
圻 / 垓 / 埏 / 境 / 度量 / 徼 / 措施 / 极限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 界限 / 畛 / 疆 / 疆界 / 衡 / 衡量 / 边际 / 邊界 / 量度 / 际 / 限制 / 限定 / 限度 /
परिमाण
parimāṇa
大小 / 局限 / 幅度 / 度量 / 措施 / 极限 / 極限 / 測 / 測量 / 測 / 測量 / 衡 / 衡量 / 边际 / 量 / 量度 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /
परियन्त
pariyanta
下場 / 中 / 刃 / 告終 / 境 / 完結 / 完結 / 局限 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 极限 / 棧 / 極限 / 止境 / 涓 / 畛 / 疆 / 疆界 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 緣 / 終 / 終結 / 結束 / 緣 / 边 / 边境 / 边沿 / 边缘 / 边际 / 迨 / 邊 / 邊境 / 邊界 / 邊緣 / 鋒 / 际 / 限 / 限制 / 限定 / 限度 /

陔
gāi
कम
kama
一步 / 命令 / 序 / 措施 / 方式 / 方法 / 模式 / 步 / 步子 / 步驟 / 狀態 / 脚步 / 舉止 / 训令 / 進程 / 陔 / 順序 / 顺序 /

陡峭的
dǒu qiào de
उक्कूल
ukkūla
院
yuàn
चच्चर
caccara
中庭 / 墀 / 庭 / 庭院 / 院 / 院子 /

院子
yuàn zi
चच्चर
caccara
中庭 / 墀 / 庭 / 庭院 / 院 / 院子 /

院
yuàn
चच्चर
caccara
中庭 / 墀 / 庭 / 庭院 / 院 / 院子 /

陣
zhèn
अभिमुख
abhimukha
前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前邊 / 前部 / 前面 / 向 / 正面 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 /
पमुख
pamukha
主要的 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 觜 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /
陣營
zhèn yíng
खन्धावार
khandhāvāra
安营 / 營 / 砦 / 营 / 陣營 / 集中營 / 露營 /
陣線
zhèn xiàn

陣營
zhèn yíng
खन्धावार
khandhāvāra
安营 / 營 / 砦 / 营 / 陣營 / 集中營 / 露營 /
陣線
zhèn xiàn
अभिमुख
abhimukha
前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前邊 / 前部 / 前面 / 向 / 正面 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 /
पमुख
pamukha
主要的 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 觜 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

隕石
yǔn shí
उक्का
ukkā
喷灯 / 流星 / 火把 / 火炬 / 炬 / 燭 / 隕石 / 隕星 /
उप्पात
uppāta
流星 / 隕石 / 隕星 /
險
xiǎn

परिस्सय
parissaya
冒 / 危 / 危險 / 危險物 / 危險 / 危險性 / 威胁 / 当儿 / 险 / 險 / 風險 / 风险 / 麻煩 /

陪伴
péi bàn
परिवार
parivāra
陔
zōu
कण्ण
kaṇṇa
外耳 / 楞 / 耳 / 耳朵 / 耳朵 / 街角 / 角 / 角度 / 角落 / 转角 / 陔 / 隅 /
कोण
koṅa
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 終結 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 迨 / 陔 / 隅 / 鞠躬 /

陰影
yīn yǐng
छाया
chāyā
影 / 影子 / 暗影 / 肖像 / 荫 / 阴影 / 陰影 /

陰暗
yīn àn
कण्ह
kaṇha
乌 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 恶 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 淄 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪恶 / 邪恶的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
कालुसिय
kālusiya
垢 / 污 / 污垢 / 泥 / 秽 / 陰暗 /

काळ
kāla
乌 / 冥 / 变黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 淄 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
तिमिर
timira
乌 / 冥 / 幽暗 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黧 /
तिमिस
timisa
乌 / 冥 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黧 /

陳述
chén shù
अपदेस
apadesa
动机 / 原因 / 因 / 声明 / 声明书 / 情理 / 故 / 理 / 理性 / 理由 / 由 / 緣故 / 聲明 / 說法 / 说法 / 道理 / 陈述 / 陳述 /

陶工
táo gōng
कुलाल
kuālāla

陷阱
xiàn jǐng
ओपात
opāta
पास
pāsa
投 / 羅網 / 陷阱 /
बाधन
bādhana
妨害 / 捕捉 / 痛苦 / 陷阱 /

陸
lù
थल
thala
國土 / 土地 / 土地 / 地 / 地 / 地上 / 地皮 / 地皮 / 地面 / 地面 / 接地 / 接地 / 陆 / 陆地 / 陸 / 陸地 /

陸地
lù de
थल
thala
國土 / 土地 / 土地 / 地 / 地 / 地上 / 地皮 / 地皮 / 地面 / 地面 / 接地 / 接地 / 陆 / 陆地 / 陸 / 陸地 /

陸軍
lù jūn
अनीक
anīka
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /
चम्
camū
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /
धजिनी
dhajinī
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /

बल
bala
军 / 军队 / 霧 / 力 / 力气 / 力氣 / 力量 / 功 / 功率 / 功率 / 势力 / 動力 / 勢力 / 大权 / 大權 / 大群 / 大軍 / 威 / 威力 / 实力 / 羣 / 強國 / 强权 / 斷電 / 权力 / 權力 / 武力 / 精力 / 能力 / 要塞 / 軍隊 / 逼 / 逼迫 / 部队 / 陸軍 /
बलकाय
balakāya
军 / 军队 / 大群 / 大軍 / 軍隊 / 部队 / 陸軍 /

陽
yáng
अक्क
akka
周日 / 太阳 / 太陽 / 晒 / 曬 / 阳 / 陽 /
आदिच्च
ādicca
周日 / 太阳 / 太陽 / 晒 / 曬 / 阳 / 陽 /
भानु
bhānu
亮光 / 光 / 光線 / 周日 / 太阳 / 太陽 / 對光 / 晒 / 曬 / 淡 / 淡淡 / 清淡 / 灯 / 燈 / 燈光 / 發光 / 輕 / 輕便 / 轻 / 阳 / 陽 /

陽光
yáng guāng
आतप
ātapa
隅
yú
कण्ण
kaṇṇa
外耳 / 楞 / 耳 / 耳朵 / 耳朵 / 街角 / 角 / 角度 / 角落 / 转角 / 陬 / 隅 /
कोण
koṇa
下場 / 告終 / 完結 / 完结 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 结束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陬 / 隅 / 鞠躬 /

隊
duì
गण
gaṇa
一群 / 人潮 / 人群 / 众 / 擁擠 / 支部 / 眾 / 組 / 群 / 隊 /

階段
jiē duàn
भूमि
bhūmi
上台 / 區域 / 土 / 土地 / 土地 / 土壤 / 地 / 地 / 地上 / 地球 / 地球 / 地皮 / 地线 / 地面 / 地面 / 大地 / 大地 / 平面 / 接地 / 接地 / 期 / 泥土 / 登台 / 舞台 / 阶段 / 階段 /

隱
yǐn
छन्न
channa
पटिच्छन्न
paṭicchanna

隕星
yǔn xīng
उक्का
ukkā
噴灯 / 流星 / 火把 / 火炬 / 炬 / 燭 / 隕石 / 隕星 /
उप्पात
uppāta
流星 / 隕石 / 隕星 /

隗
wěi
उळार
uḷāra
峨 / 崧 / 嵩 / 杰出 / 矗 / 穹 / 隗 / 高尚 / 高的 / 高貴 /

隨從
suí cóng
अनुचर
anucara
अन्तेवासिक
antevāsika
學生 / 隨從 /
अन्तेवारी
antevāsī
學生 / 隨從 /
अनुयायी
anuyāyī
किङ्कर
kiṅkara

障礙
zhàng ài
अन्तराय
antarāya
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 当儿 / 障礙 / 障礙 /
पपञ्च
papañca
妄想 / 妨礙 / 幻想 / 障礙 / 障礙 /
परिपन्थ
paripantha
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 当儿 / 障礙 / 障礙 /

障礙
zhàng ài
अन्तराय
antarāya
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 当儿 / 障礙 / 障礙 /
आवरण
āvaraṇa
屏 / 屏幕 / 屏風 / 棒 / 銀幕 / 關閉 / 障礙 /
पपञ्च
papañca
妄想 / 妨礙 / 幻想 / 障礙 / 障礙 /
परिपन्थ
paripantha
危 / 危險 / 危險 / 威胁 / 当儿 / 障礙 / 障礙 /

隱
sui
उम्मग्ग
ummagga
地道 / 地道 / 隧 / 隧道 /

隧
sui
उम्मग्ग
ummagga
地道 / 地道 / 隧 / 隧道 /

隨從
suí cóng
अनुचर
anucara
अन्तेवासिक
antevāsika
學生 / 隨從 /
अन्तेवारी
antevāsī
學生 / 隨從 /
अनुयायी
anuyāyī
किङ्कर
kiṅkara

險
xiǎn
परिस्सय
parissaya
冒 / 危 / 危險 / 危險物 / 危險 / 危險性 / 威胁 / 当儿 / 险 / 險 / 風險 / 风险 / 麻煩 /

隰
xí
अधम
adhama
低 / 低下 / 低劣的 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 卑劣 / 鄙 / 鄙吝 / 隰 /
अवच
avaca
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隰 /
ओरक
oraka
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隰 /

छव
chava
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隰 /
निकिङ्
nikiṅṭha
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隰 /

नीच
nīca
低 / 低下 / 低沉 / 低的 / 低級 / 低落 / 卑 / 卑下 / 鄙 / 隰 /

隱秘
yǐn mì
गुय्ह
guyha
祕 / 神秘 / 秘 / 秘密 / 隱秘 /

隱蔽
yǐn bì
पटिच्छादक
paṭicchādaka
पटिच्छादी
paṭicchādī

隻
zhī
एव
eva
仅 / 仅仅 / 但 / 但是 / 僅 / 僅僅 / 只 / 只是 / 只有 / 可是 / 唯 / 唯一 / 徒 / 惟 / 惟一 / 才 / 止 / 然而 / 独 / 祇 / 祇 / 纔 / 隻 /

難
nán
किच्च
kiच्cha
吃力 / 困难 / 困難 / 屯 / 為難 / 痛苦 / 痛苦的 / 艰 / 艱難 / 蹇 / 难 / 難 / 難以 / 難度 /

雀
què
खग
khaga
雀 / 鳥 / 鸟 /
द्विज
dvija
牙 / 牙齒 / 牙齿 / 雀 / 鳥 / 鸟 / 齒 / 齿 /
दिज
dija
雀 / 鳥 / 鸟 /

雄
xióng
पुम
puma
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男的 / 雄 / 雄性 / 雄的 /
पुरिस
purisa
人 / 人士 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男性的 / 男的 / 者 / 雄 / 雄性 / 雄的 /

雄性
xióng xìng
पुम
puma
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男的 / 雄 / 雄性 / 雄的 /
पुरिस
purisa
人 / 人士 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男性的 / 男的 / 者 / 雄 / 雄性 / 雄的 /

雄的
xióng de
पुम
puma
人 / 夫 / 夫 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男的 / 雄 / 雄性 / 雄的 /
पुरिस
purisa
人 / 人士 / 夫 / 夫 / 成年男子 / 曼 / 牡 / 男 / 男人 / 男子 / 男子漢 / 男性 / 男性的 / 男的 / 者 / 雄 / 雄性 / 雄的 /

集中
jí zhōng
एकोदिभाव
ekodibhāva

集中營
jí zhōng yíng
खन्धावार
khandhāvāra
安营 / 營 / 砦 / 营 / 陣營 / 集中營 / 露營 /

集團
jí tuán
निकाय
nikāya
一群 / 团 / 团体 / 團 / 團體 / 宗派 / 小組 / 收集 / 教派 / 派 / 派系 / 組 / 组 / 群 / 群體 / 集團 /

集市
jí shì
आपण
āpaṇa
商場 / 市 / 市场 / 市場 / 市集 / 肆 / 销售 / 集市 /

集會
jí huì
परिसा
parisā
会议 / 協會 / 集會 /

雇用
gù yòng
उपयोग
upayoga
受雇 / 應用 / 申請 / 申請書 / 連接 / 雇用 /

雕像
diāo xiàng
पटिबिम्ब
paṭibimba
偶 / 像 / 副本 / 印像 / 反映 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /

पटिमा
paṭimā
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /
बिम्ब
bimba
偶 / 像 / 印像 / 图像 / 图片 / 圖像 / 形像 / 形象 / 影像 / 心像 / 心想 / 想像 / 映像 / 相似的事物 / 肖像 / 雕像 /

雙
shuāng
दुक
duka

離開

lí kāi
अपक्कम
apakkama
निक्खम
nikkhama
निग्गम
niggama
出去 / 結果 / 離開 /
निस्सरण
nissaraṇa
外出 / 逃脫 / 離開 /
पक्कम
pakkama

難
nán
किच्छ
kiccha
吃力 / 困难 / 困難 / 屯 / 為難 / 痛苦 / 痛苦的 / 艰 / 艱難 / 蹇 / 难 / 難 / 難以 / 難度 /

難以
nán yǐ
किच्छ
kiccha
吃力 / 困难 / 困難 / 屯 / 為難 / 痛苦 / 痛苦的 / 艰 / 艱難 / 蹇 / 难 / 難 / 難以 / 難度 /

難度
nán dù
कसिर
kasira
困难 / 困難 / 悲慘 / 蹇 / 難度 / 麻煩 /
किच्छ
kiccha
吃力 / 困难 / 困難 / 屯 / 為難 / 痛苦 / 痛苦的 / 艰 / 艱難 / 蹇 / 难 / 難 / 難以 / 難度 /

難纏
nán chán
थद्द
thaddha
使勁 / 僵 / 僵硬 / 強硬 / 強硬 / 強硬的 / 生硬 / 硬 / 硬朗 / 硬殼 / 硬的 / 艱苦 / 辛 / 辛苦 / 難纏 / 韧 /

難聞
nán wén
अप्पिय
appiya
不愉快 / 不愉快的 / 難聞 /

雨
yǔ
मेघ
megha
下雨 / 云 / 雨 / 雨天 / 雲 /

雨天
yǔ tiān
मेघ
megha
下雨 / 云 / 雨 / 雨天 / 雲 /

雲
yún
अब्भ
abbha
云 / 天 / 天界 / 天空 / 雲 / 雲霄 /
मेघ
megha
下雨 / 云 / 雨 / 雨天 / 雲 /

電
báo
करका
karakā
冰雹 / 雹 / 雹子 /

雹子
báo zi
करका
karakā
冰雹 / 雹 / 雹子 /

雲霄
yún xiāo
अघ
agha
不幸 / 天 / 天界 / 天空 / 疼 / 疼痛 / 痛 / 痛楚 / 痛楚 / 痛苦 / 罪 / 罪惡 / 罪過 / 苦痛 / 雲霄 /
अन्तळिक्ख
antaḷikkha
天 / 天界 / 天空 / 雲霄 /

अब्भ
abbha
云 / 天 / 天界 / 天空 / 雲 / 雲霄 /
अम्बर
ambara
佈 / 天 / 天界 / 天空 / 布 / 布帛菽粟 / 布料 / 桌布 / 衣料 / 雲霄 /

आकास
ākāsa
天 / 天界 / 天空 / 空地 / 空地 / 空白 / 空間 / 空間 / 雲霄 /
ख
kha
天 / 天界 / 天空 / 雲霄 /
देव
deva

零售商
líng shòu shāng
आपणिक
āpaṇika
店主 / 零售商 /
零头
líng tóu
अवसेस
avasesa

雷
léi
आकर
ākara
我的 / 矿 / 矿山 / 礦 / 雷 /
雷霆
léi tíng
असनि
asani
雷霆 / 霹靂 /

雹
báo
करका
karakā
冰雹 / 雹 / 雹子 /
雹子
báo zi
करका
karakā
冰雹 / 雹 / 雹子 /

雷動
zhèn dòng
खोभ
khobha
休克 / 惊 / 激動 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震驚 / 驚 / 驚恐 /
चाल
cāla
休克 / 惊 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震驚 / 驚 / 驚恐 /
震动
zhèn dòng
खोभ
khobha
休克 / 惊 / 激動 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震驚 / 驚 / 驚恐 /
चाल
cāla
休克 / 惊 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震驚 / 驚 / 驚恐 /

雹
báo
करका
karakā
冰雹 / 雹 / 雹子 /
雹子
báo zi
करका
karakā
冰雹 / 雹 / 雹子 /

需
xū
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 谛 / 财富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /
需要
xū yào
अत्थ
attha
使用 / 利用 / 含义 / 含意 / 含義 / 增益 / 宗旨 / 客观 / 寓意 / 必要 / 必需品 / 意 / 意思 / 意義 / 施用 / 有必要 / 有道 / 物 / 物件 / 用 / 用法 / 用途 / 目标 / 破壞 / 福利 / 福祉 / 缺乏 / 裨益 / 要有 / 要求 / 谛 / 财富 / 财富 / 运用 / 運用 / 需 / 需要 /
आलय
ālaya
住所 / 需要 /

霄
xiāo
दिव
diva
上天 / 天 / 天堂 / 天意 / 天空 / 极乐 / 蒼天 / 霄 /
नाक
nāka
上天 / 天 / 天堂 / 天意 / 天空 / 极乐 / 蒼天 / 霄 /

震
zhèn
खोभ
khobha
休克 / 惊 / 激動 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震驚 / 驚 / 驚恐 /
चाल
cāla
休克 / 惊 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震驚 / 驚 / 驚恐 /
震動
zhèn dòng
खोभ
khobha
休克 / 惊 / 激動 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震驚 / 驚 / 驚恐 /
चाल
cāla
休克 / 惊 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震驚 / 驚 / 驚恐 /

霄
xiāo
दिव
diva
上天 / 天 / 天堂 / 天意 / 天空 / 极乐 / 蒼天 / 霄 /
नाक
nāka
上天 / 天 / 天堂 / 天意 / 天空 / 极乐 / 蒼天 / 霄 /

雷
léi
आकर
ākara
我的 / 矿 / 矿山 / 礦 / 雷 /
雷霆
léi tíng
असनि
asani
雷霆 / 霹靂 /

露
lù
उस्साव
ussāva
露 / 露水 / 露珠 /
तुहिन
tuhina
露 / 露水 / 露珠 /

露水
lù shuǐ
उस्साव
ussāva
露 / 露水 / 露珠 /
तुहिन
tuhina
露 / 露水 / 露珠 /
露珠
lù zhū
उस्साव
ussāva
露 / 露水 / 露珠 /
तुहिन
tuhina
露 / 露水 / 露珠 /

震動
zhèn dòng
खोभ
khobha
休克 / 惊 / 激動 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震驚 / 驚 / 驚恐 /
चाल
cāla
休克 / 惊 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震驚 / 驚 / 驚恐 /

震撼
zhèn hàn
खोभ
khobha
休克 / 惊 / 激動 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震驚 / 驚 / 驚恐 /
चाल
cāla
休克 / 惊 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震驚 / 驚 / 驚恐 /
震驚
zhèn jīng
खोभ
khobha
休克 / 惊 / 激動 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震驚 / 驚 / 驚恐 /
चाल
cāla
休克 / 惊 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震驚 / 驚 / 驚恐 /

露
lù
उस्साव
ussāva
露 / 露水 / 露珠 /
तुहिन
tuhina
露 / 露水 / 露珠 /

露
lù
उस्साव
ussāva
露 / 露水 / 露珠 /
तुहिन
tuhina
露 / 露水 / 露珠 /

露
lù
उस्साव
ussāva
露 / 露水 / 露珠 /
तुहिन
tuhina
露 / 露水 / 露珠 /

露
lù
उस्साव
ussāva
露 / 露水 / 露珠 /
तुहिन
tuhina
露 / 露水 / 露珠 /

露
lù
उस्साव
ussāva
露 / 露水 / 露珠 /
तुहिन
tuhina
露 / 露水 / 露珠 /

露
lù
उस्साव
ussāva
露 / 露水 / 露珠 /
तुहिन
tuhina
露 / 露水 / 露珠 /

露營
lù yíng

खन्धावार
khandhāvāra

安营 / 營 / 砦 / 营 / 陣營 / 集中營 / 露營 /

霹靂
pī lì

असनि
asani

雷霆 / 霹靂 /

青色
qīng sè

नील
nīla

沧 / 湛藍 / 滄 / 碧 / 藍 / 藍色 / 藍 / 藍色 / 青色 /

青草
qīng cǎo

तिण
tiṇa

芳草 / 草 / 青草 /

青蛙
qīng wā

भेक
bheka

蛙 / 蛤 / 蛤蟆 / 蟾蜍 / 辮叉 / 青蛙 /

靜脉
jìng mài

धमनि
dhamani

叶脉 / 血管 / 靜脉 / 靜脈 /

靜
jìng

तुम्ही
tuṃhī

沈默的 / 靜 / 默默地 /

靜脈
jìng mài

धमनि
dhamani

叶脉 / 血管 / 靜脉 / 靜脈 /

非常
fēi cháng

अच्चन्त
accanta

極端 / 永久 / 永久的 / 過世 / 非常 /

अति
ati

不勝 / 不勝 / 十分 / 大 / 太 / 很 / 狠 / 甚 / 甚 / 都很 / 非常 /
अतिरेक
atireka

過度 / 非常 /

अतिरिव
atiriva

अतीव
aṭīva

多 / 非常 /

非常地
fēi cháng dì

अतिसय
atisaya

富足 / 非常地 /

बाव्ह
bāḷha

很多的 / 非常地 /
भुस
bhusa

外殼 / 常常 / 很多 / 非常地 / 頻繁 /

भिय्यो
bhiyyo

多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /
भिय्योसो
bhiyyoso

多 / 多的 / 更 / 更加 / 更多 / 更多的 / 更大的 / 更好 / 越來越 / 越來越多 / 非常地 /

非常多
fēi cháng duō

अनप्पक
anappaka

不少 / 多多 / 好多 / 很多 / 許多 / 諸多 / 许多 / 重要的 / 非常多 /

बहु
bahu

不少 / 充分 / 多多 / 好多 / 很多 / 許多 / 諸多 / 许多 / 非常多 /
बहुतर
bahutara

更 / 更加 / 更多 / 更好 / 许多 / 越來越 / 越來越多 / 非常多 /

非常害怕
fēi cháng hài pà

भय
bhaya

可怕的 / 害怕 / 怕 / 忧 / 恐 / 恐怖 / 恐怖的 / 恐惧 / 恐懼 / 慄 / 惶恐 / 懼 / 畏 / 畏懼 / 虞 / 非常害怕 /

非常的
fēi cháng de

अधिमत्त
adhimatta

太多 / 過度 / 非常的 /

非永久的
fēi yǒng jiǔ de

अद्दुव
addhuva

靠近
kào jìn

उपकट्ट
upakaṭṭha

接近的 / 汜 / 近 / 近乎 / 近乎 / 靠近 /
उपन्तिक
upantika

几乎 / 差不多 / 差不多 / 汜 / 近 / 近乎 / 近乎 / 鄰近 / 靠近 /
उपनिस्साय
upanissāya

汜 / 近 / 近乎 / 近乎 / 附近 / 靠近 /
उपसङ्कमन
upasaṅkamaṇa

面
miàn

आनन
ānana

口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 嘴 / 面 /
पिट्ठ
piṭṭha

后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 表面 / 走回 / 退后 / 面 / 麵 /

面前
miàn qián

पुरे
pure

之前 / 從前 / 此前 / 面前 /
पुरतो
purato

之前 / 在前 / 從前 / 此前 / 稅前 / 面前 /

面向
miàn xiàng

मुख
mukha

入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 嘴 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

面子
miàn zi

मुख
mukha

入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 嘴 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

面孔
miàn kǒng

मुख
mukha

入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 嘴 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

面孔
miàn kǒng

मुख
mukha

入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 嘴 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

面容
miàn róng

मुख
mukha

入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 嘴 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

面對
miàn duì

मुख
mukha

入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 嘴 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

面目
miàn mù

मुख
mukha

入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 嘴 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

面臨
miàn lín

मुख
mukha

入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 嘴 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

面貌
miàn mào

आकार
ākāra

亮相 / 出場 / 境界 / 外表 / 外观 / 外貌 / 容貌 / 情況 / 様子 / 模樣 / 様子 / 相貌 / 色 / 貌 / 面貌 /

革
gé

चम्म
camma

皮 / 皮的 / 皮肤 / 皮膚 / 皮革 / 肌膚 / 肤 / 革 /

鞋底
xié dǐ

केवल
kevala

仅仅 / 全部 / 全部的 / 只有 / 唯 / 唯一 / 囿 / 孤 / 完全 / 总体 / 惟 / 整 / 整个 / 整個 / 整數 / 整整 / 絕對 / 绝对 / 通通 / 鞋底 /

鞞
qiào

कोस
kosa

儲藏室 / 庫房 / 鞞 /
कोसी
kosī

鞠躬
jū gōng

इस्सास
issāsa

射手 / 弓 / 船首 / 躬 / 鞠躬 /
कोण
koṇa

下場 / 告終 / 完結 / 完结 / 底 / 弓 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 楞 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 船首 / 街角 / 角落 / 躬 / 转角 / 道 / 陔 / 隅 / 鞠躬 /
--

चाप
cāpa

弓 / 船首 / 躬 / 鞠躬 /

धनु
dhanu

弓 / 船首 / 躬 / 鞠躬 /
पणाम
pañāma

崇拜 / 鞠躬 /

韧
rèn

थद्द
thaddha

使勁 / 僵 / 僵硬 / 強硬 / 强硬 / 强硬的 / 生硬 / 硬 / 硬朗 / 硬殼 / 硬的 / 艱苦 / 辛 / 辛苦 / 難纏 / 韧 /

音
yīn

गद
gada

作響 / 健全 / 呕心 / 嘯 / 声 / 声音 / 恙 / 有聲 / 演講 / 疾 / 疾病 / 病 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鸣 /

घोस
ghosa

作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嚷 / 声 / 声音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鸣 /

धनित
dhanita

作響 / 健全 / 嘯 / 声 / 声音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鸣 /

निन्नाद
ninnāda

作響 / 健全 / 嘯 / 声 / 声音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鸣 /

音樂
yīn lè

ताळ
tāḷa

乐 / 关键 / 樂 / 要害 / 譜 / 谱 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 / 音乐 / 音樂 /

音乐家
yīn lè jiā

गन्धर्व
gandhabba

音乐家 / 音樂家 /

音信
yīn xìn

पवत्ति
pavatti

事件 / 事端 / 入射 / 新聞 / 新闻 / 消息 / 消息 / 發生 / 訊 / 讯 / 音信 /

音效
yīn xiào

गद
gada

作響 / 健全 / 呕心 / 嘔 / 声 / 声音 / 恙 / 有聲 / 演講 / 疾 / 疾病 / 病 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

घोस
ghosa

作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嘍 / 声 / 声音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

धनित
dhanita

作響 / 健全 / 嘯 / 声 / 声音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

音樂
yīn lè

ताल
tāla

乐 / 关键 / 樂 / 要害 / 譜 / 谱 / 鍵 / 鎖上 / 鑰 / 鑰匙 / 钥 / 钥匙 / 钥匙 / 键 / 關鍵 / 音乐 / 音樂 /

音樂家
yīn lè jiā

गन्धर्व
gandhabba

音節
yīn jié

अक्खर
akkhara

信 / 信件 / 函 / 字母 / 音節 /
yīn jié

व्यञ्जन
byañjana

子音 / 辅音 / 音节 /

音響
yīn xiǎng

गद
gada

作響 / 健全 / 呕心 / 嘔 / 声 / 声音 / 恙 / 有聲 / 演講 / 疾 / 疾病 / 病 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

घोस
ghosa

作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嘍 / 声 / 声音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

धनित
dhanita

作響 / 健全 / 嘯 / 声 / 声音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

響聲
xiǎng shēng

गद
gada

作響 / 健全 / 呕心 / 嘔 / 声 / 声音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嘍 / 声 / 声音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
निन्नाद
ninnāda

घोस
ghosa

作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嘍 / 声 / 声音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

धनित
dhanita

作響 / 健全 / 嘯 / 声 / 声音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

निन्नाद
ninnāda

作響 / 健全 / 嘯 / 声 / 声音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

頂
dīng

अग्ग
agga

一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 结束 / 遑 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 首 / 首先 /

頂尖
dīng jiān

अग्ग
agga

一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 结束 / 遑 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 首 / 首先 /
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 结束 / 遑 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 高峰 /
頂端
dīng fēng

頂端
dīng duān

अग्ग
agga

一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 结束 / 遑 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 首 / 首先 /

अन्त
anta

下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 结束 / 遑 / 頂端 /
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 球门 / 盡頭 / 目标 / 目標 / 目的 / 端 / 端上 / 終 / 終止 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 结束 / 遑 / 頂端 /
कूट
kūta

上端 / 冈 / 坎 / 尖峰 / 山脊 / 山脊 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
上端 / 冈 / 坎 / 尖峰 / 山脊 / 山脊 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
पिट्ठि
pitṭhi

上端 / 后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 尖峰 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 走回 / 退后 / 頂端 / 頂端 /

順序
shùn xù

अनुक्कम
anukkama

令 / 命令 / 序 / 序列 / 承 / 排序 / 旨意 / 檄 / 次序 / 秩序 / 程 / 系列 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 / 順序 /
令 / 命令 / 序 / 序列 / 承 / 排序 / 旨意 / 檄 / 次序 / 秩序 / 程 / 系列 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 / 順序 /
आनुपुब्बी
ānupubbī

令 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 /
令 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 /
कम
kama

一步 / 命令 / 序 / 措施 / 方式 / 方法 / 模式 / 步 / 步子 / 步驟 / 狀態 / 脚步 / 舉止 / 训令 / 進程 / 陔 / 順序 / 順序 /

पटिपाटि
paṭipāṭi

令 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 /
令 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 /
परियाय
pariyāya

令 / 序 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 轉動 / 順序 / 順序 /
令 / 序 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 轉動 / 順序 / 順序 /
順從
shùn cóng

अनुवत्तन
anuvattana

服从 / 服從 / 順從 /

頌
sòng

गान
gāna

唱歌 / 嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌唱 / 歌曲 / 歌曲 / 歌聲 / 頌 /

गीत
gīta

唱歌 / 嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌唱 / 歌曲 / 歌曲 / 歌聲 / 頌 /

गीतिका
gītikā

嵩 / 曲 / 曲 / 曲子 / 歌 / 歌曲 / 歌曲 / 頌 /

預兆
yù zhào

निमित्त
nimitta

兆 / 兆头 / 先兆 / 前兆 / 原因 / 因 / 因素 / 引起 / 徵兆 / 情理 / 故 / 标记 / 理 / 理由 / 由 / 緣故 / 迹象 / 道理 / 預兆 /

預先
yù xiān

पटिगच्च
paṭigacca

預定
yù dìng

पोत्थक
potthaka

书 / 书籍 / 冊 / 冊子 / 册 / 書 / 書本 / 本子 / 簿子 / 著作 / 著作 / 預定 /

預防
yù fáng

निवारण
nivāraṇa

擋住 / 防范 / 預防 / 預防 /
擋住 / 防范 / 預防 / 預防 /
निसेध
nisedha

取締 / 抑制 / 班固 / 禁 / 禁令 / 禁止 / 防范 / 預防 / 預防 /

पटिसेध
paṭisedha

禁令 / 禁止 / 防止 / 預防 /
禁令 / 禁止 / 防止 / 預防 /
領
lǐng

अस्स
assa

領 / 馬 / 马 / 驭 /
領 / 馬 / 马 / 驭 /
領主
lǐng zhǔ

अधिप
adhipa

主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /

अधिपति
adhipati

主 / 主人 / 君主 / 大師 / 好手 / 尺 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 直尺 / 統治者 / 统治者 / 老爺 / 領主 /

अध्याय
ayya

主 / 主人 / 君子 / 大師 / 好手 / 尺 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 标尺 / 法師 / 紳士 / 統治者 / 老爺 / 領主 /

इस्सर
issara

主 / 主人 / 創造者 / 大師 / 好手 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 統治者 / 老爺 / 造物主 / 領主 /

पति
pati

丈夫 / 丈夫 / 主 / 主人 / 伉 / 回 / 外子 / 大師 / 夫 / 夫 / 好手 / 婿 / 師傅 / 師傅 / 師父 / 所有者 / 業主 / 法師 / 物主 / 相反 / 統治者 / 老公 / 老爺 / 逆 / 領主 /

पभू
pabhū

領域
lǐng yù

केदार
kedāra

地 / 地 / 场 / 場 / 實地 / 田 / 田地 / 田野 / 畝 / 耕地 / 野外 / 領域 / 領域 /

領導
lǐng dǎo

तिपु
tipu

領導者
lǐng dǎo zhě

परिनायक
parināyaka

領袖
lǐng xiù
नेतु
netu
水道 / 眼睛 / 眼睛 / 瞳孔 / 領袖 / नायक
nāyaka
主人 / 女主人 / 領袖 /
निय्यातु
niyyātu
पधान
padhāna
主要的 / 最初的 / 領袖 / 首席 / 魁 /
पामोक्ख
pāmokkha
主要的 / 第一的 / 領袖 / 首席 / 魁 /

頸
jǐng
कण्ठ
kaṅṭha
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /
गल
gala
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /
गीवा
gīvā
脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /

頸部
jǐng bù
कण्ठ
kaṅṭha
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /
गल
gala
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /
गीवा
gīvā
脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /

頻繁
pín fán
भुस
bhusa
外殼 / 常常 / 很多 / 非常地 / 頻繁 /

願望
yuàn wàng
अपेक्खन
apekkhana
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /
अभिलासा
abhilāsā
希望 / 愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
आसा
āsā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
आसिसना
āsimsanā
希 / 希望 / 愿望 / 指望 / 望 / 期待 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
इच्छन

इच्छन
icchana
希望 / 愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
इच्छा
icchā
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 祝 / 要求 / 願望 /
जालिनी
jālinī
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 渴求 / 要求 / 願望 /
निकामना
nikāmanā
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /
पिहायना
pihāyanā
愿望 / 期望 / 欲望 / 欲求 / 渴望 / 要求 / 願望 /

顧問
gù wèn
अनुसासक
anusāsaka

顯示
xiǎn shì
पातु
pātu
在前面 / 外表 / 顯示 /

頁
yè
दल
dala
叶 / 瓣 / 箔 / 花瓣 / 葉 / 葉子 / 页 / पट्ट
patta
叶 / 平板 / 床單 / 片 / 箔 / 繡帶 / 绷带 / 羽毛 / 葉 / 葉子 / 薄片 / 页 / पण्ण
paṅṅa
信 / 信件 / 函 / 叶 / 字母 / 箔 / 葉 / 葉子 / 页 / पण्णक
paṅṅaka
信 / 信件 / 函 / 叶 / 字母 / 箔 / 葉 / 葉子 / 页 / पत्त
patta
叶 / 床單 / 毛片 / 片 / 箔 / 羽 / 羽毛 / 翅膀 / 葉 / 葉子 / 页 / पलास
palāsa
叶 / 箔 / 葉 / 葉子 / 页 /

頂点
dǐng diǎn
अग्ग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 结束 / 迨 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 首 / 首先 /
कूट
kūṭa
上端 / 冈 / 坎 / 尖峰 / 山脊 / 山脊 / 岡 / 峙 / 峰 / 欺騙 / 突起 / 脊 / 脊 / 謊言 / 頂峰 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 高峰 /

頂端
dǐng duān
अग्ग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 结束 / 迨 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 首 / 首先 /
कूट
kūṭa
上端 / 冈 / 坎 / 尖峰 / 山脊 / 山脊 / 岡 / 峙 / 峰 / 欺騙 / 突起 / 脊 / 脊 / 謊言 / 頂峰 / 頂端 / 顶点 / 頂端 / 高峰 /

पिट्ठि
pitṭhi
上端 / 后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 尖峰 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 走回 / 退后 / 頂端 / 頂端 /

順序
shùn xù
अनुक्कम
anukkama
令 / 命令 / 序 / 序列 / 承 / 排序 / 旨意 / 檄 / 次序 / 秩序 / 程 / 系列 / 訂 / 訂單 / 订 / 順序 / 顺序 / कम
kama
一步 / 命令 / 序 / 措施 / 方式 / 方法 / 模式 / 步 / 步子 / 步驟 / 狀態 / 脚步 / 舉止 / 训令 / 進程 / 陔 / 順序 / 顺序 /
जाय
ñāya
制 / 制度 / 方法 / 模式 / 系統 / 系統 / 製 / 順序 / 體制 / 體系 / नय
naya
打算 / 方式 / 方案 / 方法 / 模式 / 策 / 策劃 / 舉止 / 計劃 / 計畫 / 计划 / 顺序 /
पकार
pakāra
方式 / 方法 / 模式 / 樣子 / 舉止 / 顺序 / परियाय
pariyāya
令 / 序 / 承 / 次序 / 秩序 / 訂 / 訂單 / 订 / 轉動 / 順序 / 顺序 /

預防
yù fáng
निवारण
nivāraṇa
擋住 / 防范 / 預防 / 预防 /
निसेध
nisedha
取締 / 抑制 / 班固 / 禁 / 禁令 / 禁止 / 防范 / 預防 / 预防 /

領域
lǐng yù
केदार
kedāra
地 / 地 / 场 / 場 / 實地 / 田 / 田地 / 田野 / 畝 / 耕地 / 野外 / 領域 / 領域 /

頸
jǐng
कण्ठ
kaṅṭha
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /
गल
gala
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /
गीवा
gīvā
脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /

頸部
jǐng bù
कण्ठ
kaṅṭha
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /
गल
gala
吭 / 吭 / 咙 / 咽 / 咽 / 咽喉 / 咽喉 / 喉 / 喉咙 / 喉嚨 / 喉头 / 嗓 / 嗓子 / 脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /
गीवा
gīvā
脖 / 脖子 / 脰 / 頸 / 頸部 / 颈 / 颈部 /

頰
hàn
चुबु
cubuka
下巴 / 下巴 / 頰 /
顏料
yán liào
चित्त
citta
上漆 / 以為 / 图片 / 圖片 / 圖畫 / 心 / 心像 / 心思 / 心想 / 思想 / 想像 / 想法 / 想象 / 想過 / 照片 / 画 / 畫 / 精神 / 繪畫 / 胸 / 顏料 /

風
fēng
अनिल
anila
和風 / 天空 / 風 / 風大 / 风 /
पवन
pavana
和風 / 風 / 風大 / 风 /

風大
fēng dà
अनिल
anila
和風 / 天空 / 風 / 風大 / 风 /
पवन
pavana
和風 / 風 / 風大 / 风 /

風險
fēng xiǎn
परिस्सय
parissaya
冒 / 危 / 危險 / 危險物 / 危險 / 危險性 / 威胁 / 当儿 / 险 / 險 / 風險 / 风险 / 麻煩 /

风
fēng
अनिल
anila
和風 / 天空 / 風 / 風大 / 风 /
पवन
pavana
和風 / 風 / 風大 / 风 /

飢
jī
छात
chāta
餓 / 饑 / 饥 / 饥饿的 / 饿 / छातजड़त
chātajjhata
餓 / 饑 / 饥 / 饥饿的 / 饿 /

饥饿的

जि è de
छात
chāta
餓 / 饑 / 饥 / 饥饿的 / 饿 / छातजड़त
chātajjhata
餓 / 饑 / 饥 / 饥饿的 / 饿 /

饭

फ़ान
अन्न
anna
食 / 食品 / 食物 / 饭 / असन
asana
吃 / 矢 / 箭 / 食 / 食品 / 食物 / 饭 / असित
asita
食 / 食品 / 食物 / 饭 / आमिस
āmisa
利益 / 材 / 材料 / 材質 / 物质 / 物质的 / 素材 / 肉 / 肉體 / 血肉 / 誘餌 / 诱惑 / 食 / 食品 / 食物 / 餌 / 饭 / 饵 / आहार
āhāra
食 / 食品 / 食物 / 饭 / घास
ghāsa
食 / 食品 / 食物 / 饭 / भत्त
bhatta
膳 / 膳食 / 食 / 食品 / 食物 / 餐 / 饭 / भिक्खा
bhikkhā
食 / 食品 / 食物 / 饭 / भोजन
bhojana
膳 / 膳食 / 食 / 食品 / 食物 / 餐 / 饭 /

饭碗

फ़ान वॉन
कम्म
kamma
事 / 作用 / 做事 / 券 / 動作 / 勞工 / 在職 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 業 / 活兒 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 行動 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 / किच्च
kiicca
东西 / 事 / 事情 / 事物 / 值班 / 做事 / 券 / 功能 / 在職 / 外遇 / 契 / 契据 / 工 / 工作 / 工夫 / 工夫 / 役 / 手术 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 本份 / 機能 / 活兒 / 維修 / 职业 / 著作 / 著作 / 行动 / 責任 / 责任 / 起作用 / 辦事 / 饭碗 /

दक
yīn
पान
pāna
喝 / 喝了 / 好喝 / 水 / 糖浆 / 糖浆 / 飲 / 饮 / 饮料 /

饮料

यिं ल़ा़ो
पान
pāna
喝 / 喝了 / 好喝 / 水 / 糖浆 / 糖浆 / 飲 / 饮 / 饮料 /

饱

बा़ो
पुण्ण
puṇṇa
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 / परिपूर
paripūra
充分 / 充滿 / 全力 / 十足 / 贏 / 完全 / 完成 / 完整 / 完畢 / 成套 / 整 / 整整 / 毕 / 满 / 满的 / 滿 / 滿懷 / 滿載 / 畢 / 盈 / 通通 / 飽 / 饱 /

饵

ऐर
आमिस
āmisa
利益 / 材 / 材料 / 材質 / 物质 / 物质的 / 素材 / 肉 / 肉體 / 血肉 / 誘餌 / 诱惑 / 食 / 食品 / 食物 / 餌 / 饭 / 饵 / निवाप
nivāpa
誘餌 / 诱惑 / 餌 / 饵 /

饼

बिंण
पूप
pūpa
糕 / 蛋糕 / 西薄 / 餅 / 饼 / पूव
pūva
糕 / 蛋糕 / 西薄 / 餅 / 饼 /

饿

è
छात
chāta
餓 / 饑 / 饥 / 饥饿的 / 饿 / छातजड़त
chātajjhata
餓 / 饑 / 饥 / 饥饿的 / 饿 /

शुओ
अगग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 頂点 / 頂端 / 首 / 首先 / आदि
ādi
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 開始 / 首 / 首先 / पठम
paṭhama
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先前的 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 起先 / 首 / 首先 /

首先

शुओ ख़िं
अगग
agga
一次 / 上端 / 下場 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 告終 / 在先 / 完結 / 完結 / 尖峰 / 底 / 搶先 / 最初 / 最高的 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 盡頭 / 端 / 端上 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 終 / 终结 / 結束 / 道 / 頂 / 頂尖 / 頂端 / 頂点 / 頂端 / 首 / 首先 / आदि
ādi
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 開始 / 首 / 首先 / पठम
paṭhama
一次 / 乍 / 元 / 先 / 先前的 / 先在 / 原始 / 在先 / 搶先 / 最初 / 最初的 / 第一 / 第一個 / 第一名 / 第一次 / 起先 / 首 / 首先 /

首席

शुओ ख़ि
पधान
padhāna
主要的 / 最初的 / 領袖 / 首席 / 魁 / पमुख
pamukha
主要的 / 前方 / 前線 / 前線 / 前線 / 前邊 / 前部 / 前面 / 本金 / 正面 / 资本 / 跟前 / 車頭 / 陣 / 陣 / 陣線 / 首席 / 魁 / पामोक्ख
pāmokkha
主要的 / 第一的 / 領袖 / 首席 / 魁 /

首都

शुओ दूओ
ठानीय
ṭhāṇīya
大城市 / 大都市 / 都 / 都市 / 首都 /

शुओ
कुई
abbhunnata
升高 / 崇 / 昂 / 果 / 潼 / 馱 / 高 / 高位 / 高昂 / 高水平 / 高的 / उच्च
ucca
多高 / 崇 / 昂 / 果 / 潼 / 馱 / 高 / 高位 / 高大 / 高昂 / 高水平 / 高的 / तुङ्ग
tuṅga
崇 / 昂 / 果 / 潼 / 馱 / 高 / 高位 / 高昂 / 高水平 / 高的 /

香

ख़िंण
गन्ध
gandha
味道 / 嗅觉 / 气味 / 氣味 / 熏 / 香 / 香水 / 香油 /

香水

ख़िंण शुई
गन्ध
gandha
味道 / 嗅觉 / 气味 / 氣味 / 熏 / 香 / 香水 / 香油 /

香蕉

ख़िंण जिंओ
चोच
coca
芭 / 芭蕉 / 蕉 / 香蕉 /

馬

म़ा
अस्स
assa
領 / 馬 / 马 / 驭 /

馬克

म़ा क़े
अङ्क
aṅka
印子 / 标 / 標 / 標記 / 特徵 / 痕 / 記號 / 馬克 / 马克 /

馬路
mǎ lù
अञ्जस
añjasa
修路 / 小道 / 径 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 / पज्ज
pajja
修路 / 径 / 徑 / 詩 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 / पथ
patha
中 / 修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 航向 / 航線 / 课程 / 路 / 路上 / 路径 / 路線 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 量 / 馬路 / पन्थ
pantha
修路 / 办法 / 径 / 徑 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /
मग्ग
magga
修路 / 办法 / 径 / 徑 / 方法 / 路 / 路上 / 路径 / 路线 / 路途 / 轨 / 轨道 / 辦法 / 途 / 途径 / 通路 / 道 / 道路 / 馬路 /

馴服

ख़ून फ़ु
दम
dama
征服 / 抑制 / 控制 / 馴服 /

駐

ज़हु
नेवासिक
nevāsika
同住者 / 居住者 / 居民 / 駐 /

駕駛

जा़ि श़ी
पतोद
patoda
刺棒 / 棒 / 駕駛 / पाजन
pājana
刺棒 / 駕駛 /

駝

तुओ
ओट्टु
oṭṭha
唇 / 唇管 / 嘴唇 / 駝 / 駱駝 / 駝 / 駝 / 骆驼 / करभ
karabha
手腕 / 腕 / 駝 / 駱駝 / 驼 / 驼 / 骆驼 /

駱駝
luò tuo
ओट्टु
oṭṭha
唇 / 唇管 / 嘴唇 / 駝 / 駱駝 / 駝 / 駝 / 駝 / 駱駝 /
करभ
karabha
手腕 / 腕 / 駝 / 駱駝 / 駝 / 駝 / 駱駝 /

騎士
qí shì
आरोह
āroha
個兒 / 海拔 / 身高 / 騎士 / 高低 / 高度 /
आरोहक
ārohaka

騎車
qí chē
चक्क
caḱka
令 / 周期 / 命令 / 循环 / 循環 / 指令 / 指揮 / 挥 / 揮 / 毗 / 自行车 / 輪子 / 輪子 / 轆 / 轆 / 騎車 /

騙
piàn
कुह
kuha
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
कुहक
kuhaka
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
कितव
kitava
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
नेकतिक
nekatika
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /

騷動
sāo dòng
उक्कण्ठना
ukkaṅṭhanā
उल्लोल
ullola
उस्सारणा
ussāraṅā

驚
jīng
खोभ
khobha
休克 / 惊 / 激動 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震驚 / 驚 / 驚恐 /
चाल
cāla
休克 / 惊 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震驚 / 驚 / 驚恐 /

驚奇
jīng qí
अच्छरिय
acchariya
奇妙 / 奇妙的 / 驚奇 /

驚恐
jīng kǒng
खोभ
khobha
休克 / 惊 / 激動 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震驚 / 驚 / 驚恐 /
चाल
cāla
休克 / 惊 / 震 / 震动 / 震動 / 震撼 / 震驚 / 驚 / 驚恐 /

驚慌
jīng huāng
उत्तसन
uttasana
恐怖 / 驚慌 /

驢
lú
गद्रभ
gadrabha
驢 / 驴 / 驴 / 驴子 /

马
mǎ
अस्स
assa
領 / 馬 / 马 / 驭 /
马克
mǎ kè
अङ्क
aṅka
印子 / 标 / 標 / 標記 / 特徵 / 痕 / 記號 / 馬克 / 马克 /
驭
yù
अस्स
assa
領 / 馬 / 马 / 驭 /

驱逐
qū zhú
पब्बाजन
pabbājana
放逐 / 流亡 / 流刑 / 流放 / 被放逐者 / 驱逐 /

驴
lú
गद्रभ
gadrabha
驢 / 驴 / 驴 / 驴子 /
गद्रभ
gadrabha
驢 / 驴 / 驴 / 驴子 /
驴子
lú zi
गद्रभ
gadrabha
驢 / 驴 / 驴 / 驴子 /

驼
tuo
ओट्टु
oṭṭha
唇 / 唇管 / 嘴唇 / 駝 / 駱駝 / 駝 / 駝 / 駝 / 駱駝 /
ओट्टु
oṭṭha
唇 / 唇管 / 嘴唇 / 駝 / 駱駝 / 駝 / 駝 / 駝 / 駱駝 /
करभ
karabha
手腕 / 腕 / 駝 / 駱駝 / 駝 / 駝 / 駱駝 /
骄

jiāo
उन्नळ
unnala
傲慢 / 囂張 / 粗野 / 自大 / 自大的 / 自大的 / 骄 /

骆驼
luò tuó
ओट्टु
oṭṭha
唇 / 唇管 / 嘴唇 / 駝 / 駱駝 / 駝 / 駝 / 駝 / 駱駝 /
करभ
karabha
手腕 / 腕 / 駝 / 駱駝 / 駝 / 駝 / 駱駝 /

騙
piàn
कुह
kuha
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
कुहक
kuhaka
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
कितव
kitava
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /
नेकतिक
nekatika
作假 / 作弊 / 欺詐 / 欺騙 / 欺騙 / 騙 / 騙 /

骨
gǔ
अट्टि
aṭṭhi
骨 / 骨 / 骨头 / 骨頭 /
अट्टि
aṭṭhi
骨 / 骨 / 骨头 / 骨頭 /

骨头
gú tóu
अट्टि
aṭṭhi
骨 / 骨 / 骨头 / 骨頭 /

骨頭
gǔ tóu
अट्टि
aṭṭhi
骨 / 骨 / 骨头 / 骨頭 /
骰
tóu
अक्ख
akkha
擲骰子 / 骰 / 骰子 /

骰子
tóu zi
अक्ख
akkha
擲骰子 / 骰 / 骰子 /

體
tǐ
करजकाय
karajakāya
体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
कलेबर
kalebara
体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
काय
kāya
体 / 堆 / 稊 / 聚集 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
गल्ल
gatta
体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /

देह
deha
体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /
बोन्दि
bondi
体 / 身 / 身上 / 身体 / 身子 / 身體 / 體 /

體制
tǐ zhì
जाय
ñāya
制 / 制度 / 方法 / 模式 / 系統 / 系統 / 製 / 順序 / 體制 / 體系 /

體會
tǐ huì
पागुञ्जता
pāguññatā
經歷 / 經驗 / 经历 / 经验 / 見識 / 體會 / 體驗 /

體系
tǐ xì
जाय
ñāya
制 / 制度 / 方法 / 模式 / 系統 / 系統 / 製 / 順序 / 體制 / 體系 /

體諒
tǐ liàng
अनुबु
anubujjhana
理解 / 觉醒 / 認識 / 諒解 / 认识 / 认识 / 醒悟 / 體諒 /
अनुबोध
anubodha
深知 / 理解 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 體諒 /

अवबोध
avabodha
深知 / 理解 / 理解力 / 知識 / 知识 / 認識 / 諒解 / 識 / 认识 / 认识 / 识 / 识 / 體諒 /
उपट्ठान
upatṭhāna
役 / 招待 / 服侍 / 服务 / 服務 / 服役 / 理解 / 等候 / 等候 / 維修 / 認識 / 諒解 / 认识 / 认识 / 體諒 /

體面
tǐ miàn
परिहार
parihāra
保护 / 保護 / 关心 / 在乎 / 在乎 / 在意 / 威严 / 尊严 / 尊嚴 / 打理 / 料理 / 注意 / 注意力 / 注目 / 照料 / 照看 / 留心 / 留神 / 看護 / 避免 / 關心 / 關注 / 關照 / 體面 /

體驗
tǐ yàn
पागुञ्जता
pāguññatā
經歷 / 經驗 / 经历 / 经验 / 見識 / 體會 / 體驗 /

高
gāo
अब्भुन्नत
abbhunnata
升高 / 崇 / 昂 / 杲 / 潼 / 馱 / 高 / 高位 / 高昂 / 高水平 / 高的 /
उच्च
ucca
多高 / 崇 / 昂 / 杲 / 潼 / 馱 / 高 / 高位 / 高大 / 高昂 / 高水平 / 高的 /

उदार
udāra
तुङ्ग
tuṅga
崇 / 昂 / 杲 / 潼 / 馱 / 高 / 高位 / 高昂 / 高水平 / 高的 /

高位
gāo wèi
अब्भुन्नत
abbhunnata
升高 / 崇 / 昂 / 杲 / 潼 / 馱 / 高 / 高位 / 高昂 / 高水平 / 高的 /
उच्च
ucca
多高 / 崇 / 昂 / 杲 / 潼 / 馱 / 高 / 高位 / 高大 / 高昂 / 高水平 / 高的 /

तुङ्ग
tuṅga
崇 / 昂 / 杲 / 潼 / 馱 / 高 / 高位 / 高昂 / 高水平 / 高的 /

高低
gāo dī
आरोह
āroha
個兒 / 海拔 / 身高 / 騎士 / 高低 / 高度 /
उब्बेध
ubbedha
個兒 / 海拔 / 海拔高度 / 直立 / 身高 / 高低 / 高度 /

高兴
gāo xīng
आराम
ārāma
修道院 / 僧院 / 娛 / 寺院 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 高兴 /
काम
kāma
娛 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 高兴 /
तुष्टि
tuṭṭhi
喜悅 / 喜悦 / 娛 / 快感 / 愉快 / 愉悅 / 樂趣 / 欢乐 / 欢喜 / 歡喜 / 歡樂 / 禧 / 高兴 /

高兴的
gāo xīng de
अत्तमन
attamana
快乐的 / 愉快 / 高兴的 / 高興 /

高大
gāo dà
उच्च
ucca
多高 / 崇 / 昂 / 杲 / 潼 / 馗 / 高 / 高位 / 高大 / 高昂 / 高水平 / 高的 /

高尚
gāo shàng
अरिय
ariya
高尚 / 高貴 /
उळार
uḷāra
峨 / 崧 / 嵩 / 杰出 / 矗 / 穹 / 隗 / 高尚 / 高的 / 高貴 /

高峰
gāo fēng
कूट
kūṭa
上端 / 冈 / 坎 / 尖峰 / 山脊 / 山脊 / 岡 / 峙 / 峰 / 欺騙 / 突起 / 脊 / 脊 / 謊言 / 頂峰 / 頂端 / 顶点 / 顶端 / 高峰 /
शुपिका
thūpikā
尖塔 / 高峰 /
निय्यूह
niyyūha
小塔 / 高峰 /

高度
gāo dù
आरोह
āroha
個兒 / 海拔 / 身高 / 騎士 / 高低 / 高度 /
उक्कडु
ukkatṭha
उब्बेध
ubbedha
個兒 / 海拔 / 海拔高度 / 直立 / 身高 / 高低 / 高度 /

高昂
gāo áng
अब्भुन्नत
abbhunnata
升高 / 崇 / 昂 / 杲 / 潼 / 馗 / 高 / 高位 / 高昂 / 高水平 / 高的 /
उच्च
ucca
多高 / 崇 / 昂 / 杲 / 潼 / 馗 / 高 / 高位 / 高大 / 高昂 / 高水平 / 高的 /
तुङ्ग
tuṅga
崇 / 昂 / 杲 / 潼 / 馗 / 高 / 高位 / 高昂 / 高水平 / 高的 /

高明
gāo míng
कल्ल
kalla
乖 / 伶 / 伶俐 / 伶俐 / 健全的 / 健康的 / 焦 / 准备 / 妙 / 就緒 / 就緒 / 巧妙 / 巧妙的 / 弄好 / 愿 / 準備 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 /
छेक
cheka
乖 / 伶 / 伶俐 / 伶俐 / 焦 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /
दक्ख
dakkha
乖 / 伶 / 伶俐 / 伶俐 / 焦 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 棒 / 精明 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 能力 / 高明 / 麻利 /
पटु
paṭu
乖 / 伶 / 伶俐 / 俐 / 焦 / 妙 / 巧妙 / 巧妙的 / 聰 / 聰明 / 聰明的 / 聰明 / 高明 /

高水平
gāo shuǐ píng
अब्भुन्नत
abbhunnata
升高 / 崇 / 昂 / 杲 / 潼 / 馗 / 高 / 高位 / 高昂 / 高水平 / 高的 /
उच्च
ucca
多高 / 崇 / 昂 / 杲 / 潼 / 馗 / 高 / 高位 / 高大 / 高昂 / 高水平 / 高的 /
तुङ्ग
tuṅga
崇 / 昂 / 杲 / 潼 / 馗 / 高 / 高位 / 高昂 / 高水平 / 高的 /

高的
gāo de
अब्भुन्नत
abbhunnata
升高 / 崇 / 昂 / 杲 / 潼 / 馗 / 高 / 高位 / 高昂 / 高水平 / 高的 /
उच्च
ucca
多高 / 崇 / 昂 / 杲 / 潼 / 馗 / 高 / 高位 / 高大 / 高昂 / 高水平 / 高的 /
उळार
uḷāra
峨 / 崧 / 嵩 / 杰出 / 矗 / 穹 / 隗 / 高尚 / 高的 / 高貴 /
तुङ्ग
tuṅga
崇 / 昂 / 杲 / 潼 / 馗 / 高 / 高位 / 高昂 / 高水平 / 高的 /

高考
gāo kǎo
आवेसन
āvesana
入口 / 高考 /
द्वार
dvāra
入口 / 大門 / 大门 / 車門 / 門 / 門口 / 门 / 高考 /
पवेस
pavesa
入口 / 存取 / 高考 /
मुख
mukha
入口 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 口 / 嘴 / 嘴巴 / 嘴巴 / 嘴裡 / 容顏 / 最初的 / 朝向 / 正視 / 正面 / 滿臉 / 當面 / 臉 / 臉 / 臉上 / 臉部 / 臨 / 觜 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 面向 / 面子 / 面孔 / 面容 / 面對 / 面目 / 面臨 / 高考 /

高能
gāo néng
उड्डान
utṭhāna
上升 / 业 / 來歷 / 出身 / 原点 / 始源 / 工業 / 本源 / 来历 / 根源 / 業 / 活力 / 由来 / 精力 / 能源 / 能量 / 血统 / 行業 / 起源 / 高能 /
उस्सुक्क
ussukka
活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 高能 /
धिति
dhiti
决心 / 勇气 / 勇氣 / 有勇氣 / 活力 / 精力 / 胆量 / 能源 / 能量 / 膽子 / 膽量 / 高能 /
पग्गह
paggaha
供養 / 努力 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支援 / 支撐 / 活力 / 精力 / 能源 / 能量 / 舉起 / 贊助 / 高能 /

魚
yú
झस
jhasa
漁 / 釣 / 釣 / 魚 / 魚類 / 魚 /
मच्छ
maccha
漁 / 釣 / 釣 / 魚 / 魚類 / 魚 /
अरिय
ariya
高尚 / 高貴 /
उळार
uḷāra
峨 / 崧 / 嵩 / 杰出 / 矗 / 穹 / 隗 / 高尚 / 高的 / 高貴 /

高興
gāo xìng
अत्तमन
attamana
快乐的 / 愉快 / 高兴的 / 高興 /
高貴
gāo guì
अरिय
ariya
高尚 / 高貴 /
उळार
uḷāra
峨 / 崧 / 嵩 / 杰出 / 矗 / 穹 / 隗 / 高尚 / 高的 / 高貴 /

鬼
guǐ
पेत
peta
人世 / 已故的 / 幽灵 / 幽靈 / 死 / 死了 / 死去 / 死寂 / 死的 / 過世 / 鬼 / 鬼魂 /

鬼魂
guǐ hún
पेत
peta
人世 / 已故的 / 幽灵 / 幽靈 / 死 / 死了 / 死去 / 死寂 / 死的 / 過世 / 鬼 / 鬼魂 /

魁
kuí
पधान
padhāna
主要的 / 最初的 / 領袖 / 首席 / 魁 /
पमुख
pamukha
主要的 / 前方 / 前端 / 前線 / 前线 / 前邊 / 前部 / 前面 / 本金 / 正面 / 資本 / 跟前 / 車頭 / 阵 / 陣 / 陣線 / 首席 / 魁 /
पामोक्ख
pāmokkha
主要的 / 第一的 / 領袖 / 首席 / 魁 /

魔鬼
mó guǐ
पच्चामित्त
paccāmitta
仇人 / 对手 / 敌 / 敌人 / 敵 / 敵人 / 敌方 / 敵軍 / 魔鬼 /

魚
yú
झस
jhasa
漁 / 釣 / 釣 / 魚 / 魚類 / 魚 /
मच्छ
maccha
漁 / 釣 / 釣 / 魚 / 魚類 / 魚 /

魚類
yú lèi
झस
jhasa
漁 / 釣 / 釣 / 魚 / 魚類 / 魚 /
मच्छ
maccha
漁 / 釣 / 釣 / 魚 / 魚類 / 魚 /

鮮
xiān
अभिनव
abhinava
新 / 新的 / 新鮮 / 耗 / 鮮 /
अहत
ahata
新 / 新的 / 新鮮 / 耗 / 鮮 /
नूतन
nūtana
新 / 新的 / 新鮮 / 耗 / 鮮 /
नव
nava
九 / 九個 / 新 / 新的 / 新鮮 / 耗 / 鮮 /

鰻魚
mán yú
अमरा
amarā
鰻魚 / 鰻鱼 /

鱷魚
è yú
कुम्भील
kumbhīla
鱷魚 / 鱔 / 鱔鱼 /

魚
yú
झस
jhasa
漁 / 釣 / 釣 / 魚 / 魚類 / 魚 /
मच्छ
maccha
漁 / 釣 / 釣 / 魚 / 魚類 / 魚 /

鰐
è
कुम्भील
kumbhīla
鱷魚 / 鱔 / 鱔鱼 /

è yú
कुम्भील
kumbhīla
鱷魚 / 鱔 / 鱔鱼 /
鳖
biē
कच्छप
kacchapa
海龟 / 鳖 / 龜 / 龟 /

鰻魚
mán yú
अमरा
amarā
鰻魚 / 鰻鱼 /

鳥
niǎo
खग
khaga
雀 / 鳥 / 鸟 /
दिवज
dvija
牙 / 牙齒 / 牙齿 / 雀 / 鳥 / 鸟 / 齒 / 齿 /
दिज
dija
雀 / 鳥 / 鸟 /

鳥巢
niǎo cháo
कुलावक
kulāvaka
巢 / 窩 / 窠 / 窩 / 蔴 / 鳥巢 /
निड्ड
niḍḍa
巢 / 窩 / 窠 / 窩 / 蔴 / 鳥巢 /

鳴
míng
गद
gada
作響 / 健全 / 嘔心 / 嘯 / 声 / 声音 / 恙 / 有聲 / 演講 / 疾 / 疾病 / 病 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
घोस
ghosa
作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嚷 / 声 / 声音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
धनित
dhanita
作響 / 健全 / 嘯 / 声 / 声音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
निन्नाद
ninnāda
作響 / 健全 / 嘯 / 声 / 声音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

鴉
yā
अरिड्ड
ariṭṭha
不吉利的 / 乌鸦 / 烏鴉 / 鴉 / 鴉 /
काक
kāka
乌鸦 / 烏鴉 / 鴉 / 鴉 /
धङ्क
dhaṅka
乌鸦 / 烏鴉 / 鴉 / 鴉 /

鴿
gē
कपोत
kapota
鴿 / 鴿子 / 鸽 / 鸽子 /
鷹
yīng
कुलल
kulala
鸚鵡
yīng wǔ
कीर
kīra
鸚鵡 / 鸚 / 鸚 / 鸚鵡 /
鳥
niǎo
खग
khaga
雀 / 鳥 / 鸟 /
दिवज
dvija
牙 / 牙齒 / 牙齿 / 雀 / 鳥 / 鸟 / 齒 / 齿 /
दिज
dija
雀 / 鳥 / 鸟 /

雞蛋
jī dàn
अण्डक
aṇḍaka
卵 / 卵子 / 卵细胞 / 蛋 / 鸡蛋 /
鳴
míng
गद
gada
作響 / 健全 / 嘔心 / 嘯 / 声 / 声音 / 恙 / 有聲 / 演講 / 疾 / 疾病 / 病 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
घोस
ghosa
作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嚷 / 声 / 声音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
धनित
dhanita
作響 / 健全 / 嘯 / 声 / 声音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
निन्नाद
ninnāda
作響 / 健全 / 嘯 / 声 / 声音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /

麵
miàn
पिट्ठ
piṭṭha
后面 / 向后 / 回 / 回頭 / 帶回 / 手背 / 拿回 / 椅背 / 背影 / 背部 / 背面 / 表面 / 走回 / 退后 / 面 / 麵 /
麻利
má lì
दक्ख
dakka
乖 / 伶 / 伶 / 伶俐 / 俏 / 俐 / 焦 / 妙 / 聪明 / 巧妙的 / 棒 / 精明 / 聰 / 聪明 / 聪明的 / 聰明 / 能力 / 高明 / 麻利 /
麻布袋
má bù dài
पसिब्बक
pasibbaka
一袋 / 囊 / 大袋子 / 手提包 / 提包 / 旅行包 / 旅行包 / 囊 / 洗劫 / 紙袋 / 袋 / 袋子 / 錢包 / 麻布袋 / 麻袋 /

麻煩
má fán
आयास
āyāsa
उपताप
upatāpa
懊悔 / 麻煩 /
कसिर
kasira
困难 / 困難 / 悲慘 / 蹇 / 難度 / 麻煩 /
परिस्सय
parissaya
冒 / 危 / 危險 / 危險物 / 危險 / 危險性 / 威胁 / 当儿 / 險 / 險 / 風險 / 风险 / 麻煩 /
麻瘋病
má fēng bìng
कुट्ट
kuṭṭha
麻袋
má dài
पसिब्बक
pasibbaka
一袋 / 囊 / 大袋子 / 手提包 / 提包 / 旅行包 / 旅行包 / 囊 / 洗劫 / 紙袋 / 袋 / 袋子 / 錢包 / 麻布袋 / 麻袋 /
麻醉
má zuì
छम्भित्त
chambhitatta
麻雀
má què
चटक
caṭaka
麾下
huī xià
बाहु
bāhu
手臂 / 手臂 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /
बाहा
bāhā
手臂 / 手臂 / 把 / 把手 / 把柄 / 柄 / 柱 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /
भुज
bhuja
一手 / 伸手 / 到手 / 巴掌 / 巴掌 / 手 / 手臂 / 手臂 / 手邊 / 手頭 / 笔迹 / 胳膊 / 臂 / 臂 / 臂膀 / 臂膀 / 麾下 /
黃昏
huáng hūn
पदोस
padosa
傍晚 / 微明 / 暮 / 污點 / 激怒 / 缺點 / 薄暮 / 黃昏 /

黃瓜
huáng guā
इन्दवारुणि
indavāruṇi
小黃瓜 / 黃瓜 / 黃瓜 /
एळालुक
eḷāluka
小黃瓜 / 黃瓜 / 黃瓜 /
黃色
huáng sè
पीत
pīta
金色的 / 黃色 / 黃 / 黃色 /
पीतक
pītaka
金色的 / 黃色 / 黃 / 黃色 /
黃金
huáng jīn
कञ्चन
kañcana
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /
कनक
kanaka
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /
कम्बु
kambu
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /
चामीकर
cāmīkara
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /
जातरूप
jātarūpa
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /
तपनीय
tapanīya
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /
黃
huáng
पीत
pīta
金色的 / 黃色 / 黃 / 黃色 /
पीतक
pītaka
金色的 / 黃色 / 黃 / 黃色 /
黃昏
huáng hūn
निसा
nisā
入夜 / 夜 / 夜幕 / 夜晚 / 夜游 / 夜行 / 宵 / 宿 / 整夜 / 晚 / 晚上 / 晦 / 每晚 / 黃昏 / 黑夜 /

鳥
niǎo
खग
khaga
雀 / 鳥 / 鸟 /
दिवज
dvija
牙 / 牙齒 / 牙齿 / 雀 / 鳥 / 鸟 / 齒 / 齿 /
दिज
dija
雀 / 鳥 / 鸟 /
鳥巢
niǎo cháo
कुलावक
kulāvaka
巢 / 窩 / 窠 / 窩 / 蔴 / 鳥巢 /
निड्ड
niḍḍa
巢 / 窩 / 窠 / 窩 / 蔴 / 鳥巢 /
鳴
míng
गद
gada
作響 / 健全 / 嘔心 / 嘯 / 声 / 声音 / 恙 / 有聲 / 演講 / 疾 / 疾病 / 病 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
घोस
ghosa
作響 / 健全 / 叫喊 / 吆 / 呼喊 / 咋 / 喊 / 喊叫 / 嘯 / 嚷 / 声 / 声音 / 大叫 / 大喊 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
धनित
dhanita
作響 / 健全 / 嘯 / 声 / 声音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
निन्नाद
ninnāda
作響 / 健全 / 嘯 / 声 / 声音 / 有聲 / 聲 / 聲音 / 聲響 / 聽起來 / 音 / 音效 / 音響 / 響聲 / 鳴 / 鳴 /
鴉
yā
अरिड्ड
ariṭṭha
不吉利的 / 乌鸦 / 烏鴉 / 鴉 / 鴉 /
काक
kāka
乌鸦 / 烏鴉 / 鴉 / 鴉 /
धङ्क
dhaṅka
乌鸦 / 烏鴉 / 鴉 / 鴉 /
鴿
gē
कपोत
kapota
鴿 / 鴿子 / 鸽 / 鸽子 /

黃瓜
huáng guā
इन्दवारुणि
indavāruṇi
小黃瓜 / 黃瓜 / 黃瓜 /
एळालुक
eḷāluka
小黃瓜 / 黃瓜 / 黃瓜 /

黃疸
huáng dǎn
पण्डुरोग
paṇḍuroga
疸 / 黃疸 /

黃色
huáng sè
पीत
pīta
金色的 / 黃色 / 黃 / 黃色 /
पीतक
pītaka
金色的 / 黃色 / 黃 / 黃色 /

黃金
huáng jīn
कञ्चन
kañcana
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /
कनक
kanaka
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /
कम्बु
kambu
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /
चामीकर
cāmīkara
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /
जातरूप
jātarūpa
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /
तपनीय
tapanīya
純金 / 金 / 金子 / 金字 / 金幣 / 金心 / 金色 / 黃金 / 黃金 /

黎
lǐ
कण्ह
kaṇha
烏 / 冥 / 變黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 滯 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
काळ
kāḷa
烏 / 冥 / 變黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 滯 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
तिमिर
timira
烏 / 冥 / 幽暗 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
तिमिस
timisa
烏 / 冥 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
黑夜
hēi yè
निसा
nisā
入夜 / 夜 / 夜幕 / 夜晚 / 夜游 / 夜行 / 宵 / 宿 / 整夜 / 晚 / 晚上 / 晦 / 每晚 / 黃昏 / 黑夜 /
काळक
kāḷaka
變黑 / 污点 / 污點 / 滯 / 玄 / 皂 / 黎 / 黑 / 黑的 / 黑色 / 黝 /

黑
hēi
अन्धकार
andhakāra
困惑 / 迷亂 / 黑 / 黑暗 /
कण्ह
kaṇha
烏 / 冥 / 變黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 滯 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
काळ
kāḷa
烏 / 冥 / 變黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 滯 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
कालक
kāḷaka
變黑 / 污点 / 污點 / 滯 / 玄 / 皂 / 黎 / 黑 / 黑的 / 黑色 / 黝 /
तम
tama
不知 / 幽暗 / 无知 / 無知 / 黑 / 黑暗 /
तिमिर
timira
烏 / 冥 / 幽暗 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
तिमिस
timisa
烏 / 冥 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /

黑乎乎
hēi hu hu
कण्ह
kaṇha
烏 / 冥 / 變黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 滯 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
काळ
kāḷa
烏 / 冥 / 變黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 滯 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
तिमिर
timira
烏 / 冥 / 幽暗 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
तिमिस
timisa
烏 / 冥 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /

黑夜
hēi yè
निसा
nisā
入夜 / 夜 / 夜幕 / 夜晚 / 夜游 / 夜行 / 宵 / 宿 / 整夜 / 晚 / 晚上 / 晦 / 每晚 / 黃昏 / 黑夜 /

黑暗
hēi àn
अन्धकार
andhakāra
困惑 / 迷亂 / 黑 / 黑暗 /
कण्ह
kaṇha
烏 / 冥 / 變黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 滯 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
काळ
kāḷa
烏 / 冥 / 變黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 滯 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
तम
tama
不知 / 幽暗 / 无知 / 無知 / 黑 / 黑暗 /
तिमिर
timira
烏 / 冥 / 幽暗 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
तिमिस
timisa
烏 / 冥 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /

黑暗的
hēi àn de
कण्ह
kaṇha
烏 / 冥 / 變黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 滯 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
काळ
kāḷa
烏 / 冥 / 變黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 滯 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
तिमिर
timira
烏 / 冥 / 幽暗 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
तिमिस
timisa
烏 / 冥 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /

黝
yōu
कण्ह
kaṇha
烏 / 冥 / 變黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 滯 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
काळ
kāḷa
烏 / 冥 / 變黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 滯 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
काळक
kāḷaka
變黑 / 污点 / 污點 / 滯 / 玄 / 皂 / 黎 / 黑 / 黑的 / 黑色 / 黝 /

黑的
hēi de
कण्ह
kaṇha
烏 / 冥 / 變黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 滯 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
काळ
kāḷa
烏 / 冥 / 變黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 滯 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
काळक
kāḷaka
變黑 / 污点 / 污點 / 滯 / 玄 / 皂 / 黎 / 黑 / 黑的 / 黑色 / 黝 /

黑色
hēi sè
कण्ह
kaṇha
烏 / 冥 / 變黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 滯 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
काळ
kāḷa
烏 / 冥 / 變黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 滯 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
काळक
kāḷaka
變黑 / 污点 / 污點 / 滯 / 玄 / 皂 / 黎 / 黑 / 黑的 / 黑色 / 黝 /

默念
mò niàn
झान
jhāna
冥想 / 打坐 / 沈思 / 沉思 / 默念 /
默默地
mò mò dì
तुम्ही
tuṃhī
沈默的 / 靜 / 默默地 /

黝
yōu
कण्ह
kaṇha
烏 / 冥 / 變黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 滯 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
काळ
kāḷa
烏 / 冥 / 變黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 滯 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
काळक
kāḷaka
變黑 / 污点 / 污點 / 滯 / 玄 / 皂 / 黎 / 黑 / 黑的 / 黑色 / 黝 /

黝黑
yōu hēi
कण्ह
kaṇha
烏 / 冥 / 變黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 惡 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 滯 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
काळ
kāḷa
烏 / 冥 / 變黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 滯 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
तिमिर
timira
烏 / 冥 / 幽暗 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
तिमिस
timisa
烏 / 冥 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /

點
diǎn
कोटि
koṭi
下場 / 告終 / 完結 / 完結 / 底 / 指出 / 月底 / 月末 / 末 / 末尾 / 末端 / 止境 / 点 / 盡頭 / 端 / 端上 / 終 / 終結 / 終點 / 結束 / 终 / 终结 / 结束 / 道 / 點 /
बिन्दु
bindu
瑣事 / 點 /

點兒
diǎn r
किञ्चन
kiñcana
某事 / 某物 / 點兒 /
किञ्चि
kiñci
某事 / 某物 / 點兒 /

點子
diǎn zi
गाह
gāha
主意 / 念頭 / 思想 / 想法 / 意念 / 意見 / 捕獲 / 構想 / 理念 / 理想 / 表象 / 點子 /

點燃

diǎn rán

उज्जोत
ujjota
光彩 / 點燃 /

黧
lí
कण्ह
kaṇha
乌 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 恶 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 濫 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
काळ
kāla
乌 / 冥 / 变黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 濫 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
तिमिर
timira
乌 / 冥 / 幽暗 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
तिमिस
timisa
乌 / 冥 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /

黨
dǎng
पक्ख
pakkha
一方 / 側 / 信徒 / 側 / 党 / 半邊 / 幫派 / 旁边 / 旁邊 / 派 / 派對 / 派系 / 當事人 / 羽翼 / 翅 / 翅膀 / 翼 / 跛子 / 边 / 黨 /

黯
àn
कण्ह
kaṇha
乌 / 冥 / 变黑 / 奸 / 姦 / 孽 / 恶 / 惡 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 濫 / 烏 / 玄 / 皂 / 邪 / 邪惡 / 邪惡的 / 邪惡 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
काळ
kāla
乌 / 冥 / 变黑 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 濫 / 烏 / 玄 / 皂 / 陰暗 / 黎 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黑的 / 黑色 / 黝 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
तिमिर
timira
乌 / 冥 / 幽暗 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /
तिमिस
timisa
乌 / 冥 / 摸黑 / 晦 / 暗 / 暗的 / 暝 / 烏 / 陰暗 / 黑 / 黑乎乎 / 黑暗 / 黑暗的 / 黝黑 / 黧 / 黯 /

鼓
gǔ
दुन्दुभि
dundubhi
大鼓 / 滾筒 / 鼓 /
भरि
bheri
大鼓 / 打鼓 / 滾筒 / 鼓 /

鼓動
gǔ dòng
उद्योजन
uyyojana
鼓勵
gǔ lì
उपत्थम्भ
upatthambha
供養 / 撐 / 撐腰 / 撐 / 支持 / 支持者 / 支援 / 支撐 / 維持 / 鼓勵 /

鼠
shǔ
आखु
ākhu
叛徒 / 告密者 / 捕鼠 / 老鼠 / 耗子 / 鼠 / 鼯 /
उन्दुर
undura
叛徒 / 告密者 / 捕鼠 / 老鼠 / 鼠 /
उन्दूर
undūra
叛徒 / 告密者 / 捕鼠 / 老鼠 / 鼠 /

鼯
xī
आखु
ākhu
叛徒 / 告密者 / 捕鼠 / 老鼠 / 耗子 / 鼠 / 鼯 /

鼻
bí
घाण
ghāṇa
嗅到 / 嗅覺 / 鼻 / 鼻子 /
नय्हु
natthu
嗅到 / 嗅覺 / 鼻 / 鼻子 /
नासा
nāsā
嗅到 / 嗅覺 / 鼻 / 鼻子 /
नासिका
nāsikā
嗅到 / 嗅覺 / 鼻 / 鼻子 /

鼻子
bí zi
घाण
ghāṇa
嗅到 / 嗅覺 / 鼻 / 鼻子 /
नय्हु
natthu
嗅到 / 嗅覺 / 鼻 / 鼻子 /
नासा
nāsā
嗅到 / 嗅覺 / 鼻 / 鼻子 /
नासिका
nāsikā
嗅到 / 嗅覺 / 鼻 / 鼻子 /

鼻息
bí xī
पाण
pāṇa
一口气 / 一口氣 / 世 / 人命 / 人生 / 呼吸 / 命 / 壽命 / 性命 / 息 / 氣息 / 身 / 生命 / 生平 / 生活 / 生物 / 身 / 鼻息 / 鼻息 /
पाण
pāṇa
一口气 / 一口氣 / 世 / 人命 / 人生 / 呼吸 / 命 / 壽命 / 性命 / 息 / 氣息 / 身 / 生命 / 生平 / 生活 / 生物 / 身 / 鼻息 / 鼻息 /

齊
qí
एकज्जं
ekajjhaṃ
一同 / 一塊兒 / 一起 / 一齊 / 全 / 共同 / 到一起 / 在一起 / 相聚 / 結伴 / 齊 / 齐 /

齐
qí
एकज्जं
ekajjhaṃ
一同 / 一塊兒 / 一起 / 一齊 / 全 / 共同 / 到一起 / 在一起 / 相聚 / 結伴 / 齊 / 齐 /

齒
chǐ
दन्त
danta
尖牙 / 牙 / 牙齒 / 牙齿 / 觚 / 芳 / 齒 / 齿 /
दिवज
dvija
牙 / 牙齒 / 牙齿 / 雀 / 鳥 / 鸟 / 齒 / 齿 /
दसन
dasana
牙 / 牙齒 / 牙齿 / 齒 / 齿 /

齿
chǐ
दन्त
danta
尖牙 / 牙 / 牙齒 / 牙齿 / 觚 / 芳 / 齒 / 齿 /
दिवज
dvija
牙 / 牙齒 / 牙齿 / 雀 / 鳥 / 鸟 / 齒 / 齿 /
दसन
dasana
牙 / 牙齒 / 牙齿 / 齒 / 齿 /

齡
líng
आयु
āyu
代 / 壽命 / 年代 / 年岁 / 年纪 / 年老 / 年齡 / 年齡 / 时代 / 歲數 / 變老 / 齡 /

龐
páng
अतिमहन्त
atimahanta
巨 / 巨大 / 巨大的 / 庞 / 庞大 / 庞大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 / 過大 / 鉅 / 龐 / 龐大 /
龐大
páng dà
अतिमहन्त
atimahanta
巨 / 巨大 / 巨大的 / 庞 / 庞大 / 庞大的 / 廣大 / 昊 / 浩大 / 浩瀚 / 滂 / 茫 / 茫茫 / 過大 / 鉅 / 龐 / 龐大 /

龜
guī
कच्छप
kacchapa
海龟 / 鳖 / 龜 / 龟 /
कुम्म
kumma

龟
guī
कच्छप
kacchapa
海龟 / 鳖 / 龜 / 龟 /